

लाल बहादुर  
L.B.S. Nati-

GL H 615.536  
CHA V 1



125794  
BSNAA

MUSSOORIE

पुस्तकालय  
LIBRARY

अकादमी  
stration

अवाप्ति संख्या  
Accession No.

13.3.1.12

14071

वर्ग संख्या  
Class No.

4

615.536

पुस्तक संख्या  
Book No.

पुस्तक 214071



ॐ श्रीः ॐ

महर्षि अग्निवेश प्रणीत

# चरक-संहिता

चरक और दृढ़वल से प्रतिसंस्कृत

( हिन्दी अनुवाद )

सूत्र-निदान-विद्यानात्मक

प्रथम खण्ड

अनुवादक—

कविराज श्री अत्रिदेवजी गुप्त,

विद्यालंकार, भिष्मग्रन्थ

( युद्धकृत विद्यालय )

प्रकाशक—

भाग्य पुस्तकालय, गायघाट, वनारस ।

त्राच—कच्छीड़ीगली, वनारस ।

द्वितीय संस्करण ] रर्बाषिकार स्वरक्षित [ मूल्य १२)



## दो शब्द

श्रीचरकसंहिता आयुर्वेद में एक सर्वमान्य पुस्तक है। इसका पठन पाठन आयुर्वेद के विद्यार्थि के लिये अति आवश्यक है। वास्तवमें चरकसंहिता का तथा दूसरे ग्रन्थों का स्पष्टीकरण जितना पढ़ने में होता है, उतना पढ़ने के समय नहीं होता। यही कारण है कि आयुर्वेद सम्प्रदाय के मुख्य आचार्य श्री गंगाधर जी कविराज, श्री योगीन्द्रनाथ सेन जी श्रीचरकसंहिता पर जल्पकल्पत्रु और चरकोपस्कार टीकायें लिखकर आयुर्वेद के प्रेमियों का बहुत उपकार किया। इनमें चरकोपस्कारभाष्य तो विद्यार्थियों के लिये बहुत ही उत्तम और लाभ दायक है। पढ़ते समय विद्यार्थी की मनोवृत्ति बहुत ही विचित्र रहती है; खास दर आजकल के आयुर्वेद कोलेज की जीवन में; जब कि उसको पाश्चात्य विद्या भी सत्तर प्रतिशत सीखनी होती है। ऐसी अवस्था में तो वह उत्तीर्ण, होकर उपाधि ही प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसमें कोई दो चार अपवाद भी होते हैं। यह दृष्टि हमारे यहाँ ही हो—यह यात नहीं; पाश्चात्य देशों में भी इसका—मनुष्य धर्म के स्वभाव के अनुसार परिचय मिलता है। इसके लिये संक्षिप्त प्रकाशन, या सारांश रूप में उत्तके छोटी-छोटी प्रकाशित की जाती है। यह पुस्तकें सस्ती, छोटी तथा आवश्यक सब विषयों से पूर्ण रहती हैं। इनमें विद्यार्थी को जहाँ आर्थिक भार से बचत होती है वहाँ ब्रेनी में सुना सब विषय समझने में सरलता रहती है।

इसी कारण से या अन्य कारणों से बंगला में, मराठी में या तेलगु में जो भी अनुवाद चरकसंहिता या दूसरे आयुर्वेद ग्रन्थोंके हुए हैं, वे सत्ते, तथा मूल के साथ साथ अनुवाद रूप में ही हैं। उनको स्पष्ट करने के लिये किसी भी अवांचीन रूप की सहायता नहाँ ली गई और इन ग्रन्थों के पढ़ने से सफल वेद बने हैं, ऐसा हमारे देखने में भी है।

मेरी अपनी मान्यता यह है कि आयुर्वेद के विचारों को आयुर्वेद के ही दृष्टि कोण से देखा या समझा जा सकता है; और इन्हीं के दृष्टि कोण से देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिये। इस अवांचीन चिकित्साशास्त्र से हमारे ज्ञान का समन्वय सिद्धान्तों में हो ही नहीं सकता। दोनों पद्धतियाँ भिन्न हैं, और भिन्न रहेंगी यह कोई आवश्यक नहीं कि दोनों को एक किया जाय। होम्योपैथ अपनी पद्धति का ऐलोपेथी के साथ गोट-जोड़ा नहीं करता। ‘आयुर्वेद’

शब्द और 'एलोपैथी' ये दोनों शब्द ही मिलते हैं, और इनके अर्थों में तो जमीन और आसमान का अन्तर है। इतनाही नहीं अपितु छच्चीस का सम्बन्ध है। किरदानों कैसे एक हो सकते हैं। इसलिये इस प्रकार को मिलाकर पुस्तकें लिखना-प्राचीन ग्रन्थों के प्रति न्याय में नहीं समझता। नाथ ही आधुनिक विज्ञान प्रति दिन उन्नति पर है, आज से पच्चीस साल के पहले के सिद्धान्त-आज वहुत कुछ बदल गये; आज के सिद्धान्त-कल नहीं बदलेंगे यह कोई नहीं कह सकता। ऐसा अवस्था में इन पुस्तकों में केवल अग्रेजी पुस्तकों का उल्था देना युक्तिसंगत मैं नहीं समझता।

इन सब बारों का विचार करके मैंने आयुर्वेद के दृष्टिकोण का विचार करते हुए विद्यार्थियों की हाइसे, उनका रुचि के अनुसार यह अनुवाद किया है। यह अनुवाद आज से बास साल पहले का है, इस संस्करण में भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकता। क्वाल के संस्करण वहुत दिनों से समाप्त था विद्यार्थियों की मांग थी। इसलिये इसका प्रकाशन करना जल्दी थी। प्रथम प्रकाशक श्री आद्यसाहित्य मण्डल लिमिटेड थार्मर बालों को कई बार इसके लिये कहा-परन्तु लड़ाई के कारण तथा अन्य असुविधा के कारण वे इसका प्रकाशन नहीं कर सके। कानून के अनुसार पच्चिशर बनने का या पटिला करने का सबका अधिकार नहीं। इसके सिवाय कागज की असुविधा। इसलिये पुझे किसी ऐसे पच्चिशर की इच्छा भी जो इस समय इन असुविधाओं में भी इसका प्रकाशन शीघ्र कर दे। श्रीकलालनाथजी भार्या अमर मालिक भागवत पुस्तकालय काली बाल से पत्र व्यवहार हुआ। और अब तो उन्होंने इसको छापना भी स्वीकार किया जिसका फल यह है कि इस समय में कागज कम्पोजिटर आदि की कठिनाई हाने हुए भी वह छप सका। इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। अग्रिम संस्करण में सम्भव हुआ तो इसकी पुनरावृत्ति हो सकेगी।

आशा है कि जिस प्रकार वैद्य समाज ने, विद्यार्थियों ने इसकी पहला संस्करण अपनाया था उसी प्रकार इसका यह भी दूसरा संस्करण अपनायेंगे।

इति श्रम्

# चारक-संहिता

## विषय-सूची

### मुख्यस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ( पृ० १-८६ )

**दीर्घज्ञीवितीयः**—कृषिभरद्वाज का हन्द्र के पास गमत । रोगों का प्रायुर्वेद । अधियों को यज्ञा । रोग शान्ति के उत्ताप पर विवार । हन्द्र के पास जाने के लिये भरद्वाज का निश्चय भरद्वाज का हन्द्र से विश्वामित्र आयुर्वेद का व्रतण । भरद्वाज से अधियों का आयुर्वेद-अध्ययन । आश्रय तुनर्वेदु का छः गिरियों को उपदेश । प्रथम तन्त्र-प्रणेता अविनवेद । भेद आदि अन्य तन्त्रकार । अनुबोद का लक्षण । अनु का लक्षण आयु के पद्यवदार्च गद्व रामान्य और विशेष । आयुर्वेद के प्रकाश उनके का प्रयोजन । इत्य । युण । हन्द्रियों के अये । कर्म । सद-वाय । इत्य का लक्षण । गृहों का लक्षण । कर्म का लक्षण । सदासन्य आदि छः पारण उनके कार्ये आद्यों के विषम होने का कारण । सुख दुःखों का आप्रय आमा का स्वरूप । रोगप्रहृति रोगों का प्रतीकार और उनके भेद । वायु का लक्षण पित्त का लक्षण कफ का लक्षण । साध्य रोगों की शान्ति

रोगों की उपतिः । रसों द्वारा दोषों का नाशन द्रव्य के भेद जंगम द्रव्य भौम द्रव्य । ऊद्दिनि द्रव्य के चार भेद उनके अंग । मूलिनी वनस्पतियाँ उनकी गगता इनके कर्म । फलिनी वनस्पतियाँ इनके कर्म । चार प्रकार के स्त्रेह इनके कर्म आठ प्रकार के सूत्र । नद्रों के नाशन्य युग । आठ प्रकार के दूष उनके सामान्य युग । दूष के कर्म । दूष वाले चुक्ष उनके युग । उपनिदार । शैयाधि ज्ञात का प्रयोजन, त जाती हुई धोपारियों से हानियाँ । वैद्य के कर्तव्य । अध्याय संग्रह ।

**द्वितीयोऽध्यायः ( पृ० ८८-१७ )**

**आपानांगेतण्डुर्क्षीयः**—तिरोवि-विचारोपयोगी द्रव्य । यमनकारक द्रव्य । विरेचन द्रव्य । आम्यापन और अनु-दानन के द्रव्य । मात्रा और काल के विचार को आवश्यकता । रोगियों के लिये विशेष आहार द्रव्य, यवागू और विलेपीपाक । उपसंहार ।

**तृतीयोऽध्यायः ( पृ० १७-४५ )**

**आरग्वधीयः**—खक्-रोगोंपर ३२ योगों का वर्णन

**चतुर्थोऽध्यायः ( पृ० ४५-६२ )**

षट्खिरेचनशताश्रितीयः—विरेचन का शब्दर्थ संशमन चिकित्सा । विरेचन के छः सौ योग विरेचन ओषधियों के ६ आश्रय कथाय की पांच योनियाँ । कथाय कल्पना की ५ विधि । कथायों के लक्षण । महाकथाय । ५०० कथायों की कल्पना । उत्तम वैद्य ।

**पञ्चमोऽध्यायः ( पृ० ४७-८२ )**

**मात्राशितीयः**—आहार की मात्रा आहार के चार प्रकार । मात्रा में खाने का फल । स्वस्थवृत्त । धूत्र प्रयोग की विधि । स्नैहिक धूम वैरेचनिक धूम । धूम्रपान के गुण । धूम्रपान के आठ काल । ठीक प्रकार से पान किये हुए धूम्रपान का लक्षण । अधिक धूम्रपानमेट त्पञ्च उपद्रव और उनकी चिकित्सा । धूम्रपान के अयोग्य जन । धूम धूने की विधि । धूम्रपान के आसन । नलिका की बनावट । अयोग्य रूप में पिये धूम के लक्षण । अतियोग के रूप में धूम्रपान के लक्षण । नस्य प्रयोग । अणु तैल की विधि । दन्तधावन की विधि । दातुन करने से लाभ । जीभ को साफ़ करने की विधि । दातुन के लिये उत्तम घृष्ण स्नेहगण्डूप के गुण । शिर पर तैल लगाने से लाभ । कान में तैल डालने से लाभ । शरीर पर तैल लगाने की विधि । पांच में तैल मदैन के गुण । उबटन लगाना । स्नान का फल । स्वच्छ वस्त्र पहिनने के गुण । गन्ध माला आदि धारण करने के गुण । इन, आभृ-

षण आदि धारण करने से लाभ । दीर्घायु के लिये आवश्यक शुचिकर्म । जूता पहिनने के गुण । दण्ड धारण के गुण । संक्षेप से स्वस्थवृत्त । उपसंहार ।

**षष्ठोऽध्यायः ( पृ० ८५-१४४ )**

**तस्याशितीयः**—भोजन पर आश्रित आदान और विसर्ग काल का वर्णन । दो अयन । हेमन्तकाल की परिचर्या । हेमन्त ऋतु में व्याज्य । वसन्त की ऋतुचर्याँ । श्रीष्मचत्रां-वर्षाकोल की ऋतुचर्याँ । शरदकाल की परिचर्या । हंसोदक का लक्षण । आंकःस्मार्य । उपसंहार ।

**सप्तमोऽध्यायः ( पृ० १४५-१०३ )**

**न वेगान्धारणीयः**—मल मूत्र आदि के न रोकने का उपदेश । उनके रोकने से हानियाँ और चिकित्सा । मन के निन्दित कार्य । वाणी के निन्दित कर्म-शरीर के निन्दित कर्म । व्यायाम से लाभ । अधिक व्यायाम से हानियाँ । हितकारी कार्यों के सदन का क्रम । प्रकृति । तदनुसार हित सेवन का उपदेश-कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचने के उपाय । आगन्तुज रोगों के प्रतिकार । सेवन करने योग्य मनुष्य । उपसंहार ।

**अष्टमोऽध्यायः ( पृ० १०३-११६ )**

**इन्द्रियोपकर्मणीयः**—इन्द्रिय और उनके अर्थ और मन का वर्णन । पांच इन्द्रिय, उनके ग्राह्य पांच द्रव्य । उनके पांच ग्राह्य अर्थ । अध्यात्म गुण । द्रव्याश्रित कर्म । इन्द्रिय और उनके साथ

ग्राहा चिपयों के समयोग, अयोग, हीन-योग मिथ्यायोग और अतियोग । उनके परिणाम । सद्वृत्त शिक्षा । भोजन विषयक सद्वृत्त । शौचसद्वृत्त । चिपयों के महयोग में सद्वृत्त । गुरुजनों के प्रति सद्वृत्त । अध्ययन के सम्बन्ध में सद्वृत्त । शिष्टाचार । इति न्वस्थचतुष्कः । नवमोऽध्यायः ( पृ० ११६-१२३ )

खुड़ाउकथतुष्पादः—चिकित्सा के क्षुद्र चार चरण । चिकित्सा का लक्षण । वैद्य के गुण । द्रव्य के गुण । परिचारक के गुण-रोगी के गुण । चिकित्सा के मुख्य कारण-वैद्य । भूद-वैद्य-उपके दोष । उपसंहार ।

दशमोऽध्यायः ( पृ० १२३-१३० )

महाचतुष्पादः—चिकित्सा का प्रयोजन । चिकित्सा करने और न करने पर विचार-मैत्रेय-आद्रेय संवाद । चिकित्सा का प्रत्यक्ष सफलता । रोगों के साध्यासाध्य पर विचार । सुख-साध्य-छुच्छसाध्य । साध्य व्याख्यियों के तीन भेद । असाध्य आरथाप्य रोग । सुखसाध्य व्याख्यि के लक्षण । याप्य व्याख्यि के लक्षण । असाध्य व्याख्यि के लक्षण । वैद्य का कर्तव्य । उपसंहार । एकादशोऽध्यायः ( पृ० १३०-१४८ )

त्रिसंबणीयः—तीन एषणाभोंका बणेन । प्राणेषण, धनेषण, परलोकेषण । नास्तिकता पर विचार-परलोक और आत्मा की सत्ता पर विचार । नास्तिक मतों का खण्डन । सत्, असत्,

का चार प्रकार की परीक्षा । आस्तों के लक्षण । आसोपदेश-प्रत्यक्ष अनुमान-युक्ति । इन के द्वारा पुनर्जन्म का निर्णय । आसागम-वेद का निर्णय । प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति इन के द्वारा निर्णय । तीन प्रकार के उपस्तम्भ । तीन प्रकार का बल-रोग के तीन आयतन-पांचों ज्ञानेन्द्रिय और मन के अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग । साम्य-असाम्येन्द्रियार्थसंबंधोग । मिथ्यायोग—प्रज्ञापराध । काल—काल के अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग । काल परिणाम । रोग के तीन प्रकार । मानस रोगों की आपाद्य । तीन रोगमार्ग—शास्त्रा ममेस्थ और कोष । सात रोगमार्ग । मध्यम रोगमार्ग । आभ्यन्तर रोगमार्ग । भिषक् वैद्य के तीन प्रकार । उद्भवचर वैद्य का लक्षण । सिद्ध साधित वैद्य—सद्-वैद्य के लक्षण । औपाद के तीन प्रकार—द्रव्यप्राश्रय, युक्तिव्य-प्राप्त्य और स्वावजय । आपाद के तीन प्रकार—अन्तःपरिमाजन-वहिःपरिमाजन, शख्षप्रणियान । संप्रह ।

द्वादशोऽध्यायः ( पृ० १४८-१५५ )

वातकलाकलीयः—वायु के अंशांश-विकल्पना पर विचार । सांकृत्यायन कुश का मत । कुमारशिरा भारद्वाज का मत । कांकायन का मत । धामार्गद बिंदिश का मत । वायोविद्मरीचिंसंवाद । मरीचिका मत । वायोविद्मरीचिंसंवाद । मरीचि-काप्य संवाद । पुनर्वसु आत्रेय का मत । उपसंहार ।

**त्रयोदशोऽध्यायः** (पृ० १५८-१७२)

**स्नेहाध्यायः**—अग्निवेश का प्रश्न उनवंशु का प्रतिवचन । स्नेहों के दो प्रकार के उत्पत्तिस्थान—स्थावर और जंगम । मध्य तैलों में सर्वथ्रैष्ट तिल नील और स्नेहों में पुन । स्नेहों के गुण स्नेहपान गुण—उत्ससे हानियाँ । स्नेह की २४ प्रकार की प्रविचारणाएँ । स्नेह की तीन मात्रा प्रधान, मध्यम, दूसर । कोदन्ता स्नेह किसके लिये हितकारी । स्नेह के अद्योत्तम व्यक्ति । रितिरथ, अस्तिरथ, अति स्तिर्निधि के लक्षण । स्नेहन कालमें हिताहित : उपसंहार ।

**चतुर्दशोऽध्यायः** (पृ० १७३-१८१)

**स्वेदाध्यायः**—स्वेदविधि । स्वेदन, मध्यदेन के गुण—उपयोगिता—उनके परिणाम । स्वेदन की अवधि—अतिन्देन के लक्षण और उपचार । मध्यदेन रेते योग्य व्यक्ति । स्वेद-योग्य व्यक्ति । स्वेदन इज्ज्व । नाईस्वेद । उपनाहविधि । लंकरस्वेद । प्रस्तरस्वेद । नाईस्वेद । परियेकस्वेद । अपराह्नस्वेद जन्मताकस्वेद । अस्मान्तरस्वेददिविदि । कर्पू-स्वेद । कुर्दीस्वेदविधि । भूम्लेदविधि । कुम्भीस्वेदविधि । कूपस्वेद । होलाक-स्वेद । अग्निरहित स्वेद । स्वेदके दो प्रकार, अग्निस्वेद, लिरभिन्न-हनके भेद । उपसंहार ।

**पञ्चदशोऽध्यायः** (पृ० १८५-१९१)

**उपकल्पनीयः**—चिकित्सा के पूर्व उचित साधनों के संग्रह का प्रयोजन । आशुर्वेद के ज्ञान-ज्ञान की तुलना-

उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संग्रह । स्नेहन, स्वेदन की विधि । वमन के अयोग, सम्यक् योग और अतियोग के विवेष लक्षण । उत्तर उपचार-उपसंहार ।

**पोङ्कशोऽध्यायः** (पृ० १९२-२००)

**चिकित्साप्राभृतीयः**—सद् बैच्य और भस्त्रद् बैच्य के प्रयोगों में भेद । सम्यग् विरेचन के लक्षण । विरेचने के अतियोग के लक्षण । मंगोधन योग्य व्यक्ति । लंगोधन या फल, अतियोग होने पर क्याम करना, चार्डिये । आतुओं की समता और विद्यमता द्वारा विचार । उपचार ।

**सप्तदशोऽध्यायः** (पृ० २०१-२०९)

**क्षयन्तःस्फारस्यायः**—गिरोरोग, हृदयरोग, वात आदि दोषों के संसर्गों से उत्पन्न रोग हृष्ण-आर्शन-पिंडका और दोषों की नाना विकारों से यम्बन्ध में प्रविनिवेश का प्रश्न । युर आवय एवं दूसरों का ग्रन्थिपचार । ऊर में उत्पन्न होने वाले पांच प्रकार के लिरोरोग । दानजन्य शिरो-योग के लक्षण । रितजन्य, कफजन्य और त्रिदोषजन्य शिरोरोग के लक्षण । पांच प्रकार के हृदय रोग । दानजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, और त्रिदोषजन्य हृदयशूल के लक्षण । कुमिजन्य हृदयरोग के लक्षण । वात आदि दोषों के संसर्ग से उत्पन्न विकारों के ६२ भेद । दोषों के उपद्रव । अट्टारह प्रकारके क्षय । ओज का स्वरूप । क्षय के कारण ।

मधुमेह के कारण । सात पिंडकाएं । विद्धि, पिङ्का । विद्धि का निदान स्राव के लक्षण । साध्य-असाध्य विद्धि के लक्षण । भेद के दोष से उच्चत्र पिङ्का—शराविका, कन्धपिका, जालिनी । मर्पिणी, अलजी, विनता आदि—इनके उपचय दोषों की तीन प्रकार की गति । तीन प्रकार की और गति, संचय, प्रकोप और शमन—संचय के दो भेद—प्राकृत और वैकृत । उपसंहार ।  
अष्टादशोऽध्यायः (पृ० २३१-२३२)

त्रिग्रीथीयः—तीन प्रकार का गोथ (सूजन) —उसके एुनः दो प्रकार निज और आगन्तु । आगन्तु गोथ का निदान—चिकित्सा । निज शोथ के कारण और सामान्य लक्षण । वातजन्य गोफ के लक्षण । गोथ के दो, तीन, चार, और सात प्रकार । वात, चित्त, कफ और व्यनियोग आदि से उच्चत्र दोषों के लक्षण । कषसाध्य दोथ । दोथ के उपचय । उदविद्धिलः, गलतुगिडिका, गलगण्ड, गलबह, विसर्प, पिञ्जका और शंखक के लक्षण । गुलम, घटन, उदर, आगाह, का लक्षण । रंगिणी रोग, । सूकु, दाहण भेद से साध्य-असाध्य रोग के लक्षण । पीड़ा, बर्ण, लस्तुर्यान, कारण, स्थान, संस्थान नाम भेद आदि के कारण रोग के असंख्य भेद । दोषों के प्राकृत और विकृत के लक्षण । उपसंहार । उनविंशोऽध्यायः (पृ० २३१-२३७)

अष्टादरीयः—उदर रोग आदि ४८ प्रकार के रोगों की गणना और

उनके भेदों के नाम से निदेश । आठ प्रकार के उदर रोग । सात प्रकार के कुण्ठ । छः प्रकार के अर्तीसार । पांच प्रकार के गुलम । चार प्रकार का अपस्मार । तीन प्रकार का शोथ । दो प्रकार का उदर । दो प्रकार के व्रण—दो आयाम—दो प्रकार की शूभ्रती—दो प्रकार का कामला—दो प्रकारका आम दो प्रकार का वातरन्क—एक प्रकार का उदलनम्—एक प्रकार का संन्यास—एक प्रवर्ग का सहागद । दीन प्रकारकी लिङ्ग जातिश्च—बीस प्रकार के प्रसेह—बीस प्रकार के योनिरोग । उपसंहार । दिंशोऽध्यायः (पृ० २३७-२४६)

महारोगाः—चार प्रकार के रोग, हनकी समानता, लिंग और अस्थितन भेद से असंख्य रोग—उसका भेदक वारण । दो प्रकारके विकार—नामन्त्र और नानामज । अस्ती इकार के यात्र-विश्वार । चालीस विकाराः । उनके लक्षण । बीस कफजन्य रोग । उनके लक्षण । उपसंहार ।

एकविंशोऽध्यायः (पृ० २४६-२५५)

जष्टीनिन्दितोयः—आठ निन्दित पुरुष । दिवोप रूप से निन्दित दो, जल्ति-स्थूल और अतिलुग स्थूल पुरुष के दोष, कारण और लक्षण । अतिलुग के दोष, कारण और लक्षण । आदर्श पुरुष । स्थूल को कुशा बनाने के लिये उपाय । कुशा रोग की चिकित्सा । निद्रा के उचित सेवन से लाभ । दिन में सोने के योग्य व्यक्ति,

उनको दिन में सोने से लाभ । दिन में सोने का उचित काल-ग्रीष्म ऋतु-अन्य ऋतु और में दिन में सोने से हानियाँ । रात्रिजागरण के दोष । निद्रापादक उपाय । अनुचित निद्रा की रोकने के उपाय । उपसंहार ।

**द्वार्ताविशितितमोऽध्यायः:** (पृ० २५६-२६१)

**लंघनवृहणीयः:**—वैद्य का लक्षण लंघन, वृहण, स्वेहन, स्वंभन के सम्बन्ध में अविवेश का प्रश्न । आत्रेय पुनर्वसु का प्रतिवचन । लंघन, वृहण, स्वेहन, स्वंभन के लक्षण । लंघन, वृहण आदि कारक द्रव्यों के कारण । लंघन के योग्य व्यक्ति । वृहण के योग्य द्रव्य और व्यक्ति । विस्क्षण करने योग्य व्यक्ति और द्रव्य । स्वंभन द्रव्य और स्वंभन योग्य व्यक्ति । सम्यक् लंघन और लंघन के अतियोग के लक्षण । सम्यक् वृहण और वृहणके अतियोग के लक्षण । स्क्षण के सम्यक्योग और अतियोग । स्वंभन के सम्यक्योग और अतियोग के लक्षण । लंघन आदि छः क्रियाओं के अयोग, हीनयोग के दुष्परिणाम ।

**त्रयाविशितितमोऽध्यायः:** पृ० २६०-२६६

**सन्तर्पणीयः:**—सन्तर्पणजन्य रोग के कारण । रोगों के लक्षण—उनकी चिकित्सा । अपतर्पण और तजन्य रोग—उनका उपशमन ।

**चतुर्विशितितमोऽध्यायः:** पृ० २६७-२७३

**विधिशोणितीयः:**—विशुद्ध रक्त का लाभ । रक्त दूषित होने के कारण

और लक्षण । चिकित्सा । विशुद्ध रक्त का लक्षण । विशुद्ध रक्त वाले पुरुष का लक्षण । मद के लक्षण । सूचर्छा के लक्षण । अपस्मार और मन्त्राल के लक्षण । इन के उपाय । उपसंहार ।

**पञ्चविशितितमोऽध्यायः:** पृ० २७५-२८१

**यज्ञःपुरुषीयः:**—पुरुष और रोग की उत्पत्ति पर व्यक्तियों का संबाद । पारीक्षि मौद्रिगल्य का मत पुरुष और रोगों का उपादान कारण ‘आमा’ है । शरलोमा का मत पुरुष और रोगों का उत्पादन ‘सत्त्व’ है । वार्योत्तिद का मत प्राणियों और रोगों का उत्पत्ति मूल ‘रस’ है । कुमिक हिरण्याक्ष का मत पुरुष और रोग ६ थातुओं से उत्पन्न होते हैं । शैनक का मत रोगों की उत्पत्ति मात्रा पिता से हुई । भद्रकाप्य का मत कर्म से पुरुष और रोग उत्पन्न होते हैं । भरद्वाज का मत कर्त्ता से स्वभावतः पुरुष और रोग उत्पन्न होते हैं । कांक्षायन का मत मुख दुःख, चेतन अव्यवहार का कर्त्ता प्रजापति हैं । आत्रेय भिक्षु का मत पुरुष और रोगादि काल से उत्पन्न होते हैं पुनर्वसु आत्रेय का सिद्धान्त पञ्च महाभूतों से पुरुष और उनसे ही रोग उत्पन्न हुए । इस पर पुरुषों और रोगों की वृद्धि के कारण के विषय में काशिपतिवामक का प्रश्न । भगवान् आत्रेय का प्रतिवचन हिताहित सेवन । अग्निवेदा आत्रेय संबाद हित अहित का लक्षण । आहार द्रव्य पर विचार । हित आहार ।

अहित आहार । हित और अहित उपयोगी द्रव्य । श्रेष्ठ द्रव्य । श्रेष्ठ का लक्षण । द्रव्यों के नाँ उत्पत्ति स्थान । उपयोगार !

पद्मविंशोऽध्यायः ( पृ० ८६१-८७८ )

आत्रेयभद्रकाण्ड्योः—ऋग्वे  
यंवाद । रस के विषय में भद्रकाण्ड्य का  
मत रस एक है वाह्यण शाकुन्तले का  
मत रस दो हैं पूर्णाक्ष मंडूगल्य का मत  
रस तीन हैं हिरण्याक्ष कौशिक का मत  
रस चार होने हैं कुमारशिंश भरद्वाज  
का मत रस पांच हैं । चार्याविद का  
मत रस छः हैं वैदेह निमि का मत  
रस सात हैं धामागंव वृडिश का मत  
रस आठ हैं बालहीक निष्क कांकायन  
का मत रस अग्नित हैं । उन्नर्वमु  
आत्रेय का मत रस छः हैं रसों की  
उत्पत्ति, कर्म, रुचि और प्रभाव । रस  
विवेचन । द्रव्यों के भेद उनके कर्म ।  
कर्म, वीर्य, काल, अधिकरण, उपाय,  
तथा फल के लक्षण । द्रव्य, देश,  
काल, प्रभाव से द्रव्यों के ६३ भेद ।  
रसों के भेद, दो दो रस के ११ भेद ।  
तीन २ रसों के थीस भेद । चार चार  
रसों के १३ भेद । पांच २ रसों के छः  
भेद । एक २ रस के छः भेद, सर्वयोग  
६३ रस । वैद्यप्रशंसा । अनुस ।  
अतिरिक्त दश गुण । इनके लक्षण ।  
रसों की उत्पत्ति । रसों के अनुज्ञार  
द्रव्यों के गुण कर्म । मधुर रस । अस्तु  
रस । लवण रस । बहुत उपयोग से  
हानियां । कटु रस के गुण अति सेवन

से हानियां । लिक्ख रस के गुण उसके  
अति सेवन से हानियां । कवाय रस के  
गुण और उसके अति सेवन से हानियां ।  
रमानुसारी द्रव्यों का वीर्य । रसों में  
तर-तस्योग । विपाक । पदार्थों के  
वीर्य & प्रकार के । विपाक का लक्षण,  
प्रभाव । छः रसों के लक्षण । विरोधी  
आहारों के लक्षण उनके गुण दोष  
हिन्दकरी अन्न । कालविरुद्ध, देशविरुद्ध  
अंडिविरोधी, परस्परविरोधी, सात्य-  
विरोधी, दोषविरोधी, संस्कारविरुद्ध,  
वीचविरोधी, कोष्टविरोधी, अवस्थाविरुद्ध  
क्रमविरुद्ध, परिहारविरोधी, पाकविरोधी,  
संयोगविरोधी, सम्पदविरुद्ध, और शास्त्र-  
विरुद्ध आहारों का वर्णन । विरोधी  
अक्ष सेवन सं रसों की उत्पत्ति । वरुद्ध  
अन्न सेवन से उत्पन्न रोगों का प्रति-  
कार । उपसंहार ।

सप्तविंशोऽध्यायः ( पृ० ३६२-३७४ )  
अन्नपानविधिः—प्राणरूप अन्न का  
स्वरूप । प्राणों का मूल जातराज्ञि अन्न  
इन्धन-अन्नपान विधि का विस्तार से  
वर्णन । जल, क्षार, घृत, दूध, मद्य,  
सिरका, फाणित, पिण्याक, दलें, मधु  
आदि के सामान्य गुण दोष । आहार  
पदार्थों के १२ वर्ग शाक्यान्यवर्ग ।  
शर्मीधान्यवर्ग । मांसवर्ग । विलेशय  
वारिसय जलचर जंगलीसूख विकिर  
प्रतुद प्रसह और आनूप ये मांस के  
भाऊ उत्पत्ति स्थान । इन मांसों के  
गुण । शाकवर्ग । फलवर्ग । हरितवर्ग ।  
मध्यवर्ग । जलवर्ग । दुग्धवर्ग । इक्षु-

वर्ग । हृतान्नवर्ग । आहारयोनिवर्ग । प्रशस्त धान्य । त्यज्य सांस । त्याज्य शाक । अनुपान । उनके गुण । जल के अनुपान के अयोग्य व्यक्ति । स्वाद पदार्थों में हुए लघु विचार । उपमंहार । अष्टाविंशोडिव्यायः (पृ० ३७५-३८५)

**विविधाशितपीतीयः—**शरीर के सब धातुओं का अज्ञ से सम्बन्ध । आहार से उत्पन्न नीन पदार्थ रेग, किट्ठ और नल हिन्दाहित आहार और रोग एवं आरोग्यविद्यक अभिकेन का प्रदूष आश्रेय एुर्वर्सु का समाप्तान । धातु गत रोग-संकलन्य रोग । रक्तजन्य, मांसजन्य, मेंद्रजन्य, मञ्जाजन्य और शुक्रजन्य रोग । अप्याहार से मर्दी का उक्तिय । धातुजन्य दिवाले की चिकित्सामो का निर्देश । उपलंहार । इन्द्रधनुशन्तनुकूल ॥

एकोनविंशोडिव्यायः (पृ० ३८५-३९०)

**दश प्राणायनीयः—**प्रण के द्वय स्वान, प्राणाक्षिर वैद्य के लक्षण । रेगानेतर वैद्य के लक्षण । उद्देश्य वैद्यों का वर्णन । उपसंहार ।

**त्रिशतमांडिव्यायः**

(पृ० ३९०-३९५)

अथ दशमहामूलोऽका—ददृश से काश्चित् दृश अमनिया । हृदय के पर्याय । हृदय का महस्त्र । दृश महामूल धमनियों का प्रतान । धमर्ती के पर्याय । संबन्ध योग्य पदार्थ । आयुर्वेद के ज्ञाता के लक्षण । वाक्यार्थ 'अर्थावयवशः निरूपण' । आयुर्वेद का मूल वेद अथव

वेद । आयु के समानार्थक पर्याय । आयुर्वेद का लक्षण । आयु का लक्षण । आयुर्वेद की नित्यता आयुर्वेद के आठ अंग । आयुर्वेद के अधिकारी । वैद्य की परीआ । चरक तत्त्व के आठ स्थान उनके अध्यायों का पृथक् २ गणना और नाम से निरेश । तत्त्वयुक्ति । अन्य संक्षेप । प्रतिवारी उत्पातां वैद्याभास को पराजय करने का प्रकार । तत्त्वविज्ञों और गर्वाले वैद्यों के स्वरूपे । उपलंहार । इति सूत्रस्थानम् ॥

### निदानस्थानम्

**प्रथमोडिव्यायः (पृ० ४००-४०१)**

**उद्धरनिदानम्—**निदान के पर्याय । रोग के नान प्रकार—आंशग, सीम्य और दाक्षय । निदानाङ्कक अधोन रेग के पर्याय । एवंस्व लिङ उपशय, स्वामाति के लक्षण । स्वामाति के भेद । उद्धर निदान । उद्धर के लक्षण । पित्तउद्धर निदान चौर लक्षण । कफ-उद्धर स्वामाति और ताकूर । स्वस्माति व र्यांनियांत्रिक उद्धर । आपानुज्वर स्वामाति-लक्षण । उद्धर-उद्धर के भेद । उद्धर के पृष्ठलक्षण उद्धर का उपत्ति उद्धर का दरिणाम । उद्धर के चिकित्सासूत्र । जार्ण उद्धर में घृतपान । संस्कर सिद्ध घृत-घृत की ओङ्कारा । उपलंहार ।

**त्रितीयोडिव्यायः**

(पृ० ४२२-४२८)

**रक्तपित्तनिदानम्—**रक्तपित्त का लक्षण । एक्त प्रकोप से रक्त का दोष । लोहित एक्त वा रक्तपित्त नाम ऐडने

का हैतु। रक्षपित के पूर्वरूप। रक्षपित के उपद्रव। रक्षपित के दो मार्ग साध्य असाध्य के विचार। रक्षपित का इतिहास। उच्चंगामी रक्षपित नाथ। अयोग्यामी रक्षपित याप्त। उभयमार्ग नामी रक्षपित असाध्य। द्विदोषज वा त्रिदोषज रक्षपित के चिकित्स। साध्य रोग के असाध्य हो जने के कारण। असाध्य रक्षपित के लक्षण। उपसंहार।

#### तृतीयांउद्धायः

( पृ० ४६०-४६३ )

**गुरुमन्त्रिदानम्**—गुरुम के दोष  
मेंद—दत्तगुरुम, दित्तगुरुम, कफगुरुम,  
नित्यगुरुम, रक्षगुरुम : इनके स्वतन्त्र  
में अग्निवेदा का प्रदन। ग्रन्थगुरुम,  
सम्प्राप्ति और लक्षण : वात व नाथ  
पित्र प्रकोप के कारण। वित्तगुरुम की  
सम्प्राप्ति। वात के साथ कफ प्रकोप  
के कारण। कफगुरुम की सम्प्राप्ति,  
मालिपात्रिक गुरुम। रक्षगुरुम। रक्ष-  
गुरुम की सम्प्राप्ति। गुरुम का पर्वरूप  
उपसंहार।

#### चतुर्थांउद्धायः

( पृ० ४६३-४६७ )

**प्रमेहनिदानम्**—प्रमेहों की  
संख्या। रोगों के विवात भाव-भावाद्य।  
कफमेह के कारण। कफमेह के  
दूष्य। कफमेह की सम्प्राप्ति : विकृत  
कफ के दश गुण। कफजन्य दश  
प्रमेह। जैसे उद्कमेह, इशुवालिकामेह,  
सान्द्रमेह, सान्द्रप्रसादमेह, शुक्तमेह,

जुकमेह, शीतमेह, मिकतमेह, शर्नमेह,  
आलालमेह। वित्तप्रमेहों के कारण  
और सम्प्राप्ति। वित्तजन्य दृष्टि : प्रमेह :  
श्वारमेह, कालमेह, नीलमेह, लालितमेह  
मतिष्ठामेह और हारिद्रमेह। पित्र  
प्रमेहों का विशेष विज्ञान। यात्रज्ञान  
के कारण। उनके प्रकार वयाप्रमेह,  
नज्जन्मेह, हस्तिमेह, नयुमेह। सब वातज्ञ  
भड़ असाध्य। वातप्रमेहों का विशेष  
विज्ञान। प्रमेहों के पूर्वलिप। प्रमेह के  
उपद्रव चिकित्सा, प्रमेह किन को  
होता है। उपसंहार।

#### पञ्चमांउद्धायः

( पृ० ४६७-४६८ )

**कुष्टानिदानम्**—कुष्ट रोग के  
उपर्युक्ति : कुष्ट के सात भेद। त्रै-त्रै  
भेद से कुष्टों के असंख्य भेद। कुष्ट  
रोग के कारण : कुष्ट रोग के दूर्वलम,  
कृष्णल कुष्ट। उत्तुभर कुष्ट। मधुटल  
कुष्ट। क्रष्णजिह्वा कुष्ट। उष्टुरेक कुष्ट।  
सिद्धम : काकणक कुष्ट, संध्य रसा-  
ध्य भेद। उपद्रव, उपसंहार।

#### षष्ठींउद्धायः

( पृ० ४६४-४६६ )

**शोपनिदानम्**—शोप के चार  
दरण। शोप का कारण साहस,।  
शोप रोग का कारण दंग-संवादण,।  
क्षय का विवरण। शुक्रक्षय। शोप का  
कारण विपमाशन। राजयक्षमा शब्द की  
निवाकि। शोप के पर्वरूप। राजयक्षमा  
के ११ रूप। राजयक्षमा के साध्य और  
असाध्य रूप। उपसंहार।

## सप्तमोऽध्यायः

( पृ० ४६३-४७२ )

**उन्मादनिदानम्**—पाच प्रकार के उन्माद । उन्माद का लक्षण । उन्माद के पूर्वरूप वातोन्माद के लक्षण । पित्तजन्य उन्माद के लक्षण । साक्षिपातिक उन्माद । उन्माद की चिकित्सा । आगन्तुज उन्माद । उन्माद का प्रारम्भ । आगन्तुज के लक्षण । आघात काल । उन्माद उत्पन्न करने का प्रयोजन । उन्माद के भेद । उपसंहार ।

## आष्टमोऽध्यायः

( पृ० ४७३-४८० )

अपस्मारनिदानम्—चार प्रकार का अपस्मार । निदान और नम्राति । अपस्मार का लक्षण । अपस्मार के पूर्वरूप वातजन्य अपस्मार के लक्षण । पित्तजन्य अपस्मार । कफजन्य अपस्मार । साक्षिपातिक अपस्मार । चिकित्सा सुच । भिन्न २ रोगों की उन्तति । नाश्वर और असाध्य । रोग ज्ञान का फल । एक रोग के कारण बुररा रोग । शुद्ध प्रदोष का लक्षण । कारण भेद । लक्षण भेद । चिकित्सा विधान । सुखमाध्य और कृच्छ्रमाध्य । माध्य और अमाध्य । उपसंहार । इति निदानस्थानम् ॥

## विमानस्थानम्

## प्रथमोऽध्यायः

( पृ० ४८१-४९४ )

**रसविमानम्**—विमानस्थान का प्रयोजन । छः रस तीन दोष । रसों के

प्रभाव । द्रव्य के प्रभाव । सात्त्व । सात्त्व के भेद । प्रवर मध्यम और अवर । आहार विधि उसके आठ अंग । करण । संयोग । राशि । देश । काल । उपयोग संस्था । उपयोक्ता । आहार विधि । आहार के सद्गुणों का उपदेश । उपसंहार ।

## द्वितीयोऽध्यायः

( पृ० ४९४-५०१ )

**त्रिविधकुक्षीयं विमानम्**—ऐट में तीन भाग । आहार की जमाता । हीन मात्रा, अधिक मात्रा । उनके दोष आहार की अति मात्रा से हानियाँ । ध्रामप्रदीप के दो प्रकार-विपूचिका और अलयक । अलयक का स्वस्थ । अमाध्य अलयक । वाय उत्तरक की चिकित्सा । विपूचिका का उपाय । अस प्रदीप ने अंगपथ का व्योग । अपतरण का प्रदोष । अज्ञ पाचन के नम्रात्म में अन्तिमंश का प्रश्न और अंत्रेय एनवर्गु का उत्तर । उपसंहार ।

## तृतीयोऽध्यायः

( पृ० ५१-५२६ )

**जनपदोद्धारसनीयं विमानम्**—जनपदनाशक रोग के शतीकार का उपदेश । जनपदनाशक रोग के फलने के कारण प्रकृत और उत्तर । आरोग्यनाशक वायु के लक्षण । रोगकारी जल के लक्षण । नाशकारी रोगोंके पूर्व, देश में उपस्थित लक्षण । विर्णीत उत्तु के लक्षणों वाला काल । आयु-रक्षक उपाय । वायु आदि में विगुणता उत्पन्न होने का

कारण, अधर्म । अधर्म की रुगों के अनुसार उत्पत्ति और उसके हुम्परिणाम । आयु के समय और परिणाम विषयक अग्निवेश का प्रश्न तथा आत्रेय ऋषि का प्रतिवचन । दैव और पुरुषकार का लक्षण तान प्रकार की आयु । आयु का काल । अकाल-मरण पर विचार । काल सृत्यु और अकाल सृत्यु पर विचार । ऊर में उत्तर जल देने विषयक प्रश्न । आत्रेय का उत्तर । ऊर में उत्तर जल के गुण । निदान से विपरीत चिकित्सा । अपवर्दण तान प्रकार के उनके उपर्योग के अवसर । आज्ञ रोगी । उपसंहार ।

### चतुर्थोऽध्यायः

( पृ० ५१६-५२१ )

द्विविधरोगविशेषपविज्ञानीयम्-  
नान प्रकार के रोग विशेषों का विज्ञान  
आसोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष ।  
आसोपदेश का निरूपण । प्रत्यक्ष और  
अनुमान के लक्षण । आसोपदेश से  
क्या जानें । प्रत्यक्ष से क्या जानें ।  
अनुमान से क्या जानें उपसंहार ।

### पञ्चमोऽध्यायः

( पृ० ५२४-५३१ )

स्त्रोतोऽधिमानम्—शरीर गत  
भौतिक घातवाही स्त्रोतों का वर्णन ।  
प्राणवह स्त्रोतों के हुए होने पर लक्षण ।  
जलवह स्त्रोत अज्ञवह स्त्रोत । रसवह  
स्त्रोत । रक्तवह स्त्रोत । मस्तिष्कवह स्त्रोत ।  
मूत्रवह स्त्रोत । पुरीपवह स्त्रोत । स्वेद-  
वह स्त्रोत । स्त्रोतों के पर्याय । स्त्रोतों

के प्रकोप के कारण । स्त्रोतों के द्रांष का  
लक्षण । स्त्रोतों के प्रकृतिसिद्ध रूप ।  
उपसंहार ।

षट्ठोऽध्यायः ( पृ० ५३०-५४१ )

रोगानीकं विमानम्—प्रभाव  
भेद से रोगों के प्रकार भेद । दून  
प्रकार के रोग । दो मानस दोष रज्वम्  
और तमस् । इनके कृपित होने के तीन  
कारण अनुदन्ध्य-अनुबन्ध भेद से रोगों  
में भेद । बल के भेदों से दरीरस्थ अन्नि  
के चार प्रकार । अन्नि भेद में मनुष्यों  
के चार प्रकार वात, पित्त, कफ प्रकृति  
के पुरुषों का विवेचन । आरोग्य प्रकृति ।  
सन प्रकृति । वातल, पित्तल और  
कफल तीन प्रकार के रोगी । वात,  
पित्त और क्षेत्रम् प्रकृति के पुरुषों के  
लक्षण इनके अनुकूल आहार विहार ।  
उपन्हार ।

सप्तमोऽध्यायः

( पृ० ५४१-५५ )

द्याधितरूपीयं विमानम्—  
व्याधि के ज्ञान में अम । चार प्रकार  
के हृनि । दो प्रकार का मल । उन में  
उम्बवह हृमि । उनका प्रभाव और  
चिकित्सा । रक्तजन्य हृनि । पुरीपवहन्य  
हृनि । उनका उपाय अपकंप विधि,  
प्रकृति विधात । हृमि-कोष के रोगी का  
उपचार । आस्थापनवस्तिक्रिया की विधि ।  
विरंचन । अनुवासन । शिरो विरेचन ।  
हृमियों के प्रकृतिविधात की रूपि ।  
शिरोरोग पर चिकित्सा । उपसंहार ।

अष्टमोऽध्यायः

( पृ० ५५५-६१८ )

रोगभिषग्निर्तायम्—शास्त्रप-

रीक्षा । शास्त्र के गुण । आचार्य का  
लक्षण । शास्त्र को ढड़ करने के उपाय  
शास्त्र के अव्ययन की विधि । अव्या-  
पत्-विधि । गुरु शिष्य के परस्पर  
कर्तव्य । दीक्षा । आचार्य का शिष्य  
को उपदेश । संभाषण-विधि । तट्टिय-  
संभाषण । ( संघाय ) अनुलोम संभाषण  
विशृङ्ख संभाषण । प्रतिवादी के तीव्र  
प्रकार । तीन प्रकार की परिपत्र ।  
प्रतिवादी को विश्रह करने के उपाय ।  
प्रतिलोम संभाषण का ग्राकार । वाद  
की मर्यादा । ४४ आवश्यकीय ज्ञानव्य-  
वहन का लक्षण । जल्द वित्तणा ।  
प्रतिज्ञास्वयवना, प्रतिष्ठापना, हेतु,  
उत्तर, व्याप्ति । सिद्धान्त ४ प्रकार के ।  
राग व्यवहा अनुसार ऐतिह ओपल्य  
संशय प्रयोजन भव्यमिचार । विज्ञाना-  
व्यवसाय । अर्थप्राप्ति, अनुप्राप्ति ।  
अनुयोदय अनुयोग व्यवहार्योग व्यवह-  
दीप भूत अधिक अर्थक अर्थक  
विरुद्ध । वास्तवरांसा । छल सामाज-  
िक वाक् छल अहंतु तीन प्रकार के  
प्रकरणसम संशयसम वर्ण्यसम । अर्तात  
काल उपालभ्म परिहार । प्रतिज्ञाहानि

अभ्यनुज्ञा हेत्वन्तर अर्थान्तर । निग्रह-  
स्थान । कारण करण कार्ययोनि-कार्य-  
कार्यफल । अनुबन्ध, देश, काल, उपाय  
प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध में विशेष  
विज्ञान । इनकी परीक्षा । देश विध  
परीक्षा । कारण-परीक्षा । करण-परीक्षा  
कार्ययोनि-परीक्षा-कार्य-कार्यन्त-परीक्षा ।  
अनुबन्ध-देश कार्य-देश आदि की व्या-  
प्त्य । आत्म परीक्षा । प्रकृतिप्रकृति  
भाव । श्लेष्मप्रकृति । पित्तप्रकृति ।  
दात्रप्रकृति । समधातुप्रकृति । विकृतियों  
से परीक्षा । सर में परीक्षा शरीरस्थना  
से परीक्षा । प्रसाम से परीक्षा । तीन  
प्रकार के प्रकरण । सम्भव से परीक्षा ।  
छल से परीक्षा । अन्तार से प्रतिवाद-  
दान्ति से परीक्षा । वाक् से परीक्षा ।  
काल का विवेचन व्याप्ति । अपेक्षित  
दाता में जाये लकाय का धैर्य । से  
काल, लकार । प्रवृत्ति । उपाय । परीक्षा  
मा प्रयोजन । व्यवहार्यता इव्य ।  
विवेचन दृश्य । एसों का अपेक्षा से  
इन्हों का अपीक्षा । लघुलक्षण ।  
लाग्नुलक्षण । 'लदग्नहङ्गम । कदुक-  
स्त्रैन । विकस्त्रैन । कयावस्त्रैन ।  
६ हाँ लग्नों के उपयोग में देव का  
कर्तव्य । अनुवासना इव्य विरोधिर्वचन-  
द्रव्य । उपसंहार । इति विमानस्थानम् ॥

ओ३म्

# चरकसंहिता

## सूत्रस्थानम्

### प्रथमोऽध्यायः

अथातो दीर्घज्ञीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

अब यहाँ से 'दीर्घ-जीवतीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानाश्रयः ॥ २ ॥

ऐसा हे भगवान् आश्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

ऋषि भरद्वाज का इन्द्र के पास गमन

दीर्घं जीवितमन्विच्छन् भरद्वाज उपागमत् ।

इन्द्रमुग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यममरेश्वरम् ॥३॥

दीर्घ काल तक जीवन की इच्छा से उग्रतपस्त्री भरद्वाज मुनि देवों के राजा इन्द्र को शरण योग्य जानकर उनके पास गये ॥ ३ ॥

१. निप्पदाजन और अभिषेयरहित अर्थ में बुद्धिमानों की प्रवृत्ति नहीं होती ।  
इसलिये सब से प्रथम शास्त्र का प्रयोजन अभिषेय और सम्बन्ध बतलाना चाहिये ।

कहा भी है—

अभिषेयकलज्ञानविरहस्तिमितोद्यमाः ।

श्रोतुमत्त्वापि अन्यं नादियन्ते हि साधवः ॥

लिदाये सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥

इस शास्त्र का प्रयोजन 'धातुसाम्य' है । कहा भी है—'धातुसाम्यकिया चोक्ता तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्' 'धातुसाम्य' का अर्थ विषम हुए धातुओं को समान करना और समान धातुओं का रखण करना है । अयता रोगी के रोग का निवारण करना और स्वस्थ

ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तमायुर्वदं प्रजापतिः ।  
 जग्राह निखिलेनाऽदावश्विनौ तु पुनस्ततः ॥ ४ ॥  
 अश्विभ्यां भगवाङ्छकः प्रतिपेदे ह केवलम् ।  
 ऋषिप्रिक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छकमुपागमत् ॥ ५ ॥

आरम्भ में ब्रह्माने यथावत् आशुर्वेद का उपदेश किया उसको प्रजापति [दक्ष] ने पूर्ण रूप से ग्रहण किया । दक्ष से दोनों अश्विनीकुमारोंने, अश्विनी-कुमारों से इन्द्र ने ग्रहण किया । इसी कारण ऋषियों से प्रेरित होकर भरद्वाज मुनि इन्द्र के पास आये ॥ ४-५ ॥

विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम् ।  
 तपोपवासाध्ययनब्रह्मचर्यत्रायुषाम् ॥ ६ ॥  
 तदा भूतेष्वनुकोशं पुरस्कृत्य महषयः ।  
 समेताः पुण्यकर्मणः पादवेष्ट हिमवतः शुभे ॥ ७ ॥

जब तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, ब्रत और आयु, इन में विघ्न करनेवाले रोग उत्पन्न हो गये; तब प्राणियों पर दया कर के पुण्यात्मा महर्षिगण पवित्र हिमालय के पार्श्व में एकत्र हुए ॥ ६-७ ॥

अङ्गिरा जमदग्निश्च वसिष्ठः कश्यपो भृगुः ।  
 आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्यो नारदोऽसितः ॥ ८ ॥  
 अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्वलायनौ ।  
 पारीक्षिर्भिरुरात्रेयो भरद्वाजः कपिञ्जलः ॥ ९ ॥

पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना है । जैसा कि सुश्रुत ने कहा है—

“व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य परिरक्षणक्ष” ।

अभिषेय-सम्बन्ध—हेतु, दोष और द्रव्य ये स्कन्धत्रय और रोगों के उत्पन्न न होने की विधि का बतलाना ।

शास्त्र और प्रयोजन का उपेय-उपाय सम्बन्ध है ।

भगवान् का लक्षण—“उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति गतिम् ।

वेणि विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥”

१—अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने पढ़ा ही था, पढ़ाया नहीं था, इन्द्र को विष्णु की चाह थी, क्योंकि विना पढ़ाये विष्णु संशय रहित नहीं बनती ।

२. सुश्रुत में—“ब्रह्मा प्रोक्ताच, ततः प्रजापतिरधिजरो, तस्मादश्विनौ, अश्विम्यामिन्द्रः ।”

विश्वामित्राश्वरध्यौ च भार्गवच्यवनोऽभिजित् ।  
 गार्घ्यः शापिण्डल्यकौण्डिन्यौ वार्ष्णिदेवलगालवौ ॥ १० ॥  
 साङ्कृत्यो वैजवापिश्च कुशिका बादरायणः ।  
 बडिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनावुभौ ॥ ११ ॥  
 काङ्क्षायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ ।  
 शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षः पैङ्गिरेव च ॥ १२ ॥  
 शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैतायनिः ।  
 वैखानसा बालस्त्रिल्यास्तथा चान्ये महर्षयः ॥ १३ ॥  
 ब्रह्माज्ञानस्य निधयो यमस्य नियमस्य च ।  
 तपसस्तेजसा दीपा हृयमाना इवाग्नयः ॥ १४ ॥  
 सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रुः कथामिमाम् ।

अंगिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, भूगु, आत्रेय, गांतम, मांस्य, पुलस्य  
 नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, माकण्डेय, आदवलायन, पारीक्षि, मिळु,  
 आत्रेय, भरद्वाज, कपिञ्जल, विश्वामित्र, आश्वरध्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित्,  
 गार्घ्य, शापिण्डल्य, कौण्डिन्य, वार्ष्णि, देवल, गाल्व, साङ्कृत्य, वैजवापि, कुशिक,  
 बादरायण, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, काङ्क्षायन, कैकशेय, धौम्य,  
 मारीचि, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैङ्गि, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय,  
 मैतायनि, वैखानस, बालस्त्रिल्य और अन्य ब्रह्माज्ञान, यम,<sup>१</sup> नियम और तप  
 के तेज से चमकते हुए, आहुति से उज्ज्वल अग्नि के समान तेजस्वी  
 महर्षि लोग वहां सुख से चिराज कर, इस पुण्यशाली कथा को इस प्रकार  
 कहने लगे ॥ ८-१५ ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुक्तमम् ॥ १५ ॥  
 रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ।  
 प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम् ॥ १६ ॥  
 कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः ।  
 अथ ते शरणं शर्क्रं ददृशुर्ध्यानचक्षुषा ॥ १७ ॥  
 स वक्ष्यति शमोपायं यथावदभरप्रभुः ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषाओं का मूल कारण आरोग्य

१. यम—अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिमहा यमाः ॥ यो० स० ॥

नियम—शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ यो० स० ॥

ही है ।<sup>१</sup> रोग इस आरोग्य, अम्बुदय तथा जीवन (आयु) को नाश करने वाले हैं । मनुष्यों के लिए ये रोग वहे विष्वस्त्रप हो गये हैं । इसलिए इन रोगों का शान्ति का उपाय क्या होना चाहिए ? ऐसा कहकर वे सब शृणि ध्यान मग्न हो गये । उन्होंने अन्तश्वल्प से इन्द्र को अपनेको शरण देने वाले के रूप से देखा और जान लिया कि देवों का राजा इन्द्र ही शान्ति का उपाय कहेगा ॥१६-१७॥

**कः सहस्राक्षभवनं गरुडत्रष्टुं शाचीर्पातम् ॥ १८ ॥**

अहमर्थे नियुजेयमत्रान् प्रथमं वचः ।

**भरद्वाजोऽवीत्समाहिषिनिः स नियंजितः ॥ १९ ॥**

प्रश्न उपास्थित हुआ कि शाचीर्पाति इन्द्र से पूछने के लिये इन्द्र के भवन तक कौन जाय ? शृणि भरद्वाज ने सबसे प्रथम कहा कि—इस कार्य में मुक्तकों नियुक्त किया जाये । इसलिए अंगरा आंद शृणियों ने भरद्वाज शृणि को ही इस कार्य में नियुक्त कर दिया ॥ १८-१९ ॥

स शकभवनं गत्वा सुरर्चिगणमध्यगम् ।

**ददर्श बलहन्तारं दीप्यमानामवानलम् ॥ २० ॥**

इन्द्र के भवन में जाकर, उन्होंने देवर्णियों के मध्य में परीक्ष अग्नि के समान तेजस्वी, बल नाम असुर को मारने वाले इन्द्र को देखा ॥ २० ॥

**सोऽभिगम्य जयाशीर्भिनन्द्य सुरेश्वरम् ।**

प्रावाच भगवान्धीमानुषीणा वाद्यमुत्तमम् ॥ २१ ॥

बुद्धिमान भरद्वाज ने इन्द्र के सन्मुख जाकर जयसूलक आशीर्वादों से इन्द्र का अभिनन्दन करके, शृणियों का उत्तम वचन प्रस्तुत किया ॥ २१ ॥

व्याधयो हि समुत्तनाः सर्वप्राणिभयंकराः ।

**तद् ब्रूहि मे शमोपायं यथावद्मरप्रभो ॥ २२ ॥**

हे अमरप्रभो ! सब प्राणियों का भय देने वाली व्याधियां उत्पन्न हो गई हैं इसलिये आप इनकी शान्ति का उपाय उपदेय करें ॥ २२ ॥

तस्मै प्रोवाच भगवान्युवर्दं शतकतुः ।

**पदैरल्पैर्मति बुद्ध्वा विपुलां परमर्घये ॥ २३ ॥**

<sup>१</sup> कहा भी है— “आयतनं विद्यानां मूलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् ।

श्रेयः परं किमन्यत् शरीरमजरामरं विहायैकम् ॥” रसहृदयतंत्र ॥

२ योग्य शिष्य ही विनयपूर्वक गुरु से शास्त्रों को सुनने का अधिकारी है । यथाः—तद् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्तदर्थिनः ॥ गीता ॥

मगवान् इन्द्र ने महार्षि भरद्वाज को महामति जान कर थोड़े ही शब्दों में संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश किया ॥ २३ ॥

हेतुलिङ्गोषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् ।

त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुद्धेऽयं पितामहः ॥ २४ ॥

सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः ।

यथावदविवरात् सर्वं बुद्धेऽतन्मना मुनिः ॥ २५ ॥

तेनाऽऽयुरमितं लेखे भरद्वाजः सुखान्वितम् ।

ऋचिद्योऽनधिकं तत्त्वं शास्त्रं सानवशेषयन् ॥ २६ ॥

ऋषयश्च भरद्वाजाजग्नुहस्तं प्रजाहितम् ।

दीर्घमायुष्मिकीर्णतो वेदं वर्धनमायुषः ॥ २७ ॥

हेतु (रोगों का कारण), लिंग (रोगों के चिन्ह), औषध (संशोधन और संशमन रूप चिकित्सा), स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिए परम गति और जिस का पितामह (ब्रह्मा) ने प्रथम ज्ञान किया था, उठ तीन सूत्र<sup>१</sup> वाले पुण्य, श्रेष्ठ और नित्य, सनातन<sup>२</sup> आयुर्वेद का इन्द्र ने उपदेश किया। महामति भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त होकर इस अनन्त और अग्रर<sup>३</sup> और तीन स्कन्धों वाले आयुर्वेद को यथावत् शीत्र ही सम्पूर्ण जान लिया। भरद्वाज मुनि ने इस

१ त्रिःसूत्र—हेतु, दोष और द्रव्य संग्रह स्यः;

हेतुसंग्रह—कालजुडीनिद्रियाथानां योगी मिथ्या न चाति च ।

द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥

दोषसंग्रह—वातः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः ।

मानसः पुनरुद्धो रजश्च तम एव च ॥

द्रव्यसंग्रह—किंचिद्वौषप्रशमनं किंचिद् धातु-प्रदूषणम् ।

स्वस्थवृत्तौ मतं किंचित् त्रिविधं द्रव्यसुच्यते ॥

अथवा ‘त्रिसूत्र’ शब्द से बात, पित्त और कफ का ग्रहण करना चाहिये। कपोरिक नमूर्ण आयुर्वेद शास्त्र इन्हीं में आंत-प्रोत है। जैसा कि सुश्रुत में—‘वाताप्तस्त्वलेप्याण एव देहसंभवहेतवः। तैरेवाव्यापन्नैररथो मध्योद्धर्वसन्निविष्टैः शारीरामदं धार्यते-आगारमिव स्थूणाभिः। अतः त्रिस्थूणाभिरित्येके ।’

२—सांड्यमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश-ते, अनादित्वात् । चरक ॥

३—नास्ति आयुर्वेदस्य पारम्, तस्मादप्रमत्तः शाश्वदभियोगमस्मिन् गच्छेत् ।  
॥ चरक ॥

आयुर्वेद के द्वारा ही सुख से युक्त दीर्घ आयु ग्रास की । और उसने शृणियों को न अधिक और न कुछ कम, ज्यों का थों ही सम्पूर्ण शास्त्र का उपदेश किया । दीर्घ आयु करने की इच्छा वाले शृणियों ने भी लोक की हितकामना से इस आयुर्वर्धक आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया ॥ २४-२७ ॥

महर्षयस्ते दद्यशुर्यथावज्ञानचक्षुषा ।

सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च ॥ २८ ॥

समवायं च, तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः ।

लेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनश्वरम् ॥ २९ ॥

ज्ञान की चक्षु से शृणियों ने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय का यथावत् पूर्णरूप से दर्शन किया । इन को यथावत् ज्ञानकर आयुर्वद विधि से हितकारक पदार्थों का सेवन और अहितकारी पदार्थों का त्याग कर परम सुख, आरोग्य और दीर्घ जीवन ग्रास किया ॥ २८-२९ ॥

अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्बुद्धुः ।

शिष्येभ्यो दत्तवान् षष्ठ्यः सर्वभूतानुकम्पया ॥ ३० ॥

अग्निवेशश्च भेदाद्य जटूर्कणः पराशरः ।

हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनेवचः ॥ ३१ ॥

तत्प्रश्नात् सब प्राणियों में मैत्री बुद्धि रखने वाले पुनर्बुद्धु आरंय ने सब प्राणियों पर दया का अनुभव करके इस पवित्र आयुर्वेद का छः शिष्यों को उपदेश किया ।

अग्निवेश, भेड़, जटूर्कण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि इन छः शिष्यों ने मुनि के उस उपदेशशब्दन का ग्रहण किया ॥ ३०-३१ ॥

बुद्धेर्विशेषस्तत्रासीनोपदेशान्वरं मुनेः ।

तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ॥ ३२ ॥

अथ भेदाद्यश्चकुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च ।

श्रावयामासुरात्रेयं सर्विसंघं सुमेधसः ॥ ३३ ॥

श्रुत्वा सूत्राणमर्थानामृपयः पुण्यकर्मणाम् ।

यथावत्सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३४ ॥

सर्वं एवास्तुवृस्ताँश्च सर्वभूतहितैविणः ।

साधु भूतेष्वनुकोशा इत्युच्चेरनुवन् समम् ॥ ३५ ॥

तं पुण्यं शुश्रवः शब्दं दिवि देवर्षयः स्थिताः ।

सामराः परमर्थाणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम् ॥ ३६ ॥

१—धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साध्यवैधम्याभ्यां तस्वज्ञानान्निःश्रेयसम् । वैशेषिक०

अहो साधिति घोषश्च लोकाँक्षीनन्वनादयत् ।  
 नभसि स्तिगधगम्भीरो हर्षाद् भूतैरुदीरितः ॥ ३७ ॥  
 शिवो वायुर्वौ सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशः ।  
 निषेतुः सजलाश्रैव दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ ३८ ॥  
 अथाग्निवेशप्रमुखान् विविशुज्ज्ञानदेवताः ।  
 बुद्धिः सिद्धिः स्मृतिमेधा धृतिः कीर्तिः क्षमा दया ॥ ३९ ॥  
 तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्थिभिः ।  
 भवाय भूतसंघानां प्रतिष्ठां भुवि लंभेरे ॥ ४० ॥

अग्निवेश की बुद्धि विशेष थी, मुनि आत्रेय के उपदेशमें कोई अन्तर नहीं था । अग्निवेश हीं सब से प्रथम आयुर्वेद-तंत्र का कत्ता हुवा । इसके पीछे भेड आदि बुद्धिमान् शिष्यों ने भी अपने अपने तंत्र बना कर बहुत से शूष्मियों के साथ विराजमान आत्रेय मुनि को सुनाये । पुण्यकर्मा अग्निवेश आदि शूष्मियों द्वारा भली प्रकार से सूत्र रूप से गुणे हुए आयुर्वेद शास्त्र को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका प्रसन्नता से अनुमोदन भी किया कि ठीक प्रकार से ग्रथित ( गुणा ) हुआ है । सब प्राणियों पर दयालु उन शूष्मियों की सब ने ही प्रशंसा की । सब ने एक साथ उच्चस्वर से कहा कि आपने प्राणियों पर बहुत उत्तम रूप से दया की है । स्वर्ग में स्थित देवों के सहित नारद आदि देव शूष्मियों ने भी उन परम शूष्मियों के पुण्य शब्द को सुना । इस को सुनकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए । समस्त प्राणियों ने हर्ष से अति स्लेह युक्त एवं गम्भीर शब्द से साधुवाद दिया । इस साधुवाद की ध्वनि आकाश में फैल कर तीनों लोकों को गुंजा दिया । सुखदायक वायु बहने लगा, सब दिशायें प्रकाश से चमकने लगीं, जल से भी दिव्य कुसुम बरसने लगे ।

( बुद्धि ) उपलब्धि, ( सिद्धि ) साध्य-साधन, ( स्मृति ) पूर्व अनुभूत अर्थ का स्मरण, ( मेधा ) धारण करने की शक्ति, ( धृति ) मन की संतुष्टि, ( कीर्ति ) यश, ( क्षमा ) अपकारी के प्रति अनपकार की इच्छा, ( दया ) प्राणियों के दुःख हटाने की इच्छा, ये ज्ञानमय देवता अग्निवेश आदि शूष्मियों में प्रविष्ट हुए अर्थात् ये शुभ गुण इन में आये ।

महर्षियों द्वारा अनुमोदित उक्त शूष्मियों के शास्त्र लोगों के परम कल्याण के लिये पृथिवी पर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए ॥ ३२-४० ॥

आयुर्वेद का लक्षण—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।  
 मानं च तत्त्वं यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥ ४१ ॥

हित, अहित, सुख और दुःख यह चार प्रकार की 'आयु' है। इस आयु का हित-अहित, पथ्यापद्य, और इस आयु का मान-परिमाण यह सब जिस शास्त्र में कहा हो, वथा आयु का लक्षण जिसमें हो, उसे 'आयुर्वेद'<sup>१</sup> कहते हैं। हित आयु, अहित आयु, सुखी आयु, दुःखी आयु, चार प्रकारकी आयु है॥४१॥

आयु का लक्षण—

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो, धारि जीवितम् ।

नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते ॥ ४२ ॥

( शरीर ) पंच महाभूतों से बना, आत्मा का अधिष्ठान, ( इन्द्रिय ) भौतिक इन्द्रियां, ( सत्त्व ) मन, ( आत्मा ) द्रष्टा, भोक्ता, जीव और ईश्वर, इनके संयोग का नाम 'आयु' है। आयु निरन्तर चलने वाला होने से 'आयु' कहाता है [ परि गच्छतीति आयुः । ]

आयु अर्थात् जीवन के पर्यायवाची शब्द—( धारि ) शरीर को धारण करता है, ( जीवित ) प्राणों को धारण करता है, ( नित्य ) निरन्तर चलता है, ( अनुबन्ध ) प्राणों के साथ सम्बन्धित है, और 'चेतनानुवृत्ति' इन पर्यायों से बतलाया जाता है<sup>२</sup> ॥ ४२ ॥

तस्याऽयुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः ।

बद्ध्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ॥ ४३ ॥

यह आयुर्वेद सब से अधिक श्रेष्ठ पुण्यजनक है [ क्योंकि अन्य ज्ञान पार-लौकिक हित को ही बतलाते हैं ] यह आयुर्वेद इहलोक और परलोक दोनों के हितों को कहता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है<sup>३</sup> ॥ ४३ ॥

सामान्य और विशेष—

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ।

ह्वासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ४४ ॥

सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्स्त्वकृत् ।

तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः ॥ ४५ ॥

सब पदार्थों का सब कालों में 'सामान्य'—समान [ गुण आदि ] धर्म ही वृद्धिका कारण होता है, और 'विशेष'—अर्थात् विमेद या विपरीत होना ही द्वारा का कारण होता है। दोनों का शरीर के साथ सम्बन्ध सब पदार्थों की

१—“आयुरसिन्विन्दति वेत्ति वा आयुर्वेदः ।” सुक्षुत ॥

२—तत्रायुर्वेतनानुवृत्तिः जीवितमनुबन्धो धारि चेत्येकोऽर्थः ॥ सु० ॥

३—अत्राऽयत्तमैहिकमामुष्मिकं च श्रेयः ॥ सुक्षुत० ॥

बृद्धि और हास का कारण है। सब कालों में शरीर के अन्दर दोनों ही धर्म रह सकते हैं। इसलिये शरीरमें बृद्धि और क्षय शरीरका बनना (Metabolism) और शरीर का टूटना (Ketabolism) दोनों कियायें हर समय होती रहती हैं। एकत्व बतलाने वाला धर्म 'सामान्य' है। और 'पृथग्-भाव' बतलाने वाला धर्म 'विशेष' है।<sup>१</sup> क्योंकि समान धर्म का होना यह सामान्य है, और इससे विपरीत होना विशेष है॥ ४४-४५॥

सञ्चमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् ।

लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ४६ ॥

स पुमाश्वेतनं तत्त्वं तज्जाधिकरणं स्मृतम् ।

वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥ ४७ ॥

(सत्त्व) मन, (आत्मा) चितना और 'शरीर' इन तीनों से बने हुए को 'लोक'<sup>२</sup> कहने हैं। यह तीनों मिलकर तिक्कन्टी, या तिपाईं की तरह 'लोक' को धारण किये हुए हैं। इस संयोग से बने हुए पुरुष में जन्म-मरण आदि

१ समान गुण वाले—इसका अर्थ यह है कि द्रव्य, गुण, कर्ग, इनमें सम्पूर्ण रूप से समान गुण वाले पदार्थ हो ग्रहण करने चाहिये।

जिस प्रकार खद्ग आंवला भी खहे पित्त को नहीं बढ़ाता, अपितु शीतबीर्य होने से पित्त का शमन करता है, क्योंकि पित्त उण्ण है।

द्रव्यसमान से विपरीत प्रभाव—तैजस क्षार से श्लेष्मा का क्षय

गुण „ „ „ „ — द्रव कांजी से श्लेष्मा का लघु-रुक्ष गुण के कारण क्षय,

कर्ग „ „ „ „ — नींद से वायु का नाश, भागने से कफ का क्षय होना,

सामान्य और विशेष का स्वरूप—तुल्यार्थता अर्थात् समानार्थक होने का नाम सामान् और विपर्यं का अर्थ 'विशेष' है।

"सामान्यं विशेषं इति बुद्धयेष्म" । वैशेषिक द० ॥

कहा भी है—

सर्वेषां सर्वदा बृद्धिः तुल्यद्रव्यगुणकियैः ।

भावैर्भवति भावानां विपरीतैर्विपर्ययः ॥

२. "बृद्धधातुसमुदिता लोक इति शब्दं लभन्ते ।"

तिक्कन्टी—मैं एक बल्ली या स्तम्भ के निकाल लेने से वह खड़ी नहीं रह सकती, इसी प्रकार इन तीनोंमें से एकके न छोनेसे 'पुरुष' स्थिर नहीं रह सकता।

सब स्थित हैं । यह सत्त्वादि समुदाय पुरुष कहलाता है, और वह चेतन द्रव्य है, यही आयुर्वेद का अधिकरण है और इसी के लिये यह आयुर्वेद प्रकाशित किया गया है ॥ ४६-४७ ॥

खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंभ्रहः ।  
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरन्द्रियमचेतनम् ॥ ४८ ॥

आकश आदि (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी—ये पांच महाभूत), आत्मा, मन, काल, और दिशा ये द्रव्यों का संग्रह हैं । इन्द्रियों सहित द्रव्य चेतन हैं और इन्द्रियों से रहित द्रव्य अचेतन हैं ॥ ४८ ॥

अत्र कर्मफलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम् ।

अत्र मोदः सुखं दुःखं जीवितं भरणं स्वता ॥

पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः 'पुरुष' उच्यते । तस्मिन् कियाः । सोऽधिष्ठानम् ।

१. "पृथग्यापस्तेजोवायुराकाशं कालं दिग्मात्मा मन इति द्रव्याणि ।" वैश्वेऽ  
शरीरं हि गते तस्मिन् शून्यागारमचेतनम् ।

पञ्चमूत्रावशेषत्वात् पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥ चरक ॥

"तत्र आकाशं शब्दगुणम्, शब्दस्पर्शगुणो वायुः शब्दस्पर्शस्तपगुणोऽग्निः ।  
शब्दस्पर्शस्तपसगुणा आपः, शब्दस्पर्शस्तपसगन्धगुणा पृथिवी ।

तेषामेकगुणः पूर्वे, गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वपूर्वों गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

आत्मा का रूप—

प्राणापानी निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः ।

इन्द्रियान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं च यत् ।

देशान्तरगतिः स्वज्ञे पञ्चत्वग्रहणं तथा ।

इष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा सव्येनावगमस्तथा ॥

इच्छा देषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः ।

कुद्धिः स्मृतिरहंकारं लिङ्गानि परमात्मनः ॥

मन का लक्षण—

आत्मेन्द्रियार्थसञ्जिकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावो भनसो लिङ्गमिति कणादः

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च ।

सति श्वासेन्द्रियार्थानां सञ्जिकर्षेण वर्तते ।

वैधृत्यान्मनसो ज्ञानं सञ्जिध्यच्च वर्तते ॥ चरक ॥

गुण—

सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नात्ताः परादयः ।

गुणाः प्रोक्ताः,

अर्थ ( इन्द्रिय और मन के ग्राह्य विषय ), गुरु आदि, बुद्धि, इच्छा से लेकर प्रयत्न तक और पर आदि अभ्यास पर्यन्त गुण हैं ।

इन्द्रियों के अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—मन के अर्थ चिन्तन, विचार, द्रुहना, ध्यान, संकल्प, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, उष्ण, स्तिंघ रूप, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कांठन, विशद, पिञ्चिल, इलहण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सान्द्र, द्रव, ये भीष, तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुःख और प्रयत्न, पर, अपर युक्ति, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास वे गुण हैं ।

“रूपरसगन्धस्थर्याः संल्यापरिमाणानि पृथक्तर्वं संयोगविभागौ परापरत्वे बुद्धयः सुखदुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नात्त गुणाः ॥” वै० ८०

कर्म—

प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ॥ ४६ ॥

प्रयत्न जन्य चेष्टा शरीर का व्यापार कर्म कहाता है ।

उत्क्षेपणमपक्षेपणमाकुञ्जनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वैश्व०

भ्रमणं रेचनं स्पन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च ।

तिर्यग् गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥

प्रयत्नपूर्वक अथात् चेष्टापूर्वक क्रिया का नाम ‘कर्म’ है ।

‘आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म’ ॥ वै० ॥ ४६ ॥

समवाय का लक्षण—

समवायोऽपृथग्भावो भूस्यादीनां गुणैर्मतः ।

स नित्यो, यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः ॥ ५० ॥

पृथिवी आदि द्रव्यों का ( आत्रेय भद्रकाष्ठीय २६ वें अध्याय में कहे हुए )

काल का लक्षण—सूक्ष्मामपि कलां न लीयते, संकलयति वा भूतानि इति कालः । वैश्व०

दिशा का लक्षण—अस्मादिदं पूर्वेण अस्मादिदं पश्चिमेन इत्यादयः प्रत्यय यतो भवन्ति सा दिक् । इत इमिति यतस्तदिशां लिङ्गम् । वैश्व०

जिससे यह व्यवहार किया जाय कि यह इससे पूर्व या पश्चिम में है, उसका नाम ‘दिशा’ है ।

अपने गुणों से पृथक् न होना 'समवाय' <sup>१</sup> है। अर्थात् द्रव्य गुणों के बिना नहीं रह सकते और गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकते।

यह समवाय सम्बन्ध नित्य है, ( संयोग की तरह अनित्य नहीं ) क्योंकि जहां पर द्रव्य है, वहां पर गुण नहीं रहता ऐसा नहीं, अपितु निष्ठित ही है। जहां द्रव्य है वहां गुण भी है। इस लिये द्रव्य और गुण का नियत सम्बन्ध होने से इनका सम्बन्ध भी नियत ही है ॥ ५० ॥

द्रव्य का लक्षण—

यत्राऽश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत् ।

तदौ द्रव्यं,

जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं, और जो समवायि कारण है, वह 'द्रव्य' है।

गुण का लक्षण—

समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः ॥ ५१ ॥

द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध वाला, निश्चेष्ट ( निष्क्रिय ) एवं कारणवान् गुण है। गुण-निर्गुण दोनों हैं, गुण में गुण नहीं होता, जैसा कि लिखा है—

"गुणा गुणाश्रया नोक्ताः" ॥ ५१ ॥

कर्म का लक्षण—

संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यमाश्रितम् ।

कर्त्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते ॥ ५२ ॥

जो कि द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है, तथा संयोग और विभाग में कारण है, उसका नाम 'कर्म' है। कर्म किसी अन्य कर्म की अपेक्षा नहीं करता [द्रव्य और गुण परस्पर एक दूसरे के समवाय की अपेक्षा ऊरके कारण बनते हैं] तथा—कर्त्तव्य कार्य का अनुष्ठान रूप कर्म है।

"एकं द्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षते कारणमिति कर्मलक्षणम्" वैश्वै०

किये हुवे सदृश, शान्ति, मंगल—पाठ आदि अनुष्ठान भी कर्म हैं, वे अध्यात्म कर्म हैं ॥ ५२ ॥

इन्युक्तं कारणं, कार्यं धातुसाम्यमिहोच्यते ।

धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् ॥ ५३ ॥

१ समवाय का लक्षण—

अयुतसिद्धानां [ जो कर्म भी पृथक् नहीं होते ] आधायोधारभूतान् इहेति प्रत्ययहेतुः सम्बन्धः स समवायः । वैश्वै०

जैसे तन्तु और बछ का या मिट्टी और घड़े का समवाय सम्बन्ध है।

इस प्रकार सामान्य आदि छः कारणों का वर्णन किया गया है। अब उनका कार्य कहा जाता है। इस शास्त्र में ‘धातुओं का साम्य करना’ ही कार्य है [ घट-पठ आदि कार्य नहीं है ]। इस शास्त्र का—प्रयोग भी धातुओं को समान रखना ही है।

क्षीण हुए धातु बढ़ाने चाहिये, बढ़े हुए धटाने चाहिये और समान का रखन करना चाहिये। जैसा कि आगे कहेंगे—

‘प्रयोगं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं, आतुरस्य विकारप्रशमनश्च’ ॥५३॥  
धातुओं के विपर्म होने का कारण—

कालवुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च ।

द्रयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ ५४ ॥

काल [ शीत-वर्षा ग्रीष्म रुपों संवत्सर अथवा परिणाम ], बुद्धि, और इन्द्रियार्थ [ इन्द्रियों के विपर्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ] इन तीन के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग होने से दोनों प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं ॥ ५४ ॥

शरीर सत्त्वसंहं च व्यार्थानाम् शयो मतः ।

नथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ ५५ ॥

शरीर और सत्त्व ( मन ) वे दोनों ही [ पृथक् रूप से एवं सम्मिलित रूप में ] रोगों की अविद्यान भूमि हैं । और जिस प्रकार ये दोनों व्याधियों का आश्रय स्थान हैं, इसी प्रकार सुख का भी आश्रय स्थान यही है ।

नुख का कारण—काल, बुद्धि और इन्द्रियों के विपर्यों का, सम [ उचित रूप में ] दोग होना ही आरोग्य का कारण है। कहा भा है—

“सुखहेतुर्मतस्वेकः समयोगः सुदुर्लभः” ॥ ५५ ॥

आत्मा का स्वरूप कहते हैं—

निविकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः ।

चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ ५६ ॥

१. “त्रीण्यायतना नीत्यथानां, कर्मणः कालस्य चातियोगायोगमिथ्यायोगाः ।

असात्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रशापराधः परिणामश्रेति त्रयस्त्रिविधविकल्पा हेतवां विकारकारणम्” ॥ “समयोगसुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो भवन्ति” । च० ॥

२. वेदनानामधिष्ठानं भनो देहश्च सेन्द्रियः ।

केशलोमनसाग्रान्तमलद्रवगुणैर्विना ॥ चरक ॥

निर्विकार<sup>१</sup> और सूक्ष्म आत्मा, मन, शब्दादिगुण, इन्द्रियां द्वारा चैतन्य में कारण हैं, वह नित्य है, साक्षी है, क्योंकि वह सब क्रियाओं का देखता है। अचेतन शरीर और मनके चैतन्य में यह आत्मा ही कारण है; और वह नित्य है।

### रोग प्रकृति—

**वायुः पित्तं कफश्लोकः शारीरो दोषसंग्रहः ।**

**मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ५७ ॥**

संक्षेप रूप में शारीरिक दोषों के कारण वात, पित्त और कफ हैं। और मानसिक दोषों के कारण रज और तम हैं<sup>२</sup>। शारीरिक कोई भी रोग इन वात, पित्त, कफ के बिना नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥

### इनका प्रतीकार —

**प्रशास्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः ।**

**मानसो ज्ञानविज्ञानधर्येऽस्मृतिसमाधिभिः ॥ ५८ ॥**

शारीरिक दोष देव व्यपाश्रय और युक्ति-व्यपाश्रय औपचियों से शान्त हो जाते हैं। मानसिक दोष ज्ञान (आत्मा आदि के), विज्ञान अर्थात् शास्त्र ज्ञान, (धैर्य) विच्च की स्थिरता, (स्मृति) अनुभूत पशार्थ का स्मरण, (समाधि) विषयों से मन का हटा कर आत्मा में लगाना इनसं शान्त हैं जाते हैं।

देव-व्यपाश्रय—मणि, मन्त्र, ओषधि, बलि, उपहार, होम, नियम प्रावश्चित्त आदि कर्म जो कि देव को आश्रय कर किये जाते हैं।

युक्ति-व्यपाश्रय अर्थात् योजना, युक्ति को आश्रय कर किये गये संशोधन, संशमन आदि कर्म ॥ ५८ ॥

### वायु का लक्षण—

**रुक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्वलोऽथ विशदः खरः ।**

**विपरीतगुणैर्द्व्यैर्मारुतः संप्रशास्यति ॥ ५९ ॥**

**वायु-रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल अर्थात् गतिशील, विशद अर्थात् अग्नि-**

**१. स पर्यगाच्छुक्रमकायमवृणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्मू ॥ श्रुतिः ।**

२ वायु को प्रथम लिखा है, क्योंकि वात जन्य रोग ही सब से अधिक हैं, ‘अशीतिवात-विकाराः’ एवं ‘वायुरेव भगवान्’ वायु सबसे प्रबल है।

सर्वेषां व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलं तल्लिङ्गतात् दृष्टफलत्वादागमाच्च । यथा हि कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते । एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितमव्यतिरिच्य वात-पित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते ॥ सुभृतः ॥

चिछल और खर (कठोर) है । वह इन से विपरीत गुण वाले स्त्रिय, उष्ण गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छिल और मृदु द्रव्यों से शान्त होता है ।

शीत से वायु बढ़ता है और उग्रता से कम होता है, इसलिये वायु का वैयक्त शास्त्र में शीत-प्रकृति माना है । वैशिक दर्शन में इस को अनुष्णाशीत कहा है—‘अनुष्णाशीतः स्पर्शस्तु पवने मतः’ ॥ वै० ॥ ५६ ॥

पित्त का लक्षण—

स्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु ।

विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराद् प्रशास्यति ॥ ६० ॥

स्नेहसहित अयात् थोड़ा स्त्रिय, उष्ण (गरम), तीक्ष्ण [ शीघ्र कार्य करने वाला, सुई की तरह तेज् ], द्रव, अम्ल (खट्टा), सर (गमनशील), और कटु रस है । पित्त विपरीत गुण वाले द्रव्यों से शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥ ६० ॥

कफ का लक्षण—

गुहशीतमृदुस्त्रियधमधुरस्थिरपिच्छिलाः ।

शूद्रमणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणगुणाः ॥ ६१ ॥

गुरु, शीत, मृदु, स्त्रिय, मधुर, स्थिर, और पिच्छिल ये कफ के गुण हैं । इन से विपरीत गुण वाले पदार्थों से ये गुण शान्त होते हैं । [ इन गुणों के शान्त होने से गुणी कफ भी शान्त हो जाता है ] ॥ ६१ ॥

साध्य रोगों की शान्ति—

विपरीतगुणैर्देशमात्राकालोपपादितैः ।

भेषजैर्विनिवर्त्तन्ते विकाराः साध्यसंमताः ॥ ६२ ॥

साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते ।

भूयश्चातो यथाद्रव्यं गुणकर्म प्रवक्ष्यते ॥ ६३ ॥

विपरीत गुण वाले [ हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत और हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत और कार्य करनेवाले ] द्रव्यों की देशमात्रा, काल के अनुसार योजना करने पर औषध से साध्य व्याधियां शान्त हो जाती हैं, असाध्य रोग अच्छे नहीं होते । और जो रोग औषधियों से असाध्य हैं उन के लिए औषध का उपदेश भी नहीं किया जाता । इसके आगे फिर विस्तार से एक-एक द्रव्य के गुण कर्म को आचार्य कहेंगे ॥ ६२-६३ ॥

रसों की उत्पत्ति—

रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा ।

निर्वृत्तौ च, विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्याः ॥ ६४ ॥

रसनेन्द्रिय से ग्राह्य गुण रस है। इस रस की उत्पत्ति में आधार कारण जल और पृथिवी हैं। इस रस के भेद करने में आकाश, वायु और अग्नि ये तीनों निमित्त कारण होते हैं। वास्तव में रस की उत्पत्ति स्थान जल है और पृथ्वी इसका आधार है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल जाता है। ‘‘बिंदू स्पर्श परेण’’ न्याय ०। जल और पृथ्वी म आकाश, वायु और अग्नि का भी अंश समाविष्ट रहता है। कहा भी है—

तेषामेकगुणं पूर्वं गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वः पूर्वो गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

इसीलिए, इस एक रस के छः भेद हो जाते हैं। जैसे—पृथिवी और जल की अधिकता से मधुर, पृथ्वी और आग की अधिकता से अम्ल, जल और अग्नि की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कटु, वायु और आकाश की अधिकता से तिक और वायु और पृथ्वी की अधिकता से कपाय रस बनता है ॥ ६५ ॥

स्वादुरम्लोऽय लवणः कटुकस्तिक्त एव च ।

कपायश्चेति पट्टकोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ ६६ ॥

स्वादु मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक और कपाय ये छः संक्षेप से रस हैं। विस्तार से इनके परस्पर संयोग से ६३ भेद हो जाते हैं ॥ ६२ ॥

रसों के द्वारा दोषों की शान्ति—

स्वादुरम्ललवणा वायुं, कपायस्वादुतिकक्षः ।

जयन्ति पित्तं, इलेघारां कपायकटुतिकक्षः ॥ ६६ ॥

स्वादु, अम्ल और लवण ये रस वायु का शमन करते हैं, कपाय, मधुर और तिक रस पित्त का, कपाय, कटु और तिक रस कफ को शान्त करते हैं। कटु, अम्ल और लवण रस पित्त को कुपित अथार् उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं, स्वादु, मधुर अम्ल और लवण रस कफ का, कटु, तिक और कपाय रस वायु को बढ़ाते हैं। इन रसों में प्रत्येक रस के द्रव्य, गुण और कर्म आगे( आत्रेय भद्रकार्य नामक २६ वें अध्याद ) में विस्तार से कहेंगे ॥ ६६ ॥

द्रव्य के भेद—

किञ्चिद्दोषप्रशमनं किञ्चिद्दातुप्रदूषणम् ।

स्वस्थवृत्तौ हिते किञ्चित् त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ ६७ ॥

द्रव्य तीन प्रकार के हैं। ( १ ) कुछ द्रव्य वात आदि दोषों का शोधन एवं शमन करते हैं। जैसे—तेल वायु का, धी पित्त का और मधु कफ का

शमन करता है और (२) कुछ द्रव्य शरीरको धारण करनेवाले वात आदि वा रम आदि को दूषित वा कुपित करते हैं और (३) कुछ द्रव्य स्वास्थ्य का रक्षण करते हैं, वे स्वस्थ अवस्था के मिए हितकराहैं। जैसे—लाल चावल, सांठी के चावल, जां, त्रीबन्ती शाक आदि। “शमन कांपन स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिवा ॥” वाग्मटः ॥

तत्पुनखिविधं ज्ञेयं जाङ्गमोद्दिदपार्थिवम् ।

मधूनि गांरसाः पित्तं वसा मज्जासूगमिषम् ॥ ६८ ॥

विष्मूत्रं चर्मं रेतोऽस्थि स्नायुः शृङ्गं खुरा नखाः ।

जङ्गमेभ्यः प्रशुज्यन्ते केशा लोमान्ति रोचनाः ॥ ६९ ॥

द्रव्य फिर तीन प्रकार के हैं (१) (जांगम) प्राणियों से उत्पन्न होने वाले, आर (२) ( औद्दिद ) भूमि को भेदन करके पृथक्की में जे उत्पन्न होने वाले वनस्पति आदि, (३) ( पार्थिव ) भूमि से उत्पन्न होने वाले, ज्वनिज ।

जङ्गम द्रव्य—

मधु (शहद)<sup>१</sup> गोरस, दूध, धी, आदि, पित्त, वसा (चर्वी), मज्जा, रक्त, मांस, विषा, मूत्र, चर्म, वीर्य, अस्थि, स्नायु, सींग, नख, खुर, (केश) शिर के चाल, (रंग) शरीर के चाल, रोचना अथान् गंरोचना, ये जङ्गम-प्राणियों से लेकर व्यवहार में लाये जाते हैं ॥ ६८-६९ ॥

भूमि द्रव्य—

सुवर्णं समलाः पञ्च लोहाः ससिकताः सुधा ।

मनःशिलाले भणयो लवणं गैरिकाज्ञने ॥ ७० ॥

भौममौषधमुहिष्टम्, औद्दिदं तु चतुर्विधम् ।

वनस्पतिर्वीर्घ्यश्च वानस्पत्यस्तथौपयिः ॥ ७१ ॥

स्वर्ण, और इसका मल (शिलाजीत) पांच प्रकार के लोह जैसे रांगा, सीला ताम्बा, चांदी और लोहा, (सिकता) चालू, (सुधा) चूना, पार्थिव विष, मनः शिला, (आल) हरताल, (मणि) स्फटिक आदि, लवण सैन्धव आदि, [ गैरिक ] गेह, (अंजन) सुरमा, ये पार्थिव औषध कहे हैं औद्दिद द्रव्य चार प्रकार के हैं। वनस्पति, बीजू, वानस्पत्य और ओषधि ॥ ७०-७१ ॥

फलैर्वनस्पतिः, पुष्पैर्वनस्पत्यः फलैरपि ।

ओषधः फलपाकान्ताः, प्रतानैर्वीर्घ्यः सृष्टाः ॥ ७२ ॥

(१) जिनमें विना पुष्प के फल आता है, वे ‘वनस्पति’ हैं, जैसे गूलर, बट

१. माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्रिकं मधुजातयः ।

पिलखन आदि, (२) जिनमें फल और पुष्प दोनों आते हैं उनको 'वानस्पत्य' अर्थात् वृक्ष कहते हैं, जैसे आम, जामुन आदि, (३) जो फल आने पर नष्ट हो जाते हैं, उनको 'ओषधि' कहते हैं जैसे धान, चावल, जौ, गेहूं आदि और (४) जो लता के समान फैलने वाली हैं उनको 'बीहृष्ट-कहते हैं जैसे गिलोय आदि ॥७२॥

आँद्रिद पदार्थों के काम में आने वाले अंगः—

मूलत्वक्सारनिर्यासनालस्वरसपल्लवाः ।

क्षाराः क्षीरं फलं पुष्पं भस्मं तैलानि कण्टकाः ॥ ७३ ॥

पत्राणि शुद्धाः कन्दाश्च प्रोहाश्चाँद्रिदो गणः ।

मूल, त्वचा, (सार) उन्द्रर का स्थिर सार भाग, (नियांस) गोद, (नाड़) नाल, (स्वरस) पीड़न करके द्रव्य से निकाला हुआ रस, (पल्लव) परो आम, जामुन आदि के, क्षार, (क्षार) दूध, थोर आदि के फल, पुष्प, भस्म, तैल भिलादे आदि का, कट्ठे, पत्ते, शुद्ध अथांत छोटे २ कट्ठे जो वृक्ष पर होते हैं जैसे सिम्बल के, कन्द अथांत फलहीन आंपविधियों के, मूल, (प्रोह) अंकुर यह 'आँद्रिद गण' हैं । बनस्पतियों के ये उपरोक्त अंश बाम में आते हैं ॥ ७३ ॥

मूलिन्यः पोड़ठांकोनाः फलिन्यो दिंशतिः स्मृताः ॥ ७४ ॥

महास्नेहाश्च चत्वारः पञ्चेव लवणानि च ।

अष्टौ मूत्राणि सद्धृच्यातान्यष्टावेव पर्याप्ति च ॥ ७५ ॥

शोधनाथाश्च पहूः वृक्षाः पुनर्वसुनिदिशिताः ।

य एतान् वेच्च संयोक्तुं विकारेषु स वेदवित् ॥ ७६ ॥

जिन बनस्पतियों का मूल प्रयोग करने योग्य है वे 'मूलिन' हैं । ऐसा बनस्पतियों संग्रह है, और जिन बनस्पतियों का फल उपयोगी है वे 'फलिनी' हैं, ऐसी बनस्पतियां उच्चीस हैं । चार महास्नेह हैं जैसे धीं, तैल, वसा, और मज्जा; पांच प्रकार के नमक हैं, आठ प्रकार के मूत्र और आठ ही प्रकार के दूध हैं और संशोधन के लिये छः वृक्ष पुनर्वसु आत्रेय मे कह हैं । जो विद्वान् वैद्य रोगों में हन सब का प्रयोग करना जानता है वह आयुर्वेद को भली प्रकार से जानता है ॥ ७४-७६ ॥

सोलह 'मूलिनी' ओषधियों की गणना—

हरितदन्ती हैमवती श्यामा त्रिवृदधोगुडा ।

समला इवेतनामा च प्रत्यक्ष्रेणी गवाक्ष्यपि ॥ ७७ ॥

ज्योतिष्मती च बिरदी च शणपुष्पी विषाणिका ।

अजगन्धा द्रवन्ती च क्षीरिणी चात्र घोडशी ॥ ७८ ॥

१ इस्तीदन्ती ( चका ), २ हैमवती ( इवेत वच ), ३ श्यामा ( त्रिवृत ),  
 ४ त्रिवृत ( लाल जड़ वाली निशोथ ), ५ अधोगुडा ( विधारा ), ६ सप्तला  
 ( शिका काई ), ७ श्वेतनाम ( इवेत कोयल ), ८ प्रत्यक्ष्मेणी ( दन्ती जमाल-  
 गोटा ), ९ गवाक्षी ( इन्द्रायण ), १० उयोतिष्मती ( माल कंगनी ), ११ विम्बी  
 ( कन्दूरी ), १२ शणपुष्पी ( ज्ञन शर्नियां ), १३ विषाणिका ( उत्तरण ), १४  
 अजगन्धा ( ढूक ), १५ द्रवन्ती ( जंगली एरण्ड ), १६ क्षीरिणी ( हिरवी )  
 ये सांलह हैं ॥ ७७-७८ ॥

इनके कर्म—

शणपुष्पी च विम्बी च छद्मेन हैमवत्यपि ।

श्वेता उयोतिष्मती चैव योज्या शीर्षविरेचने ॥ ७६ ॥

एकादशावशिष्टा याः प्रयोज्यास्ता विरेचने ।

इत्युक्ता नामकर्मभ्यां मूलिन्यः, फलिन्नाः शृणु ॥ ८० ॥

ऊपर कही हुई सांलह मूलिनी आपवियों में, शणपुष्पी, विम्बी, और हैम-  
 वती ( इवेतवचा ) ये तीन वमन कार्य में प्रयोग करनी चाहिये, इवेत अपराजि-  
 ता, उयोतिष्मती ये दोनों शिरंविरेचन में, और शोय ग्यारह बनस्पतियां विरेचन  
 कार्य में प्रयोग करनी चाहिये । सब कामों में इनके मूल ही काम में लाने चाहिये ।  
 इस प्रकार से ये सोलह 'मूलवाली, बनस्पतियां नाम और कर्म सहित कह दी  
 गयी हैं । 'फलिन्ना' बनस्पतियों का नाम सुनो ॥ ७६-८० ॥

शङ्खिन्यथ विडङ्गानि त्रपुरुष मदनानि च ।

आनूर्प स्थलजं चैव कलीतकं द्विविधं स्मृतम् ॥ ८१ ॥

धामार्गवमथेष्ठवाकु जीमूतं कृतवेघनम् ।

प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्यक्षपुष्पा तथाऽभया ।

अन्तः कोटरपुष्पी च हस्तिपण्याश्च शारदम् ॥ ८२ ॥

कम्पिल्लकारगवधयोः फलं यत्कुटजस्य च ।

धामार्गवमथेष्ठवाकु जीमूतं कृतवेघनम् ॥ ८३ ॥

शंखिनी, विडङ्ग ( वायविडग ), त्रपुष ( खीरा, ककड़ी ) मदन ( मैन-  
 फल ), आनूप कलीतक ( जल में पैदा होने वाली मुलहैठी ), स्थलज कलीतक  
 ( शुष्क भूमि में पैदा होने वाली मुलहैठी ), धामार्गव ( बड़ी तुरई ) हस्तवाकु  
 ( कडवी तुरई ), जीमूत ( बन्दाल ), कृतवेघन ( तुरई ), कडुकी प्रकीर्या  
 और उदकीर्या ( दो प्रकार के करंज ), प्रत्यक्षपुष्पा ( अपामार्ग ), अभया  
 ( हरड़ ), अन्तःकोटरपुष्पी ( धाव पत्ता ), शारदा हस्तिपण्यां के

शरद् ऋतु में उत्सव फल ), कम्पिष्ठक ( कमीला ), आरग्वध ( अमलतास ), कुटज ( कूड़े का फल, इन्द्र जौ ), ये १६ 'फलिनी' वनस्पतियां हैं ॥ ८१-८३ ॥

इनके कर्म—

मदनं कुटजं चैव त्रपुयं हस्तिपर्णिनी ।

एतानि वमने चैव योज्यान्यास्थापनेषु च ॥ ८४ ॥

नस्तः प्रच्छर्द्दने चैव प्रत्यक्षुष्णा विधीयते ।

दश यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने ॥ ८५ ॥

धामार्गव, इक्ष्याकु, जीमूत, अमलतास, भैनफल, कूड़े का फल, सूंगा, और हस्तिपर्णी के शरद् ऋतु में उत्पन्न फल ये आठ वनस्पतियां वमन, आस्थापन और निरुद्ध वस्ति कर्म में प्रयोग करना चाहिये ।

अपामार्ग ( चिरचिटे ) का फल नस्य कर्म में प्रयोग करना चाहिये । और शेष दस वनस्पतियों का प्रयोग विरेचन कार्य में करना चाहिये । इस प्रकार से ये १६ 'फलिनी' वनस्पतियां नाम और कर्म द्वारा कह दी हैं ॥ ८४-८५ ॥

चार प्रकार के स्नेह—

नामकर्मभिन्नकानि फलान्येकोनविशर्तः ।

सर्पिस्तैर्लं वसा मज्जा स्नेहा दृष्ट्यद्युविवः ॥ ८६ ॥

सर्पि ( धा ), तेल, वसा ( चवी ) और मज्जा ( गर्वस ) वा गुठालयों के भीतरी भाग का स्नेह, चिकनाई ) वा चार कह दी है ॥ ८६ ॥

इनके कर्म कहते हैं—

पानाभ्यञ्जनवस्त्यर्थं नस्यथ चैव यानातः ।

स्नेहना जीवना वल्या वर्णोपवयवधीनाः ॥ ८७ ॥

स्नेहा होते च विहिता वार्तापित्तकापहः ।

ये चारों स्नेह ( पान ) शरीर में मुख भाग से देने, शरीर पर मालिश करने, ( वस्ती ) गुदा या उपस्थमार्ग से देने, और ( नस्य ) नाक से देने में प्रयुक्त होते हैं । ये स्नेह शरीर का स्नेहन करते हैं, शरीर की जीवन देते हैं शरीर का तर्पण करते हैं, वल और शक्ति को बढ़ाते हैं । ये स्नेह वात, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं ॥ ८७ ॥

लवण—

सौचर्चलं सैन्धवं च विडमौद्दिदमेव च ॥ ८८ ॥

सामुद्रेण सहैतानि पञ्च स्तुर्लब्धणानि च ।

पांच प्रकार के नमक हैं । (१) सैन्धव (सैन्वा नमक) सब नमकों में श्रेष्ठ

है (२) मौर्च्छल ( संचल ), (३) (विड) काला नमक, (४) ( औद्धिद ) काच नमक और (५) सासुद्र, समुद्र के पानी से तैयार किया हुआ, ये पांच प्रकार के लबण या नमक हैं ॥ ८८ ॥

लबणों के कर्म—

स्त्रिरधान्युप्णानि तीक्ष्णानि दीपनीशतसानि च ॥ ८९ ॥

आनेपनार्थं युव्यन्ते स्तेहस्वेदविधौ तथा ।

अधोभागोऽर्धभागेषु निरुद्धनुवासने ॥ ९० ॥

अभ्युखने भोजनार्थं शिरमध्य विरेचने ।

शस्त्रकर्मणि वस्त्यर्थमञ्जनोत्सादनेषु च ॥ ९१ ॥

अज्ञीणानाहयावृत्ते गुलमे वृलं तथाद्वरे ।

उत्तरानि लबणानि, ऊर्ध्वं मूत्राण्यष्टौ लिंगोद मे ॥ ९२ ॥

जे नमक स्त्रिय, उष्ण, ताइण और दापनीव अभात् विशेष रूप से अर्ग्न वद्वानेवाले हैं । ये नमक आलेपन में, स्तेहन में, और त्वेदन कार्य में, अधोभाग-विरेचन और ऊर्ध्व-विरेचन द्वारा दोपों की बाहर निकालने में, निरुद्धण में, अनुवासन में, अभ्युखन में, भोजन में, और दिर के विरेचन में, शस्त्र कर्म में, वर्त्ति अर्थात् फल वर्त्ति आदि में, अज्जन में, उत्तरान में, अज्ञीण में, अफारे में, वायु रंग में, गुलम में, शूल रंग में, और उदर रंगों में प्रयोग किये जाते हैं । ये पांचों प्रकार के नमक कह दिये ॥ ८९-९२ ॥

आठ मूत्र—

मुख्यानि यानि हाष्टानि सर्वाणशत्रेयशासने ।

अधिमूत्रमज्जामूत्रं गोमूत्रं माहिषं तथा ॥ ९३ ॥

हस्तिमूत्रमथोष्टस्य हयस्य च खरस्य च ।

अय जा मुख्य आठ मूत्र आत्रेय ऋषि ने कहे हैं वे सुनिये—

(१) भेड़ का मूत्र, (२) वकरी का मूत्र, (३) गाय का मूत्र, (४) भैंस का मूत्र, (५) हाथी का मूत्र, (६) ऊँट का मूत्र, (७) घोड़े का मूत्र और (८) गधे का मूत्र ये आठ प्रकार के मूत्र हैं<sup>१</sup> ॥ ९३ ॥

मूत्रों के सामान्य गुण—

उष्णं तीक्ष्णमथो रुक्षं कटुकं लबणान्वितम् ॥ ९४ ॥

मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च ।

१. गोऽजाविमहिषीणां तु खीणां मूत्रं प्रशस्यते ।

खरोष्ट्रेभनराश्वानां पुंसां मूत्रं हिंतं स्मृतम् ॥” भावप्रकाश ।

युक्तमास्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने ॥ ६५ ॥  
 स्वेदेष्वपि च तद्युक्तमानाहेष्वगदेषु च ।  
 उदरेष्वथ चार्शःसु गुलमकुष्ठकिलासिषु ॥ ६६ ॥  
 तद्युक्तमुपनाहेषु परिपेके तथैव च ।  
 दीपनीयं विषधनं च क्रिमिधनं चोपदिश्यते ॥ ६७ ॥  
 पाण्डुरोगोपसृष्टानामुत्तमं सर्वथोच्यते ।  
 श्लेष्माणं शमयेत्पीतं मारुतं चानुलोमयेत् ॥ ६८ ॥  
 कर्वेत्पित्तमधोभागमित्यस्मिन् गुणसंग्रहः ।  
 सामाल्येन मयोक्तस्तु, पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते ॥ ६९ ॥

ये आठों प्रकार के मूत्र गरम, तोक्षण, रुखे, कटु रस, और लवण रस से युक्त हैं । आठों प्रकार के मूत्र उत्थादन में, आलेपन में, प्रलेपन में, आस्थापन में निरूह में, विरेचन में, स्वेदन में, नाड़ोस्वेद में, आनाः अथोत् अफार में, अगद अर्थात् विपनाशक ओषधियों में प्रयुक्त होते हैं ।

उदर रोगों में, अर्द्ध रोग में, गुलम, कुठ (कोट) और किलास (कुष्ठ का भेद), उपनाह, पुलटिस आदि में, परिपेक अथोत् सेचन कार्य में, प्रयुक्त होते हैं । ये मूत्र (दीपन) अग्निदीपक, (विषधन) विपनाशक, खांर (क्रिमिधन) कुमिनाशक कहे जाते हैं । ये पाण्डु रोगियों के लिये पान, आहार और भेपज आदि कल्पना में उत्तम, हितकारी हैं । पित्ता हुवा मूत्र श्लेष्मा (कफ) को शमन करता है, बायुको अनुलोमन करता है, और पित्त को अथोमाने में खींचता है, पित्त का विरेचन करता है । ये आठों मूत्रोंके सामान्य से गुण कदम्बिये हैं ॥६५-६६॥

आठों मूत्रोंमें से एक एक के जो पृथक् २ गुण हैं वह आगे कहे जाते हैं—  
 अविमूत्रं सतिक्तं स्थातिस्तरधं पित्ताविरोधि च ।  
 आजं कपायमधुरं पश्यं दोपान्निहन्ति च ॥ १०० ॥  
 गव्यं समधुरं किञ्चिद्दोषधनं क्रिमिकुष्ठनुन् ।  
 कण्ठूलं शमयेत्पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम् ॥ १०१ ॥  
 अर्द्धशोकोदरघ्नं तु सक्षारं माहिषं सरम् !  
 हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु क्रिमिकुष्ठिनाम् ॥ १०२ ॥  
 प्रशस्तं वद्विष्मूत्रविष्पश्लेषमामयार्शसाम् ।  
 सतिक्तं श्वासकासन्नमशोन्नं चौष्ट्रमुच्यते ॥ १०३ ॥  
 वाजिना तिक्तकटुकं कुष्ठब्रणविषापहम् ।  
 खरमूत्रमपस्मारोन्मादप्रहविनाशनम् ॥ १०४ ॥

१. भेद का मूत्र घोड़ा तिक्त, स्तिर्ग्रथ एवं पित्त का अविरोधी है, वह न तो पित्त को बढ़ाता है, और न पित्त को शमन करता है ।

२. वकरी का मूत्र कथाय और मधुर रस, खांतों के लिये डितकारी है, और त्रिदोषनाशक है ।

३. गाय का मूत्र कुछ मधुर, दोषनाशक, कृमि, और कुष्ठ का नाशक है । इसके पाने से खाज शमन होता है, एवं वात आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में हितकर है ।

४. भैंस का मूत्र बवासीर, शोथ, और उदर रोगों को नाश करने वाला, घोड़ा खारा और मलभेदक है ।

५. हाथी का मूत्र नमकीन, कृमि और कुष्ठ रोग वाले पुरुषों के लिये हितकारी है । अवस्था मल और मूत्र रोग अलसक रोग, विष रोग, इलेम जन्म रोगों और बवासीर में श्रेष्ठ है ।

६. ऊँट का नूत्र घोड़ा तिक्त, श्वास, कास और अश्व रोग का नाशक है ।

७. घोड़ों का मूत्र तिक्त और कदु, कुष्ठ, विष और व्रण का नाशक है ।

८. गधे का मूत्र अपस्मार, ( मृगो, हिस्टीरिया ) उन्माद आदि ( नाग-पन ) का नाशक है ॥ १००-१०४ ॥

आठ प्रकार के दूध—

इतीहोक्तानि मूत्राणि यथासामर्थ्ययोगतः ।

अतः क्षीराणि वद्यन्ते कर्म चैपां गुणाश्च ये ॥ १०५ ॥

अविक्षीरमजार्क्षारं गोक्षीरं माहिषं च यत् ।

उष्ट्रीणामथ नारीना वडवायाः विष्यास्तथा ॥ १०६ ॥

इस प्रकार से इस शास्त्र में सामान्य और विक्षेप दोनों प्रकार से यथासामर्थ्य अथात् मूत्रों की जैसीं जैसी शक्ति हैं, वैसे गुण कह दिये हैं—

१. भेद का, २. वकरी का, ३. गाय का, ४. भैंस का, ५. ऊँटना का, ६. हयिनी का, ७. घोड़ी का और ८. गिर्यों का दूध ॥ १०५-१०६ ॥

सब दूधों के सामान्य गुण—

प्रायशो मधुरं स्तिर्ग्रथं शीतं स्तन्यं पयः स्मृतम् ।

प्रीणनं बृंहणं वृष्यं मेष्यं बल्यं मनस्करम् ॥ १०७ ॥

जीवनीयं श्रमहरं इवासकासनिवर्हणम् ।

हन्ति शोणितपित्तं च संधानं विहतस्य च ॥ १०८ ॥

सर्वप्राणभृतों सात्म्यं शमनं शोधनं तथा ।

तृष्णाद्यन् दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणश्वतेषु च ॥ १०६ ॥

पाण्डुरोगेऽम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे ।

अतीसारे ज्वरे दाहे इवयथौ च विधीयते ॥ ११० ॥

योनिशुक्रप्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च ।

पुरीये ग्रथिते पश्य वातपित्तविकारिणाम् ॥ १११ ॥

सब दूध प्रायः<sup>१</sup> मधुर रस, स्तिंग्य, शीत, ( स्तन्य ) दूध बढ़ाने वाले, ( प्रीणन ) पुष्टि देने वाले, ( वृण ) शरीर का बढ़ाने वाले; ( वृथ ) वीर्य-वर्धक, ( मेव ) बुद्धि के लिये हितकारी, ( बल्य ) शरीर को बल देने वाले, ( मनस्कर ) मन को प्रसन्न करने वाले, ( जीवनीय ) जीवन के लिये हितकारी, ( श्रमहर ) थकावट को मिटाने वाले, इवाम और कास ( कफ, कास को छोड़-कर देष्ट समस्त कासों को ) मिटाने वाले हैं । दूध रक्त वित्त का नाश करता और दूटे हुए कों जोड़ने वाला है, सब प्राणियों के लिये सात्य दोषों को शमन अथात् स्वस्थान में स्थित दोषों को शान्त करने वाला है, प्यास का नाश करने वाला, अग्नि वर्धक, क्षीण और क्षत रोगियों के ऊर्ध्वे हितकारी, पाण्डु रोग वातपित्त, शोष, गुल्म, उदर अतीभार ज्वर ( जांण ज्वर ), दाद, ( इवयथु ) शोष रोग में विशेष करके पश्य है । यानि रोगों में, शुद्ध दोषों में, मूत्रश्वलू रोग में, मलावरोग में; पश्य और हितकारी हैं । वह वातपित्त रोगियों के लिये भी पश्य है ॥ १०७—१११ ॥

दूध के कर्म कहते हैं:—

नस्यालेपावगाहेषु वम्नास्थापनेषु च ।

विरेचने स्तेनने च पयः सर्वत्र युज्यते ॥ ११२ ॥

यथाक्रमं क्षीरगुणानेकेकस्य पृथक्युथक् ।

अन्नपानादिकेऽध्याये भूयो वद्याभ्यशेषतः ॥ ११३ ॥

यह दूध नस्य कर्म में, अवगाहन किया में, आलेपन में, बमन में, आस्थापन में, वस्ति में, विरेचन में, स्नेह कर्म में, सब स्थानों पर रसायन अर्थात् वाजीकरण आदि में भी प्रयुक्त होता है । वहां पर आठों प्रकार के दूधों के गुण-कर्म सामान्य रूप में कह दिये हैं । आगे 'अन्न पान विधि' नामक अध्याय ( सूत्रस्थान अ० २७ ) में क्रमानुसार प्रत्येक दूध के गुण-कर्म पृथक् पृथक् सम्पूर्ण रूप से कहेंगे ॥ ११२—११३ ॥

अथापरे त्रयो वृक्षाः पृथग्ये फलमूलिभिः ।

१ प्रायः शब्द से ऊँटनी के दूध का निषेध है । ऊँटनी का दूध नमकीन है ।

स्तुद्यकरिष्मन्तकास्तेषामिदं कर्म पृथक्पृथक् ॥ ११४ ॥

वमनेऽश्मन्तकं विद्यास्तुहीक्षीरं विरेचने ।

क्षीरमर्मर्स्य विज्ञेयं वमने सविरेचने ॥ ११५ ॥

अब शांखन के लिये कहे हुए छः वृक्षों में तीन का दूध और तीन की त्वचा प्रयोग की जाती है । इनमें प्रयग वृक्षाले तीन वृक्ष फलिनी और मूलिनी बनस्पतियों से उत्थक हैं, उन के नाम १. मुहुरा ( धार ); २. अके ( आक ) और ३. अश्मन्तक हैं । अश्मन्तक का दूध वमन के लिये; स्तुदि का दूध विरेचन के लिये और आक का दूध वमन और विरेचन दोनों कार्यों के लिये नानना चाहिये ॥ ११४-११५ ॥

उमांक्लानपरान् द्रुष्टानामुर्वेषां हितास्त्वचः ।

पृतिकः कृष्णगन्धा च तिलचकश्च तथा तसः ॥ ११६ ॥

विरेचने प्रयोक्तव्यः पृतिकस्तिलचकमत्था ।

कृष्णगन्धा परीसर्पे शोदेष्यर्थः मु चोच्यते ॥ ११७ ॥

ददुविद्राघमण्डेषु कुष्ठेष्यलजीयु च ।

पद्मवृक्षाऽछोधनानेतानपि विद्याग्रिचक्षणः ॥ ११८ ॥

दूसरे—दोष तीन वृक्ष हैं—जनका त्वचा हितकारी है । उन वृक्षों के नाम—पृतीक ( करंज ), कृष्णगन्धा और तिलचक ( लोध ) हैं । इन में करंज और लोध वृक्ष की छाल विरेचन कार्य में प्रयुक्त होती है, और कृष्णगन्धा की छाल परि सर्प ( वीर्मर्प, इक्जीमा, त्वग् रोग में ), शोथ, अर्श रोग, दहु ( दाद ), विद्रधि, गण्डमाला, कुष्ठ और अल्जो नामक नाना रोगों में प्रयुक्त होती है ।

शिरंविरेचन में इसका प्रयोग रोगन्भिरग्रजितोय अध्याय ( विगानस्थान अ० ८ ) में कहेंगे ॥ ११६-११८ ॥

इन ऊपर कहे हुए छः वृक्षों का शोधनकारक जाने ।

उपसंहार—

इत्युक्ताः फलमूलिन्यः स्नेहाश्र लवणानि च ।

मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्र षड्ये दृष्टाः पयस्त्वचः ॥ ११९ ॥

फलिनी १६, मूलिनी १६, स्नेह ४, लवण ५, मूत्र ८, दूध ८, और शोधन वृक्ष ६, जिनके दूध और त्वचा काम में आते हैं वे कह दिये हैं ॥ ११९ ॥

\* अश्मन्तक के समान कार्य करने वाला वृक्ष अष्टा है जो महाराष्ट्रों में होता है, इसका दूध बामक है ।

ओषधीनामरूपाभ्यां जानते हृजपा वने ।

अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः ॥ १२० ॥

बकरियां चराने वाले, मेडे चराने वाले, गौवें चराने वाले और अन्य तपरवी या भील आदि जो कि जंगल में रहते हैं ये स्त्रोग ओषधियों को नाम रूप और आकृति से पहिचानते हैं ॥ १२० ॥

न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा प्रनः ।

ओषधीनां परां प्राप्ति कश्चिद्द्रोदतुनर्हति ॥ १२१ ॥

योगविद्वामरूपज्ञास्तासां तत्त्वविदुक्त्यते ।

किं पुनर्यो विज्ञानंयादांवधीः सर्वथा भिषक् ॥ १२२ ॥

योगमासां तु यो विद्याहेशकालोपपादितम् ।

पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तः ॥ १२३ ॥

ओषधियों के नाम जान लेने मान से, अथवा रूप से पहिचान लेने से भी कोई ओषधि के सम्बद्ध प्रयोग को नहीं जान सकता । इसान्त्ये शास्त्र में इनका वर्णन किया जाता है ।

जो वैद्य ओषधियों को नाम, रूप, और उनके गोप और गवांगों सहित जानता है, वह तो तत्त्वविद् है ही, जो वैद्य ओषधियों को सभी प्रकार से समझता है; उसके लिये कहना ही क्या ? और जो व्यक्ति इनके पूरुष के बल, शरीर, आहार, सार, सारम्य, सत्त्व प्रदूषित और वयस का दिनचार करके देश, काल, मात्रा के अनुसार ओषधि का जानता है वह देवांग में श्रेष्ठ है ॥ १२१-१२३ ॥

न जानी हुरे औषधियों से हानिवाँ—

यथा विषं गथा शस्त्रं यथाग्निरशनिर्यथा ।

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥ १२४ ॥

औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणोऽस्मिः ।

विज्ञातमपि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते ॥ १२५ ॥

जिस प्रकार न जाना हुआ ( मूढ़ आदमी से प्रयुक्त किया हुआ ) विष, जिस प्रकार शस्त्र, जिस प्रकार अग्नि और जिस प्रकार अशनि ( वज्र ) या ( विजली ) मृत्यु के कारण बनते हैं, उसी कार नाम रूप गुण से न जानी हुई औषधि भी मृत्यु का कारण हो सकता है और नामरूप और गुण से जानी हुई औषधि अमृत के समान है । नाम, रूप एवं गुण से न

जानी हुई औपध या जाना हुई भी देश काल आदि का विचार न करके देने से अनिष्ट के लिए होती है, वह भारी अनर्थ-उत्पन्न करती है ॥ १२४-१२५ ॥

योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत् ।

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं मंपश्चते विषम् ॥ १२६ ॥

तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिवाद्येन भेषजम् ।

धीमता किञ्चिद्दादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा ॥ १२७ ॥

तीक्ष्ण प्राणनाशक विष भी सम्यक् प्रकार से प्रयोग करने पर उत्तम औपध का कार्य करता है । औपध भी अनुचित प्रकार से प्रयोग करने पर तीक्ष्ण-प्राण नाशक विषका काम करती है ।

इसलिये अनुचित रूप में प्रयोग को जाने वाली औपधि के विष के समान होने के कारण आयु एवं आरंग को नाहने वाले तुदिमान् व्यक्ति को जाहिये कि, देश काल-मात्रा आदि का विचार न करके देने वाले मूढ़ वैद्य ने दी हुई औपधि को कभी ग्रहण न करे ॥ १२६-१२७ ॥

कुर्यान्निपतितो मृद्धिं सरोपं वासवाशनिः ।

सशेषमातुरं कुर्यान्न तद्वामतमोपधम् ॥ १२८ ॥

इन्द्र के हाथ से छटा हुआ वैद्य यदि मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो उससे वचना सम्भव हो सकता है, परन्तु मूर्ख वैद्य से दी हुई औपधि रोगी को नुसास ही कर डालती है, इससे वचना असम्भव है ॥ १२८ ॥

दुखिताय शयानाय ऋद्धानाय रोगिणे ।

यो भेषजमविज्ञाय प्राह्मानी प्रयच्छति ॥ १२९ ॥

त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः ।

नरो नरकपाती स्यात्तस्य संभापणादपि ॥ १३० ॥

जो प्राज्ञमानी-अपने को तुदिमान् गिनते वाला वैद्य, औपध को न जान कर दुःखी, अचेत पड़े, वैद्य में शदा करने वाले रोगी को औपध देता है, ऐसे धर्म को ढाँड़ देने वाले विश्वासघाती, मृत्यु के समान साक्षात् यम और दुर्मति, अश, मूढ़ वैद्य के साथ बालने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, फिर स्वर्य आदि से वयों नहीं होगा ॥ १२९-१३० ॥

वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव वा ।

पीतमत्यग्निसंतप्ता भक्षिता वाऽप्ययोगुडः ॥ १३१ ॥

न तु श्रुतवता वैषं विभ्रता शरणागतात् ।

गृहीतमन्नं पानं वा विच्चं वा रोगपीडितात् ॥ १३२ ॥

सौंप का विष अथवा ताम्बे को उताल कर पीना या आग में लाल किये हुए लोहे के गोले खा लेना, कहीं अधिक अच्छा है, परन्तु वेदा का वेप पहिनकर शरण में आये हुए रंगी से, अन्न, पान अथवा धन ग्रहण करना अच्छा नहीं ॥ १३१-१३२ ॥  
वैद्य को क्या करना चाहिये ?

**भिषगदुग्धुर्निमानतः स्वरुणपंपदि ।**

**परं प्रयत्नमातिष्ठत् प्राणदः स्वाद्यथा नृणाम् ॥ १३३ ॥**

इसलिये वैद्य बनने की इच्छा करने वाले, बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि, वैद्य के गुणों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रयत्न करे जिससे कि वह मनुष्यों के रोगों को दूर करके प्राण देने वाला सिद्ध हो ॥ १३३ ॥

**तदेव युक्तं भेषज्यं यदारोग्याय कल्पते ।**

**स चैव भिषज्ञां श्रेष्ठो रोगेभ्यो चः प्रमोचयेत् ॥ १३४ ॥**

जो औषध रोग को शान्त करने में समर्थ है; वही ढीक प्रकार से प्रयुक्त को हड्डी औपथ है और जो रोगों से रोगियां को नुक्त कर, वह ही वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य है ॥ १३४ ॥

**सम्यक्प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराग्याति वर्मणात् ।**

**सिद्धिराग्याति लवच्छ गुणर्युक्तं भिषज्ञम् ॥ १३५ ॥**

सब प्रकार के कम्भों की सिद्धि, सफलता, उन कम्भों के सम्यक् प्रयोग को बतलानी है । सफलता ही सब गुणों से युक्त नैद्य की श्रेष्ठता को भी बतलाती है । अथोन् सफलता से ही वैद्य का नाम लक्ष्मकर्ता है ॥ १३५ ॥

**अग्न्याय का संग्रह—**

**तत्र लोकाः ।**

**आयुर्चेदाग्नो हेतुराग्नस्य प्रवर्तनम् ।**

**सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुर्वेदस्य निर्णयः ॥ १३६ ॥**

**सम्पूर्णं कारणं कार्यमायुर्वेदप्रयोजनम् ।**

**हेतवश्चैव दोपाश्र भेषजं संग्रहेण च ॥ १३७ ॥**

**रसाः संप्रत्ययद्रव्याखिविधो द्रव्यसंग्रहः ।**

**मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणाति च ॥ १३८ ॥**

**मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च घड्ये क्षीरत्वगाश्रयाः ।**

**कर्मणि चेपां सर्वेषां योगायोगगुणागुणाः ॥ १३९ ॥**

१. वैद्यगुण-सम्पत्—श्रुतैः पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।

दाक्षयं शोचामिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्प्रयम् ॥

वैद्यापवादो यत्रस्थाः सर्वे च भिषजां गुणाः ।  
सर्वमेतत्समाख्यातं पूर्वाध्याये महर्पिणा ॥ १४० ॥

आयुर्वेद का मर्त्यलोक में आना, हेतु-रोगों का उत्पन्न होना, भरद्वाज मुनि द्वारा मर्त्यलोक में शास्त्रों का प्रचार, अग्निवेशादि का तन्त्र बनाना, अग्निवेशादि द्वारा बनाये हुए तन्त्रों के लिये अपारियों से दी हुई आज्ञा, हिताहित आदि लक्षण रूप सामान्यादि छः कारण, काय्य-धातुओं को समान करना आयुर्वेद का प्रयोजन है, यंत्रेषु रोगों के कारण, काल, तुष्टि, इन्द्रियार्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हों: दोष वात, पित्त, कफ, इनकी आंपथ; आकाश आदि तीन, द्रव्य, जल और पृथिवी, इनके साथ, रसमधुर आदि, द्रव्यसंग्रह; शमन आदि; एवं चंगम आदि के मेद सं, नूलवान्-हस्तिदन्ती आदि, सालह; फलिनी-शंखिनी आदि उच्चीस; स्नेह धो आदि चार, महास्नेह; लवण-सौवर्चल आदि पांच; मूथ आठ; क्षीर आठ, दूध बाले वृक्ष, छाल बाले स्तुही, पूतीक आदि छः वृक्ष; इनके वमन-वर्चन आदि सद कर्म; आंपथ के सम्यक् योग से जो गुण और असम्यक् योग से जो दुर्गुण हैं; मृदु वैद्य का निन्दा और सब गुणों से ऊँक वैद्य के लक्षण; वह सब इस प्रथम ‘दीर्घजीवितीव’ नामक अध्याय में महर्पि भगवान् आपेय ने सम्यक् प्रश्नार संकह दिया है ॥ १३६-१४० ॥

हृत्याग्नवेशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतं सूत्रस्थाने सभापाभाष्ये भेषज-

चतुर्थं दीर्घजीवितीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

### अथ छृतीयोऽध्यायः

अथातोऽपामार्गतण्डुलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

वमन आदि पांच कर्म स्वस्थ एवं रोगों दानों व्यक्तियों के लिये उपदोगी हैं। इसलिये पूर्व अध्याय में कहे हुए वमन आदि के द्रव्यों को अन्य द्रव्यों के साथ मिला कर इस अध्याय का अवतरण करते हैं।

अपामार्ग (चिरचिटा) के बीजों का तुप रहित करके, तण्डुल बना कर काम में लाना चाहिए, यह बताने के लिये ‘अपामार्ग-न्षण्डुलीय’ अध्याय है।

अपामार्गस्य वीजानि पिष्ठलीर्मिरिचानि च ।

विढङ्गान्यथ शिमणि सर्षपास्तुम्बुरुणि च ॥ ३ ॥

अजाजीं चाजगन्धा च पीलून्येला हरेणकम् ।  
 पृथ्वीका सुरसां श्वेता कुठेरकफणिज्जकौ ॥ ४ ॥  
 शिरीषवींजं लशुनं हरिद्रे लवणद्रव्यम् ।  
 ज्योतिष्मतीं नागरं च दद्याच्छीर्षविरेचने ॥ ५ ॥  
 गौरवे शिरसः शूले पीनसेऽर्धावभेदके ।  
 क्रिमिव्याधावपस्मारे द्वाणनाशे प्रमोहके ॥ ६ ॥

अपामार्ग ( चिरचिटे ) के तण्डुल, विष्पली, मरिच, वायविडंग, सहंजना के थीज, इवेत सरसों, तेजबल के थीज, जीरा, अजमोदा ( तिलबन ), पांडु, एला ( छोटी इलायची ), हरेणु ( रेणुका, मेंढटी के थीज ), पृथ्वीका ( कलौंजी ), सुरसा ( काली तुलसी ), इवेता ( अगराजिता ), कुठेरक ( मरवा ), फणिजक ( तुलसी का भेद ), शिरांष थोज ( सिरस के थीज ), लशुन ( लहसन ), दांनों हरिद्रा ( हल्दी और दाढ़ हल्दी ), दांनों लवण ( सैन्धव और सौन्खर्चल ), ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), आंर नागर ( ढोठ ) ये शिरोविरेचन के लिये उपयोग में लानी चाहिये ।

इन उपरोक्त खोयवियों में 'श्वेता' और 'ज्योतिष्मती' ये दो द्रव्य 'मूलिको' आयवियों में गिने गये हैं । इसलिये इनका मूल प्रवृण करना चाहिये, और अपामार्ग ( चिरचिटा ) के तण्डुल उपयोग में लाने चाहिये ।

( गौरव ) शिर के भारीवन में ( शिरःशूल ) शिर के हुखने में, ( पीनष ) नाक से दुर्गन्ध युक्त द्वाव, कफ आता हो, ( अद्वावभेदक ) आधा शिर दुःखता हो, ( कृमि-व्याधि ) कृमि जन्म द्विरो रोग में, ( अनस्मार ) मृगी में, ( द्वाण नाश ) द्वाण शक्ति के नष्ट होने पर और ( प्रमोहक ) मूँह इन रोगों में शिरो विरेचन के रूपमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३-६ ॥

#### वमनकारक द्रव्य—

मदनं मधुकं निम्बं जीमूतं कृतवेधनम् ।  
 विष्पलीकुटजेक्ष्वाकूण्येला धामार्गवाणि च ॥ ७ ॥  
 उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये ।  
 वमनार्थं प्रयुज्जीत भिषग देहमदूषयन् ॥ ८ ॥

मदन ( मैनफल ), मधुक ( मुलहेठी ), नीम ( नीम की छाल ), जीमूत ( कहुवी तुरई ), कृतवेधन ( कडवा तुम्बा ), विष्पली, कुटज ( कुडा ), इक्ष्वाकु ( कहुवी घिया या आल ), एला ( छोटी इलायची ) धामार्गव ( तुरई

कहुची ) ये दस वस्तुएँ कफपित्त जन्य व्याधि में अथवा आमादय में आश्रित व्याधि की अवस्था में, शरीर को हानि किये बिना वैद्य वमन के लिये देवे ।

इनमें मदन, मधुक, जीमूत, कृतवेगम, कुटज, इक्ष्वाकु और धामार्गव इनका फल लेना चाहिये और पिपली इलायची का भी फल तथा नीम की छाल लेनी चाहिये ॥ ७-८ ॥

विरंचन द्रव्य—

त्रिवृतां त्रिफलां दन्तीं नलिनीं सप्तलां वचाम् ।  
कम्पिलकं गवाक्षीं च क्षीरिणीमुदकार्यकाम् ॥ ९ ॥  
पीलून्यारम्बधं द्राश्र्मा द्रवन्तीं निचुलानि च ।  
पक्षाशयगते दोषे विरकार्यं प्रयोजयन् ॥ १० ॥

त्रिवृत ( निशांथ ) त्रिफला ( हरड, वहेडा, आंवला ), दन्ती ( जमाल-गोटा ), नीलिनी ( नील का मूल ), सप्तला ( शिकाकाई ), वच, कम्पिलक ( कमीला ), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), क्षीरिणी ( इरबी ) उदकार्या ( नाटा करञ्ज ), पीलू फल, आरम्बध ( अमलतात ), द्रवन्ती ( वडा जमाल गोटा ), निचुल ( हिजल फल ), ये वस्तुएँ दोषे के पक्षाशय में स्थित होने पर विरंचन के लिये देनी चाहिये ( शर्गर में अन्यत्र स्थित होने पर नहीं ) ।

इन में त्रिवृत, नागदन्ती, सप्तला गवाक्षी, क्षीरिणी, और द्रवन्ती का मूल लेना चाहिये, और नीलिनी, तथा वच का भी मूल और शेषों का फल म्रहण करना चाहिये ॥ ९-१० ॥

आस्थापन और अनुवासन के द्रव्य—

पाटलीं चाग्निमन्थं च विलवं श्योनाकमेव च ।  
काशमर्यं शालपर्णीं च पृदिनपर्णीं निदिग्धिकाम् ॥ ११ ॥  
बलां श्वदंष्ट्रां वृहत्तिमेरण्डं सपुनर्नवम् ।  
यवान् कुलत्थान् कोलानि गुह्यचीं मदनानि च ॥ १२ ॥  
पलाशं कत्तूर्णं चैव स्नेहांश्च लवणानि च ।  
उदावर्ते विवन्धेषु युक्त्यादास्थापने सदा ।  
अत एवोषधगणात्संकल्प्यमनुवासनम् ।  
माहत्तद्धनमिति प्रोक्तः संग्रहः पाञ्चकमिकः ॥ १३ ॥

पाटला ( पाढल ), अग्निमन्थ ( अरणी ), विलव ( बेल ), श्योनाक ( टेंटु, शोनापाडा ), काशमरी ( गम्भारी ), शालपर्णी ( सलवन ), पृदिनपर्णी ( पोठा-पर्णी ), निदिग्धिका ( कटेरी, भटकटौया ), बला ( खरेंटी ), श्वदंष्ट्रा ( गोखरु )

बृहती ( बड़ी कट्टेरी ), एरण्ड ( एरण्डमूल ), पुनर्वा ( साँडी वास ), यव ( जौ ), कुञ्चि ( कुलधी ), काल ( वेर ), गुद्धचा ( मिलोय ), मदन ( मैनफल ), पलाश ( ढाक ), कत्तूण ( राणिप द्रुण ), स्नेह ( चारों स्नेह धी आदि ), लवण ( पांचों नमक ) वे उनर्तीत द्रव्य ( उदारवत्ति ) अग्न वायु का ऊर्ध्व गति होने पर, विन्यव मल भूत आदि के अपरोक्ष में और आस्थापन नामक वस्ति कर्म में प्रयोग करने चाहये । इन्हीं औंप्रयोगों ने अनुवासन वस्ति बना कर वायु को नष्ट करने के लिये प्रयोग करनी चाहिये । यह स्थेष में पंच कर्म ( बमन, विरेचन, नस्य, आस्थापन और अनुवासन ) कह दिये हैं ॥ ११-१४ ॥

तान्युपास्थतदोपाणां स्नेहस्वेदोपपादनः ।

पञ्च कर्माणि कुर्वति मात्राकालौ विनारयन् ॥ १५ ॥

प्रवृत्त होने के लिये तेथार दोप वालों को न्याहन और स्वेदन कराके, शरीरन्बल की अपेक्षा से मात्रा और काल का विनार वरके वेद्य पञ्च कर्मों का करावे ॥ १५ ॥

मात्रा और काल के विचार करने का आवश्यकता ।

मात्राकालाश्रदा युक्तिः, सिद्धिर्युक्तो प्रविन्दिप्रता ।

तिष्ठत्युपार युक्तिश्चा द्रव्यज्ञानवत्ता चदा ॥ १६ ॥

पदार्थों का जानना मात्रा और काल पर अस्वर्मित है । शरीरदृष्टि, अंन-बल, आयु, व्याधिबल, दोषबल आदि के अनुकूल भाव और विशेष समय में प्रयुक्त हुआ द्रव्य भलो प्रकार अग्न ऊर्ध्व धो कर सकता है । तिद्वि चिकित्सित किया की सफलता युक्ति में आश्रित है । जो जानना का जानन याला वैद्य द्रव्य-ओषध को जानने वालों में से सदा श्रेष्ठ है । उस तथा आनुर पुरुषों के लिये पंच कर्मों का उपदेश कर चुक ॥ १६ ॥

रोगियों के लिये आहार विशेष यवागूः—

अत ऊर्ध्व प्रवद्ध्यामि यवागूर्विधीपधाः ।

विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये ॥ १७ ॥

इसके आगे यवागू से अच्छे होने वाले नाना प्रकार के रोगों के नाश के लिये नाना प्रकार की ओषधियों से सिद्ध यवागू ( लाप्टी ) कहेंगे ॥ १७ ॥

पिण्डलीपिण्डलीमूलच्वच्वचित्रकनागरैः ।

यवागूर्वपनीया स्थान्त्रूलघ्नी चोपसाधिता ॥ १८ ॥

१. जिस प्रकार मृदु-विरेचक ओषधियां रात्रि को सोने समय छेने से उत्तम गुण करती हैं ।

चूंकि आरोग्य का मूल साधन कोष्ठाग्नि है, इस लिये सब से मुख्य वस्तु कोष्ठाग्नि है। अतः अग्नि का सन्दीपन करने के लिये यवागू कहते हैं,

( १ ) पिप्पली, पिप्पली मूल ( पीपला मूल ), ( चब्ब ) चतिका, ( चित्रक ) चीता, सोठ इन से बनाई हुई यवागू ( दापनी ) अग्निवर्धक और शूलनाशक होती है ॥ १८ ॥

यवागू तीन प्रकार की है, १. यवागू जो छः गुने जल में पकती है, २. मण्ड चौदह गुने जल में और ३. चिलेंगा चार गुने जल में पकाई जाती है।

दधित्य-विल्व-चाङ्गर्णा-नक्र-दाढम-साधिता ।

पाचनी प्राहिणी पेया, सबाते पाढ़ चमूलिकी ॥ १९ ॥

( २ ) दधित्य ( कैथ ), विल्व ( बेलागर्णी-न्यूदा ), चांगरी ( चोपतिया ), तक ( आछ ), दाढम ( अनारदाना ) इन से बनाई हुई यवागू 'पाचनी' पाचन करने वाली 'प्राहिणी' अर्थात् स्तम्भक वा मल को रोकने वाली है।

( ३ ) पंच मूल बृहत्पञ्चमूल-शालपर्णा, पृश्निपर्णा, कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू-यह पांच वातहर हैं इनसे साधित यवागू वातविकार के लिये उपयोगी है ॥ १९ ॥

शालपर्णी-बला-बिल्वः पृश्निपर्णा च साधिता ।

दाढिमास्ला हिता पेया पित्तश्लेष्मातिसारिणाम् ॥ २० ॥

( ४ ) शालपर्णी ( शालवन ), बला ( खरैटी ), बिल्व ( बेलगिरी ), और पृश्निपर्णी ( पीटापर्णी ) इन से बनाई तथा अनार के रस से खट्टी की हुई यवागू पित्त-श्लेष्म जन्य अतिशार रांग में हितकारी है ॥ २० ॥

पयस्यर्धोदके छागे हीवेरोत्पलनागरैः ।

पेया रक्तातिसारधनी पृश्निपर्णा च साधिता ॥ २१ ॥

( ५ ) बकरी का जितना दूध हो, उससे आधा पानी इस में मिला कर ( मिलित परिमाण छः गुना ), हाँवेर ( नेत्रवाला ), उत्पल ( कमलगटा ) और सोठ, और पृष्ठपर्णी ( पिठवन ) ये एक कर्व मात्रा लेकर यवागू सिद्ध करनी चाहिये। यह यवागू रक्तातिसार को नष्ट करती है ॥ २१ ॥

१. पिप्पली आदि सब साधन द्रव्य मिलकर एक कर्व अर्थात् चार मासे लेने चाहिये। इसको थोड़ा कूट लेना चाहिये, पकाने में आधा पानी जलाना चाहिये, पानी की मात्रा के मेद से नाना मेद हो जाते हैं।

दद्यात्सतिविषा पेयां सामे साम्ली सनागराम् ।

श्वद्धृष्टकारीङ्यां मूत्रकृच्छ्रे सफापिताम् ॥ २२ ॥

( ६ ) अतिविषा ( अतीत ), नागर ( सोठ ) इनके कथाय अथवा कल्प से छः गुने जल में यवागू सिद्ध करे, इसे अनार के रस से खट्टी कर के आमातिसार ( रक्तातिसार ) में दे ।

( ७ ) मूत्र कृच्छ्र रोग में श्वदंश्वा ( गोखरु ) और कण्टकारी ( कटेरी ) इन के कथाय या कल्प से छः गुने जल में यवागू सिद्ध करके इस में फाणित ( राब, आधा पका गुड ) डाल दे ॥ २२ ॥

विढङ्ग-पिप्पलीमूल-शिशुभिर्मिचेन च ।

तक्रसिद्धा यवागूः स्वातिकमिघ्नी ससुवर्चिका ॥ २३ ॥

( ८ ) वायविंडग, पिप्पलीमूल, शिशु ( सहजना ) और मरिच इनके कल्प से छः गुने तक में सिद्ध की हुई यवागू में सुवर्चिका ( सीवचंल नमक) डालकर रोगी को देने से कृमि नष्ट होते हैं । यहाँ पानी के स्थान पर तक्र का प्रयोग करे ॥

मृद्वीका-सारिवा-लाजा-पिप्पली-मधुनागरैः ।

पिपासाद्धनी, विपद्धनी च सोमराज्ञविपाचिता ॥ २४ ॥

( ९ ) मृद्वीका ( द्राक्षा दाख ) सारिवा ( अनन्त मूल ) लाजा ( खोले ), पिप्पली, और सोठ इन के कल्प या कथाय से यवागू को छः गुने जल में सिद्ध करे । उण्डा होने पर इस में शहद मिला कर पीने से प्यास शान्त होती है ।

( १० ) सामराजी ( बावची ) से सिद्ध की हुई यवागू 'विषज्ञी' अर्थात् याए हुए चिष्ठ को नष्ट करने वाली है ॥ २४ ॥

सिद्धा वराहनिर्यूहे यवागूर्ध्वैष्णी मता ।

गवेषुकाना भृष्टाना कर्षणीया समाक्षिका ॥ २५ ॥

( ११ ) सुअर के मांस रस में सिद्ध की हुई यवागू पुष्टि कारक होती है ।

( १२ ) भूते हुए गेहुओं के सत्तू से बनाई हुई यवागू में शहद मिला कर लेने से शरीर पतला होता है ॥ २५ ॥

सर्पिष्मती बहुतिला स्नेहनी लक्षणान्विता ।

कुशामलकनिर्यूहे इयामाकाना विरुक्षणी ॥ २६ ॥

( १३ ) धी वाली, तिलयुक्त नमकीन यवागू स्नेहकारक है । वह शरीर को स्त्रिय बनाती है । तिलों के साथ कुच चावल मिला लें । यवागू सिद्ध करके फिर इस में भी और नमक मिलावें ।

( १४ ) कुश ( दाम ) को जड़ और आमलक ( आवले का फल ) इनको एक २ कर्ण लेकर छः गुने जल में कषाय करे इसमें श्यामाक तण्डुल पाक कर के सिद्ध करनी चाहिये । यह पान करने योग्य यवागू शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है ॥ २६ ॥

दशमूलोशृता कास-हिक्का-यवास-कफापहा ।

यमके मदिरासिद्धा पकाशयरुजापहा ॥ २७ ॥

( १५ ) दशमूल ( शालपर्णी, पृथिनपर्णी, कटेरी, शृङ्खली, गोखरु, चिल्व, श्योनाक, अरणी, गम्भारी, पाठा ) से सिद्ध की हुई यवागू कास, हिक्का, श्वास और कफ को नष्ट करती है ।

( १६ ) यमक अर्थात् समान भाग धी और तैल लेकर इन में भूनी हुई एवं पानी के स्थान पर मदिरा लेकर उनमें सिद्ध की हुई यवागू ( मदिरा मिलाकर देने से ) पकाशय की पीड़ा को मिटाती है ॥ २७ ॥

शाकैमांसैस्तिलंभर्यैः सिद्धा वर्चो निरस्यति ।

जम्बवाम्रास्थिन्-दधित्याम्ल-चिल्वैः सांग्राहिकी मता ॥ २८ ॥

( १७ ) 'शाक' ( हरी सब्जियाँ ) मांस, तिल, माष ( उड्ढ ) इन के कल्प और कषाय से सिद्ध की हुई यवागू मल को बाहर निकालती है ।

( १८ ) जम्बु-अस्थिय ( जामुन की गुठली ) आम्रास्थिय ( आम की गुठली की गिरी ) दधित्याम्ल ( कैथ कच्चा, खट्टी अवस्था में ), चिल्व ( बेलगिरी कच्चे हरे ), इनसे सिद्ध की हुई यवागू 'स्तम्भक' है ॥ २८ ॥

क्षार-चित्रक-हिङ्गवम्ल-वेतसंर्भेदिनी मता ।

अभया-पिप्पलीमूल-विश्वैर्वौतानुलोमनी ॥ २९ ॥

( १९ ) क्षार ( जवाखार <sup>२</sup> ), चित्रक ( चीतामूल ), हींग, अम्लवेतस ( अमलवेत ), इन से सिद्ध की हुई यवागू मल को भेदन करके बाहर निकालती है ।

( २० ) अभया ( जंगी हरड ), पीपल मूल और विश्व ( सोठ ) इन से

१ 'यमक' एक भाग धी और एक भाग तैल परस्पर समान और एक भाग मदिरा लेनी चाहिये । जयवा मूंग की दाल और लाठी के चाबल परस्पर समान भाग मिलाकर मदिरा में यवागू सिद्ध करनी चाहिये । ( जल्प कल्प-तरु )

२. जवाखार बनाने के लिये हरे जबो को आग में स्वच्छ स्थान में आड़ा लेना चाहिये । जिस इस को पानी में धोककर वज्र में से छान लेना चाहिये । छाने हुए पदार्थ को आग पर गरम करके शुष्क कर लेना चाहिये ।

सिद्ध की हुई यवागू वात का अनुलोमन अर्थात् कफ वातादि दांशों का परिपाक करके मल को अच्छी प्रकार से बाहर करती है ॥ २६ ॥

**तकसिद्धा यवागूः स्याद् घृतव्यापत्तिनाशिनी ।**

**तैलव्यापदि शस्ता तु तकपिण्याकसाधिता ॥ ३० ॥**

( २१ ) छाँ में सिद्ध की हुई यवागू धी के अधिक खाने से उत्पन्न विकार को नष्ट करती है ।

( २२ ) छाँ और पिण्याक ( खल ) से सिद्ध की हुई यवागू तैल के अधिक खाने से उत्पन्न व्याधि में देने योग्य है ॥ ३० ॥

**गव्यमांसरसैः साम्ला विषमज्वरनाशिनी ।**

**कण्ठ्या यवानां यमके पिष्पल्यामलकैः शृता ॥ ३१ ॥**

( २३ ) गाय के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागू को अनार, आंबला आदि ज्वर नाशक खटाई से खटा करके देने पर चिपम ज्वर नष्ट होता है ।

( २४ ) जौ को समान भाग लेकर धी और तैँड में भूनकर पिष्पली और आंबले इनके कथाय या कलक से सिद्ध की हुई यवागू कण्ठ के रोगों के लिये हितकर है ॥ ३१ ॥

**ताम्रचूदरसे सिद्धा रेतोमार्गरुजापदा ।**

**समापविदला वृष्या घृतक्षीरोपसाधिता ॥ ३२ ॥**

( २५ ) 'ताम्रचूद' अर्थात् कुकुट के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागू शुक्र मार्ग की पीड़ा को मिटाती है ।

( २६ ) जल के स्थान पर दूध और घृत यथापरिमाण में लेकर उनमें उड्ड की दाल या इसकी पिसी हुई पिढ़ी को पहिले धी में भूनकर दूध में यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह शुकवर्धक है ॥ ३२ ॥

**उपोदिकादधिभ्यां तु सिद्धा मदविनाशिनी ।**

**क्षुधं हन्यादपामार्गक्षीरगोधारसे शृता ॥ ३३ ॥**

( २७ ) उपोदिका अर्थात् पोई को कलक रूप में तथा दही को पानी के स्थान में लेकर यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह यवागू धूत्रे आदि के विष को नष्ट करती है । पोई और दही से सिद्ध की यवागू मद नाशक है ।

( २८ ) चिरचिटे के चावलों को दूध और गोइ के मांस में पकाकर यवागू सिद्ध करे । इस से भूख का नाश होता है । यहाँ पर जल वा सादे चावल नहीं प्रयुक्त होते ॥ ३३ ॥

उपसंहार—

तत्र श्लोकाः ।

अष्टाविंशतिरित्येता यवाग्वः परिकीर्तिः ।  
पञ्चकर्माणि चाश्रित्य प्राक्तो भैपञ्चसंग्रहः ॥ ३३ ॥  
पूर्वं मूलफलद्वानहेतोरुच्चं यदौपथम् ।  
पञ्चकर्माश्रयज्ञानहनोस्तत्कीर्तिं पुनः ॥ ३५ ॥

इस अध्याय में अष्टाविंशति एवं पञ्चकर्म की यवाग्व कह दी हैं और पंच कर्म (वमन, विरेचन, नस्य, आस्थापन और अनुग्रासन) इन के बोध्य औपविष्यों भी कह दी हैं। मूलिनी, फलनी आदि का ज्ञान करने के लिये जो औपविष्यों प्रथम अध्याय में कही हैं, वे औपविष्यों पंचकर्मों ऐ वाचन व्याख्यियों में उपयुक्त हैं, इसलिये यहाँ पर किरणियाँ हैं ॥ ३४-३५ ॥

स्मृतिमान् युक्तिदेवुक्तो जितात्मा प्रतिपत्तिमान् ।  
भिषग्गोपधमस्योगेश्चिकित्सा कर्तुमर्हति ॥ ३६ ॥

( स्मृतिमान् ) स्मरण शार्क वाला, ( देवुक्त ) रोग के कारण का जानने वाला, ( युक्तिज्ञ ) योग्यना, व्याधि के भावन रूप ऐपञ्च की कल्पना को जानने वाला, अथवा मात्रा की भाँति द्रव्य, व्याधि वद और व्यार्थ रूप को जानने वाला, ( जितात्मा ) भ्रम-प्रबन्ध रहित, ( प्रतिपत्तिमान् ) उत्तम सूक्ष्म वाला, वैद्य औपविष्यों के योग से उपचार करने में समर्थ हो जाकरा है ॥ ३६ ॥

इत्यन्वेशाङ्कते तन्मे २२कप्रतिसंकुर्ते सूत्रस्थाने समाप्ताभाष्ये भेषज-  
चतुष्केऽपामागत्पूर्वलोक्यो दाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

अथात आरग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
इति ह स्माईऽभगवानात्रेयः ॥ २ ॥

गोगी की हितकामना से यवाग्व कहकर उसी प्रसंग में प्रदेह चूर्ण आदि कहते हैं। इसके लिये ‘आरग्वधीय’ नामक तीसरे अध्याय का व्याख्यान करते हैं ऐसा भगवान् आत्रेय कहते हैं। इस अध्याय का आरग्म ‘आरग्वध’ से हुआ है, इसलिये इस अध्याय का नाम आरग्वधीय है ॥१-२॥

आरग्वधः सैडगजः करञ्जो वासा गुद्धची मदनं हरिद्रे ।  
श्राहः सुराहः खदिरो धवश्च निष्ठो विष्वङ्गं करवीरकत्वक् ॥३॥  
प्रन्थिश्च भौजों लशुनः शिरीषः सलोमशो गुगुलुकृष्णगन्धे ।  
फणिजको वत्सकसप्तपौं पीलूनि कुष्ठं सुमनःप्रवालाः ॥४॥  
वचा हरेणुविष्वता निकुम्भो भल्लातकं गैरिकमञ्जनञ्च ।  
मनःशिलाले गृहधूम एला काशीसलोध्रार्जुनमुस्तसर्जाः ॥५॥  
इत्यर्धरूपैर्विहिताः षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः ।  
सिद्धाः परं सर्षपतैलयुक्ताशूर्णप्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः ॥६॥  
कुष्ठानि कुच्छाणि नवं किलासं सुरेन्द्रलुम् किटिभं सददु ।  
भगन्दराशास्त्यपचीं सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम् ॥७॥

‘आरग्वध’ से लेकर ‘सर्ज’ इस शब्द तक तीन श्लोकों में कहे हुए छः योग हैं, इनको गाय के पित्त में पीस कर काम में लाना चाहिये । यथा—  
(१) आरग्वध (अमलतास), ऐडगज (पनवाह), करञ्ज ( नाटा करंज ), वासा (वासे के पत्ते), गुद्धची (गिलोय), मदन ( मैनफल ), दों हरिद्रा ( हल्दी और दाढ़ हल्दी ) । (२) श्राह ( गन्दा विराजा ), सुरा ( देवदार ), खदिर ( खैर ), और धव ( धावन ), निष्ठा ( नीम के पत्ते ), विष्वंग ( वायविषंग ), करवीरत्वक् ( कनेर की छाल ) यह दूसरा । (३) भोजयत्र की गाठें, लशुन ( लहसन ), शिरीष (सिरस की छाल), लोमशा ( जटामांस ), गृगल, कृष्ण-गन्धा ( सहजना ) यह तीसरा । (४) फणिजक ( मरवा ) वत्सक (इन्द्र जौ) सप्तपौं ( सातवन ), पीलू कुष्ठ ( कूठ ), सुमनःप्रवाल ( जमेली के कांमल पत्ते ) यह चौथा । (५) वचा ( वच ), हरेणु ( रेणुका चाँज, मैहदी के बीज ), विष्वत् ( निशोय ), निकुम्भ ( जमाल गोटा ), भल्लातक ( भिलावा ), गैरिक ( गेरु ), अंजन ( रसाञ्जन ), यह पांचवां, (६) मनःशिला ( मैनसिल ), आल ( हरिताल ), गृहधूम ( घरका धुआसा ), एला ( छोटी इलायची ), काशीस ( पुष्प कासांस ), लोध्र ( पठानी लोध ), अर्जुन ( अर्जुन वृक्ष की छाल ), मुस्ता (नागरमोथा ), सर्ज ( राल ) यह छठा योग हुआ ।

इनमें से किसी योग को चूर्ण के रूप में तैयार करके गाय के पित्त के साथ फिर पीसे । फिर इसको सरसों के तेल में मिला कर द्रव रूप बनाकर लगाने से कष्टसाध्य कुष्ठरोग, नया किलास इन्द्रलुम वालों का गिरना किटिम ( कुष्ठ मेद ) दहु ( दाद ), भगन्दर बवासीर, चर्मकील, अपची ( न पकने वाली गाठें ) और पामा ( खाज ) शीघ्र ही मनुष्यों के नष्ट होते हैं ॥ ३-७ ॥

अथ सातवां योग कहते हैं—

कुष्ठं हरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्वगन्धे सुरदारु शिशु ।

सप्तर्षेण तुम्बुरुधान्यवन्यं चण्डा च चूर्णानि समानि कुर्यात् ॥८॥  
तैलाक्तमुद्रितयितुं यतेत ।

तेनास्य कण्डः पिङ्काः सकोठाः कुष्ठानि शाफाश्व शमं ब्रजन्ति ॥९॥

कुष्ठ ( कूठ ), दोनों हल्दी ( दारुहल्दा और हल्दी ), सुरसा ( तुलसी ), पटोल ( परबल ), निम्ब ( नीम के पत्ते ), अश्वगन्धा ( असमन्ध ), सुरदारु ( देवदार ), शिशु ( सहजना ), सर्पण ( श्वेत सरसों ), तुम्बुरु, धान्य ( धनिया ) वन्य ( कैवर्च मुस्ता ), चण्डा ( चोरक ) इन पन्द्रह औषधियों को परस्पर समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण का छाल में पीसकर शरीर पर लगाना चाहिए । शरीर पर लगाने से पूर्व तैल का उबटन लगा लेना चाहिये । इस लेप के लगाने से कण्डः ( खाज़ ), पिङ्काः ( छोटी २ फुन्सियाँ ), कोठ ( न दबने वाली फुन्सियाँ ), कुष्ठ काढ और शाफः ( सूजन ) नष्ट होते हैं ॥८-९॥

आठवां योग—

कुष्ठमृतासङ्ककटङ्गटेरीकाशीसकमिञ्जकलोधमुस्ताः ।

सौगन्धिकं सर्जरसो विङ्गङ्गं मनःशिलाले करवीरकत्वक् ॥ १० ॥

तैलाक्तग्रस्य कृतानि चूर्णान्येतानि दद्याद्वचूणनार्थम् ।

दद्रः सकण्डः किटिभानि पामा विचर्चिका चैव तथेति शान्तिम् ॥ ११ ॥

कुष्ठ ( कूठ ), अमृता ( गिलोय ), संग ( नीला तुत्य ), कट्कटेरी ( दाद हल्दी ), काशीस ( हीरा कसीस ), कमिञ्जक ( कमीला ), मुस्त ( नागर मोथा ), लोध ( पठानी लोध ), सौगन्धिक ( कह्वार पुष्प, सुगन्धि ), सर्जरस ( राल ), मनःशिला ( मैनसिल ), आल ( हरताल ), करवोरत्वक् ( कनेर को छाल ), इन चौदह औषधियों का चूर्ण करके अवचूर्ण ( अर्थात् मलने ) के लिए देना चाहिये । प्रथम शरीर पर तैल की मालिश कर लेनी चाहिये । इस से दाद, कण्ड, खाज़, किटिभ, कुष्ठ, पामा, विरप्त, विचर्चिका सावयुक्त फुन्सियाँ, नष्ट होती हैं । कोई अमृतासंग एक वस्तु मानकर नीला योथ अर्थ करते हैं ॥ १०-११ ॥

नवां योग—

मनःशिलाले मरिचानि तैलमार्कं पद्मः कुष्ठहरः प्रदेहः ।

मनःशिला ( मैनसिल ), आल ( हरताल ), मरिच, तैल ( सरसों से तैल कुष्ठहर होने से ), 'आर्करवस्' ( आक का दूध ) इनको परस्पर मिला कर लेप बना कर लगाने से कुष्ठ अच्छा होता है ।

इस योग में पानी को मिलाना नहीं चाहिये, अपितु आक के दूध में ही सब बनाना चाहिये ।

**दसवां योग—**

तुर्थं विडङ्गं भरिचानि कुष्ठं लोध्रं च तद्वन्समनःशिलं स्यात् ॥ १२ ॥

तुर्थ ( नीला थोथा ), विडंग ( वायविडंग ), मरिच ( काली मरिच ), कुष्ठ ( कूठ ), लोध्र ( पटानी लोध्र ), मनःशिला ( मनसिल ) इनके चूर्ण को पूर्व की भाँति आक के दूध में मिलाकर लगाना चाहिये ॥ १२ ॥

**ग्यारहवां लेप—**

रसाञ्जनं सप्रयुनाड्वीजं युक्तः कपिस्थस्य रसेन लेपः ।

रसाञ्जनं ( रसीन ), प्रयुनाड्वीज ( पनवाढ के बीज ), इन को कैथ के पत्तों के रस में मिलाकर लगाने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है । पानी का उपयोग नहीं करना चाहिये ।

**बारहवां योग—**

करञ्जजींडगजं सकुष्ठं गोमृतपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १३ ॥

करञ्ज ( नाटा करञ्ज वृक्ष ), ऐडगज ( चक्रमर्द ) और कुष्ठ ( कूठ ), इनका गोमृत में पास कर लेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है ॥ १३ ॥

**तेरहवां योग—**

एभे हरिद्रे कुटजस्य वीजं करञ्जवीजं सुमनःषदलान् ।

त्वचं समध्यां हयमारकस्य लेपं तिलक्षारयुनं विद्यान् ॥ १४ ॥

दोनों प्रकार की हल्दी ( साधारण हल्दी और दाद हल्दी ), कुटज वीज ( इन्द्रजी ), करञ्ज वीज ( करञ्जुए का वीज ), हुग्नःप्रःळ ( चमेली के कोमल नये पत्ते ), हयमारक ( कनेर ) की अन्दर वीं त्वचा, और तिल क्षार ( तिल की नाल का क्षार भस्म ) इनका लेप बनाकर लगाने से कुष्ठ रोग मिटता है ॥ १४ ॥

**चौदहवां योग—**

मनःशिला त्वक्कुटजात्सकुष्टात् सलोमशः सैडगजः करञ्जः ।

ग्रन्थिश्च भौजैः करवीरमूलं चूर्णानि साधानि तुपोदकेन ॥ १५ ॥

पलाशनिर्दीहरसेन चापि कपोदधृतान्यादकसंमितेन ।

दर्घीप्रलेपं प्रबद्धित लेपमेतत्परं कुष्ठनिपूदनाय ॥ १६ ॥

मनसिल, कुटजत्वक् ) कूड़े की छाल ), कुष्ठ ( कूठ ) लोमश, ( जटा-मांसी ), ऐडगज ( चक्रमर्द ), करञ्ज, ( करञ्जुआ ), भौजै ( भौजपत्र की गाँड़ ), करवीर ( कनेर की जड़ ), ये आठों द्रव्य प्रत्येक एक एक कर्ष ( दो २

तोला ) लेकर तुशेदक ( यव-काञ्जिक ) एक आढ़क तथा 'पलाश-निर्दाह रस' अर्थात् ढाक के वृक्ष को जलाने से उत्पन्न रस' एक आढ़क परिमाण ( द सेर ) लेकर पाक करना चाहिये । पाक इतना करना चाहिये कि बड़ कड़छां पर चिप-टने लगे । यह प्रलेप कुष्ठ रोग को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है ॥१५-१६ ॥

पन्द्रहवां योग—

पर्णनि पिष्टवा चतुर्गुलस्य तकंग पर्णन्यय काकमाच्याः ।

तंलाक्तगाव्रस्य नरस्य कुष्टान्मुद्रतयेवश्वद्वच्छदेश ॥ १७ ॥

अमलतास के पत्तों, मकोष के पत्तों का और अश्व-नच्छद ( कनेर ) के पत्तों की छाँच के ताथ पीसकर शरीर पर लेने का मार्गश करके कुष्ठरोग में मळे ।

कई चिदानन्द-माच्याः पर्णनि शब्द में पाक अन्य योग की कलरना करते हैं । इसी प्रकार 'अश्वद्वच्छदेश' इस से नीतरा योग मानते हैं ॥ १७ ॥

सालहवां योग—

कोलं कुलत्थाः सुरदारु रसना मायातसीत्लक्ष्मानि कुष्ठम् ।

वचा शताह्वा यवचूर्णमस्तुष्णानि वातानयिनां प्रदेहः ॥ १८ ॥

कोल ( ज्ञाङों के बेर ), कुलत्थ ( कुलत्थी ), सुरदारु ( ऐवदारु ), रासना उड़द, अतसी ( अलसी ), तैलाल ( एरण्ड के बीज ), कुष्ठ ( कुट ), वचा ( वच ) शताह्वा ( सौंफ ), और यवचूर्ण ( यवक्षार ) इनका 'अमल' ( कांडों ) के साथ पीसकर प्रलेप बनाकर गरम करके वातरोगी के लिये प्रयुक्त करे । इससे वातरोग नष्ट होते हैं ॥१८॥

सत्रहवां योग—

आनूपमत्स्यार्मपवेसवार्चरुणौः प्रदेहः पवनापहः स्यात् ।

स्नेहैश्चतुर्भिर्दृशमूलमिश्रेग्नन्धौपधेश्चानिलजितप्रदेहः ॥ १९ ॥

आनूपामिष ( जलप्राय देश में चरने वाले पशुओं का मांस ) मत्स्यमिष ( मछलियों का मांस ) इनसे बनाये हुए वेसवार ( अभिय रहित मांस को भाप से स्विन्न करके शिला पर पीस लेना चाहिये, फिर इसमें गुड़, घी, पिप्ली, मरिच मिलाने से वेसवार बनता है ) । इस को गरम करके लेप करने से वायु का नाश होता है ।

१—ढाक के वृक्ष की प्रधान मुख्यजड़ को काट कर इस के नीचे एक मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिये । और ऊपर के भाग को जलाना चाहिये । जलाने पर जो रस निकलता है, उस रस को लेना चाहिये । आज कल खैर या शीशम का तैल पाताल यन्त्र से निकालते हैं ।

**अठारहवां योग—**

घी, तैल, वसा और मज्जा इन चार स्नेहों को दशमूल के साथ मिला कर अथवा चारों स्नेहों को ज्वर अधिकार में कही चन्दन आदि सुगन्धित औपधियों के साथ मिलाकर लेप करने से बातविकार नष्ट होते हैं । यहां पर न कहने पर भी पानी मिलाना चाहिये ॥ १६ ॥

**उन्नीसवां योग—**

तक्रण युक्त यवचूर्णमुष्णं सक्षारमार्तिं जठरे निहन्यात् ।

जौ के आटे को यवखार के साथ छाँच में पीसकर पेट पर लगाने से पीड़ा को नष्ट करता है ।

**बीसवां योग—**

कुष्ठं शताह्वां सवचां यवानां चूर्णं सतैलाम्लमुशन्ति वाते ॥ २० ॥

कुष्ठ ( कृष्ट ), शताह्वा ( सौंफ ), वचा ( वच ), जौ के आटे को तिल के तैल और अम्ल ( कांजी ) में मिलाकर लगाने से बातविकार नष्ट होते हैं ॥ २० ॥

**इक्षीसवां योग—**

उभे शताह्वे मधुकं मधूकं बलां प्रियालं च कशेरुकं च ।

घृतं विदारीं च सितोपलां च कुर्यात्प्रदेहं पवने सरके ॥ २१ ॥

सौंफ और सोया, मधुक ( मूलहठी ), मधूक ( महुजा ) बला ( खरैंटी ), प्रियाल ( प्याल, पकने पर यह काला फल होता है, जिसमें से चिराँजी निकलती है ), कशेरुक, घृत ( गाय का ) विदारी कन्द, सितोपला ( मिश्रा, खड्डी शकर ), इनका पानी के साथ लेप बातरक्त रोग में लाभदायक है ॥ २१ ॥

**बाईसवां योग—**

रास्ना गुद्धचीं मधुकं बले द्रुं सजीवकं सर्षभकं पयश्च ।

घृतं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्कानिलार्ति प्रणुदेत्प्रदेहः ॥ २२ ॥

रास्ना, गुद्धची ( गिलाय ), मधुक ( मूलहठी ), दानों प्रकार की बलाएं ( खरैंटी और अतिवला—सफेद और पीले फूल की खरैंटी ), जौवक, शूष्पभक, गाय का दूध; गाय का धी, मधुशेष ( मोम ) इनसे सिद्ध धी रूप लेप बातरक्त रोग को नष्ट करता है । इस योग से घृत सिद्ध किया जाता है ॥ २२ ॥

१. रास्ना से लेकर शूष्पभक तक सब औपधियों का कल्क बनाना चाहिये । यह कल्क धी, स्नेह से चतुर्थीश होना चाहिये । और दूध धी स्नेह से दूना होना चाहिये । इससे धी सिद्ध करना चाहिये । धी सिद्ध होने पर वज्र में से छान कर उष्णावस्था में ही इसमें मोम मिला देनी चाहिये । मोम की मात्रा स्नेह से चतुर्थीश अर्थात् कल्क के बराबर होनी चाहिये ।

तेईसवां योग—

बाते सरके सघृतः प्रदेहो गोधूमचूर्णं छगलीपयश्च ।

गोधूम ( गेहूँ ) के चूर्ण को बकरी के दूध और धी के साथ मिलाकर लगाने से बातरक रोग मिटता है । यहां भी दूध में गेहूँ के चूर्ण के साथ धी सिद्ध कर लेना चाहिये ।

चौबीसवां योग—

नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहः ॥ २३ ॥

‘नत’ ( तगर ), उत्पल ( नीला कमल ), चन्दन, कुष्ठ ( कूठ ) इनके चूर्ण को धी में मिलाकर शिर पर लगाने से शिर की पीड़ा मिटती है ॥ २३ ॥

पच्चीसवां योग—

प्रपौण्डरीकं सुरदारु कुष्ठं यष्ट्याह्मेला कमलोत्पले च ।

शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो, लोहैरकापद्मकचोरकेश ॥ २४ ॥

प्रपौण्डरीक ( पुण्डरीक काष्ठ ), सुरदारु ( देवदारु ), कुष्ठ ( कूठ ) यष्ट्याह ( मुलहठी ), एला ( इलायची ), कमल ( इवेत कमल, कमल गट्टा ), उत्पल ( नीला कमल ), लोह ( अगर ), ऐरक ( रोहिष धात्र ), पद्मक ( पद्माख ) और चारक ( चोरपुष्पी, सुगन्धित द्रव्य है, पर्वतीय लोग दाल आदि में गेरते हैं ), इनको धी में मिलाकर शिर दुखने पर माये में लगाने से आराम मिलता है । यहां पर पीसने के लिये पानी मिला लेना चाहिये ॥ २४ ॥

छब्बीसवां योग—

रासना हरिद्रे नलदं शताहे द्वे देवदारुणि सितोपलां च ।

जीवन्तिमूर्ठं सघृतं सतैलमालेपनं पार्श्वरुजासु कोष्णम् ॥२५॥

रासना, दोनों हरिद्रा ( हल्दी और दाढ़ हल्दी ), नलद ( जटामाली ), दोनों शताहा ( सौंफ और सोया ), देवदारु, सितोपला ( मिश्री ), जीवन्ति का मूल, इनके चूर्ण को घृत और तैल ( तिल का तैल ) में ( ये धी तैल दोनों परस्पर समान भाग हों ) मिलाकर गरम करके पार्श्व शूल में लेप करना चाहिये ॥२५॥

सत्ताईसवां योग—

शैवालपद्मोत्पलबेत्रतुङ्गं प्रपौण्डरीकाण्यमृणाललोधम् ।

प्रियङ्कुकालीयकचन्दनानि निर्वापणः स्यास्सघृतः प्रदेहः ॥२६॥

शैवाल ( सरवाल ), पद्म ( पद्माख ), उत्पल ( नील कमल ), बेत्र ( श्रेष्ठ वेत, लोटी वेत ), तुङ्ग ( कमल का केशर ), प्रपौण्डरीक ( पुण्डरीक ), अमृणाल ( लस ), लोष ( पठानी ) प्रियङ्ग ( फूल प्रियङ्ग ), कालीयक ( चन्दन मेद,

दृष्टि चन्दन), और चन्दन इनको ( पानी में पीस कर ) सब द्रव्यों के समान घी मिलाकर लेप करने से त्वचा का दाह, आग से जले की जलन शान्त होती है ॥२६॥

अटाईसवां योग—

सितालतवेतसपद्मकानि यष्टुचाहूमैन्द्री नलिनानि दूर्वा ।

यवासमूलं कुशकाशयांश्च निर्यापणः स्याज्जलमेरका च ॥२७॥

मिता ( श्वेत द्रव ), दत्ता ( प्रियंग् या सारिवा ), वेतस ( जल वेतस ), यष्टि ( मुलहर्टी ), ऐन्द्री, 'नलिन' ( नीला कमल ), दूर्वा ( द्रव ), यवासमूल ( धमासे की जड़ ), कुश ( दाम ), काश की जड़, जल ( वालक ), ऐरक ( होगला ) इनको जल के साथ पासकर लेप करने से त्वचा की जलन शान्त होती है । कोई सिता से मिश्री और लता से मज्जाठ का ग्रहण करते हैं ॥२७॥

उनर्तासवां तथा तोसवां योग—

शैलेयमेलाऽगुरु चाथ कुष्ठं चण्डा नतं त्वक्सुरदारु रास्ना ।

शीतं निहन्याद्विचिरान् प्रदेहा, विषं शिरोपम्नु ससिन्धुवारः ॥ २८ ॥

शैलेय ( छड़ाला ), एला ( इन्द्रियनी ) अगर, कुष्ठ ( कूठ ), चण्डा ( चोर पुष्पी ), नत ( तगर ), त्वक् ( दालचानी ), सुरदार ( देवदार ), राशसन, इनको पानी में पीस कर लेप करने से शीत, टण्डक नष्ट होती है । तीसवां योग—'शिरीद' ( शिरस ) का शिरमुदार ( सम्भालु के पर्श ) के साथ पीसकर मलने से विष दोष नष्ट होता है ॥ २८ ॥

इकतीसवां योग—

शिरोपलामज्जकहेमलोध्रेत्यग्दोपसंस्वेदहरः प्रवर्पः ।

शिरीप ( शिरस ), लामज्जक ( उशंर, खस ), हेम ( नागकेसर ), लोध्र ( पटानी लोध ), इनको चूर्ण बनाकर शरीर पर रगड़ने से त्वचा के रोग एवं पर्सीने का अधिक आना नष्ट होता है ।

बत्तीसवां योग—

पत्राम्बुलोध्राभयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥२९॥

पत्र ( तेजपात ), अभु ( नेत्रबाला ), लोध्र ( पटानी लोध ), अभय ( उशीर, खस ), और श्वेत चन्दन इनको पानी में पीसकर लेप करने से शरीर की हुर्गन्ध मिटती है ॥ २९ ॥

तत्र इलोकः ।

इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच द्वात्रिशतं सिद्धमहिंपूज्यः ।

चूर्णप्रदेहान्विविधामयनारग्वधीये जगतो हितार्थम् ॥३०॥

सिद्ध एवं शृणियों से पूजित कृष्णात्रेय पुनर्वसु ने रोगों को नष्ट करने वाले बत्तीस सिद्ध योग जगत् के लाभ के लिये कहे हैं ॥ ३० ॥

इत्यग्निवेशङ्कृते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृतं सूत्रस्थाने भेषजन्तुष्ठके  
आरग्वर्धांशो नाम तृतीयाऽध्यायः । ३ ॥

### अथ चतुर्थोऽध्यायः

अथातः पद्मविरेचनशताश्रीनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'पद्मविरेचन' से अःरम्भ किये जाने वाले अध्याय का अवतरण करते हैं । भगवान् आत्रेय ने कहा है ॥ १-२ ॥

शरीर के लिये अन्तः परिमार्जन और ब्रह्मिःपरिमार्जन की औपचियों को दूर्ब अध्यायों में कहकर अवशिष्ट परिमार्जन की औपचियों को कहते हैं—

इह खलु पद्मविरेचनशतानि भवन्ति, पद्मविरेचनाश्रयाः,

पञ्च कपाययोनयः, पञ्चविधं कपायकल्पनं,

पञ्चाशनमहाकपाया पञ्च कपायशतानि इति संग्रहः ॥१॥

इस तंत्र में छः सौ विरेचन योग हैं, न अधिक और न कम ।

'विरेचन' शब्द उभयार्थ वाचक है । अर्थात् शरोर के अयोभाग से मल निःसारण का नाम भी विरेचन है और शरीर के ऊच्च भाग से वमन के रूप में किये जाने वाले संशोधन रूप कर्म का भी 'विरेचन' कहते हैं । विरेचन द्रव्यों के छः आश्रय हैं, यथा—दूध, मूळ, त्वचा, पत्र, पुष्ट और फल ।

कपायों के पांच जातियाँ हैं (इनमें ल्वण रस का छोड़ कर) कपायों की कल्पना पांच प्रकार की है । पचास महाकपाय हैं, पांच सौ कपाय हैं । यह संक्षेप में कह दिया है ॥ ३ ॥

पद्मविरेचनशतानीति यदुक्तं तदिह संग्रहेणोदाहृत्य

चिस्तरेण कल्पोपनिषद्यनुव्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥

'छः सौ विरेचन योग हैं' यह जो कहा है उसे यहाँ पर संक्षेप में कहेंगे । विस्तार से कल्प-उपनिषद् अर्थात् 'कल्प-स्थान' में व्याख्या करेंगे ॥ ४ ॥

प्रयक्षिण्डशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु, एकोनचत्वारिंशज्जीमूतकेषु योगाः,  
पञ्चचत्वारिंशदिक्षवाकुषु, धामार्गवः षष्ठिधा भवति योगयुक्तः, कृटज-  
स्त्वष्टावशधा योगमेति, कृतवेधनं षष्ठिधा भवति योगयुक्त, श्यामात्रि-

बृद्धोमशतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगः, चतुरङ्गलो द्वादशधा  
योगमेति, लोध्रं विधौ षोडशयोगयुक्तं, महावृक्षो भवति विशतियोग-  
युक्तः, एकोनचत्वारिंशत्सप्तलाशङ्किन्योर्योगाः, अष्टचत्वारिंशहन्तीद्रव-  
न्योरिति षड्विरेचनशतानि ॥ ५ ॥

मदन फल के कल्प में १३३ विरेचन योग, 'जीमूतक' ( वन्दाल ) फल के  
कल्प में ३६, ईक्षवाकु ( कढ़वी तुम्ही ) कल्प में ४५, धामार्गव ( बड़ी तुर्द  
पीले फूल की, राज कोषातकी ) कल्प में ६०, कुटज ( कूड़े ) के फल कल्प में  
१८ प्रकार के, कृतवेधन ( कहुबी तोरी ) के उपयोग में विरेचन योग ६०, इस  
प्रकार से ये बहन रूप विरेचन योग हैं । अब अधोगामी विरेचन योग कहते हैं—

शामा ( अश्मूल ) की निशोथ और त्रिवृत् ( सफेद निशोथ ) कल्प के  
११० योग, चतुरङ्गुल ( अमलतास ) कल्प के १२ प्रकार के योग, लोध्र विधि  
( लोध्र कल्पों में विरेचन विधि ) के अन्दर १६ योग, महावृक्ष ( सुही, सुधा  
वृक्ष ) कल्प में २०, सप्तला और शंखिनी ( शिकाकाई ) के कल्प में ३६ और  
दन्ती ( जमालगोटा ), द्रवन्ती के ४८ प्रकार के योग हैं । इस प्रकार से ६००  
विरेचन योग बन जाते हैं ॥ ५ ॥

**षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति ॥ ६ ॥**

विरेचन किया ओपिधियों के छ: ( अंगों में ) आश्रय है । यथा—क्षीर  
( दूध ), मूल, त्वक्-त्वचा, पत्र, पुष्प और फल ॥ ६ ॥

**पञ्च कषाययोनय इति मधुरकषायोऽमलकषायः । कटुकषायस्तिक्त-  
कषायः कषायकषायश्चेति तन्त्रे संज्ञा ॥ ७ ॥**

'कषाय' की पांच योनि ( जातियाँ ) हैं । यथा—मधुरकषाय  
( मधुर रस वाले पदार्थों से बना हुआ कषाय ), अम्लकषाय ( खट्टे रस वाले  
पदार्थों से बनाया हुआ कषाय ), कटुकषाय ( कटुवे रसवाले पदार्थों से तैयार  
किया कषाय ), तिक्तकषाय ( तीखे पदार्थों से तैयार किया हुआ कषाय ),  
कषायकषाय ( कड़ेले पदार्थों से तैयार किया हुआ कषाय ) इन पांचों को इस  
शास्त्र में 'कषाय' संज्ञा है, 'लबण' कषाय नहीं है लबण रस से कषाय तैयार  
नहीं होता है ॥ ७ ॥

**पञ्चविधं कषायकल्पनमिति, तत्त्वस्त्र स्वरसः कल्पः शृतः शीतः  
फाण्टः कषाय इति ॥ ८ ॥**

कषायकल्पन अर्थात् कषाय तैयार करने की विधि पांच प्रकार से है । यथा—  
स्वरस, कल्पक शृत, शीत और फाण्ट । कषाय शब्द रस के क्षाय संबुक्त है ॥ ८ ॥

कथायों के लक्षण—

( यन्त्रप्रपीडनाद् द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते ।  
यत्पिण्डं रसपिण्डानां तत्कलं परिकीर्तिम् ॥ ६ ॥  
बहौ तु कथितं द्रव्यं शृतमाहुभिकित्सकाः ।  
द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् ॥ १० ॥  
कथायो योऽभिनिर्वाति स शीतः समुदाहृतः ।  
किम्प्रोष्णतोये मृदितं तत्काण्टं परिकीर्तिम् ॥ ११ ॥ )

तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम्, अतः कथायकल्पना व्याध्यातुरबला-  
पेक्षिणी । नत्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगीनि भवन्ति ॥ १२ ॥

स्वरूप कथाय—द्रव्य को कूट कर यंत्र प्रपीडन अर्थात् यंत्र से वा  
हाथ आदि से दशा कर जो रस निकलता है उसे 'स्वरस' कहते हैं  
कल्प कथाय—रस सहित द्रव्य को शिला आदि पर पीस कर जो गोला बना  
लिया जाता है उसे 'कल्प' कहते हैं । शृत कथाय अग्नि में उबाले हुए  
द्रव्य को वैद्य 'शृत' कहते हैं । बहुत गरम जल में रात भर रखके हुए कूटे हुए  
द्रव्य से जो कथाय निकलता है उसे 'शीत' कहा जाता है । फाण्ट कथाय—द्रव्य  
को कूटकर गरम पानी में रखकर कुछ काल पीछे मलकर जो किट्ठ रहित सार-  
भाग निकलता है, उसे 'फाण्ट' कहते हैं ।

इन में स्वरस में कल्प की अपेक्षा, कल्प में शृत की अपेक्षा से, शृत में  
शीत की अपेक्षा से, और शीत में फाण्ट की अपेक्षा से अधिक बल, सामर्थ्य  
और शक्ति है । इसलिये 'कथाय कल्पना' अर्थात् रोगी के लिये कथाय का  
विचार व्याधिबल, आतुरबल अर्थात् रोगी के सामर्थ्य को देखकर करना चाहिये ।  
ये सब कथाय सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते अर्थात् बलवान् व्याधि  
या बलवान् रोगी में अल्प बल वाले या मध्यम बल वाले कथाय कार्य करने में  
समर्थ नहीं होते । इसी प्रकार अल्प बल की अवस्था में अधिक बल वाले कथाय  
कार्य करने में असमर्थ होते हैं । ॥ ६-१२ ॥

पञ्चाशान्महाकथाया इति यदुर्कृतदनुव्याख्यास्यामः; तथा—

पहिले जो यह कहा है कि पचास महाकथाय हैं, उनकी अब व्याख्या  
करते हैं । जैसे—

जीवनीयो बृहणीयो लेखनीयो भेदनीयः संधानीयो दीपनीय इति  
षट्कः कथायबर्गः ।

( जीवनीय ) जीवन के लिये हितकारी आयुर्वर्धक, ( बृहणीय ) वरीर के

बृहण के लिये हितकारी, ( लेखनीय ) देह के धर्षण के लिये, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय अग्नि को बढ़ाने वाला यह छः कषायां का एक वर्ग हुआ ।

बल्यो वर्ण्यः कण्ठ्यो हृद्य इति चतुष्कः कषायवर्गः ।

‘बल्य’ ( भल कारक ), वर्ण्य ( शरीर की कान्ति बढ़ाने वाला ) ‘कण्ठ्य’ ( कण्ठ या गले के स्वर के लिये हितकारी ) ‘हृद्य’ ( हृदय—मन के लिये हितकारी ), यह दूसरा चार से बना हुआ कषाय वर्ग है ।

त्रिमित्रोऽशोधनः कुष्ठधनः कण्ठ्यधनः कृमिधनो विषधन इति षट्कः कषायवर्गः ।

‘त्रिमित्र’ ( जब रोगी विना खाये अपने को भरा पेट अनुभव करता है, उसके शिकायत को दूर करने वाला ) ‘अर्थोप्तम’ ( अर्थ रोग में हितकारी ), ‘कुष्ठधन’ ( कुष्ठ रोगनाशक ), ‘कण्ठ्यधन’ ( खाज़ नाशक ), ‘कृमिधन’ ( किमि तथा विष विनाशक ) यह तीसरा छः से बना कषाय वर्ग हुआ ।

स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुष्कः कषायवर्गः ।

स्तन्य जनन ( दूध बढ़ाने वाला ), ( स्तन्यशोधन दूध का शोधन करने-वाला ), शुक्र जनन ( धातुवर्धक ), शुक्रशोधन ( धातु शोधक ), यह चौथा चार से बना कषाय वर्ग हुआ ।

स्वेदोपगः स्वेदोपगो वस्त्रोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोऽनु-वासनोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कपायवर्गः ।

स्वेदोपग १ ( मार्दव कर ), स्वेदोपग ( पठाना लाने वाला ), वस्त्रोपग ( वान्तिकारक ), विरेचनोपग ( मलनिःसारक ), आस्थापनोपग ( रुक्ष वस्ति के लिये उपयोगी ), अनुवासनोपग ( स्नेह-न्यस्ति के लिये उपयोगी ), शिरोविरेचनोपग ( नस्य के लिये उपयोगी ), यह सात कषायां से बना वर्ग ।

छर्दिनिग्रहणस्तृष्णानिग्रहणो हिक्कानिग्रहण इति चिकः कपायवर्गः ।

छर्दिनिग्रहण ( वमनाशक ), तृष्णानिग्रहण ( प्यास को नष्ट करने वाला ), हिक्कानिग्रहण ( हिचकी नाशक ), यह तीन से बना कषाय वर्ग हुआ ।

पुरीषसंग्रहणीयः पुरीषविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति पञ्चकः कपायवर्गः ।

पुरीषसंग्रहणीय ( मल को बांधने के लिये हितकारी ), पुरीषविरजनीय ( दोष के कारण जब मल में उचित रंग नहीं आता इसके लिये हितकारी जैसे—

१ ‘उपग’—का अर्थ सहायक जैसे-वस्त्रोपग वमन कार्य में मदद देने वाला ।

कामला रोग में मल इवेत रंग का आता है, पीलापन नहीं आता ), ‘मूत्र-संग्रहणीय’ ( मूत्र को कम करने वाला ), ‘मूत्रविरजनीय’ ( मूत्र के रंग को टीक करने वाला ), मूत्रविरेचनीय ( मूत्रवर्धक ), यह पांच से बना कथाय वर्ग है॥

**कासहरः श्वासहरः शोथहरो ज्वरहरः श्रमहर इति पञ्चकः कथायवर्गः ।**

कासहर ( खांसी के लिये हितकारी ), श्वासहर ( दमे के लिये हितकारी ), शोथहर ( सूजन के लिये हितकारी ), ज्वरहर ( ज्वरनाशक ), श्रमहर ( थकावट को मिटाने वाला ), यह पांच से बना कथाय वर्ग है ॥

**दाहप्रशमनः शीतप्रशमन उद्दप्रशमनोऽङ्गमर्दप्रशमनः शूलप्रशमन इति पञ्चकः कथायवर्गः ।**

‘दाहप्रशमन’ ( जलन को शान्त करने वाला ), ‘शीतप्रशमन’ ( ठंडक को दूर करने वाला ), ‘उदर्द प्रशमन’ ( कोठ, छपाकी, त्वचा पर उठने वाले मोटे २ चकतों को शान्त करने वाला ), ‘अंगमर्द प्रशमन’ ( अंगों को ऐंठन को दूर करने वाला ), यह पांच से बना कथाय वर्ग है ॥

**शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयःस्थापन इति पञ्चकः कथायवर्गः ।**

‘शोणित-स्थापन’ ( रक्त रोधक ), ‘वेदनास्थापन’\* ( पीड़ा नाशक ), ‘संज्ञास्थापन’ ( चेतन करने वाला ), ‘प्रजास्थापन’ ( संतातजनक ), वयःस्थापन ( आयु को टिकाने वाला ), यह पांच से बना कथायवर्ग है ।

**इति पञ्चाशनमहाकथायाः, महतां च कथायाणां लक्षणोदाहरणाथं व्याख्याता भवन्ति । तेपामेककस्मिन्महाकथाये दशदशावयविकान्कपायाननुव्याख्यास्यामः । तान्येव पञ्च कथायशतानि भवन्ति ॥ १३ ॥**

इस प्रकार से पचास महाकथाय बनते हैं । महाकथाय के लक्षण और उदाहरण संक्षेप में कह दिये गये हैं । इन एक-एक महाकथायों में दस-दस अवयवों वाले कथायों की व्याख्या आगे कहेंगे । इस प्रकार से पांच सौ कथाय बनते हैं । अथात् ‘जीवनीय’ आदि संज्ञा वाले पचास महाकथायों में से प्रत्येक ‘जीवनीय’ आदि संज्ञा वाले कथाय में दस-दस अवयव हैं ॥ १३ ॥

**तथथा—जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्रगमाषपण्यौ जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति (?)**

\*वेदना-स्थापन—शरीर की वेदना को मिटाकर शरीर को स्वस्थ रूप में करने वाला ।

जैसे—जीवक, शृष्टमक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्रगपर्णी ( मूँगपर्णी ) माषपर्णी, जीवन्ती, और मधुक ( मुलैटी ) ये दस जीवनीय ( जीवनवर्धक ) हैं ॥

श्रीरणी राजक्षवकं बला काकोली क्षीरकाकोली वाञ्छायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्यर्घ्यगन्धा इति दशेमानि वृंहणीयानि भवन्ति ॥ ( २ ) ॥

क्षीरणी ( क्षीरविदारी ), राजक्षवक ( दूधी ), बला ( खरैटी ), काकोली, क्षीरकाकोली, वाञ्छायनी ( कंधी ), भद्रौदनी ( लिरैटी ), भारद्वाजी ( उलट-कम्बल ), पयस्या ( विदारी कन्द ), श्रृङ्ख्यगन्धा ( वृद्धदारक विधारा ), ये दस वृंहणीय अर्थात् शरीर में ( वर्णीय ) वृद्धि करने वाले हैं ॥

मुस्त-कुमु-हरिद्रा-दारुहिद्रा-वच्चातिविषा-कटुरोहिणी-चित्रक-चिर-बिल्व-हैमवत्य इति दशेमानि लेखनीयानि भवन्ति ॥ ( ३ ) ॥

मुस्त ( नागर मोथा ), कुष्ठ ( कूट ), हरिद्रा ( हल्दी ), वच ( धांडा-वच ), अतिविषा ( अतीष ), कटुरोहिणी ( कुटकी ), चित्रक ( चीता मूल ), चिरबिल्व ( करंज ), हैमवत्य ( श्वेत वच ), ये दस लेखनीय हैं ॥

सुवहार्कोरुवृक्षग्रीष्मुखी-चित्रा-चित्रक-चिरबिल्व-शाङ्खनी-शकुलाद-नी-स्वर्णक्षीरण्य इति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति ॥ ( ४ ) ॥

सुवहा ( निशाथ ), अर्क ( आक दो प्रकार का है श्वेत और अक्षण ), उरुबूक ( एरण्ड ), अग्नमुखी ( कांलदार ), चित्रा ( जमाल गोटे की जड़ ), चित्रक ( चीता मूल ), चिरबिल्व ( करंज ), दार्तिवनी, शकुलादना ( कटुका ), और स्वर्णक्षीरी ( सत्यानासी ), ये दस भेदनीय हैं ॥

मधुक-मधुपर्णी-पृश्निपर्ण्यग्वट्कर्ण-समङ्गा-मोचरस-धातकी-लोध-प्रियङ्गु-कट्फलानीत दशेमानि संधानीयानि भवन्ति ॥ ( ५ ) ॥

मधुक ( मुलैटी ), मधुपर्णी ( गिलोय ), पृश्निपर्णी ( पिठवन ), अग्नष्टकी ( पाठा ), समंगा ( भजीठ ), मोचरस ( सिम्बल का गोद ), धातकी ( धाय के फूल ), लोध ( पटानी लोध ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ), और कट्फल ( काय-फल ), ये दस 'संधानीय' हैं ॥

पिप्पली-पिप्पलीमूल-चव्य-चित्रक-शृङ्खवेराम्लवेतस-भरिचाजमो-दा-भज्ञातकास्थ-हिङ्गनिर्यास। इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति ( ६ )

इति षट्कः कषायवर्गः ॥ [ १ ] ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य ( चविका ), चीतामूल, शृङ्खवेर ( सोठ या

अदरख ), अम्लबेतस, मरिच ( काली मिरच ), अजमोदा ( अजवायन ), भज्जातकास्थि ( भिलावे के बीज ), हिंगु-नियांस ( हींग ), ये दस 'दीपनीय' अर्थात् भूख लगाने वाले अर्थन संदीपक हैं ॥ यह छः का बना हुआ कथायर्वग है ।

**ऐन्द्र-धृष्टपद्म्यतिरसर्व्यप्रोक्ता-पयस्याइवगन्धा-स्थिरा-रोहिणी-ब्रलाति-बला** इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ॥ ( ७ ) ॥

ऐन्द्री, शूष्मभी ( छोंच ), अतिगसा ( शतावरी ), शृण्प्रग्रोक्ता ( माषपर्णी ), पयस्या ( विदारी ), अद्वगन्धा ( असगन्ध ), स्थिरा ( शालपर्णी ), रोहिणी ( कट्टी ), बला ( खरेंटी ), अनिबला ( पीतबला ), ये दस 'बल्य' अर्थात् बल कारक हैं ॥

**चन्दन-तुङ्ग-पद्मकोशीर-मधुक-भजिजटा-सारिवा-पयस्या-सिता-लता** इति दशेमानि वर्ण्यानि भवन्ति ॥ ( ८ ) ॥

चन्दन ( लाल चन्दन ), तुङ्ग ( लाल नाग केशर ), पद्मक ( पद्माव ), उशीर ( खस ), मधुक ( मुलदृढी ), मंजिष्ठा ( मंजीठ ), सारिवा ( अनन्तमूल ), पयस्या ( विदारी कन्द ), सिता ( नफेर दूष ), और लता<sup>१</sup> ( लाल दूब या प्रियंगु ), ये दस 'वर्ष्य' अर्थात् वर्णकारक, वर्ष बढ़ाने वाले हैं ॥

**सारिवेक्षुमूल-मधुक-पिष्ठली-द्राक्षा-विदारी-कैडर्य-हंसपदी-बृहती-कण्टकारिका** इति दशेमानि कण्टयानि भवन्ति ॥ ( ९ ) ॥

सारिवा ( अनन्तमूल ), इक्षुमूल ( इखु की जड़ ), मधुक ( मुलैटी ), पिष्ठली, द्राक्षा ( किशामद ), विदारा कन्द, कैडर्य ( नीम ), हंसपदी ( मण्डू-कपर्णी या ब्राह्मी ), बृहती ( बड़ी कटेरी ) कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), ये दस ओषधियाँ 'कण्ट' स्वर के लिये हितकारी हैं ॥

**आग्राम्रातक-निकुच-करमदं-वृक्षाम्लबेतस-कुवल-बदर-दाढिम-मातुलुङ्गानीति** दशेमानि हृद्यानि भवन्ति ॥ ( १० ) ॥

इति चतुर्जः कथायर्वगः ॥ [ २ ] ॥

आग्र ( आम ), आग्रातक ( अभ्राता ), निकुच ( डहु बडहल ), करमदं ( करज्ज ), वृक्षाम्ल ( इमली ); अम्लबेतस, कुवल ( बड़ा बेर ), बदर ( ज्ञाही का बेर ), दाढिम ( अनार ), मातुलुंग ( बिजौरा ), ये दस 'हृद्य' अर्थात् हृदय के लिये हितकारी हैं ॥ यह चार से बना हुआ कथायर्वग है ।

१. जल्पकल्पतरु में 'लता' का अर्थ मंजीठ किया है, परन्तु मंजीठ का कथन भी इसमें है, अतः दूब अर्थ ही उचित है ।

नागर-चित्रक-चव्य-विडङ्ग-मूर्बा-गुद्धची-वचा-मुस्त-पिष्पली-पटोला-  
नीति दशेमानि तृष्णिनानि भवन्ति ॥ ( ११ ) ॥

नागर ( सोंठ ), चित्रक ( चीतामूल ), चव्य ( चविका ), विडङ्ग  
( चायविडङ्ग ), मूर्बा ( मारबेल ), गुद्धची ( गिलेय ), वचा ( वच ), मुस्त  
( नागर मोथा ), पिष्पली, पटोल ( परबल ) ये दस 'तृष्णिन' अर्थात् श्लेष्मा  
जनित तृप्ति को नाश करने वाली हैं ॥

कुटज-विल्व-चित्रक-नागरातिविषाभया-धन्वयासक-दारुहरिद्रा-वचा-  
चव्यानीति दशेमान्यशोषणानि भवन्ति ॥ ( १२ ) ॥

कुटज ( कुड़ा ), विल्व ( वेलगिरी ), चित्रक ( चीतामूल ), नागर ( सोंठ ),  
आतिविषा ( अतीस ), अभया ( बड़ी हरड़ ), धन्वयासक ( धमासा ), दारु-  
हरिद्रा ( दारुहल्दी ), वच और चव्य ( चविका ) ये दस औषधियाँ 'अशोष्म'  
अर्थात् बवासीर रोग के नाशक हैं ॥

खदिराभयासलक-हरिद्राहङ्कर-सप्तपर्णारगव्य-करवीर-विडङ्ग-जा-  
तिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठिनानि भवन्ति ॥ ( १३ ) ॥

खदिर ( खैर ), अभया ( जंगी हरड़ ), आमलक ( आमला ), हरिद्रा-  
( हल्दी ), अहङ्कर ( निलावा ), सप्तपर्ण ( सातवन ), आरगव्य ( अमलतास ),  
करवीर ( कनेर ), विडङ्ग ( चायविडङ्ग ), आंर जानग्वाल ( चमेली के  
नर्वान कोमल पत्ते ) ये दस कुष्ठिन अर्थात् कोढ़ी रोग के नाशक हैं ॥

चन्दन-नलद-शृतमाल-नक्तमाल-निम्बन-कुटज-सप्तप-मधुक-दारुहरि-  
द्रा-मुस्तानीति दशेमानि कण्ठध्वनानि भवन्ति ॥ ( १४ ) ॥

चन्दन ( लाल चन्दन ), नलद ( जटामांसी ), शृतमाल ( अमलतास ) नक्त-  
माल ( करंज ), निम्ब ( नीम के पत्ते ), कुटज ( कूड़े की छाल ), सप्तप ( सरसों ),  
मधुक ( मुलैटी ), दारु हरिद्रा ( दारु हल्दी ), आंर मुस्त ( नागर मोथा ),  
ये दस औषधियाँ 'कण्ठध्वन' अर्थात् खाज नाशक हैं ॥

अक्षीच-मरिच-नाणडीर-केचुक-विडङ्ग-निर्गुण्डी-किणिही-इवदंष्ट्रा-वृष-  
पर्णिकाखुपर्णिका इति दशेमानि क्रिमिनानि भवन्ति ॥ ( १५ ) ॥

अक्षीच ( सहजन ), काली मरिच, गण्डीर ( जिमीकन्द ), केचुक, विडङ्ग  
( चायविडङ्ग ), निर्गुण्डी ( सम्पालु ), किणिही ( अगमार्ग ), इवदंष्ट्रा ( गोखरु ),  
वृषपर्णी, आखुपर्णिका ( मूराकानी ), ये दस कृमिन अर्थात् कृमिनाशक हैं ॥

हरिद्रा-मञ्जिष्ठा-सुवहा-सूक्ष्मैला-पालिन्दी-चन्दन-कतक-शिरीष-  
सिन्धुवार-शेषमातका इति दशेमानि विषयानि भवन्ति ॥ ( १६ ) ॥

इति पट्टकः कथायवर्गः ॥ [ ३ , ॥

हरिद्रा ( हल्दी ), मञ्जिष्ठा ( मंजिष्ठ ) सुवहा ( निशोध ), सूक्ष्मैला ( छोटी इलायची ), पालिन्दी ( काली निशोध ), चन्दन ( लाल चन्दन ), कतक ( निमंली का जल को शोधन करने वाला फल ), शिरीष ( सिरस ), सिन्धुवार ( सम्भालु, निर्गुण्डी ), शेषमातक ( लिसाडा ), ये दस 'विषय' अर्थात् विषयाशक हैं ॥ यह उन से बना हुआ कथायवर्ग है ।

बीरण-शालि-पष्ठिकेशुवालिका-दर्भ-कुश-काश-गुन्द्रेत्कट-कत्तुण-मूला-  
नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ ( १७ ) ॥

बीरण ( खस ), शालि ( हैमन्त जहान में पकने वाले धानव का चावल ), पष्ठिक ( साटी चावल ), ईशुवालिका ( ईश्व ), दर्भ ( दाम ), कुश ( कुशा ), काश ( सरकाडा ), गुन्दा ( होयला ) इत्कट, ( तुण विशेष ) कत्तुण ( राहिप तुण ) ये दस 'स्तन्य-जनन' अर्थात् दूध बढ़ाने वाले हैं । इन में गिलोय को छोड़कर सब के मूल काम में लाने चाहिये ॥

पाठा-महौषध-सुरदारु-मुर्वा-गुहूची-बत्सक-फल-किराततिक-  
क-कदुरोहिणी-सारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति ॥ ( १८ ) ॥

पाठा ( पाढल ), महौषध ( सोंठ ), सुरदारु ( देवदारु ), मुर्त ( नागर-मोथा ), मुर्वा ( मंर बेल ), गुहूची ( गिलोय ), बत्सक फल ( इन्द्र जौ ), किराततिक ( चिरायता ), कदुरोहिणी ( कटुकी ), सारिवा ( अनन्त मूल ) ये दस 'स्तन्यशोधन' दूध को शुद्ध करने वाले हैं ॥

जीवकर्षभक-काकोली-क्षीरकाकाली-मुद्गपर्णी-मापपर्णी-मेदा-बृद्ध-  
रुहा-जटिला-कुलिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति ॥ ( १९ ) ॥

जीवक, शृष्टभक, काकोली, क्षीर काकाली, मुद्गपर्णी ( मूद्गपर्णी ) माप-  
पर्णी ( उड्डपर्णी ); मेदा, बृद्धरुहा ( शतावरी ), जटिला ( जटामांसी ), कुलिङ्ग ( उटंगण ) ये दस 'शुक्रजनन' अर्थात् वीर्य-बातु के वर्धक होते हैं ॥

१. ( क ) जीवक शृष्टभक, मेदा महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, शृद्धि इन के स्थान पर परिमाणा आदेश से, शतावरी, विदारीकन्द अश्वगन्धा और वाराही कन्द प्रयोग करने चाहिये । ( ख ) कुलिङ्गशब्द धन्व-त्वारिनिधन्तु में, 'विश्विकर'पष्ठियों के लिये और सप्तार्थकों में दूर्वा के लिये आया है ।

कुष्ठलबालुक-कट्फल-समुद्रफेन-कदम्ब-निर्यासेज्जु-काण्डेश्वसुरक-  
वसुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति ॥ ( २० ) ॥

इति चतुष्कः कथायवर्गः ॥ [ ४ ] ॥

कुष्ठ ( कूठ ), एलबालुक, कट्फल ( कायफल ), समुद्रफेन, कदम्ब निर्यास, इज्जु ( गन्धा ), काण्डेश्व ( मोटा गन्धा ), इज्जुरक ( तालमस्ताना ); वसुक ( वक-पुष्प ), और उशीर ( खस की जड़ ) ये दस 'शुक्रशोधन' अर्थात् वीर्य-वातु को शुद्ध करने वाले हैं ॥ यह चार का बना हुआ कथाय वर्ग है ।

मृदीका-मधुक-मधुपर्णी-मेदा-विदारी-काकोली-क्षीरकाकोली-त्रीत्वक-  
जीवन्ती-शालपण्य इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति ॥ ( २१ ) ॥

मृदीका ( वही दात्व ), मधुक ( मुहैदटी ), मधुपर्णी ( गिलांय ), मेदा, विदारी ( विदारी कन्द ), काकोली, क्षीरकाकोली, जावक, जीवन्ती, शालपण्य ये दस 'स्नेहोपग' अर्थात् शरीर में कोमलता ओर चिकनाई उत्पन्न करनेमें सहायक हैं ॥

शोभाज्ञनकेरण्डार्क-वृश्चीर-पुनर्नवा-यवन-तिल-कुलत्थ-माष-बदरा-  
णीति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति ॥ ( २२ ) ॥

शोभाज्ञन ( सहजन ), एरण्ड, अर्क ( आक ), वृश्चीर ( श्वेत पुनर्नवा ), पुनर्नवा ( रक्त पुनर्नवा ), यव ( जौ ), तिल, कुलत्थ ( कुलत्थी ), माष ( उद्द ), बदर ( ज्ञाझी के बेर ) ये दस अोपविधि 'स्वेदोपग' अर्थात् शरीर में पसीना लाने में सहायक हैं ॥

मधु-मधुक-कोचिदार-कर्बुदार-नीप-विदुल - विभूती-शणपुष्पी-सदा-  
पुष्पी-प्रत्यक्षपुष्पय इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ॥ ( २३ ) ॥

मधु ( शहद ), मधुक ( मुलहटी ), कोचिदार ( लाल कचनार ), कर्बुदार ( श्वेत कचनार ), नीप ( कदम्ब ); विदुल ( जल येतम ), विभूती ( कन्दरी ), शणपुष्पी ( शतज्ञनिया ), सदा पुष्पी ( आक ), प्रत्यक्षपुष्पी ( अगामार्ग, चिरचिटा ) ये दस 'वमनोपग' अर्थात् वमन में मदद देती हैं ॥

द्राक्षा-काइर्म्य-परुषकाभयामलक-विभीतक-कुवल-बदर-कर्कन्धू-पी-  
लूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥ ( २४ ) ॥

द्राक्षा ( किशमिश ), काइर्म्य ( गम्भारी ), परुषक ( फालसा ), अमया ( जंगी हरड ), आमलक ( आंबला ), विभीतक ( बहेडा ), कुवल ( बड़ा बेर ), बदर ( बृक्ष का बेर ), कर्कन्धू ( ज्ञाडी का बेर ), पीलू ये दस 'विरेचनोपग' अर्थात् विरेचन में सहायक हैं ॥

त्रिवृद्ध-विल्व-पिप्पली-कुष्ठ-सर्प-वचा-वस्तकफल-शतपुष्पा-मधुक-  
मदनफलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति ॥ ( २५ ) ॥

त्रिवृत् ( निशोथ ), विल्व ( वेलगिरी ), पिप्पली, कुष्ठ ( कठ ), सर्प ( सरसों ), वच, वत्सक फल ( इन्द्र जाँ ), शतपुष्पा ( साँक ), मधुक ( मुले-हठी ) मदनफल ( मैनफल ) ये दस 'आस्थापनोपग' अर्थात् रूक्ष वर्णित के लिये उपयोगी हैं ॥

रास्ना-सुरदारु-विल्व-मदन-शतपुष्पा-वृश्चीर-पुनर्नवा-श्वदंष्ट्राग्नि-  
मन्थ-इयोनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ॥ ( २६ ) ॥

रास्ना, सुरदारु ( देवदारु ), विल्व ( वेलगिरी ), मदन ( मैनफल ), शतपुष्पा ( साँक ), वृश्चीर ( श्वेत पुनर्नवा ), पुनर्नवा ( रक्त पुनर्नवा ), श्वदंष्ट्रा ( गोल्वरु ), अविनमन्थ ( अरणी की छाल ), इयोनाक ( टेटू की छाल ) ये दस 'अनुवासनोपग' अर्थात् स्नेहवर्णित के लिये उपयोगी हैं ॥

ज्योतिष्मती-क्षवक-मरिच-पिप्पली-विडङ्ग-शिशु-सर्पपापामार्गतण्डुल-  
इवेता-महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनापगानि भवन्ति ॥ ( २७ ) ॥

इति सप्तकः कपायवर्गः ॥ [ ५ ] ॥

ज्योतिष्मती ( माल कंगनी ), क्षवक ( नक्खिकनी ), मरिच, पिप्पली, विडङ्ग ( वायविडङ्ग ), शिशु ( सहजन ), सर्प ( सरसो ), अपामार्गतण्डुल ( चिरचिटे के चावल ), श्वेता ( अपराजित श्वेत कोयला ), और महाश्वेता ( इवेता का भेद ) ये दस 'शिरो-विरेचनापग' अर्थात् शिरोविरेचन के लिये उपयोगी हैं ॥ यह सात का एक 'कपायवर्ग' हुआ ।

जम्बान्नपङ्गव-मातुलुङ्गाम्लबदर-दाढिम-यव-यष्टिकोशीर-मृग्जाजा  
इति दशेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति ॥ ( २८ ) ॥

जम्बु ( जामुन ); और आम ( आम ), इनके पङ्गव ( पते ); मातुलुङ्ग ( विजोरिया-नीबू ), अम्ल बदर ( खट्टे बेर ), दाढिम ( अनार ), यव ( जौ ), यष्टिका ( मुलैहठी ), उशीर ( खस ), मृत ( सौराष्ट्र देश की मिट्टी ), और लाजा ( खीले ) ये दस 'छर्दिनिग्रहण' वर्मन को रोकती हैं ॥

नागर-धन्वयासक-मुस्त-पर्पटक-चन्दन-किराततिक्कक-गुडूची-हीवे-  
र-धान्यक-पटोलानीति दशेमानि-तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति ॥ ( २९ ) ॥

नागर ( सौंठ ), धन्वयासक ( धमासा ), मुस्त ( नागरमोथा ), पर्पटक ( पित्तपापडा ), चन्दन ( लाल चन्दन ), किराततिक्कक ( चिरायती ), गुडूची

( गिलोय ), हीबेर ( नेत्रबाला ), धान्यक ( धनिया ), पटोल ( परबल ) ये दस औषधियां 'तृष्णानिग्रहण' अर्थात् प्यास को रोकने वाली हैं ॥

शटी-पुष्करमूल-बदरबीज-कण्टकारिका-बृहती-क्षरुहाभया-पिष्पली-दुरालभा-कुलीरशृङ्खल इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति ॥ (३०) ॥

इति त्रिकः कथायवर्गः ॥ [ ६ ] ॥

शटी ( कच्चर ), पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), बदरबीज ( बेर के बीज, गुटलो ), कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), बृहती ( बड़ी कटेरी ), इक्षुदहा ( बन्दा, यह एक पेड़ पर ही पौधा उत्पन्न हो जाता है ) अभया ( जंगी हरड़ ), पिष्पली, दुरालभा ( धमासा ), कुलीरशृङ्खली ( काकड़ा सींगी ) ये दस 'हिक्का-निग्रहण' अर्थात् हिचकी को शमन करती हैं ॥ यह तीन से बना हुआ कथाय वर्ग है ।

प्रियङ्ग-नन्ताम्नास्थि-कट्टवङ्ग-लोध्र-मोचरस-समझा-धातकीपुष्प-पद्मा-पद्मकेशराणीति दशेमानि पुरीषसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ (३१) ॥

प्रियंगु ( पूल प्रियंगु ), अनन्ता ( अनन्तमूल ), आम्नास्थि ( आम का गुठली ), कट्टवंग ( श्यामाक की छाल ), लोध्र ( पटानी लोध्र ), मोचरस ( सिम्बल का गोंद ), समंगा ( मंजीठ ), धातकी पुष्प ( धाय के पूल ), पद्मा ( भार्गी ), पद्मकेशर ( कमल का केशर ), यह दस 'पुरीषसंग्रहण' अर्थात् मल को रोकनेवाले हैं ॥

जम्बु-शळ्ळकीत्वकच्छुरा-मधुकशालमली-श्रीवेष्टक-भृष्टमृतपयस्योत्पल-तिलकणा इति दशेमानि पुरीषविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३२ ) ॥

जम्बु ( जामुन ), शळ्ळकीत्वक ( कुन्दुक की छाल ), कच्छुरा ( कच्च या धमासा ), मधुक ( मुलेहठी ), शालमली ( सिम्बल का गोंद ), श्रीवेष्टक ( विरौजा ) भृष्टमृत ( अग्नि के जलाने से जली हुई मिठी, चूल्हे की मिठी ), पयस्या ( विदारी कन्द ), उत्पल ( नील कमल ), तिल कण ये दस 'पुरीषविरजनीय' अर्थात् मल के दूषित रंग को बदलने वाले हैं ॥

जम्बवाम-प्लक्ष-वट-कपीतनोदुम्बराश्वत्थ-भळातकाश्मन्तक-सोम-बल्का इति दशेमानि मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ ( ३३ ) ॥

जम्बु ( जामुन ), आम्र ( आम ), प्लक्ष ( पिलखन ), वट ( वड ), कपीतन ( पारस पीपल ), उदुम्बर ( गूलर ), अश्वत्थ ( पीपल ), भळातक ( भिलावा ), अश्मन्तक, सोमबल्क ( सैर सफेद ) ये दस 'मूत्र-संग्रहण' अर्थात् मूत्र को कम करते हैं ॥

पद्मोत्पल-नलिन-कुमुद-सौगन्धिक-पुण्डरीक-शतपत्र-मधुक-प्रियङ्ग-धातकीपुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३४ ) ॥

पद्म ( कमल ), उत्पल ( नीला कमल ), नलिन, कुमुद, सौगन्धिक ( कमल का एक मेद ), पुण्डरीक ( श्वेत कमल ), शतरत्न, मधुक ( मुलैहटी ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ) धातकी पुष्प ( धाय के फूल ) ये दस 'मूत्र-विरजनीय' अर्थात् मूत्र में रंग लाते हैं, और दूषित रंग को प्राकृत रूप में लाते हैं ॥

वृक्षादनी-श्वदंष्ट्रा-बसुक-वशिर-पापाणभेद-दर्भ-कुश-काश-गुन्द्रेकट-  
मूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनायानि भवन्ति ॥ ( ३५ ) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [ ७ ] ॥

वृक्षादनी ( बन्दार्क ), श्वदंष्ट्रा ( गोखरू ), बसुक ( पुनर्नवा ), वशिर ( विरचिता ), पापाणभेद, दर्भमूलानि ( दाना ), कुश ( कुथा ), काश ( सरकन्डा ), गुन्द्रा ( होगला ), इकट्ठ ( ईकड़ी ), इकट्ठ का मूल 'मूत्र-विरेचनाय' अर्थात् मूत्र बढ़ाने वाले हैं । यह पांच से बना कपाय वर्ग है ।

द्राष्ट्राभयामलक-पिप्पली-दुरालभा-शुड्ही-कण्टकारिका-वृक्षांर-पुनर्न-  
वा-तामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति ॥ ( ३६ ) ॥

द्राक्षा ( किशमिथ ), अनया ( जंगी हरड़ ), आमलक ( आंवला ), दिश्मली, दुरालभा ( धमासा ), शुड्ही ( काकडासिंगी ), कण्टकारिका ( छोटी कंडेरी ), वृक्षशीर ( श्वेत पुनर्नवा ), पुनर्नवा ( रक्त पुनर्नवा ), तामलकी, ( भूई उंगवता ) ये दस 'कासहर' अर्थात् खांसी को शान्त करते हैं ॥

शटी-पुष्करमूलाम्लवेतसेला-हिङ्गवगुहु-सुरसा-तामलकी-जीवन्ती-  
चण्डा इति दशेमानि इवासहराणि भवन्ति ॥ ( ३७ ) ॥

शटी ( कचूर ), पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), अम्लवेतस, एला ( छोटी इला-यची ), हिङ्ग ( हींग ), अगुरु ( अगर ), सुरसा ( तुलसी ), तामलकी ( भूयामलकी ), जीवन्ती, चण्डा ( चोख ) ये दस 'इवासहर' अर्थात् श्वास रोग के नाशक हैं ॥

पाटलार्गिनमन्थ-विल्व-श्योनाक-काशमर्य-कण्टकारिका-वृहत्ती-शालप-  
र्णी-पूदिनपर्णी-गोज्जुरका इति दशेमानि शोथहराणि भवन्ति ॥ ( ३८ ) ॥

पाटला ( पाढ़ल ), अग्निमन्थ ( अरणी ), विल्व ( बेलगिरी ), श्योनाक ( टेंटु ), काशमर्य ( गम्भारी ), कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), वृहत्ती ( बड़ी कटेरी ), शालपर्णी, पूदिनपर्णी, गोज्जुरक ( गोखरू ), ये दस 'शोथहर' अर्थात् सूजन कम करते हैं ॥

सारिवा-शर्करा-पाठा-मज्जिष्ठा-द्राक्षा-पीलु-परूपकाभयामलक-विभी-  
तकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवन्ति ॥ ( ३९ ) ॥

सारिवा ( अनन्तमूल ), शर्करा ( मिश्री ), पाठा ( पाढ़ल ), मंजिष्ठा  
( मंजीठ ), द्राक्षा ( किशमिश्र ), पीलु, परूपक ( फालसा ), अभया ( बड़ी  
द्वेरड ), आमलकी ( आवला ), विमांतक ( वहेड़ा ), ये दस 'ज्वरहर' अर्थात्  
ज्वर नाशक हैं ॥

द्राक्षा-खर्जूर-पियाल-बदर-दाढ़िम-फलगु-परूपकेक्षु-यव-यष्टिका इति  
दशेमानि अमहराणि भवन्ति ॥ ( ४० ) ॥

इति पञ्चकः कथायवर्गः ॥ [ = ] ॥

द्राक्षा ( किशमिश्र ), खर्जूर ( मिण्डखर्जूर ), पियाल ( प्याल चिरौंजी फल ),  
बदर ( वेर ), दाढ़िम ( अनार ), फलगु ( अंजीर ), परूपक ( फालसा ), इक्षु  
( दंख ), यव ( जौ ), यष्टिक ( साठो चावल ) ये दस 'अमहर' अर्थात् यथा-  
बट को मिटाते हैं ॥ यह पांच मे बना 'कथायवर्ग' है ।

लाजा-चन्दन-काश्मर्यफल-मधुक-शर्करा-नीलोत्पलोशीर-सारिवा-गु-  
दूची-हींबेराणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४१ ) ॥

लाजा ( खील ), चन्दन ( श्वेत चन्दन ), काश्मर्यफल ( गम्भारी फल )  
मधुक ( मुलहठी ), शर्करा ( मिश्री ), नीलोत्पल ( नाला कमल ), उशीर ( खस )  
सारिवा ( अनन्तमूल ), गुदूची ( गिलोय ), हींबेर ( नेत्रवाला ), ये दस 'दाह-  
प्रशमन' अर्गात् जलन कम करते हैं ॥

तगरागुरु-धान्यक-शृङ्खवेर-भूतीक-बचा-कण्टकारिकाग्निमन्थ-इयो-  
नाक-पिप्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति : ( ४२ ) ॥

तगर, अगुरु ( अगर ), धान्यक ( धनिया ), शृङ्खवेर ( सोठ ), भूतीक  
( अजवायन ), बचा, कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ) अग्निमन्थ ( अरणी ), शीतनाक  
( टेंडु ), और, पिप्पली, ये दूष 'शीत-शप्रशमन' अर्थात् शीतनाशक हैं ॥

तिन्दुक-पियाल-बदर-खदिर-कदर-सप्तपर्णीश्वर्णोर्जुनासनारिमेदा  
इति दशेमान्युदर्द्वेषमनानि भवन्ति ॥ ( ४३ ) ॥

तिन्दुक ( तेंदू ), पियाल ( चिरौंजी का फल ), बदर ( वेर ), खदिर ( खैर ),  
कदर ( सफेद खैर ), सप्तपर्ण ( सातवन ) अश्वकर्ण ( साल ), अर्जुन, असन

१. कदर—‘सोमवल्कस्तु रोठायांकदरे कृष्णगर्भके’ । ४० निषण्डु ।

( पीतसाल ), अरिमेद ( 'विट्कदिर इरिमेद'), ये दस 'उदर्द' अर्थात् शीतपिता रोग को शान्त करते हैं ॥

विदारीगन्धा-पृश्निपर्णी-बृहती-कण्टकारिकैरण्ड-काकोली-चन्दनो-शीरैला-मधुकानीति दशेमान्यङ्गमर्दप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४४) ॥

विदारीगन्धा ( शालपर्णी ), पृश्निपर्णी ( पिठवन ), बृहती ( बड़ी कंटेरी ) कण्टकारिका ( छोटी कंटेरी ) एण्ड, काकोली, चन्दन ( लाल चन्दन ), उशीर ( खस ), एला, ( छोटी इलायची ), मधुक ( मुलहठी ), ये दस 'अंगमर्द-प्रशमन' अर्थात् अंगों के टूटने को बेचैनी का घिटाते हैं ॥

पिष्पली-पिष्पलीमूल-चब्य-चित्रक-शृङ्गवेर-मरिचाजमोदाजगन्धाज्ञा-जी-गण्डीराणीति दशेमानि यन्त्रप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४५) ॥

इति पञ्चकः कपायर्गः ॥ [ ६ ] ॥

पिष्पली, पिष्पली-मूल, चब्य ( चित्रिका ), चित्रक ( चातामूरु ), शृङ्गवेर ( सांट ), मरिच, अजमोदा ( अजवायन ), अजगन्धा ( ढक़ ), अजाजी ( जीरा ), गंडोर ये दस 'शूलप्रशमन' अर्थात् तीव्र पोझ के नाशक हैं ॥ यह पांच का एक 'कपाय वर्ग' होता है ।

मधु-मधुक-रुधिर-मोचरस-मृत्कपाल-लोभगैरिक-प्रियङ्गु-शर्करा-लाजा इति दशेमानि शोणित-स्थापनानि भवन्ति ॥ (४६) ॥

मधु ( शहद ), मधुक ( मुलैहठी ), रुधिर ( केशर ), मोचरस ( सिम्बल का गांद ), पृत्कपाल ( मिट्टी का ठीकरा ), लोभ ( पठानी लोध ), गैरिक ( गेल ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ), शर्करा ( मिश्री ), लाजा ( खीलें ) ये दस 'शोणित-स्थापन' अर्थात् रक्तरोधक वा बहते खून से रोकने वाले हैं ॥

शाल-कट्फल-कदम्ब-पद्मक-तुङ्ग-मोचरस-शिरीष-वज्रजुलैलवालुका-शोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति ॥ (४७) ॥

शाल ( साल ), कट्फल ( कायफल ), कदम्ब, पद्मक ( पद्माख ), तुङ्ग ( नाग केशर ) मोचरस ( सिम्बल का गांद ), शिरीष ( सिरस ), वज्रजुल ( जलवेतस ), एलवालुक, अशोक ये दस 'वेदनास्थापन' अर्थात् तीव्र वेदना को कम करते हैं ॥

हिङ्कु-कैडर्यारिमेद-वचा-चोरक-चयःस्थानोलोमी-जटिला-पलङ्गुषाशो-करोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ॥ (४८) ॥

हिङु ( हींग ), कैडर्य ( नीम ). अरिमेद ( रेवा ), वच, चोरक, चयस्था

१. विट्कदिर—इस खैर से बदबू आती है ।

२ तुङ्ग के स्थान पर तुम्ब पाठ होने पर तेजवल लेना चाहिये ।

( ब्राह्मी ), गोलोमी ( वच या दूर्वा ), जटिला ( जटामांसी ), पलंकथा ( गुग्गुलु ), अशोकरोहिणी ( कुटकी ) ये दस 'संज्ञा-स्थापन' अर्थात् संज्ञा उत्पन्न करते हैं ॥

ऐन्द्री-ब्राह्मी-शतवीर्या-सहस्रवीर्यामोघाव्यथा-शिवारिष्टा-वाक्यपुष्पी-विष्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति ॥(४६)॥

ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या ( शतावरी ), सहस्रवीर्यां ( महाशतावरी ), अमोघा ( आंवला ), अव्यया ( गिलोय ), शिवा ( हरीतकी ), अरिष्टा ( कुटकी ), वाक्यपुष्पी ( खरैटी ), विष्वक्सेनकान्ता ( ग्रियंगु ) ये दस 'प्रजास्थापन' अर्थात् संतति जनक हैं ॥

अमृताभया-धात्री-मुक्ता-इवेता-जीवन्त्यतिरसा-मण्डूकपर्णी-स्थिरा-पुर्ननेवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥ (५०) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [ १० ] ॥

अमृता ( गिलोय ), अभया ( हरड़ ), धात्री ( आंवला ), मुक्ता ( रास्ना ), इवेता ( अपराजिता ), जीवन्ती, अतिरसा ( शतावरी ), मण्डूकपर्णी स्थिरा ( शालपर्णी ), और पुर्ननेवा ये दस औपचिं 'वयः स्थापन' अर्थात् वय की टिकाती हैं ॥ यह पाँच से बना हुआ कपाय वर्ग है ।

इति पञ्चकपायशतान्यभिसमस्य पञ्चाशन्महाकषायाः, महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति ॥ १४॥

इस प्रकार से ( प्रत्येक द्रव्य के गिनने से ) पाँच वर्ग ( ५०० ) कपाय पूर्ण हो जाते हैं, एवं पचास ( ५० ) 'महाकषाय' भी हो जाने हैं । इन कपायों के लक्षण उदाहरण भी कह दिये गये हैं ॥ १५॥

न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसंक्षेपोऽल्पबुद्धीनां सामर्थ्योपकल्पते, तस्मादनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः । एतावन्तो ह्यलमल्पबुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमतां च स्वालक्षण्यानुमानयुक्तिकुशलानामनुकूलार्थज्ञानायेति ॥ १५ ॥

फैलाव की सीमा नहीं है और बहुत थोड़े में कहे हुए अर्थ को थोड़ी बुद्धि बाले नहीं समझ सकते । इसलिये न तो बहुत संक्षेप में और न बहुत विस्तार से यहाँ कहा है । यहाँ पर जितना भी कहा है वह थोड़ी बुद्धिवालों के व्यवहार चलाने के लिये है और जो लक्षण अनुमान, युक्ति में निपुण हैं, उन बुद्धिमानों के लिये न कहे हुए अर्थ को जानने के लिये सहायक होगा ॥ १५॥

एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—नैतानि भगवन् !

पञ्चकथायशतानि पूर्यन्ते, तानि तानि हेवाङ्गानि संप्रवन्ते तेषु तेषु महाकपायेऽविति ॥ १६ ॥

इस प्रकार से कहते हुए 'भगवान् आत्रेय' के प्रति अग्निवेश बोले—हे भगवन् ! ये पाच सौ कपाय पूरे नहीं हाते । क्योंकि वे ही द्रव्य उन उन महा कषायों में बार-बार आते हैं । अर्थात् एक द्रव्य भिन्न २ कषायों में बार-बार आता है । इस प्रकार से ५०० कपाय पूरे नहीं हो सकते ॥ १६ ॥

तुमुवाच भगवानात्रेयः—नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमनिवेश ! एकोऽपि हानेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन् । तद्यथा—पुरुषो वहूनां कर्मणां करणे समर्थं भवति । स यद्यत्कर्म करोति तस्य तस्य कर्मणः कर्तृकरणकार्यसंप्रयुक्तं तच्छूलगोणं नामविशेषं प्राप्नोति तद्वदोषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम् । यदि त्वेकमेव किंचिद् द्रव्यमासादयामस्तथा-गुणयुक्तं यत्सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्तोऽन्यदिच्छ्लेदुपधारयि-तुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति ॥ १७ ॥

आग्नवेश के प्रति भगवान् आत्रेय बोले हैं अग्निवेश ! बुद्धिमान् व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिये । एक द्रव्य भी दूसरे २ काम करता हुआ भिन्न २ संज्ञा वाला हो जाता है । जिस प्रकार एक पुरुष यहुत से काम करने में समर्थ होता है । वह जो जो भी काम करता है, वह उस कर्म के बह कत्ता, करण (साधन) और कार्य के अनुसार वह गुणवाले नाम विद्येय को ग्राह होता है । इस प्रकार से औपर द्रव्य को भी कार्य साधन और कत्ता आदि दृष्टि से देखना चाहिये । और वहि किसी ऐसे एक ही द्रव्य को प्राप्त करलें, जो द्रव्य सब काम करने में समर्थ हो, तो फिर कौन दूसरी औपच को पास में रखने अथवा शिष्यों का उपदेश करने के लिये शंखट करे, इसलिये काम करने में समर्थ शक्ति वाला ऐसा कोई एक द्रव्य नहीं है ॥ १७ ॥

तत्र श्लोकाः ।

यतो यावन्ति येद्रव्यैर्विरेचनशतानि पद् ।

उक्तानि संप्रहेणैह तथैवेषा षडाश्रयाः ॥ १८ ॥

रसा लवणवज्याश्च कषाय इति संज्ञिताः ।

तस्मात्पञ्चविधा योनिः कषायाणामुदाहृता ॥ १९ ॥

तथा कल्पनमव्येषामुक्तं पञ्चविधं पुनः ।

महर्ता च कषायाणां पञ्चात्शपरिकीर्तिः ॥ २० ॥

पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः ।

लक्षणार्थं, प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते ॥ २१ ॥

न चालमतिसंक्षेपः सामर्थ्यायोपकल्पते ।

अल्पबुद्धेरयं तस्मान्नातिसंक्षेपविस्तरः ॥ २२ ॥

मन्दानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये ।

पञ्चाशत्को ह्यं वर्गः कषायाणामुदाहृतः ॥ २३ ॥

तेषां कर्मसु वाहेषु योगमाभ्यन्तरेषु च ।

संयोगं च प्रयोगं च यो वेद स भिपग्वरः ॥ २४ ॥

इस विशय में श्लोक हैं—

जिन द्रव्यों में से (छः सो) विरेचन योग होते हैं वे एवं विरेचन योगों के छः आश्रय भी संक्षेप से कह दिये हैं ।

लघण ( नमक ) का छोड़कर शेष पांच रसोंकी 'कापाय' संज्ञा है । इसलिये कषायों की पांच प्रकार की योनि कही है । एवं इन पांच कषायों की पांच प्रकार की कल्पना ( बनावट ) भी कह दी है और पचास प्रकार के 'महाकपाय' कहे हैं । कषायों के पांच से प्रकार भी दिग्दर्शन के लिये, न तो बहुत विस्तार से और न बहुत संक्षेप में कहे हैं । वे शार्दौरुद्धि वार्लों को काम देने के लिये पर्याप्त हैं । इसलिये न विस्तार किया है और न बहुत संक्षेप । मन्द बुद्धिवाले व्यवहार का, चला सकें, और बुद्धिमान् की प्रतिभा दढ़ाने के लिये पांच सी कषायों का वर्ण कह दिया । इन कषायों का वाल्य कर्मों ऊथा आभ्यन्तर प्रयोगोंमें संदोग, और प्रयोग ( योजना ) को जानता है यह उत्तम वंद्य है । १८-२४।

द्रव्यग्निवेशकृतं तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रम्भारे भेषजचतुष्कं

पद्मविरेचनशतांश्चितीयो नाम स्तुत्योऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति भेषजचतुष्कः ॥ १ ॥

**अथ पञ्चमोऽध्यायः ।**

अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवान्नात्रयः ॥ २ ॥

१—वाल्य प्रयोग प्रलेप आदि में, अन्तःप्रयोग वमन आदि कायों में स्वस्थ एवं आतुर दोनों व्यक्तियों के लिये करने में समर्थ एवं संयोग मिश्रण अयोगिक, हानिकारक अनुचित औषधियों को योग में से निकाल देना एवं उचित को न कहने पर भी मिश्रण करना, प्रयोग देश, काल, प्रकृति, व्याधि, रोगी, बल आदि को देख कर योजना करना जो जानता है, वही उत्तम वैद्य है ।

भेषज चतुष्क कहने के अनन्तर 'मात्राऽशितीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे । इस प्रकार भगवानाश्रेय ने कहा है ॥१-२॥

मात्राशी स्यात् । आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी । यावद्ग्रथस्या-  
शनमश्वितमनुपहृत्य प्रकृतिं यथाकालं उरां गच्छति तावदस्य मात्रा-  
प्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ ३ ॥

मात्रा में आहार करने वाला होना चाहिये । आहार<sup>१</sup> की मात्रा जाठर  
अग्नि के बल की अपेक्षा करती है । जितना यात्रा हुआ भोजन मनुष्य की  
प्रकृति, स्वास्थ्य को तुकसान न पहुँचा वर ठांक नमय में जीर्ण हो जाता है  
भोजन की उतनी मात्रा जाननी चाहिये ॥ ३ ॥

तत्र शालि-पष्टिक-मुद्ग-लावक-पिञ्जलेण-शश-झरभ-अग्न्वरादीन्या-  
हार-द्रव्याणि प्रकृतिलघून्याप मात्रापेक्षाणि भवन्ति, तथा पिण्डेष्टु-क्षीर-  
विकृति-तिल-मापानूपौदकपिशितादीन्याहारद्रव्याणि प्रकृतिगुरुण्ययि  
मात्रामेवापेक्षन्ते ॥ ४ ॥

क्योंकि ( शाल ), हैमन्तक धान्य, ( पट्टिक ) माटो चावड. ( मुद्ग ), मूंग,  
( लाव ) बटेर, ( कपिङ्गल ) तंतर, ( एण ) काल मूग, ( शश ) खरगांश,

१. आहार चार प्रकार का है । यथा—भक्ष्य, चौथ्य, लेह्य और पेय ।  
भक्ष्य रोटी आदि, चौथ्य चूसने योग्य, लेह्य चाटने योग्य, और पेय पानी आदि द्रव ।

एक ही मनुष्य की शाक उदा एक समान नहीं रहती । यौवनावस्था में  
जितनी जाटराग्नि समर्थ होती है, उतनी वाल्यावस्था या वृद्धावस्था में नहीं  
होती । इसी प्रकार हेमन्त मृतु में जितना अग्नि प्रवल रहती है उतनी वर्षा में  
नहीं रहती । इस लिये प्रत्येक समय के लिये एक मात्रा एक व्यक्ति के लिये भी  
निश्चित करना असम्भव है, फिर सब के लिये सामान्य रूप से मात्रा निश्चित  
करना तो और भी असम्भव है । इसलिये 'मात्रा' का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के  
ऊपर ही छोड़ दिया है ।

२ (क)—'यथाकालः—प्रातःकाल का भोजन सायंकाल तक और सायंकाल  
का भोजन प्रातः कालतक जीर्ण हो जाये । क्योंकि हमारे यहां दो ही समय  
भोजन का विधान है । यथा—

'सायं प्रातर्मनुष्याणां भोजनं विधिनिर्मितम् ।

नान्तरे भोजनं कुर्याद् अग्निहोत्रसमो विधिः ॥'

सर्वांगसुन्दरी टीका ॥

( शरम ) वडे सींगों वाला पाढ़ा हरिण, ( शम्भर ) हरिण साबर आदि आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार ( पिट ) पिटी से बनी हुई वस्तुएँ; ( इल्जु ) गुड़ खांड आदिसे बनी; ( क्षीर-विकृति ) दूध, मावे आद से बनी; तिल, ( माष ) उड्ड, ( आनूषौदक पिशित ) अथात् जल प्रदेश में या जल के अन्दर रहने वाले प्राणियों का मांस आदि आहार द्रव्य स्वभाव से ही भारी हैं। ये सब भी मात्रा<sup>२</sup> की ही अपेक्षा करते हैं ॥ ४ ॥

न चेवमुक्ते द्रव्ये गुरुलाघवमकारणं मन्येत । लघूनि हि द्रव्याणि वाय्वग्निं-गुणं-वहुलानि भवन्ति, पृथिवी-सोम-गुण-वहुलानीतराणि; तस्मात्स्वगुणादपि लघून्यग्निं-संधुक्षण-स्वभावान्यल्प-दोषाणि चोन्य-न्तेऽपि सौहित्योपयुक्तानि, गुरुणि पुनर्नाग्निं-संधुक्षण-स्वभावान्यसामान्यात्, अतश्चातिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तान्यन्यत्र व्यायामाग्निं-बलान्; सेषा भवत्यग्निवलापेक्षिणा मात्रा ॥ ५ ॥

शालि, सांटी आदि पदार्थ विना मात्रा में खाने से अहितकर हैं और पीछों गुड़ आदि से बने पदार्थ मात्रा में खाने से हितकर होते हैं, यदि मात्रा की ही अपेक्षा से ये हितकर या अहितकर होते हों, तो द्रव्यों का गुरु एवं लघुगुण-

(ख) - मनुष्य का प्रकृति के ऊपर मात्रा का निर्णय रखने से, विषम और तोक्षन अग्निवले व्यक्ति भी अपनी भोजन को मात्रा भव्य निश्चय कर सकते हैं। तोक्षन अग्नि वाले को इतना भोजन करना चाहिए, जो कि ठीक समय में जीर्ण हो जाये, इसी प्रकार विषम अग्नि वाले भी ठीक समय में जीर्ण हो सके ऐसा भोजन करें, यही उनकी मात्रा है।

(ग) - 'प्रकृतिमनुपहत्य' - भोजन से कुशि का पाइन न होना, हृदय का न रुकना, पाइवों का न फूलना, पेट का न तनना या भारी न होना, श्वास में कठिनाई का न होना, भूख, प्यास की शान्ति, उठने बैठने, चलने फिरने, लेटने या बात-चीत में हल्कापन अथवा नुक्क की प्रतीति होना ही प्रकृति है। देखिये विमानस्थान अध्याय २ ।

१. एक पदार्थ लघु होता हुआ भी अधिक मात्रा में खाने से 'गुरु' हो जाता है। इसी प्रकार गुरु पदार्थ थोड़ा खाने से 'लघु' हो जाता है।

२. मात्रा के साथ 'संस्कार' राखने की विधि से भी लघु पदार्थ गुरु और गुरु पदार्थ लघु बन जाते हैं।

सम्बन्धी ज्ञान करना पर्याप्त है ? ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्यों का गुरु या लघु होना भी अकारण या निष्प्रयोजन नहीं है ।

बायु और अग्नि के गुणों की अधिकता वाले पदार्थ लघुगुण वाले होते हैं [ आकाश गुण वाले बहुतसे द्रव्य लघु होते हुए भी अग्नि का बढ़ाने वाले नहीं होते, इसलिए इनका ग्रहण नहीं किया ] । पृथ्वी, साम ( जल ) गुणों की अधिकता वाले पदार्थ गुरु होते हैं ।

इसलिये लघु पदार्थ बायु एवं अग्नि से बने होने के कारण; और अपने गुणों के कारण से —जैसे बायु रूक्ष लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर गुण वाला है, इससे भी लघु पदार्थ जाठराग्नि को संदीपन करने वाले एवं तृतीय पूर्वक मात्रा का व्यतिक्रम करके खाने पर भी थोड़ा दाय वाले होते हैं; ये अधिक दाय नहीं करते ।

गुरु द्रव्य अग्नि को संदीपन करने वाले नहीं होते । क्योंकि असमान होने से अग्नि से विपरीत गुण वाले हैं अथात् पृथ्वी आर जल के गुण वाले होते हैं । अतः तृतीय पूर्वक पेट भर के खाने से बहुत अधिक दाय कारक होते हैं । व्यायाम अग्निवल और हेमन्त श्रुतु आदि में स्वभावतः अग्नि तृद्धि होने के कारण ये विकार नहीं करते; अन्य अवस्थाओं में विकार उत्पन्न करते हैं ॥५॥

इसलिये 'मात्रा' अग्नि वल की अपेक्षा करती है गुरु लघु द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती ॥५॥

न च नापेक्षते द्रव्यम् । द्रव्यपेक्षया च त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं वा  
गुरुणामुपादिश्यते; लघूनामपि च नातिसौहित्यमग्नेयुक्त्यर्थम् ।

मात्रा द्रव्य की अपेक्षा नहीं करते, ऐसा भी नहीं क्योंकि मात्रा की अपेक्षा से गुरु द्रव्यों का तान हिस्सा या आधे पेट, जिससे कि कुक्षि में प्रीड़िन, भारी-पन प्रतीत न हो, इतना खाना बताया है । परिमाण या मात्रा से नहीं बताया । इसी प्रकार लघु गुण वाले पदार्थों का भी पेट भर के खाने का आदेश नहीं

१. अग्नि भी रूक्ष, लघु, सूक्ष्म चल, विशद, खर है, इसलिये इस गुणवाले पदार्थ अग्नि को बढ़ायेंगे । समान गुण वाले समान गुणों को बढ़ाते हैं । अतः अधिक मात्रा में खाने पर भी लघु पदार्थ अग्नि को बढ़ायेंगे ही ।

२. व्यायाम करने वाले मनुष्य को विशद वा अविशद सब प्रकार का भोजन पच जाता है । क्योंकि व्यायाम से अग्नि बढ़ती है । हेमन्त में अग्नि स्वभावतः प्रबल होती है, अतः गुरु पदार्थ खाने का आदेश दिया है ।

दिया । इतना खाना चाहिये जिससे कि अग्नि समान रूप से स्थिर रह सके । जीवन के लिये खाना, खाने के लिये जीना नहीं ।

मात्रा में खाने के फल—

मात्रावद्धृथश्नमश्तमनुपहत्य प्रकृतिं बल-वर्ण-सुख-युषा योजयत्युप-योक्तारभवश्यमिति ॥ ६ ॥

क्योंकि मात्रा में खाया हुआ आहार प्रकृति और स्वास्थ्य को न विगड़ कर उपयोग करने वाले मनुष्य को बल, वर्ण ( कान्ति ), सुख, आयु से युक्त करता है, इसलिये मात्रानुसार भोजन करना चाहिये ॥ ६ ॥

भवन्ति चात्र—

गुरु पिष्ठमयं तस्मात्पञ्चलान् प्रयुकानपि ।  
न जातु सुक्तवान् खादेन्मात्रां खादेद् बुभुक्षितः ॥ ७ ॥  
बल्लूरं शुद्धकशाकानि शालूकानि विसानि च ।  
नाभ्यसेद् गौरवान्मांसं कृदं नेवोपयोजयेत् ॥ ८ ॥  
कूर्चिकाश्च किलाटांश्च शौकरं गव्यमाहिषे ।  
मत्स्यान्दधि च मारांश्च यवकाश्च न शीलयेत् ॥ ९ ॥

इसलिये भोजन कर नुकने पर भारी पिण्डी से बने चावल, चिवडा इनको कभी भी नहीं खाये । मात्रा में भी भोजन करने के बाद इनको नहीं खाना चाहिये । मूँखे होनेपर इन पदार्थों को मात्रामें ही खाना चाहिये अधिक नहीं ।

बल्लूर ( सूखा हुआ मांस ); सूखे हुए शाक-कचरों आदि शालूक ( कमल का कन्द ) और विस मृणाल इनका निरन्तर उपयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये पदार्थ गुरु हैं । इसी प्रकार दुर्वल, रुण पद्म का गांस भी नहीं खाना चाहिये । ( कूर्चिक ) छाछ के साथ पकाया हुआ दूध, ( किलाट ) छाछ के साथ पकाये हुए दूध का घन ठोस भाग, सुअर का मांस, गाय और मैस का मांस, मच्छलियों का मांस, दही, उड्ढ और शूक धान्य, जई इनको निरन्तर लगातार नहीं खाना चाहिये ॥ ७-९ ॥

षष्ठिकाब्छालिमुद्गांश्च सैन्धवामलके यवान् ।

आन्तरीक्षं पयः सर्पिञ्जङ्गलं मधु चाभ्यसेत् ॥ १० ॥

१. लघु भोजन अधिक मात्रा में खाने से अग्नि को सन्दीपन करने का गुण रखते हुये भी शरीर के लिये हानिकारक होंगे, क्योंकि शर्क पत्थर पर ही तेज होता है, और पत्थर पर अधिक पैनाने से वह खुन्दा भी बन जाता है । अंख तेजोमय है, वही आख तेज की अधिकता से विगड़ भी जाती है ।

षष्ठिक ( साठी चावल ), शालि ( हेमन्त शृङ्ग में पकने वाले धान्य ), मुदग ( मूंग ), सैन्धव ( सैंधा नमक ), आमलक ( आंबले ), यव ( जौ ), आन्तरिक्ष अर्थात् बरसात का जल, दूध, ची, जंगल में होने वाले मृग आदि का भास और शशद इनका निरन्तर ( अग्नि यज्ञ को देखते हुए उचित मात्रा में ) उपयोग करना चाहिये ॥ १० ॥

तत्र नित्यं प्रयुन्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते ।

अज्ञातानां विकाराणमनुपत्तिकरं च यत् ॥ ११ ॥

जो विशुद्ध क्षीण होने हुए शरीर को पोषण दे और जो न उत्पन्न हुए विकारों वा रोगों को न उत्पन्न करे ऐसा आहार का स्वास्थ्य के लिये नित्यप्रति उपयोग करे ।

रोगों की उत्पत्ति में 'प्रज्ञापराध' 'परिणाम' और 'असाम्येन्द्रियार्थ' संयोग ये तीन ही कारण हैं । अतः इनको छोड़कर और सब करना चाहिये, इनका सेवन नहीं करना चाहिये, इनसे बचना चाहिये । ऐसा करने से भावी में रोग उत्पन्न नहीं होगे ॥ ११ ॥

स्वस्थवृत्त—

अत ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यमक्ष्यञ्जनादिकम् ।

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्ष्यते ॥ १२ ॥

स्वास्थ्य के लिये आहार विधि को कह कर इस के आगे शारीरिक कार्यों का उपदेश करते हैं ।

स्वस्थवृत्त अर्थात् स्वास्थ्य की दृष्टि से अज्ञन आदि एवं शारीरिक कार्य उनके गुणों सहित कहते हैं ॥ १२ ॥

सौबीरमञ्जनं नित्यं हितमक्षणोः प्रयोजयेत् ।

पञ्चरात्रेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थे रसाञ्जनम् ॥ १३ ॥

आँख ते जोमय ( अग्नि रूप है ) इसलिये आँख को शरीर के दोष वात, पित्त और कफ इनसे भय बना रहता है । इनमें भी विशेष कर कफ से । इसलिये श्लेष्मा के जय के लिये पांचवें, छठे दिन तीक्ष्ण अंजन ( रसांजन ) रात्रि में लगाना चाहिये ।

सौबीराञ्जन को प्रतिदिन आँखों में लगाना चाहिये, क्योंकि यह आँखों के लिये हितकारी है । इससे आँख के तेज की रक्षा होती है, इससे आँखों के दोष दूर नहीं होते । आँखों के दोष दूर करने और आँखों से पानी का दोष निकालने के लिये पांचवें या आठवें दिन दोष के बलान्त की अपेक्षा से रसांजन को रात्रि में प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥

चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतो भयम् ।  
 दिवा तश्च प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्षणमञ्जनम् ॥ १४ ॥  
 विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति ।  
 तस्मात्स्नाव्यं निशाया तु ध्रवमञ्जनमिष्यते ॥ १५ ॥  
 ततः श्लेष्महरं कर्म हितं हृष्टः प्रसादनम् ।  
 यथा हि कनकादीनां मणीनां विविधात्मनाम् ॥ १६ ॥  
 धौतानां निर्मला शुद्धिस्तंल-चेल-कचादिभिः ।  
 एवं नेत्रेषु मर्त्यानामञ्जनाइच्योतनादिभिः ॥ १७ ॥  
 दृष्टिनिराकुला भाति निर्मले नभसीन्दुवत् ।

आँख तेजोमय है, उसे खास करके कफ से भय है । इसलिये विशेषतः दिन में तीक्ष्ण अंजन आँखों में नहीं करना चाहिये । क्योंकि दृष्टि तीक्ष्णांजन के लगाने से एवं टाप के कारण निर्बल होता है, इसलिये सूर्य को नहीं सहती, और यदि सूर्य के सामने अंजन दिन में लगाया जाय तो आँख पीड़ित होती है । इसलिए स्नावण अंजन को रात्रि में ही लगाना चाहिये<sup>१</sup> ।

श्लेष्मा के निकलने के बाद श्लेष्मा को घटाने वाला और आंख को स्वच्छ करने वाला प्रयोग करना चाहिये । जिस प्रकार की धूल आदि से मैले हुए नाना प्रकार के स्वर्णांद की तेल, ( वस्त्र ), बाल आदि से शिरने पर स्वच्छता होता है इसी प्रकार मूत्रयों की आँख सोताङ्जन, निर्मल, ( धातादि दोपों से रहित ) होकर स्वच्छ आकाश में चन्द्रमा के समान चमकता है ॥ १८-१७ ॥

अंजन के पीछे दृष्टि के प्रसादन के लिये श्लेष्महर कर्म करने का विधान है । इसलिये अंजन के पीछे भूमध्यापान कहते हैं ।

धूमप्रयोग की विधि—

हरेणुकां प्रियङ्कुं च पृथ्वीकां वेशरं नखम् ॥ १८ ॥  
 ह्वावेरं चन्दनं पत्रं त्वगोलोरीपद्माकम् ।  
 ध्यामकं मधुकं मासीं गुग्गुल्वगुरुशर्करम् ॥ १९ ॥

१. कुछ विद्वान् 'सीदति' का अर्थ 'अवजयति' करते हैं । इस प्रकार अर्थ करने से दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि आँख तेजोमय हैं, इसलिये विरेचन ( रात्रि में स्नावण अंजन लगाने ) से निर्बल हुआ व कफ के निकलने से कमजोर पड़ा हुआ दोष श्लेष्मा, प्रातः सूर्य की किरणों में बाकी बचा निकल जाता है । इसलिये वमन की भाँति पूवांह में सूर्य की किरणों में आँखों का स्नावण करना चाहिये और अंजन रात्रि में ही ।

न्यग्रोधोदुम्भराश्वत्य-सप्त-लोध-त्वचः शुभाः ।  
 वन्यं सर्जरसं मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले ॥ २० ॥  
 श्रीवेष्टकं शङ्खकीं च शुकवर्हमयथापि च ।  
 पिण्डवा लिपेच्छरेपीकां तां वर्ति यवसन्निभाम् ॥ २१ ॥  
 अङ्गुष्ठसंमितां कुर्यादस्त्राङ्गुलसमां भिषक् ।  
 शुष्कां निगर्भां तां वर्ति धूमनेत्रापितां नरः ॥ २२ ॥  
 स्नेहाक्तामग्निसंप्लुष्ट्रा पिवेत्प्रायोगिकीं सुखाम् ।

हेणुका ( मेहन्दी के बीज ), प्रियंगु, ( पूल प्रियंगु ), पृथ्वीका ( काला जीर्ण ), केशर ( नाग केशर ), नव ( नवी, एक मुगनिधत द्रव्य है ), 'ह्वैर' ( नेत्रवाला ), चन्दन ( इवेतचन्दन ), पत्र ( तेज पात ), त्वग् ( दालचीनी ), एला ( छोटी इलायची ), उशीर ( खस ), पद्माक ( पद्माख ), ध्यामक ( गन्ध रूण, सुगन्धित रूण ), मधुक ( मुलैटी ), मांसी ( जटामांसी ), गुणुल ( गूगल ), अगुरु ( अगर ), शर्करा ( शर्करा ), न्यग्रोध ( बड़ की छाल ), उदुम्भर ( गूलर की उत्तम छाल ), अश्वत्थ ( पोपल की उत्तम छाल ), प्लक्ष ( पिलखन की छाल ) और लोध्र ( लोध वृक्ष की उत्तम छाल ), वन्य ( कैवर्त मुस्तक, जल मुस्त ), सर्ज रस ( राल ), मुस्त ( नागर मांथा ), शैलेय ( शिलाहा ) कमल-उत्पल ( कमल और नील कमल इनका केशर ), श्रोवेक ( धूरविशेष ), शङ्खकी ( कुन्दरु धूप विशेष, अथव शिलारस ); और शुकवर्ह ( स्यौणेयक ) इन सब को जल के साथ पीसकर 'द्युर्घिका' ( सरकण्डा ) के ऊपर, जौ के समान बीच में से मोटी और पासों पर पतली एवं अंगूठे के बराबर मोटी, आठ अंगुल लम्बी बत्ती बना लेनी चाहिये, उसे सूख जाने पर सरकण्डे पर से बीच से खोखली खींच कर उतारनी चाहिये, बत्ती को धी से स्तिर्घ करके सुख पूर्वक नित्य प्रति पान करे । यह प्रायोगिक नित्य पाने योग्य धूम है ॥ १८-२२ ॥

स्नैहिक धूम—

वसा-धृत-मधूच्छिष्टर्युक्ति-युक्तेवरौपधैः ॥ २३ ॥

वर्ति मधुरकैः कृत्वा स्नैहिकीं धूममाचरेत् ।

वसा ( चर्वी ), धृत ( धी ), मधूच्छिष्ट ( मोम ), इनको जीवनीय गण के साथ बत्ती बनने योग्य भाजा में मिलाकर बत्ती बना ले । रुक्ष व्यक्ति स्नेहन करने वाले इस स्नैहिक धूम का पान करे; इस धूम का नित्य व्यवहार नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥

शिर में अवश्वद कफ को निकालने के लिये स्वस्थ पुरुष के लिये वैरेचनिक धूम—

इवेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला ॥ २४ ॥  
गन्धाश्चागुरुपत्राद्य धूमः शीर्षविरेचनम् ।

इवेता ( अपराजिता ), ज्योतिष्मती ( माल कंगनी ), हरिताल ( हरताल ), मनःशिला ( मैनसिल ), 'गन्ध अगुरु पत्रादि' ( ज्वर चिकित्सा में 'अगुरुआदि तेल' में कहे हुए अगरु, कुष्ठ, तगर, पत्रज आदि [ इनमें कुष्ठ और तगर को छोड़कर अन्य ] द्रव्य लेकर पीसकर पूर्व को भाँति बत्ती बना कर पीना चाहिये । यह धूम शिरोविरेचन के लिये वैरेचनिक धूम है ॥ २४ ॥

धूमपान के गुण—

गौरवं शिरसः शूलं पीनसाधार्घवभेदकौ ॥ २५ ॥  
कर्णाद्विशूलं कासश्च हिक्काइवासौ गलग्रहः ।  
दन्तदौर्बल्यमास्त्रावः श्वोत्रघाणाक्षिदोषजः ॥ २६ ॥  
पूतिर्ग्राणास्यगन्धश्च दन्तशूलमरोचकः ।  
हनुमन्याग्रहः कण्ठः क्रिमयः पाण्डुता मुखे ॥ २७ ॥  
श्वेतप्रसेको वैस्वर्यं गलशृण्डयुपजिह्विका ।  
खालित्यं पिञ्जररत्वं च केशानां पतनं तथा ॥ २८ ॥  
श्वथुश्वातितन्द्रा च दुद्धेऽर्होऽतिनिद्रता ।  
धूमपानात्प्रशास्यन्ति बलं भवति चाधिकम् ॥ २९ ॥  
शिरोखकपालानामिन्द्रियाणां स्वरस्य च ।  
न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वज्ञुजाः ॥ ३० ॥  
धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः ।

( गौरव ) शिर का भारीपन, शिर का दुखना, शिरोवेदना ( पीनस ) नाक की श्लैषिक कला का सूजन, ( अद्वावभेदक ) आंख-सींसी, ( कर्णशूल ) कान की पीड़ा, ( अक्षिशूल ) आंख का दुखना, ( काट ) खांसी, ( हिक्का ) हिचकी, ( श्वास ) दमा, ( गलग्रह ) स्वर भंग, ( दन्तदौर्बल्य ) दान्तों की निर्बलता, ( आस्त्राव ) कान नाक और आंख के रोग खाल का आना, ( पूतिर्ग्राण ) नाक से हुर्गन्ध आना, ( आस्थगन्ध ) मुख की बदबू, ( दन्तशूल ) दाँत की पीड़ा, ( अरोचक ) भोजन में अरुचि, अनिच्छा, ( हनुग्रह ) जबाड़ी भिच्चना, ( मन्याग्रह ) गर्दन का जकड़ जाना, इधर-उधर न हिलना, ( कण्ठ ) खाल, कुमि, ( मुखपाण्डुता ) चेहरे का पीलापन, ( श्लैषिकप्रसेक ) मुख से पानी का बहना

अर्थात् लाला स्वाव, ( वैस्तर्य ) स्वर का साफ न होना गलशुण्डी, उपजिह्विका ( खालित्य ) बालों का मिरना, ( पिंजरत्व ) बालों का धूसर रंग होना, ( केहपतन ) बालों का शड़ जाना, ( शवथु ) छांक आना, ( अतितन्द्रा ) आलस्य की अधिकता, ( बुद्धिमोह ) बुद्धिका जड़ बनना मूर्छा, ( अतिनिद्रिता ) नींदका अधिक आना ये रोग धूम्र पीने से अच्छे होते हैं और बाल, शिर की अस्थि, आँख कान आदि इन्द्रियों का, स्वर, और गले का बल अधिक होता है।

बलवान् कारण से भी बात कफ से उत्पन्न गठे से ऊपर होने वाले आँख, कान, नाक, मुख, गले के रंग खास कर शिर सम्बन्धी रोग मुख से धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को नहीं होते। मुख से धुआ लेकर नाक से निकाल देना चाहिये ॥ २५-३० ॥

धूम्रपान के आठ काल—

प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः संपरिकीर्तिंताः ॥ ३१ ॥

वात-इलेघ-समुत्क्लेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते ।

स्नातवा भुक्त्वा समुज्जिख्य क्षुत्त्वा दन्तान्त्रिघृष्य च ॥ ३२ ॥

नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत् ।

तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः ॥ ३३ ॥

रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानाखिक्षयस्त्रयः ।

प्रायोगिक धूम के मुख से पीने के आठ समय बहा आदि ने कहे हैं, क्योंकि इन आठ समयों में बात और कफ का प्रकोप देखा जाता है अन्य समयों में इतना कोप नहीं दिखाई देता।

स्नान करके, भोजन करके, वमन करके, छोके लेकर दांत जीभ साफ करके नाक से नस्य लेकर, आँख में अंजन करके, सो के उठकर, प्रसन्न मन हो तब धूम्र को पीना चाहिये। इसी प्रकार से बातजन्य और कफजन्य, ग्रीवा से ऊपर के रोग नहीं होते हैं।

शीत गुण के कारण यदि बायु प्रकुपित हुई है, तो बातजन्य रोग होते हैं। ऐसी अजस्था में स्नैहिक धूम लेना चाहिये। जब पुरुष रुक्ष हो, रुक्ष हर 'स्नैहिक धूम' पीना चाहिये। कफ जन्य रोग तब होते हैं, जब कि पुरुष में स्लिंग्थता ( रुक्षता का अमाव ) होता है। इसलिये कफ के नाश के लिये 'वैरेचनिक धूम' लेना चाहिये। तीन प्रकार के धूम्रपान की धूंटों की सीमा ६ ( नौ ) है। अर्थात् धूम्र पीने के समय में किसी भी प्रकार का धूम्र ६ धूंट से अधिक नहीं पीना चाहिये ॥ ३१-३३ ॥

परं द्विकालपाथी स्यादहः कालेषु बुद्धिमान् ॥ ३४ ॥

प्रयोगे, स्नैहिके त्वेकं, वैरेच्यं त्रिशतुः पिवेत् ।

यथपि धूम्रपान के आठ समय चलताये हैं, तथापि बुद्धिमान् को अपने शरीर के दोष वृद्धि, क्षय आदि का विचार करके दिन में आठ समयों में दो समय 'प्रायोगिक धूम' का पान करना चाहिये । स्नैहिक धूम का दिनभर में एक बार, और 'वैरेच्यनिक' धूम तीन चार बार पीना चाहिये, इससे अधिक नहीं ॥ ३४ ॥

ठीक प्रकार से पीये हुए धूम्रपान के लक्षण—

हृत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्घुल्वं शिरसः शमः ॥ ३५ ॥

यथेरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणम् ।

दृदय ( छाती, उरःस्थल ), गला, उरःस्थल का ऊर्ज्वर्भाग, इन्द्रियाँ—आँख कान नासिका आदि, इनकी स्वच्छता का प्रतीत होना, शिर का हल्कापन दोष—वात, पित्त, कफ, दोषों की शान्ति ये सम्यक् प्रकार से पीये हुए धूम्र प्रभाव के लक्षण हैं ॥ ३५ ॥

अधिक धूम्रपान के लक्षण—

वाधिर्यमान्ध्यं मूकत्वं रक्तपित्तं शिरोध्रमम् ॥ ३६ ॥

अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान् ।

( वाधिर्य ), बहरापन, ( आन्ध्य ), आँखों से कम या सर्वथा न दीखना, ( मूकत्व ), गूंगापन, जीभ से बांला न जाना ( रक्तपित्त ) पित्त प्रकोप से रक्त विकार होना ( शिरोध्रम ) सिर में चक्कर आना, ये रोग अकाल अर्थात् ठीक समय पर धूम न पीने से अथवा अधिक पीने से होते हैं ॥ ३६ ॥

अधिक धूम्रपान से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा—

तत्रां सपिष्टः पानं नावनाञ्जनतर्पणम् ॥ ३७ ॥

स्नैहिकं धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि ।

शीतं तु रक्तपित्ते स्याच्छ्लेष्मपित्ते विरुक्षणम् ॥ ३८ ॥

अधिक धूम्रपान करने पर धी का पिलाना अच्छा है । नस्य, आँखों में अंजन करना और संतर्पण करने वाले स्तिर्घ कर्म करने चाहिये ।

पित्त के कारण जहाँ रक्त दूषित हो वहाँ पर शीतल चिकित्सा, शीतस्पर्श शीत वीर्य वाले द्रव्यों से बनी औषध नस्य, अंजन आदि कार्य में बरतनी चाहिये, श्लेष्मप्रधान पित्त की अवस्था में 'विरुक्षण' अर्थात् रुक्ष गुण वाले द्रव्यों से नावन अंजन कर्म करने चाहिये ॥ ३७-३८ ॥

परं त्वतः प्रवद्यामि धूमो येषां विगर्हितः ।

न विरक्तः पिवेद् धूमं न कृते वस्तिकर्मणि ॥ ३९ ॥

न रक्ती न विषेणातों न शोचन्न च गर्भिणी ।  
 न अमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे ॥ ४० ॥  
 न मूच्छांभ्रमरुणासु न क्षीणे नापि च क्षते ।  
 न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च माक्षिकम् ॥ ४१ ॥  
 धूर्मं न भुक्त्वा दध्ना च न रुक्षः कुद्ध एव च ।  
 न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च ॥ ४२ ॥  
 न शङ्खके न रोहिण्या न मेहं न मदात्यये ।  
 एषु धूममकालेषु मोहात्पिबति यो नरः ॥ ४३ ॥  
 रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूमविभ्रमात् ।

इसके अगे कहेंगे कि किन २ पुरुषों के लिये धूम पान निन्दित है । 'विरिक' विरेचन जिसने लिया हो, वस्ति कर्म (रुक्ष या स्नेहन वस्ति जिसने ली हो), रक्ती (रक्त दोष वाला), विषार्त (विष से पीड़ित), शोचन् (शोकातुर मनुष्य), गर्भिणी (गर्भवती), श्रम (थकान चढ़ा होने पर), मद (नशा किया हुआ होनेसे पर) आम (अजीणांवस्था में), प्रजागर (रात्रि में जागने पर), मूल्धा (बेहोशी), भ्रम (चक्कर आना), तृष्णा (प्यास लगी होने पर), क्षीण (धातु क्षय होने पर), क्षत (उरः क्षत रोग में), मद्य (शराब पीकर), दुग्ध (दूध पीकर), स्नेह (धां तैल आदि पीकर), माक्षिक (शहद खाकर), दही के साथ चावल आदि खाकर रुक्ष (रुक्ष शरीर में रुखापन होने पर स्नैहिक धूम के अतिरक्त धूम), कुद्ध (कोप की अवस्था में), तालु शोष (गला सूख जाने पर), तिमिर (तिमिर नामक अक्षि रोग में), शिर पर चोट लगाने पर; शंखक (शंखक नामक शिरो रोग में), रोहणी रोग डिप्पीरिया, गलरोग में, मेह (प्रमेह रोग में), मदात्यय (मद्यपान करने पर शराब का नशा चढ़ा होने पर) इन अवस्थाओं में धूम पान नहीं करना चाहिये । इन कुसमयों में जो मनुष्य अज्ञान से धूम पान करता है, उसके धूम पान से कुपित वातादि दोष और रोग बढ़ाते हैं । जो ऊपर गिनाये जिन २ रोगों में मनुष्य धूम पीता है, उसके बे बे रोग बढ़ जाते हैं और नीरोगी व्यक्ति के अकाल में पीने से कठिन रोग हो जाते हैं ॥ ३६-४३ ॥

धूम किस प्रकार पीना चाहिये—

धूमयोग्यः पिबेहोषे शिरो-घ्राणाक्षि-संश्रये ॥ ४४ ॥

घ्राणेनाऽस्येन कण्ठस्थे, मुखेन घ्राणपो वमेत् ।

आस्येन धूमकवलान् पिबन् घ्राणेन नोद्धमेत् ॥ ४५ ॥

प्रतिलोमं गतो इशु धूमो हिंस्याद्वि चक्षुषी ।

विरक्तादि से भिन्न, बारह वर्ष से ऊपर, स्नानादि काल में धूम पीनेके योग्य मनुष्य दोष के नासिका, आँख में आश्रित होने पर नाक से धूम पान करे और कण्ठ ( गले या छाती में ) दोष स्थित होने पर मुख से धूम पान करना चाहिये । जो धूम नासिका से पिया है, उसको मुख मार्ग से निकालना चाहिये । अर्थात् धूम नासिका से पीकर मुख से निकालना चाहिये, नासिका से नहीं ।

परन्तु मुख से धूम पान करते हुए नासिका से धुँआ नहीं निकालना चाहिये, बल्कि मुख से पीकर मुख से ही याहर करना चाहिये, क्योंकि धुँआ विपरीत मार्ग से निकाल कर जल्दी ही आँखों को हानि पहुँचाता है ॥४४-४५॥

धूम पान के आसन—

**ऋज्वङ्गच्छुस्तस्त्वेताः सूपविष्टिपर्ययम् ॥ ४६ ॥**

**पिवेच्छिद्रं पिधायैकं नासया धूममात्मवान् ।**

अकुटिल, शरीर, चब्दु, हाथ, पांव, शिर, पीट, ग्रीवा को सीधे रख कर धूमपान में मनोयोग करके, अच्छी प्रकार शान्ति से बैठे हुए तीन-तीन दम एक साथ, कुल नौ बार पोना चाहिये और पीते समय नासिका का एक छेद बन्द कर लेना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से दोनों नासिकाओं से पोना चाहिये ॥

**चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वाङ्गुलीभिर्विरेचने ॥ ४७ ॥**

**द्वात्रिशदङ्गुलं स्नेहे प्रयोगेऽध्यर्थभिष्यते ।**

**ऋजुत्रिकापाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रभाणितम् ॥ ४८ ॥**

**बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ।**

वैरेचनिक धूम में पीने वाले की अपनी अंगुलियों से २४ अंगुल नेत्र नलिका होनी चाहिये, स्नैहिक धूम प्रयोग में बत्तीस अंगुल परिमित हो । प्रायोगिक धूम प्रयोग में ३६ छत्तीस अंगुल होनी चाहिये ।

नलिका की बनावट—पर्व गांठ गिरह सीधे तीन सीधी गिरह वाली गिरहों पर टीक प्रकार से मिली हुई, एवं आगे से मुख पर बेर के समान नलिका होनी चाहिये । नलिका को बनाने के द्रव्य पदार्थ बस्ति की नलिका के समान होने चाहिये ॥

**दूराद्विनिर्गतः पर्वच्छिन्नो नाडीतनूकृतः ॥ ४९ ॥**

**नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्राकालनिषेचितः ।**

**यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां ब्रजेत् ॥ ५० ॥**

**कफश्च तनुतां प्राप्तः सुपीर्तं धूममादिशेत् ।**

चौबीस या छत्तीस अंगुली लम्बी नलिका में दूर से आने के कारण तीन गिरह गाठों के होने से दीक्षण्टा का घट आना, बेर के समान छेद होने से

एक दम जोर से नहीं आ सकना, और मात्रा तथा उचित समय में सेवन किया हुआ धूम इन्द्रियों को पीड़ा नहीं पहुंचाता ।

उत्तम प्रकार से किये हुए धूम्रपान के लक्षण—

जब उरः ( वक्षःस्थल ), कण्ठ ( गला ), शिर का हल्के होना और कफ पतला हो जाये या घट जाये तब धूम अच्छी प्रकार से पीया हुआ समझना चाहिये ।

अयोग्य रूप में पिये हुए धूम के लक्षण—

अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च सक्को भवेत् ॥ ५१ ॥

स्तिमितो मस्तकश्चैव मर्पीतं धूममादिशेत् ।

जिस पुरुष का स्वर, अविशुद्ध स्पष्ट साक न हुआ हो कफयुक्त हो एवं जिसका गला कफयुक्त हो, और मस्तिष्क स्तिमित अथात् जकड़ा हुआ भारी प्रतीत होता है उसने टीक प्रकार से धूम नहीं पिया ऐसा समझना चाहिये ॥ ५१ ॥

अतियोग के रूप में धूम्रपान के लक्षण—

तालुर्मूर्धी च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते ॥ ५२ ॥

तृप्यते मुहाते जन्तु रक्तं च स्रवतेऽधिकम् ।

शिरश्च अमतेऽत्यर्थं मूर्ढी चास्योपजायते ॥ ५३ ॥

इन्द्रियाणुपतप्यन्ते धूमेऽत्यर्थं निषेविते ।

तालु, मूर्ढा ( शिर ) और कण्ठ ( गला ) खुश हो जाते हैं और जलते हैं, इनमें जलन होती है । जन्तु ( पुरुष ) को प्यास लगती है, मूर्ढी आ जाती है, विशेष रूप से रक्तसाव होता है, शिर धूमता है, मूर्ढा बेहोशी आ जाती है, और इन्द्रियों में दाह, जलन होती है, ये अति धूम्रपान के लक्षण हैं ॥ ५२-५३ ॥

नस्य प्रयोग—

वर्षे वर्षेऽणुतैलं च कालेषु त्रिषु नाऽचरेत् ॥ ५४ ॥

प्रावृद्धशरद्दसन्नेषु गतमेष्वे नभस्तले ।

नस्यकर्म यथाकालं यो यथोक्तं निषेवते ॥ ५५ ॥

न तस्य चक्षुर्न ग्राणे न श्रोत्रमुपहन्यते ।

न स्युः इवेता न कपिलाः केशाः इमध्यं वा पुनः ॥ ५६ ॥

न च केशाः प्रलुप्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः ।

मन्यास्तमः शिरःशूलमर्दितं हनुसंग्रहः ॥ ५७ ॥

पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पश्च शास्यति ।

शिराः शिरःकपालाना सन्धयः स्नायुकण्डराः ॥ ५८ ॥

नावनप्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽत्यधिकं वलम् ।

मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्तिंग्यः स्थिरो महान् ॥ ५९ ॥  
 सर्वे निद्रयाणां वै मलयं बलं भवति चाधिकम् ।  
 न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः ॥ ६० ॥  
 जीर्यतश्चेत्तमाङ्गे च जरा न लभते बलम् ।

आंख अथवा श्रीवा से ऊपर के अंग कान, नाक, आंख, शिर के स्नावण थांत धोने के लिये और अणु स्रोतस् इनके लिए हितकारी अणु तैल को पुरुष वर्षा छतु ( श्रावण भाद्रपद ), अथवा वर्षा का पूर्व भाग ( आषाढ़ श्रावण ), शरद् ( आदिवन और कार्तिक ), वसन्त ( माघ फाल्गुन ), इन तीनों कालोंमें जब आकाश चादलों से रहित एक दम निर्मल हो उस समय नस्य कर्म करे । जो पुरुष नस्य कर्मको टीक प्रकारसे उचित समय पर करता है उसके न तो आंख, न कान और न नासिका पीड़ित होती हैं । उसके शिर के बाल न तो इवेत होते हैं न भूरे ( धूसर रंग के ) होते हैं और न दाढ़ी मूँछ ही इवेत होती हैं । बाल भा गिरते-क्षड़ते नहीं; अपितु विशेष रूपसे बढ़ते हैं । नस्य लेने से ( मन्यास्तम्भ ) श्रीवा का अकड़ना, ( शिरःशूलम् ) शिरांवेदना ( अर्दित ) मुख का लकवा, ( हनुसंग्रह ) जवाहों का जकड़ जाना, ( पीनस ) नाभा रान्, ( अद्वावभेदक ) आधा सीसी और ( शिरःकम्प ) शिर का हिलना ये रोग शान्त हो जाते हैं ।

धमनियां, रक्तवाहिनी नाड़ियां और शिर की अभियां, शिर की सन्धियां ( स्नायु ) सूक्ष्म शिरायें, अथवा बन्धन-कण्ठरा दृढ़ बन्धन रञ्जु रूप शिर के बन्धन, नस्य प्रशोग से अधिक बलवान् हो जाते हैं । मुख प्रसन्न और तेजस्वी हो जाता है, स्वर ( आवाज़ ) स्तिंग्य, स्थिर, महान् . गम्भीर मीठा हो जाती है और सब इंद्रियां ( आंख, कान, नाक आदि ) निर्मल स्वरूप एवं अधिक बलवान् बन जाती हैं । नस्य कर्म करने वाले मनुष्य को गले से ऊपर के रोग अचानक उत्पन्न नहीं होते । क्षण होते हुए उत्तमांग में नाक, आंख, शिर, गले के ऊपर के अंगों में बुढ़ाये का लुरियां आदि नहीं होते ॥ ५४-६० ॥

अणु तैल की विधि—

चन्दनागुरुणी पत्रं दावीत्वङ्गमधुकं बलाम् ॥ ६१ ॥  
 प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैली विहङ्गं विल्वमुत्पलम् ।  
 हीवेरमभयं वन्यं त्वङ्गमुस्तं सारिवा स्थिराम् ॥ ६२ ॥  
 मुराहं पृश्निपर्णीं च जीवन्तीं च शतावरीम् ।  
 हरेणूं वृहतीं व्याधीं मुरभीं पद्मकेशरम् ॥ ६३ ॥  
 विपाच्येच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेऽम्भसि ।

तैलाहशगुणं शेषं कषायमवतारयेत् ॥ ६४ ॥  
 तेन तैलं कषायेण दशकृत्वो विपाचयेत् ।  
 अथास्य दशमे पांके समांशं छागलं पयः ॥ ६५ ॥  
 दद्यादेषोऽन्तलस्य नावनीयस्य संविधाः ।

चन्दन, अगर, तेजपत्र, वायविडंग, वेल वृक्ष की जड़, नील कमल पुण्डरीक, श्वेत कमल, छोटी हलायची, दारुहल्दी की छाल, मुलेहठी, बला खरैटी, नेत्रचाला, जंगी, हरड, वन्य (कैवर्तमुस्ता या मुद्रगपर्णी), त्वक् (दाल चीनी), नागर मोथा, अनन्तमूल, शालपर्णी, जीवन्ती, पाठवन, देवदार, शतावर, रेणुकावीज, बड़ी कट्टरा, सज्जाकः, पद्मकेशर, (कमल का केशर), इन को निर्मल, आकाश में बरसे माँ गुने वृष्टि के जल में पकाना चाहिये और तेल से दस गुना (दशांश भाग) रहने पर कपाय को उतार कर ज्ञान ले। इस कपाय के दस भाग करके प्रत्येक में उस तैल का दूसरे भाग के साथ, इसी प्रकार दसों भागों के साथ तैल सिद्ध कर लेने पर दसवें भाग में समांश तैल के बराबर बकरी का दूध कपाय में मिला दे। यह नस्य कर्म के योग्य अणु तैल बनाने की विधि है १ ॥ ६२-६५ ॥

अस्य मात्रा प्रयुज्जात तंलस्यार्धपलोनिमताम् ॥ ६६ ॥  
 स्तिनधस्विन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनेन्निभिः ।  
 अयहस्त्यहाच्च सप्ताहमेतत्कर्म समाचरेत् ॥ ६७ ॥  
 निवातोष्णसमाचारी हिताशी नियतेन्द्रियः ।  
 तैलमेतत्त्विदोषघनमिन्द्रियाणां बलप्रदम् ॥ ६८ ॥  
 प्रयुज्जानो यथाकालं यथोक्तानश्नुते गुणान् ।

इस तैल की अर्धपल अर्थात् (दो तांला) मात्रा को ले शिर के तैल लगा कर, चिकना कर के एवं पसीना लेकर तब रुई के फांये से तीन बार नस्य देना चाहिये।

१. “अकल्काऽप भवेत्सन्देहा यः साध्यः कवले द्रवे” इस परिभाषा के अनुसार चन्दन आदि पदार्थों को ऊखल में कूट कर ५० तोले परिमित लेकर ४०० तोले पानी में काथ करना चाहिये। ४० तोले रहने पर छान कर दस भाग कर लेने चाहिये। और एक भाग के बराबर अर्थात् ४ तोले तिल तैल मिला कर पाक पूर्व विधि से करना चाहिये। इस प्रकार ६ बार करके दसवीं बार बकरी का दूध ४ तोले मिला कर तैल पाक कर लेना चाहिये। यह अणु तैल विधि है। अणु तैल का नस्य सप्ताह में लगभग दो बार लेना चाहिये।

यह ( दो तोला तैल ) तीन तीन दिन के पीछे नस्य करे । अर्थात् यदि आज नस्य लिया है, तो तीन दिन छोड़कर पांचवें दिन नस्य ले । इस प्रकार से प्रत्येक श्रुतु में कुल सात दिन तक लेना चाहिये । सप्ताह में लगभग दो बार नस्य ले ।

इस तैल का नस्य लेने वाला व्यक्ति वायु के श्लोके में, खुली वायु में न रहे, शरीर को गरम बनाये रखें, पथ्थाशी, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, संयमी रहे । यह तैल वात, पित्त कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला और आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों को बल देने वाला है । जो व्यक्ति इस अणु तैल को समय दू पर विधिपूर्वक प्रयोग करता है उसे ऊपर लिखे हुए गुण मिलते हैं ॥ ६६-६८ ॥

दन्त धावन की विधि—

आपोथितांश्च द्वौ कालौ कषायकटुतिक्कम् ॥ ६९ ॥

भक्षयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन् ।

कसैले, कटु ( कटुवे ) नीम आदि, तिक्क ( तीखे ) तेजबल, जीयापोता आदि, रसयुक्त दातुन को आगे से चवाकर कट कर अर्थात् नरम बनाकर, मसूझों को नुकसान न पहुँचाते हुए, प्रातःकाल व्रिस्तर से उठ कर और साथकाल सोने के समय दांत साफ़ करे ॥ ६६ ॥

दातुन करने से लाभ—

निहन्ति गन्धवैरस्यं जिह्वादन्तास्यजं मलम् ॥ ७० ॥

निष्कृत्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशेधनम् ।

दातुन दुर्गन्ध को, बुरे स्वाद को, जीभ दांत और सुख के मल, और मुख के दुर्गन्ध को नष्ट करती है । दांतों को साफ करने से मुख में रुचि प्रसन्नता अथवा भोजन में रुचि उत्पन्न होती है ॥ ७० ॥

जीभ को साफ़ करने की विधि—

सुवर्णरूप्यताम्राणि व्रपुरीतिमयानि च ॥ ७१ ॥

जिह्वा-निलेखनानि स्युरतीक्षणान्यनृजूनि च ।

जिह्वा-मूल-गतं यच्च मलमुच्छ्वासरोधि च ॥ ७२ ॥

दौर्गन्धं भजते तेन तस्माज्जिह्वा विनिर्लिखेत् ।

जीभ को निलेखन अर्थात् खुरेच करके साफ करने के लिए सोना, चाँदी, ताम्बा, रँगा, जस्ता, पीतल और लोह इनकी बनी जीभी अतीश्य, जो तेज धारबाली न हो, ढेढ़ी मुड़ी हुई होनी चाहिये । जो मल जिह्वा के पिछले भाग में लगा हुआ हो और जो मल श्वास को रोकता हो या दूषित करता हो उसको इससे खुरेचकर निकाल देना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥

दातुन के लिये उत्तम वृक्ष—

करञ्ज-करवीरार्क-मालती-कुभासनाः ॥ ७३ ॥

शस्यन्ते दन्तपवने ये चाय्येवंविधा द्रुमाः ।

धार्याण्यास्येन वैश्वद-रुचि-सौगन्ध्यमिच्छता ॥ ७४ ॥

जाती-कटुक-पूगानां लवङ्गस्य फलानि च ।

कङ्गोलकफलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा ॥ ७५ ॥

तथा कपूर-निर्यासः सूक्ष्मेलायाः फलानि च ।

करञ्ज ( नाटा करञ्ज ), करबार ( करबर ), अर्क ( आक ), मालती ( जुही ),  
कुभाम ( अर्जुन ), असन ( आसन ), ये वृक्ष अथवा इनके समान इस गुण  
वाले वृक्ष दातुन के लिये उत्तम हैं ।

मुख की निर्मलता, भोजन में दूषि प्रत्यं सुख की सुर्गान्व जाहने वाले  
पुरुष को जाहिये कि जातिफल ( जायफल ), कटुकफल ( लता कस्तूरी ), पूग  
( सुपारी ), लवङ्ग ( लाङ्ग ), कङ्गोल ( शीतल चीनी ), उत्तम पान, कपूर ( कपूर  
वृक्ष का गोंद ) और छाँटा इलायची इन वस्तुओं का मुख में धारण करे ॥ ७५ ॥

स्नेह-गण्डूप के गुण—

हन्त्वेवंलं स्वरवलं वदनोपचयः परः ॥ ७६ ॥

स्यात्परं च रसज्ञानमन्ते च रुचिरुत्तमा ।

न चाऽस्य-कण्ठ-शोपः स्यान्नोष्टुयोः स्फुटनाद्यम् ॥ ७७ ॥

न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च ।

न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च ॥ ७८ ॥

परानपि खरान् भक्ष्यान् तैल-गण्डूप-सेवनात् ।

जबाडों को बल मिलता है, बाणी, स्वर, आवाज को बल प्राप्त होता है,  
मुख, गाल आदि की वृद्धि, उत्तरि, रसों का ज्ञान भली प्रकार से होता है और  
अन्ध में भली प्रकार से भोजन के लिये रुचि होती है ।

स्नेह-गण्डूप अर्थात् तैल के गरारे करने वाले को गले में खुशकी, रुक्षता  
नहीं होती और न ओटों के फटने की आशङ्का होती है । दौँत जलदी गिरते भी  
नहीं, अपितु और भी अधिक जड़ें मजबूत बन जाती हैं और न दौँतों में दर्द  
होती है, और न खटाई से लट्टे होते हैं, कठोर खाने की वस्तु को भी खा  
सकते हैं ॥ ७६-७८ ॥

शिर पर तैल लगाने से लाभ—

नित्यं स्नेहाद्र्विशिरसः शिरःशूलं न जायते ॥ ७९ ॥

न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ।

बलं शिरः कपालानो विशेषेणाभिर्वर्धते ॥ ८० ॥  
 दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च ।  
 इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामला ॥ ८१ ॥  
 निद्रालाभः सुखं च स्यान्मूर्धिन तैल-निषेवणात् ।

नित्य प्रति शिर पर तेल की मालिश करने से शिरःशूल (शिर का दुखना) नहीं होता, न बाल उड़ते हैं न गंजापन आता, न पालित अर्थात् बाल जल्दी श्वेत नहीं होते और बाल नहीं गिरते । शेर की अस्थियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल लम्बे और काले हो जाते हैं । औंख कान आदि इन्द्रियों स्वच्छ, प्रसन्न हो जाती हैं, त्वचा स्वच्छ, निर्मल हो जाती है और सुख पूर्वक नोंद आता है । शिर पर तैल लगाने से ये लाभ हैं ॥ ७६-८१ ॥

कान में तैल डालने से लाभ—

न कर्णरागा वातोत्था न मन्या-हनु-संग्रहः ॥ ८२ ॥  
 नोद्धैः श्रुतिर्न वाधिर्यं स्यान्तिर्यं कर्णतपूणात् ।

नित्य प्रति कान में तैल डालने से वात जन्य कान के रोग, एवं 'मन्याग्रह' (ग्रीवा का जकड़ना) आंर 'हनुग्रह' (जबाड़ी का भिचना), उद्धैः श्रुति (ऊँचा सुनना), वाधिर्य (वधिरता, बहरापन) नहीं होता ॥ ८२ ॥

शरीर पर तैल लगाने की विधि—

स्नेहाभ्यङ्कारायथा कुम्भश्चर्मे स्नेह-विमर्दनात् ॥ ८३ ॥  
 भवत्युपाङ्कादक्षश्च दृढः क्लेशसहो यथा ।  
 तथा शरीरमभ्यङ्काद् दृढं सुत्वक्प्रजायते ॥ ८४ ॥  
 प्रशान्त-मारुतावायं क्लेश-न्यायाम-संसहम् ।  
 स्पर्शने चाधिको वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितम् ॥ ८५ ॥  
 त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्कस्तस्मात् शीलयेन्नरः ।  
 न चाभिधाताभिहतं गात्रमभ्यङ्कसेविनः ॥ ८६ ॥  
 विकारं भजते त्यर्थं बलकर्मणि वा कचित् ।  
 सुस्पर्शोपचिताङ्कश्च बलवान् प्रिवदर्शनः ॥ ८७ ॥  
 भवत्यभ्यङ्क-नित्यत्वान्नरोऽल्पजर एव च ।

जिस प्रकार स्नेह, चिकनाई की मालिश से घड़ा और जिस प्रकार स्नेह के मर्दन से चमड़ा, और जिस प्रकार स्नेह के तुपड़ने से गाढ़ी का धुरा, दृढ़ (मजबूत) और झेंशसह अर्थात् (दुःख कष्ट सहने योग्य हो जाता है) उसी प्रकार शरीर पर तेल मलने से शरीर भी दृढ़, मजबूत हो जाता है, त्वक

( त्वचा, चमड़ी ) अच्छी कोमल हो जाती है । वायु के रोग शान्त हो जाते हैं, और शरीर क्लेश कष्ट दुःख आदि, व्यायाम-विश्रम सहन करने योग्य बन जाता है ।

अन्य भ्रोत्रादि इन्द्रियों की अपेक्षा त्वचा में वायु का आधिक्य रहता है और सर्व ज्ञान भी त्वचा में ही आन्तित है, इसलिये अभ्यंग ( तैल का मलना ) त्वचा के लिये अति उपकारी है । इस लिये मनुष्य को चाहिए कि उसे करता रहे ।

तैल मर्दन करने वाले व्यक्ति के शरीर पर अभिघात ( चोट ) लगने पर भी विशेष कोई हानि नहीं आती; क्योंकि वायु शान्त हुई हाती है, आघात जो कि वायु को कुपित करने वाला है वह भी वायु को कुपित नहीं कर सकता । इसी प्रकार कभी अन्त्यानक श्रम या मेहनत का काम करने से भी शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होता ।

नित्य प्रति अभ्यंग ( शरीर पर तैल मर्दन करने से ) मनुष्य की त्वचा को मल, उत्तम स्पर्शज्ञान वाली, तथा पुश्प भरे हुए सुश्रृटित अंगों वाला बलवान् एवं सुन्दर शरीर वाला हो जाता है । ऐसे मनुष्य को बुद्धापा भी जल्दी नहीं आता ॥ ८३-८७ ॥

पाँव में तैलमर्दन के गुण—

खरत्वं शुष्कता रौक्ष्यं श्रमः सुमिश्र पादयोः ॥ ८८ ॥

सद्य एवापशास्यन्ति पादाभ्यङ्ग-निषेवणात् ।

जायते सोकुमार्यं च बलं स्थैर्यं च पादयोः ॥ ८९ ॥

दृष्टिः प्रसादं लभते मारुतश्चापशास्यति ।

न च स्युर्ग्निर्सां-वाताः पादयोः स्फुटनं न च ॥ ९० ॥

न शिरा-स्नायु-संकाचः पादाभ्यङ्गं पादयोः ।

पाँव में ( खासकर पाँव के तनुओं पर तैल लगाने से खरत्व ( खुखुरा पन ), शुष्कता ( दख्खपन, फटना ), रौक्ष्य ( रूक्षता, दखाई ), श्रम ( थकान ) और पाव की सुसिं ( सा जाना, स्तब्ध, जड़ सा हा जाना ), शोप्र ही अच्छे हो जाते हैं । पाँव में तैल मर्दन करने से पाँव में कामलता, सुकुमारता आ जाती है, पाँव बलवान्, स्थिर ( न कांपने वाले ) हो जाते हैं । इसके सिवाय आंख स्वच्छ, निर्मल हो जाती है, और वायु भी पाँव की शान्त हो जाती है । पाँव में तैल मालिश करने वाले व्यक्ति को न तो ग्रसी रोग न पाँव का फटना ( पादवारी, विवाद आदि रोग ), और न शिरा या स्नायुओं का संकुचित होना ( पाँव के ज्ञान तनुओं या मांस पेशियों का संकुचित होना ) होते हैं ।

उबटन लगाना—

दीर्घन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्ठं मलमरोचकम् ॥ ६१ ॥

स्वेदं बीभत्सता हन्ति शरीर-परिमार्जनम् ।

शरीर पर उबटन ( वेसन आदि ) मलने से शरीर की दुर्गन्ध, भारीपन, तन्द्रा ( काम में आलस्य ), खाज़, मल, अरुचि ( भोजन में अनिच्छा ), स्वेद, बीभत्सता ( पर्सीने की बदबू ) नष्ट हो जाते हैं ॥ ६१ ॥

स्नान का फल—

पवित्रं धृत्यमायुष्यं श्रम-स्वेद-मलापहम् ॥ ६२ ॥

शरीर-बल-संधानं स्नानमोजस्करं परम् ।

नित्य प्रति स्नान करने से मनुष्य को परिदृष्टा, वृद्धता (पुरुषत्व), दीघांशु मिलती है । स्नान ने थकावट, पर्सीना और मल की दुर्गन्ध दूर हो जाती है । स्नान करने से शरीर का बल और ओज ( तेज, कान्ति, दीनि ) विशेष रूप में बढ़ता है ॥ ६२ ॥

('ओज' आठवीं शाहू है । 'मजा' के सूक्ष्म भाग का शुक्राञ्छि से पाक होने पर जो सूक्ष्मतम भाग बनता है, वही 'ओज' है । 'दृ' गों का अन्तःस्थान ( Internal secretum ) का नाम 'ओज' है, जिसके कम होने से मनुष्य का तेज कम हो जाता है और जिसके नाश होने पर मनुष्य भी मर जाता है ।)

स्वच्छ वस्त्र पहनने के गुण—

कास्यं यशस्यमायुष्यमलक्ष्मीच्छं प्रहर्षणम् ॥ ६३ ॥

श्रीमत्पारिपदं शस्तं निर्मलाम्बर-धारणम् ।

निर्मल, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनने से मनुष्य दो कमनीयता, सुन्दरता, यश, कीर्ति, दीघांशु मिलती है । स्वच्छ वस्त्र अलक्ष्मीच्छ अथात् दरिद्रता को दूर करता है और प्रहर्षण अर्थात् ( चित्त को खुश करता है ) । स्वच्छ वस्त्र राजाओं की सभा में भी प्रशंसित होता है ॥ ६३ ॥

गन्धमाला आदि के धारण करने के गुण—

वृद्ध्यं सौगन्ध्यमायुष्यं कास्यं पुष्टिबलप्रदम् ॥ ६४ ॥

सौमनस्यमलक्ष्मीच्छं गन्ध-माल्य-निषेवणम् ।

सुगन्धित पदार्थ, इत्र आदि और पुष्प माला आदि को धारण करने से मनुष्य को पुरुषत्व, सुगन्धि, दीघांशु मिलती है । इनके धारण करने से शरीर में कमनीयता, पुष्टि और बल आता है । माला के धारण करने से मन प्रसन्न रहता है और दरिद्रता का नाश होता है ॥ ६४ ॥

रत्न आभूषण आदि धारण करने से लाभ—

धन्यं मङ्गलमायुष्यं श्रीमद्वयसन-सूदनम् ॥ ६५ ॥

हृषिण काम्यमोजस्यं रत्नाऽभरण-धारणम् ।

रक हीरे आदि, आभरण इनसे या स्वर्ण आदि से बने आभूषण धारण करना धन्य अर्थात् भाग्यवान्, धनी होने का चिह्न है। इनका धारण करना मङ्गलकारी, दीर्घायु देने वाला एवं शांभव बढ़ाता है। इनके धारण करने से तब व्युत्पन्न, सर्प काटादि की विपर्ति नष्ट हो जाता है। आभूषण इत्यादि को धारण करने से मन प्रसन्न होता है, नुन्दरता आती है और ओज, तेज, कांति बढ़ती है ॥ ६५ ॥

दीर्घायु के लिये आवश्यक शुचि कर्म—

मेध्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीक-विनाशनम् ॥ ६६ ॥

पाद्योर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्षणशः ।

बाग-बार मल त्याग आदि के पीछे शुद्धि करने से अर्थात् पवित्र रहने से मंदा बुद्धि बढ़ती है, पवित्रता, दीर्घायु मिलती है और दरिद्रता एवं कलि (पाप या हुःख) का नाश होता है। इसलिए पाव और मल मार्ग गुद और उपस्थ, और शिर के सात छिद्र—दो नाक, दो कान, दो आंख और एक मुख इन सातों छेदों को बाग-बार सफ़ करना चाहिये ॥ ६६ ॥

पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचि रूप-विराजनम् ॥ ६७ ॥

केश-श्मश्रु-नस्यादीनां कल्पनं संप्रसादनम् ।

केश (शिर के बाल), श्मश्रु (दाढ़ी भूंछ) और नस आदि का काठना और इनका प्रसाद, शृंगार करने से पुष्टि, पुरुषत्व, दीर्घायु मिलती है एवं रूप भी सुन्दर, पवित्र बन जाता है ॥ ६७ ॥

जूता पहिनने का गुण—

चक्षुष्यं स्पृशनहितं पाद्योर्व्यसनापदम् ॥ ६८ ॥

बल्यं पराक्रमसुखं वृष्यं पादन्त्रधारणम् ।

जूता पहिनना आँखों के लिये हिंकारी, त्वचा के लिये लाभकारी, एवं कीड़े आदि से बचाता है और बल पराक्रम, सुख और पुरुषत्व को देता है ॥ ६८ ॥

छत्र धारण का गुण—

ईतेः प्रशमनं बल्यं गुप्त्यावरणसंकरम् ॥ ६९ ॥

घर्मानिलरजोऽम्बुद्धं छत्रधारणमुच्यते ।

छत्र धारण करना भावी हुःख को शान्त करने वाला, बलकारक, बुरे

प्रभावों से भली प्रकार रक्षा करता है। छाता धारण करने से धूप, बायु, धूल वरकात से बचता है ॥ ६६ ॥

दण्ड धारण के गुण—

स्खलतः संप्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषूदनम् ॥ १०० ॥

अवष्टम्भनमायुष्यं भयदनं दण्डधारणम् ।

दण्ड गिरते हुए को भली प्रकार से रोकता है, शत्रुओं का नाश करता है, बल में सहायता देता है, दीर्घयुष्य कारक और सांप आदि के भय को मिटाता है ॥ १०० ॥

हृक्षेप से स्वस्थत्वत्—

नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सदा ॥ १०१ ॥

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्वबहितो भवेत् ।

जिस प्रकार नगराधिगति राजा नगर की और रथी अपने रथ की रक्षा करता है उसी प्रकार मेधावी, ( बुद्धिमान् मनुष्य ) अपने शरीर के कर्तव्यों में सावधान रहे ॥ १०१ ॥

भवति चात्र—वृन्युपायान्निषेदेत ये स्युर्धर्माविरोधिनः ।

शममध्ययनं चैव सुखमेव समश्नुते ॥ १०२ ॥

जो धर्म के अविरांधी कार्य हों उन उपायों का ( जीविका के साधनों का ) पालन करना चाहिये । शम ( शान्त वृत्ति ) और अध्ययन ( वेदादि सद्ग्रन्थों का पठन ), करने से मनुष्य को सुख मिलता है ॥ १०२ ॥

तत्र इलोकाः—मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संश्रित्य गुरुलाघवम् ।

द्रव्याणां गहिंतोऽभ्यासो येषां येषां च शस्यते ॥ १०३ ॥

इस अध्याय में मात्रा को लक्ष्य करके द्रव्य, मात्रा, गुरु लघु का ज्ञान, निन्दित द्रव्य पदार्थ, और जिन जिन पदार्थों का अभ्यास करना चाहिये वे कह दिये हैं ॥ १०३ ॥

अञ्जनं धूम-वर्तिंश्च त्रिविधा वर्तिं-कल्पना ।

धूमपान-गुणाः कालाः पानमानं च यस्य यत् ॥ १०४ ॥

व्यापत्ति-चिर्हं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः ।

पेयो यथा यन्मयं च नेत्रं यस्य च यद्विघम् ॥ १०५ ॥

नस्य-कर्म-गुणा नस्तः कार्यं यच्च यथा यदा ।

भक्षयेहन्त-पवनं यथा यद्यद्गुणं च यत् ॥ १०६ ॥

यद्वर्थं यानि चाऽस्येन धार्याणि कवलप्रदे ।

तैलस्य ये गुणा दृष्टाः शिरसैलगुणाश्च ये ॥ १०७ ॥

कर्णतैले तथाऽभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गे च मार्जने ।

स्नाने वाससि शङ्खे च सौगन्धये रक्तधारणे ॥ १०८ ॥

शौचे संहरणे लोमनां पादत्र-च्छत्र-धारणे ।

गुणा मात्राशितीयेऽस्मिन् तथोक्ता दण्डधारणे ॥ १०९ ॥

अज्ञन, धूम वर्ती के तीन प्रकार, प्रायोगिक, वैरेचिक और स्लैटिक धूम की कल्पना, धूमपान के गुण, धूमपान के समय, धूमपान का परिणाम, धूप पान से होनेवाली हानियाँ और इन हानियों की 'भैषज्य' ( औषध ), जिन पुरुषों के लिये धूम निन्दित है, वह जिस प्रकार से पीना चाहिये, नलिका जिस वस्तु और जिस प्रकार की बनी होनी चाहिये वह भी कह दिया है । नस्य कर्म के लाभ, उसके बनाने की विधि, नस्य लेने का समय एवं विधि, दन्त धावन के गुण, सुख में धारण करने योग्य वस्तुएँ, तैल-गण्डूष के गुण, घिर पर तेल लगाने के लाभ, कान में तेल डालने के गुण, पौँव में और शरीर में तेल लगाने के लाभ, उबटन, स्नान करने के लाभ, शुद्ध वस्त्र माला आदि सुगन्धि द्रव्य, रत्न धारण करने के गुण, दुचि कर्म के, बालों को काटने, जूता छाता और दण्ड को धारण करने के गुण, लाभ यह सब इस 'मात्राशितीय' अध्याय में कह दिये हैं ॥ १०४-१०६ ॥

इत्यग्निवेशाङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृद्धे  
मात्राशितीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

### पठोऽध्यायः ।

अथातस्तस्याशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'तस्याशितीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है ॥ १-२ ॥

तस्याशिताद्यादाहाराद् बलं वर्णश्च वर्धते ।

तस्यर्तुसात्मयं विदितं चेष्टाऽहरव्यपाश्रयम् ॥ ३ ॥

परिमित मात्रा में भोजन करने वाले पुरुष के मात्रा में खाने-पीने से बल, वर्ण, कान्ति, सुख और आशुध बढ़ता है । मात्राशी पुरुष का सात्य शूद्रु के गुण के विपरीत चेष्टा, व्यायाम, अभ्यङ्ग आदि, आहार खाना-पीना, चाटना [ के आभ्य पर ही शूद्रुओं का सात्य भी जाना जाता है ॥ ३ ॥

इह खलु संवत्सरं षडङ्गमृतुविभागेन विद्यात् । तत्राऽदित्यस्यो-  
दग्यनमादानं च त्रीनृतून् शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्थेत्,  
वर्षादीन् पुनर्हेमन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्गं च ॥ ४ ॥

इस संसार में संवत्सर ( वर्ष ) रूपी काल को छः शृतुओं के विभाग से  
जानना चाहिये । जब भगवान् सूर्य उत्तराग्रयण होते हैं, तब 'आदान' ( ग्रहण )  
काल होता है । इससे शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म तीन शृतुएँ बनती हैं और  
जब सूर्य दक्षिणायन हो तब 'विसर्ग' काल होता है । इससे वर्षा, शरद और  
हेमन्त ये तीन शृतुएँ बनती हैं ॥ ४ ॥

विसर्गे च पुनर्वाच्यवो नार्तिरुक्षाः प्रवान्तीतरे पुनरादाने, सोम-  
आव्याहृतवलः शिशिराभिर्भास्मिरापूरव्यञ्जगदाप्यायवति शश्वन्, अतो  
विसर्गः सौम्यः । आदानं पुनरामेवं, तावेतावर्कवायू सोमश्च काल-  
स्वभाव-मार्ग-परिग्रहाताः । कालर्नु-रस-दोप-द्व-वल-निवृत्ति-प्रत्यय-  
भूताः समुपदिश्यन्ते ॥ ५ ॥

'विसर्ग' काल में वायु बहुत अधिक रूखों नहीं बहती और आदान काल  
में वायु बहुत रूख खुशक बहता है । क्योंकि विसर्गकाल में चन्द्रमा का बल  
परिष्पूर्ण होता है । इसलिये चन्द्रमा शांतल किरणों में जगन् का पोषण करता  
है, जगत् को नित्य वशवान् बनाता है । इसलिये विसर्गकाल सौम्य है ।

'आदान' काल आग्नेय ( अग्नि तत्त्व प्रधान ) है । इसलिये सूर्य,  
वायु और चन्द्रमा के समय स्वाभाविक मार्ग से चलते हुए काल, शृतु, रस,  
दोप, और शारीरिक बल के बनाने में कारण होते हैं ॥ ५ ॥

तत्र रघिर्भास्मिरादानो जगतः स्नेहं वायवस्त्रावरुक्षाश्चोपशोष-  
यन्तः शिशिर-वसन्त-ग्रीष्मेष्वतुपुष्यथाक्रमं राक्ष्यमुत्पादयन्तो रुक्षान्  
रसान् विक्ल-कपाय-कटुकांश्चाभिवर्धयन्तो नृणां दौधेल्यमावहन्ति ॥६॥

आदान काल में सूर्य अपनी किरणों से संसार की स्तिथियों को ले लेता है,  
इसलिये वायु तीव्र, तीक्ष्ण, रुक्षी, मुखाती हुई बहती है । इससे शिशिर, वसन्त  
और ग्रीष्म में क्रमशः ( शिशिर से अधिक वसन्त में, और वसन्त से अधिक  
ग्रीष्म में ) रुक्षता उत्पन्न हो जाती है । इस रुक्षता के उत्पन्न होने से रुक्ष रस,  
यथा—तिक्त ( तीखा ), कपाय ( कसैला ) और कटु ( कटुवा ) रस बढ़ जाते  
हैं । इन रसों की वृद्धि से मनुष्यों के शरीर में निर्बलता आ जाती है ॥६॥

वर्षा-शरद्देहमन्तेष्वतुपुष्य दक्षिणाभिमुखेऽर्के काल-मार्ग-भेद-वात-  
वर्षाभिहृत-प्रतापे, शोशिनि चाव्याहृतवले, माहेन्द्र-सलिल-प्रशान्तः

सन्वापे जगति, अरुक्षारसाः प्रवर्धन्तेऽम्ल-लवण-मधुराः, यथाक्रमं तत्र  
बलमुपचीयते नृणामिति ॥ ७ ॥

वर्षा शरद् और हेमन्त ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, काल के स्वाभाविक मार्ग के कारण, बादल, बायु, वर्षा के कारण सूर्य का तेज घट जाने से और सोम का बल कम न होने से, वपा जल के कारण गरमी के शान्त हो जाने से संवार में अरुक्ष, स्निग्ध रस बढ़ते हैं। इससे अम्ल, लवण और मधुर क्रमाः वर्ग, शरद् और हेमन्त में बढ़ते हैं। इन रसों के बढ़ने से मनुष्यों का बल भी बढ़ जाता है ॥ ७ ॥

भवन्ति चाच - आदादानं च दावलं दिभर्गादातयोरुंगाम् ।

मध्यं भव्यवल त्वन्ते श्रेत्रुमग्र च निवशत् ॥ ८ ॥

शीते शोतामिल-स्वर्ण-संरुद्धा वलिना वली ।

विसर्ग और आदान काल के अद्वितीय और अन्त में पुरुषों के शरीर में दुर्ब-  
लता आती है। यथा-विसर्ग के आदे काल वर्षा में और आदान के अन्त  
ममय ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों में निर्वलता रहता है। दोनों कालों के मध्य में  
( अथात् शरद् और वसन्त ) मध्यम बल रहता है। विसर्ग के अन्त समय  
( हेमन्त में ) और आदान काल के पदिले ( शिशir में ) काल में मनुष्यों का  
बल श्रेष्ठ अथात् बढ़ा रहता है ॥ ८ ॥

पक्षा भवति हेमन्ते जदा द्रव्या-गुरु-क्रमः ॥ ९ ॥

स यदा रेत्वनं युक्तं लभते देहजं तदा ।

रसं हितस्त्यतो वायुः शोतः शीते प्रकृष्ट्यति ॥ १० ॥

तस्मात्तपार-समयं मिव्याम्ल-लवणान् रसान् ।

ओदकानूप-मांसानां मेव्यानामुपयोजयेन् ॥ ११ ॥

विलेशयानां मांसाति प्रसदानां भृतानि च ।

भक्षयेन्मदिरो सीधुं मधुं चानुपिवेन्नरः ॥ १२ ॥

गोरसानिक्षुविकृतीर्बसां तेलं नवीदनम् ।

हेमन्तेऽम्यस्यतस्त्रोयमुष्णं चाऽयुन्ते हीयते ॥ १३ ॥

अभ्यङ्गोत्सादनं मूर्धिन तेलं जेन्ताकमातपम् ।

भजेद् भूमिगृहं चोष्णमुष्णं गर्भगृहं तथा ॥ १४ ॥

शीतेषु संवृत्त सेव्यं यानं शयनमासनम् ।

हेमन्त काल की परिचर्या—हेमन्त रूपी शीत काल में ठण्डी वायु के  
रूप से जठराग्नि, शरीर से बाहर न निकल कर अन्दर ही रक कर ( जिस

प्रकार कि कुम्हार चर्चान पकाते समय या ईटों के भट्टे में आग को अन्दर ही बन्द कर देते हैं, और वहाँ पर अग्नि तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार ) प्रबल हो उठती है । इसलिये मनुष्यों की जठराग्नि काल स्वभाव से ही हेमन्त में प्रबल और अधिक मात्रा में भोजन को पचाने में समर्थ होती है । इस समय यदि जाठराग्नि को अग्नि बल के अनुसार अन्न रूपी आहार न मिले, तो शरीर के सौम्य ( द्रव्य ) भाग को नष्ट करने लगती है । इसलिये शीत काल में शीत गुण के बढ़ने से वायु भी बढ़ती है ।

इस वायु की वृद्धि को रोकने के लिये स्तिरग्नि ( मधुर ), अम्ल और नम-कीन पदार्थ खाने चाहिये । चर्चा वाले जलचर प्राणियों का मांस रस, बिल में रहने वाले ( नकुल आदि ) पशुओं का मांस, प्रसह ( कुकुट आदि ) पश्चियों का मांस खाना चाहिये, मांस खाकर ऊपर से मदिरा संधु ( गुड़ की शराब ) और मधु पीना चाहिये । दूध, दही, मावा आदि एवं गन्ने के रस से बनी खीर, राब, शर्करा आदि से बनी वस्तुएँ, वसा, तैल और नये चावल खाने चाहिये । हेमन्त काल में स्नान आदि में गरम पानी का व्यवहार करने वाले की आयु कम नहीं होती । तैलमर्दन, उबटन, शिर पर तैल लगाना, जेन्ताक (स्वेद,) धूप का सेवन, भूमि के नीचे बने तहस्खानों में रहना, घर के अन्दर घर बना उसे गरम करके रहना चाहिये, भली प्रकार घिरा हुआ घर हो, आसन या सचारी आदि करते समय खूब लिपटकर बैठे जिससे शीत न लगे ॥ ६-१४ ॥

**प्रावाराजिन-कौशेय-प्रवेणी-कुथकास्त्रतम् ॥ १५ ॥**

गुरुरुणवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा ।

शयने प्रमदां पीना विशालोपचित्तस्तनीम् ॥ १६ ॥

आलिङ्ग-थाऽगुरुदिग्धाङ्गी सुप्यात्समदमन्मथः ।

प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ १७ ॥

वर्जयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च ।

प्रवातं प्रमिताहारमुदमन्थं हिमागमे ॥ १८ ॥

भारी कम्बल, मृग छाल ( कौशेय ) रेशम, (प्रवेणी) कम्बल, गहे इनको फैलाकर भारी और गरम कपड़ों को पहिनकर मनुष्य अङ्गों पर अगर का गाढ़ा लेप सदा करे । भरे शरीर वाली ( दुबली-पतली नहीं ), कामवती एवं उच्चत स्तनों वाली, अङ्गों पर अगर का लेप की हुई झीं का आलिङ्गन करके हर्ष और कामेच्छा के साथ सोये । यिहर ज्ञातु में मैथुन यथेच्छ सेवन करे ।

हेमन्त शृङ्ग में त्याज्य—लघु गुण वाले एवं वायुप्रकोपक आहार विहार हेमन्त शृङ्ग में छोड़ देने चाहिये । एवं सामने की वायु, थोड़ा खाना और पानी में घोलकर सत् खाना छोड़ देना चाहिये ॥ १५-१८ ॥

हेमन्तशिशिरे तुल्ये शिशिरेऽल्पं विरोधणम् ।

रौक्ष्यमादानजं शीतं मेघ-माहृत-वर्षजम् ॥ १९ ॥

तस्माद्वैमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते ।

निवातमुष्णमधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत् ॥ २० ॥

कटु-तिक्त-कपायाणि वातलानि लघूनि च ।

वर्जयेदन्न-पानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ २१ ॥

हेमन्त और शिशिर शृङ्ग प्रायः शीत वी हृषि से समान हैं । परन्तु शिशिर काल में हेमन्त से इतना भेर है कि शिशिर का आदान काल होने से वायु रुक्ष होती है एवं वादल, वायु और वग्सात शिशिर में अधिक होने से इस शृङ्ग में शीत अधिक होता है । इसलिये शिशिर शृङ्ग में हेमन्त की संपूर्ण विधि पालन करनी चाहिये । परन्तु शिशिर में हेमन्त से अधिक गरम और वायु रहित घरों में (खुली वायु जहाँ न आये) रहे । शिशिर काल में कडुबे, तिक, कसैले, वायुकारक और लघु तथा टण्डे खःन-पानकों छोड़ दे ॥ १९-२१ ॥

वसन्त की शृङ्ग वर्यां—

हेमन्ते निचितः इलेष्मा दिनकृद्धाभिरीरितः ।

कायार्ग्नि बाधते रोगास्ततः प्रकुरुते बहून् ॥ २२ ॥

तस्माद्वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् ।

गुर्वंस्त-स्निग्ध-मधुरं दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ॥ २३ ॥

व्यायामोदूर्तनं धूमं कवल-ग्रह-मञ्जनम् ।

सुखाम्बुना शौचविधि शीलयेत्कुसुमागमे ॥ २४ ॥

चन्दनागुरु-दिग्धाह्वो यव-गोथूम-भोजनः ।

शारभं शाशमैणेयं मांसं लावक-पिञ्जलम् ॥ २५ ॥

भक्षयेत्त्रिगदं सीधुं पिवेन्माधवीकमेव वा ।

वसन्तेऽनुभवेत्स्तीणां काननानां च योवनम् ॥ २६ ॥

हेमन्त काल में सञ्चित हुआ कफ सूर्य की किरणों से (धी के समान)

पिघल कर—द्रव बनकर धारीर की अग्नि को (धातुओं की अग्नि को नहीं)

कम करके कफजन्य बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है । इसलिये कफ को

कालने के लिये वसन्त शृङ्ग में वमन, शिरोविरेचन कार्य करने चाहिये ।

व्यायाम उबटन, धूमपान, कवल (गरारे करना) और अज्जन लगाना चाहिये । स्नान एवं शौच कार्य में गरम पानी का व्यवदार करना चाहिये (पीनेमें नहीं)। शरीर पर चन्दन और अगर का लेप करना चाहिये, जो और गेहूँ, शरभ बारहसांगे, खरणांश, हरिण, बटर, कपिजाल (कट फोड़ा) इनका मात्र खाना चाहिये । कफ दांप नाशक सांधु वा अंगूरों का बना शराब पीना चाहिये । वस्तन्त काल में युवती खियों आर जङ्गलों में मनोरंजन करे ॥ २२-२६ ॥

ग्रोष्मचययाः—

भयूर्स्वर्जगतः सारं ग्रीष्मे पेशीयते रविः ।  
 स्वादु शीतं द्रव्यं स्तिर्घमन्नपानं तदा हितम् ॥ २७ ॥  
 शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान्सृगराङ्गेणः ।  
 धृतं पथः सशाल्यन्नं भजन ग्रीष्म न सीदिति ॥ २८ ॥  
 मद्यमल्पं न वा पथमथदा सुरदूदकम् ।  
 लघुणाम्ल-कटूष्णानि व्यावात्मं चात्र वज्रयेत् ॥ २९ ॥  
 दिवा शीतगृहं निद्रां निशि चन्द्रांशुशातले ।  
 भजेचन्दन-दिग्प्राङ्गः प्रवाते हम्यनस्तके ॥ ३० ॥  
 व्यजन्नः पाणसंस्पर्शेन्द्रन्दनोदक-शोतलः ।  
 सेव्यमानो भजेदास्या मुर्त्ताभणिन्यभूपितः ॥ ३१ ॥  
 काननानि च शोतानि जलानि कुमुमानि च ।  
 ग्रीष्मकालं निषेवते मंधुवाद्विरतो नरः ॥ ३२ ॥

ग्रीष्म ऋतु में दूर अपनी ठंडणों द्वारा संसार का सार लीचता रहता है । इसलिये इस समय मीठा, ठंडा द्रव्य पदार्थ पीना, चिकने (बा आदि) खान पान हितकारी हैं । ठण्डे और शर्करा मिश्रित सत्तु खाने से, जंगली पशु-पश्चियों का मांस खाने से, धा और दूध के साथ चावल खाने से ग्रोष्म ऋतु में कष्ट नहीं होता । इस ऋतु में मध्य नहीं पीना चाहिये आर यदि पीना ही हो तो बहुत पानी मिलाकर पीना चाहिये । नमकीन, खट्टे, कडुके और गरम रस पदार्थ तथा व्यायाम इस ऋतु में छोड़ देना चाहिये । दिन के समय ठण्डे मकानों में सोना चाहिये और रात में चन्दमा की किरणों से ठण्डी की हुई मकान की छत पर खुली वायु में शरीर पर चन्दन मलकर सोना चाहिये । चन्दन और पानी से ठण्डे किये हुए पहँचों से या हाथ के स्पर्श से, मोती और

१ मन्थ—सक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीत-वारि-गरिष्ठुताः ।

नात्यच्छा नातिसान्द्राश्च मन्थ इत्यमिधीयते ॥

मणियों से शोभित होकर पलंग पर संये । जङ्गलों को, ठण्डे पानी ( झटने आदि ) को और फूलों को ग्रीष्म काल में सेवन करे । ग्रीष्म ऋतु में मैथुन से अलग रहे ॥ २७-३२ ॥

वर्षा काल की ऋतुचयाः—

आदान-दुर्घटे देहं पक्षा भवति दुर्वलः ।

स वर्षास्वनिलादीनां दूषण्डीध्यत पुनः ॥ ३३ ॥

भू-बाष्पान्तर्मेघ-निम्नदात्परकादम्लाज्जलस्य च ।

वर्षास्वर्वाग्नवले दीप्ते कुर्यान्ति पश्चात्यः ॥ ३४ ॥

तस्मात्तात्पात्रणः सर्वे विभिर्विषय गत्यते ।

उदमन्धं दिवान्तरात्परवद्यादं नात्तज्जतम् ॥ ३५ ॥

व्यायामनात्परं चंद्र वद्यादं चात्र वर्षयन् ।

पात-भोजन-स्त्रेशारात् प्राप्तः खाद्यान्वितात् भजेत् ॥ ३६ ॥

व्यक्ताम्ल-लवण-स्तेहं वात-वर्षाकुलेऽहनि ।

विशेषशोते भोक्तव्यं वर्षास्वनिल-शान्तये ॥ ३७ ॥

अग्निं संरक्षणवना दद्यांगोधूम-शालयः ।

पुराणा जाङ्गले मासीभोज्या शूपेश्च संस्कृतः ॥ ३८ ॥

पिवेत्कौद्रान्वितं चात्रं मार्धाकारिष्टमस्तु वा ।

माइन्द्रं चमशीदीतं वा कौपं सारसमव वा ।

प्रधर्षोद्दीर्तन-स्त्रान-गन्ध-माल्य-परो भवेत् ।

लघुशुद्धाम्वरः स्थानं भजेऽक्लेदि वार्षिकम् ॥ ४० ॥

आदान काल में दूरीर के निर्वल होने से अग्नि गो निर्वल हो जाती है ।

यह अग्नि वर्षा ऋतु में वायु, पित्त, कफ तीनों के दूषणों से दूषित हो जाती है ।

ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड सूर्य की गरमा से भूमि के तप जाने से, वर्षा में बरसात पड़ने से, पानी के स्पर्श से, भूमि में से गरम भाप के निकलने से तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, इसी प्रकार बादलों के बरसने से वात, कफ कुपित होते हैं, जल के अम्लपाक होने से पित्त कुपित होता है । वर्षा ऋतु में अग्नि-बल के क्षण होने से वात, पित्त कफ तीनों कुपित हो जाते हैं । इसलिये वर्षा में साधारण विधि का पालन करना चाहिये । पानी में छुला सतू, दिन में सोना, ओल, कापा का पानी, समोगन्मैथुन, धूप और व्यायाम इस ऋतु में नहीं सेवन करने

चाहिये । वर्षा काल में खान पान के अन्दर प्रायः करके शहद का उपयोग करना चाहिये । बरसात के दिनों में जिस दिन वायु और बरसात जोर का पड़ रहा हो और सर्दी बहुत हो, उस दिन वायु को शान्त करने के लिये अम्ल, लवण रस तथा स्नेह धी जिस अन्न में स्पष्ट दीखता हो, उसे विशेष करके खाना चाहिये । अग्नि की रक्षा करने के लिये जौ, गेहूँ, चावल ( पुराने ), जंगली-बन के पश्चाओं का मास एवं धी आदि से संस्कृत घृष खाने चाहिये । पित्त को शान्त करने के लिये थोड़ा शहद मिला माध्वीकामिष ( द्राक्षासव ), अथवा पानी में शहद ( थोड़ा ) मिलाकर पीना चाहिये । वर्षा शूद्रु में या तो आकाश से पिरा स्वच्छ पानी पीना चाहिये अथवा कुएं, या तालाब के पानी को गरम करके ठण्डा करके पीना चाहिये । तैल का मर्दन, उबटन लगाना, स्नान करना सुगन्ध धारण करना, माला पहिनना, हल्का और साफ् बख्त पहिनना, तथा सुखे स्थान पर रहना चलना आदि कार्य वर्षा शूद्रु में करना चाहिये ॥ ३३-४० ॥

शरद् ऋत्र की परिचर्या—

वर्षा-शीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करश्मिभिः ।

तपानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति ॥ ४१ ॥

तन्त्रान्त्रपानं मधुरं लघु शीतं सतित्तकम् ।

पित्त-प्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्षतैः ॥ ४२ ॥

लावान् कपिञ्जलान् हरिणानुरञ्जाङ्गुरभाङ्गुशान् ।

शालीन् सयवगोधूमान् सेव्यानाहृष्टनात्यये ॥ ४३ ॥

तित्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् ।

धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च वर्जनम् ॥ ४४ ॥

वसां तैलमवश्यायमौदकानूपसामिधम् ।

क्षारं दधि दिवास्यप्नं प्राव्यातं चात्र वर्जयेत् ॥ ४५ ॥

वर्षा शूद्रु में काल स्वभाव से संचित हुआ पित्त शरद् काल में बादलों के हट जाने से, सूर्य के किरणों के ताप से सहसा कुपित होता है । इसलिये इस शूद्रु में मधुर, लघु, शीत और तिक, पित्तशामक खान परिमाण में खाना चाहिये । बटेर, कटफोड़ा, हरिण, मेढ़ा, बारहसींगा और खरगोश इनका मास, चावल, जौ, गेहूँ इनको शरद् काल में खाना चाहिये । तिक औषधियों से संस्कृत घृत ( पंचतिक घृत ), विरेचन, रक्तमोक्षण, शिरावेद, जोंक आदि से रक्त का निकलवाना और धूप का सेवन न करना ये काम बादलों के चले जाने पर शरद् शूद्रु में करने चाहिये । इस शूद्रु में चर्बी, तेल, ओस, जलचर प्राप्ति

का मास, श्वार, दही दिन मे साना सामने मे आती हुई वा पुरवा वायु का  
त्याग करना चाहिये । ४१-४२ ॥

### हंसोदक का लक्षण—

दिवा सूर्यांशु-सन्तप्तं निशि चन्द्रांशु-शीतलम् ।  
कालेन पक्कं निर्दोषमगस्येनाविपाकुतम् ॥ ४६ ॥  
हंसोदकमिति ख्यान शागदं विमलं शुचि ।  
स्नानपानावगाहपु हितमम्तु यथाऽमृतम् ॥ ४७ ॥  
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च ।  
शरस्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरङ्गमयः ॥ ४८ ॥

दिन मे सूर्य की किरणा से गरम और रात्रि म चन्द्रमा की शीतल किरणों  
से उष्णा होने वाला कालस्वभाव से पक्का हुआ अवात् वरा का जल जिसमें न  
रहा हो; इसे दाप रहित; अगस्त्य नक्षत्र रु उदय होने क प्रभाव से निर्मल,  
( विष रहित ) पाना का हंसोदक ( चन्द्रार्क ) कहत ह । यह हंसोदक शरद्  
ऋतु मे निर्मल और पवित्र ह । इसठिये स्नान काय मे, पीने मे, अवगाहन,  
पानी मे बैठने आदि कावो मे उत्तम और अमृत के समान है । शरस्काल मे  
रात्रि के प्रथम प्रहर मे चन्द्रमा का किरणों का सेवन करना तथा शरत्  
कालीन मालाये, और निर्मल वस्त्र प्रशस्त है ॥ ४६-४८ ॥

इत्युक्तमृतुसात्म्यं यज्ञेष्ट्राद्वार-न्यपाश्रयम् ।  
उपशेते यदाचेत्यादाकःसात्म्यं तदुच्यरते ॥ ४९ ॥  
देशनामामयाना च विपरीतगुणं गुणः ।  
सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्ठितं चाच्यमेव च ॥ ५० ॥

( चेष्टा ) किया और आहार, खान पिहार क आश्रित अवात् ऋतुओं के  
अनुकूल जो कर्म है, वे कह दिये । पुष्प को प्रकृति के अनुसार जो उचित  
अनुकूल पड़ता है, उसे ‘आकः-सात्म्य’ कहते है ।

जो आहार या विहार देश ( जागल आनूप और साधारण ) एवं रोग  
इनके गुणों से विपरीत, गुण वाले होते है उस आहार विहार को ‘सात्म्य’ को  
जानने वाले विद्वान् ‘सात्म्य’ कहते है ॥ ४९-५० ॥

### तत्र श्लोकः—

चृतावृतौ नृभिः सेव्यमसेव्यं यज्ञ किञ्चन ।  
तस्याशितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सात्म्यमेव च ॥ ५१ ॥  
प्रत्येक ऋतु मे मनुष्यों को क्या २ सेवन करना चाहिये और क्या २ नहीं

सेवन करना चाहिये; तथा कारण रूपसात्म्य को भी इस 'तस्याशितीय' अध्याय में कह दिया ॥ ५१ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थदृत्तचतुष्के  
तस्याशितीयो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### अथ सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो न वेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माई भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने के प्रतियेष करने के लिये 'न वेगान् धारणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं । जैसा भगवानात्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

न वेगान् धारयेद्दीमाञ्जातान्मूत्रपुरीपयाः ।

न रेतसो न वातस्य न वम्याः क्षवथान्त च ॥ ३ ॥

नोद्गारस्य न जूम्भाया न वेगान् छुतिपासयोः ।

न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ ४ ॥

एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये ।

पृथक्पृथक् चिकित्सार्थं दन्ते निगदतः शृणु ॥ ५ ॥

बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि उपस्थित हृए नूत्र मल के वेगों को नहीं रोके । इसी प्रकार शुक्र, अपान आदि वायु, वमन, ऊंक, इकार, जम्भाई, भूत और प्यास, हर्ष या शोक के कारण उत्पन्न आंखें; नोंद और श्वसनित तीव्र प्रश्वास के वेगों को भी नहीं रोकना चाहिये । इन उपस्थित वेगों को रोकने से जो जो रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा के लिये पृथक् पृथक् उपदेश करते हैं, सुनो ।

बस्ति-मेहनयोः शूलं मूत्रकुच्छं शिरोरुजा ।

विनामो वष्ट्यक्षणानाहुः स्याङ्गिङ्गं मूत्रनिप्रहे ॥ ६ ॥

मूत्र के उपस्थित वेगको रोकने से 'बस्ति' ( मूत्राशय ) और लिंग में दर्द होती है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, शिर में दर्द, मूत्र वेग के कारण खींच होने से शरीर दुःख जाता है वंक्षण प्रदेश ( पेढ़ ) जकड़ा हुआ प्रतीत होता है, अथवा उस प्रदेश में फुलाव प्रतीत होता है ये लक्षण मूत्र के उपस्थित वेग ने रोकने से होते हैं ॥ ६ ॥

इस की चिकित्सा—

स्वेदावगाहनाभ्यङ्गान् सर्पिषश्चावपीडकम् ।

मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं वस्तिकर्म च ॥ ७ ॥

( स्वेद ) पसीना देना, ( अवगाहन ) गरम पानी की नाद में घेटना, ( अभ्यंग ) तैल आदि मर्दन और धी का नस्य देना, तीन प्रकार का वस्ति कर्म ( निरूहण, अनुबासन और उच्चर वस्ति ) मूत्र के उपस्थित वेग को रुकने के प्रतीकार हैं ॥ ७ ॥

पक्षाशय-शिरःशूलं वात-वर्चर्त्ति-निरोधनम् ।

पिण्डिकोट्टेष्टनाभ्यानं पुराणे स्थानिधारिते ॥ ८ ॥

मल के उपस्थित वेग को रोकने में पक्षाशय अथान् नायि के नीचे के माग में और शिर में वेदना होती है, अगम वातु आर मल बन्द हो जाते हैं, पिण्ड-लयों में एंठन होने लगती है, पंट में अफरा चढ़ जाता है ॥ ८ ॥

चिकित्सा—

स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च वर्चयं दग्धिकर्म च ।

हितं प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं प्रमात्रं च ॥ ९ ॥

स्वेद पसीना देना, अभ्यंग, अवगाहन ( नाद या ठव आदि में स्नान ), फलवर्त्ति, और वस्तिकर्म करें। बंरचन द्रव्यों का धी और तैल आदि द्वारा चूर्ण, काथ, कल्कादि के रूप में बनाकर देना और वात को अनुलोमन करने वाली अंगव मल के रोकने में हितकारी है ॥ ९ ॥

मेढे वृष्णियाः शूलमञ्जमदर्दं दृदि व्यथा ।

भवेत्प्रतिहते शुक्रं विदद्वं मूत्रमेव च ॥ १० ॥

वीर्य के उपस्थित वेग को रोकने से लिंग और अण्डकोयों में वेदना होती है, अंग दृटते हुए प्रतीत होते हैं, चेतना के स्थान दृदय में वेदना अनुमूल होती है और मूत्र भी बन्द हो जाता है ॥ १० ॥ चिकित्सा—

तत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिरा चरणायुधाः ।

शालिः पयो निरूहाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ ११ ॥

तैलमर्दन, अवगाहन स्नान ( द्रांणीस्नान ), मदा, कुकुट का मांस, हैम-न्तिक धान्य, दूध, वस्तिकर्म और भैथुन कर्म ये शुक्र वेग के निरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा है ॥ ११ ॥

वात-मूत्र-पुरीयाणां सङ्गो ध्मानं कलमो रुजा ।

जटरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिप्रहात् ॥ १२ ॥

अपान वायु के रोकने से, अपान वायु, मूत्र और पुरीय रुक जाते हैं।

अफरा हो जाता है थकान की अंगों में प्रतीति होना, पेट में पीड़ा और अन्य वातजन्य रोग भी हो जाते हैं ॥ १२ ॥ चिकित्सा—

स्नेह-स्वेद-विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।

पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् ॥ १३ ॥

स्नेह ( तैल ) एवं स्वेद देना चाहिये, फलवर्त्तियाँ, वातनाशक खान-पान और वातनाशक वस्तिकर्म उत्तम हैं ॥ १३ ॥

कण्डू-कोठ-रुचि-ठग्ग-शोथ-पाण्डवामय-ञ्चराः ।

कुट्ठ-हङ्गास-वृसर्पाश्छुदिं-निग्रहज्ञा गदाः ॥ १४ ॥

बमन के रोकने से खाज, कांद, भोजन में अनिच्छा, श्वाइ, मुखपर काले-काले दाग आना, सूजन, पाण्डु रोग, ज्वर, कोढ़, हूलात ( बमन की रुचि ), जी मिचलाना, वीर्सर्प ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ चिकित्सा—

भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लघ्ननं रक्तमोक्षणम् ।

रुक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ॥ १५ ॥

भोजन विलाकर बमन कराना चाहिये, धूम्रपान, उपवास, शिराव्यधन करके रक्त का निकालना, रुचे अन्न और पान, व्यायाम और विरेचन ये उपाय उत्तम हैं ॥ १५ ॥

मन्यास्तरमः शिरः-शूलमर्दितार्थावभेदकौ ।

इन्द्रियाणां च दोर्बल्यं क्षवयोः स्याद्विधारणात् ॥ १६ ॥

छींक के रोकने से ग्रीवा का जकड़ जाना, घिरोवेदना, चेहरे का लकवा, आधा सीसी, आँख आदि इन्द्रियों की निर्वलता हो जाती है ॥ १६ ॥

तत्रोर्ध्वं जन्मुकेऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमः सनावनः ।

हितं वातज्वरमाद्यं च धृतं चोत्तरभक्तिकम् ॥ १७ ॥

चिकित्सा—ग्रीवा से ऊपर के भागों में मालिश, पसीना देना, धूम्रपान नस्य, वातनाशक भोजन और खाना खानेके पीछे वृत्तपान करना हितकारी है ॥

हिक्का श्वासांडरुचिः कम्पो विवन्धो हृदयोरसोः ।

उद्गार-निग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमाषधम् ॥ १८ ॥

डकार को रोकने पर हिचकी का आना, इवास, भोजन में अनिच्छा, सिर-छाती का कौपना, छाती और हृदय का रुक जाना ये रोग हो जाते हैं । चिकित्सा—डकार के रोकने से उत्पन्न विकार की शान्ति के लिये हिचकी के समान औषध करनी चाहिये ॥ १८ ॥

विनामाक्षेपसङ्काचाः सुसिः कम्पः प्रवेपनम् ।

जृम्भाया निग्रहात्तत्र सर्वं वातज्वरमौषधम् ॥ १९ ॥

जग्माई के रोकने से शरीर का सुकना, आक्षेप अथात् हाथ-पाँव का जोर से कम्पन, पर्वसन्धियों का आकुबन, अङ्गों का सी जाना, ( स्पद्य शान का अभाव ), कौपना-हिलना आदि होता है । चिकित्सा के लिये वातनाशक उभ-चार करना चाहिये ॥ १६ ॥

काहर्य-दौर्बल्य-वभग्यंमङ्गमदाऽरुचिर्भमः ।

द्वृद्वेग-निप्रहात्तत्र स्त्रियाद्य लुभोजनम् ॥ २० ॥

भूख रोकने से कृत्या, दुर्बलता, रंग का बदल जाना, अङ्ग-पत्तझों में बेदना, उनका टूटते हुए प्रतीक जाना, भोजन में अनिच्छा, चकर आना ये लक्षण होते हैं । चिकित्सा—स्त्रिय ( निकामा ), भरग और दृल्का, भोजन देना चाहिये ॥ २० ॥

कण्ठास्य-शोपां वार्धिय श्रमः इवात्ता हृष्टि व्यथा ।

पिपासा-निप्रहात्तत्र सातं तपणानप्यते ॥ २१ ॥

प्यास के रोकने से गले आर सुख का युश्क हो जाना, वहरापन, थकान, श्वास, दम का चढ़ना, हृदय पर्देय में रुद्ध ये लक्षण होते हैं । चिकित्सा—थीतल, तृप्ति करनेवाले स्वानन्दान देने चाहिये ॥ २१ ॥

प्रतिश्वायाऽविरागश्च द्वद्रोगश्चाहुचिर्भमः ।

वाष्प-निप्रहणात्तत्र स्वप्ना भव्यं प्रियाः कथाः ॥ २२ ॥

आँखों के रोकने से नाक से पानी झरना, कफ का स्वाव होना, आँखों के रोग, हृदय रंग, अनिच्छा और भ्रम, ( उत्तरमें चकर ) आदि होते हैं । चिकित्सा—नींद, मदिरा का पान, आनन्ददायक प्रिय वातचात करना चाहिये ॥ २२ ॥

जूःभाऽङ्गमदेस्वन्द्रा च प्यरो-रोगाक्षिन्गीरवम् ।

निद्रा-विधारणात्तत्र स्वप्नः संवाहनाने च ॥ २३ ॥

नींद रोकने से जग्माई, अङ्गों का टूटना ( शरंग से भारीपन ), शिर की बेदना और आँखें भारी हो जाती हैं । चिकित्सा—नींद लाना, अङ्गों का संवाहन अथात् हाथों से अङ्गों को दबाना कल्याणकारी है ॥ २३ ॥

गुल्म-हृद्रोग-संमोहाः श्रम-निश्वास-धारणात् ।

जायन्ते, तत्र विश्रामो वातघ्नाश्च क्रिया हिताः ॥ २४ ॥

थकान से उत्पन्न निःश्वास को रोकने से गुल्म रोग, हृद्रोग, ( मूर्छा ) उत्पन्न होती है । इस के लिये विश्राम, ( आराम ) एवं उपचार करने चाहियें ॥ २४ ॥

वेग-निप्रहजा रोगा य एते परिकीर्तिः ।

इच्छांस्तेषामनुत्पत्तिं वेगानेताङ्ग धारयेत् ॥ २५ ॥

उपस्थित वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले जो ये रोग कहे हैं, रोगों की उत्पत्ति को न चाहने वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह इन वेगों को न रोका करे ॥ २५ ॥

इमांस्तु धारयेद्वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च ।

साहसानामश्स्तानां मनो-वाकाय-कर्मणाम् ॥ २६ ॥

लोभ-शोक-भय-क्रोध-मान-वेगान् विधारयेत् ।

नैर्लज्जेव्यर्थतिरागाणामभिघ्यायाश्च बुद्धिमान् ॥ २७ ॥

परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च ।

वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् ॥ २८ ॥

देहप्रवृत्तिर्या काचिद्विद्वत्ते परपीटया ।

खीभोगस्तेय-हिंसाद्या तस्या वेगान्विधारयेत् ॥ २९ ॥

पुण्यशब्दो विपात्वान्मनो-वाकाय-कर्मणाम् ।

धर्मार्थकामान् पुरुषः सुखी भुङ्क्ते चिनोति च ॥ ३० ॥

इहलोक और परलोक की हित कामना करने वाले मनुष्य को चाहिये कि इन आगे कहे वेगों को धारण करे, जैसे—अयोग्य अनुचित साइस और मन वाणी और शरीर के निन्दित कर्मों के उपस्थित वेगों का रोके ।

मन के निन्दित कार्य जैसे—लोभ, अनुचित विषय में मन की प्रवृत्ति, ( शोक ) घन बान्धव आदि के कारण दुःख में मन की प्रवृत्ति, भय, क्रोध जिसके कारण मनुष्य अपने को जलता हुआ प्रतीत करता है, ( द्वेष ) वैर, दूसरे के अपकार करने में मन की प्रवृत्ति, ( मान ) महत्व, अभिमान में मन की प्रवृत्ति, ( जुगुप्ति ) दूसरे की निन्दा, ( निर्लज्जा ) लज्जा का अभाव, ( ईर्ष्या ) कुद्धना, ( अभिघ्या ) दूसरे के द्रव्य को लेने की लालसा-बुद्धि, इन मन के निन्दित कार्यों को रोकना चाहिये ।

वाणी के निन्दित कर्म—कर्कश, कठोर विशेषतः दूसरे की निन्दा या अनिष्ट करने की इच्छा से इन्ठी और अप्रारंगक वाणी को रोकना चाहिये ।

शरीर के निन्दित वर्य—दूसरे को दुःख देने की जो कोई शरीर की चेष्टा हो, उसे खी-भोग ( पर-खीसम्भाग ), स्तेय ( चांरा ), हिंसा ( दुःख कष्ट देना, मारना ) आदि शरीर कार्यों के उपस्थित वेगों का रोकना चाहिये ।

अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो कार्य हो वे कार्य दूसरे के लिये ॥

करने चाहिये । मनुष्य मन वचन और शरीर से पापरहित होकर ही 'पुण्य' शब्द का मार्गी होता है । उसमें 'पुण्य' शब्द तभी सार्थक होता है और तभी वह धर्म, अर्थ और काम इनको प्राप्त करता है, और सुख का भी भोग कर सकता है ॥ २६-३० ॥

व्यायाम—

शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी ।

देह-व्यायाम-संस्काराता मात्रया तां समाचरेत् ॥ ३१ ॥

छाघवं कर्म-सामर्थ्यं स्थैर्यं क्लेश-सहिष्णुता ।

दोषक्षयोऽभिवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ ३२ ॥

जो शारीरिक चेष्टायें शरीर की स्थिरता, हड्डता के लिये शरीर के बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं, उनको 'व्यायाम' कहते हैं । इस व्यायाम को 'मात्रा' में सेवन करना चाहिये । व्यायाम के गुण—

व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, काम करने की शक्ति, शरीर एवं यौवन का टिकाऊपन, दुख को सहन करने की शक्ति, वात आदि दोषों का शमन, जठराग्नि की प्रदीपि होती है ॥ ३१-३२ ॥

अधिक व्यायाम से हानियां—

श्रमः क्लृप्तः क्षयस्तृष्णा रक्तपिण्डं प्रतामकः ।

अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिंश्च जायते ॥ ३३ ॥

शरीर का यथान, मन और इन्द्रियों का यथान धातुओं का क्षय, रक्तपिण्ड रोग, प्रतमक संशक श्वास, खांसी, ज्वर और वमन अधिक व्यायाम से उत्पन्न होते हैं ॥ ३३ ॥

व्यायाम-हास्य-भाष्याध्व-प्राप्त्यधर्म-प्रजागरान् ।

नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३४ ॥

पतानेवंविधांश्चान्यान् योऽर्तमात्रं निषेवते ।

गजः सिंहमिवाऽकर्षन् सहसा स विनश्यति ॥ ३५ ॥

उचितादद्विताद्वीमान् क्रमशो विरमेभ्रः ।

शरीर का परिश्रम, हँसना, ऊँचा या अधिक बोलना, ( मार्ग चलना सफर करना ), ग्राम्यधर्म, ( मैथुन ), प्रजागर ( रात को जागना ), इन उचित कार्यों को भी बुद्धिमान् मनुष्य अधिक मात्रा में सेवन न करे ।

इन ऊपर लिखे हुए या अन्य इसी प्रकार के कार्यों को जो मनुष्य अधिक

सेवन करता है, जिस प्रकार कि हाथी चिंह, को खींचता हुआ

पता है, उसी प्रकार वह मनुष्य भी नष्ट हो जाता है । इसलिये बुद्धि-

मान् मनुष्य को चाहिये कि छोड़ने योग्य उन दुःखदायी कर्मों से क्रमशः  
हट जावे ॥ ३४-३५ ॥

हितं क्रमेण सेवेत्, क्रमश्चात्रोपदिश्यते ॥ ३६ ॥

प्रक्षेपापचये नार्थ्यं क्रमः पार्दीशिको भवेत् ।

एकान्तरं तत्त्वोर्ध्वं व्यान्तरं व्यन्तरं तथा ॥ ३७ ॥

क्रमेणाशचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः ।

सन्तो यान्त्यपुनभावमप्रकरण्या भवान्त च ॥ ३८ ॥

हितकारी कार्मों का ( क्रमशः ) सेवन करना चाहिये । यहां अब क्रम का उपदेश करते हैं। छोड़ने लायक ( सचय दरन योग्य ) कार्य को चांथाई भाग करके क्रम से सेवन करना चाहिये । फिर दो और फिर तीन भाग छोड़ कर ग्रहण करना चाहिये । अधोत् छोड़ने योग्य एवं ग्रहण करने योग्य कार्य दोनों के चार चार भाग करने चाहिये । छोड़ने योग्य कर्म का एक भाग छोड़कर ग्रहण करने योग्य कर्म का एक भाग उसके स्थान पर ग्रहण करना चाहिये । फिर दो भाग छोड़ कर दो भाग ग्रहण करने चाहिये और फिर तीन भाग छोड़ कर तीन भाग ग्रहण करने चाहिये और पुनः सारा छोड़कर सारा ग्रहण कर लेना चाहिये । ग्रहण करते समय एक दो तीन चार दिन का अन्तर क्रम से देना चाहिये । छोड़ने योग्य कर्म को चतुर्थांश छोड़ कर ग्रहण करने योग्य कर्म का चतुर्थांश ग्रहण करे । इस प्रिवान को एक दिन बरते । तीसरे दिन छोड़ने योग्य कर्म के दो भाग छोड़ कर ग्रहण करने योग्य कर्म के दो भाग ग्रहण करे-इस प्रकार दो दिन करे । फिर तीन भाग छोड़कर ग्रहण करने योग्य कर्म के तीन भाग ग्रहण करे-इस प्रकार तीन दिन करे और फिर सारा कर्म छोड़कर सभूषण को ग्रहण कर लेवे । ऊपर बताये हुए क्रम पूर्वक छोड़े हुए दोष किर पैदा नहीं होते और क्रम से ग्रहण किये हुए गुण नष्ट नहीं होते, चिरकाल तक स्थिर रहते हैं । हितकारी पदार्थ भी सहजा उपयोग करने से अग्निनाश, अर्द्धच आदि करते हैं, इसलिये इनको भी क्रम से ही ग्रहण करना चाहिये । इन सब कार्यों में मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि एक के लिये अहितकारी हों, परन्तु दूसरे के लिये हितकारी ॥ ३६-३८ ॥

सम-पित्तानिल-कफाः केचिद् गर्भादि-मानवाः ।

दृश्यन्ते वातलाः केचित्पित्तलाः श्वेषलास्तथा ॥ ३९ ॥

तेषामनातुराः पूर्वे, वातलाद्याः सदाऽत्तुराः ।

दोषानुशयिता होषा देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ४० ॥

विपरीत-गुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिहितः ।  
सम-सर्व-रसं सात्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ ४१ ॥

कुछ मनुष्य जन्म या गर्भकाल से ही पित्त, वायु, कफ की असमानावस्था बाले होते हैं और कुछ मनुष्य गर्भाभाव दाल से ही वात प्रकृति बाले, पित्त प्रकृति बाले और कफ प्रकृति बाले जाते हैं । इन में पित्त वायु और कफ की सम्मानवस्था बाले मनुष्य प्राणः नींग ग रहते हैं, और वात प्रकृति या पित्त प्रकृति अथवा कफ प्रकृति के मनुष्य सदा रोनी रहते हैं । इन में वातादि दोषों का सात्य अर्थात् अनुकूल ही जाता है शरीरकी 'प्रकृति' कही जाती है । अर्थात् वात प्रकृति बाले मनुष्य में वात दोष उस के द्वारा रक्त के अनुकूल ही जाता है । इसलिये वही उभयों प्रकृति है, प्रकृति होने से वात उस में दोष नहीं, परन्तु जब स्वस्थानवस्था में वात वडेग नभी दोष होगा । जिस प्रकार कि विषकोट अपने विष से जर्नी मरा, उसी प्रकार प्रकृतिस्थ वात से भी वात प्रकृति का मनुष्य पीड़ित नहीं होता । इन जात आदि को अधिकता में वात आदि के विपरीत विरुद्ध गुणों का इनके कारणों के विपरीत गुण भी सेवन फरना स्वास्थ्य के लिये कल्याणकारी उपाय है । और पित्त, वायु और कफ की समानता वाली प्रकृति के मनुष्यों के लिये सब (मधुर अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और काशय) रसों का समानावस्था में अस्यास करना उच्चम है । समान भावुकों वाला आदमी प्रशस्त है ॥ ३८-४१ ॥

द्वे अधः सप्त शिरसि श्वानि स्वेदमुखानि च ।  
मलायनानि वाध्यन्ते हुष्टेर्मत्राधिकेर्मलैः ॥ ४२ ॥

मलवृद्धि गुरुत्वेन लाघवान्मलसंक्षयम् ।  
मलायनानां तुदूर्येत सद्गोत्सर्गादनीव च ॥ ४३ ॥  
तान्दोपलिङ्गैरादिश्य त्वाधीनं साध्यानुपाचरेन् ।  
व्याधि-हेतु-प्रतिद्रव्यं र्मात्रा-काली विचारयन् ॥ ४४ ॥  
विषम-स्वस्थ-वृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे ।  
जायन्तेऽनातुरस्तरमात्स्वस्थ-वृत्त-परो भवेत् ॥ ४५ ॥

जब मल परिमाण से अधिक हो जाते हैं, तथा वे विकृत होकर मल के स्थानों को पीड़ित करते हैं, मल के स्थान नीचे के दो-गुदा और उपस्थ (जिन्होंने योनि भी); शिर में सात—दो नाक, दो कान, दो आंखें और एक मुख, वृक्षनेकलने के सब छिद्र ये मल के स्थान हैं, मल इनको पीड़ित करते हैं । भूरीपन होने से मल की वृद्धि समझनी चाहिये और शरीर में हल्कापन

होने से मल का क्षय समझना चाहिये । मल के स्थानों से मल के न निकलने से मल का क्षय, मल स्थानों से मल का बार-बार अधिक बाहर निकलना बुद्धि को बताता है । मलों की बुद्धि और क्षय दूसरों के कारण हुए हैं, यह समझकर उनके चिन्हों से पहचानकर उन से उत्पन्न साध्य रोगों को रोग और व्याधि के हेतु इन दोनों के विपरीत गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव से विशद्ध औषध, आहार और विहार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । चिकित्सा करते समय वैद्य मात्रा औषध, आहार और विहार का परिमाण काल, दोष, व्याधि के प्रकोप, अर्तु, रात, दिन आदि समयों का विचार कर ले । ये विषम धातु वाले रोगी और नीरोगी इन दोनों के लिये हितकारी हैं, धातु की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोग और मानस या आगन्तुज रोग नहीं उत्पन्न होते । इसलिये मनुष्य रोगी नहीं होता, रोगी न हो अतः रोगी होने से पूर्व ही स्वस्थवृत्त का सेवन करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥

कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचने के उपाय—

माधव-प्रथमे मासि नमस्य-प्रथमे पुनः ।

सहस्य-प्रथमे चैव हारयेदोषसंचयम् ॥ ४६ ॥

स्निग्ध-स्विभ-शरीराणामूर्ध्वं चाषश्च बुद्धिमात् ।

वस्तिकर्म ततः कुर्यान्नस्तः कर्म च बुद्धिमात् ॥ ४७ ॥

यथाकर्म यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ।

रसायनानि सिद्धानि बृष्ययोगात्र्व कालवित् ॥ ४८ ॥

रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु ।

धातवश्चाभिवर्धन्ते जरा-मान्द्यमुर्धेति च ॥ ४९ ॥

विधिरेष विकाराणामनुत्पत्तौ निदर्शितः ।

निजानाभितरेषां तु पृथगेवोपदिश्यते ॥ ५० ॥

वैद्याख और इस से पूर्व के मास अर्थात् चैत्र में, और भाद्रपद, इससे पूर्वके मास अर्थात् श्रावण में तथा पौष इसमें मास पूर्व के मार्गशीर्ष में एकत्रित दोषों को वमन विरेचन आदि से निकाल देना चाहिये । हेमन्त अर्तु में संचित कफ को चैत्र मास में ग्रीष्म में संचित वायुको भावण मास में, वर्षा में संचित पित्त को मार्गशीर्ष में निकाल देना चाहिये । इन मासों में दोषों के प्रकोप होने का भय रहता है, इसलिये प्रकोप होने से पूर्व ही दोषों को निकाल देना चाहिये । पहिले शरीर को स्नि आदि से चिकना करके पसीना देना चाहिये जिससे कि शरीर के अन्तर्में

जायें । स्नेहन और स्वेदन के पीछे वमन कार्य और विरेचन कराना चाहिये । इन के पीछे बस्ति कर्म और अन्त में नस्य कर्म अर्थात् घिरोविरेचन देना चाहिये । स्निग्ध और स्विक्षण शरीर वाले पुरुषों के लिये वमन कफ नाशक होने से चैत्र में, अनुवासन, बस्तिकर्म वात हर होने से आवण मास में एवं पित्त-नाशक होने से विरेचन मार्गशीर्ष मास में लेना चाहिये । अथवा चैत्र मास में वमन के पीछे विरेचन, मार्गशीर्ष में विरेचन से पूर्व वमन और फिर चैत्र और मार्गशीर्ष दीनों में बस्तिकर्म एवं नस्य कर्म करना चाहिये । चैत्र में यदि वमनादि कार्य कर लिए हों तो श्रावण मास में अनुवासन और आस्थापन करना चाहिये । और यदि चैत्र में वमनादि न किये हों तो वमन विरेचन करके फिर बस्तिकर्म और नस्य कर्म करना चाहिये । स्नेह के पीछे स्वेद, स्वेद के पीछे वमन, वमन के पीछे विरेचन, विरेचन के पीछे बस्तिकर्म और बस्तिकर्म के पीछे नस्य देना चाहिये । प्रथम स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ति और नस्य कर्म ये क्रमशः तथा जिस पुष्पके लिये जो २ कर्म योग्य हीं उन्हें करने के पीछे जरा और रोग को दूर करने वाली ओषध का उपयोग करना चाहिये । रसायन सेवन के पीछे तिद्द एवं वृद्ध्य पौष्टिक प्रयोगों का सेवन समय को जानने वाला वैद्य करावे । रस रक्तादि धातुओं के प्रकृतिस्थ होने से शरीर में दोषजन्य रोग नहीं होते । वृद्ध्य आदि किया करने से रस रक्तादि बढ़ते हैं और बुद्धापे का अन्त हो जाता है, बुद्धापा नहीं आता । यह उपरोक्त विधि शरीर-दोषजन्य रोगों को अनुत्पत्ति के लिये कहा है । आगन्तुक रोगों के लिये भिन्न विधि कहते हैं ।

ये भूत-विष-वाट्वग्नि-संप्रहारादि-संभवाः ।

नृणामाग्न्तवो रोगः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ ५१ ॥

ईर्याऽशोक-भय-क्रोध-मान-द्वेषादयश्च ये ।

मनो-विकारात्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥ ५२ ॥

जो कि ( भूत ) नाना सूक्ष्म प्राणी ग्रह आदि, ( विष ) स्थावर या जंगम विष, ( वायु ) क्षंक्षावात्, ( अग्नि ) ज्वलामुखी, दावानल आदि ( संप्रहार ) चौट आदि से मनुष्यों के 'आगन्तुज' अर्थात् बाहर से होने वाले रोग होते हैं, उन में बुद्धि का अपराध मिथ्या या अन्यथा रूप में प्रयोग हुआ होता है ।

'सत्त्वर'), शोक, भय, क्रोध, अभिमान, द्वेष आदि मन के विकार अर्थात्

बात आदि दोषजन्य नहीं प्रत्युत ये सब बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न

-५२ ॥

आगन्तुज रोगों के प्रतीकार—

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः ।  
देश-कालात्म-विज्ञानं सदृशृत्यस्यानुवर्त्तनम् ॥ ५३ ॥  
आगन्तुनामनुत्पत्तावेष मार्गो निदर्शितः ।  
प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्याद्दितं विद्याद्यदात्मनः ॥ ५४ ॥  
आपोपदेश-प्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम् ।  
विकाराणामनुत्पत्तावुत्पत्तानान्न शान्तये ॥ ५५ ॥

आगन्तुज एवं मानसिक रोग बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं, इस लिये इस प्रज्ञापराध को छोड़ना चाहिये । इन्द्रियों की क्रियाओं से रोकना बुद्धि, स्मृति, भगवान् का स्मरण, देश काल और आत्मा का चिन्तन, ( सदृश ) सच्चे, कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना, यह विष आगन्तुज रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है । इस प्रकार बचने से आगन्तुज रोग उत्पन्न नहीं होते । बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि अपने लिये जो हितकारी काम हो उनको रोगों-त्पत्ति से पूर्व ही करे ।

( आपोपदेश ) रजस और तमस से मुक्त निर्भान्त विद्वानों के उपदेश और ( प्रश्न ) बुद्धि से सिद्ध, प्रमाण द्वारा सिद्ध किये, बुद्धि से स्वीकार किये ये दोनों मानसिक विकारों की अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारों की शान्ति में कारण है ॥ ५६-५८ ॥

वर्जने योग्य मनुष्य—

पाप-वृत्त-वच्चः सत्त्वाः सूचकाः कलह-प्रियाः ।  
मर्मोपहासिनो लब्धाः पर-वृद्धि-द्विपः शठाः ॥ ५६ ॥  
परापवाद-रत्यश्रेपला रिपु-सेविनः ।  
निर्घृणास्त्यक्तधर्माः परिवर्ज्या नरावभाः ॥ ५७ ॥

जिनकी वाणी और मन पापमय हों, चुगलखोर, शगड़ालू, कमज़ोरी या छिद्र को ढूँढ़कर उस पर हँसनेवाले, लालची, जो दूसरी की उत्तिमें द्वेष भाव रखते हैं, दूसरों की निन्दा ही करना जिनका काम है, चंचल प्रकृति, अस्थिर मन, दुश्मन से मिले हुए, या काम क्रोधादि के वशीभृत, दयारहित, निर्दयी, धर्म से न ढरने वाले, ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिये ॥ ५६-५७ ॥

सेवन करने योग्य मनुष्य—

बुद्धि-विद्या-वयः शील-धैर्य-स्मृति-समाधिभिः ।  
वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गत-व्यथाः ॥ ५८ ॥

सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसित-ब्रताः ।  
सेव्याः सन्मार्ग-वक्तारः पुण्य-भवण-दर्शनाः ॥५६॥

जो बुद्धि, विद्या, आयु, शील, स्वभाव, धैर्य साहस, समग्र शक्ति, (समाधि) मन का संयम आदि में अपने से बड़े हों, जो वृद्धों की सेवा करते हों, स्वभाव को जानने वाले, अनुज्ञी, त्रिमकं कि किसी प्रकार की चिन्ता नहीं, सुमुख-सब प्राणियों के लिये प्रयत्नमुग्य, (प्रशान्त) इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त, ब्रह्मचारी, सच्चे मार्ग का उपदेश दरने वाले, पुण्य शब्दों को मुनाने वाले एवं पुण्य दर्शनशील, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र करता है, इस प्रकार के आस पुरुषों का नेवन करना चाहिये, उनका गृह मनना चाहिये, ये ज्ञान, विज्ञान, धैर्य तथा आदि की विद्या देखर मानन शर्यों को नष्ट कर सकते हैं ॥

आहाराऽऽचारचेष्टानु सुवार्द्धं प्रेत्य चेद च ।  
परं प्रयत्नमानिष्ठेद बुद्धिमान् हितसेवने ॥ ६० ॥  
न नक्तं दधि मुक्त्वा त न चाप्यनृत-शर्करम् ।  
नासुदग्सूर्पं नाक्षींद्रं नोर्णा नाऽस्मलकविना ॥ ६१ ॥  
( अलक्ष्मी-दोष-युक्तवाचकं तु दधि बजितम् ।  
इलेघ्मलं स्यात्सर्सिष्कं दधि माहृत-सूदनम् ॥ ६२ ॥  
न च सन्धुक्षयेत्पित्त माहारं च विपाचयेन् ।  
शर्करा-संयुतं दद्यात्पूर्णा-दाह-निवारणम् ॥ ६३ ॥  
मुद्रगसूपेन संयुक्तं दद्यादक्तानिलापहम् ।  
सुरसं चाल्पदोषं च क्षोद्रयुक्तं भवेदधि ।  
उष्णं पित्ताकृदोषान् धात्रीयुक्तं तु निर्हरेत् ॥ ६४ ॥  
ज्वरासृक्षिप्त-वीसर्प-कुष्ठ-पाण्डवामय-ध्रमान् ।  
प्राप्नुयात्कामलां चोर्णां विधि हित्वा दधिप्रियः ) ॥ ६५ ॥

इहलोक और परलोक में सुल्ल चाहने वाले बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि हितकारी आहार, खान पान, आचार वर्तन और चेष्टा-क्रियाओं इन में विशेष रूप से यत्नवान् रहे ।

रात्रि में दही नहीं खाना चाहिये, और रात के सिवाय अन्य समय में जब खाना हो तब भी या शक्ति के बिना, मूँग की दाल के बिना, शहद के बिना किये बिना, अथवा आंवले के बिना नहीं खाना चाहिये । जब खाना हो तब शहद, अंवला इन के साथ या गरम करके खाना चाहिये । रात भी प्रकार से नहीं खाना चाहिये । रात्रि में दही खाने से शरीर की

इलेघ्मा और स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं और शरीर के दोष कुपित होते हैं । दही में धी मिलाने से दही कफकारक हो जाता है, परन्तु बायु का नाश करता है। शर्करा युक्त दही 'पिच्च' ( जटराग्नि या पिच्च को ) नहीं बढ़ाता, परन्तु आहार भोजन को पचा देता है। इस लिये तृष्णा, व्यास और कलेजे की जड़न को मिटाता है। मूँग के साथ मिलाकर दही खाने से 'बातरक' रोग में लाभ होता है। शहद के मिलाने से दही सुस्वाद और थोड़ा दांप बाला हो जाता है। दही को गरम करके खाने से रक्तपित्त जन्य विकार नष्ट होते हैं, आवले के साथ खाने से भी रक्त पित्त रोग शान्त होता है। बहुत दही खाने बाला मनुष्य जो इस उपरोक्त विधि को छोड़ कर दही खाता है, उसको ज्वर, रक्तपित्त, वीर्यर्प, कुष्ठ, पाण्डुरोग, भ्रम, और तीव्र कामला रोग हो जाते हैं ॥ ६०-६५ ॥

### तत्र इलोकाः—

वेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम् ।  
 येषां वेगा विधार्याश्च यदर्थं यद्विताहितम् ॥ ६६ ॥  
 उचिते चाहिते वज्ये सेव्ये चानुचिते क्रमः ।  
 यथाप्रकृति चाऽऽहारो मलायतरदौषवप् ॥ ६७ ॥  
 भविष्यतामनुत्पत्तौ रोगाणामौषधं च यत् ।  
 वज्याः सेव्याश्च पुरुषा धीमताऽत्म-सुखार्थिना ॥ ६८ ॥  
 विधिना दृष्टि सेव्यं च येन यस्मात्तदिविजः ।  
 न वेगान्धारणोऽध्याये सर्वमेवावदन्मुनिः ॥ ६९ ॥

मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक वेग, वेगों को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग, इन रोगों की औषध, जिन उत्पस्थित वेगों को धारण करना चाहिये, जिस के लिये जो लाभकारी है, उचित एवं अहितकारी, छोड़ने योग्य और सेवनीय क्रम प्रकृत के अनुसार आहार, मलस्थान मल की वृद्धि, क्षय, औषध, भविष्य में न होने वाले रोगों की औषध, सुख चाहने वाले बुद्धिमान् मनुष्य को जिन पुरुषों को छोड़ना या जिनका सेवन करना उचित है, और दही को सेवन करने की विधि यह सब आत्रेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' बामक अध्याय में समूर्ण रूप से उपदेश किया है ॥ ६६-६६ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृत्तान्तुष्टके  
 'न वेगान्धारणीयो' नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

और

### अष्टमोऽध्यायः ।

अथात इन्द्रियोपकमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह मभगवानत्रयः ॥ २ ॥

आशार एवं 'स्वस्थ-चतुर्क' कहने के अनन्तर 'इन्द्रियोपकमणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

इह खलु पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि पञ्चेन्द्रियार्थः पञ्चेन्द्रियबुद्धयो भवन्तीत्युक्तनिन्द्रियाधिकारे ॥ ३ ॥

इस आयुर्वेद के प्रकरण में पांच इन्द्रियों हैं । पांच ही इन्द्रियों के ग्राह्य द्रव्य हैं । पांच ही इन्द्रियों के अधिष्ठान हैं । पांच ही इन्द्रियों के अर्थ, पांच प्रकार की इन्द्रियों का ज्ञान है ऐसा पूर्वाचार्यों ने इन्द्रियों के विषय में कहा है ॥

अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसञ्ज्ञकं चेत इत्याहुरेके, तदर्थात्मसंपत्त-  
दायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम् ॥ ४ ॥

'मन' अतीन्द्रिय अथात् इन्द्रियों में सूक्ष्मतम् है वह इसी मन को 'सत्त्व' कहते हैं । इसी मन को कितने 'चित्त' इह नाम से कहते हैं । वह मन अपने विषय और अत्मा इन की श्रेष्ठता के अधीन व्यापार बाला है और इन्द्रियों की चेष्टाओं का कारण है । एवं इन्द्रियों की चेष्टाओं, व्यापार वा प्रतीति का कारण मन ही है ॥ ४ ॥

स्वार्थेन्द्रियार्थं-संकल्प-व्यभिचरणाचानेकमेकस्मिन् पुरुषे सत्त्वम्,  
रजस्तमः-सत्त्व-गुण-योगात्; न चानेकत्वम्, नद्योक्तं हेककालमनेकेषु  
प्रवर्तते, तस्मात्रैक-काला सर्वेन्द्रिय-प्रवृत्तिः ॥ ५ ॥

बास्तव में 'मन' एक ही है, परन्तु इन्द्रियों के अपने २ द्रव्य में विषय के संकल्पों के बदलते रहने से एक पुरुष में अनेक मन एवं मन के सत्त्व गुण होने पर, सत्त्व, रजस्, तमस् इन गुणों के न्यूनाधिक होने से अनेक मन एकही मनुष्य में प्रतीत होते हैं । बास्तव में मन एक ही है अनेक नहीं है । क्योंकि एक ही समय में एक मन अनेक इन्द्रियों में प्रवृत्त नहीं हो सकता इसलिये एक ही समय में सब इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ चेष्टा नहीं होती ॥ ५ ॥

पञ्चदगुणं चाभीक्षणं पुरुषमनुवर्तते सत्त्वम्, तत्सत्त्वमेशोपदिशन्ति  
यं च छल्यानुशयाम् ॥ ६ ॥

जिस गुण ( छल, रजस् या तमस् ) बाला मन बार बार अनु-

सरण करता है, मन को उसी ही गुण वाला मुनि लोग कहते हैं। क्योंकि जिस गुण की अधिकता होगी उसी गुण वाला मन होगा ॥ ६ ॥

**मनः-पुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थ-यहण-समर्थानि भवन्ति ॥ ७ ॥**

इन्द्रियां मन को साथ में लेकर ही विषय के ग्रहण करने में समर्थ होती हैं।

बिना मन के इन्द्रियों विषय को ग्रहण नहीं कर सकती ॥ ७ ॥

**तत्र चक्षुः श्रोत्रं ग्राणं २सनं स्पर्शीनिमिति पठ्येन्द्रियाणि ॥ ८ ॥**

**पञ्चेन्द्रियशुद्ध्याणि—खं वायुज्योनिशादो भूरति ॥ ९ ॥**

**पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कणों नासिके जिहा त्वक् चेति ॥ १० ॥**

**पञ्चेन्द्रियार्थाः—शब्द स्पर्श रस गन्धः ॥ ११ ॥**

आंख, श्रोत्र, नासिका, जिहा और त्वक् ये पांच इन्द्रियां हैं। पांच इन्द्रियों के पांच ग्राह्य पदार्थ हैं, यथा आकाश, वायु, अर्द्ध, जल और पृथिवी। इन्द्रियों के पांच अधिष्ठान हैं, तथा चक्षु गोलक ढो, दांगों वायु कान, जीभ, दोनों नासिकायें और त्वक् । इन्द्रियों के पांच विषय हैं:—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। इन्द्रिय-ज्ञान भी पांच प्रकार का है—चक्षुज्ञान, श्रोत्र-ज्ञान, गन्ध-ज्ञान, रस ज्ञान और रप्त-ज्ञान ॥ ८-११ ॥

**पञ्चेन्द्रियशुद्ध्याणि वृद्ध्यादिकाः, ताः पुनरिन्द्रियेन्द्रियार्थसत्त्वा-त्वमसंनिकर्पजाः क्षणिका निश्चयात्मिकाश्च, इत्येतत्तद्वपञ्चकम् ॥ १२ ॥**

ये पांचों इन्द्रियों के विषय, मन और आत्मा इनका एक साथ संयोग होने से उत्पन्न होते हैं। यह और हाँ अणिक निश्चयात्मक ( स्थायी ज्ञान ) है। इस प्रकार से ये पांच-पांच पदार्थों के समूह होने हैं ॥ १२ ॥

**मनो मनोऽर्थो वुद्धिशत्तमा चेत्यध्यात्म-द्रव्य-गुण-संग्रहःशुभाशुभ-प्रवृत्तिनिवृत्तिः हेतुच, द्रव्याधितं च कर्म, यदुच्यते क्रियेति ॥ १३ ॥**

मन, मन के अर्थ ( विषय ), वुद्धि और आत्मा यह अध्यात्म द्रव्यों का और गुणों का संग्रह है। तथा जो कर्म द्रव्य में आश्रित है उसे क्रिया कहते हैं। 'शुभ' दोनों लोकों में कल्याणकारी, अशुभ ( लोकों में निनिदित ), प्रवृत्ति, निवृत्ति ये कारण हैं ॥ १३ ॥

**तत्रानुमानगम्यानां पञ्च-महाभूत-विकार-समुदायात्मकानामपि स-तामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषिः, खं श्रात्रे, ग्राणे क्षितिः, आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो विशेषणोपदिश्यते ॥ १४ ॥**

अनुमान द्वारा जानने योग्य इन्द्रियां पञ्चमहाभूतों के विकार के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई हैं तो भी, तेज आंखों में, आकाश श्रोत्रों में, पृथिवी द्वारा और जल रसना में और वायु त्वक् में विशेष रूप से रहते हैं ॥ १४ ॥

तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुधावति,  
तत्स्वभावाद्विभूत्याच्च ॥ १५ ॥

इनमें जो जा इन्द्रियों, जिस जगत से वनों हैं वे विशेष रूप से उसी उर्सा (भूत) से वने अर्थ (विषय) का ग्रहण करती हैं। वे अपने समान स्वभाव वाली होने में जमान जनियार्थी विषय का ग्रहण करने में कमर्थ होने न प्रवान भूतात्मक विषय का ही ग्रहण करता है। यदा ओल्ड लैजस है, इसकिये वह तेज का आर दाना है, कल अन्नरस जल्द है इन्हिये शब्द का और दौड़ते हैं। हरशी वाल्य देखे तो यहाँ की ओर जिहा अधिक है इसकिये रस को और और और पर्याप्ति होने से अधिक का अर दाना है ॥ १५ ॥

यद्यर्थीतियोगायोगर्दद्यायामात्मनस्तमिन्द्रियं विकृतिमापद्यमात्म  
यथास्वं बुद्ध्युपवानाय स्वस्थात्, भमयोगात्मुनः प्रकृतिमापद्यमात्म  
यथास्वं बुद्ध्माप्यायति ॥ १६ ॥

इनमें मन के साथ इन्द्रिय का निपत्र में अतियोग, अयोग, या मिथ्यायोग होने से 'विकृति' अथात् रोग उत्पन्न होकर अपने अपने ज्ञान के लिये उद्यत हो जाता है। यद्यकिं ये इन्द्रिय स्वस्थाय में रहकर अपने ज्ञान की वृद्धि करती हैं। मगान अथात् उपचित योग से वृद्धि होती है ॥ १६ ॥

मनसस्तु चिन्त्यमर्थः, तद्यथान्तो तु त्रुट्य व एव समाताति हीन-  
मिथ्यायोगः प्रकृतिन्यविकृतान्तुयोग भद्रन्ति ॥ १७ ॥

मन का विषय चिन्तन करना है (न्त्र, दुःख, प्रयत्न आदि चिन्तनीय होने से मन के विषय हैं)। इसलिये मन और बुद्धि का समान योग स्वस्थता कारण है और मन एवं बुद्धिका अतियोग या हीनयोग अथवा मिथ्यायोग विकृति अथात् 'विकार' या रोग का कारण है ॥ १७ ॥

तत्रेन्द्रियाणां समनस्तानामनुपत्तापानामनुपत्तापाय प्रकृतिभावे प्रय-  
तितव्यमेभिः तुम्हेतुम्हिः। तद्यथा—सात्मेन्द्रियार्थसंदोगेन, बुद्ध्या सम्यग-  
वेक्ष्यावेक्ष्य कर्मणां सम्यकप्रतिपादनेन, देशकालात्मगुणावेपरीतोपसेव-  
नेन चेति। तस्मादात्महितं चक्रीष्टता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय  
सद्वृत्तमनुष्ठेयम्। तद्वयनुष्ठितं युगपत्संपादयत्वर्थद्वयमारोग्यमिन्द्र-  
यविजयं चेति ॥ १८ ॥

इसलिये अपनी प्रकृति में दियत मन सहित इन्द्रियों को स्वस्थ तथा अपने स्वयं रखने के लिये, विकृति से बचाने के लिये निम्न कारणों द्वारा प्रयत्न  
। उचित अनुकूल रूप से इन्द्रिय और विषय के संयोग न अति,

न हीन और न मिथ्यासंयोग से, एवं बुद्धि द्वारा भली प्रकार देखकर कर्मों को उचित रूप में करने से और देश, काल, आत्मा के गुण के अधिपरीत, हितकारी वस्तुओं के सेवन करने से इन्द्रियां उपतप्त न होकर प्रकृति अवस्था में रहती हैं। इसलिये अपना या अपने शरीर का और आत्मा का कल्याण चाहने वाले उन पुरुषों को सदा स्मरण रखकर सद्बृत्त का ( पांचों इन्द्रियों को मन के साथ संयुक्त करके ) मन, बचन और कर्म से पालन करना चाहिये ।

इस सद्बृत्त के पालन करने से आरोग्यता एवं 'इन्द्रियविजय' दोनों कार्य एक साथ ही सिद्ध हो जाते हैं ॥ १८ ॥

तत्सद्बृत्तमस्तिलेनोपदेश्यामः । तद्यथा—देव-गो-ब्राह्मण-गुरु-बृद्ध-सिद्धाचार्यानर्चयेत्, अग्निमुपाच्वरेत्, ओषधीः प्रशस्ता धारयेत्, द्वौ कालाकुपस्थृतेत्, मलायनेष्वर्भीकृणं पादयोश्च वैमल्यमादध्यात् । त्रिः पक्षस्य केश-इमश्चलोम-नखान् संहारयेत्, नित्यमनुपहतवासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात् ॥ १९ ॥

इस सद्बृत्त को सम्पूर्ण रूप में कहते हैं—देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु (माता पिता आग्यागत अतिथि) बृद्ध (विद्याबृद्ध, धनबृद्ध, आयुबृद्ध, शीर्यबृद्ध, ) तिद्द (तापस, भित्तुक), आचार्य (उपनयन संस्कार करने वाले गुरु), इनकी पूजा सेवा करनी चाहिये । अग्निहोत्र प्रातःसायं दोनों समय करना चाहिये, अनिन्दित, ( दांशों को नष्ट करने वाली ओषधियाँ ) वनरपतियां, धारण करनी चाहिये । दोनों समय प्रातःसायं स्नान करना चाहिये । मल के स्थानों को बार बार एवं पांच को सदा पवित्र रखें । बाल, दाढ़ी, मूँछ नाखून, कक्ष के एवं गुहा स्थानों के बालों को पन्द्रह दिन में तीन बार, पांच पांच दिन के पांछे कटवाना चाहिये । नित्य प्रति शुद्ध वस्त्र धारण करे, प्रसन्न मन रहे, सुगन्ध धारण करे ॥ २० ॥

साधुवेशः प्रसाधितकेशो मूर्ध-शोन्न ध्यान-पाद-तैल-नित्यो धूमपः, पूर्वोभिमाषी, सुमुखः, दुर्गेष्वभ्युपपत्ता, हंता, यष्टा, दाता, चतुष्पथाना नमस्कर्ता, बलीनामुपहर्ता, अतिथीना पूजकः, पितॄभ्यः पिण्डदः, काले हित-मित-मधुरार्थवादी, वश्यात्मा, धर्मात्मा, हेतावीर्षुः, फले नेषुः, निष्ठिन्तः, निर्भीकः, धीमान्, हीमान्, महात्साही, दक्षः, क्षमावान्, धार्मिकः आस्तिकोः, विनय-बुद्धि-विद्याऽभिजन-वयोधृद्ध-सिद्धाचार्याणामुपासिता, छत्री, दण्डी, मौली, सोपानकः, युगमात्रांगवचरेत्, मङ्गलाचाराद्यः । और परिहर्ता, प्राक श्रमाद व्यायामवर्जी च म्यात । मध्यं प्राणिष ने ५० ।

स्यात्, कुद्धानामनुनेता, भीतानामश्वासयिता, दीनानामभ्युपच्चा,  
सत्यसन्ध्यः, सामप्रधानः, पर-पुरुष-वचन-सहिष्णुः, अमर्जनः, प्रशम-  
गुणदर्शी, राग-द्वेष-हेतूर्णा हन्ता च ॥ २० ॥

उत्तमब्रेश धारण करे, शिर के बाल संवार कर कंधी कर रखें, शिर,  
कान त्वचा पर तैल का मर्दन करे, नित्य प्रति प्रायोगिक धूमगान करे, घर  
आये हुए का या मिलने पर पहिले कुशल क्षेम पूछे, सुमुख, सुन्दर, प्रसन्न चेहरे  
वाला कठिन अवसरों पर भी सोचकर काम करने वाला, होम करने वाला,  
यज्ञ—देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और नृयज्ञ करने वाला, दान  
देनेवाला, नौराहों को नमस्कार करने वाला, देवता के लिये उपहार भेट देने  
वाला, अम्यागतों की पूजा करने वाला, पिता पितामह आदि को श्रद्धापूर्वक  
अन्न वस्त्र देने वाला हो, समय पर हित परिमित और मधुर अर्थ से युक्त वाणी  
बोले । जितेन्द्रिय संयमी, धर्मात्मा हो, दूसरे की उच्छ्रति को देखकर उच्छ्रति  
करने में ईर्षा भाव रखे कि मैं भी ऐसा करूँ जिस से मेरी भी उच्छ्रति हो,  
परन्तु फल में ईर्षा न करे । चिन्ता रहित न डरने वाला, साहसी आहार और  
व्यवहार को छोड़कर अन्यत्र लज्जाशील, महस्त्वाकोषी, उत्साही, कामों में निपुण,  
प्राणियों पर क्षमा करनेवाला, अपकारी को भी क्षमा देने वाला धर्म में चित्त  
रखने वाला, आस्तिक ( वेदादि सत् शास्त्रों को मानने वाला ), विनय बुद्धि,  
विद्या, अभिजन ( पवित्र कुलोत्तराचि से ), और आयु में जो बढ़े हों, सिद्ध, तप से  
जो बढ़े हों ऐसे तपस्ची, और आचार्य ( सावित्री का उपदेश देने वाले गुरु )  
इनकी सेवा करे । छत्र और दण्ड धारण करे, व्यर्थ या अकाल में न बोले,  
जूता पहिने, अपने चारों ओर कुछ दूर ( चार हाथ ) तक देखता हुआ चले ।  
मंगलजनक कियाशील रहे, कुचंडे ( मैले वस्त्र ), हाङ्गमांस, कांटे युक्त, अमेघ  
अपवित्र ( इमशान आदि, ) वाल, धान्यों के तुष, रोड़े-कंकड़ आदि, राख,  
घड़े आदि के ठीकरे, नहाने के स्थान, पूजा स्थान, इन स्थानों को छोड़ने  
वाला हो । अम से पूर्व ही आधी ( शक्ति से ) व्यायाम को छोड़ दे, सब  
प्राणियों में बन्धुभाव भातृ भाव रखने वाला, कोधी पुरुषों को मनालेने वाला,  
डरे हुए पुरुषों के लिये आश्वासन ( सांत्वना ), देने वाला, दीनों गृहीबों  
के लिये उपकार करने वाला, सत्य प्रतिक्रिया वाला, शान्ति को मुख्य गिनने वाला,

शान्तिमान्, लकड़ाई कागड़े के कारणों को नष्ट करने वाला हो ॥ २० ॥

स्यात्, नान्यस्वमाद्यात्, नान्यस्त्रियमभिलेषेनान्यश्रियम्,

न वैरं रोचयेत्, न कुर्यात्पापम्, न पापेऽपि पापी स्यात्, नान्यदोषान  
ब्रूयात्, नान्यगहस्यमागमयेत्, नाधार्मिकर्न नरेन्द्रद्विष्टः सहाऽऽसीत्,  
नोन्मत्तेन पतितं न भ्रूणहन्तभिर्न शुद्रेन दुष्टः, न दुष्ट्यानान्यारोहेत्, न  
जातुसमं कठिनमासनमध्यासीत्, नानास्तीर्णमनुपहितसविशालग्रसमं  
वा शयनं प्रवृत्तत्, न गिरि-दिपन-मम्तव्येष्टव्यतुचरेत्, न द्रुममारो-  
हेत्, न जलोप्रवेगमवगाहेत्, कूलच्छायां नोपासीद, नाग्न्युत्पानमभि-  
तश्चरेत्, न अर्थसेत्, न शब्दवन्तं मारुतं मुड्चेत्, नासंवृतमुखो  
जूम्भां क्षवशुं हास्यं वा प्रवर्तयेत्, न यानिकां कुर्यायात्, न  
दन्तान् विवर्धयेत्, न नखान् वाढयेत्, नात्यान्यभिहन्यात्, ने भूर्भि  
विलिखेत्, न छिन्न्याचृत्यम्, न लोट्टुं सूर्यायात्, न विगुणमङ्गेश्वरेष्टेत्,  
ज्योतीष्विगिनममेधमशस्त्रं नाभियोश्वेत्, न हुङ्क्यांच्छवम्, न चेत्य-  
ध्वज्ञ-गरु-पूज्याद्यस्त-च्छायामाक्रमेत्, न क्षपास्यनर-सदृन-चेत्य-चत्वर-  
चतुष्पथोपवन-द्यमशानाधारनान्यासेवेत्, नैकः शून्यगृहं न चाटवीमनु-  
प्रविशेत्, न पापवृत्तान् ऋग्मित्र-भृत्यान् भजेत्, नोत्तमविरुद्ध्येत्, नाव-  
रातुपासीद, न जिद्धां रोचयेत्, नानार्थमादयेत्, न भद्रमुत्पादयेत्,  
न साहसातिरिवष्ट-प्रजागर-स्तान-पालाद्यनान्यासेवेत्। नोर्ध्वजानुश्विरं  
तिष्ठेत्, न व्यालानुकर्त्तव्यं वैष्टिक्याः न विगिरिः, तुरंवात् तपादव्या-  
यातिप्रवातान् बशात्, कर्णि नाडउरसेत्, नामुवशुं गिनमुपासीत्,  
नोच्छिष्टो नाधःकृद्वा प्रतापयेत्, नाविगत्कलः। नाप्तु वद्वना न नग्न  
उपरपृष्ठेत्, न स्तानकाद्या रुप्तातुलग्रामम्, न कशात्राण्यगिन्दन्यात्,  
नोपस्पृश्य त पक्व वाससं विश्वात्, नामपृष्ठा रसमाज्य-पूड़ि-कल्प-सुम-  
सोऽभिनिष्ठामत्, न पूज्यमङ्गलान्यप्रसवं गच्छन्, ने नराण्यनुदीक्षिणम्॥

झूट न थोले, दूसरे के घन को न लेवे, दूसरे की खी को न चाहे, दूसरे  
की सम्पत्ति की चाहना न करे, वेर न करे, पाप न करे, पाप में मन न लगाये  
अथवा पापी पुरुष पर भी पाप न करे, दूसरों के दोंओं को न कहे, दूसरों की  
गुस बातों को न जाने अधार्मिक, एवं राजा ने देव करने वाले (राजदानुओं)  
के साथ न बैठे, पागल, पतित, नीच कर्म करने वाले, चाण्डाल आदि, भ्रू-  
घाती (गर्भपात करने वाले) लुद, (छोटे पुरुष) दुष्ट (चोर डाकू आदि)  
के साथ न बैठे। दुष्ट्यान (अनभ्यस्त थोड़े आदि) पर न बैठे, छुटने-  
कर (उत्कट आसन से) भी देर तक न बैठे, बिना नीचे बिछाये, न और  
इने रक्खे बिना, संकुचित स्थान पर, ऊंची नीची जगह पर न सौरे ॥

ऊंचे नीचे प्रदेशों में या चांडियों पर न घूमे फिरे, वृक्ष पर न चढ़े, पानी के तेज प्रवाह में स्नान न करे । नदी के किनारे लड़े वृक्ष की छाया में नहीं बैठे, अग्नि की लपट के चारों ओर न फिरे । ऊंचे से ( जार से ) न हूंसे । शब्द के साथ अबोवायु, ( अपान वायु ) न छोड़े, मुख का बिना ढापे जमाई, छींक अथवा हास्य-हंसी न करे, नाक को न कुरेदे, दाँतों को न किटकिये । नलों की न रगड़े, अस्थियों को न बजाये, भूमि को न कुरेदे, भूमि पर न लिखे, तिनके न तांडे, मिट्टी के ढेले को न फोड़े, अंगों का व्यर्थ में टेहा मेहा न करे, न हिलाये । ज्योति ( तैजस पदार्थ ) सूर्य, अग्नि, तीव्राग्नि, अपवित्र चिता आदि निन्दित वस्तुओं को न देखे । शब्द का देखकर हुंकार न छोड़े, चेत्य ( गांव के देवता ) घ्वजा, पताका, गुरु माता पिता, आचार्य, पूज्य आदरणीय, प्रशस्त कल्याणकारी वस्तुओं की छाया को न लांघे, रात्रि में देवालय, मनिदर, चैत्य ( ग्राम्य देवता ) गृह, आगन, चौराहा, बाग, श्मशान, ( वध स्थान ) में न रहे । अकेला एकान्त ऐह में, शून्य घर में या जंगल में प्रवेश न करे । पाप-वृत्ति वाले छीं, मित्र अथवा नौकर का साथ न दे, अपने से श्रेष्ठों के साथ विरोध न करे, अपने से नीच हाँन की सेवा न करे । कुटिल की चाहना न करे, अनार्य दुष्ट का आश्रय न ले, किसी के लिये भय उत्पन्न न करे, अतिसाहस अति साना, बहुत जागना, बहुत स्नान, बहुत पीना, बहुत खाना नहीं करे । शुटने उठा कर देर तक न बैठे । सांप, दाढ़ वाले सिंह आदि, सींग वाले भैंस बैल आदि जन्तुओं के पास न जाये । सामने की बायु, धूप, ओस, तेज वायु को छोड़ दे । शगड़ा आरम्भ न करे । बिना सावधानी के अग्नि की उपासना पूजा न करे, जूँठे भाजन को पुनः आग पर गरम न करे ( जूँठा भाजन आग में नहीं डालना चाहिये ) । थकान भिटे बिना, मुख और सिर को जल से गीला किये बिना, वा नंगा होकर स्नान न करे । नहाने की धोती ( कटि वस्त्र से ) से गिर का स्पर्श न करे, बालों के अप्रभागों को ताङ्नन न करे; स्नान करके जिन कपड़ों से स्नान किया है, उन्हीं को निचोड़कर फिर धारण नहीं करे । रत्न, मणि आदि, पूज्य भगवान् आदि का नाम, मंगल कल्याणकारी वस्तुएं फूल आदि को बिना स्पर्श किये घर से बाहर न निकले । पूज्य एवं मंगलकारी वस्तुओं के बाम पाश्व से न जाये, अपूज्य, अमंगल वस्तुओं के दक्षिण पाश्व से न जाये ॥ २१ ॥

स्तनपाणिनीस्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहृत्वा देवताभ्यो  
ये स्तिरभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथिभ्यो नोपाश्रितेभ्यो नापुण्य-

गन्धो नामाली नाप्रश्नालितपाणिपादवदनो नाशुद्धमुखो नोदड्मुखो न  
विमना नाभक्ताशिष्टाशुचि-क्षुधित-परिचरो नापात्रीष्वमेव्यासु नादेशे  
नाकाले नाकीर्णे नादत्वाऽप्यमग्नये नाप्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैर्न मन्त्रैरन-  
भिमन्त्रितं न कुत्सयन् न कुत्सितं न प्रतिकूलोपहितमञ्जमाददीत, न  
पर्युषितमन्यत्र मांस-हरित-शुष्क-शाक-फल-भक्ष्येभ्यः । नाशेषमुक्त्याद-  
न्यत्र दधि-मधु-लवण-सत्तु-सर्पिभ्यः । न नक्तं दधि भुज्ञीत, न सत्तु-न-  
कानश्रीयात्, न निशि न भुक्त्वा न वहून् न द्विर्नादकान्तरितान् न  
छिष्ठ्वा द्विज्जर्भक्षयेत् ॥ २५ ॥

इन अवस्थाओं में भोजन न करे—रस्त को हाथ में लिये बिना, स्नान  
किये बिना, बख्त पहिने बिना, गायत्री जप किये बिना, हवन किये बिना, देव-  
ताओं के लिये दिये बिना, पिता माता को खिलाये बिना, आचार्य एवं बड़े  
पुरुषों को, अतिथियों को, आश्रितों को खिलाये बिना, अशुभ गन्यवाला,  
पुष्पमाला धारण किये बिना, हाथ पांव मुख धोये बिना, मळिन मुख से, उत्तर  
दिशा की ओर मुख करके, अन्य मन से, बिना भक्ति के दिया, ठीक प्रकार से  
या पवित्रता से न दिया, भूखे के हाथ से परसा, बिना पात्रों के मैले पात्रों में,  
अदेश में, ( मैले वा अनुचित स्थान पर ) कुसमय में, संकुचित स्थान में,  
अग्नि का दिये बिना ( वैश्वदेव यज्ञ किये बिना ), प्रोक्षणोदक से विधिपूर्वक  
प्रोक्षित किये बिना, ( वेदमन्त्रों से अभिमन्त्रित किये बिना ) निन्दा करते हुए,  
निन्दित और प्रतिकूल अन्त को अपने मन के विशद मनुष्यों के पास में भोजन  
नहीं करना चाहिये । पर्युषित जिसे एक रात बीत गई है ऐसे बासी भोजन का  
नहीं खाना चाहिये । मांस, हरड़, सूखे हुए शाक, फल इनको बासी अशोत्  
एक रात बीतने पर भी खा सकते हैं । सम्पूर्ण न खावे, पात्र में थोड़ा छोड़ देना  
चाहिये । परन्तु दही, शहद, लवण, सत्तू और धी इनको सम्पूर्ण खा लेना  
चाहिये, पवित्र होने से इन को झूठा न छोड़े । रात में दही नहीं खाये, अकेले  
ससुओं को न खाये अर्थात् केवल सत्तू न खाये । रात में सत्तू न खाये, भोजन  
खाकर सत्तू न खाये, बहुत अधिक मात्रा में सत्तू न खाये, एक दिन में दो  
बार सत्तू न खाये, पानी में भीगे हुए सत्तू या जौ का सत्तू बनाकर नहीं  
खाना चाहिये । दाँतों से काटकर न खाये ॥ २६ ॥

नामृजुः श्ल्यान्नाद्याक्षं शयीत । न वेगितोऽन्यकार्यः स्यात् । न चाष्ट-  
ग्निसलिल-सोमार्क-द्विज-शुरु-प्रतिमुखं निष्ठीविका-वात-वचो-ग-  
ःसूजेत, न पन्थानमवमूत्रयेत्, न जनवति नाशकाले । जप-  
श्लिमङ्गल-क्रियासु श्लेष्मसिंहधारणकं मुख्येत् ॥ २७ ॥ ,

विना मुके छींक न ले, न खाये, न सोये । मल्न-मूत्र आदि के बेग उपस्थित होने पर दूसरा काम न करे, पहला बेग का निराकरण करे । वायु, अग्नि, जल, चन्द्रमा, सूर्य, ब्राह्मण, गुरु, पिता, माता, इनकी ओर मुख करके न थूके, न अपान वायु और मल, मूत्र का त्याग करे । रास्ते में, मनुष्यों के बैठने के स्थान में, भोजन के समय मूत्र त्याग न करे । जप, हवन, पठन, बलि, पवित्र क्रियाओं के स्थान पर नाक का मल ( सिंधाणक ) नहीं फेंके ॥ २३ ॥

न खियमवजानीत, नार्तिविश्रमदेन्न गुह्यमनुश्रावयेन्नाधिकुर्यात् ।  
न रजस्वला नाऽस्तुरां नामेध्यां नाशस्तां नानिष्टृप्याचारोपचारां नादक्षां  
नादक्षिणां नाकामां नान्यकामां नान्यविद्ययं नान्यवोत्तिं नायोनीं न चेत्य-  
चत्वर-चतुर्ष्पथोपवन-इमशान-वातन-सलिलोपयिद्विज-गुरु-सुरालयेषु न  
सन्ध्ययोर्नार्तिविषु नाशुचिनांजग्धभेषपत्तो नाप्रणीतसंकल्पो नानुपस्थित-  
प्रदर्शों नामुक्तवान् नात्यशितो न विषमस्थो न मूत्रोच्चारपीडितो न  
अम-व्यायामोपवास-क्लामाभिहतो नारहसि व्यवायं गच्छत् ॥ २४ ॥

छी का तिरस्कार न करे । छी का अधिक विश्वास न करे । छी को गुस बात न कहे । छी को अधिकारी न करे, अधिकार न देवे । रजस्वला, रोगिणी, अपवित्र, चण्डाल आदि, कुष्ठ आदि निनित रोग से पीड़ित, इच्छित रूप आचार-उपचार से रहित, अचतुर, जो स्वयं नहीं चाहती हो, दूसरे पुरुष को चाहने वाली, परखी, असमानजातीय, कामनारहित इन खियों के साथ, वा योनि को छोड़कर अन्यत्र गुदा या मुख में, मैथुन नहीं करना चाहिये । चैत्य ( देवता का मन्दिर ), चौराहा, धांगन, उपवन, बाग, शमशान, वध्य-भूमि में, पानी, धोषाधि, ब्राह्मण, गुरु, माता-पिता और मन्दिर के पास, प्रातः सायं दोनों सन्ध्याकालों में, अति अधिक मात्रा में, निष्कद तिथियों में ( पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, संक्रान्ति, धाद दिनों में, अमावस्या में, प्रतिपदा में ), अपवित्रित अवस्था में, बाजीकरण औषध खाये बिना, मन में मैथुनेच्छा किये बिना, शिवन में उत्तोजना हुए बिना, साये बिना, साली घेट, अधिक खाये, घेट भर के और विषम स्थान पर स्थित होकर, मूत्र बेग से पीड़ित, खुले अनाशृत स्थान में छी के साथ मैथुन न करे ॥ २४ ॥

न सतो न गुरुन् परिवदेत्, नाशुचिरभिचार-कर्म-चैत्य-पूज्य-पूजा-  
ध्वन्यसमभिनिर्वर्तयेत् ॥ २५ ॥

उत्तोजन या गुरुजनों की मिन्दा न करे । अपवित्र अवस्था में अभिचार ये हिंसा का ग्रस्ताग, इपेनादि उपचार ) कर्म, चैत्य पूजा, एवं देवता, शा, अस्थयन, पठन आदि नहीं करे ॥ २५ ॥

न विद्युत्स्वनार्तवीषु नाभ्युदिताषु दिष्टु नाग्निसंप्लवे न भूमिकम्पे  
न महोत्सवे नोल्कापाते न महाग्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ न  
सन्ध्ययोर्नामुखादगुरोर्नावपतिरं नातिमात्रं तान्तं न विश्वरं नानवस्थि-  
तपदं नातिदुतं न विलम्बितं नातिकलीवं नात्युच्चर्नातिनीचैः न्वरै-  
रध्ययनमध्यसेत् ॥ २६ ॥

निभ अवस्थाओं में अध्ययन-पठन नहीं करना चाहिये—शृंगु के बिना  
विजली चमकने पर, दिशाओं के जलने पर, ग्राम नगर आदि में आग लगने  
पर, भूकम्प आने पर, विवाहादि बड़े उत्सवों में, विजयादशमी, दीपमालिका  
होली आदि में, उल्कापात होने पर, चन्द्रग्रहण, या सूर्यग्रहण होने पर, कृष्णपक्ष  
की चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा को जिन तिथियों में चन्द्रमा नहीं  
दीखता, सन्ध्या कालों में, गुरुके मुख से बिना पढ़े, अक्षर का छोड़ते हुए,  
खाते हुए, अधिक मात्रा में, रक्ष स्वर से, न्वर के बिना, पदों की व्यवस्था के  
बिना, विराम आदि चिह्नों का ध्यान न रखकर, एक एक कर, अति निर्वल  
( बलहीन ), बहुत ऊँची आवाज से बहुत जोर से, बहुत धीमी आवाज से भी  
नहीं पढ़ना चाहिये ॥ २६ ॥

नातिसमर्थं जह्नात् । न नियमं भिन्न्यात् । न नक्तं नादेशे चरेत ।  
न सन्ध्यास्वभ्यवद्वाराध्ययन-स्त्री-नवपत्न-संवी रथात् । न वाल-वृद्ध-लुब्ध-  
मूर्ख-क्लिष्ट-क्लीचैः सह सल्यं कुर्यात् । न मध्य-द्यूत-वैश्या-प्रसङ्ग-रुचिः  
स्यात्, न गुर्ह्यं विवृण्यात् । न कञ्चिदवजानीश्वात् । नाहंभानी स्यान्नादक्षो  
नादक्षिणां नासूक्यकः । न व्राह्मणान् परिवदेत् । न गवां दण्डमुद्यच्छेत्,  
न वृद्धान् न गुरुन् न गणान् न नृपान् वाऽधिक्षिपेत् । न चांतव्रूपात् ।  
न बान्धवानुरक्तकृच्छ्रद्वितीयगुद्यज्ञान् बहिः कुर्यात् ॥ २७ ॥

समय को न खोये । नियम का उल्लंघन न करे । रात्रि में न धूमे । जंगल  
आदि दीयावान रथानों में न धूमे । सन्ध्या समयों में भोजन, अध्ययन, मैथुन,  
नोंद नहीं करनी चाहिये । बालक, वृद्ध, लालची, मूर्ख, कुष रोगी, नपुंसक अनु-  
त्साही अल्पसत्त्व के साथ मित्रता न करे । मध्य शराब, ज्वां, वेद्या इनमें मन  
नहीं लगाये । गुस रहस्य को न कहे । किसी का भी अपमान न करे ।  
अहंकार या धमण्ड न करे । कायों में मूढ न रहे । गुणों में दोषों को न देखे ।  
निन्दक, चुगलङ्गोर न बने । ब्राह्मणों की निन्दा न करे । गाय के प्रति हां  
उठाये । जो अपने अनुकूल हों उनकी निन्दा न करे । गुरु, और  
आचार्य, समा, वयोवृद्ध, जनसमूह, समाज और राजा की

भाई बन्धु आदि, अनुरक्त, स्नेही, मित्र आदि, आपत्ति में सहायक इनको कभी बाहर न निकाले, कष्ट न दे ॥ २७ ॥

नाधीरो नात्युच्छ्रूतसत्त्वः स्यात् । नामृतसृत्यो, नाविश्रवस्त्रजनो, नैकः सुखी, न दुःखशीलाचारोपचारो, न सर्वविश्रम्भी, न सर्वाभिशङ्की, न सर्वकालविचारी । न कार्यकालमनिपातयेत् । नापरीक्षितमभिनिविशेत् । नेन्द्रियवशगः स्यात् । न चञ्चलं मनोऽनुध्रामयेत् । न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमाद्यात् । न चातिदीर्घसूत्री स्यात् । न क्रोधहर्षवनुविद्यात् । न शोकमनुवसेत् । न सिद्धावौत्सुक्यं गच्छेन्नासिद्धौ दैन्यम् । प्रकृतिमभीक्षणं स्मरेत् । हेतुप्रभावनिश्चितः स्यात् हेत्वारम्भनित्यश्च । न कृतमित्याश्वसेत्, न वीर्यं जहात् । नापवादमनुस्मरेत् ॥ २८ ॥

बहुत अवीर, उतावला जलदबाज़ न हो, बहुत उच्छृङ्खल उद्धत न बने । नौकों का पोषण अवश्य करे । अपने मनुष्यों में, घर के आदमियों में अविश्वास न करे । अकेला सुख का अनुभव न करे । अकेला मधुर पदार्थ न खाये शील ( स्वाभाविक व्यवहार ), आचार, ( शास्त्रानुकूल व्यवहार ), उपचार, ( वज्र धारण करने और रहन सठन ) में दुःखी व्यक्तियों की भाँति ( गरीबों की तरह ) न रहे; सभ्य बनकर रहे । सब जगह सब का विश्वाल न करे । सब स्थानों पर सब का अविश्वास भी न करे, लन्देह भी न करे । सब समय शोचता विचारता भी न रहे । काम के समय का उल्लंघन न करे । अपरीक्षित (अशात) स्थान आदि पर न बैठे न जाये । इन्द्रियों के बश में न हो । चंचल मन का इधर उधर न धुमावे । बुद्धि, और ज्ञानेन्द्रियों का अतियोग न करे, उन पर अधिक बोक न डाले, अधिक विषय सेवन न करे । दीर्घ-सूत्री अर्थात् विलम्ब से काम करने वाला न बने । जितना क्रोध आये उतना उम्र कर्म न करे और जितनी खुशी हो उतनी अधिक खुशी न मनाये । शोक विन्ता के बश में न हो । कार्य में सफलता मिलने पर बहुत प्रसन्न न हो और कार्य में असफलता मिलने पर दीन, ( उदास चेहरा ) न बनाये मुँह न लटकाये । बार बार प्रकृति अर्थात् जन्म मरण के स्वभाव को ध्यान में रखे । शुभ कारण से कार्य का आरम्भ करे । इतना कर लिया बस है, यह समक्षकर बैठ न जाये । वीर्य (पराग) का त्याग न करे । निन्दा का स्मरण न करे ॥ २८ ॥

अत्तमाज्याक्ष्रूत-तिल-कुण्ठ-सर्षपैरग्निं जुहुयादात्मानमाशीर्भिरा-  
[नमें नापगच्छेच्छरीराद्, वायुमें प्राणानादधातु, विष्णुमें  
द्वो मे वीर्यं शिवा मा प्रविशन्त्वाप आपोहिष्टेत्यपः

स्थुशेत्, द्विः परिसूज्यौष्ट्रो पादौ चाभ्युदय मूर्धनि स्नानि चोपस्थुरोदद्विर-  
रात्मानं हृदयं शिरश्च, ब्रह्मचर्य-ज्ञान-दान-मैत्री-कारुण्य-हृषोपेक्षा-प्रशम-  
परश्च स्यादिति ॥ २६ ॥

अपवित्र अवस्था में उत्तम गौ का धी, अक्षत, तिल, कुशा और सरसों  
द्वारा अग्नि ने वेदमन्त्रों से इवन न करे और प्रार्थना करे कि अग्नि मेरे शरीर  
से बाहर न जाये । दायु मेरे अन्दर प्राणों को धारण करे । विष्णु मेरे अन्दर  
बल का संचार करे । इन्द्र मुक्ति में बल बढ़ावे । कल्पाणकारी जल मुक्ति में प्रविष्ट  
हों, 'आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन' ॥ इस मन्त्र से जल का स्पर्श  
स्नान आचमन करना चाहिये । दोनों समय भोजन करने के उपरान्त ओष्ठ  
और पांव को धोकर शुष्क कर लेना चाहिये शिर और आंख, कान, नाक  
इन्द्रियों को जल से स्पर्श करे । फिर अपने हृदय, शिर को जल से स्पर्श करे ।  
ब्रह्मचर्य ( काय और मन वाणि ने मैथुन को छोड़ना ब्रह्मचर्याश्रम में, यहस्था-  
भ्रम में भी अपनी पत्नी में शूतुकाल को छोड़कर ) तथा अन्यों को ज्ञान-दान,  
'मैत्री' सब प्राणियों में आत्मवत् प्रवृत्ति, सब प्राणियों में दयाभाव, हर्ष, प्रसन्नता  
सब प्राणियों में, उपेक्षा अर्थात् अप्रतिग्रह बुद्धि, प्रशम अर्थात् शान्त इन्द्रिय  
एवं चित्तवाला बने ॥ २६ ॥

तत्र श्लोकाः—

पञ्चपञ्चकमुहिष्टं मनो हेतुचतुष्यम् ।  
इन्द्रियोपक्रमेऽध्याये सद्वृत्तमखिलेन च ॥ ३० ॥  
स्वस्थवृत्तं यथोहिष्टं यः सम्यग्नुतिष्ठुति ।  
म समाः शतमध्याधिरायुपान वियुज्यते ॥ ३१ ॥  
नृलोकमापूरयते यशसा साधुसंमतः ।  
धर्मार्थवेति भूतानां बन्धुतामुपगच्छात ॥ ३२ ॥  
परान् सुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रपद्यते ।  
तस्माद् वृत्तमनुष्टेयसिदं सर्वेण सर्वदा ॥ ३३ ॥  
यज्ञान्यदपि किञ्चित्स्यादनुकमिद् पूजितम् ।  
वृत्तं तदपि चाऽऽत्रेयः सदेवाभ्यनुमन्यते ॥ ३४ ॥

पञ्चेन्द्रिय और इनके पांच प्रकार, मन एवं चार कारण ( समयोग, मिथ्या-  
योग, हीनयोग, और अतियोग ) और समूर्ण सद्वृत्त को 'इन्द्रियों'  
अन्याय में कह दिया है । जो मनुष्य कहे हुए स्वस्थवृत्त का  
रूप से पालन करता है वह सौ वर्षों तक नीरोग रहता और ।

आयु का भंग नहीं होता, वह सौ वर्षतक जीता है। साधुओं से पूजित होकर मनुष्यलोक को अपने यश से भर देता है, यशस्वी बनता है। धर्म और अर्थ को प्राप्त करता है। सब प्राणियों के प्रति वन्धुभाव उत्पन्न कर लेता है। पुण्य कर्मों वाला मनुष्य अति उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करता है। इसलिये सब पुण्यों को चाहिये कि सदा इस 'सदृश' का पालन करे। इस 'सदृश' के अतिरिक्त और जो कुछ उत्तम कर्म हों जो कि यहां पर नहीं भी कहे हैं, उनको भी स्वीकार करके पालन करना चाहिये ऐसा भगवान् आदेय का अभिप्राय है॥ ३०-३४॥

इत्यनिवेशकृते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृच्छतुष्के  
इन्द्रियोपकर्मणीयो नामाऽष्टमोऽस्यायः ॥ ८ ॥ इति स्वस्थचतुष्कः ॥

### नवमोऽस्यायः ।

अथातः खुड्डाकचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽष्टद भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'खुड्डाक चतुष्पाद' ( चिकित्सा के छुट्ट चार चरण ) नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा भगवान् आदेय ने कहा था ॥ २ ॥

भिषग् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।

गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारञ्जुपशान्तये ॥ ३ ॥

वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी ये चार पाद अर्थात् चिकित्सा के चार अंग हैं। ये चारों ही विकार अर्थात् रोगों की शान्ति में गुणवान् कारण हैं ॥३॥

विकारो धातुवैपर्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते ।

सुखसंज्ञकमारोग्यं, विकारो दुःखमेव च ॥ ४ ॥

शरीर के धातु वात, पित्त और कफ की विषमता का नाम ही 'विकार' अर्थात् रोग है और धातुओं का 'साम्य' अर्थात् अनुकूलता रहने का नाम 'प्रकृति' है। आरोग्यता ही सुख है, रोग का हाना दुःख है। वैद्यक शास्त्र में सुख-आरोग्यता है, और दुःख रोग है ॥४॥

चिकित्सा का लक्षण—

चतुर्णा भिषगादीना शस्ताना धातुबैकृते ।

प्रवृत्तिर्धारुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

प्रदूषों के विषम होने पर भिषक्, रोगी, औषध और परिचारक ये चारों वैद्यों द्वारा भिलकर धातुओं को साम्य अर्थात् अनुकूल करने के लिये कार्य होते हैं, उसी को चिकित्सा कहते हैं ॥ ५ ॥

**वैद्य के गुण—**

श्रते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।  
दाक्षयं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ ६ ॥

सदन्गुरु के उपदेश मे पूर्ण रूप से शास्त्र का ठीक २ ज्ञान, चिकित्सा-कर्म का बहुत बार दर्शन, चिकित्सा कार्य में कुशलता, चिकित्सा कर्म की सिद्ध-हस्तता, पवित्रता, स्वच्छता ये वैद्य के गुण हैं ॥ ६ ॥

**द्रव्य के गुण—**

बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना ।  
संपच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ ७ ॥

( बहुता ) द्रव्य की प्रचुरता ( योग्यता ) रोगियों के दिये जाने वाले द्रव्य में रोग को दूर करने का सामर्थ्य और जिसके अनेक प्रकार के कल्प, ( स्वरस कल्प, चर्ण, कणाय आदि ) बनाये जा सकें, 'सॅप्तम्' अर्थात् रस, वीर्य, प्रमाव, गुण समूर्ण हों, ठीक २ अष्टु में एकत्र की गई हो, ये चार गुण औषध में होने चाहिये ॥ ७ ॥

**परिचारक के गुण—**

उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तरे ।  
शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरं जने ॥ ८ ॥

सेवा कर्म को जानने वाला, कर्मकुशल, रोगी में प्रोत्ति रखने वाला शौच, अर्थात् शुद्धि, स्वच्छता ये चार गुण परिचारक के हैं ॥ ८ ॥

**रोगी के गुण—**

स्मृति-निर्देश-कारित्वमभीहत्वमथापि च ।  
ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ ९ ॥

( स्मृति ) स्मरण शक्ति, वैद्य के आदेश के अनुसार करने वाला, डरपांक न हो, रोग या चिकित्सा कर्म से न घबराने वाला, अपनी शिकायतों को भली प्रकार बता सके, ये चार गुण रोगी के हैं ॥ ९ ॥

कारणं घोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम् ।

दि ज्ञाता शारिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥ १० ॥

पक्षी हि कारणं पक्षुर्यथा पात्रेन्धनानलाः ।

विजेतुविजये भूमिइचमः प्रहरणानि च ॥ ११ ॥

आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः ।

वैद्यस्यातिचकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक् ॥ १२ ॥

सोलह गुण युक्त चारों पाद मिलकर ही चिकित्सा में कारण हैं। इन सब में प्रधान कारण 'भिषक्' अर्थात् वैद्य ही है। व्योकि वही विशेष रूप से जानने वाला, परिचारक आदि को आदेश देने वाला, दवाइयों का प्रयोग करने वाला होता है; तीनों पाद वैद्य के अधीन हैं और वैद्य स्वतन्त्र है, इसलिये प्रधान है। खाना पकाने में जिस प्रकार पाचक कारण है, और पात्र, ईंधन और आग ये उसके अधीन रहते हैं और जिस प्रकार विजेता की विजय में भूमि, स्थान, सेना, प्रहरण, शस्त्र आदि कारण निमित्त बनते हैं, उसी प्रकार सिद्धि अर्थात् चिकित्सा की सफलता में रोगी, औपचार्य और परिचारक ये तीन कारण निमित्त होते हैं। चिकित्सा में मुख्य कारण वैद्य ही होता है ॥ १०-१२ ॥

मृदण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकाराहते यथा ।

न वहन्ति गुणं वैद्याहते पादत्रयं तथा ॥ १३ ॥

गन्धर्वपुरुवन्नार्द्धायद्विकाराः सुदारुणाः ।

यान्ति यच्चेतरे वृद्धिमाशपायप्रतोक्षिणः ॥ १४ ॥

सति पादत्रये ज्ञाज्ञाभिषजावच्च कारणम् ।

जिस प्रकार कुम्भाहर के बिना मिट्टी, दण्ड, चक्र ( चाक ) सूत्र आदि मिलकर भी घड़े को नहीं बना सकते उसी प्रकार वैद्य के बिना रोगी, द्रव्य और परिचारक मिलकर भी चिकित्सा-कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। रोगी परिचारक और द्रव्य इन तीनों के होनेपर भी अतिशय भयानक जो रोग गन्धर्व पुर की भाँति नष्ट हो जाते हैं और दूसरे साधारण रोग भी जो थांडी चिकित्सा से भी अच्छे हो सकते हैं—वे जो बढ़ते हैं—इन दानों में ज्ञानवान् और अज्ञानी वैद्य ही कारण होता है। गन्धर्व पुर जादूगर का बनाया मकान अथवा आकाश का महल ॥ १३-१४ ॥

वरमात्मा हतोऽज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता ॥ १५ ॥

पाणिचाराद्यथाऽचक्षुरज्ञानाङ्गीतभीतवत् ।

नौमीरुहवशेवाज्ञो भिषक्चरति कर्मसु ॥ १६ ॥

यदृच्छया समापन्नमुत्तार्य नियतायुपम् ।

भिषड्मानी निहन्त्याश शतान्यनियतायुपाम् ॥ १७ ॥

तस्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने ।

भिषक् चतुष्ठये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ १८ ॥

ये सूद वैद्य हलाज करे, इससे अच्छा अपनी हत्या कर लेना है। अन्धा करके डरता हुआ जिस प्रकार हाथ से टटोल कर चलता है, वायु

के वश में पड़ी हुई नाव जिस प्रकार कहीं की कहीं वह जाती है, उसी प्रकार मूढ़ वैद्य भी चिकित्सा-कर्म में प्रवृत्त होता है। नियत आयु वाले रोगियों के स्वतः अच्छा हो जाने से अपने को बैच मानने वाला मनुष्य जिनको आयु अभी शेष है, ऐसे सैकड़ों रोगियों को अरनी चिकित्सा से विना समय के द्वारा मार देता है। इसलिये शास्त्र में तत्त्वार्थ के ज्ञान में, क्रिया में, कर्म और कुशलता में इन चार गुणों से युक्त वैद्य ही 'प्राणाभिमुख' अर्थात् रोगों के जाते प्राणों को मी हौटा लाने वाला कहलाता है ॥ १५-१६ ॥

हेतौ लिङ्गे प्रश्नमने रोगाणामपुनर्भवे ।

ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजाहीं निष्क्रमः ॥ १७ ॥

जिस वैद्य को रोगोत्पात्ति के कारण, लक्षण, प्रश्नमन, रोगों की शान्ति और पुनः आक्रमण न होना इन चार बातों का ज्ञान है, वहाँ 'राजवैद्य' होने योग्य है ॥

शब्दं शास्त्राणि सत्त्विं गुणदोप्रवृत्तये ।

पात्रारेक्षीण्यदः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत् ॥ २० ॥

शब्द, शास्त्र और पानी ये तीनों गुण और दोष को उत्पन्न करने में पात्र की अपेक्षा करते हैं। जैसे निर्मल पानी मैले पात्र में रखने से मैला हो जाता है और स्वच्छ पात्र में सफादी खींता है, तल्वार से जहाँ दुष्ट चार आदि का वय हो सकता है, वहाँ सज्जन का भी गळा काटा जा सकता है, शास्त्र द्वारा जहाँ रोगी को बचाया जा सकता है, वहाँ मूढ़ वैद्य मार भी सकता है। इसलिये चिकित्सा के लिये वैद्य को अपनी बुद्धि को सदा स्वच्छ रखना चाहिये ॥ २० ॥

विद्या वितकों विज्ञानं स्मृतिस्तप्तरता क्रिया ।

यस्यैते पठ्यगुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ २१ ॥

विद्या भृतिः कर्मदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः ।

वैद्यशब्दभिनिष्पत्तावलम्भेकंकमप्यदः ॥ २२ ॥

यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः ।

स वैद्यशब्दं सद्भूतमर्हन् प्राणिमुखप्रदः ॥ २३ ॥

( विद्या ) आयुर्वेद विद्या, ( वितकः ) शास्त्रार्थ मूळक ऊहापोद, ( विज्ञान ) बहुत शास्त्र के ज्ञान से विज्ञत्व, ( तप्तरता ) लग्न, ( क्रिया ) चिकित्साकुशलता जिस वैद्य में ये उपरोक्त छः गुण हैं उसके लिये कोई भी व्याधि असाध्य नहीं है। आयुर्वेद विद्या, विशुद्ध बुद्धि, दृष्टि चिकित्सा, चिकित्सा कार्य में अस्फूर्त अनेक रोगियों को आरोग्य युक्त करने में सफलता, सदगुरु का आभ्य, एक एक भी गुण वैद्य पद प्राप्त करने में समर्थ है। परन्तु जिस पुरुष

आदि सब गुण होते हैं, वही सच्चे अर्थों में 'वैद्य' कहला सकता है। वही प्राणियों के लिये सुख देने वाला होता है ॥ २१-२३ ॥

शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः ।

ताद्यां भिषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सनापराध्यति ॥ २४ ॥

चिकित्सिते त्रयः पादा यस्माद्बौद्धव्यपाश्रयाः ।

तस्मात्प्रथयत्नमातिष्ठेद्विषक् स्वगुणमंपदि ॥ २५ ॥

मैत्री कारुण्यमात्मेषु, शक्यं प्राप्निस्त्वपेष्ठुणम् ।

प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधेति ॥ २६ ॥

आयुर्वेद शाल तो प्रकाश करने के लिये ज्योति हैं और अग्नी बुद्धि आंख है। इन दोनों को मिलाकर ठीक तरह से प्रयोग करके चिकित्सक भूल नहीं करता। चिकित्सा के तीन चरण रोगी, परिचारक और द्रव्य वैद्य पर ही आधित हैं। इसलिये अग्ने गुणों को विशेष रूप से प्राप्त करने में वैद्य को प्रयत्नवान् रहना चाहिये। वैद्य का व्यवहार चार प्रकार का है। रोग से पीड़ित पुरुष में मिथता और उन पर दया का भाव; साध्य रोगी में स्नेहभाव, मरणासन रोगी में उपेक्षा बुद्धि रखना ॥ २४-२६ ॥

### तत्र श्लोको—

भिषग्नितं चतुष्पादं पादः पादश्चतुर्गुणः ।

भिषक् प्रधानं पादेभ्यो यस्माद्बौद्धस्तु यद्गुणः ॥ २७ ॥

ज्ञानानि बुद्धिर्व्राह्मो च भिषजो या चतुर्विधा ।

सर्वमेतच्चतुष्पादं खुद्धाके संप्रकाशितम् ॥ २८ ॥

चिकित्सा के चार चरण प्रथेक चरण के चार-चार गुण, सब चरणों में प्रधान 'भिषक्' है, क्यों प्रयान है? वैद्य के गुण, वैद्यों की चार प्रकार को बुद्धि और ब्राह्मी बुद्धि यह चार 'खुद्धाक चतुष्पाद' अध्याय में कह दिया है। इस्यनिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंकृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के

खुद्धाकचतुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

### दशमोऽध्यायः ।

अये भूथातो भद्राचतुष्पादमस्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

लूटे त्रै इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेवः ॥ २ ॥

इस के अनन्तर 'महाचतुष्पाद' नामक अध्याद का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

चतुष्पादं षोडशकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते, यदुकं पूर्वा-  
ध्याये षोडशगुणमिति, तद्वेषजं युक्तियुक्तमलमारोग्यायेति भगवान्  
पुनर्वसुरात्रेयः ॥ ३ ॥

चार चरण और सोलह कलायुक्त चिकित्सा होती है ऐसा धैय कहते हैं ।  
पूर्व के ( खुड़ाक-चतुष्पाद ) अध्याय में जो सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा का  
उपदेश किया है उसी चिकित्सा को युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से आरोग्यता  
मिलती है ऐसा पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है ॥ ३ ॥

नेति मैत्रेयः । किं कारणम् , दृश्यन्ते शातुराः केचिदुपकरणवन्तश्च  
परिचारकसंपन्नाश्चाऽस्तमवन्तश्च कुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठ-  
मानासतथायुक्ताश्चापरे स्नियमाणास्तमाद्वेषजमकिञ्चित्करं भवति ।  
तथाथा श्वभ्रे सरसि च प्रसिद्धमल्पसुदकं नद्यां वा स्यन्दमानायां  
पांसुधाने वा पांसुमुष्टिः प्रकीर्ण हति । तथाऽपरे दृश्यन्तेऽनुष्ठकरणाश्च-  
परिचारकाश्चानामवन्तश्चाकुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः,  
तथायुक्ता स्नियमाणाश्चापरे । यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्धर्थाति प्रतिकुर्वन्  
स्नियते, अप्रतिकुर्वन् सिद्धस्यप्रतिकुर्वन् स्नियते ; ततश्चिन्त्यते भेषज-  
मभेषजेनाविशिष्टमिति ॥ ५ ॥

'मैत्रेय' के विचार में यह ठांक नहीं, क्योंकि कुछ रोगी जिन को सब प्रकार  
के साधन प्राप्त हैं, जिनके सेवक भी हैं, जो संयमी, जितेन्द्रिय भी हैं, और  
चतुर धैय उनकी चिकित्सा करते हैं, वे अच्छे ( स्वस्थ ) होते देखे जाते हैं ।  
इस के सिवाय उपरोक्त सब कुछ होते हुए भी कुछ रोगा मरते हुए भी देखे  
जाते हैं । इसलिये कहते हैं कि सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा कुछ फलदायक  
नहीं । जिस प्रकार एक बड़े भारी गढ़े या तालाब में थोड़ा सा पानी डालने  
पर कुछ लाभ नहीं होता और जिस प्रकार बहती हुई नदी में फेंकी हुई धूँि  
की मुट्ठी निरर्थक होती है, वह पानी में वह जाती है और जिस प्रकार  
रेत के बहुत बड़े द्वेर में डाली हुई रेत की एक मुट्ठी का कुछ  
लाभ नहीं, इसी प्रकार शुभ कर्मवाले रोगी में चिकित्सा का कोई लाभ  
नहीं । कुछ रोगी साधनों के बिना ही, सेवकों से रहित, अजितेन्द्रिय,  
अपश्यसेवी, और मूढ़ वैद्यों से चिकित्सा कराने पर भी स्वस्थ होते हुये देखे  
जाते हैं, एवं कुछ ( इस उपरोक्त अवस्था में ) मरते हुए भी देखे जाते हैं ।  
( सोलह गुणों से युक्त ) चिकित्सा करने पर आरोग्ययुक्त स्वस्थ हो जाते हैं ।

बहुत से चिकित्सा करने पर भी मर जाते हैं, बहुत चिकित्सा न करने पर भी स्वस्थ हो जाते हैं, और न करने पर भी मर जाते हैं, अतः सन्देह होता है कि चिकित्सा करना और न करना दोनों बराबर हैं ॥४॥

मैत्रेय ! मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः । कि कारणम् ? ये ह्यातुराः षोडशगुणसमुदितेनानेन भेषजेनोपपद्यमाना मियन्त इत्युक्तं तदनुपप-  
भम्, न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । ये पुनरा-  
तुराः केवलाद्वेषजाद्वते समुचिष्टन्ते न तेषां संपूर्णभेषजोपपादनाय  
समुत्थानविशेषो नास्ति । यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुत्थानायोत्था-  
पयनं पुरुणो बलमस्योपादव्यान्, स शिप्रतरमररिक्लष्ट एवाच्छिष्टेत्तद्व-  
त्संपूर्णभेषजोपलभादातुराः । ये चाऽतुराः केवलाद्वेषजादपि मियन्ते,  
न च सर्वं एव ते भेषजोपपन्नाः समुचिष्टेन्, न हि सर्वं व्याधयो  
भवन्त्युपायसाध्याः, न चापायसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति,  
न चासाध्यानां व्याधीनां भेषजसमुदायोऽयमस्ति । न ह्यलं ज्ञानवान्  
भिषग्मुमूर्खमातुरमुत्थापयितुम् । परीक्ष्यकारिणां हि कुशला भवन्ति ।  
यथा हि यागज्ञाऽध्यासनित्य इवासो धतुरादयं पुमास्यत्रातिविप्रकृष्टे  
महति काये नापराधवान् भवति सम्पादयति चेष्टकायंम्, तथा भिषक्  
म्बगुणसंपन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्माऽस्तरभमाणः साधयरोगमनपराधः  
संपादयत्यवाऽतुरमारोग्येण, तस्मात्त भेषजमभेषजेनाविशिष्टं भवति ॥५॥

आत्रेय भगवान् इसका उत्तर देते हैं कि हे मैत्रेय ! तुम्हारा ऐसा विचार करना ठीक नहीं है । क्योंकि, रोगी सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा करने पर भी स्वस्थ नहीं होते, मर जाते हैं, यह कथन ठोक नहीं है । क्योंकि चिकित्सा से अच्छे होने वाले रोगों में चिकित्सा निष्कल नहीं हाती, और जो रोगी आवध-चिकित्सा के विना भी स्वस्थ हो जाते हैं, उनमें चिकित्सा के पूर्ण कारणों के होने की आवश्यकता भी नहीं होती । जैसे गिरे हुए मनुष्य को जो कि अपने आप उठने में समर्थ है, उठाने के लिये दूसरा पुरुष सहायता देता है, तब वह जल्दी, बिना कष्ट के ही लड़ा हो जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण ( सोलह गुणों से युक्त ) चिकित्सा प्राप्त होने से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं । जो रोगी सम्पूर्ण चिकित्सा के मिलने पर भी मर जाते हैं वे सब रोगी भी सोलह गुण युक्त चिकित्सा से स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि सब रोग उपाय से साध्य नहीं हैं  
( जैसे रोग असाध्य भी हैं ) और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे  
उपाय के अच्छे भी नहीं होते । इसी प्रकार जो रोगी असाध्य हैं उन को

सारा औषध-सुदाय भी ठीक नहीं कर सकता । शानवान् वैद्य भी मरणासन्धि रोगी को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं होता । जो वैद्य साध्य-असाध्य का विचार करके चिकित्सा का प्रारम्भ करते हैं वे कुशल चिकित्साकार्य में सफल, यशस्वी होते हैं । जिस प्रकार कि प्रयोग विधि को जानने वाला अस्यासी धनुर्धारी धनुष को लेकर बहुत दूर के नहीं, प्रत्युत सभीपवतीं स्थूल लक्ष्य पर बाण फेंकता हुआ नहीं चूकता लक्ष्य वेष कर ही लेता है, इसी प्रकार वैद्य अपने गुणों ने युक्त, उपकरणवान्, साधनवान्, साध्य-असाध्य का विचार करके काम आरम्भ करके, रोगी के साध्य रोग को स्वस्थ कर देता है, इसमें भूल नहीं करता, इस लिये कहते हैं कि चिकित्सा करना और न करना दोनों समान नहीं हैं ॥ ५ ॥

इदं चेदं च नः प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषजेनाऽस्तुरं चिकित्सामः, क्षाम-मक्षामेण, कृशं च दुर्वेलमाप्याययामः, स्थूलं मेदस्विनमपतर्पयामः, शीतेनोष्माभिभूतसुपचरामः शीताभिभूतमुष्मोन, न्यूनान् धातून् पूर्यामः, व्यतिरिक्तान् ह्वासयामः, व्याधीन् मूलविपर्ययेणोपचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः, तेषां नस्तथा कुर्वतामयं भेषजसमुदायः कान्ततमो भवति ॥ ६ ॥

और यह हमारा प्रत्यक्ष भी है कि रोगी की हम रोगों की प्रकृति से विपरीत गुण वाली औषध से चिकित्सा करते हैं, क्षीणधातु वाले व्यक्ति की पौष्टिक औषधियों से चिकित्सा करते हैं, ( कृश ) पतले-हुबड़े को मोटा बनाते हैं, स्थूल चर्वीं वाले पुरुष को पतला ( कृश ) करते हैं, गरमी से पीड़ित व्यक्ति की शीतल चिकित्सा करते हैं, शीत से पीड़ित व्यक्ति की उष्ण पदार्थों से चिकित्सा करते हैं, कम हुए धातुओं को पूर्ण करते हैं, परिमाण से अधिक बढ़े हुए धातुओं का कम करते हैं, रोगों की कारण के विपरीत विशद चिकित्सा करते हुए दोषों को प्रकृति में भली प्रकार से स्थित करते हैं । रोगी पुरुषों के लिये ऐसा करते हुए ये भैषज्य-समुदाय अर्थात् सोलह गुणयुक्त चिकित्सा व्याधिनाशक और सुखकारी होती है ॥ ६ ॥

#### भवन्ति चात्र—

साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकः ।

काले चाऽस्त्रभते कर्म चत्तत् साध्यति ध्रुवम् ॥ ७ ॥

अर्थ-विद्या-यहो-ह्वानिसुपक्षोऽस्मसेप्तम् ।

प्राप्नुयाविवर्तं वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत् ॥ ८ ॥

इसमें दबोक है—

रोग के साध्य और असाध्य रूप को एवं साध्य असाध्य के छूटे ।

जामकर विचारपूर्वक समय पर जो चिकित्सक कार्य का आरम्भ करता है वह उस कर्म को अवश्य दूर्ण करता है और जो चिकित्सक असाध्य व्याधि की चिकित्सा करता है, वह धन, विद्या और यश की हानि उठाता है। उस का मिन्दा होती है और लोग उस से चिकित्सा नहीं करते, उसका धन्या नहीं चलता ॥ ७-८ ॥

सुखसाध्यं मतं साध्यं कृच्छ्रसाध्यमथापि च ।

द्विविधं चाप्यसाध्यं यव्याधिं अच्चनुपकमम् ॥ ६ ॥

साध्यानां विविधश्चाल्पमध्यमारुष्टां प्रति ।

विकल्पा न त्वसाध्यानां नियतानां चिकल्पना ॥ १० ॥

मध्य व्याधियां दो प्रकार की हैं, एक ( सुखसाध्य ) सरलता से अच्छी होने वाली और दूसरी ( कृच्छ्रसाध्य, कठिनाई से अच्छी होने वाली )। असाध्य व्याधियां भी दो प्रकार की हैं, एक ( साध्य ) जो कि चिकित्सा से कुछ समय के लिये शान्त की जा सकती है और चिकित्सा के छोड़ने पर किरणही हो जाती हैं। दूसरी ( अनुपकम ) सर्वथा असाध्य जो कभी अच्छी नहीं होती। साध्य व्याधियों के पुनः तीन मेंद हैं, ( १ ) अल्पसाध्य, ( २ ) मध्यसाध्य, और ( ३ ) उत्कृष्टसाध्य और जो निश्चित रूप से 'असाध्य' हैं, उनका कोई नियत मेंद नहीं है, याप्य, असाध्य रोगों के तीन मेंद हैं। यथा अल्पव्याप्त, मध्यम व्याप्त और उत्कृष्टव्याप्ति ॥ ६-१० ॥

सुखसाध्य व्याधि के लक्षण—

हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च ।

न च तुल्यगुणो दूष्यो, न दोषः प्रकृतिर्भवेत् ॥ ११ ॥

न च कालगुणस्तुल्यो, न देशो दुरुपकमः ।

गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च ॥ १२ ॥

दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वौषधक्षमः ।

चतुर्षादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ १३ ॥

रोगोत्पत्ति के कारण योद्धे हो, बहुत अधिक या तीव्र कारण न हो, (पूर्वरूप) अर्थात् रोग के प्राथमिक लक्षण भी हल्के हों, और 'रूप' अर्थात् स्पष्ट लक्षण रोग के योद्धे और हल्के हों। (दूष्य रक्त, मांसादि धातु) दोष वातादि कारण के समान न हो, पित्त के कारण से रक्त कुप्ति न हो, रोगोत्पादक दोष वात आदि रोगी की प्रकृति न हो, वातजन्य व्याधि में सेमी की प्रकृति 'कात' न हो। उपर्युक्त रोग न हो, इमन्त में कफ संचय होता है, इस समय कफ का रोग न शरीर का अवयव या अनूप अर्थात् जलबहुल प्रदेश अर्थात्

कष्टसाध्य स्थान पर रोग न हुआ हो, अथवा जहां पर कठिनता से चिकित्सा की जाय ऐसे स्थान पर रोग न हुआ हो, दोष को गति एक मार्ग में हो, दो मार्ग में न हो, रोग नवीन हो, रोग के साथ कोई उपद्रव ( पीछे उत्पन्न हुई व्याधि या उपसर्ग ( Complication ) न हो, और चिकित्सा के चारों तरण प्राप्त हों, रोगोत्पत्ति में कारण एक दोष हो तथा शरीर सम्पूर्ण प्रकार की औषध का उहन कर सके तां ये सुखसाध्य अर्थात् सुगमता से अच्छे होने वाले रोग के लक्षण हैं ॥१२-१३॥

कृच्छ्रसाध्य रोग के लक्षण—

निर्मत्तपूर्वस्त्रपाणां स्त्रपाणां मध्यमे वले ।

कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ १४ ॥

गर्भिणी वृद्ध-बालानां नात्युपद्रवपीडितम् ।

शस्त्र-क्षाराग्निं-कृत्यानामनवं कृच्छ्रदेशजम् ॥ १५ ॥

विद्यादेकपर्थं रोगं नातिपूर्णचतुष्पदम् ।

द्विपर्थं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोषजम् ॥ १६ ॥

रोग का कारण, रोग का पूर्वसूर और रोग का रूप, स्थृत चिन्ह, माध्यम बल, संस्था में मध्यम हो अर्थात् जिस रोग को उत्पन्न करने वाले दोष-प्रकोप के कारण न तो कम और न अधिक हों, काल प्रकृति और दूष्य इनमें से कोई एक रोगोत्पादक दोष के समान साधारण हो, अधिक उपद्रवों से पीड़ित न हों, तो वह रोग कृच्छ्रसाध्य है ।

गर्भवती, वृद्ध और बालक, इनको तय व्याधियां कृच्छ्रसाध्य हैं । शस्त्र, क्षार और अग्नि इनसे चिकित्सा करते समय जो व्याधि उत्पन्न हो जाय, नवीन न हो, जो रोग पुराना हो, मर्म स्थान, सन्धिस्थान आदि में जो रोग हो, एक मार्गमार्गी हो, चिकित्सा के चारों अंग पूर्ण न हों दोष दों मार्गानुसारी हों, बहुत समय का न हो, और दों दोषों से उत्पन्न हुआ हो वह रोग भी कष्टसाध्य है ॥१४-१६॥

याप्य व्याधि का लक्षण—

शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया ।

लब्धवाऽत्यसुखमल्पेन हेतुनाऽऽशुप्रवर्तकम् ॥ १७ ॥

असाध्य व्याधि, पथ्य, आद्वार विद्यार के पालन करने से आयु के द्येष होने के कारण 'याप्य' होती है । कुछ काल तक आराम मिलता है, परन्तु थोड़े से भी कारण से पुनः शीघ्र उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार की व्याधि कृच्छ्रसाध्य होते हैं ॥ १७ ॥

असाध्य व्याधि का लक्षण—

गम्भीरं वहुधातुभ्यं मर्मसन्धिसमाश्रितम् ।  
 नित्यानुशासिनं रोगं दीर्घकालमवस्थितम् ॥ १८ ॥  
 विद्याद् द्विदोषजं, तद्वप्त्याख्येयं विदोषजम् ।  
 क्रियापथमितकं न्तं सर्वं मार्गानुसारिणम् ॥ १९ ॥  
 औत्सुक्यारनिसंमोहकरनिन्द्रयनाशनम् ।  
 दुर्बलस्य सुसंबृद्धं व्याधि सारिष्टमेव च ॥ २० ॥

मेद आदि गम्भीर धातु में स्थित, रस रक्तादि बहुत धातुओं में स्थित, मर्म सन्धि में आश्रित हो, लगातार गत दिन रहता हो २४ घण्टे बारह घण्टीने बना रहे, देर तक दो चार साल का हो गया हो, दो दोषों से उत्पन्न हो ऐसे रोग को यथा, और इस प्रकार के ( गम्भीर वहु धातुस्थ आदि ) तीनों दोषों से उत्पन्न रोग ‘असाध्य’ समझने चाहिये । जो रोग चिकित्सा से बाहर चला गया हो, बहुत बढ़ गया हो, सब मार्ग ( ऊर्ध्व, अधः और तिर्थग् ) तीनों भागों में पहुंच गया हो, अत्यन्त प्रसन्नता, अति वेचैनी, एवं मूर्छा ( गम्भीर निद्रा ) को उत्पन्न करे, जिस रोग से इन्द्रिय, आँख का देखना, या कान का सुनना आदि नष्ट हो जाये, निर्बल पुरुष में जो रोग बहुत बढ़ा हुआ हो, जिस रोग के लक्षण निश्चित मृत्यु को यताने वाले स्पष्ट हो वह रोग ‘असाध्य’ है, ऐसा गोपी भी असाध्य है ॥ १८-२० ॥

भिपजा प्राक् परीद्यैवं विकाराणा स्वलक्षणम् ।  
 पश्चात्कायसमारम्भः कार्यः साध्येषु धीमता ॥ २१ ॥  
 साध्यासाध्यविभागज्ञो यः सम्यक् प्रतिपत्तिमान् ।  
 न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धिं प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

वैद्य को चाहिये कि चिकित्सा करने से पूर्व रोगों की उनके लक्षणों से परीक्षा, जांच कर ले कि यह साध्य है या असाध्य है । पीछे साध्य रोगों में कार्य आरम्भ करना चाहिये असाध्यों में हाथ न लगाये । जो वैद्य साध्य और असाध्य के भेदों को भली प्रकार जानता है, वह ज्ञानी बुद्धिमान् वैद्य, मैत्रेय के समान लोगों की मिथ्या बुद्धि को नहीं बढ़ाता ॥ २१-२२ ॥

तत्र इलोकी—इहौषधं पादगुणाः प्रभावो भेषजाश्रयः ।  
 १२। आत्रेय-मैत्रेय-मती मति-द्वैविष्ठ्य-निष्ठ्यः ॥ २३ ॥  
 ये येतुविष्ठ्यविकल्पाश्च व्याधयः स्वस्वलक्षणाः ।  
 ते भृत्याचतुष्पादे येष्वायत्तं भिषण्जितम् ॥ २४ ॥ इति ॥

इसमें दो श्लोक हैं—

इस महाचतुष्पाद नामक अध्याय में औरध, चतुष्पाद, गुण, भेषज व आश्रित प्रभाव, आत्रेय एवं मैत्रेय की दो प्रकार की बुद्धि, चार प्रकार के मेट से रोग एवं उनके लक्षण कह दिये हैं, और उन कारणों का भी वर्णन कर दिया है जिनसे वैद्य यथास्वी होता है ॥२३-२४॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्पके  
महाचतुष्पादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

### एकादशोऽध्यायः ।

— \* \* \* —

अथातस्त्वंैषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'तिसैषणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥२॥

इह खल्प पुरुषेणानुपहवत्-सत्त्व-नुद्धि-पौरुष-पराक्रमेण हितमिह चामु-  
ष्मिश्र लोके समनुपश्यता तिस्त्र एषणाः पर्येष्टव्या भवन्ति, तद्यथा प्राणै-  
षणा, धनैषणा, परलोकैषणेति ॥ २ ॥

इस जगत् में जिस पुरुष का मन, शान, पौरुष, और पराक्रम मानसिक बल नष्ट नहीं हुआ, जो इह लोक में और परलोक में हित चाहता है उस को तीन एषणाये ( इच्छाये ) रखनी चाहियें, ( १ ) प्राणैषणा ( प्राण या जीवन की इच्छा ), ( २ ) धनैषणा ( धन की इच्छा ), ( ३ ) परलोकैषणा ॥३॥

आसाँ तु खल्पेषणानां प्राणैषणां तावत्पूर्वतरमापयोत । कस्मात् ?  
प्राणपरित्यागे हि सर्वत्यागः । तस्यानुपालनं-स्वस्थस्य स्वस्थवृचिरातु-  
रस्य विकारप्रशमनेऽप्रमादः, तदुभयमेतदुक्तं वक्ष्यते च; तद्यथोक्तमनु-  
वर्तमानः प्राणानुपालनादीर्घमायुरवाज्ञातीति प्रथमैषणा व्याख्याता  
भवति ॥ ४ ॥

इन तीनों एषणाओं में से 'प्राणैषणा' को सब से प्रथम करे, क्योंकि प्राणों के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है । प्राणैषणा के लिये स्वस्थ प्रा-  
चाहिये कि स्वस्थकृत का पालन करे, जिससे कि वह रोगी न हो अ-  
शन्त करने में प्रमादी न हो । स्वस्थकृत और रोगशान्ति के

वार्ते पूर्व कह दो गई हैं आग विस्तार से भी छहेंगे । उनका ठीक २ प्रकार से पालन करने से मनुष्य प्राणों की रक्षा कर के दोषार्थ प्राप्त करता है । इस प्रकार से प्रथमैषणा का उपदेश कर दिया ॥८॥

अथ द्वितीयां धनैषणामापद्येत् प्राणेष्यो द्वनन्तरं धनमेव पर्येष्टव्यं  
भवति न ह्यतः पापात्पापीयोऽस्ति यदनुपश्चरणस्य दीर्घमायुः तस्माद्बु-  
पकरणानि पर्येष्टुं यतेत् । नत्रोपकरणोपायाननुव्याख्यास्यामः तदथा  
कृषि-पाशुपाल्य-बाणिज्य-राजांपसेवादीनि शानि चान्यान्यपि सतामवि-  
गर्हितानि कर्मणि ब्रृंति-पुष्टि-कराणि विद्यात्तान्यरभेत कर्तुम् तथा  
कुवन दीर्घजीवितं जीवत्यनवमतः पुरुषो भवतीति द्वितीया धनैषणा  
व्याख्याता भवति ॥ ५ ॥

अब दूसरी 'धनैषणा' को भी करें । प्राणों से उत्तर कर धन ही आवश्यक होता है । क्योंकि इससे बढ़कर और कोई पाप संसार में नहीं है विना साधनों के दीर्घ जीवन व्यतीत करना, इसलिये उपकरणों अर्थात् धन कमाने के साधनों को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये । धन कमाने के साधनों का भी उपदेश करते हैं, जैसे खेती, पशुओं का पालन, वाणिज्य-व्यापार, राजा की सेवा आदि । इनके सिवाय अन्य और भी जो २ कार्य सज्जन पुरुषों से अनिनिदित, जीविका को देने वाले हाँ, उन को करे इस प्रकार करने से दीर्घायु प्राप्त करता है और तिरस्काररहित जीवन व्यतीत करता है । इस प्रकार से दूसरी 'धनैषणा' की भी व्याख्या करदी । ५ ॥

अथ तृतीयां परलोकैषणामापद्येत् । संशयश्चात्र—कथं ? भवि-  
ज्याम इतश्चयुता न वेति । कुतः संशयः पुनः इति ? उच्यते-सन्ति  
होके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः । सन्ति  
चापरे ये त्वागमप्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति । श्रुतिभेदात् ।-

'मातरं पितरं चैकं मन्यन्ते जन्मकारणम् ।

स्वभावं परनिर्माणं यदच्छां चापरे जनाः ॥'

इत्यतः संशयः—किं नु खल्वस्ति पुनर्भवो न वेति ॥ ६ ॥

अब तीसरी 'परलोकैषणा' को भी प्राप्त करे । इस 'परलोकैषणा' के विषय में सुन्देह है कि यहाँ से मरने के पीछे फिर जन्म होगा वा नहीं । संशय क्यों है ? कहते हैं—कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो कि प्रत्यक्ष से जानने योग्य वस्तु को नहीं नते हैं और परोक्ष को नहीं मानते । परोक्ष आंख से दिखाई नहीं देता, अतः ये नास्तिक भूत को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते । उपदेश को प्रमाण मानकर ही पुनर्जन्म को मानते हैं । श्रुति की

मिलता के कारण पुनर्जन्म में सन्देह है। कुछ मनुष्य जन्म का कारण माता-पिता को मानते हैं, और कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं। तीसरे दूसरे को समस्त जगत् का कारण मानते हैं। चौथे लोग 'यद्यच्छा' को ही जन्म का कारण मानते हैं, अर्थात् अपने आप विना कारण के ही जन्म हो गया है। इसलिये सन्देह होता है कि पुनर्जन्म है, वा नहीं ॥ ६ ॥

तत्र बुद्धिमान्नास्तिक्यबुद्धिं जहाद्विचिकित्सां च । कस्मात् ?  
प्रत्यक्षं ह्यल्पम्, अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति यदागमानुमान-युक्तिभिरुपलभ्यते ।  
येरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते, तान्येव सन्ति चाप्र-  
त्यक्षाणि ॥ ७ ॥

इस अवस्था में बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि 'नास्तिक्य बुद्धि' अर्थात् परलोक नहीं है इस विचार को और संशय को छोड़ दे। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत थोड़ा है और अप्रत्यक्ष ज्ञान बहुत है जिसको आगम शास्त्र, अनुमान और युक्ति से जाना जाता है। जिन ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है वे हानिद्रियाँ स्वयं अप्रत्यक्ष हैं, आख आंख को नहीं देख सकती, नाक नाक को नहीं सूंघ सकती, कान कान को नहीं सुन सकते ॥ ७ ॥

सर्वां च रूपाणामतिसंनिकर्षदितिविप्रकर्षादावरणात्करणदौर्बल्या-  
न्मनोऽनवस्थानात्समानाभिहारादभिभवादतिसौक्ष्याच्च प्रत्यक्षानुपल-  
ब्धिस्तस्मादपरीक्षितमेतदुच्यते—प्रत्यक्षमेवास्ति, नान्यदस्तीति ॥ ८ ॥

और रूप आदि के बहुत समीप होने से ( जैसे पलकों में लगा हुआ काजल ), अति विग्रहक अर्थात् बहुत दूर होने से ( जैसे बहुत दूर उड़ता हुआ पक्षी ), बांच में व्यवधान आने से ( जैसे दीवार के पीछे रक्खी बस्तु ), इन्द्रिय के निर्वल होने से, मन स्थिर न होने से, एक साथ दो या अधिक भिन्न विषयों में इच्छा करने से, तिरस्कृत होने से यथा—मध्याह्न में सूर्य की किरणों द्वारा तिरस्कृत नक्षत्रादि, अतिरुद्धम होने से, जैसे कूमि या द्वयुकादि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इसलिये जो चारोंक आदि नास्तिक का यह कहना कि 'प्रत्यक्ष' इन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है वही है, उसके अतिरिक्त और नहीं है वह अपरीक्षित अर्थात् विना सोचे विचारे कहा गया है ॥ ८ ॥

श्रुतयश्चैता न कारणं, युक्तिविरोधात् ॥ ९ ॥

नाना बादिजनों के बचन भी परलोक के न होने में प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वे युक्ति ( तर्क ) से विचद हैं ॥ ९ ॥ युक्ति—

आत्मा मातुः पितुर्वा यः सोऽपत्यं यदि संचरेत् ।

द्विविधं संचरेदात्मा सर्वो बाऽवयवेन वा ॥ १० ॥

सर्वश्चेत्सचरेन्मातुः पितुवा मरणं भवेत् ।

निरन्तरं नावयवः कश्चित्सूक्ष्मस्य चाऽऽत्मनः ॥ ११ ॥

जो लोग कहते हैं कि माता पिता की आत्मा पुत्र रूप में उत्पन्न होती है; इस अवस्था में आत्मा की गति दो प्रकार से हो सकती है। एक, आत्मा सम्पूर्ण पुत्र रूप में आये; दूसरी अवस्था में आत्मा का कोई अवयव पुत्र रूप में आये। यदि सम्पूर्ण आत्मा पुत्र रूप में आता है तो माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिये, और दूसरी अवस्था में सूक्ष्म आत्मा का कोई अवयव हो ही नहीं सकता। परमाणुओं के संयोग से बनी वस्तु का भाग हो सकता है, परमाणु का नहीं ॥ १०-११ ॥

बुद्धिमनश्च निर्णते यथैवाऽऽत्मा तथैव ते ।

येषां चैषा मतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुर्विधा ॥ १२ ॥

विद्यात्स्वाभाविकं पर्णां धातूनां यत्स्वलक्षणम् ।

संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मेव कारणम् ॥ १३ ॥

जिस प्रकार माता पिता की आत्मा उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकती उसी प्रकार ये बुद्धि और मन भी उत्पत्ति का हेतु नहीं बन सकते, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों सूक्ष्म हैं, इसलिये इनका भी विभाग नहीं बन सकता। और यदि सम्पूर्ण अवतरण मानो तो माता पिता में से एक मन और बुद्धि से रहित अर्थात् ज्ञान, चिन्तन, बोध से शून्य होना चाहिये। इसलिये यह भी ठीक नहीं। एक और भी दोष है। उनके मतमें योनि चार प्रकार की ( स्वेदज, अण्डज, उद्दिज और जायुज ) नहीं होती। ( क्योंकि उद्दिज योनि बनस्पति आदि में माता और पिता नहीं है )। प्राणियों की उत्पत्ति में छः धातु ( पंच महाभूत, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाश एवं छठी चेतना आत्मा ) अपने लक्षणों से स्वभाव से ही कारण बनते हैं। इनके संयोग और वियोग में कर्म ही कारण है ॥ १२-१३ ॥

अनादेवेतनाधातोर्नेत्रते परनिर्मितिः ।

पर आत्मा स चेद्गतुरिष्टोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ १४ ॥

ईश्वर का ही बनाया जगत् मानकर जो लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते उनका कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि अनादि ( जिसका आदि नहीं )

धातु ( आत्मा ) का दूसरे से बनाया जाना भी सम्भव नहीं। यदि पूर्व आत्मा नहीं है तो दूसरा पुरुष भी किस उपादान को ले कर दूसरे को

क्योंकि अचेतन वस्तु चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि

परमात्मा के केवल शरीर का बनाने वाला मानते हो तो तुम्हारे और हमारे सिद्धान्त में कोई भेद नहीं । इसलिये आत्मा नित्य है, वह सभव २ पर स्थूल शरीर को छाँड़कर परलोक में कर्मों का भोग करके भाग की समाप्ति पर और भोग्य कर्म फलों के भोग के लिये पुनः उत्तम होता है ॥१४॥

न परीक्षा न परीक्ष्यं न कर्ता कारणं न च ।

न देवा नर्षयः सिद्धाः कर्म कर्मफलं न च ॥ १५ ॥

नास्तिकस्यास्ति नैवाऽऽत्मा यदच्छोपहतात्मनः ।

पातकेभ्यः परं चैतत्पातकं नास्तिकम्रहः ॥ १६ ॥

यदच्छा भी जन्म का कारण नहीं है, क्योंकि यदच्छावादी के मत में न कोई परीक्षा (प्रमाण) है, और न कोई परीक्ष्य अर्थात् प्रमेय वस्तु है । इसलिये माता, पिता, कन्या, बहिन, पत्नी, गुरु, बृद्ध, तपस्वी इत्यादि परीक्षणीय वस्तु के अभाव में मनमाना आचार होना सम्भव है और कर्म भी नहीं है, जिसका कि अच्छा या बुरा फल मिलेगा, इसलिये कर्म फल भी नहीं है । न कर्म का कोई कर्ता है, जो कर्म करे । यह सब यदच्छा से ही, विना कारण होता है, कारण के न होने से भनचाहा आचरण करने में कोई दोष नहीं होगा, इससे गुरु, बृद्ध पुरुषों में पूज्यापूज्य भाव भी नहीं रहेगा । वह माता, कन्या आदि में दारवत् बुद्धि कर सकेगा, इसलिये जिसका आत्मा यदच्छावाद से नष्ट हो जाता है ऐसे नास्तिक का आत्मा नहीं रहता । अतः नास्तिक होना सब पातकों से बड़ा पातक है ॥ १५-१६ ॥

तस्मान्मति विमुच्यैताममार्गप्रसृतां बुधः ।

सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सर्वं यथातथम् ॥ १७ ॥ इति ।

इसलिये बुद्धिमान् को चाहिये कि उल्टे मार्ग में जाने वाली इस विपरीत बुद्धि को छोड़ दे और सज्जन पुरुषों की बुद्धि रूप दीपक से सब वस्तुओं को ठीक २ रूप में देखे ॥ १७ ॥

द्विविधमेव खलु सर्व—सञ्चासञ्च, तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्नो-पदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्वेति ॥ १८ ॥

संसार में जो कुछ दीख पड़ता है, वह सब दो प्रकार का है, एक सत् और दूसरा असत् । इस की परीक्षा चार प्रकार से होती है, १. आप्नोपदेश २. प्रत्यक्ष ३. अनुमान और ४. युक्ति ।

आप्नास्तावत्—

रजस्तामोभ्यां निर्मुकास्तपो-ज्ञान-बलेन ये ।

येषां त्रैकालममलं ज्ञानमव्याहृतं सदा ॥ १९ ॥

आपाः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् ।

सत्यं, वद्यन्ति ते कस्माद्सत्यं नारजस्तमाः ॥ २० ॥

जो पुरुष तप और ज्ञान के लल से रजांगुण और तमोगुण से मुक्त हो चुके हैं, केवल सत्त्व गुण ही जिन में रह गया है, उनका ज्ञान भूत, भविष्य और वर्त्तमान तीनों कालों में विबुद्ध और कभी भी वाधित नहीं होता । ऐसे पुरुष 'आप', 'शिष्ट' और 'विबुद्ध' होते हैं, इन के वाक्य विना सन्देह के होते हैं । ये पुरुष सदा सत्य ही कहंगे, जो पुरुष रजस् और तमस् से रहित हैं वे असत्य कैसे बोल सकते हैं ? ॥ १९-२० ॥

प्रत्यक्ष का लक्षण—

आत्मेन्द्रिय-मनोऽर्थानां भनिकपीत्पर्वते ।

व्यक्ता तदात्वे या त्रुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते ॥ २१ ॥

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थ ( पदार्थ ) इन चारों का एक साथ संयोग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं ॥ २१ ॥

अनुमान—

प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते ।

वह्निंगृहो धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् ॥ २२ ॥

एवं व्यवस्थन्त्यतीतं, वीजात्कलमनागतम् ।

द्व्यष्टा वीजात्कलं जातमिहैव सदृशं त्रुधाः ॥ २३ ॥

प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखकर तीन प्रकार से कार्य-लिङानुमान, कारण-लिङानुमान और कार्य-कारण लिङानुमान होता है, भूत, भविष्यत्, और वर्त्तमान इन तीनों समय में परोष्ठ का अनुमान किया जाता है । जैसे कि छिपी अभिनि को धुंआ देखकर जानते हैं और गर्भ को देखकर मैथुन कर्म का ज्ञान कर लेते हैं । इसी प्रकार से अतीत काल का ज्ञान अनुमान से कर लेते हैं और जिस प्रकार वीज को देखकर अनागत फल का अनुमान हो जाता है, जैसा बीज होता है, वैसा ही फल लगता है । इसी प्रकार भविष्य काल का भी अनुमान से ज्ञान करते हैं ॥ २२-२३ ॥

युक्ति—

जल-कर्षण-धीजर्तु-संयोगात्सस्य-संभवः ।

युक्तिः पद्धातु-संयोगाद् गर्भाणां संभवस्तथा ॥ २४ ॥

मध्य-मन्थन-मन्थान-संयोगाद्गिनिसंभवः ।

युक्तियुक्ता चतुष्पाद-संपन्न्याधि-निर्वर्णी ॥ २५ ॥

पानी, कर्वण ( हल चलाया हुआ खेत ), बीज और शृङ्खु इन चारों के संयोग से अन्न उत्पन्न होता है । उत्तम क्षेत्र में समय पर उत्तम बीज पानी से सींचकर बोने से अनाज इंता है । इसलिये पृथ्वी, अप्., तेज, वायु और आकाश एवं चेतना इन छः के संयोग से गर्भ का होना सम्भव है; यह युक्ति है । इसी प्रकार 'मर्थ' अरणी का अध्य: काष्ठ ( नर्मने की लकड़ी ), मन्थन ( मर्थने का ढण्डा ) और ( मन्थन ) मर्थनी चलाने वाला कर्ता, इन तीनों के संयोग से अग्नि उत्पन्न होना सम्भव है । इसी प्रकार चतुष्पाद ( चिकित्सा के चारों अङ्ग की ) युक्ति से सुकृत सम्पन्न रोग को नाश करने वाली है । यदि चिकित्सा के चारों अंग टीक तरह से प्रयुक्त किये जायें, तो रोग मिटना सम्भव है ॥ २४-२५ ॥

**बुद्धिः पश्यति या भावान् बहु-कारण-योगजान् ।**

**युक्तिस्थिकाला सा ह्येया विवर्गः साध्यते यथा ॥ २६ ॥**

**एवा परीक्षा नाम्यन्या यथा सर्वं परीक्ष्यते ।**

**परीक्ष्यं सदसच्चैव तथा चास्ति पुनर्भवः ॥ २७ ॥**

जो बुद्धि बहुत प्रकार के कारणों से उत्पन्न, पदार्थों को ज्ञान के लिए देखती है उस बुद्धि को 'युक्ति' कहते हैं । यह बुद्धि तीनों कालों के विषय को देखती है, इस युक्ति से विवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । यह चार प्रकार की ( आत्मपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति ) परीक्षा है, इसमें भिन्न और परंपरा नहीं है । इस चार प्रकार की परीक्षा से सब कुछ सत्, असत्, भाव, अभाव जो कुछ जेग है, नह सब जाना जाता है । सत् असत् की परीक्षा करके ही जाना याहा है कि पुनर्जन्म होता है ॥ २६-२७ ॥

**तत्राऽप्तागमस्तावद्वोदः, यश्चान्योऽपि कश्चिद्वेदार्थाद्विपरीतः परी-  
क्षकैः प्रणीतिः शिष्टानुमतो लोकानुप्रह-प्रवृत्ताः शाख-वादः स चाऽप्तागमः ।  
आप्तागमादुपलभ्यते- दान-तपो-यज्ञ-सत्याहिंसा-ब्रह्मचर्याण्यभ्युदय-निः-  
श्रेयस-करणीति । न चानतिवृत्त-सत्त्व-दोषाणामदोपरपुनर्भवो धर्मद्वारैषु-  
पदिश्यते । धर्मद्वारावहितंश्च व्यपगत-भय-राग-द्रूष-लोभ-मोह-मानेवृद्धा-  
परेरामैः कर्मविद्विरुपदहत-सत्त्व-युद्धि-प्रचारैः पूर्वैः पूर्वतरं र्महर्षिभिर्दिव्य-  
चक्षुर्भिर्द्वयोपदिष्टः पुनर्भव इति व्यवस्थेदेवम् ॥ २८ ॥**

आप पुरुषों का आगम वेद ( श्रूग, यजुः, साम और अथर्व ) हैं । वेदों के लियाय और भी कोई अन्य जो कि वेद के अर्थ के अनुकूल, परीक्षा से बनाया हुआ शिष्ट पुरुषों से अनुमत, जनसमाज के कल्याण के लिये प्रकृ-

जो अन्य ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद स्मृति आदि हैं, वे भी आसागम अर्थात् शब्द प्रमाण हैं। आसागम से भी जाना जाता है कि ज्ञान, तप ( दृढ़-सहिष्णुता ), यज्ञ ( अग्निहोत्रादि ), सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कर्म अभ्युदय ( इस लोक में कल्पण ) और निःश्रेष्ठ ( परलोक में मङ्गल ) करने वाले हैं। मनोदोष, रज्म् और तमस् जिन के शान्त नहीं हो गये उन रजोगुणी या तमोगुणी पुरुषों को अपुर्नवर्त नहीं कहा गया, अतः रजोगुणीया तमोगुणी पुरुषों का पुनर्जन्म होता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में उत्तरदेश किया गया है। धर्मशास्त्रों में सावधान, राग, मोह, द्वेष, भय, लोभ, मोह, मान से रहित, ब्रह्मचारी, आत्मविद्वान्, कर्म योग को जानने वाले, जिन के मन, बुद्धिएवं प्रचार ( व्यवहार ) ठीक बने हुए हैं, ऐसे अति ग्राचारिन महात्मों ने दिव्य चत्तुर्थों से देलकर निश्चयण्यूर्यक पुनर्जन्म का उत्तरदेश किया है, इष्टिये उनका निश्चय सत्य करके जाने ॥ २८ ॥

प्रस्तदक्षमपि चोपलभ्यते—मातादित्रोर्बिंसहशान्वपत्यानि, तुल्यसंभवानां वर्ण-स्वराकृति-सत्त्व-बुद्धि-भाग्यविशेषाः, प्रवरादर-कुल-जन्म, दास्यैश्वर्यम्, सुखासुखमायुः, आयुरोपेष्म्, इहाकृतस्यावातिः, अद्विद्धितानां च रुदित-स्तन-पान-हास-त्रासादीनां च प्रवृत्तिः, लक्षणोत्पत्तिः, कर्मसामान्ये फलविशेषः, मेधा क्वचित्क्वचित्कर्मण्यमधा, जातिस्मरणम्, इहाऽऽगमनमितश्च्युतानां च भूतानां समदर्शने प्रियाप्रियत्वम् ॥२९॥

प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है कि पुनर्जन्म है, माता पिता से विभिन्न प्रकृति के पुत्र ( रुपवान् माता पिता का काला पुत्र ) होते हैं। एक ही माता पिता के दो पुत्रों में सुगे भाइयों ने रंग, स्वर, आकृति, चेहरा, मन, ज्ञान और भाग्य, ग्रारब्द भिन्न होते हैं। श्रेष्ठ और नीच कुल में जन्म होते हैं। किसी की दासता और किसी की ऐश्वर्य-सम्पत्ति होती है, कोई सुख पूर्वक जिन्दगी बसर करता है, कोई दुःख से जीवन व्यतीत करता है, आयु की विषमता, थोड़ा जीना या अधिक देर जीना, यहाँ किए कर्म का फल न मिलना, पढ़े सीखे बिना ही रोने, दुःख पान ( स्तन्य पान ), हँसने डरने आदि कायों में प्रवृत्ति का होना, शरीर पर राज्यचिह्न या दारिद्र्यसूचक चिह्नों का होना, एक सदृश काम करने पर भी फल में भिन्नता का रहना, कहीं पर बुद्धि का होना और कहीं पर बुद्धि का न होना, जाति, पूर्व जन्म वृत्तान्त का स्मरण करना, यहाँ मरने पर फिर यहाँ आना, एक समान एक दृष्टि से देखने पर ग्रिय एवं द्वितीय, यग-द्वेष बुद्धि का उत्पन्न होना ये सब बातें पुनर्जन्म को सिद्ध करती हैं।

अत एवानुमीयते—यत्स्वकृतमपरिहार्यमविनाशि पोर्वदेहिकं  
दैवसंज्ञकमानुशन्धिकं कर्म, तस्येतत्फलम्, इतश्चान्यद्विषयतीति ।  
फलाद्वीजमनुमीयते, फलं च बीजात् ॥ ३० ॥

उपरांक बातों को देखकर ही अनुमान भी किया जाता है कि अग्रना किसा  
हुआ कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता, पूर्व जन्म में  
किया हुआ 'भाग्य' नामक आनुशन्धिक अर्थात् आत्मा के साथ परलोक में भा-  
निश्चित रूप से बैंधा हुआ है । उसी का यह फल है जो कि माता पिता से  
पुत्र भिन्न प्रकृति के उत्पन्न होते हैं इत्यादि । यहाँ किये कर्म से दूसरा जन्म  
होगा, बीज से फल का अनुमान होता है, कर्म से पुनर्जन्म का और पैनर्जन्म  
से कर्म का अनुमान होता है ॥ ३० ॥

युक्तिश्चेष्टा—षष्ठ्यातुसमुदायाद् गर्भजन्म, कर्तृकरणसंयोगात्  
क्रिया, कृतस्य कर्मणः फलं नाकृतस्य, नाद्वकुरोत्पत्तिरबोजात्, कर्म-  
सदृशं फलं नान्यस्माद्वीजादन्यस्योत्पत्तिरिति युक्तिः ॥ ३१ ॥

युक्ति भी है कि—पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश और चेतना इन छः  
धातुओं के समुदाय मिलने से गर्भ उत्पन्न होता है और कर्ता और करण  
( साधन ) के मिलने से क्रिया उत्पन्न होती है, कर्ता आत्मा, करण यी पुरुष  
उनके संयोग से गर्भाशय रूप क्षेत्र में जन्म होता है । किये हुए हो कर्म का  
फल होता है, न किये हुए कर्म का फल नहीं होता । जिस प्रकार बिना बीज  
के अंकुर उत्पन्न नहीं होता वैसे कर्म के अनुसार समान ही फल मिलता है  
यथा—एक जाति के बीज से दूसरी जाति का फल उत्पन्न नहीं होता ॥ ३१ ॥

एवं प्रमाणैश्चतुभिरुपदिष्टे पुनर्भवे धर्मद्वारेष्ववधीयेत्, तथाथा-  
गुरुशुश्रूषायामध्ययने ब्रतचर्यायां दारकियायामपत्योत्तरादने भृत्यभरणेऽ-  
स्तिथिपूजायां दानेऽनभिध्यायां तपस्यनसूयायां देहवाङ्मानसे कर्मण्य-  
किलष्टे देहेन्द्रिय-मनोऽर्थ-मुद्घात्म-परीक्षायां मनःसमाधाविति, यानि  
चान्यान्यस्येवंविधानि कर्माणि सत्तामविगहितानि स्वर्गाणि वृत्तिपुष्टि-  
कराणि विद्यात्तान्यारभेत कर्तुम्, तथा हि कुर्वन्निह चंव यशो लभते  
प्रेत्य च स्वर्गमिति तृतीया परलोकैषणा व्याख्याता भवति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार आसोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति चारों प्रमाणों द्वारा  
पुनर्जन्म के सिद्ध होने पर धर्म-साधन के मार्गों में चिच्चा लगावे । यथा—हृ-  
माता, पिता, आचार्य की सेवा, अध्ययन-पठन में, ब्रह्मचर्य काय, मन, वां-  
से मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्यपालन, विवाह कर्म में, सन्तानोत्पत्ति, आभित जन-

के पोषण में, अतिथि सत्कार में, यथाशक्ति ज्ञान देने में, दूसरे के धन को न चाहने में, दृढ़ मुख-नुःख सदने में, दूसरे के गुणों में दोष न देखने में, शरीर को विना कष्ट पहुँचाये शरीर, वाणी और मन स कर्म करने में, देहपरीक्षा में, इन्द्रिय परीक्षा, मन परीक्षा, विषय की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा, आत्म परीक्षा, और मन की समाधि (चिरावृत्तिनिरोप) में मन का लगाना ही धर्म मार्ग है। और भी दूसरे इसी प्रकार के कर्म, सज्जनों से अनिन्दित, पूजित, स्वर्ग मुख को देने वाले, जीवन पालन करने वाले हों, उनको करने का उद्योग करे, ऐसा करने पर हहलोंक में वश मिलता है और मरने पर स्वर्ग अर्थात् पुनर्जन्म में सुख मिलेगा, इस प्रकार मेरी सारी परलोकप्राप्ति भी कह दी ॥ ३२ ॥

अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः, त्रिविधं बलम्, त्राण्यायतनानि, त्रयो रोगाः, त्रयो रोगमार्गाः, त्रिविधा मिपजः, त्रिविधमौषधमिति ॥३३॥

तीन प्रकार के उपस्तम्भ अर्थात् शरीर को धारण करने वाले तत्त्व हैं, तीन प्रकार के बल हैं, तीन कारण हैं। तीन प्रकार के रोग हैं, तीन रोगमार्ग हैं, तीन प्रकार के चिकित्सक हैं, तीन प्रकार की औपत्र हैं ॥ ३३ ॥

त्रय उपस्तम्भा इति-आहारः, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति । एभिखिभिर्युक्तियुक्तैरुपस्तब्धमुपस्तम्भैः शरीरं बलयर्णोपचयोपचितमनुवर्त्तते यावदायुः-संस्कारात् संस्कारमहितमनुपसेवसानस्य, य इहेवोपदक्षयते ॥३४॥

तीन उपस्तम्भ तत्त्व जो शरीर को धारण करते हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य हैं। ये तीनों का युक्त पूर्वक प्रयुक्त करने पर शरीर दृढ़, मजबूत बल, वर्ण, पुष्टि से युक्त होता है, जब तक शरीर में धर्माधर्म आयु के बनाने में कारण रहते हैं। इन तीनों उपस्तम्भों का उचित मात्रा में सेवन करना ही आयु का कारण है। अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही आयु में कारण है, उन अहित वस्तुओं को यहाँ पर कहेंगे ॥ ३४ ॥

त्रिविधं बलमिति सहजं कालजं युक्तिकृतं च । तत्र सहजं यच्छरी-रसत्वयोः प्राकृतम्, कालकृतमृतुविभागजं वयःकृतं च, युक्तिकृतं पुनर्स्तद्यदाहारचेष्टायोगजम् ॥ ३५ ॥

तीन प्रकार का बल है—सहज, कालजन्य और युक्तिजन्य, इन में उत्पत्ति समय ही शरीर और मन को गमीयतय में मिलता है जो बल उसे सहज या अकृतिक बल कहते हैं। कालजन्य शृदुओं के विभागानुसार आहार-विहार के द्वारा और चाल्य, योवन और वृद्धावस्था में उत्पन्न बल। योवनावस्था में बला-

धिक्य रहता है । बलकारक आहार या चेष्टा विद्वार से जो बल उत्तराभ किया जाता है वह युक्तिहृत है ॥ ३५ ॥

ध्रीणयाग्ननानीति अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोग-मिथ्यायोगः । तत्रातिप्रभावर्ती दृश्यानामतिमात्रं दर्शनमनियोगः, मर्वशोऽदर्शनमयोगः, अतिसूक्ष्मानिशिलप्रानिविप्रकृष्ट-गौड-भैरवः-द्वृत द्रिष्ट-बीम-त्स-विकृतादि-स्पष्ट-दर्शनं मिथ्यायोगः । तथाऽनिमात्र-स्तनिन्-पटहोतक-प्रादीनां शब्दानामतिमात्रं श्रवणमतियोगः, सर्वशोऽन्नश्रवणमयोगः, पूर्णपेष्ट-विनाशोपघान-प्रघण्यं भीषणादि-शब्द-श्रवणं मिथ्यायोगः । तथाऽनितीक्ष्णोप्रापिष्ठानिदनां गन्धानामतिमात्रं घागमतियोगः, सर्वशोऽग्न्याणमयोगः, पूर्ति-द्रिष्टमेध्य-किलञ्च-विष-पवन-कुण्डप-गन्धादि घाणं मिथ्यायोगः, तथा रसानामत्यादानमतियोगः, अनादानमयोगः, मिथ्यायोगो राशि-बज्येष्वाहार-दिधि-विशेषायतनेषुपदेश्यते; तथाऽतशीतोष्णानां स्पृश्यानां स्नानाध्यङ्गात्मादानीनां चात्युपसेवनमतियोगः, मर्वशोऽनुपसेवनमयोगः, स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च सृश्यानामनातुपूर्व्योपसेवनं विषम-स्थानामिथ्यात्माशुचि-सूत-संसर्वशाद्यस्त्वेति मिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥

रोग के आयतन अर्थात् कारण तीन हैं, अर्थ, अर्थात् इन्द्रियों के विषय कर्म और काल इन तीनों का अतियोग, अयोग और मिथ्यायंग ये तीन रोगों के 'आयतन' हैं । बहुत चमकने वाले पदार्थ सूर्य आदि का देर तक देखना चल्लु-इन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा ही न देखना 'अयोग' है । बहुत कठेशदायक पदार्थ का देखना, बहुत दूर की वस्तु को देखना, रांद्र, भयानक-डरावनी, अद्भुत, अश्रिय, वीभत्त और विकृत रूपों को देखना, आंख का 'मिथ्यायोग' है । इसी प्रकार वटदल भी प्रश्वरादृष्टि अधिक सुनना, ढोल या नगाड़े की आशज को बहुत सुनना, तांप आदि के बहुत ऊँचे शब्द का अधिक सुनना, कान का 'अतियंग' है । सर्वथा न सुनना 'अयोग' है । कठोर, पुत्र धन आदि इष्ट वस्तुओं के नाश को सुनना, इष्ट वस्तु के मरण को सुनना, दुर्बचन, तिरस्कार सुनना, भयानक भयानक शब्दों का सुनना, अंत्रेन्द्रिय का 'निथ्यायोग' है । अति तांत्र ( मरिच आदि ) गन्ध का संतुना, उप्र, चमेली आदि गन्ध का अधिक संतुना, माल कंगनी आदि गन्ध का अधिक मात्रा में संतुना, नासा का 'अतियोग' है । सर्वथा न संतुना नाक का 'अयोग' है, सड़ी दुर्गन्धयुक्त, गली की अपवित्र जहरीली बायु, मुद्रे की गन्ध जैसी वस्तुओं के संबन्धना नाक का 'मिथ्यायोग' है । इसी प्रकार मधुर आदि रसों का अधिक-

मात्रा में उपयोग रसनेन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा रसों का न खाना अयोग है। आगे विमान स्थान ( अ० ५ ) में कहे हुए प्रकृति, करण, संयोग, देश, काल, उपयोग, मृश्योपयोक्तु और राशि इन आठ में से राशि को छाँड़कर शेष सात के विरुद्ध आहार करने का नाम रसनेन्द्रिय का 'मिथ्यायोग' है। बहुत ठण्डे बहुत गरम स्पर्श, बहुत अधिक स्नान, बहुत मालिश, बहुत उबटन लगाना, त्वक्-इन्द्रिय का 'अतियोग' है। इनके विलक्षण सेवन न करना 'अयोग' है, ऊंचे नाचे स्थान का, चांट घाव आदि आंदि अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करना 'मिथ्यायोग' है ॥ ३६ ॥

तत्रेकं स्पृशनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियलग्नापकं चेतः, समवायि स्पृशनव्याप्त्यापकमपि च चेतः, तस्मात्सर्वेन्द्रियाणां व्यापकस्पर्शकृतो यो भावविशेषः सोऽयमनुशयात्पञ्चविधस्त्रिविधविकल्पो भवत्यसात्म्यनिन्द्रीयार्थसंयोगः; सात्म्यार्थो ह्यपरायार्थः ॥ ३७ ॥

इन पांच ज्ञानेन्द्रियों में से एक स्पर्शन (त्वचा) इन्द्रिय शेष प्राण, रसना, चक्षु और कर्ण इन चार इन्द्रियों में और गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी में भी व्यापक हैं और यह त्वग्-इन्द्रिय मन के साथ सम्बाय सम्बन्ध से संयुक्त है, इसलिये त्वग् इन्द्रिय सब इन्द्रियों में फैली होने से और चित्त का इस त्वगिन्द्रिय के साथ समवाय सम्बन्ध होने से मन भी व्यापक हो जाता है। इसलिये सब इन्द्रियों में व्यापक स्पृशेन्द्रिय के साथ समवाय सम्बन्ध से जुड़ा हुआ मन, आत्मा के अभीप्सित विशय को ग्रहण करने के लिये स्पृशेन्द्रिय द्वारा प्राप्त मार्ग से, उस विषय को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय तक पहुंच जाता है। इस से सब इन्द्रियों में व्यापक त्वक् के स्पर्श से उत्पन्न जो अपने अपने विषय के ज्ञान विशेष उत्पन्न होते हैं, वे शरीर के अनुकूल न होने पर, पांच प्रकार के होने पर भी तीन प्रकार होते हैं। वया ( १ ) 'असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग' अयात् इन्द्रियों का विषय के साथ अनुचित रूप से संयोग होना अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग इन सात प्रकार का हो जाता है। सात्म्य का अर्थ उपशय है, शरीर के जो अनुकूल पड़े वह 'सात्म्य' है ॥ ३७ ॥

कर्म वाङ्-मनः-शरीर-प्रवृत्तिः । तत्र वाङ्-मनः-शरीरातिप्रवृत्तिरति-  
योगः, सर्वशोऽप्रवृत्तिरयोगः, वेग-धारणोदीरण-विषम-स्वलतनमन-प-  
र्याप्त्यनाकृ-प्रणिधानाङ्ग-प्रदूषण-प्रहार-मर्दन-प्राणोपरोध-संक्लेशनादिः शा-  
रीरो मिथ्यायोगः । सूचकानृताकाल-कलहाप्रियावद्वानुपचार-परुष-वच-

**नादिर्वाङ्मिथ्यायोगः । भय-शोक-क्रोध-लोभ-मोह-मानेष्यो-मिथ्यादश-  
नादिमानसो मिथ्यायोगः ॥ ३८ ॥**

वाणी मन और शरीर इन की चेष्टा का नाम 'कर्म' है, इन में वाणी, मन और शरीर की अतिप्रवृत्ति का नाम 'अतियोग' है । इन की सर्वथा प्रवृत्ति न होना 'अयोग' है । वाणी, मल-मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना, अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक बाहर निकालना, सम स्थान पर चिष्ठम (टेढ़ा-मेढ़ा) गिरना, अनुचित रूप से चलना, ऊचे स्थान से कृदना, अंगों को टेढ़ा-मेढ़ा करना, अंगों को पीड़ित करना, खुजाना, दवाना आदि, अङ्गों पर दण्ड आदि से प्रहार करना, अङ्गों को मर्दन करना, श्वास घोटना, श्वास बन्द करना, संक्लेश ब्रत, उपवास आदि, विषम नृत्य आदि कर्म भी शरीर के 'मिथ्यायोग' हैं । निन्दा, तुगली, मिथ्या बोलना, विना समय के बात करना, क्षगड़ा करना, जीको दुःखाने वाला अप्रिय, असम्भद्र, प्रतिकूल और कर्कश बोलना, वाणी का 'मिथ्यायोग' है । भय, शोक, चिन्ता, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, मान, अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्यादर्शन, नास्तिक्य बुद्धि ये मन के 'मिथ्यायोग' हैं ॥ ३८ ॥

**संग्रहेण चातियोगायोगवज्जं कर्म वाढ़-मनःशरीरजमहितमनुप-  
दिष्टुं यत् तच्च मिथ्यायोगं विद्यात् ॥ ३९ ॥ इति त्रिविध-विकल्पं त्रिवि-  
वमेव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्थेत् ॥ ४० ॥**

सुन्धेप में—वाणी, मन और शरीर के जो अहितकारी और नहीं कहे हुए कर्म हैं, जिनका अतियोग या अयोग में समावेश नहीं होता, वे सब 'मिथ्यायोग' जानने चाहियें । वाणी, मन और शरीर इनके अतियोग अयोग और मिथ्यायोग को 'प्रज्ञापराध' कहते हैं ॥ ३८-४० ॥

**शीतोष्ण-वर्ष-लक्षणः पुनर्हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षाः संवत्सरः स कालः ।  
तत्रातिमात्र-स्वलक्षणः कालः कालातियोगः, हीन-स्वलक्षणः कालः काला-  
योगः, यथास्वलक्षण-विपरीतलक्षणस्तु कालः कालमिथ्यायोगः । कालः  
पुनः परिणाम उच्यते ॥ ४१ ॥**

हेमन्त और शिशिर शीत काल, वसन्त और ग्रीष्म उष्ण काल, वर्षा और शरद और वर्षा काल । इस प्रकार से हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरद इन छः शृनतों वाला सम्बत्सर रूप काल, शीत, उष्ण और वर्षा के रूप में तीन प्रकार का है । इन में अपने लक्षणों से अधिक हेमन्त आदि का होना काल का 'अतियोग' है, शीतकाल में बहुत अधिक शीत, ग्रीष्म में बहुत अधिक गरमी, वर्षा काल में बहुत अधिक बरसात पड़ना ये काल के 'अतियोग' हैं ।

और हेमन्त आदि काल में अपने लक्षणों से कम शीत आदि का होना 'अयोग' है। हेमन्त आदि काल में अपने लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना अर्थात् शीत काल में बर्षा या गरमी पड़ना, गर्भियों में दीत या वर्षा होना, वर्षा काल में शीत या गरमी पड़ना, काल का 'मिथ्यायोग' है। काल का ही दूसरा नाम 'परिणाम' है ॥ ४१ ॥

**इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रयस्त्रिविध-विकल्पाः कारणं विकारणाम् समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो भवन्ति ॥**

सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेण योगायोगातियोगमिथ्यायोगान् समुपलभ्देते । यथास्वयुक्त्यपेक्षिणी हि भावाभावौ ॥ ४२ ॥

ये ऊपर कहे 'असात्म्येन्द्रियार्थ' 'प्रज्ञापराध' और 'परिणाम' ये तीनों अतियोग, अयोग मिथ्यायोग के द्वारा सब रागों के कारण बनते हैं। इन्द्रियार्थ संयोग, बुद्धि-संयोग और काल-संयोग ये तीनों स्वास्थ्य के कारण बनते हैं। क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में जितने ही पदार्थ हैं, उनके दो ही स्वरूप हैं, एक भाव दूसरा अभाव। अपने स्वरूप में रहने का नाम 'भाव' और अपने स्वरूप में मिन्न दूसरे स्वरूप से रहना 'अभाव' है। ये दोनों ( भाव और अभाव ) काल, बुद्धि और इन्द्रियार्थ संयोग के समयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के बिना नहीं होते ॥ ४२-४३ ॥

**त्रयो रोग इति-निजागन्तुमानसाः । तत्र निजः शरीरदोष-समुत्थः, आगन्तुर्भूत-विष-वाश्वरग्नि-संप्रहारादि-समुत्थः, मानसः पुनरिष्टस्यालाभाललाभाश्चानिष्टस्योपजायते ॥ ४४ ॥**

रोग तीन प्रकार के हैं, ( १ ) निज जो अपने शरीर में उत्पन्न हैं, ( २ ) आगन्तुज और ( ३ ) मानस। इनमें ( १ ) निज जो शरीर के दोष वात, पित्त, कफ के कारण उत्पन्न होने वाले हैं। ( २ ) आगन्तुज भूत, विष, स्थावर, जंगम विष से जन्य, दुष वायु से, आग से चोट आदि से उत्पन्न होने वाले ( ३ ) इष्ट वस्तु के न मिलने और अनिष्ट वस्तु के मिल जाने से मानस रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ४४ ॥

**तत्र बुद्धिमता मानस-व्याधि-परीतेनापि सता बुद्धया हिताहितम-वेक्ष्यावेक्ष्य धर्मार्थकामानामहितानामनुपसेवने हितानां चोपसेवने प्रतितत्व्यम्, नशन्तरेण लोके त्रयमेतन्मानसं किञ्चिज्जिप्यद्यते-सुखं वा शर्वं वा, तस्मादेतच्छानुष्ठेयं, तद्विद्याषृद्धानां चोपसेवने प्रयतितत्व्यम्, ग्रात्म-देश-काल-बल-शक्ति-ज्ञाने यथावच्चेति ॥ ४५ ॥**

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि मानस व्याधि के रहते हुए भी लोम, काम, क्रोध, मोह के विपरीत, उत्तम बुद्धि से हित और अद्वित कार्यों का विचार करते हुए, धर्म, अर्थ और काम इनके अद्वितकारक कार्यों को छोड़ने में, तत्पर, एवं धर्म, अर्थ और काम के लिये हितकारी कार्यों को सेवन करने में प्रयत्नवान् रहना चाहिये । क्योंकि रंसार में धर्म अर्थ और काम तीनों के विना मनोजन्य खुल वा दुख कुछ भी नहीं होता । इसलिये इन ( धर्म, अर्थ और काम ) के हितकारी कार्यों का ग्रहण और अद्वितकारी कार्यों का त्याग करने में प्रयत्नशील रहना चाहिये, इन के लिये विद्यावृद्ध पुरुषों का सेवन करना चाहिये । आत्म-शान, देश-शान, काल-शान, वल-शान, और शक्ति शान के लिये उचित रोति से प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४५ ॥

### भवति चात्र ।

मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम् ।

तद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीना च सर्वशः ॥ ४६ ॥ इति ।

और इस प्रसङ्ग में एक इकाक है औपर्य धर्म, अर्थ, काम ( त्रिवर्ग ) का सेवन करना, धर्म, अर्थ काम इन को उपदेश करने वाले विद्यावृद्ध पुरुष का सेवा करना, आत्मशान, देश, काल, वल आदि का शान करना मानस रोगों की औपर्य है ॥ ४६ ॥

त्रयो रोगमार्गा इति-शास्त्रा, मर्मास्थिसन्धयः, कोपश्च । तत्र शास्त्रा रक्तादयो धातवस्त्वक् च, स बाह्यो रोगमार्गः । मर्माणि पुनर्थस्ति-हृदय-मूर्धादीनि. अस्थि-सन्धयोऽस्थि-संयोगाः, त्रोपनिवद्वाश्च स्नायुकण्ठराः, स मध्यमो रोगमार्गः । कोष्ठः पुनरुच्यते महालोतः शरीरमध्यं महानिम्नमासपकाशायश्चेति पर्यायशब्देस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तरः ॥ ४७ ॥

रोगों के तीन मार्ग हैं, जैसे—( १ ) शास्त्रा, ( २ ) मर्म, अस्थि-सन्धयों और ( ३ ) कोष्ठ । इन में शास्त्रा रक्त आदि छः धातु और त्वचा ये सात बाह्य रोगमार्ग हैं, वस्ति ( मूत्राशय ), हृदय ( दिल ) और शिर, मस्तिष्क एक सौ सात मर्म और अस्थि ( इड्युंग ), सन्धियाँ ( अस्थियों के जोड़ ), तथा इन में बंधी हुई स्नायु और कण्ठरायें ये 'मध्यम रोगमार्ग' हैं, यह दूसरा मार्ग है । शरीर के बीच में, बड़ा भारी खोत, बड़े भारी गढ़े के तुल्य है, इसको आमाशय या पक्षाशय के नाम से कहते हैं, यह तीसरा 'आभ्यन्तर रोगमार्ग' है ॥ ४७ ॥

तत्रगण्ड-पिण्डकालब्यपची-चर्म-कीलाधि-मांस-मशक-कुप्त-न्यज्ञाद-  
विकारा वहिर्मार्गजाश्च वीसर्प-वयथु-गुलमारों-विद्व्यादयः शास्त्रानु-  
सारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ४८ ॥

पश्च-वध-पठायतान जार्दिन-रोष-राजगद्माहिण-मन्त्रि-गृह-गुद-भ्रं-  
शारयः शिरो-हृद्दस्ति-रोगादयश्च मध्यम-मार्गानुभारिणो भवन्ति रोगाः ॥

इवरातीसार-न्यूर्यलमक-विषुचिका-कास-श्वास-हिकाऽनाहोदर-  
उषीहादयाऽनमार्गं जाश्च वीर्यपै-इव शथु-गुलमार्गो-विद्रध्यादयः काष्ठ-मा-  
र्गानुभारिणो भवन्ति रोगाः ॥ १० ॥

इन में गण्ड ( शांथ, गलगण्ड रोग नहीं ), फुन्नी, अलजी, आरनी, चर्म,  
कौल, अविमांस, मशक ( मस्ते ), कुष्ठ, व्यंग, और अजगल्लिङ्गा आदि रोग  
'बहिमार्ग' में होते हैं । वासर्प, सूक्तन, गुलम, अर्ध, विद्रवि आदि रोग शाखानु-  
सारी अर्थात् रक्तादि मार्गों के अनुसारी होते हैं । पश्चायात, मन्यायद, अरतानक  
अर्द्धत, शोष, राजशक्ता, अस्थि शूल, संविशूल, गुरुभ्रंश आदि, हिका आदि  
एवं शिरो रोग, हृदय रोग तथा बस्ति रोग और अण्ड हृदांद भी ये मध्यम, 'मार्गा-  
नुसारी' रोग हैं । उच्चर, अर्नीकार, छर्दि, अचमक, विषुचिका, ( हैजा ) कास,  
श्वास, हिका, आगाह, उदर, प्लोटा, आदि रोग 'अन्तमार्ग' से उत्पन्न होते हैं ।  
वीर्यपै, सूक्तन, गुलम, अर्ग, और विद्रवि जो शाखानुसारी रोग हैं, वे काष्ठानु-  
सारी होते हैं, ( रक्तानुसारा रोग काष्ठानुसारी नहीं होते और काष्ठानुसारा रोग  
शाखानुसारी रोग नहीं होते ) ॥ ४८-५० ॥

### त्रिविधा भिषज इति-

भिषक्तुद्वावराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः ।

सन्ति वैद्यगुणं युक्तांश्चावधा भिषजा भुवे ॥ ५१ ॥

भिषक्तु भी तान प्रकार क होते हैं, १. उच्चरवर, २. विद्रवित और ३.  
वैद्य गुणों से युक्त ये तान प्रकार के चिकित्सा । इस पृष्ठी पर मिथ्ये होते हैं ॥ ५१ ॥

वैद्यभाण्डोषधैः पुस्तः पञ्चवैरवलाकनैः ।

लभन्ते ये भिषक्तुद्वद्मङ्गात्ते प्रतिरूपकाः ॥ ५२ ॥

उच्चरवर वैद्य का लक्षण—जो या ओषधियों के बर्चन, पुस्त अर्थात्  
मिथ्यी या लाहे के बने मनुष्य के ढाँचे, पुस्तकों, वत्तों को देखने से जो मनुष्य  
'भिषक्तु' शब्द प्राप्त करते हैं, वे वैद्यों के नकलचा दागा मूल हैं, वे त्याग्म हैं ॥ ५२ ॥

आ-यशा-ज्ञान-सद्गार्वा व्यपदेशादत्तद्रूपाः ।

वैद्यशब्दं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ५३ ॥

विद्रवित वैद्य—अन्य द्वायान पर चिकित्सा कर्म में यश, ज्ञान, और सफ-  
लता प्राप्त किय हुए वैद्यों के नाम से धांखा करके जो वैद्य बन जाते हैं, उनको  
'सिद्धसाधित' वैद्य समझता । इनको भी छोड़ देना चाहिये ॥ ५३ ॥

प्रयोग-ज्ञान-विज्ञान-सिद्धि-सिद्धाः सुखप्रदाः ।

जीविताभिसरा ये स्युर्वैद्यत्वं तेष्ववस्थितम् ॥ ५४ ॥

सदौदैद्य का लक्षण—ओषध का, प्रयोग और शास्त्र का ज्ञान, लोक व्यवहार के जानने, प्रख्यात एवं रोगियों को सुखी करने वाले 'प्राणाभिसर' कहाते हैं। इन्हीं पुरुषों में वैद्य का लक्षण विद्यमान है। उन्हीं को वैद्य कहना चाहिये॥

त्रिविधमौषधमिति दैवव्यपाश्रयम्, युक्तिव्यपाश्रयम्, सत्त्वावजयश्च । तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रौषधि-मणि मङ्गल-बल्युपहार-होम-नियम-प्रायश्चित्तोपवास-स्वस्त्ययन-प्रणिपात-तीर्थगमनादि, युक्तिव्यपाश्रयं पुनराहरौषधद्रव्याणां योजना । सत्त्वावजयः पुनरहितेभ्योऽथेभ्यो मनो-विनिग्रहः ॥ ५५ ॥

ओषध तीन प्रकार की है—दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्त्वावजय । इनमें दैव-व्यपाश्रय देव अर्थात् ईश्वर पर आश्रित ओषध, मन्त्र, ओषधि, मणि, मंगल, शुभ कर्म, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्तिपाठ, नमस्कार तीर्थाटन आदि हैं। युक्ति उपायों योग पर आश्रित ओषध आहार एवं ओषध द्रव्यों दोष नाशक पदार्थों की योजना । सत्त्वावजय—मन, कं अहितकारक विषयों से रोकना तीसरी प्रकार की ओषध है ॥ ५५ ॥

शारीर-दोष प्रकोपे तु खलु शरीरमेवाऽश्रित्य प्रायश्चित्तविधमौषध-मिच्छन्ति-अन्तःपरिमार्जनम्, बहिःपरिमार्जनम्, शस्त्रप्रणिधानं चेति । तत्रान्तःपरिमार्जनं यदन्तःशरीरमनुप्रविश्यौषधमाहार-जात-व्याधीन् प्रमाणिष्ठ । यत्पुनर्बहिःस्पर्शमाश्रित्याभ्यङ्ग-स्वेद-प्रदेह-परिपेकोन्मर्दनाद्यैरामयान् प्रमाणिष्ठं तद्वहिःपरिमार्जनम् । शस्त्रप्रणिधानं पुनश्छेदन-मेदन-व्यध-न-दारण-लेखनोत्पाटन-प्रच्छन्न-सीवनैषण-क्षार-जलौकसइच्छेति ॥ ५६ ॥

शरीर के बात, पित्त, कफ इन दोषों के कुपित होने पर शरीर को ही आश्रय करके तीन प्रकार की ओषधों का विक्रोष रूप से व्यवहार करते हैं। जैसे अन्तःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन और शश्वत्-प्रणिधान । इनमें जो ओषध या आहार शरीर के अन्दर घुसकर उत्पन्न हुए रोगों को शान्त करता है वह 'अन्तःपरिमार्जन' है और जो शरीर के बाहर ही त्वचा पर अस्प्रग्न, स्वेद, प्रलेप, परिषेक, उन्मर्दन ( मालिश ) आदि द्वारा रोगों को शान्त करता है, उसे 'बहिःपरिमार्जन' कहते हैं। छेदन ( दो करना ) मेदन ( आशय के अन्दर घुसना ), व्यधन ( आशयों से भिज रहाना में मेदन बरना ), दारण ( चीरना ), लेखन ( खुरेचना ), उत्पाटन ( उत्ताहना ), प्रच्छन ( शस्त्र आदि से फाडना ),

सीबन ( सीना ), एषण ( नार्दा या गति ब्रण को हृदना ), श्वार ( द्रव्यों को भस्मकर छारण होने वाला सार भाग ), जलौका ( जोक ) इनके उपयोग को शब्दप्रणिधान कहते हैं ॥ ५६ ॥

प्राहो रोगे समुत्पन्ने बाह्येनाऽऽभ्यन्तरेण वा ।  
 कर्मणा लभते शम शब्दोपकरणं वा ॥ ५७ ॥  
 बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते ।  
 उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुमवाक्युभः ॥ ५८ ॥  
 अणुहिं प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्विवर्धते ।  
 स जातमूला मुष्णानि बलमायुश्च दुर्मर्तेः ॥ ५९ ॥  
 न मूढो लभते संज्ञां तावद्यावन्न पीड्यते ।  
 पांडितस्तु मति पश्चात्कुरुते व्याधिनग्रहे ॥ ६० ॥  
 अथ पुत्रांश्च दारांश्च ज्ञातीश्चाऽऽहूय भाषते ।  
 सर्वस्वेनापि मे कश्चिद्द्रुपगानीयतामिति ॥ ६१ ॥  
 तथाविधं च कः शक्तो दुर्बर्लं व्याधिपीडितम् ।  
 कृशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुपम् ॥ ६२ ॥  
 स त्रातारमनासाद्य बालस्त्यजति जावितम् ।  
 गोधा लाङ्गूलच्छ्वेवाऽवृज्यमाणा वर्णीयसा ६३ ॥  
 तस्मात्प्रागेव रोगेष्यो रोगेषु तरुणेषु वा ।  
 भेषजैः प्रतिकुर्वीति य इच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ६४ ॥

बुद्धिमान् रोग के होने पर ‘बहिःपरिमार्जन’ अथवा ‘अन्तःपरिमार्जन’ या ‘शब्द-क्रिया’ से शान्ति प्राप्त करता है। परन्तु बाल, अनभिज्ञ पुरुष मोह वश अथवा प्रमाद से उत्पन्न होते हुए रोग को पहिले से उसी प्रकार नहीं जानता; जिस प्रकार मूर्ख अपने उत्पन्न होते हुए शत्रु को नहीं पहिचानता। रोग प्रथम दृष्टम रूप में होता है, और पीछे बढ़ जाता है। बढ़ने पर इस रोग की जड़ जम जाती है, जड़ पकड़ लेने पर रोग मूढ़ व्यक्ति की आयु और बल दोनों को दर लेता है। जब तक मनुष्य रोग से पीड़ित नहीं होता, तब तक प्रतीकार का विचार नहीं करता और जब दुःखित हो जाता है, तब रोग के निराकरण संचाकरता है। सब पुत्रों, स्त्रियों और जाति सम्बन्धियों को बुला कर कहता है कि ‘मेरा सर्वस्त्व देकर भी किसी वैद्य को लाओ’ इस प्रकार के रोगप्रस्त, नर्बल, क्षीणेन्द्रिय, दीन, मरणासन व्यक्ति की कौन वैद्य रक्षा कर सकता है? वह मूढ़ रक्षा करने वाले को न पाकर प्राण त्याग देता है, जिस प्रकार पूछ मैं

रस्ती से बैंधी गोह बलबान पुरुष द्वारा खीचने पर मर जाती है—ऐसे ही वह मो मर जाता है। इसलिये जो व्यक्ति सुख चाहे वह रोगों के उत्पन्न होने से पूर्ण, ( संचयावस्था में, रोगों की तस्खितदशा में ) ही दांशों का औषधियों से प्रतीकार करे ॥ ५७ ६४ ॥

तत्र इलोकौ ।

एषणाक्षाप्युपस्तम्भा बलं कारणमामयाः ।  
तिस्त्वेषणाये मार्गाश्च भिषजो भेषजानि च ॥ ६५ ॥

त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता ।

भावा भावेष्वसक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ६६ ॥ इति । ~

तिस्त्वेषणीय अध्याय में बुद्धिमान् ऋषि कृष्णात्रेयने तीन एषणायें, उपस्तम्भ, बल, रोगों के कारण, रोगमार्ग, वैद्य, भैषज्य, औषध, इन आठों के तीन तीन मेद कर कल्पना सहित उपदेश किये हैं ॥ ६५-६६ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के  
तिस्त्वेषणीयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

### द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो वातकलाकलीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'वातकलाकलीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

वातकलाकलहानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु-  
पविश्य महर्षयः प्रपञ्चुरन्योन्यं किंगुणो वायुः, किमस्य प्रकोपेनम्,  
उपशमनानि वाऽस्य कान, कथं चैतमसंधातवन्तमनवस्थितमनासाद  
प्रकोपनप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, कान चास्य कुपिता-  
कुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि वहिःशरीरेभ्यो  
वेति ॥ ३ ॥

वायु के अंगोंश विकल्पना के सम्बन्ध में महर्षि लोग एकत्र होकर परीक्षा  
एक वृत्ते के मर जानने के लिये पूछने लगे । क—वायु के क्या गुण हैं ?  
वायु को प्रकुपित करने वाले कौन से कारण हैं ? कुपित वायु को शान्त करने

वाली जौन सी वस्तुएँ हैं ? और किस प्रकार से इस अमूर्च, अदृश्य एवं निरन्तर गतिशील, चंचलस्वभाव वायु को विना प्राप्त किये कुपित करने वाली वस्तुएँ इसे कैसे कुपित करती हैं, अथवा शान्त करने वाली वस्तुएँ किस प्रकार से इस को शान्त करती हैं ? और शरीर के अन्दर गति करने वाले एवं लोक में चलने वाले, कुपित एवं अकुपित वायु के शरीर के अन्दर गति करते हुए कौन २ से कर्म हैं, और शरीर के बाहर लोक में गति करते हुए इस के जौन से कर्म होते हैं ? ॥ ३ ॥

**अत्रोवाच कुशः साङ्कृत्यायनः—रुक्ष-लघु-शीत-दारुण-खर-विशदाः  
बृद्धिमे वानगुणा भवन्ति ॥ ४ ॥**

इस प्रसङ्ग में शूर्व साङ्कृत्यायन कुश बोले—वायु के रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद ये छः गुण होने हैं ॥४॥

तच्छूल्त्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज उवाच—एवमेतद्यथा भगवानाह, एत एव वातगुणा भवन्ति, स त्वेवंगुणं द्रव्ये वै व्रप्रभावैश्च कर्मभिरद्यस्यमानैर्वायुः प्रकोपभापद्यते, समानगुणाऽश्यासो हि धातूनां बृद्धिकारणमिति ॥ ५ ॥

इस को सुनकर शूर्व कुमारशिरा भरद्वाज बोले—“जिस प्रकार आपने कहा, ठीक इनी प्रकार है। ये रुक्ष आदि छः गुण ही वाय के हैं, इसलिये इन गुणों वाले पदार्थों इन गुण वाले प्रभावों और इन गुण वाले कर्मों के पुनः २ सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है। क्योंकि धातुओं के समान गुण वाले पदार्थों वा कर्मों के पुनः २ सेवन करने से धातुओं को बृद्धि होती है” ॥५॥

तच्छूल्त्वा वाक्यं काङ्क्षायनो बाह्योक्तिषयुवाच—एवमेतद्यथा भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपनानि भवन्ति, अतो विपरीतानि खल्वस्य प्रशमनानि भवन्ति, प्रकोपनविपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारणमिति ॥ ६ ॥

इस वात को सुनकर काङ्क्षायन नाम बाह्योक्त ( बलरूप ) देश के बैद्य बोले—“जिस प्रकार आपने कहा ठीक ऐसा ही है। ये ही करण वात को कुपित करते हैं। इनके विपरीत स्तिर्घ, गुरु, उष्ण, मृदु, पिञ्चिल, इलक्षण, स्थूल, स्थिर, गुण वाले द्रव्य या इस प्रकार के कर्म इस कुपित वायु को प्रशमन करते हैं। क्योंकि कोपक वस्तुओं के कारणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य धातुओं को शान्त करते हैं” ॥ ६ ॥

**तच्छूल्त्वा वाक्यं बृद्धिशो धामार्गव उवाच—एवमेतद्यथा भगवा-**

नाह, एतान्येव बातप्रकोपप्रशमनानि भवन्ति, यथा हेनमसंधातनमव-  
स्थितमनासाद्य प्रकोपप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, तथाऽनु-  
व्याख्यास्यामः । बातप्रकोपनानि खलु रूक्ष-लघु-शीत-दारुण-खर-विशद-  
शुषिर-कराणि शरीराणाम्, तथाविधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं, गत्वाऽङ्ग्या-  
व्यमानः प्रकोपमापद्यते, बातप्रशमनानि पुनः मिनग्ध-गुरुष्ण-इलक्षण-  
मृदु-पिच्छिल-घन-कराणि शरीराणाम्, तथाविधेषु शरीरेषु वायुरसञ्ज-  
मानश्चरन् प्रशान्तिमापद्यते ॥ ७ ॥

कांकायन शूषि के बचन सुनकर बड़िश धामार्गव बोले—आपने जो कहा  
मां ठीक ही कहा है । ये ही आपके कहे हुए कारण वायु को कुपिते और  
शान्त करने वाले होते हैं । जिस प्रकार कि इस सूक्ष्म एवं निरन्तर गतिशील  
वायु को प्राप्त करके ये रूक्ष आदि गुण इस वायु को कुपित करते हैं,  
तथा शान्त करते हैं इसकी व्याख्या करेंगे । बात को कुपित करने वाले द्रव्य  
शरीर को रूक्ष लघु ठण्डा दारुण ( कठिन ) खरखरा विशद ( जो  
चिप चिपा न हो ) और छिद्र युक्त कर देते हैं । रूक्ष लघु आदि  
शरीर में आश्रय पाकर संचित हुआ वायु प्रकुपित हो जाता है ।  
बात को शान्त करने वाले द्रव्य एवं कर्म शरीर को स्निग्ध, गुरु, उष्ण ( गरम ),  
लक्षण, मृदु ( कोमल ), चिपचिपा, तथा गाढ़ा कर देते हैं । इस प्रकार के  
शरीर में संचार करता हुआ वायु आश्रय न पाकर शान्त हो जाता है ॥ ७ ॥

तच्छुत्वा बडिशवचनमवितथमृषिगणैरनुभवत्वाच वायोविदो  
राज्ञिः—एवमेतत्सर्वमनपवादं यथा भगवानाह, यानि तु खलु वायोः  
कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिः  
शरीरेष्यो वा भवन्ति, तेषामवयवान् प्रत्यक्षानुमानोपमानैः साध-  
यित्वा नमस्त्वत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः, वायुस्तन्त्र-न्यन्त्र धरः,  
प्राणोदान-समान-व्यानापानात्मा, प्रवर्तकश्चेष्टा नामुच्चावचानां, नियन्ता  
प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामुद्योजकः, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा,  
सर्वशरीर-धातु-व्यूह-करः, सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वचः, प्रकृतिः  
स्पर्श-शब्दयोः, श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं, इषोंत्साहयायोनिः; समीरणोऽनेः,  
दोषसंशोषणः, क्षेपा बहिर्मलानां, स्थूलाणुम्भातसां भेत्ता, कर्ता गर्भा-  
कृतीनाम्, आयुषाऽनुवृत्ति-प्रत्यय-भूता भवत्यकुपितः । कुपितस्तु खलु  
शरीरे शरीरं नानाविधिविकाररूपतपति खलवर्ण-सुखायुषामुपवाताय,  
मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमा-

पादयत्यतिकाळं धारयति, भय-शोक-मोह-देन्यातिप्रलापाञ्जनयति,  
प्राणाश्चोपरुणद्धि ।

प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्मणीमानि भवन्ति, तद्यथा-  
धरणीधारणं, उच्चलनोज्जवालनं, आदित्य-चन्द्र-नक्षत्र-प्रह गगानां सन्तान-  
गति-विधानं सृष्टिश्च मेघानां, अपां च विसर्गः, प्रवर्तनं स्रोतसां,  
पुष्पफलानां चाभिनिर्वर्तनम्, उद्ग्रेदनं चौद्विदानां, शृतूनां प्रविभागः,  
विभागो धातूनां धातुमानसंस्थानयक्तिः, बीजाभिसंस्कारः, शस्या-  
भिवधनमविकलेदोपशोषणेऽवैकारिक-वि काराइचेति ।

प्रकृतिस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्मणीमानि भवन्ति, तद्यथा-  
उत्तरीदनं सागराणां, उदूतेन सरसां. प्रतिसरणमापगानाम्, आकृप्तेन च  
भूमेः, आधमनममृदानां, शिखरिशिखरावमथनं, उन्मध्यनमनाकहानां,  
नीहार-निर्णाद-पासु-सिकता-मत्स्य-भेकारग क्षार रुधिराश्माशनिविसर्गः  
ज्यापादनं च धण्णामृतूनां, शस्यानामसंधानः, भूतानां चापसर्गः, भावानां  
चाभावकरणं, चतुर्युगान्तकराणां भेद-सूर्यानलानिलानां विसर्गः ।

स हि भगवान् प्रभवश्चाठयव्यश्च, भूतानां भावाभावकरः, सुखा-  
सुख्यांविधाता, मृत्युः, यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, विश्वकर्मा,  
विश्वरूपः, सवतः, सवतन्त्राणां विधाता, भावानामणुविभुविष्णुः,  
क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति ॥८॥

बृद्धि के सत्य एवं शृष्टियों के अनुमोदित उस वचन को सुन कर राजर्षि  
वायेंविद ने कहा—आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, अथोत् इन नियमों  
के प्रतिकूल एक भी उदाहरण नहीं है । “अपवाद” का अर्थ निन्दाभी होता है ।  
अभिप्राय यह है कि सब शृष्टियों का इस विषय में एक ही मत है । कुपित तथा  
शान्त हुये शरीर में संचार करने वाले एवं शरीर से बाहर संचार करने वाले  
वायु के शरीर में तथा शरीर से बाहर जो कर्म हैं उनके अवयवों को प्रत्यक्षादि  
प्रमाणों से विद्व कर तथा वायु को नमस्कार कर यथाशक्ति कहूँगा । वायु  
शरीरस्ती यन्त्रों को धारण करने वाला है । ‘तन्त्र’ शब्द से शरीरस्थ  
धातुओं के जो अपने-अपने नियम हैं उनसे अभिप्राय है । यन्त्र से अभिप्राय  
जिसके द्वारा शरीरस्थ धातुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना आदि  
यापार होता है । अर्थात् तन्त्र (नियम) एवं यन्त्र दोनों को धारण करनेवाला है ।

वायु प्राणादि पांच रूपों वाला है । सम्पूर्ण उच्च या नीच विविध प्रकार  
की चेष्टाओं का प्रवर्तक है, मनका नियामक तथा नेता (लेजाने वाला) है (वायु

मनको अनिष्ट विषय से लौटा कर इष्ट विषय में लगाता है ) यही वायु समूर्ण इन्द्रियों को विषयों में प्रेरणा करता है ।

समूर्ण शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों का बहन करने वाला भी वायु हो है । वायु ही शरीरस्थ धातुओं को यथानियम अपने २ स्थलों पर स्थापित करता है । शरीर को जोड़ने वाला भी यही वायु है, वाणी को प्रदृश्त करने वाला, स्पर्श तथा शब्द की प्रकृति ( कारण ) अंत्रेन्द्रिय एवं स्पर्शेन्द्रिय का मूल कारण वायु ही है ।

यह वायु ईर्ष तथा उत्साह की योनि है (अभिव्यक्ति) का कारण है । अग्नि का प्रेरक शरीरस्थ दोषों का शोषण करनेवाला । मलों का बाहर निकालने वाला, स्थूल एवं सूक्ष्म स्रोतों को भेदन करने वाला, शरीरस्ति के समय गर्भ की आकृतियों को बनाने वाला भी वायु ही है । यह वायु आयु के अनुवत्तन-परिपालन का कारणभूत होता है । उपर्युक्त सभी कर्म शान्तवायु के कहे गये हैं । शरीर में कुपित हुआ वायु तो शरीर को नाना प्रकार के रंगों से पीड़ित करता है, जिस से बलवर्णादि क्षण होता है, मनको दुःखित करता है, समूर्ण इन्द्रियों का नष्ट करता है, गर्भ को नाश करता है, अथवा जितने काल तक गर्भ को गर्भाशय में रहना चाह्ये उससे अधिक काल तक गर्भाशय में ठहराता है । भय, शोक, सोह, दीनता, अतिप्रलाप इनको उत्पन्न करता है और मृत्यु का भी कारण होता है । प्रकृतिस्थ वायु के लोक में संचरण करने से ये वर्ष होते हैं, जैसे—पृथ्वी का धारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों को बराबर नियमपूर्वक गति में रखना, बादलों को बनाना, जलों का ढंगना, स्रोतों को बहाना फल-पूर्णों को उत्पन्न करना, वृक्षादि को पृथ्वी से बाहर निकालना (अंकुरित करना), शृङ्खलों का विभाग करना, स्वर्णादि धातुओं का आकार तथा परिमाण को व्यक्त करना, वीजों में अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति पैदा करना, शस्यादि को बढ़ाना, इसे सहने तथा सूखने न देना अन्य जो भी प्रकृति कार्य हैं उसे करना, जब यह वायु प्रकुपित हो कर संसार में संचरण करता है तो इससे ये कर्म होते हैं—समुद्रों को ढर्याइन करना, तालाब आदि जलाशय के जलों को ऊँचाकरना ( अथोत् तट के बाहर जल को निकालना ) नदिओं को विपरीत दिशा में बहाना भूक्षेप करना, मेघों का गर्जन करना, पर्वतों के चोटियों को तोड़ना, वृक्षों को उखाइना, नीहार, गर्जन, धूलि, बालू, मछली, मेहक, संयं, खार (राख), सधिर, छोटेर। पत्थर तथा विजली को आकाश से गिराना, छोड़ो शृङ्खलों को नाश करना, अज्ञको उत्पन्न न होने देना, प्राणियों को मारना, उत्पन्न हुये वस्तुओं का नाश

करना, चारों युगोंका संहार करनेवाले बादल, सूर्य, अग्नि एवं वायु की सृष्टि करना हत्यादि होते हैं ।

वह भगवान् वायु उत्पत्ति के कारण हैं, अविनाशी हैं, एवं प्राणियों का उत्पादक तथा नाशक हैं । सुख एवं दुःख को देने वाला, मृत्यु, यम, नियन्ता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वस्त्र सर्वग (व्यापक), समूर्ण नियमों, कर्मों तथा शरीरों को बनाने वाला सभी वस्तुओं का विभाता, सूर्य, व्यापक, विष्णु पृथ्वीदिलोंको को आक्रमण करने वाला भगवान् वायु ही हैं ॥ ८ ॥

तच्छ्रुत्वा वायोविदवचो मरीचिरुवाच—यद्यप्येवमेतत्किर्मर्थ-स्यास्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यमस्ति भिषग्विद्यायां, भिषग्विद्या चाधिकृत्येयं कथा प्रवृत्तोति ॥ ९ ॥

वायोविदि के बचन को सुनकर भगवान् मरीचि ने कहा, यद्यपि आपने जो कहा है वह ठीक है तथापि आयुर्वेद में इस विषय को कहना या जानना निष्प्रयोजन है यहां तो केवल चिकित्सा सम्बन्धी ही कथा हो रही है ॥ ९ ॥

वायोविद उवाच—भिषक् पवनमतिश्लभतिपहृष्मतिशीघ्र-कारिणमात्ययिं चेज्ञानुनिश्चयेत्, सहस्रा प्रकृपितमतिप्रयतः कथमप्रेत-भिरक्षितुभिथास्यति प्रागेवैनमत्ययभयादिति । वायोर्यथार्था स्तुति-रपि भवत्यारोग्याय बलवर्णवृद्धये वर्चस्वित्वायोपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायुःप्रक्षयों चेति ॥ १० ॥

वायोविद बोले—चिकित्सा-शास्त्र में वायु बहुत बलवान्, बहुत कठोर, असि शब्दकारी अतिच्चपल; अति दुःखदायक है, यदि ऐसा शात न हो तो, सहसा वायु के कुपित होने पर, वैद्य किस प्रकार से उसको विना जाने पहिले ही इससे बचने को कहेगा । वायु के विषय में यथार्थ रूप में कहना, जानना, स्तुति करना भी आरोग्यलाभ, बल, कान्ति, तेज, शक्ति को बढ़ाने, ज्ञान वृद्धि करने और दीर्घतम आयु को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिये है ॥ १० ॥

मरीचिरुवाच—अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभा-शुभानि करोति, तद्यथा-पक्षिमपर्क्षि दर्शनमदर्शनं मात्रामात्रत्वमूष्मणः प्रकृति-विकृति-वर्णं शीर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादमित्येवमादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति ॥ ११ ॥

मरीचि बोले—शरीर में स्थित पित्त के अन्दर पहुंची हुई अग्नि ही कुपित और अकृपित अवस्था में शुभ एवं अशुभ कर्मों को (क्रमशः) करती है ।

यथा—कुपित न होने पर वचन किया को ( भ्राजक पित्त ), स्वामानिक रंग को ( रंजक पित्त ), शौर्य, हर्ष, प्रसाद प्रवृत्तता को ( साधक अणि ) उत्पन्न करती है । कुपित होने पर, पाचन किया की जड़ता, मन्द हृष्टि, उष्णता को अयोग्य प्रमाण में, विकृत वर्ण, भय, कोष, मूच्छों उत्पन्न करता है । इसी प्रकार कुपित और अकुपित अवस्थाओं में पित्त अन्य दृढ़ों को भी उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥

**तच्छुत्वा मर्मचिवचः** काप्य उवाच—सोम एव शरीरे इलेघ्मान्त-  
गेतः शशाशभानि करोति, तद्यथा—दाढ्यं शीथिल्यमुपचयं कार्यमुत्साह-  
मालस्य वृपतां कलीबतां ज्ञानमज्ञानं बुद्धिं माहमेवमादीनि चापरोणि  
द्रन्द्वानीति ॥ १२ ॥

मर्मचि शृणि के वचन सुनकर काप्य बोले—शरीरस्थ कफ में सोम ( जल तत्त्व ) पहुंच कर कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ एव अशुभ कर्मों को करता है । अकुपित अवस्था में—शरीर की दृढ़ता वृद्धि, कायों में उत्साह, पुरुषत्व, शान, बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है । कुपित होने पर शरीर का ठीलाफन, निर्बलता, आलस्य, नपुंसकता, मूढ़ता मूच्छों आदि उत्पन्न करता है । इस प्रकार कुपित और अकुपित अवस्था में दूसरे दृढ़ों को भी उत्पन्न करता है ॥ १२ ॥

**तच्छुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच—सर्व एव  
भवन्तः सम्यग्गुहरन्यत्रैकान्तिकवचनात्, सब एव खलु वातपित्त-  
इलेघ्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्नेन्द्रियं बल-वर्ण-सुखोपपन्नमायुषा  
महतोपपादयान्त सम्यगवाऽचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन  
महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चामुहिंश्च लोके, विकृतास्त्वेनं महता  
विपययेणोपपादयान्ति ऋतवस्थय इत्र विकृतिमापन्ना लोकमशुभेनो-  
पघातकाले इति ॥ १३ ॥**

काप्य शृणि के वचनों को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय बोले—आप सबने जो कुछ कहा वह सब ठीक है । परन्तु आपने जो यह कहा कि अकेला वायु या अकेला पित्त अथवा अकेला कफ ही कुपित और अकुपित अवस्था में सब शुभ-अशुभ कर्म करते हैं—यह वचन व्यभिचरित होने से ठीक नहीं है । सब हो वात पित्त कफ ( तीनों ) अकुपित अर्थात् स्वस्थावस्था में प्रकृति मुक्त, स्वस्थ इन्द्रिययुक्त पुरुष को, बल, वर्ण, सुख और दीर्घायुष प्रदान करते हैं । जिस प्रकार कि उचित रूप में सेवन किये हुए चर्म, अर्थ और काम पुरुष को

इह लोक में और परलोक में बड़े भारी कल्याण से युक्त करते हैं, जिस प्रकार की विकृत हुई तीनों शृणुएं ( शीत, श्रीष्म और वर्षा ) संसार को प्रलयकाल में कठोर से पीड़ित करते हैं। इसी प्रकार कुपित हुए वात पित्त और कफ पुरुष को बड़े भारी विपरीत चल, वर्षा, तुख से हीन तथा अल्पायु बनाते हैं ॥ १३ ॥

तदृष्यः सर्व एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भवगतोऽभिननन्दु-  
श्चेति ॥ १४ ॥

भवति चात्र ।

तदात्रेयवचः श्रत्वा सर्व एवानुमेनिरे ।

ऋषयोऽभिननन्दुश्च यथेन्द्रवचनं सुराः ॥ १५ ॥

भगवान् आत्रेय के कथन का सब ऋषियों ने अनुमोदन किया । जिस प्रकार कि देवता इन्द्र के वचनों को सराहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने आत्रेय के वचनों की प्रशंसा की ॥ १४-१५ ॥

तत्र श्लोकों-गुणाः षह द्विविधो हतुर्विविधं कर्म यत्पुनः ।

वायोऽश्वतुर्विधं कर्म पृथक्च कफपित्तयोः ॥ १६ ॥

महर्षीणां मतिर्या या पुनर्वसुमतिश्च या ।

कलाकलीये वातस्य तत्सर्वं संप्रकाशितम् ॥ १७ ॥ इति ।

वायु के छः गुण, दो प्रकार के कारण कुपित और अकुपित, वायु के नाना प्रकार के कर्म; कफ और पित्त के पृथक् कर्म, महर्षियों एवं पुनर्वसु आत्रेय की संमति, ये सब इस ‘धात-कलाकलीय’ अध्याय में सम्पूर्ण रूप में कह दिया ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे वरक्रपतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थृत्यन्ते

वातकलाकलीयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति निर्देशचतुर्षकस्तृतीयः ॥ ३ ॥

### त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातः स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे स्नेह-अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवानात्रेय ने कहा था ॥ १०२ ॥

**सास्थ्यैः संख्यातसंख्येयैः सहाऽसीनं पुनर्वसुम् ।**

**जगद्गितार्थं प्रश्न्छ वहिवेशः स्वसंशयम् ॥ ३ ॥**

जिन तत्त्वज्ञानी लोगों ने जानने योग्य बातों को भवी प्रकार जान लिया था ऐसे मुनियों के साथ बैठे हुए पुनर्वसु आत्रेय से, शृणि अग्निवेश ने अपने सन्देह को जगत् के कल्पणा के लिये पूछा ॥ ३ ॥

**किञ्चोनयः किं स्नेहः, के च स्नेहगुणाः पृथक् ।**

**कालानुपाने के, कस्य, किंति, काञ्च विवारणाः ॥ ४ ॥**

**किंति मात्राः, कथंमाना; का च वेष्टप्रदिश्यते ।**

**कञ्च वेष्टयो हितः स्नेहः, प्रकर्षः स्नेहने च कः ॥ ५ ॥**

**स्नेहाः के, के न च मिनग्धाः, मिनग्धातिस्निग्धलश्चणम् ।**

**किं पानातप्रथमं, पीते जीर्णे किं च हिनाहितम् ॥ ६ ॥**

**के मृदू-कूर-कोष्ठाः, का व्यापदः, भिद्युश्च काः ।**

**अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिक्ष्यते ॥ ७ ॥**

**विचारणाः केषु योज्या विधिना केन नन् प्रभो ! ।**

**स्नेहस्यामितविज्ञान ! शाखामिच्छामि वेदितुम् ॥ ८ ॥**

स्नेहो के उत्तरित स्थान कौन से हैं ? स्नेह कितने हैं ? पृथक् पृथक् प्रत्येक स्नेह के गुण क्या हैं ? प्रत्येक स्नेह का समय, अनुग्रान क्या है ? विचारणाएं कितने प्रकार की हैं ? मात्राये कितनी हैं ? उनका परिमाण क्या है ? और कौन सा परिमाण किसके लिये कहा गया है ? कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है ? स्नेहन में कौन से स्नेह उत्तम हैं ? स्नेह के योग्य कौन है ? स्नेह के अयोग्य कौन हैं ? अस्तिनग्ध और अतिस्तिनग्ध के लक्षण क्या हैं ? स्नेहापान से पूर्व क्या पाना और क्या नहीं पीना चाहिये ? स्नेह के जीर्ण होने पर क्या पाना हितकारी और क्या अहितकारी है ? मृदु, कूर, कांष वाले कौन हैं ? स्नेह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ? उनका उपचार क्या है ? संशमन, संशोधन और स्नेहन में कैसे यतांक से रहें ? किन २ पुरुषों में विचारणा किंति विधि से प्रयोग करनी चाहिये ? हे प्रभो ! स्नेह सम्बन्धी अनन्त ज्ञान को जानने की मेरी इच्छा है ॥ ४-८ ॥

**अथ तत्संशयच्छेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसुः ।**

**स्नेहानां द्विविधा सौम्य ! योनिः स्थावर-जड़मा ॥ ९ ॥**

**तिळः प्रियालाभिषुकौ विभीतक्षित्राभयरण्ड-मधूक-सर्वपाः ।**

**कुमुम-विलवाहक-मूलकातसी-निकोटकाक्षोहन-करञ्ज-शिष्मुकाः ॥ १० ॥**

स्नेहाभ्याः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युर्जङ्गमा मत्स्यसृगः सपक्षिणः ।  
तेषां दधि-क्षीर घृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथापदिश्यते ॥ ११ ॥

अग्निवेद के सन्देह को दूर करने वाले भगवान् पुनर्वसु ने उत्तर दिया—  
स्नेहों के उत्तरत्ति स्थान दो प्रकार के हैं; स्थावर और जंगम । इनमें—तिल,  
पियाल, ( चिरोजी फल ) अभिषुक ( चिलगोजा ), बडेहा, चीता, दरड बड़ी,  
ऐरण्ड, महुआ, सरसों, कुसुम, बेलगारी, भिलावा, मूलक, अचसी, निकोटक,  
अखराट, नादा बरंजुआ, सोंजाजन ये स्नेह के स्थावर उत्तरति स्थान हैं ।  
मछलियों, मृग ( पशु ), पक्षी एवं उनका दूध, दही, घृत, मौंठ वसा और  
मज्जा ये स्नेह के जंगम उत्तरति स्थान कहे हैं ॥ ६-११ ॥

सर्वेषां तेलज्ञातानां तिलतलं प्रशस्यते ।  
बलायै स्नेहं चाप्रयमरणं तु वरंचने ॥ १२ ॥  
सपिस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहात्तमा मताः ।  
एष्यथेवात्तमं सर्पिः संस्कारस्यातुवत्तनात् ॥ १३ ॥

सब प्रकार के तैलों में तिल का तैल श्रृङ्ख है । बल और मृदुता लाने के  
लिये तिल का तैल सब में श्रेष्ठ है और विरेचन के लिये ऐरण्ड का तैल सर्व-  
श्रेष्ठ है । सब प्रकार के स्नेहों में धी, तैल, वसा और मज्जा ये चार भेष्ट हैं ।  
इन चारों में भी धी सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि यह अन्य पदार्थों का गुण अपन में  
के छेता है ॥ १२-१३ ॥

घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रोजसां दितम् ।  
निर्बायणं मृदुकरं स्वर-वर्णं-प्रसादनम् ॥ १४ ॥

धी बात और पित्त का नाशक है, रस, शुक्र और ओज को बढ़ाता है,  
बड़ी हुई उष्णिया का शान्त करता है, शरीर में कोमलता पैदा करता है, स्वर  
और कान्ति को बढ़ाता है ॥ १४ ॥

माहतद्वनं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनम् ।

त्वच्यमुष्ठः स्थिरकरं तेलं योनिविशेषनम् ॥ १५ ॥

तैल वायु नाशक, परन्तु कफ को नहीं बढ़ाता, बलवर्धक, त्वचा के लिये  
हितकारी, उष्णवार्य, उष्णगुण, शरीर को दिश्य ( टिकाऊ ) बनाने वाला एवं  
स्त्री-जननेविद्य ( गर्भोदय ) का शोधन करने वाला है, ( तिल तैल में ये गुण  
विद्येष रूप से हैं ) ॥ १५ ॥

विद्व-भग्नाहत भष्ट-योनि-कर्ण-शिरोहजि ।

पौरुषोपचये स्नेहे न्यायामे चेष्यते वसा ॥ १६ ॥

भाले आदि से विचने चोट लगाकर अस्थि आदि के टूटने चोट लगने, योनि की भ्रंशता ( गर्भाशय आदि अंगों की स्थान च्युति ), कर्ण रोग, शिरोरोग, पुरुषत्व बढ़ाने, शरीर को चिकना करने और व्यायाम अर्थात् शारीरिक भ्रम में बसा ( चर्बी ) हितकारी है ॥ १६ ॥

**बल-शुक्र-रस-श्लेष्म-मेदो-मज्जा-विवर्धनः ।**

**मज्जा विशेषतोऽस्थनां च बलकृत्स्नेहने हितः ॥ १७ ॥**

बल, शुक्र, रस, कफ, मेद और मज्जा को बढ़ाती है । विशेषकर अस्थियों की शक्ति बढ़ाती एवं शरीर को चिकना बनाने में विशेष रूप से हितकारी है ॥ १७ ॥

**सर्पिः शरदि पातव्यं, वसा मज्जा च माघवे ।**

**तैलं प्रावृषि, नात्युष्णशीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ १८ ॥**

**वातपित्ताधिके रात्रावृष्णे चापि पिवेन्नरः ।**

**श्लेष्माधिके दिवा शीते पिवेष्वामलभास्करे ॥ १९ ॥**

धी शरद शूद्र ( आश्विन-कार्तिक ) में, चर्बी और मज्जा वसन्त शृतु ( फाल्गुन-चैत्र ) में और तैल वपोकाल ( आवण-भाद्रपद ) में सेवन करना चाहिये । अति उष्ण काल ( ग्रीष्म ) अथवा आते शीतकाल ( हेमन्त ) में स्नेह नहीं पीना चाहिये । तीव्र व्याधि में, ग्रीष्म शृतु में, रात्रि के समय; वात और पित्त की अधिकता होने पर स्नेह पी लेना चाहिये ; कफप्रधान व्याधि में शीतकाल के अन्दर ( हेमन्त-शिशिर शृतु में ) मध्याह्न समय में दिन के समय स्नेहपान करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

**अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपीताधिकेन वा ।**

**मूच्छां पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत् ॥ २० ॥**

**शीते रात्रौ पिवेत्स्नेहं नरः श्लेष्माधिकोऽपि वा ।**

**आनाहमरुचिं शूलं पाण्डुर्ता वा समृच्छति ॥ २१ ॥**

**जलमुष्णं धृते पेयं, यूष्मन्तैलेऽनुशस्यते ।**

**वसामज्जोस्तु मण्डः स्यात्सर्वे पूष्णमथाम्बु वा ॥ २२ ॥**

वातप्रधान या पित्तप्रधान रोगी ग्रीष्म शृतु में या दिन के समय यदि स्नेहपान करता है तो मूर्छा, प्यास, उन्माद अथवा कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं । कफप्रधान रोगी यदि शीत शृतु में या रात्रि के समय स्नेहपान करता है तो उसे अफ्फा, अरुचि, शूल-पीड़ा या पाण्डुरोग उत्पन्न हो जाता है । धी पीने के उपरान्त गरम जल, तैल के उपरान्त यूष और वसा एवं मज्जा के

उपरात्म मण्ड ( माड ) पीना उत्तम है । अथवा सब ( घी, तैल, वसा और मज्जा ) के पीछे गरम पानी पीना श्रेयस्कर है ॥ २०-२२ ॥

स्नेह की विचारणाएँ—

आदनश्च विलेपी च रसो मासं पयो दधि ।

यगागूः सूपशाको च यूषः काम्बलिकः खडः ॥ २३ ॥

सक्तवर्षास्तलपिष्टुं च मद्यं लेहास्तर्थैव च ।

भक्ष्यमध्यवज्जनं वस्तिस्तथा चात्तरवस्तयः ॥ २४ ॥

गण्डूषः कर्णतेलं च नस्यं कर्णाङ्गिनर्पणम् ।

चतुर्विंशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणाः ॥ २५ ॥

स्नेह की विचारणा ( उपयोग-प्रयोग विविध ) २४ चौबीस प्रकार की है । जैसे—( १ ) आदन—चावल पांच गुणे जल में पकाओ, ( २ ) विलेपी अर्थात् दरकच किये चावलों को चार गुणे जल में पकाने से बहुत मांडयुक्त यवागू बनता है ( ३ ) रस ( मास रस ) टीक तरह से पका मास, ( ४ ) यवागू ( दरकच किये चावलों को छः गुणे जल में पकाने से मांड युक्त द्रव हो ) । ( ५ ) सूप—दाल को १६ या १४ या १८ गुणे जल में पका कर चतुर्थीश शेष रखें, ( ६ ) शाक, ( ७ ) यूष—अच्छ को दल कर १४ या १८ गुणे जल में पकाके आधा पानी शेष रखें । काम्बलिक, खड़, सत्तू, तिलपिष्ट ( तिलकुट या खल ) मदिरा, चाटन, भक्ष्य, ( मालपूआ, पूरणपोली आदि ), अस्यंजन मालिश, बस्ति, उत्तर बस्ति, गण्डूष ( गराले ), अर्थात् मुख में तैल का रखना, कान में तैल डालना, नस्य कर्म, नेत्र के अन्दर स्नेह प्रदान करके आंख की तृप्ति करना, यह स्नेह की चौबीस प्रकार की प्रविचारणा अर्थात् सेवन विधि है ॥ २३-२५ ॥

अन्त्येयस्तु यः स्नेहो न तामाहुर्विचारणाम् ।

स्नेहस्य स भिपरहृष्टः कल्पः प्राथमकार्ल्पकः ॥ २६ ॥

शुद्ध स्नेहीने को 'विचारणा' नहीं कहते । यह तो स्नेह का सर्व प्रथम श्रेष्ठ रूप है । इसके पीछे इकृति, देह, दोष आदि देलकर पाचन शक्ति की विवेचना व रक्ते ओटन आदि सेवन विधि करनी चाहिये ॥ २६ ॥

रसश्चापहितः स्नेहः समासन्यास-योगिभिः ।

षहूभूष्मिष्ठाष्ठासांख्यां प्राप्नोत्येकञ्च केवलः ॥ २७ ॥

एवमेषा चतुर्प्रष्टिः स्नेहानां प्रविचारणाः ।

\* प्रावचार्यात् अवचार्यात् तुकल्पेनापद्युयंतेऽनयेति प्रावचारणा ।

**ओकर्तुञ्जाधि-उन्नधान् प्रयोज्या जानना भवेत् ॥ २७ ॥**

छः रसो ( मधुर अम्ल, लक्षण, तिक, कटु और कशाय ) के परस्पर मिलने से ६३ प्रकार के भेद हो जाते हैं । इन तिरतः भेदों के साथ जब स्नेह मिलता है, तो वह भी ६३ प्रकार का हो जाता है और जब किसी भी रस के साथ न मिलकर शुद्ध स्नेह रूप में ही रहता है, तब एक भेद होता है । इस एक प्रकार को भी मिळाकर स्नेह के ६४ प्रकार हो जाने हैं । इस प्रकार से स्नेह की विचारणा अर्थात् सेवन विधि ६४ ( चौंठ ) प्रकार की है । ( ओक ) साल्प्य, श्रुतु और रोग-ल आदि का विचार करके सेवन विधि का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७-२८ ॥

स्नेह की मात्रा—

अहोरात्रमहः कृत्स्नमधीर्हं च प्रतीक्षते ।

प्रधाना मध्यमा ह्वस्वा स्नेहमात्रा जरा प्रति ॥ २९ ॥

इति विष्णः समुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य माननः ।

वासां प्रयोगान्वक्ष्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति ॥ ३० ॥

स्नेह की मात्रा तीन प्रकार की है । प्रधान, मध्यम और हस्त । इनमें जो स्नेह की मात्रा रात और दिन ( २४ घण्टे ) में जीर्ण होती है, वह स्नेह की प्रधान मात्रा है और जा सारे दिन भर ( १२ घण्टे ) में जीर्ण होती है वह मध्यम, और जो आवे दिन ( ६ घण्टे ) में जीर्ण होती है वह स्नेह की हस्त मात्रा है । ये मात्राएं स्नेह के जाण होने के समय के अनुसार हैं । इस प्रकार से स्नेह की मात्रा और मान कह दिया है ॥ २८-३० ॥

अब प्रत्येक पुरुष के लिये स्नेह के प्रयोगों को कहते हैं—

प्रभूतस्नेहनित्या ये शुत्पिण्यासासदा नराः ।

पात्रकश्चोत्तमवलो येवा ये चोत्तमा वले ॥ ३१ ॥

गुल्मिनः सर्पेदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये ।

उन्मत्ताः कुच्छूमूत्राश्च गाढवर्चस एव च ॥ ३२ ॥

पिबेयुरुत्तमो मात्रा, तस्याः पाने गुणान् शृणु ।

विकारान् शमयत्येषा शीघ्रं सम्यक्प्रयाजिता ॥ ३३ ॥

दोषानुदर्शिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी ।

बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् ॥ ३४ ॥

“तके कपितथ वाङ्गेरोमरिचा जाजिविवक्तैः । सुरगः खण्डयूपोऽर्थ काम्बलिको  
मरुः ॥ दध्यम्भो लक्षण-स्नेह-तिलमाषान्वितः शृतः ॥”

जो मनुष्य नित्य प्रति विशेष रूप में स्नेह का व्यवहार करते हैं, भूत और प्यास को न सहन कर सकते वाले, उत्तम बलवान्, जठराग्नि वाले, श्रेष्ठ शारीरिक बल वाले, गुल्मरणी, सर्पविषाकान्त रोगी, वीर्यरोगी, पागल, मूत्रकृच्छ्र रोगी और जिनका मल सूखा रहता है, वे स्नेह की उत्तम मात्रा का पान करें। स्नेह को प्रधान मात्रा के पान का गुण मुनो—यदि मात्रा को भली प्रकार से प्रयोग किया जाये तो उपरोक्त समस्त रोग मिट जाते हैं। वह शरीर के दोषों को खींच कर बाहर कर देती है, शरीर के सब भागों में ऊपर, नीचे, तिरछे सब जगह फैल जाती है। वह बलवर्द्धक एवं शरीर, इन्द्रिय और चित्त को फिर से हरा भरा बना देती है ॥ ३१-३४ ॥

मध्यम मात्रा—

अरुष्का स्फोट-रिङ्का-कण्डू-पामाभिरदिताः ।  
कुष्ठिनश्च प्रमाणादाश्च वातशाणितिकाश्च ये ॥ ३५ ॥  
नातिब्लाशिनश्चैव सृदुक्षाष्टास्तथेऽन्तर्च ।  
पिबेयुमध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापि ये बले ॥ ३६ ॥  
मात्राषा मन्दविश्रंशा न चातिवल्हारिणी ।  
सुखे न च स्नेहयति शोधनार्थं च युज्यते ॥ ३७ ॥

गाठे, फोड़े, फुनियां, खाज, पामा, कुष्ठरोगी, प्रमेही, अतिमूत्ररोगी, वातरक्तराणी, अधिक न खाने वाले, न कम खाने वाले, मृदुकाष्ठ वाले, (जिनको दूध से भी विरेचन हो जाता है), और मध्यम बल वाले व्यक्ति स्नेह की मध्यम मात्रा का पान करें। यह मध्यममात्रा मृदु-विरेचक, योद्धा कष्ट करने वाली, एवं बल को बहुत नहीं घटाती, सुखपूर्वक सखलता से शरीर को कोमल कर देती है, इसीलिये शरीर को शोधन करने के लिये हितकारी है ॥ ३५-३७ ॥

इस्त मात्रा—

ये तु शृदाश्च बालाश्च सुकुमाराः सुखोचिताः ।  
रिक्तकाप्त्वमहितं येषां मन्दाप्रयश्च ये ॥ ३८ ॥  
च्वरातीसार-कासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः ।  
स्नेहमात्रा पिबेयुत्ते इस्त्वां ये चावरा बले ॥ ३९ ॥  
परिहारे सुख्या चंचा मात्रा स्नेहनवृहर्णा ।  
शृख्या बल्या निराबाधा चिरं चाप्यनुवर्तते ॥ ४० ॥  
इद, बालक, कोमल, नाजुक प्रकृति के, ऐश की जिन्दगी कहर करने

बाले, खाली पेट रहने से जिनके पेट में दर्द होने लगता है, मन्दाग्नि, निर्बल आठरायि वाले, जिनको ज्वर, अतीसार, कास पुराना बहुत दिनों का हो, और निर्बल, अल्प शारीरिक बल वाले व्यक्ति रनेह की इश्व मात्रा लेवें। यह मात्रा जीर्ण होने में सरल है, सुखपूर्वक पच जाती है। शरीर का चिकना करती एवं बल बढ़ाती है। पुरुषत्वकारक, बलकारक, निरापद, एवं देर तक सेवन व्यवहार में लाई जा सकती है ॥ ३८-४० ॥

कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है—

वात-पित्त-प्रकृतयो वात-पित्त-विकारिणः ।

च्छुट्कामाः क्षताः क्षीणा वृद्धा वालास्तथाऽवलाः ॥ ४५ ॥

आयुःप्रकर्षकामाश्च वल-वर्ण-स्वरार्थिनः ।

पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये ॥ ४२ ॥

दीप्तधोजः-स्तर्जन-मेधाग्निं-बुद्धीर्निद्र्य-बलार्थिनः ।

पिवेयुः सपिरात्माञ्च दाह-शस्त्र-विपाग्निभिः ॥ ४३ ॥

जिनकी प्रकृति वात-पित्त हो, वात-पित्त के रोगी, उत्तम दृष्टि चाहने वाले, उरःक्षत रोग से क्षीण, निर्बल, वृद्ध, बालक, निर्बल मनुष्य, आयु की वृद्धि की कामना करने वाले, बल, वर्ण, कान्ति, स्वर को चाहने वाले, शरीर पुष्टि के इच्छुक, संतति की चाह वाले, सुकुमारता, कोमलता के इच्छुक, तेज, ओज, स्मृति, बुद्धि, अग्नि, धारण करने की शक्ति और इन्द्रिय बल को चाहने वाले और आग, जल, शस्त्र, विष से आक्रान्त रंगी घो का सेवन करें ॥ ४१-४३ ॥

प्रवृद्ध-इलेहम्-मेदस्काञ्चल-मधूल-गलोदराः ।

वात-न्याधिभिराविष्टा वात-प्रकृतयश्च ये ॥ ४४ ॥

बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थरगात्रताम् ।

स्त्रिगंध-इलक्षण-तनुत्वक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः ॥ ४५ ॥

कृमिकोष्ठाः क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरदिताः ।

पिवेयुः शातले काले तेलं तंलोचिताश्च ये ॥ ४६ ॥

जिनमें कफ की या चबौं की अधिकता हो, जिनका पेट या गर्दन मोटी और ढाँची हों, वात रोगी से पीड़ित, वात प्रकृति के, जो बल, पतलापन, दृक्षापन, मजबूती, शरीर की स्थिरता ( संधटन ), चिकनापन, और त्वचा की कोमलता चाहते हैं, कृमिरोग से आक्रान्त, क्रूर कोष वाले ( जिनको तीव्र विरेचन से प्रभाव होता है ), नाडीब्रण से आक्रान्त और जिनको तैल सेवन

करने का अभ्यास है वे शोतकाल ( डेमन्ट शिशिर ) में दिन के समय तैल का पान करें ॥४७-४६॥

बातातपसहा ये च रुक्षा भाराध्वकर्णिताः ।

संशुष्क-रेतो-रुधिरा निष्पीत-हक्क-मेदसः ॥ ४७ ॥

अस्थि-सन्धि-शिरा-स्नायु-मर्म-कोष्ठ-महामज्जः ।

बलवान्मारुतो येषां खानि चाऽस्त्रवृत्य तिष्ठति ॥ ४८ ॥

महच्छाग्निवलं येषां वसा-सात्याश्र ये नराः ।

तेषां नेदयितव्यानां वसापानं विधीयते ॥ ४९ ॥

वायु और धृप को सहन करने वाले, रुक्ष प्रकृति, भार के उठाने या मार्ग चलने वाले, परिश्रम के कारण जो निर्वल हो गये, जिनका वीर्य या रक्त सूख गया है; कफ क्षीण हो, नेद क्षीण हो, जिनको अनिधि; सन्धि-सरा, स्नायु मर्म कोष्ठ के भयानक रोग हाँ, जिनकी इन्द्रियां को बलवान् वायु धेरे रहता है, जिनका अग्निवल-जाठराग्नि बलवान् हो, और जो वसा सेवन करने के अभ्यासी हो,ऐसे पुरुष स्नेहन करने के लिये वसा (चर्वी) का पान करें ॥४७-४६॥

दीप्ताग्नयः वलेशसहा घस्मराः स्नेहसेविनः ।

वातार्ताः क्रूर-कोष्ठाश्र स्नेहा मज्जानमाप्नुयुः ॥ ५० ॥

जिनकी जाठरांगन दीप है, जो क्लेश को सहन कर सकते हों, सूख खाने वाले, स्नेहसेवन के अभ्यासी; वात रोगी और क्रूरकोष्ठ वाले व्यक्तियों को मज्जा द्वारा स्नेहन करना चाहिये ॥५०॥

येष्यो येम्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीर्तिः ।

स्नेहनस्य प्रकर्षीं तु सप्तरात्र त्रिरात्र क्षी ॥ ५१ ॥

जिन जिन पुरुषों के लिये जो जो स्नेह हितकारी हैं, उनके लिये उसी स्नेह का उपदेश किया है । स्नेह की सेवन विधि दो प्रकार की है । एक सात रात की और दूसरी तीन रात की । इनमें क्रूरकोष्ठ व्यक्तियों के लिये सात रात, और मृदुकोष्ठ व्यक्ति के लिये तीन रात हैं ॥ ५१ ॥

स्वेद्याः शोधयितव्याश्र रुक्षा वातविकारिणः ।

व्यायाम-मद्य-खीनित्याः स्नेहाः स्युर्ये च चिन्तकाः ॥ ५२ ॥

स्नेहन के योग्य व्यक्ति—जो व्यक्ति स्वेद देने या संशोधन के योग्य हैं;

\*जैसा आगे कहेंगे “व्यहावरं सप्तदिनं परन्तु स्निग्धो नरः स्वेदयितव्य इष्टः । नातः परं स्नेहनमादिशान्ति” ।

रुक्षप्रकृति, वातरोगी, नित्य व्यायामसेवी, नित्य मद्यसेवी, नित्य स्नेहेवी, और जो चिन्ता ( शोक ) करते रहते हैं; वे व्यक्ति स्नेहन के योग्य हैं ॥ ५२ ॥

स्नेह के अयोग्य व्यक्ति—

संशोधनाद्वाते येषां रुक्षणं संप्रवद्यते ।

न तेषां भ्नेन्तं शस्त्रमुत्सभ-कफ-मेदसाम् । ५३ ॥

अभिष्यण्णानन गुदा नित्यं मनशङ्गनवृच्च ये ।

रुषणा मूच्छी-पर्वताश्च गर्भिष्यस्तालु-शापिणः ॥ ५४ ॥

अन्नद्विषश्छद्यन्ता जठरान-गरादिताः ।

दुबलाश्च प्रनान्ताश्च स्नेहम्लाना मदातुराः ॥ ५५ ॥

न स्नेह्या वर्तमानेष न नस्तावस्तिकर्मसु ।

स्नेहपानात्प्रजायन्ते तेषां रागाः सुदारुणाः ॥ ५६ ॥

संशोधन किये विना जिनका रुक्षण करना कहा जायेगा; उनको; जिनका कफ और में बढ़ा है, जिनके नाक, मुख और गुदा से स्राव होता है, जिनको सदा मन्दाग्नि रहती है, प्यास और मूच्छी से आकान्त, गर्भवती, तालुकण्ठ जिनका सूखता है; भाजन से असच्च करने वाले, वमन करते हुए, उदर रगी या विष से आकान्त, दुबल, ग्लानि करने वाले ( कच्चे दिल के, धूणा करने की प्रकृति के ), स्नेह के पाने में जो प्रसन्न नहीं होते, धूणा करते हैं और मद ( नये ) से ग्रस्त व्यक्तियों को और नस्य कर्म एवं अनुवासन वस्ति जिन्होंने ली हो उनको स्नेहन नहीं देना चाहिये । यदि इनको स्नेह पिलाया जायगा तो भयानक रोग उत्पन्न हो जायेंगे । रुक्षण के योग्य—‘अभिष्यन्दा महादोषा मर्दस्था व्याधयश्च ये । ऊरुतम्भ-प्रभृतयो रुक्षणीया निर्दर्शिताः’ ॥ ५३-५६ ॥

अस्तिनग्ध, स्तिनग्ध और अतिस्तिनग्ध के रुक्षण—

पुरीयं ग्रथितं रुक्षं, वायुरप्रगुणो, मृदुः ।

पृक्ता, खरत्वं रौक्षयं च गात्रस्यास्तिनग्धलक्षणम् ॥ ५७ ॥

जिसका मल बैंधा हुआ, रुक्षता वायु अपनी प्रकृति में न हो, जाठराग्नि मन्द हो, शरीर में कंकशता रुक्षापन हो, तो समझे कि स्नेहन किया ठीक नहीं हुई ॥ ५८ ॥

वातानुलोभ्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्तिनग्धमसौहतम् ।

मादवं स्तिनग्धता चाङ्गे स्तिनग्धानामुपजायते ॥ ५९ ॥

वायु की अनुकूलता, जाठराग्नि को बढ़ना ( मूख का लगना ), मछ

चिकना और पतला, अंगों में कोमलता और चिकनापन हो, तो समझना चाहिये कि उचित रूप में स्नेहन हुवा है ॥ ५८ ॥

पाण्डुता गौरवं जाह्यं पुरीपस्याविपक्ता ।

तन्द्रीरर्हाच्छृङ्खलेशः म्यादतिस्तिर्थलक्षणम् ॥ ५९ ॥

पाण्डुता (पीलापन, निस्तेज वर्ण), शरीर में भारीपन, आलस्य, मल का भली प्रकार पाक न होना, अरुच, सुस्ती, वमन की इच्छा ये अतिरिक्तग्रन्थ के लक्षण हैं ॥ ५९ ॥

द्रवोष्णमनभिद्यन्दि भोजयमन्नं प्रभाणतः ।

नातिस्तिर्थमसंकीर्ण शः स्नेहं पानुमिच्छता ॥ ६० ॥

पिवेत्संशमनं स्नेहमन्नकालं प्रकाङ्क्षितः ।

स्नेह से पूर्व लेने योग्य हितकारी पदार्थ—स्नेह पान करने की इच्छावाले व्यक्ति को चाहिये कि स्नेह पाने से पहिले दिन, द्रव, और गरम, जो कफकारक न हो, अतिरिक्तग्रन्थ, अतिविकार युक्त, असंकर्ण ऐसे भोजन को मात्रा से खावें, जो दो तीन वस्तुओं को मिलाकर न बनाया गया हो और अगले दिन जब भोजन के समय आकंक्षा हो तब संशमन स्नेह का ही पान करे ॥ ६० ॥

शुद्धथर्थं पुनराहारे नशे जीर्णे पिवेन्नरः ॥ ६१ ॥

संशोधन के उद्देश्य से स्नेह पान करने के लिये रात्रि का भोजन जीर्ण होने पर प्रातःकाल स्नेहपान करे ॥ ६१ ॥

उष्णोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी क्षपाशयः ।

शकुन्मूत्रानिलोदगारानुदार्णांश्च न धारयेत् ॥ ६२ ॥

व्यायाममुच्चवचनं क्राध-शोकौ हिमातपौ ।

वर्जयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनम् ॥ ६३ ॥

स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुजान एव च ।

स्नेहमिथ्योपचाराद्वृ जायन्ते दारुणा गदाः ॥ ६४ ॥

स्नेहनकाल में दित अद्वित—पीने, स्नान, शौच आदि कार्यों में गरम पानी का व्यवहार करे, मैथुन को छोड़ दे । रात्रि में सोये, दिन में न सोये रात में न जागे, उपस्थित हुए मल, मूत्र, वायु और ढकार के वेगों को न रोके । व्यायाम-भ्रम, और जोर से या अधिक माषण, क्रोध, शोक, सरदी या गरमी न सहे । खुली-न्वायु में वायु के सामने न बैठे और न सोये । स्नेह को पीने के पीछे इन कार्यों का पालन करे । स्नेह पीने के पीछे पुनः स्नेह पान करने पर, स्नेह पीटर भोजन आदि में दूसरी बार स्नेह युक्त पदार्थ खाने से, स्नेह के मिथ्यायोग से भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ६२-६४ ॥

मृदुकोष्ठाक्ष/त्रेण स्निहश्यत्यच्छोपसेवया ।

स्निहश्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण भानवः ॥ ६५ ॥

मृदुकोष्ठ वाला व्यक्ति स्नेह का अच्छपान करके तीन रात्रि तक सेवन करने पर स्निख द्वारा जाता है। क्रूरकोष्ठ वाला व्यक्ति स्नेह का सात दिन अच्छपान करके स्निख द्वारा होता है ॥ ६५ ॥

गुडमिक्षुरासं मस्तु श्रीरमुल्लाडितं दधि ।

पायसं कुसरं सर्पिः काश्मर्य-त्रिफला-रसम् ॥ ६६ ॥

द्राक्षारासं पीलुरसी जलमुण्डमथापि वा ।

भद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरच्यते ॥ ६७ ॥

गुड, गन्धे का रस, मस्तु ( दही का द्रव्य भाग ), दूध, विनोई हुई दही ( मढ़ा ), नीर, खिचड़ी, धीं, गम्भारी का रस, त्रिफला ( हरड़, बहेड़, आंबले का रस ), अंगूर का रस, पीलू का रस, गरम जल, नवान मटिरा ( पुरानी नहीं ), इनको वीने से मृदुकोष्ठ, व्यक्तियों को विरेचन हो जाता है। अथांत जिनको इन वस्तुओं के नेवन से विरेचन हो जाय, वह मृदुकोष्ठ होता है ॥ ६६-६७ ॥

विरेच्यन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन ।

भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्लवण्यानिला ॥ ६८ ॥

इन पदार्थों से 'क्रूरकोष्ठ' वाले व्यक्ति को कभी विरेचन नहीं होता। क्योंकि 'क्रूरकोष्ठ' व्यक्ति की ग्रहणी ( नाड़ी ) अति प्रबल वायुवाली होती है ॥ ६८ ॥

उदीर्णपित्ताऽल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता ।

मृदुकोष्ठस्य तस्मात्सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥ ६९ ॥

मृदुकोष्ठ की ग्रहणी और पित्त प्रबल एवं मन्दकफ तथा अल्पवायु युक्त है। इसलिये गुड आदि से उसे विरेचन हो जाता है ॥ ६९ ॥

स्नेह की व्यापत्तियां—

उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निवलं महत् ।

भस्मीभवति तस्याऽशु स्नेहः पीतोऽपिनतेजसा ॥ ७० ॥

स जम्बवा स्नेहमात्रा तामोजः प्रक्षारयन् वली ।

स्नेहाग्निरुत्तमा तृष्णा सोपसर्गामुदीरयेत् ॥ ७१ ॥

नालं स्नेहसमृद्धस्य शमायानं सुगुर्वपि ।

स चेत्सुशीतं सलिलं नाऽसादयति दृष्टते ॥ ७२ ॥

वथैषाऽशीर्णविषः कक्षमध्यगः स्वविषाग्निना ।

जिसको ग्रहणी ( अग्नि का अधिष्ठान-भूमि ) प्रबल पित्तवाली हो ( कफ और वायु से युक्त न हो ), और जिसका अग्निवचन बद्धा होता है, उस पुरुष का पिण्या हुआ स्नेह अग्नि के तेज से शीघ्र भस्म हो जाता है । यह महाबलवान् जाठराग्नि धीये हुए स्नेह को जार्ण करके फिर बलवान् बनकर ओज को घटाती हुई, उपद्रवों से युक्त प्रबल प्यास को पैदा कर देती है । ऐसी अवस्था में स्नेह के कारण बहुत बड़ी हुई जाठराग्नि को शान्त करने के लिये गुरु भोजन भी समर्थ नहीं होता । इसलिये स्नेहगति से प्रबल अग्नि वाले पुरुष को यदि शीतल जल धीने के लिये नहीं दिया जाय तो वह इसी अग्नि से जलने लगता है । जिस प्रकार कि व्यास फूम या कांटों के बांच में फौसा हुआ साप आगी अग्नि रूपी अपने विष से स्वयं जलने लगता है और दुगुने कोध से फुकारे मारता है ॥ ७०-७२ ॥

व्यापत्तियों के उपाय कहते हैं—

अजीर्णं यदि तु स्नेहे तृणा स्याच्छर्दयेद्विषक् ॥ ७३ ॥

शीतोदकं पुनः पात्वा मुक्त्वा रुक्षान्मुक्त्वा खेत् ।

न सर्विः कंबलं पित्तं पर्यं सामं विशेषतः ॥ ७४ ॥

सर्वं द्यनुरजेहेहं हस्त्वा संज्ञां च मारयत् ।

यदि स्नेह के पान में अजीर्णो रसथा अथात् स्नेह के जीर्ण न हुए विना ही प्यास लगने लगे तब वैद्य स्नेह को बमन ते बाहर करा देवे । इसके पीछे शीतल जल और रुक्ष भोजन कराके फिर बमन करा देवे । इसलिये केवल पित्त की प्रवानता में, विशेष कर आम उद्दित पित्त विकार में थी नहीं पीना चाहिये । क्योंकि पित्त के तीक्ष्ण गुणगाला होने से समूर्ण देह में व्यास होने वाला भी रुप स्नेह सारे शरीर में फैल जायगा । शरीर में फैलकर उसको पीला कर देता और चेतना नाश करके प्राण नाश कर देता है ॥ ७३-७४ ॥

तन्द्रा सोत्क्लेशा आनाहो ज्वरः स्वम्भो विसङ्गता ॥ ७५ ॥

कुष्ठानि कण्ठूः पाण्डुत्वं शोकार्थस्यरुचिस्तृष्णा ।

जठरं महणादोषः स्तेमित्यं वाक्यनिप्रहः ॥ ७६ ॥

शूलमामप्रदीपाश्च जायन्ते स्नइविभ्रमात् ।

तत्राप्युज्जेखनं शस्तं स्वेदः कालयाक्षगम् ॥ ७७ ॥

प्रति प्रति व्याधिवलं बुद्ध्वा संसनमेव च ।

तकारिष्टप्रयोगश्च रुक्ष-पानान्न-सेवनप् ॥ ७८ ॥

मूत्राणा त्रिकलायाश्च स्नेह-व्यापत्ति-भेषजम् ।

तन्द्रा ( आलस्य ), उत्क्लेश ( वमन की इच्छा ), आनाह ( अफ़रा ) ज्वर, स्तम्भ ( शरीर की जड़ता ), संज्ञानाश, कुष्ठ, खाज, याण्डुता, शोथ, अर्श, अरुचि, प्यास, मरोड़ा, ग्रहणी रोग, स्तैमित्य ( अंगों का गीले कपड़े में लिपटने का सा भान होना, वा ऐंडन ), वाणी का बन्द हो जाना, उदरशूल, आमदोष, स्नेह के मिथ्यायोग के ये लक्षण हैं । इन लक्षणों के होने पर भी वमन करना चाहिये, हवेद देना चाहिये, समय की प्रतीक्षा करनी ( स्नेह दोष के क्षय होने तक भोजन नहीं करना ) चाहिये, प्रत्येक व्याधि का बल विचार करके जो व्याधि संक्षम योग्य हो उसका संसन करना चाहिये । इसी प्रकार 'तक्षारिष्ट' का प्रयोग, रस ( सूखा ) खान-गन देना आठों प्रकार के मूत्रों और त्रिफला का सेवन करना स्नेह जन्य रोगों की चिकित्सा है ॥ ७५-७८ ॥

रोग होने के कारण—

अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः ॥ ७९ ॥

स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्याप्येतातिसेवितः ।

स्नेह लेने के ठीक समय पर स्नेह न लेने से, जो स्नेह-जिस पुरुष के लिये हितकारी नहीं है उसके सेवन से, उचित मात्रा में न लेने से, स्नह के मिथ्या, अनुचित उपयोग से, और स्नेह के अति सेवन से स्नेह जन्य विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ७९ ॥

स्नेहात्प्रस्कन्दनं जन्तुख्तिरात्रोपरतः पिवेत् ॥ ८० ॥

स्नेहवद्-द्रवमुष्णं च त्रयहं भुक्त्वा रसौदनम् ।

एकाहोपरतस्तद्भुक्त्वा प्रच्छर्देनं पिवेत् ॥ ८१ ॥

स्नेह पान के पीछे पुरुष तीन रात तक ठहरे । इन तीन दिनों में स्नेह मिथित द्रव, उष्ण मांस रस युक्त भात खाकर विरेचन लेवे । एक दिन जिसने आराम किया ऐसा पुरुष पहले की भाँति भोजन करके वमन ( कारक द्रव्य ) पीये ॥ ८०-८१ ॥

स्यात्त्वसंशोधनार्थये दृक्तिः स्नेहे विरिक्तवत् ।

संशमन के उद्देश्य से स्नेहपान करने में विरेचन लिये हुए के समान च्यवहार करना चाहिये ।

विचारणा का प्रयोग—

स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मुदुकोष्टाच्च ये नराः ॥ ८२ ॥

क्लशासहा मद्यनित्यास्तेषामिष्टा विचारणा ।

लाब-त्वैत्तिर-मायूर-हास-वाराह-कौकुटाः ॥ ८३ ॥

गव्याजौरभ्र-मात्स्याश्च रसाः स्युः स्नेहने हिताः ।  
यव-कोल-कुलत्थाश्च भ्नेहाः सगुडशर्कराः ॥ =४ ॥  
दाढिमं दधि सव्योषं रस-संयोग-मंग्रहः ।

जो मनुष्य स्नेह से द्वेष करते हों, जो नित्य प्रति स्नेह का व्यवहार करते हों, मृदुकोष्ठ वाले, कष्ट को सद्गन न करने वाले, जो नित्य मदिरासेवी हों, उनमें विचारणा का प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करने की विधि कहते हैं— बटेर, भेर, हंस, मुअर, मुर्गी, हाथी, बकरा, मेंढा और मछली इनके मांडों का रस स्नेहन किया में हितकारा है । इन मांसरसों का संस्कार करने के लिये जो, बेर, कुलथी, धी या तेल, गुड, शकर अनादाना, दही, सोठ, काली मिर्च, पिप्पली, ये यथायोग्य मिलाने चाहियें ॥ ८२-८४ ॥

स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्धाः सम्नेहफाणिताः ॥ ८५ ॥  
कृशराश्च बहुभ्नेहास्त्रकारबलिकानन्था ।

धी में ( स्नेह में ) भून कर बनाये हुए तिलकुट को भोजन से पूर्व खाने से शरीर का स्नेहन करते हैं । इसी प्रकार बहुत स्नेह वाली खिचड़ी तथा तिल युक्त 'काम्बलिक अर्थात् यूप'—भोजन से पूर्व खाने से शरीर का स्नेहन करते हैं ॥ ८५ ॥

फाणितं शृङ्खवेरं च तैलं च सुरया मह ॥ ८६ ॥  
पिवेद्रूपो भृतैर्मांसैर्जीर्णैऽनीयाच्च भोजनम् ।

फाणित ( आधा पका गन्धे का रस, राब ), अदरख, और तैल इन तीनों को एक करके, शराब में मिलाकर सक्ष व्यक्ति पीये । इसके जीर्ण होने पर भुने हुए मांस से भोजन खाये ॥ ८६ ॥

तैलं सुराया मण्डेन वसां मज्जानमेव वा ॥ ८७ ॥  
पिवेत्सफाणितं क्षीरं नरः स्निहृति वातिकः ।

वातप्रकृति का मनुष्य मद्य, या मण्ड के साथ तैल, वसा या मज्जा को मिलाकर पीये तो स्नेहन होता है । वात प्रकृति का आदमी राब के साथ दूध को पीये तो भी स्नेहन होता है ॥ ८७ ॥

धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पंत्वा सशर्करं पयः ॥ ८८ ॥  
नरः स्निहृति पीत्वा वा सरं दध्नः सफाणितम् ।

धारोष्ण, ताजे दुहे हुए दूध को शर्करा पद्म धी के साथ पीने से शरीर का तुरन्त स्नेहन होता है । अथवा राब के साथ दही की मलाई खाने से भी स्नेहन तुरन्त होता है ॥ ८८ ॥

पाञ्चप्रसूतिकी पेया पाशसो माषमिश्रकः ॥ ८५ ॥

क्षीरसिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेदचिरान्नरम् ।

सपिस्तेल-वसा-मज्जा-तण्डुल-प्रसृतेः शृता ॥ ६० ॥

पाञ्चप्रसूतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता ।

आगे कही जाने वाली ‘पांचप्रसूतिका पेया’ को पांकर मनुष्य शीत्र ही स्तिर्घ बन जाता है । उड़दों को चाबलों में मिकाकर धो आदि स्नेह में खूब भून कर दूध में पकाई ( धो से युक्त ) खोर जल्दी ही स्तिर्घ कर देती है । पांचप्रसूति की पेया—धी, तैल, वना, मज्जा और चाबल प्रत्येक आठ आठ तोड़े लेकर छः गुने जल में पकावे । इसका नाम ‘पाञ्चप्रसूतिकी पेया’ है । स्नेहन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिये ॥ ८६-६० ॥

प्राम्यानूपौदकं मांसं गुडं दधि पयस्तिलान् ।

कुट्टी शाथा प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत् ॥ ६१ ॥

स्नेहैर्यथास्वं तान् सिद्धेः स्नेहयेदधिकारिभिः ।

पिष्पलीभिर्हरीतक्या सिद्धेण्ठलयाऽपि वा ॥ ६२ ॥

कुष्ठ रोगी, शोय ( सोज ) रोगी, प्रमेह रोगी—इनके स्नेहन के लिए ग्राम निनिट मांस, जलीय मांस, गुड, दही, दूध और तिल इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये वस्तुयें इनको बढ़ाती हैं । इन रोगियों के लिये, इन रोगों को नाश करने वाली औषधियां न सिद्ध किये हुए वृत्त आदि स्नेह, एवं इन रोगियों के लिये विकार न करने वाले स्नेहों से इनकी चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा पिष्पली के कल्क या हरीतकी ( हरड़ ) के कल्क अथवा त्रिफला के कल्क द्वारा सिद्ध वृत्तादि स्नेह द्वारा कुष्ठ-रोगी, शोय-रोगी, प्रमेह-रोगी का स्नेहन करना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥

द्राक्षाऽमलक-नूषाभ्यां दध्ना चास्तेन साधयेत् ।

व्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्तिर्घति तन्नरः ॥ ६३ ॥

द्राक्षायूष, आंवले का यूष, और खट्टी दही ( ये मिलित चार भाग ) सोड, मरिव और पिष्पली ( मिलित एक भाग ) इनका कल्क डाल कर उवित मात्रा से धृत सिद्ध करना चाहिये । इस धृत के पान करने से मनुष्य का स्नेहन होता है ॥ ६३ ॥

यव-कोल-कुलतथानां रसाः क्षीरं सुरा दधि ।

क्षारः सपिश्च तस्तिद्धं स्नेहनीयं धृतात्तम् ॥ ६४ ॥

जौ, बेर, कुलधी, प्रत्येक का काय ( रस ), दूध, दही और मय, क्षार

और धी, इनको मिला कर धी सिद्ध करना चाहिये । यह स्नेहन के लिये अंग है ॥६४॥

तैल-मज्ज-वसा-सर्पिंच-दर-त्रिफला-रसैः ।

योनि-शुक्र-प्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् ॥ ६५ ॥

तैल, वसा, मज्ज, धी, वेर और त्रिफला ( ढारड, वहेहा, आंवला ) इनका रस ( काय ) में ( पृथक् वा मिलित चारों स्नेह सिद्ध करने चाहिये ) । यह स्नेह योनिरोग और बीवरोगों में स्नेहन कार्य के लिये उपयोगी हैं ॥६५॥

गृह्णात्यम्बु यथा वस्त्रं प्रस्त्रवत्यधिकं यथा ।

तथाऽग्निर्जीव्यति भ्नेहं तथा स्वार्वात् चाधिकम् ॥ ६६ ॥

जिस प्रकार वस्त्र पानी का उचित मात्रा का ही प्रदण करता है और अधिक पानी निकल जाता है; इस प्रकार अग्नि स्नेह की योग्य मात्रा को ही जीर्ण करतो है, अधिक मात्रा निकल जाती है ॥६६॥

यथा वाऽकलंद्य मृत्युण्डमासिकं त्वरया जलम् ।

स्नवति स्नंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः ॥ ६७ ॥

लबणोपहिताः स्नेहाः स्नेहयन्त्यचिरान्नरम् ।

तद्वयभिष्यन्द्यरुक्षं च सूक्ष्ममुष्टं व्यवायि च ॥ ६८ ॥

स्नेहमग्रे प्रयुक्षीत ततः स्वेदमनन्तरम् ।

स्नेहस्वेदोपयन्तस्य संशोधनमथेतरत् ॥ ६९ ॥

जिस प्रकार मिट्ठी के ढेले पर जलदी से गिरा हुआ बहुतसा पानी, ढेले को गीला करके वह जाता है, और ढेला गलने लगता है, उसी प्रकार जलदी से अधिक मात्रा में पिया स्नेह जलदी से गुदा मार्ग से बाहर नह जाता है । जितने भी स्नेह कहे हैं, वे सब संवेद-लबण के साथ सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र ही स्निग्ध कर देते हैं । क्योंकि नमक अभिष्यन्दि, ( द्रवकारक ) अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवायी गुण वाला है ।<sup>४३</sup> संशोधन करने से पूर्व स्नेहन करना चाहिये । इसके पीछे स्वेदन करना चाहिये । स्नेह और स्वेदन कर चुकने पर पीछे संशोधन अथवा संशमन चिकित्सा करनी चाहिये ॥६७-६९॥

<sup>४३</sup> अभिष्यन्दि होने से दोषरम्भ को तोड़ता है । रुक्ष न होने से स्नेहन करता है । सूक्ष्म होने से शरीर के सूक्ष्म भागों में बुझ जाता है । गरम होने से पिये हुए स्नेह को शीघ्र जीर्ण करता है । व्यवायी होने से स्नेह के साथ सारे शरीर में पैल जाता है ।

तत्र इलोकः ।

स्नेहाः स्नेहविधिः कृत्स्नो व्यापत् सिद्धिः सभेषजा ।

यथाप्रश्नं भगवना व्याहृतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥

स्नेहों के प्रकार, मण्डूर्ण स्नेहविधि, स्नेह की व्यापत्तियाँ और उनकी मैषज-अौषध समेत सिद्धि भगवान् पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश के प्रस्तानु-सार सब कह दी ॥ १०० ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के  
स्नेहाध्यायो नाम ऋयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

### चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथातः स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह ईमाऽऽद् भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब ( स्नेह कर्म के उपरान्त ) स्वेद सम्बन्धी अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

अतः स्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत्प्रयोजितैः ।

स्वेदसाध्याः प्रशास्यन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥ ३ ॥

अब स्वेद विधियों का उपदेश करेंगे, जिनको उचित प्रकार से करने पर स्वेदन से शान्त होने वाले, वात-फफ-जन्य रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥

स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनाऽवर्जितेऽनिले ।

पुरीष-मूत्र-रेतासि न सज्जन्ति कथञ्चन ॥ ४ ॥

पहले स्नेहन कार्य करके वायु को शमन कर लेने पर शरीर में मल, मूत्र और वीर्य ये किसी भी प्रकार रुके नहीं रहते ॥ ४ ॥

शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनेः ।

नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्जीवतो नरान् ॥ ५ ॥

सूखे हुए काठ ( बाल आदि लकड़ियाँ ) भी स्नेहन और स्वेदन द्वारा मन के अनुसार मोड़ी या सांधी को जा सकती हैं, फिर जीवित ( रसयुक्त और कोमल ) मनुष्यों को वैद्य स्या स्नेहन और स्वेदन द्वारा इच्छानुसार परिवर्तित नहीं कर सकेगा ॥ ५ ॥

रोगतु-व्याधितापेक्षो नात्युष्णोऽतिमृदुर्न च ।

**द्रव्यवान् कल्पितो देशे स्वेदः कार्यकरो मतः ॥ ६ ॥**

व्याधि, काल, रोगी पुरुष, इच्छा इनके अनुसार न बहुत गरम, न बहुत कोमल, उस-उस रोग को नाश करने वाले द्रव्यों द्वारा, स्वेदन करने योग्य स्थानों से दिया गया स्वेद कार्य करने में समर्थ होता है ॥ ६ ॥

**व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महाबले ।**

**दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो हितः ॥ ७ ॥**

**वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इच्छते ।**

**स्तिर्घ-रुक्षस्तथा स्तिर्घो रुक्षश्चाप्युक्तलिपतः ॥ ८ ॥**

शीत रोग में और शीतशरीर में महाबलवान् पुरुष के लिये महास्वेद जिते शरीर सहन कर सके उतना ही देना चाहिये । शीत रोग और शीत शरीर वाले निर्बल पुरुष में दुर्बल स्वेद देना चाहिये । 'मध्यम बल' पुरुष में शीत व्याधि और शीत शरीर में 'मध्यम स्वेद' देना चाहिये । वात-कफ-जनित व्याधि में स्तिर्घ और रुक्ष द्रव्यों से बनाया स्तिर्घ-रुक्ष स्वेद देना चाहिये । केवल वातजन्य व्याधियों में स्तिर्घ पदार्थों से स्तिर्घ स्वेद देना चाहिये । केवल कफजन्य व्याधि में रुक्ष पदार्थों से रुक्ष स्वेद देना चाहिये ॥७-८॥

**आमाशयगते वाते कफे पकाशयाश्रिते ।**

**रुक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ ९ ॥**

**वृषणो हृदयं हृष्टी स्वेदयन्मृदुन्तेव वा ।**

**मध्यमं वल्क्षणी शेषमङ्गावयवमिष्ठतः ॥ १० ॥**

वायु यदि आमाशय ( कफस्थान ) में पहुंचा हो तो प्रथम स्नेहकर्म न करके रुक्ष कर्म करे जिससे कफ निकल जाय । फिर वायु को शान्त करने के लिए स्नेहन कार्य करे । इसी प्रकार जब कफ पकाशय ( वात स्थान ) में पहुंचा हो तब पहिले रुक्ष कार्य न करके स्नेहन कार्य करे ( जिससे कि वायु की शान्ति हो फिर कफ की शान्ति के लिये रुक्ष कार्य करे ) हृदय, आँख, इनका मृदु स्वेद द्वारा स्वेदन करना चाहिये । यदि दूसरी चिकित्सा से कार्य चल जाय, तो स्वेद बिलकुल न करे । वंकण रिथित रोग में वंकणों में मध्यम स्वेद देना चाहिये । शेष अगों को ( रोगी की ) इच्छानुसार स्वेदन करे ॥१०॥

**मुगुद्वैर्लक्षैः पिण्डया गोधूमानामथापि वा ।**

**पश्चोत्पल-पलाशैर्वा स्वेदः संदृत्य चक्षुषी ॥ ११ ॥**

**मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतल्लभैर्जनरेपि ।**

**जडार्द्दिर्जलजैर्हस्तैः रिथितो हृदयं रप्तशेत् ॥ १२ ॥**

**धूल आदि दूषक पदार्थों से रहित, रुई से, रुई के बलों से अथवा गेहूं**

की पोटली बांध कर आंख पर स्वेद देना चाहिये । स्वेद देने से पूर्व आंख को कमल, या नीला कमल इनके पत्तों से ढांप लेना चाहिये । शीतल मोतियों की मालाओं से, शीतल पात्रों से, जल से भोगे कमलों से और हाथों से स्वेदन किये जाते रोगी व हृदय को स्पर्श करता रहे ॥११-१२॥

**शीत-शूल व्युपरमे स्तम्भ-गौरव-निग्रहे ।**

**संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ १३ ॥**

सरदी और बेदना हट जाने पर, शरीर में जड़ता तथा भारीपन प्रतीत न होने पर और शरीर में कोमलता उत्पन्न होने से, तथा शरीर पर पसीना आ जाने पर स्वेद देना बन्द कर दे ॥१३॥

**पित्तप्रकोपो मूर्छा च शरीर-सदनं तृष्णा ।**

**दाहः स्वेदङ्ग-दोर्बल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥**

**उत्कस्तस्याशिताये यो ग्रेष्मकः सर्वशो विधिः ।**

**सोऽतिस्विन्नस्य कर्तव्यो मधुरः रित्याशीतलः ॥ १५ ॥**

अतिस्वेदन के लक्षण और उपचार—अतिस्वेद देने से पित्त का प्रकोप, मूर्छा, शरीर में सुस्ती, प्यास का लगाना, जलन, परीने का बहुत आना, अंगों में निर्बलता आ जाती है । अतिस्वेद के लिये 'तस्याशिताय' ( अध्याय ६ में ) कही हुई ग्रीष्म श्वसु की मधुर, स्निग्ध, शीतल गुणवाली सम्पूर्ण परिचर्या ( मध्य विधि को छोड़ कर ) करे । यह अतिस्वेद की विकित्ता है ॥१४-१५॥

**कषाय-मद्य-नित्यानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम् ।**

**पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मधुमेहिनाम् ॥ १६ ॥**

**विद्यर्थ-भ्रष्ट-ब्रन्धानां त्रिष्ठ-मद्य-विकारणाम् ।**

**श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूलानां पित्तमेहिनाम् ॥ १७ ॥**

**तृष्ण्यतां क्षुधितानां च क्रुद्धानां शोचतामपि ।**

**कामल्युदरिणां चंच श्रान्तानामाद्वरोगिणाम् ॥ १८ ॥**

**दुर्बलातिविशुष्काणामुपक्षीणोजसां तथा ।**

**भिषक् तैमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेत् ॥ १९ ॥**

स्वेद न देने योग्य व्यक्ति—जो बात-कफ प्रकृति के मनुष्य नित्य प्रति पाचनादि कषायों और मद्य का सेवन करते हों, गर्भवती, रक्त-पित्त रोगी, पित्त प्रकृति या पित्त जन्य रोग वाले व्यक्ति, अतिसार रोगी, रूक्ष प्रकृति, मधुमेही, सब प्रकार के प्रमेह रोगी, इनमें भी खात कर मधुमेह के रोगी, जिनकी गुदा पक गई हो, या गुदा बाहर आ गई हो, विषरोगी, या नशे में मस्त अथवा

शराब से उत्पन्न रोगवाला, परिश्रम बरने से थके, मूर्छित, बेहोश रोगी, स्थूल-चर्चीवाले पुरुष, पित्तजन्य प्रमेही, प्यासे पुरुष, भूखे, क्रोधी, शोक-चिन्ता-ग्रस्त, कामला, उदर रोगी, कुष्ठ रोगी, वात रक्त रोगी, निर्बल, बहुत रुक्ष शरीर वाले, जिनका आङ छीण हो गया हो उनका, तथा तिमिर रोगियों को स्वेद नहीं देना चाहिये । ( परन्तु तीव्र व्याधि में अल्पस्वेद दिया जा सकता है ) ॥१६-१६॥

प्रतिश्याये च कासे च हिक्का-इवासेष्टलाघवे ।

कर्णमन्या-शिरःग्लृष्टे स्वरभेदं गलग्रहे ॥ २० ॥

अर्दितकाङ्ग-मर्वाङ्ग-पक्षाधाते विनामके ।

कोष्टानाह-विवन्धेषु शक्राधाते विजम्भके ॥ २१ ॥

पाइर्व-पृष्ठ-कटी-कुक्षि संग्रहे गृध्रसौषु पु च ।

मूत्रकृच्छ्रे महत्त्वे च मुष्कयोरङ्गमदके ॥ २२ ॥

पादोरु-जानु-जह्नातिं-संग्रहे श्वयथावर्ण ।

खल्हीष्वामेषु शाते च वंपथो वातकण्टकं ॥ २३ ॥

संकोचायामश्लेषु स्तम्भन्तौरव-सुमिषु ।

सर्वाङ्गेषु विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते ॥ २४ ॥

स्वेद योग्य व्यक्ति—जुकाम, खांसा, हिक्का, दमा, शरीर का भारीपन, कान की दर्द, मन्या-शूल, घिरावेदना, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित ( चेहरे का लकवा ), एकांग वात, सवाङ्ग वात, पक्षाधात रोग, विनामक ( दण्डापतानक आदि ) में, पेट का अफ्तर, मल-मूत्र के अवरोध में ( कब्ज ), शुक के अवरोध, जम्माई का अधिक आना, पाइर्वशूल, पृष्ठवेदना, कटिशूल, कुक्षिशूल, एघ्रसी रोग, मूत्रकृच्छ्र रोग, अण्डवृद्धि, सारे शरीर में वेदना, पांव की वेदना या ऐंठन, छुटना अथवा जंडा की पीड़ा अथवा ऐंठन, खल्ही अर्थात् हाथ-पांव के ऐंठन में, आम रोग, शीतावस्था, कंपकपी, वातकण्टक, गुलफ़ाशित वात रोग, शूल-वेदना, स्तम्भ ( शरीर की जड़ता ), भारीपन, अंग का सो जाना या सर्वांगान का अभाव, शून्यता, ज्वरादि और वात-श्लेष्मा आदि रोगों की दशाओं में स्वेद देना हितकारी है ॥२०-२४॥

स्वेदन द्रव्य—

तिल-माष-कुछलत्या-मल-घृत-तैलामिष्ठैदनैः ।

पायसैः कूशरेमासैः पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

गा-खगेष्टु वराहाश्व-शकृद्धिः सतुष्येवै ।  
 सिक्ता-पाण्डु-पाषाण-कर्णाषायस-पूष्टके ॥ २६ ॥  
 इलाजिकान् स्वेदयेत् पूर्वैर्वातिकान् ममुपाचरेत् ।  
 द्रव्याण्येतान् शस्यन्ते यथाहृतं प्रस्तरेष्वपि ॥ २७ ॥  
 भृगु-इषु च जेन्ताकेपूष्णाभंगृहेषु च ।  
 विनूपाङ्गारतस्त्रैष्यकः स्विद्यति ना सुखम् ॥ २८ ॥

तिल, उड़र, कुञ्जी, आण ( चांगोरी-बौपनिया ), घृत, तैल, ओदन-वके हुए चावर, खोर ( मावा-दूध का खोया ), ( तिल और मांस की खिचड़ी ), मास, इन पदार्थों को गोचार कर बना कर 'पिण्ड स्वेद'का प्रयोग करना चाहिये । रुक्ष स्वेद के द्रव्य—गाय का गोवर, गधे का मल, ऊंठ का मल, सुअर का मल और शोड़े की लांद, छिल्कों थाले जौ, रेता, पांचु ( धूली-नारीक रेत ), पत्थर ( इंट का ) चूरा, छाना ( अरना ) का चूर, आश्व-लोहे का चूरा, इनका पाटड़ी बनाकर कफ रोगियों को स्वेद देना चाहिये और तिल, उड़र आदि में वातरोगियों को स्वेद देना चाहिये । पिण्ड स्वेद को 'संकर स्वेद' कहते हैं । ये तिल आदि पदार्थ प्रस्तर स्वेद में भी प्रशस्त हैं । नाड़ी स्वेद—भूमि को लोद कर बनाया हुआ घर, जेन्ताक अर्थात् कृत्रिम विधि से गरम किया हुआ घर, उष्ण गर्म अर्थात् हमाम-विना खिड़काके घर, इनमें, वातहर, या कफहर लकड़ियों को जलाकर, धुवें रद्दित अंगारों से इन घरों को गरम करके, शरीर का स्नेहन करने के पीछे मनुष्य सुखपूर्वक स्वेद ले सकता है ॥ २५-२८ ॥

प्राम्यानूपौदकं मांसं पयो बस्तशिरस्तथा ।  
 वराह-मध्य-पित्तासूक्ष्म-स्नेहवत्तिल-तण्डुडाः ॥ २६ ॥  
 इत्यतान् समुत्काश्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ।  
 देश-काल-विभागज्ञा युक्त्यपेक्षा भिषक्तमः ॥ ३० ॥  
 वारुणामृतवैरण्ड-शिग्र-मूलक-सर्षपैः ।  
 वासा-वश-करञ्जार्क-पत्र-इमन्तकस्य च ॥ ३१ ॥  
 शोभाज्ञनक-शरेय-मालवी-सुरसार्जकैः ।  
 पत्रैरुत्काश्य सलिले नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥  
 भूर्तीक-पञ्चमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना ।  
 मूत्रैरस्त्वेष्व सस्नेहैर्नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥  
 एत एव च निर्यूहाः प्रयोन्या जलकोष्ठके ।

स्वेदनार्थं घृत-क्षीर-तैल-कोषांश्च कारयेत् ॥ ३४ ॥

नाडीस्वेद के लिए—ग्राम्य ( पालतू ) पञ्च और जलीय जन्तुओं का मांस, दूध, बकरी का शिर, सुअर का मध्यभाग, पित्त, रक्त, परण्ड के बीज, तिल ( तुष्णि रहित ) इन सबको यथायान्य उत्ताळकर नलिका द्वारा स्वेद देवे । देश, काल के विभाग को समझने वाला और युक्ति-प्रयोगविधि जानने वाला वैद्य स्वेद देवे । यह स्वेद वात रोग में हितकारी है । वरना, गिलोय, ऐरण्ड, सहजन, मूली के बीज, बांसा, रेणु, करञ्ज, आक, पाशाणमेद और चागेरी के पत्ते लाल सहजन, शिलाहा, अनक ( तुलसी मेद ) इनके पत्तों का और छालों का भी काय करके देश, काल के विभाग को जानने वाला, युक्ति का समझने वाला वैद्य नाडीस्वेद देवे, यह स्वेद कफ जन्य रोगों में हितकारी है । भूतोक ( बड़ी अजवायन ), पञ्चमूल ( बृहस्पत्नमूल वात कफ हर हाने से ), सैरेय ( ज़िटी ), दही का पानी ( मस्तु ), आठों प्रकार के मूत्र, अम्लवर्ग से, स्नेह, घृत, तैल आदि के साथ काय करके वात-कफ में नाडीस्वेद देना चाहिये । ये ग्राम्य मांस आदि तीनों निर्यूह ( काय ) क्रम से, वात जन्य, कफ जन्य, और वात-कफ जन्य रोगों में 'जल कोषुक' अर्थात् इनके काथों से भरे द्रोणांपात्र में खड़ा करके आदमी को स्वेद देवे । स्वेदन के लिये धी का कोठा ( कोण्ठ ), दूध का कोठा, या तैल का कोठा भी बना लेना चाहिये ॥ २६-३४ ॥

गोधूम-शक्कलैश्चूणीर्यवानामम्लसंयुतः ।

सस्नेह-किण्व-लवणरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥

गन्धैः सुरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्टया ।

उमया कुष्ठतेलाभ्यां युक्तया चोरनाहयेत् ॥ ३६ ॥

चर्मभिश्च पनद्वन्यः सलोमभिरपूतिभिः ।

उष्णवीर्यरलाभे तु कौशेयाविकशाटके ॥ ३७ ॥

रात्री बद्धं दिवा मुख्नेमुख्नेद्रात्री दिवाकृतम् ।

विदाह-परिहारार्थं, स्थापकर्षस्तु शीतले ॥ ३८ ॥

उपनाह विधि-गोहुं का दरकच चूर्ण, जौ का चूर्ण, कांजी, तैल, मद्यकिट के साथ मिलाकर गरम करके उपनाह ( पुलटिस ) बांधना वातजन्य रोगों में उपकारी है । चन्दन अगरु आदि सुगन्धित पदार्थ मध्य पात्र में बैठे तड़छट-प्रक्षेप, जीवन्ती सौंफ, कफ जन्य रोगों में इनकी पुलटिस लगावे । अलसी, कूठ और तैल से पुलटिस तैयार करे, इसे वात-कफ रोगियों में प्रयोग करे दुर्गन्ध रहित, बालोंवाली एवं उष्ण वीर्य वाली खालों से लेप को बांध देना चाहिये । और जब ऐसे चमड़े न मिले तो रेशमी बब्लों से या ऊन से कम्बल से

बांधना चाहिये । रात्रि में प्रलेप लगाकर बांधे हुए बन्धन को दिन में खोल देना चाहिये । दिन में बांधे बंधन को रात में खोल देना चाहिये । जिससे कि जलन उत्पन्न न हो । शीत ( हैमन्त और शिशिर ) काल में बंधी रहने में कोई डर नहीं दिन में बंधी पट्टी रात भी रह जाय, तो कोई डर नहीं ॥ ३५-३८ ॥

**संकरः प्रस्तरो नाडी परिषेकोऽवगाहनम् ।**

जेन्ताकोऽश्वमधनः कर्षुः कुटी भूः कुम्भिकंच च ॥ ३९ ॥

कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदशा ।

तान् यथावत्प्रवद्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः ॥ ४० ॥ इति ।

स्वेदकर्म के तेरह प्रकार हैं १. संकर, २. प्रस्तर, ३. नाडी, ४. परिषेक, ५. अवगाहन, ६. जेन्ताक, ७. अश्वमधन, ८. कर्षु, ९. कुटी, १०. भू ११. कुम्भिक, १२. कूप, १३. होलाक, ये तेरह प्रकार के स्वेद हैं । इन तेरह स्वेदों को क्रमशः कहते हैं ॥ ३९-४० ॥

तत्र वस्त्रान्तरितैरवस्थान्तरितेर्वा पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं संकरस्वेद इति विद्यात् ॥ ४१ ॥

( १ ) संकरस्वेद—तिल, माष आदि पदार्थों का पिण्ड बनाकर वस्त्र में लपेट कर अथवा विना वस्त्र में लपेटे ही गरम करके स्वेदन कार्य करने का नाम 'संकर-स्वेद' है ॥ ४१ ॥

शूक-शमी-धान्य-पुलाकानां वेसवारायस-कृशरोक्तकारिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोक्त्तर-प्रच्छुदे पद्माङुलोरुबकार्कपत्र-प्रच्छुदे वा स्वभृत्यक्त्त-सर्व-गात्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात् ॥ ४२ ॥

( २ ) प्रस्तर स्वेद—शूक धान्य ( चावल गेहूँ आदि ), शमी धान्य ( मूंग, उड्ड, चना आदि ), पुलाक ( चावल रहित धान्य, पटास ), वेसवार, पायस ( मावा, खोया ), कृशरा, तिल, उड्ड की बनी यवागू, उत्कारिका ( उड्ड की बनी पूरी या दूवा ), आदि वस्तुओं को गरम करके, पत्थर ( अथवा काष्ठ आदि कही वस्तु पर फैलाये हुए ) रेशम, कम्बल ( ऊनी वस्त्र ) को फैलाकर, अथवा ऐरण्ड, उठवक ( छोटा ऐरण्ड ), या आक के पत्ते को फैलाकर इन पर औषध लगा देवे । फिर सारे शरीर पर स्नेह लगा कर इन पत्तों या वस्त्र पर लेट कर स्वेद लेने का नाम 'प्रस्तरस्वेद' है ॥ ४२ ॥

स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मूल-फल-पत्र-गुजारीनां मूग-शकुनि-पिण्डित-शिर-स्पदादीनामुण्णस्वभावानां वा यथार्दमप्ल-लवण-स्नेहोपसंहितानां मूत्रक्षी-रादीनां वा कुम्भ्यां वाष्पमनुद्भवन्त्यामुत्कथितानां नाड्या शरेषीका-वृंश-

दृष्टि-करज्ञार्क-पत्रान्यतम-कृतया गजाय-हस्त-संस्थानया व्यामन्दीर्घया  
व्यामधेदीर्घया वा व्यामचतुभारीगाष्ठभागमूलाप्रपरिणाहस्तोतसा सर्वतो  
बातहर-पत्र-संघृत-चिछिद्रया द्विस्त्रिवां विनामितया बातहर-सिद्धस्तेहा-  
भ्यक्तगात्रो बाष्पमुपहरेत्, बाष्पो हानुर्धर्वगामी विहृत-चण्ड-वेगस्त्वच-  
मविदहन सुखं स्वेदयर्तीति नाडीस्वेदः ॥ ४३ ॥

( ३ ) नाडीस्वेद—गहिले कहं हुए स्वेदन द्रव्यों के मूल, फल, पत्र  
और कोपल और पशु, पक्षी इनका मांस, शिर, पांव आदि उष्ण स्वभावयुक्त  
अथवा यथायोग्य अम्ल, लवण एवं स्नेह युक्त, आठों प्रकार के मूत्र, गौ  
आदि के दूध और मस्तु को घड़े में बन्द करके इसके मुख को ढक्कन से बन्द  
कर दे पिर इस को गरम करे । इस घड़े में शर, ईंटीक आदि से बनी नलिका  
( नली ) को लगाकर इसके द्वारा बातहर तैल से स्तिर्घ धुरुप को स्वेद देना  
चाहिये । नलिका का स्वरूप सरकण्डा का अगला भाग, पत्ता, बांस का पत्ता,  
करंज का पत्ता, आक का पत्ता इन में से किसी की नलिका बनाले । नली  
हाथी की सूँड के समान ऊपर से मांटों नीचे पतली मुख पर से गोल हो, तथा  
व्याम अर्थात् पुरुप के दोनों हाथ फैला लेने पर इस लम्बाई के बराबर लम्बी,  
अथवा आधे व्याम लम्बी, और जड़ से अग्र तक व्याम के चौथाई भाग घेर  
में, वा व्याम का आठांचं भाग होना चाहिये । और नाड़ी के चारों ओर  
जितने भी छेद हों, उन सब को बातनाशक एरण्ड आदि के पत्तों से बन्द  
करके दो या तीन बार टेझी धूमा कर पत्र के मुख में लगी हुई नलिका से  
बाष्प रोगी को देने चाहियें । दो तीन बार टेझी-मेझी धुमाने से बाष्प ऊपर  
की ओर न जाकर, प्रबल वेग से त्वचा की न जलाता हुआ सुखपूर्वक स्वेदन  
करता है ॥ ४३ ॥

वातिकोत्तरवातिकानां पुनर्मूलादीनामत्काथैः सुखोष्णैः कुम्भीर्व-  
र्षणिकाः प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथार्हसिद्धस्तेहाभ्यक्तगात्रं बस्त्रावच्छल्नं  
परिषेचयेदिति परिषेकः ॥ ४४ ॥

( ४ ) परिषेक स्वेद—बातनाशक एवं विशेष रूप से त्रिदोषनाशक द्रव्यों  
के मूल, फल, पत्र, शुग आदि को सुखदायक क्षाथ—जिसे शरीर सहन कर  
सके हतने गरम क्षाथ को सचिद्र वर्तन के ढक्कन में छेद रखकर जिससे बाष्प  
निकल सकें, अथवा वर्तन में नाली लगाकर यथायोग्य स्नेह से स्तिर्घ शरीर  
बाले मनुष्य को कपड़ों से समर्पण रूप में ढांप कर स्वेद देना चाहिये ॥ ४४ ॥

बातहरोत्काथ-क्षीर-सैल-धृत-पिशित-रसोष्ण-सलिल-कोष्ठकाष्ठगाहस्तु  
यथोक्त एवावगाहः ॥ ४५ ॥

(५) अवगाह स्वेद—बात नाशक द्रव्यों से काथ, थी, तैल, मांस रस गरम पानी बनाकर 'कोठी' लकड़ी का बना हुआ बड़ा पात्र जिसमें मनुष्य बैठ सके उसमें बैठकर स्थान करना अवगाहन है ॥४५॥

अथ जेन्ताकं चिकीषुभूमि परीक्षेत्—तत्र पूर्वस्या दिश्युत्तरस्यां वा गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परीबाप-पुष्टकारण्यादीनां जलाशयनामन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सूपतीर्थे सम-सुविभक्त-भूमि-भागे सप्ताष्ट्रे वाऽरबीरूपकम्योदकात्प्राद्-मुखमुद्दम्बुद्धं वाऽभिमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्, उत्सेधविस्तरतः परमरक्षीः षोडश, समन्तात्सुवृत्तं मृत्कर्मसंपज्ञमनेकवातायनम् । अस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततो भित्तिमङ्ग्रीविरतारोत्सेधां पिण्डिकां कारयेदाकपातात्, मध्ये चारय कूटागारस्य चतुष्कष्टकुमात्र-पुरुषप्रमाणं मृत्मयं कुन्दसंस्थानं बहु-सूक्ष्म-चिछ्रमङ्गार-कोष्ठक-स्तम्भं सपिधानं कारयेत्, तं च खादिराणामाइवकर्णादीनां वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदीपयेत्, स यदा जानीयात्साधुदग्धानि काष्ठानि, विगतधूमान्यवरतम् च केवलमधिना तदग्निगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति, तत्रैनं पुरुषं वातहराभ्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत्, प्रवेशयैङ्गचैनमनुशिष्यात्—“साम्य ! प्रविश कल्याणायाऽराम्याय चेराति, प्रविश चेनां पिण्डिकामधिरूपं पार्श्वापरपार्श्वाभ्यां यथासुवृत्तं शर्यायाः, न च त्वया स्वेद-मूच्छर्ढा-परीतेनापि सता पिण्डिकैषा चिमोक्त्व्याऽप्राणोच्छ्रद्धात् । सात्, भ्रश्यमानो ह्यतः पिण्डिकावकाशाद् द्वारमनाधगच्छन् स्वेद-मूच्छर्ढा-परीततया सद्यः प्राणान् जहाः, तस्मात्तिंष्ठिण्डिकामेनां न कर्थं चन मुच्छ्रथाः, त्वं यदा जानीया विगताभिष्यन्दमात्मानं सम्यक् प्रस्तुत-स्वेद-पिच्छं सर्व-स्रोतां-विमुक्तं लघुभूतमपगत-विवन्ध-स्तम्भ-सुमिन्वेदना-गौरव-मिति, ततस्ता पिण्डिकामनुसरन् द्वारं प्रपद्येथाः, निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थं शीतोदकमुपस्थृशेथाः, अपगत-सन्ताप-क्लमस्तु मुहुर्तात्सुखोष्णेन वारिणा यथान्यायं परिविक्तोऽश्रीयाः—इति जेन्ताक-स्वेदः ॥ ४६ ॥

(६) जेन्ताक स्वेद—जेन्ताक स्वेद करने की इच्छा करने वाला वैद्य सब से प्रथम भूमि की परीक्षा करे । इसके लिये मनुष्य के निवास स्थान से पूर्व अपवा उत्तर दिशा में जो भूमि-प्रदेश ( वृक्ष आदि के उत्पन्न होने से ) प्रशस्त एवं गुणवान् तथा सुन्दर हो, काढ़ी मिट्टी वाला या स्वर्ण ( पीढ़ी

मिट्ठी ) मिट्ठी का हो, तालाव, पुष्करिणी, बावड़ी अथवा बड़े तालाव के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जहां पर किनारे का अच्छा घाट बना हो, जहां भूमि ऊंची नीची न हो, बिल्कुल समान हो । ( २ ) कृटागार निर्माण—वहां पर पानी से सात या आठ हाथ पीछे हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर पूर्व-पश्चिम स्तर अथवा जलाशय के दक्षिण किनारे पर उत्तरपश्चिमस्तर कृटागार बनाना चाहिये । यह कृटागार ऊंचाई में १६ हाथ और चौड़ाई में १६ हाथ चारों ओर से गोलाकार बहुत रोशनदानी वाला मिट्ठी से लिंग पुता कर तैयार करना चाहिये । इस प्रके के अन्दर दिवार के चारों ओर किंवदं तक एक हाथ भर ऊंची चबूतरी बनानी चाहिये । मध्य में चार हाथ विस्तृत पुरुष के परिमाण की मिट्ठी से बनी, कन्दूक आकार की बहुत सूखम, छोटे २ छिंदी वाला अंगार कोष्ठ स्तर स्तम्भ बनाये, और इस का ढक्कन भी बनाये । ( ३ ) स्वेदन विधि—इस भाड़ को खैर, अशकर्ण ( बड़े पत्तों वाला ढाक ) का लकड़ियों से भरकर जला देवे । जिस समय यह मालूम हो जाए कि लकड़ियां भरो प्रकार जल उक्की, धुंआ नहीं रहा, और घर भी आग से गरम हो गया है तथा पसोना देने की योग्यता वाली गरमी से युक्त है, तब बातहर तैल से स्तिरंग एवं बख्ख से ढोके हुए पुरुष को इस घर में प्रवेश करावे । प्रवेश कराने से पूर्व उस को समझा दे कि—हे सौम्य ! कल्याण, मंगल और आरोग्यता के लिये इस घर में प्रवेश करो । इस घर में प्रविष्ट होकर इस चबूतरे के ऊपर दक्षिण पाश्वर से, या बाम पाश्वर से, जिससे चाहो उस पाश्वर से (जैसे आराम मिले, बैसे) सुखपूर्वक लेटो । परन्तु ऐसीने आने से उत्तम मूर्छां के कारण व्याकुल होने पर भी इस चबूतरे को प्राणों के रहने तक बिल्कुल मत छोड़ा । क्योंकि इस चबूतरे पर से फिरल कर दर्बाजे को न पाकर मूर्छां की व्याकुलता के कारण प्राण निकल जायेंगे । इसलिए चबूतरे को बिल्कुल न छोड़ना । जिस समय कफ का जोर घट जाय, पक्षीना भी सब स्त्रों से भली प्रकार निकल जाय, सारे छिद्र खुल जायें, शरीर हल्का हो जाय, मल बन्ध, जहता, स्पर्श ज्ञान का अभाव, पीड़ा और भारीपन शरीर में नहीं रहे, उस समय चबूतरे के साथ साथ चलकर दर्बाजे के पास पहुंच जाना और बाहर निकल कर आंखों की रक्षा के लिये सहसा शीतल जल का प्रयोग न करना कुछ देर ठहर कर जब यकान और गरमी, शिथिलता दूर हो जाय तब योड़े गरम पानी से इच्छानुसार स्नान करके भोजन करना ॥ ४६ ॥

श्यानस्य प्रमाणेन घनामश्ममर्यी शिलाम् ।

तापयित्वा माहूतद्वैर्दर्शभिः संप्रदीपितैः ॥ ४७ ॥

व्यपोद्धय सर्वानङ्गाराम् प्राक्षय चवाण्णारिणा ।  
 ती शिलामथ कुर्वीत कौषेयाचिक-संस्तराम् ॥ ४८ ॥  
 तत्स्यां स्वभ्यक्तसर्वाङ्गः स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् ।  
 कौरवाजिन-कौषेय-प्रावारायैः सुसंवृतः ॥ ४९ ॥  
 इत्युक्तोऽमधनस्वेदः, कर्पूरस्वेदः प्रवक्ष्यते ।

( ७ ) अश्मधन स्वेद विधि—पुरुष लेट सके, इतनी बड़ी लम्बी, चौड़ी, मजबूत पत्थर की बनी शिला को; वातनाशक ( देवदार या अगर आदि ) लकड़ियां जलाकर गरम करे । गरम होने पर सब अंगारों को दूर हटा दे, शिला पर गरम पानी छिङ्क देवे ( जिससे कि ऊपर की गरमी बाहर हो जाये ) सब अंगों पर तैल का अम्यंजू करके मनुष्य सांता हुआ सूत का चादर, मृग चर्म, रेशमी चादर कम्बल आदि भड़ी प्रकार आढ़कर मुख पूर्वक स्विन्न होता है । इस प्रकार अश्मधन स्वेद बता दिया गया, अब कर्पूर-स्वेद बताया जाता है ॥ ४७-४९ ॥

खानयेच्छयनस्याधः कर्पूर्, स्थानविभागचित् ॥ ५० ॥

दीप्तैरथूमैरङ्गारैस्ता कर्षु पूर्येत्ततः ।

तस्यामुपरि शश्यायां स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् ॥ ५१ ॥

( ८ ) कर्पूर-स्वेद विधि—श्यान के विभाग को जानने खाला बैठ शश्या के नीचे हाण्डा के आकार का एक गोल गड्ढा बनावे । इस गड्ढे को जलते हुए परन्तु धूमरहित अंगारों से भर दे । इस गड्ढे के ऊर खाट बिछाकर लेटने से सुख पूर्वक पासीना आता है ॥ ५०-५१ ॥

अनन्त्युत्सेधविस्तारा वृत्ताकारामलोचनाम् ।

घनभित्ति कुटीं कृत्वा कुष्ठायैः संप्रलेपयेत् ॥ ५२ ॥

कुटीमध्ये भिषकशश्यां स्वास्तीर्णं चोपकल्पयेत् ।

प्रावाराजिन-कौषेय-कुथ-कम्बल-नोलकेः ॥ ५३ ॥

इसन्तिकाभिरङ्गार-पूर्णभिस्ता च सर्वशः ।

परिवार्यान्तरार-हेदभ्यक्तः स्थिद्यते सुखम् ॥ ५४ ॥

( ९ ) कुटीस्वेद विधि—न बहुत ऊंचा और न बहुत चौड़ी गोलाकार, रोशनदान रहित (जिसमें वायु के लिये छेद न हो) तथा मोटी दिवारों वाली कुटी बनाये । इस घर को अन्दर से कुछ आदि उण्डवीर्य द्रव्यों से लेर देना चाहिये । इस लियी कुटी के बीच मैं बैठ लम्बी, चौड़ी शश्या बनाये । इस शश्या के चारों ओर अंगारों से भरी अंगीठियां रख देवे । फिर व्याप्रचर्म, मृगचर्म, रेशम, कम्बल, चित्र विचित्र गरम बख शश्या पर बिछाकर, लपेट लेने चाहिये । शरीर

पर स्नेह लगाकर स्वेद लेना चाहिये । इस प्रकार सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है ॥ ५२-५४ ॥

य एवाश्मघनस्वेद-विधिर्भूमौ स एव तु ।

प्रशस्तायां निवातायां समायामुषदिश्यते ॥ ५५ ॥

( १० ) भू-स्वेद विधि—जो विधि अश्मघन स्वेद की है, वही भू-स्वेद की है । इस स्वेद के लिये भूमि उत्तम, वायु रहित तथा समान हो जंची-नीची नहीं होनी चाहिये ॥ ५५ ॥

कुम्भी वातहर-काथ-पूर्णा भूमौ निखानयेत् ।

अर्धभागं विभागं वा शयनं तत्र चोपरि ॥ ५६ ॥

स्थायरयेदासनं वाऽपि नातिसान्द्र गरिञ्छदम् ।

अथ कुम्भाणं सुसन्तप्तान् प्रक्षिप्यदयसो गुडान् ॥ ५७ ॥

पाषाणांश्चोद्यमा तनं तत्स्थः स्विद्यति ना सुखम् ।

सुसंवृताङ्गः स्वभ्यक्तः स्नेहरनिलनश्नेः ॥ ५८ ॥

( ११ ) कुम्भी-स्वेद विधि—घड़ को वातहर देवदाह आदि के काथ से भरकर भूमि में आवा या तिहाई भाग गाढ़ देना चाहिये । इसके ऊपर एक खाट बिछा दे । खाट के ऊपर बहुत गहरा मांटा कपड़ा न बिछाना चाहिये । फिर लोहे के गोले, या पत्थरों को खूब गरम करके भूमि में या गड़ी और वात हर काथ से भरो कुम्भा ( घड़ ) में गिरा दे । इनकी गरमी से, शय्या के ऊपर अंगों का लपेट कर लेटे हुए, शरीर पर वातनाशक स्नेह का मर्दन किये हुए पुरुष को सुखपूर्वक स्वेदन हांता है ॥ ५६-५८ ॥

कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेध्यतः ।

देशे निवाते शस्तं च कुर्यादन्तः सुमार्जितम् ॥ ५९ ॥

हस्त्यश्व-गो-खराण्डाणां करीषैर्दर्घपूरिते ।

स्ववच्छन्नः सुरांस्तीर्णेऽभ्यक्तः स्विद्यति ना सुखम् ॥ ६० ॥

( १२ ) कूप-स्वेद—जितनी जगह पर खाट बिछती हो, उतने स्थान पर शय्या के बराबर लम्बा, चौड़ा एक गड्ढा लांडे । इस गड्ढे की गहराई दुगनी हो । इस कुए को वायु रहित स्थान पर बनावे इस कुए को अन्दर भली प्रकार लेप कर साफ़ स्वच्छ कर लेना चाहिये । इस गर्ते में हाथी, बोड़े आदि के शुष्क मल ( गोटों को ) को ढाल कर जला देना चाहिये । जब धुआ निकलना बन्द हो जाय तब इस कूप के ऊपर चारपाई बिछा कर कोई बज्जे इस पर बिछाकर, शरीर पर वातहर तैल मर्दन करके, व्याप्रचर्म, मृगवाञ्छा, कम्बल आदि ओढ़कर लेटने से सुख पूर्वक स्वेद हो जाता है ॥ ५९-६० ॥

धीतिका तु करीषाणा यथोक्ताना प्रदीपयेत् ।  
 शयनान्तःप्रमाणेन शय्यामुपरि तत्र च ॥ ६१ ॥  
 सुदग्धाया विधूमाया यथोक्तामुपकल्पयेत् ।  
 स्ववच्छन्नः स्वपैस्तत्राभ्यक्तः स्वित्यति ना सुखम् ॥ ६२ ॥  
 होलाकस्वेद इत्येष सुखः प्रोक्तो महर्षिणा ।  
 इति द्रयोदशविधः स्वेदोऽग्निगुणसंश्रयः ॥ ६३ ॥

( १३ ) होलाक स्वेद—हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊंट इनके छानों ( भल ) को लम्बी परन्तु गोलाकार ( धीतिका अर्थात् चिता के रूप में ) बना कर जला देना चाहिये और जब यह चिता धूम रहित हो जाय, तबे इस पर यथांक शय्या आदि विलाकर, बातहर तैल का मर्दन करके, उष्ण बख ओढ़कर सोने से सुखपूर्वक पसीना आता है । यह सुखकारक होलाकस्वेद है । ये तेरह प्रकार के स्वेद अग्नि के अधीन हैं, इनका महर्षि ने उपदेश किया है ॥ ६१-६३ ॥

व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरणं क्षुधा ।  
 बहुपानं भयक्रोधावृपनाहाहवातपाः ॥ ६४ ॥  
 स्वेदयन्ति दृशीतानि नरमर्मिनगुणाद्वते ।

अग्निरहित स्वेद—व्यायाम ( शारीरिक भ्रम ), उष्ण सदन ( वायु और शीत स्पर्श रहित तहखाना भूमि के नीचे के गरम घर ), कम्बल आदि भारी वस्त्र, क्षुधा ( भूख ), बहुपान ( गरम पानी या मद्य आदि का बहुत पीना ), भय, क्रोध, उपनाह ( पुलिस ) आहव ( युद्ध ), आतप ( धूप ), ये दस अग्नि के विना भी शरीर में स्वेदन करते हैं ॥ ६४ ॥

इन्युक्तो द्विविधः स्वेदः संयुक्तोऽग्निगुणैर्न च ॥ ६५ ॥  
 एकाङ्ग-सर्वाङ्ग-नातः स्तिर्ग्न्धो रूक्षस्तथैव च ।  
 इत्येतद् द्विविधं द्वन्द्वं स्वेदमुद्दिश्य कीर्तितम् ॥ ६६ ॥  
 स्तिर्ग्न्धः स्वेदैरूपकम्य स्विन्नः पथ्याशानो भवेत् ।

तदहः स्विन्नग्रात्रस्तु व्यायामं चर्जयेन्नरः ॥ ६७ ॥

इस प्रकार से दो प्रकार की स्वेद कह दिया; अग्नि गुण वाला और अग्नि-गुण रहित, एकांग और सर्वांग स्वेद, स्तिर्ग्न्ध एवं रूक्ष स्वेद, इस प्रकार तीन प्रकार के दो-दो स्वेदों को कह दिया, स्तिर्ग्न्ध मनुष्य की स्वेद द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । स्वेदन हो जाने पर पथ्य भोजन करना चाहिये । स्वेद दिया भनुष्य उस दिन व्यायाम को न करे ॥ ६५-६७ ॥

तत्र इलोकाः । स्वेदो यथा कार्यकरो हितो येऽव्यञ्जयद्विधः ।  
 यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्ष्यञ्च यो यथा ॥ ६८ ॥

स्विन्नातिस्विन्नरूपाणि तथाऽतिस्विन्नभेषजम् ।  
 अस्वेद्याः स्वेदयोग्याश्च स्वेदद्रव्याणि कल्पना ॥ ६६ ॥  
 त्रयोदशविधः स्वेदो विना दशविधोऽग्निना ।  
 संग्रहण च षट् स्वेदाः स्वेदाध्याये निदर्शिताः ॥ ७० ॥  
 स्वेदाधिकारे यद्गान्ध्यमुक्तमेतन्महर्षिणा ।  
 शिष्यैस्तु प्रतिपत्तव्यमुपदेष्टा पुनर्वसुः ॥ ७१ ॥ इति ।

किस प्रकार से स्वेद कार्य कर सकता है, किनके लिये उपकारी है, किस प्रकार, किस स्थान पर, कैसा स्थान, किस प्रकार रक्षा करनी, समयक् स्विन्न, अतिस्वेद के लक्षण, अतिस्वेद की चिकित्सा, स्वेद के धयोग्य और स्वेद के योग्य, स्वेदन व्यव्य, तेरह प्रकार का स्वेद और विना अग्नि के दस प्रकार का स्वेद, संक्षेप रूप में छः स्वेद—ये सब स्वेदाध्याय में कह दिया । स्वेद अधिकार में जो कुछ कहना चाहिये था वह सब महर्षि ने कह दिया है । शिष्यों को ठीक २ प्रकार समझना चाहिये, इसके उपर्योग करने वाले पुनर्वसु आवेद हैं ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुरुक्ते  
 स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

### पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथात उपकल्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह म्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब उपकल्पनीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

इह खलु १३ जानं राजमात्रं वाऽन्यं विपुलद्रव्यं संशृतसंभारं वमनं विरेचनं वा पाययितुकामेन भिषजा प्रागेवौपधपानात्संभारा उपकल्पनीया भवन्ति, सम्यक्षैव हि गच्छत्वौषधे प्रतिभोगार्थाः, व्यापने औषधे व्यापदः परिसंख्याय प्रतीकारार्थाः । नहि संनिष्ठे काले प्रादुर्भूतायामापदि सत्यपि क्रयाक्रये सुकरमाश संभरणमौषधानां यथावदिति ॥ ३ ॥

इस लोक में राजा अथवा राजा के समान ठाठ वाले पुरुष को या बहुत घन और नौकर चाकरो थाले किसी रईस को वमन, विरेचन देने की इच्छा करने

बाले वैद्य को चाहिये, कि, औषध पिलाने से पूर्व ही सब आवश्यक वस्तुएं अपने पास एकत्र कर ले । क्योंकि यदि औषध ठीक प्रकार से काम कर गई तो ये वस्तुें पिर काम में आ जायेंगी और यदि प्रयोग से कुछ तकल्पक हो गई तो इनकी सहायता से प्रतिकार किया जा सकेगा । और यदि सब आवश्यक उपकरणों को सभीप में न रखा जाय तो उपद्रव हो जाने पर, तुरन्त बाज़ार से खरीद कर सब वस्तुओं को लाना भी उतना सरल नहीं होता जितना कि प्रथम से ही सब वस्तुओं का संग्रह करना सरल है ॥ ३ ॥

एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमन्तिवेश उवाच—ननु, भगवन् ! आदावेष ज्ञानवता तथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविहिते सिद्ध्येदैवोषधमेकोन्तेन, सम्यक्प्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्टा, व्यापञ्चासम्यक्प्रयोगनिमित्ता । अथ सम्यगसम्यक् च समारब्धं कर्म सिद्ध्यति व्यापद्यते वाऽनियमेन, तुल्यं भवति ज्ञानमज्ञानंनंति ॥ ४ ॥

ऐसा कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले—भगवन् ! ज्ञानवान् वैद्य को पहिले से ही चाहिये कि वह संशोधन देने से पूर्व रोगी के बल, आयु, किया, सहनशक्ति, सर्व, देश, काल, दोष का बलावल, प्रकृति आदि बातों का विचार करक योग्य मात्रा में औषध पियावे । जितस कि औपर्युक्त देने पर वह औषध निश्चय से ही गुणकारी सफल हो । क्योंकि सब कार्यों को भली प्रकार उचित रोति से करने पर सफलता अवश्य होती है । अनुचित रोति से करने पर आपत्तियों का हाना भी निश्चित है । और यदि ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म उचित या अनुचित रूप से करने पर कर्म सिद्ध हो जाता है, और कभी तिद्द नहीं होता, तो ज्ञान अज्ञान के समान ही है, पढ़ना न पढ़ना वरावर हो जाता है ॥ ४ ॥

तमुवाच भगवानात्रयः—शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्मद्विधर्वाऽप्यभिवेश ! यथा प्रतिविहिते सिद्ध्येदैवोषधमेकोन्तेन, तत्प्रयोगसोप्त्वमुपदेष्टुं यथावत् न हि कश्चिदस्ति य एतदेवमुपदिष्टमुपधारयितुमुत्सहेत, उपधार्य वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोक्तुं वा, सूक्ष्माणि हि दोष-भेषज-देश-काल-बल-शरीराहार-सात्म्य-सत्त्व-प्रकृति-वयसामवस्थान्तराणि यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः ? । तस्मादुभयमेतद्यथावदुपदेष्ट्यामः सम्यक्-प्रयोगं चौषधानां व्यापत्तानां च व्यापत्साधनानि सिद्धिरूत्तरकालम् ॥५॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! औषध देने पर निश्चय रूप से सफल हो, ऐसा औषधोपचार करना हम वा हम जैसे तपोबल द्वारा

रजस्, तमस् से निरुक्त हुए पुरुषों से ही सम्भव है और इस प्रयोग का सफलता को पूरे पूरे रूप से उपदेश करने के लिये कोई तैयार नहीं। इसी प्रकार ऐसा भी कोई शिष्य नहीं है जो कि इस प्रयोग को यथावत् रूप में जान सके और जानकर प्रयोग ठीक २ प्रकार से कर सके, ऐसा भी कोई आदमी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष में दोष, औषध, देश समय, बल, शरीर, भोजन, सत्त्व, सत्त्व, प्रकृति, और आयु इनकी स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है। इन दोष आदि की सूक्ष्म विवेचना निर्मल एवं विश्वाल बुद्धि वाले पुरुष की भी बुद्धि को चकरा देते हैं, फिर अल्पबुद्धि वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या? इसलिये योङ्गी बुद्धि वाले मनुष्य की बुद्धि को व्याकुल करने के कारण दानों वाते अर्थात् औषधियों का उचित प्रयोग और अोषध प्रयोग के मिथ्यायाग से उत्पन्न आपत्तियों का सिद्धिस्थान में कहेंगे ॥५॥

इदानीं तावत्संभारान्विविधानपि समासेनांपदेश्यामः, तद्यथा-  
द्वं निवातं प्रवातैकेदेशं सुखप्रविचारमनुपत्यकं धूमातपजलरजसामन-  
भिगमनीयमनिष्टानां च शब्द-स्पश-रस-रूप-गन्धानां सादपानोल्खल-  
मुसल-वर्चः-स्थान-स्नान-भूमि-महानसोपेतं वास्तुविद्याकुशलः प्रशस्तं  
गृहमेव तावत् पूर्वमुपकल्पयेत् ॥ ६ ॥

इस अध्याय में संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संक्षेप से उपदेश करेंगे। सबसे पहिले मकान बनाने की विद्या (स्थापत्य कर्म या वास्तुविद्या) को जानने वाला चतुर शिल्पी ऐसा यह बनाये जो मजबूत हो, जिसमें खुदी वायु सामने से न आकर एक पार्श्व से पर्याप्त मात्रा में आ सके। जिसमें रोगी आराम से घूमन्फिर सके, पहाड़ की तराई या पहाड़ पर न बना हो, धूंधा, गरमी, धूप और धूल जिसमें न आ सकें, मन को अच्छे न लगाने वाले शब्द, स्वर्द्धा, रूप, रस और गन्ध जहाँ पर न जा सकें, पानी का घड़ा, ऊखल, मूसल, मलत्याग का स्थान, स्नानघर, रसोई, पाकशाल साथ हों ॥६॥

ततः शीलशौचाचारानुराग-दाक्ष्य-प्रादक्षिण्योपपन्नानुपचार-कुश-  
लान् सर्वकर्मसु पर्यवदातान् सूपौदन-पाचक-स्नापक-संवाहकोत्थापक-  
संवेशकौषधपेषकांश्च परिचारकान् सर्वकर्मस्वप्रतिकूलान्, तथा गीत-  
वादित्रोङ्गापक-झोक-नाथारुयायिकेतिहास-पुराण-कुशलानभिप्रायज्ञान-  
नुमतांश्च देशकालविदः पारिषद्यांश्च, तथा लावक-पिञ्जल-शश-हरिणेण-  
कालपुच्छक-मृग-माटकोरभ्रान्, गां दोषी शीलवतीमनातुरा जीवद्रूत्सां

सुप्रतिविहित-तृण-शरण-पानीया, जलपाठ्याचमनीयोद्देशकोष्टमणिक-य-  
पिठर-पर्योग-कुम्भी-कुम्भ-कुण्ड-शराव-दर्वा-कटोद्धान-परिपचन-मन्थान-  
चर्म-चेल-सत्र-कार्पासोर्णादीनि च, शयनामनादीनि ओपन्यस्त-भृङ्गार-  
प्रतिग्रहाणि सुप्रयक्तास्तरणोत्तर-प्रचल्दोपथानानि स्वापाश्रयाणि संवेश-  
नोपवेशन-नेह-न्वेदाध्यङ्ग-प्रदेह-परियेकानुलेपन-बमन-विरेचना-स्थापना-  
नुवासन-शिरोविरेचन-मूत्रोच्चार-कर्मणामुपचारसखानि, सुप्रश्नालितोप-  
धानाश्च सुश्खण-खर-मध्यमा दृष्टदः, शब्दाणि चोपकरणार्थानि. धूमनेत्रं  
च, वस्तिनेत्रं चोत्तरवस्तिकं च, कुशहस्तकं च, तुला च, मानभाषणं च,  
घृत-तैल-वसा-मज्ज-झौद्र-काणित-लचणनधनोदर-मधु-सीधु-सुरा-सौवी-  
रक-तुषोदक-मेरेय-मेदक-दधि-मण्डोदशिवद्वान्याम्ल-मूत्राणि च, तथा  
शालि-षष्ठिक-मुद्रग-माय-चव-निल-कुलत्थ-चदर-मृदीका-काइमर्थ-पस्त्यका-  
भयामलक-विर्भीतकानि, नानाविधानि च स्नेहस्वेदोपकरणानि नृव्याणि.  
तथैवोर्ध्वहरानुलोमिकोभय-भाङ्गि संग्रहणीय-दीपनीय-पाचनीयोपशम-  
नीय-बातहराणि समाख्यातानि चोषधानि, यज्ञान्यदपि किंचिद् व्यापदः  
परिसंख्ययोपकरणं विद्यात्, यज्ञ प्रतिभंगार्थं; तत्तदुपकल्पयेत् ॥ ७ ॥

इस के उपरान्त पवित्र शुद्ध स्वभाव, निर्मल आचरण के, रोगी से प्रेम  
रखने वाले, कर्मकुशल, सेवाकर्म में दक्ष, अपने २ कर्म में कुशल ( शिक्षित )  
रसोई बाने में हाँगियार रसोइये, स्नान कराने वाले, हाथ पांव मलने वाले,  
शरीर को पकड़ थाम कर खड़ा करने वाले, बिठानेवाले, औषध-दवाईं पाने-  
वाले सब कार्यों में अनुकूल नौकर, गाने बजाने में चतुर, स्तुतिपाठ करने  
वाले, क्लोक, गाथा, कहानी, आस्थायिका, बात-चीत, इतिहास, पुराण आदि  
सुनाने वाले, अभिप्रायों, को उसके इशारों से पहिचाननेवाले, मालिक के मन के  
अनुकूल, देश, काल को समझने वाले यान-दोस्त, सोवायटी के आदमी वहाँ  
रहने चाहिये । इसी प्रकार बटेर, कपिङ्गल ( कबड्डा ), खरगोश, दरिण; काला  
हरिण, कालपुच्छ ( हरिण का भेद ), मृगमातृका ( बड़े पेटवाला हरिण,  
बारहसींगा ), और मेढ़ा इन को मीं एकत्र करना चाहिये । दूध देनेवाला,  
अच्छे शान्त स्वभाव की, रोगरहित, जिसका घड़ा जीता हो, ऐसी गाय रखें ।  
इस गाय के लिये रहने, घास और पानी का अच्छा बन्देवस्त करे, छोटा पात्र,  
आचमन का पात्र, पानी रखने का बड़ा पात्र, मणिक ( मटका ), घड़ा, याली,  
कड़ाही, बड़ा घड़ा, मजबूत छोटा कलसा, कूदा गहरा बर्तन, उकोरा, ढक्कन,  
फड़डी, चटाई, ढाँकने का ऊपर का ढक्कन, तेल पकाने की कड़ाही, रई-

( मध्यानी ), भृगछाल, पुराने ( परन्तु साफ़ धुले ) बल, सूत, कपास, रुई, ऊन तथा लेटने या बैठने के साधनों ( खाट, तकिया, आसन ) के पास में पानी बरतने का गंगासागर, पीकदान, और मुन्दर सफेद चांदनी की भाँति इवेत चादर और तकिया लगा पलंग, सुखपूर्वक बैठने के लिये गाढ़ों, तकिया या आराम-कुर्सी, एवं स्नेहन, स्वेदन अभ्यंग, प्लेय, स्नान, अनुलेपन, बमन, विरेचन, आस्थापन, अनुबासन, शिराविरेचन, मूत्रयाग ( पेशाब घर ) का स्थान, मल-स्थाग का स्थान ( संडास ), उत्तम एवं मुख्कारक तथा साधनयुक्त बनावे । स्वच्छ धुली, चिकनी, खुरदरी, मध्यम रुठ की पत्थर की शिला ( सिल, दबाइ आदि पासने के लिये ) एवं कंची, फांपडा गण्डासा, दरांती आदि शब्द ये सब पदार्थ एकत्र करे । धूमनेत्र-धूग्नलिका, और उत्तर बस्ति का नलिका, बुहारनो ( शाहू ), तराजू, द्रव मापने के लिये पात्र, श्री, तैत्र, वसा, मज्जा, मधु, राब ( आधा पका गुड़ ), नमक, हृष्ण, पान, मधु, सीधु, सुरा, हांजी, तुयांदक, मैरेय, मेदक, दहो, दही का पानी, छाठ, धान्य, कांजी, आठां प्रकार के मूत्र, शालि ( हेमन्त धान्य ), साठा चावल, मूंग, उड्ड, जौ, तिळ, कुलत्थी, बेर, किशमिस, फालसा, हरड़, आंथन्य, बहेड़ा और नाना प्रकार के स्नेह एवं स्वेदन के साधन, बमन, विरेचन के पदार्थ, रग्मणीय, दीपनीय, पाचनीय, शामक, बातनाशक गण की आपसियाँ, तथा इनके अतिरिक्त और भी जो साधन या द्रव्य आपसियों का दूर करने वाले हों, उनको और जो उत्तरोंग के लिये आवश्यक प्रतीत हों, उन सबका एकत्र करना चाहिये ॥ ७ ॥

ततस्तु पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथाह्मुपादयेत् । तं चेद्स्मिन्नन्तरे मानसः शारारो वा व्याधिः कश्चित्तीव्रतः सहसाऽभ्यागच्छेत्तमेव तावदस्योपावत्यितुं यतेत । ततस्तमुपावर्त्य वावन्तमेवैनं कालं तथाविधेत्वं कर्मणोपाचरेत् ॥ ८ ॥

माधव द्रव्य एकत्र करने के उपगन्तु पुरुष को पहिले कही हुई विधि से स्नेह एवं स्वेदन किया करनी चाहिये । स्नेहन और स्वेदन किया करते हुए च में यदि सहसा कोई भयानक तीव्र, शारोरिक या मानसिक व्याधि उत्पन्न जाय तो स्नेहन और स्वेदन बन्द करके प्रथम उत्पन्न व्याधि का प्रतीकार करना चाहिये । इस उपस्थित रोग के प्रतीकार में जितने दिन लगें, उतने दिनों तक रोग को आराम करना चाहिये ॥ ८ ॥

ततस्तु पुरुषं स्नेहस्वेदोपपश्चमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोषितं प्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं स्थित्यनुपहतवस्त्रसंबीतं देवताग्निदिज-गुरु-वृद्ध-वैद्यानर्चितव्यन्तं, इष्टे नक्षत्र-तिथि-करण-मुहूर्ते कारणित्वा

ब्राह्मणान् स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिराशीभिरभिमन्त्रिता मधु-मधुक-  
सैन्धव-फाणितोपहितां मदन-फल-कषाय-मात्रा पाययेत् ॥ ६ ॥

फिर मनुष्य को स्नेह एवं स्वेदन किया से युक्त कराकर, मुखपूर्वक विटाकर, पहिले दिन का खाया भोजन जीर्ण होने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके, शरीर पर चन्दन-अगर आदि द्रव्य लगाकर, माला पहिना कर, उत्तम-स्वच्छ वस्त्र पहिने हुए, देवता, ब्राह्मण, गुरु, दृढ़ और वैद्य की पूजा कराकर, पुण्य नक्षत्र, तिथि मुहूर्त में, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवा कर, प्रशस्त मंगल किया। आशीर्वाद मन्त्रों से अभिमन्त्रित शहद, मुँहैटी, सैन्धव नमक, गुड़ से युक्त मदनफल के कथाय को उचित मात्रा में विलावे ॥ ६ ॥

मदनफल-कथाय-मात्राप्रमाणं तु खलु सर्वसंशोधनमात्राप्रमाणानि च प्रतिपुरुषमपेक्षितव्यानि भवन्ति; यावद्दि यस्य संशोधनं पीतं वैकारिक-दोष-हरणायोपयद्यते; न चातियोगायोगाय, तावदस्य मात्रा-प्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ १० ॥

मदनफल के कथाय की मात्रा, तथा सम्पूर्ण संशोधनों की मात्रा प्रत्येक पुरुष को देखकर निश्चित की जाती है। जितनी मात्रा पान करने पर शरीर के विकार जन्य दोषों को बाहर निकाल सके और अतियोग आदि विकार उत्पन्न न करे, उतनी इस संशोधन औषध की मात्रा वैद्य को समझनी चाहिये ॥

पीतवन्तं तु खल्वेन मुहूर्तमनुकाङ्क्षेत् । तस्य यदा जानीयात्स्वेद-प्रादुर्भावेण दोषं प्रविलयनमापयमानं, लोमहर्षेण च स्थानेभ्यः प्रचलितं, कुक्षिसमाध्मापनेन च कुक्षिमनुगतं, हृष्टासास्यस्ववणाऽऽयामपिचोर्ध्वमुखीभूतमथास्मै जानुसममसंबाधं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छ्वेष्टे ॥ ११ ॥

प्रतिग्रहाश्चोपचारयेत्—ललाटप्रतिग्रहे पाश्वोपग्रहणे नाभिप्रपीडने पृष्ठोन्मदने चानपत्रपनीयाः सुहृदोऽनुसताः प्रयतेरन् ॥ १२ ॥

उचित मात्रा में वमन-ओषध पिलाकर कुछ काल तक एकाग्र चित्त रे ध्यानावस्थित होकर प्रतीक्षा करे और जब पसीना उत्पन्न होकर दोष निकल जावे, शरीर में रोमांच हो तब दोष को अपने स्थान से चलायमान समझे। जब उदर में अफ्कारा प्रतीत हो, उस समय दोष को पेट में आया समझे। जब वमन की इच्छा, और मुख से थूक गिरने लगे उस समय दोष को एकत्र होकर ऊपर की ओर आता हुआ जानना चाहिये। इसके पीछे रोगी मनुष्य को हुटने उठाकर मिलाकर, बैठने को उत्तम गदे और चहर तथा तकिये से युक्त खाट देवे।

बमन करते हुए रोगी को पकड़ कर सहारा देना चाहिये । इसके लिये कोई माये को, कोई पसलियों को पकड़े, कोई पेट को दबाये, और कोई पीठ को मले । इस कार्य में जिनके सामने लगा अनुमत न हो ऐसे मनोनुकूल मित्र सहायता करें ॥११-१२॥

**अथैनमनुशिष्यात्—** विवृतोप्तनालूकण्ठो नातिमहता व्यायामेन वेगानुदीर्णानुदीरयन् किंचिद्वनस्य श्रीवामूर्धशरीरमुषवेगमपवृत्तान् प्रवर्तयन् सुपरिलिखितनवाऽप्याभजुलीभ्यामुत्पल-कुमुद-सौगन्धिक-नालैर्वा कण्ठमनभिस्पृशन् सुखं प्रवत्तयस्व—इति ॥ १३ ॥

स तथाविधं कुर्यात् । ततोऽस्य वेगान् प्रतिग्रहागतानवेक्षेताव-हितः । वेगविशेषदर्शनाद्वि कुशलो योगायोगातियोगविशेषानुपलभेत, वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथार्हमवबुद्ध्येत लक्षणेन, तस्माद्वेगानवेक्षेतावहितः ॥ १४ ॥

इसके अनन्तर वैद्य रोगी को उपदेश दे कि तालु और गला खोल कर बहुत अधिक बल से नहीं, प्रत्युत साधारण शक्ति से बाहर आते हुए वेग को बाहर करे । इसके लिये गर्दन, तथा मुख को आगे की ओर छुका दे तथा अनु-परिष्ठ वेग को बाहर निकालने के लिये खूब अच्छी प्रकार से नखों से रहित दो अंगुलियों, अथवा कमल, कुमुद या सुगन्धित कमल की ढण्डों से धीरे-धीरे गले के भीतर स्थां करे और वेग को बाहर कर देवे । रोगी वैद्य के कहे अनु-सार करे । वैद्य रोगी के वमन किये पदार्थ को सावधानी से देखे । कुशल, चतुर वैद्य वेग को देख कर ही सम्यक् योग, अयोग और अतियोग का अनु-मान कर सकता है । वेग को समझने में चतुर वैद्य वैद्य वेग देखकर लक्षणों से अतियोग आदि के प्रतिकार को ठीक प्रकार से समझ लेता है । इसलिये वैद्य सावधानी से वेगों को देखे ॥१३-१४॥

तत्रामून्ययोग-योगातियोग-विशेषज्ञानानि भवन्ति, तद्यथा—अप्रवृत्तिः कुतश्चित् केवलस्य वाऽप्यौषधस्य विभ्रंशो वेगानामयो-गलक्षणानि भवन्ति । काले प्रवृत्तिरनतिमहतो व्यथा यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं चावस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति । योगेन तु दाष्टप्रसाण-विशेषेण तीक्ष्ण-मृदु-मध्यविभागो ह्येयः, योगाधिक्येन तु फेनिल-रक्त-चन्द्रिकोपगमनमित्यियोगलक्षणानि भवन्ति । तत्रातियोगयोगनि-मित्तानिमानुपद्रवान् विद्यात्-आध्मानं परिकर्तिका परिस्नावो हृदयो-पसरणमङ्गलहो जीवादानं विभ्रंशः स्तम्भः क्लम उपद्रव इति ॥ १५ ॥

अयोग, सम्यक् योग और अतियोग के विशेष लक्षण ये हैं । जैसे किसी विशेष कारण से ( गड़ी में अंगुली आदि ढालने से भी वमन का योद्धा आना अथवा, वमनकारक औषध ही का केवल बाहर आना,) वेगों का रुक जाना ये अयोग के चिन्ह हैं । न तो बहुत जल्दी और न देर में टीक समय पर वमन का आना; वमन करने में कष्ट का अधिक न होना, कम से यहले कफ, फिर पिच्च और अन्त में वायु इन दोषों का बाहर आना; और वमन का अपने आप रुक जाना सम्यक् योग के लक्षण हैं । सम्यक् योग में दोषों के प्रमाणों के अनुसार तीक्ष्ण, मृदु और मध्य भाग होते हैं । वमन के अतियोग से श्वागदार, रक्तमिथित, चन्द्रिका का आना ये अतियोग के लक्षण हैं । अतियोग और अयोग से होने वाले उपद्रवों को जानना चाहिये । अकाश, गुदा में काटने के समान पीड़ा होना, स्वाव होना, हृदय का बाहर आना, अयोन् कलेजे का मुख को आना ( आमाशय का बाहर आना सा प्रतीत होना ), अंगों में वेदना और जकड़ना, रुक का बाहर निकलना, शरीर का विघ्रह ( चक्कर आना ), शरीर को जड़ता, शरीर में थकान, उदासी का होना, ये अयोग और अतियोग के उपद्रव हैं ॥ १५ ॥

योगेन तु खल्वेनं छर्दितवन्तमभिसर्मीक्ष्य सुप्रश्नालित-पाणि-पादास्थं  
मुहूर्तमाध्यास्य, स्नैहकचैरेचनिकोपशनर्नायानां धूमानामन्यतमं साम-  
ञ्चेतः पायित्वा, पुनरेवोदकमुपस्पर्शयेत् ॥ १६ ॥

उपस्थृष्टोदकं चैनं निवातमागारमनुप्रवेश्य संवेश्य चानुशिष्यात्—  
उच्चर्मीष्यमत्यासनमतिस्थानमतिचड्कमणं क्रोध-शोक-हिमातपावश्याया-  
तिप्रवातान् यानयानं प्राम्यथर्मस्थवपनं निशि दिवा स्वप्नं विरुद्धाजी-  
र्णासात्म्याकालप्रमितातिहीन-गुरु-विषम-भोजन-वेग-सन्धारणांदीरण-  
मिति भावानेतान् भनसाऽप्यसेवमानः सर्वमाहारमद्यात्-इति । स तथा  
कुर्यात् ॥ १७ ॥

सम्यक् योग से वमन कर चुकने पर रोगी को देख कर उसके हाथ पांव, मुख धुलवा कर योड़ी देर विश्राम लेने दे । इसके पीछे स्नैहिक, वैरेचनिक या उपशमनीय कोई एक प्रकार का धूम यथाशक्ति पिलाकर फिर पानी से हाथ पांव धुला देवे । पानी से मुंह हाथ धुलाकर वमन किये पुरुष को वायुरहित—  
सीधी वायु जिसमें न था सके, एक पाश्वर्व से आये, ऐसे घर में लेजा कर लेटा दे और निम आदेश करे—ऊंचा बोलना, बहुत देर बैठना, बहुत सोना, बहुत चलना-फिरना, क्रोध, शोक, ठण्डक, धूप, ओस, वायु में अधिक बैठना, घोड़े आदि की उबारी अधिक करना, मैयुन, रात में जागना, दिन में सोना,

विरुद्ध भोजन अजीर्ण, असात्यप्रकृति के प्रतिकूल, अकाल, कुसमय, मात्रा से कम, गुह्य-भारी और विषम भोजन; उपस्थित बोगों को रोकना, अनुपस्थित बोगों को बल पूर्वक बाहर करना, इस प्रकार के कर्मों का विचार मन से भी न करे और सब प्रकार का उचित आहार-भोजन करे। वह रोगी इसी प्रकार करे ॥ १७ ॥

अथैनं सायाहे परे वाऽहि सुखोदकपरिविक्तं पुराणानां लोहितशालि-  
तण्डुलानां स्ववक्तिनानां मण्डपूर्वां सुखोण्णां यवागूं पाययेदग्निवृद्धम-  
भिसमीक्ष्य च, एवं द्विर्तीये तृतीये चान्नकाले । चतुर्थे त्वन्नकाले  
तथाविधानामेव शालितण्डुलानासुर्त्वनां विलेपीमुष्णादकद्वितीयाम-  
स्नेह-लवण्णामल्प-स्नेह-लवण्णां वा भाजयेत्, एवं पञ्चमे षष्ठे चान्नकाले,  
सप्तमे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालानां द्विप्रसृतं सुस्विन्नमादनमुष्णो-  
दकानुपानं तनुना तनु-स्नेह-लवण्णापपन्नेन मुद्रगयूषेण भाजयेत्,  
एव मष्टमे नवमे चान्नकाले, दशमे त्वन्नकाले लावकपिञ्जलादीनामन्य-  
तमस्य मासरसेनोदकलावणिकनापि सारवता भोजयेदुष्णादकानुपानम्,  
एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाले, अत ऊर्ध्वमन्तर्गुणान् कमेणोपभुज्ज्ञानः  
सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत् ॥ १८ ॥

इचके पीछे रोगी को सायंकाल अथवा अगले दिन कुछ गरम पानी से समूर्ण अंगों का स्नान कराये। एक साल पुराने सांठी चावलों का यवागू बना कर जब गल जावे, तब थोड़ी गरम यवागू के ऊपर की माण्ड का पहिल पीछे। फिर अग्नि का बल देखकर शेष गाढ़े भाग को खावे। इस प्रकार दूसर तासरे भोजन के समय भी अग्निगल को देखकर इसी प्रकार का यवागू खाव। चौथे भोजन काल में इसी प्रकार पुराने सांठों के चावलों से ( विलेपी रूप में बनाए ) थोड़े नमक और स्नेहरहित यवागू को गरम पानी के साथ खाये। ( प्रथम दो तीन समयों में जल, नमक और स्नेह नहीं खाना चाहिये )। इस प्रकार पांचवें और छठे अक्ष-काल में चौथे समय के अनुसार बरते। सातवें भोजन समय में पुराने सांठी के चावलों को दो प्रस्तुति लेकर पकाये। इन चावलों को गरम पानी के साथ, थोड़े से धी एवं नमक क साथ मूँग के यूष के साथ खावे। इसी प्रकार आठवें और नवे भोजन के समय में भी करे। दसवें अक्ष-काल में बटेर, कपिञ्जल आदि किसी पशु-न्यक्षी के मास रस के साथ जनी व भाई चावलों की यवागू खाये, तथा गरम पानी ऊपर से पीये। इसी प्रकार ग्यारहवें और बारहवें अक्ष-काल में कम से, मृदु, मध्य, कठिन ( अथवा

गुरु, कठिन मधुर ) पदार्थों को सेवन करने पर सात दिन पीछे अपने स्वाभाविक भोजन को ग्रहण करे ॥१८॥

अथैनं पुनरेव रनेहस्वेदाभ्यासुपपाद्यानुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं कृत-होम-वर्च-मङ्गल-जप्त्य-प्रायश्चित्तमिष्टिति-थिन-क्षम्ब्र-करण-मुहूर्ते ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वा त्रिवृत्कल्काक्षमात्रं यथार्हालोडनप्रतिविनीतं पाययेत् प्रसमीक्ष्य दोष-भेषज-देश-काल-बल-शरीराहार-सात्स्य-सत्त्व-प्रकृति-व्यसामवस्थान्तराणि विकारांश्च । सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनानन्तरलक्षणोक्तेन धूमवर्जेन विधिन्वेपादये-दाबल-वर्ण-प्रकृति-लाभात् । बलवर्णोपपन्नं चैनमनुपहतमनसमभिस-मीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं स्त्रिविणमनुप-हत-वर्धन-संबीतमनुरूपालङ्कारालङ्कृतं सुहृदां दर्शयित्वा ज्ञातीनां दर्शयेत्, अथैनं कामेष्ववसृजेत् ॥ १९ ॥

भवन्ति चात्र—अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः ।

यस्य वा विषुलं द्रव्यं संशोधनमर्हति ॥ २० ॥

दरिद्रस्त्वापदं प्राप्य प्राप्तकालं विरेचनम् ।

पिवेत्काममसंभृत्य संभारानपि दुर्लभान् ॥ २१ ॥

न हि सर्वमनुष्याणां सन्ति सर्वपरिच्छिदाः ।

न च रोगा न बाधन्ते दरिद्रानपि दाहणाः ॥ २२ ॥

यद्यच्छुक्यं मनुष्येण कर्तुमौषधमापदि ।

तत्त्वसेव्यं यथाशक्ति वसनान्यशानानि च ॥ २३ ॥

मलापहं रोगहरं बल-वर्ण-प्रसादनम् ।

पीत्वा संशोधनं सम्यग्यायुषा युज्यते चिरम् ॥ २४ ॥

इसके सात दिन पीछे जब मनुष्य में बल आजाय, तब फिर स्नेहन और स्वेदन कर्म करके, प्रतन्त्र मन देखकर, रात्रि में सुखपूर्वक सोने पर, पहिले दिन का खाया भोजन भली प्रकार जीर्ण होने पर, अग्निहोत्र, बलि, मंगल, जप, प्रायश्चित्त करके, पवित्र तिथि, नक्षत्र मुहूर्त का विचार करके, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करा कर त्रिवृत् करक ( विरेचन द्रव्य ) निशोथ के चूर्ण की एक अक्ष मात्रा, योग्य द्रव्य में मिलाकर पिलावे । औषध देते समय दोष, औषध मात्रा, देश, समय, शरीर, आहार, सात्स्य, सत्त्व, प्रकृति, आयु और रोगों की विवेचना कर ले । समयक् विरेचन होने पर वमन के पीछे की समूर्ण विधि ( धूमप्राप्त को छोड़कर ) करे । जब तक कि शरीर में बल कान्ति न आय,

शरीर स्वाभाविक रूप में न आय, तब तक वमनान्तर की विधि करे । जब बल और वर्ण आजाय, मन भी स्वस्थ हो जाय, तब सुखपूर्वक सुलाकर, खाया हुआ भोजन भली प्रकार पचने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके चन्दन, अगर आदि शरीर में मलकर, माला, स्वच्छ बद्ध पहिना कर, सुन्दर बना कर, आभूषणों से आभूषित करके, मिठों को दिलाकर, जाति, भाई, बन्धुओं को दिलाये और फिर नित्य के उचित आहार-विहार करने का छृट देदे । इस उपरोक्त विधि से राजा अथवा राजा के समान या वहुत धनी आदमी हो संशोधन करवा सकता है । दरिद्र निर्धन व्यक्तिको जब रोग द्वारा जाय और विरेचन लेने का अवसर हो, तो उस समय कठिन उपकरणों को इकट्ठा करना छाँड़कर दवाई पान करावे । सब मनुष्यों को सब साधन नहीं जुट सकते और निर्धन व्यक्तियों को भयंकर रोग भी नहीं सताते ऐसा नहीं, आपत्ति काल ( रोगावस्था ) में मनुष्य जो भी औषध, वस्त्र या खान-पान कर सके, वह यथाशक्ति उसे करना चाहिये । मल-नाशक, रोगनाशक, बल, कान्ति को बढ़ाने वाले संशोधन औषध को पीकर मनुष्य दीर्घायु होता है ॥ २४ ॥

तत्र श्लोकाः—इश्वराणां वसुमतां वमनं सविरेचनम् ।

संभारा ये यदथैं च समानीय प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

यथा प्रयोजयं या भात्रा यद्योगस्य लक्षणम् ।

योगातियोगयोर्यच्च दोषा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६ ॥

यदसेव्यं विशुद्धेन यश्च संसर्जनक्रमः ।

तत्सर्वं कल्पनाध्याये व्याजहार पुनर्वसुः ॥ २७ ॥

इसमें श्लोक हैं—राजाओं के या धनी पुरुषों के वमन, विरेचन कार्य, उपकरण, इनको एकत्र करने का कारण, मात्रा, प्रयोग विधि, अयोग के लक्षण, योग और अतियोग के दोष, और उपद्रव, संशुद्ध व्यक्ति को क्या सेवन करना, किस प्रकार से छोड़ना, ये सब बातें इस 'कल्पनाध्याय' में पुनर्वसु आत्रेय ने कह दीं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्मे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने उपकल्पनीयां

नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

### पोडशोऽध्यायः ।



अथातव्विकित्साप्राभृतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्त्रह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

संशोधन कार्य के अनन्तर 'चिकित्सा प्राभृतीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

चिकित्साप्राभृतो विद्वान् शास्त्रवान् कर्मतत्परः ।

न रं विरेचयति यं स योगात्सुखमभ्रते ॥ ३ ॥

यं वैद्यमानी त्वबुधो विरेचयति मानवम् ।

सोऽतियोगादयोगाच्च मानवो दुःखमभ्रते ॥ ४ ॥

चिकित्सा प्राभृत चिकित्सा में कुशल या साधन सम्पन्न विद्वान्, ज्ञानवान्, शास्त्रवान्, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया हुआ, चिकित्सा-कार्य में कुशल वैद्य जिस मनुष्य को बमन, विरेचन द्वारा संशोधन कराता है, वह मनुष्य बमन और विरेचन के सम्यक् योग से सुख भोगता है। अपने को वैद्य मानने वाला सूखे वैद्य जिस मनुष्य का बमन विरेचन द्वारा संशोधन कराता है वह मनुष्य बमन-विरेचन के अयोग या अतियोग के कारण दुःख भोगता है ॥ ३-४ ॥

दौर्बल्यं लाघवं ग्लानिर्व्याधीनामणुताऽरुचिः ।

हृद्वर्णशुद्धिः क्षुत्तृष्णा काले वेगप्रवर्तनम् ॥ ५ ॥

बुद्धीन्द्रियमनःशुद्धिर्मारुतस्यानुलोमता ।

सम्यग्विरिक्तलिङ्गानि कायाग्नेश्वानुवर्तनम् ॥ ६ ॥

सम्यग् विरेचन के लक्षण—शरीर में कमज़ोरी आना, हल्कापन, शरीर में लानि (प्रसन्नता का अभाव), रोगों का घटना, भाँजन में अनिच्छा, हृदय का शुद्ध होना, रंग का निखरना, भूख व्यास, समय पर वेगों का उपस्थित होना, बुद्धि-इन्द्रिय और मन की शुद्धता, प्रसन्नता, अपान वायु का नीचे को जाना और जाठराग्नि का क्रमशः बढ़ना ये सम्यग् योग के लक्षण हैं ॥ ५-६ ॥

षट्ठीवनं हृदयाशुद्धिरुत्क्लेशः इलेष्मपित्तयोः ।

आधमानमरुचिश्छर्दिरदोर्बल्यमलाघवम् ॥ ७ ॥

जड़घोरुसदनं तन्द्रा स्तैमित्यं पीनसागमः ।

लक्षणान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निप्रहः ॥ ८ ॥

विरेचन के अयोग के लक्षण—मुख से थोड़ा र थूक या ओषध का बाहर आना, हृदय की जड़ता, बमन आने की भाँति कफ और पित्त का मुख में आना, पेट में अफारा, भोजन में अनिच्छा, बमन की इच्छा, शरीर में निर्व-ज्ञता का अनुभव न होना, शरीर में भारीपन, जांब और टांग में पीड़ा, नींद का भान, शरीर के अंगों का गँले वस्त्र के तुल्य ठंडा प्रतीत होना, सरदी-जुकाम होना, और अपान वायु का रुक जाना, ये विरेचन के अयोग के लक्षण हैं ॥ ७-८ ॥

बिट्ठ-पित्त-श्लेष्म-बातानामागतात्तर्णं यथाक्रमम् ।  
परं स्वति यद्रक्तं मेदोमांसोदकोपमम् ॥ ६ ॥  
निःश्लेष्मपित्तमुदकं शोणितं कृष्णमेव वा ।  
तृष्ण्यतो मारुतार्तस्य सोडतियोगः प्रमुह्यतः ॥ १० ॥

विरेचन के अतियोग के लक्षण—गुदा से प्रथम कमानुसार मल, पित्त, कफ और वायु बाहर निकलते हैं, परन्तु पीछे से रक्त बहता है। यद रक्त मांसरस, मेद मिथित या कफमिथित अथवा पित्तमिथित पानी की भाँति, या लाठ अथवा काला होता है। रोगी को वायु के कारण ध्वनि और मूर्छा आ जाती है, ये अतियोग के लक्षण हैं ॥६-१०॥

वमनेऽतिकृते लिङ्गान्येतान्येव भवन्ति हि ।  
उर्ध्वंगा वातरोगाश्च नामग्रहश्चाधिको भवेत् ॥ ११ ॥  
चिकित्साप्राभृतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः ।  
युज्याद्य एनमत्यन्तमायुपा च सुखेन च ॥ १२ ॥

वमन के अतियोग में भी यही विरेचन के अतियोग के लक्षण होते हैं। परन्तु शरीर के कटिभाग से ऊपर यातरोग एवं जवान का रुकना, ये लक्षण विशेष-अधिक होते हैं। इसलिये संशोधन कराने वाले मनुष्य को चाहिये कि विद्वान्, कर्मकुशल वैद्य की शरण में जाय जो इस रोगी को वमन-विरेचन द्वारा आयु और सुख से युक्त कर सके, मूढ़ अज्ञानी के पास नहीं ॥११-१२॥

अविपाकोऽरुचिः स्थोल्यं पाण्डुता गौरवं क्लमः ।  
पिण्डका-कोठ-कण्ठूनां संभवोऽरतिरेव च ॥ १३ ॥  
आलस्य-श्रम-दौर्बल्यं दौर्गन्ध्यमवसादकः ।  
इलेष्म-पित्त-समुत्क्लेशो निद्रानाशोऽतिनिद्रा ॥ १४ ॥  
तन्द्रा क्लैञ्च्यम्बुद्धित्वमशस्त-स्वान-दर्शनम् ।  
बल-बण-प्रणाशश्च तृष्ण्यतो बृंहणेष्वपि ॥ १५ ॥  
बहुदोषस्य लिङ्गानि, तस्मै संशोधनं हितम् ।  
ऊर्ध्वं चैवानुलोम्यं च यथादोषं यथाबलम् ॥ १६ ॥

संशोधन योग्य व्यक्ति—अपचन, अरुचि, मोटापा (स्थूलता), पाण्डुता, निस्तेज, पीलापन, शरीर का भारीपन, विना परिभ्रम के थकान चढ़ना, उदासी, शरीर पर छोटी शुक्नियां होना, कोठ (छपे) उठना, खाज का होना, बेचैनी, आलस्य, यकान, निर्बंलता, शरीर से दुर्गन्ध आना, मन को अवसर्जना, सुस्ती, कफ या पित्त का बढ़ना, नींद का न आना, अथवा नींद का बहुत

आना, नयुसकता, निश्चाहता, बुद्धिमन्द्य बुरे भयानक स्वप्नो का आना, बल और कान्ति का नाश होना, पुष्टिकारक आहार खाने पर शरीर का पुष्ट न होना, जिसके शरीर में इनमें से बहुत से लक्षण हों तो उसमें सब दोष बढ़े हैं यह समझकर संशोधन करना हितकारी है । इसलिये अविपाक आदि लक्षणों को देख कर बल और दोष के अनुसार ऊर्ध्व अनुलोमन ( वमन ) या अधो-अनु-लोमन ( विरेचन ) रूपी संशोधन देना हितकारी है ॥ १३-१६ ॥

एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते ।

व्याधयश्चोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते ॥ १७ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति ।

बलं पुष्टिरप्त्यं च वृषता चास्य जायते ॥ १८ ॥

जरां कुच्छ्लेण लभते चिरं जीवत्यनामयः ।

तस्मात्संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिबेन्नरः ॥ १९ ॥

दोषाः कदाचित्कृत्यन्ति जिता लड्यनपाचनैः ।

जिताः संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ २० ॥

दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सति ।

रोगाणां प्रसवानां च गतानामागतिप्रदुर्वा ॥ २१ ॥

भेषजक्षपिते पथ्यमाहारेव बृहणम् ।

घृत-मास-रस-क्षीर-हृद्य-यूषोपसंहितैः ॥ २२ ॥

अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैन्निरुहैः सानुवासनैः ।

तथा स लभते शर्म युज्यते चाऽऽयुषा चिरम् ॥ २३ ॥

संशोधन का फल—इस उपरोक्त विधि से मनुष्य का कोष्ठ ( उदर ) साफ़ होने पर जाठराग्नि बढ़ जाती है, रोग शान्त हो जाते हैं, शरीर स्वामाविक अवस्था में आ जाता है । इन्द्रियां, मन-बुद्धि और कान्ति निर्मल हो जाती है । शरीर में बल, शक्ति, सामर्थ्य, संतान और पुरुषत्व उत्पन्न हो जाता है । बुद्धापा देर में आता है और नीरोगी होकर मनुष्य देर तक जीता है । इसलिये मनुष्य दोष-संचयकाल में और संशोधन काल में वमन-विरेचन कार्य को युक्तियुक्त रूप में करे । लंघन ( उपवास ) और पाचन रूपी संशमन किया द्वारा वश में किये हुए दोष कभी फिर भी ( समय मिलने पर ) कुपित हो सकते हैं; परन्तु जो दोष संशोधन कार्य के द्वारा वश में कर लिये जाते हैं, वे फिर कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते । क्योंकि—दोषों या वृक्षों का मूल अवशेष रहने पर रोगों अथवा नष्ट होने पर रोगों की उत्पत्ति फिर हो जानी सम्भव होती है । औषध द्वारा दोष की जड़ कट जाने पर संशुद्ध हुए पुरुष को पथ्यकारक एवं शरीर

को बढ़ाने वाले भोजन देवे । यथा वो, मांसरस, दूष, हृदय के लिये द्वितकारी या मन का अच्छे लगने वाले यूप आदि बनाकर देवे । शरीर पर तेल मलना, उघटन लगाना, स्नान, निरुह बस्ति, अनुवासनबस्ति का प्रयोग करे । इस प्रकार करने से सुख मिलता है तथा देर तक आयु का भोगता है ॥१७-२३॥

अतियोग होने पर क्या करना चाहिये—

अतियोगानुबद्धानां सर्पिः पानं प्रशस्यते ।

तेलं मधुरकैः सिद्धमथवाऽप्यनुवासनम् ॥ २४ ॥

यस्य त्वयोगस्तं स्तिर्ग्रंथं पुनः संशोधयेन्नरम् ।

मात्रा-काल-बलापेक्षी स्मरन पूर्वमनुकम्भम् ॥ २५ ॥

स्नेहने स्वेदने शुद्धो रोगाः संसर्जने च ये ।

जायन्ते भार्गविद्विते तेषां सिद्धिषु साधनम् ॥ २६ ॥

जिन पुरुषों में अतियोग के लक्षण हों, उनके लिये उन-उन रोगों को शान्त करने वाली उन औषधियों से तिद्वि किया भ्रूत पान करावे और मधुक अर्थात् जीवनीयगण से सिद्ध तैल अनुवासन बस्ति के रूप में दे । जिस पुरुष में अशोग के लक्षण हों, उसको किर से स्नेह और स्वेद देकर, पूर्व कही हुई मात्रा को, समय, बल आदि को क्रम से स्मरण करता हुआ, किर से संशोधन के लिये देवे । स्नेहन, स्वेदन संशोधन और पेयादि क्रम से विधिपूर्वक किया न होने से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनको चिकित्सा ‘सिद्धस्थान’ में कहेंगे । पहले जो मात्रा दी थी दुबारा उससे कुछ अधिक देवे ॥२४-२६॥

जायन्ते हेतुवैषम्याद्विषमा देहधातवः ।

हेतुसाम्यात्समास्तेषां स्वभावोपरमः सदा ॥ २७ ॥

प्रवृत्तिहेतुर्भीवानां न निरावेऽस्ति कारणम् ।

केचित्त्वत्रापि भन्यन्ते हेतुं हेतोरवत्तनम् ॥ २८ ॥

शरीर को धारण करने वाले जो धातु हैं वे कारणों को विषमता अर्थात् बढ़ने या घटने से बढ़ते या घटते हैं और शरीर के धातु कारण की समानता से समान रहा करते हैं । विषम और सम धातुओं का सदा स्वभाव से नाश होता है । इस समता और विषमता की निरन्तर प्रवृत्ति में ऐसा कारण रहता है जिससे कि उनका बृद्धि और क्षय होता है, अर्थात् साम्य या विषमता के होने में कोई कारण अवश्य होता है, विना कारण इनके स्वाभाविक धर्म में अन्तर नहीं आता । धातु एक क्षण भी विषमावस्था में नहीं रह सकते । यह उनका धर्म है । सब पदार्थों की उत्पत्ति का कारण होता है, परन्तु विनाश कार्य में

कारण नहीं होता । इसलिये कुछ आचार्य पदार्थों के निरन्तर विनाश में कारण की अपेक्षा नहीं करते हैं । कुछ विद्वान् पदार्थों के नाश में उत्पादक या प्रवर्त्तक कारण के अभाव को ही कारण मानते हैं ॥२७-२८॥

एवमुक्तार्थमाचार्यमनिवेशोऽध्यभाषत ।

स्वभावोपरमे कर्म चिकित्साप्राभृतस्य किम् ॥ २९ ॥

भेषजैर्विषप्रमान् धातून् कान समीकुरुते भिषक् ।

का वा चिकित्सा भगवन् किमर्थं वा प्रयुज्यते ॥ ३० ॥

तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसुः ।

इस प्रकार कहते हुए आचार्य पुनर्वसु को लहय करके अनिवेश खोले—  
भगवन् ! शरीर की धातुवें जब स्वतः अपने स्वभाव में आ जाती हैं तब चिकित्सा के साधनों से सम्पन्न वैद्य से कर्म साध्य क्या है । फिर क्या काम ! और तब किन विषम हुए धातुओं के ओषधियों से वैद्य समान करता है ? और यदि धातुओं की विषमता ही सदा रहे, तब चिकित्सा क्या वस्तु है ? और यदि विषमता का नाश सदा होना ही अवश्यगमावी है, फिर वैद्य किस लिये चिकित्सा कर्म करते हैं ? इस प्रकार अनिवेश के वचन को सुनकर पुनर्वसु आव्रेय खोले ॥

श्रूतामन्त्र या सौम्य युक्तिर्द्वारा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥

न नाशकारणभावाद्वावानां नाशकारणम् ।

ज्ञायते नित्यगत्येव काळस्यात्ययकारणम् ॥ ३२ ॥

शीघ्रगत्वाद्यथाभूतस्तथा भावो विषयते ।

निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथाक्रिया ॥ ३३ ॥

याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः ।

सा चिकित्सा विकाराणा कर्म तद्विषज्ञा स्मृतम् ॥ ६४ ॥

कथं शरीरे धातूर्नां वैषयं न भवेदिति ।

समानीं चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ ३५ ॥

त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात् ।

विषमा नानुबन्धनित जायन्ते धातवः समाः ॥ ३६ ॥

समैस्तु हेतुभिर्यस्माद्वातून् संजनयेत्समान् ।

चिकित्साप्राभृतस्तस्मादाता देहसुखायुषाम् ॥ ३७ ॥

धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च ।

दाता संपदते वैद्यो दानाहेहसुखायुषाम् ॥ ३८ ॥

ऐ सौम्य ! जो युक्ति महर्षियों ने बुद्धि द्वारा देखी, वह सुनो । नित्यगत-

शील काल के नाश के कारण की तरह नाश के कारण के अभाव से पदार्थों के नाश का कारण नहीं जाना जाता। कोई भी पदार्थ जैसा उत्पन्न होता है, वैसा ही शीघ्रगामी होने से नष्ट होता है। उनके विनाश में कोई कारण नहीं है। उनमें किसी संस्कार का आधान नहीं किया जा सकता। पदार्थों के नाश होने के कारण का पता नहीं चलता क्योंकि नाश के कारण का ही अभाव है। जैसे-नित्य काल का भी नाश होता दिखाइ देता है, परन्तु इस नाश के कारण का पता नहीं चलता, क्योंकि यह काल बहुत शीघ्रगामी है। धातु-पदार्थ भी काल के समान बहुत शीघ्रगामी है इसलिये इनके नाश का कारण न होने से ही अशात है। धातुओं की पूर्वांवस्था के निरोध में भी कोई कारण नहीं है। जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर के अन्दर विषम हुए धातु समानावस्था में आते हैं, उन क्रियाओं का रोगों की चिकित्सा कहते हैं, यह 'चिकित्सा' वैद्यों का कर्म है। शरीर के अन्दर धातुओं में विषमता उत्पन्न न हो और समान अवस्था में ही धातु सदा बने रहें, इसलिये चिकित्सा क्रिया की जाती हैं। काल, बुद्धि, इन्द्रियार्थों के अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग इन विषम हेतुओं के छोड़ने से, समयोग रूप में कारणों के सेवन करने से धातु विषम नहीं होते, और विषम हुए धातु समान हो जाते हैं। चिकित्सा-कुशल वैद्य समान कारणों से धातुओं को समान बनाने का यत्न करें। इस प्रकार करने से वैद्य शरीर के सुख और आयुष्य अर्थात् दीर्घायु को प्रदान करता है। मनुष्य को शारीरिक सुख और आयुष्य प्रदान करने से वैद्य इहलोक एवं परलोक दोनों लोकों में धर्म, अर्थ और काम ( त्रिवर्ग ) को देने वाला होता है ॥ ३१-३८ ॥

तत्र श्लोकाः—चिकित्साप्राभृतगुणो दोषो यश्चेतराश्रयः ।

योगायोगातियोगानां लक्षणं शुद्धिसंश्रयम् ॥ ३६ ॥

बहुदोषस्य लिङ्गानि संशोधनगुणाश्च ये ।

चिकित्सासूत्रमात्रं च सिद्धि-व्यापत्ति-संश्रयम् ॥ ४० ॥

या च युक्तिश्चिकित्सायां यं चार्थं कुरुते भिषक् ।

चिकित्साप्राभृतेऽध्याये तत्सर्वमवदन्मुनिः ॥ ४१ ॥

चिकित्साप्राभृत में वैद्य के गुण; वैद्य के विपरीत मूढ़ वैद्य के अवगुण, संशोधन के सम्यक्योग और अतियोग के लक्षण; बहुत दोषों के लक्षण, संशोधन के गुण, चिकित्सा का सूत्र रूप, चिकित्सा के युक्तियुक्त होने में शंका-समाधान;

चिकित्सा का प्रयोजन—ये सब वार्ते ‘चिकित्सा-प्राभृतीय’ अध्याय में आत्रेय शृणि ने उपदेश की हैं ॥ ३६-४१ ॥

इत्यनिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सुत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के  
चिकित्साप्राभृतीयो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १६ ॥  
इनि कल्पनाचतुष्कः समाप्तः ॥ ४ ॥

### सप्तदशोऽध्यायः ।

अथातः कियन्तःशिरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह मगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब रोगों को उपदेश करने की इच्छा से ‘कियन्तःशिरसीयं’ नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा मगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

कियन्तः शिरसि प्रोक्ता रोगा हृदि च देहिनाम् ॥ ३ ॥

कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकल्पज्ञाः ।

क्षयाः कति समाख्याताः पिङ्काः कति चानघ ॥ ४ ॥

गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन ।

अग्निवेश ने पूछा कि हे दांप्यों को नाश करने वाले महर्षि ! मनुष्यों के शिर सबन्धी रोग कितने हैं ? हृदय सबन्धी रोग कितने हैं ? वात आदि दोषों के संसर्ग भेद से कुल कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं ? क्षय रोग कितने प्रकार के हैं ? पिङ्कायें कितनी प्रकार की हैं ? और दांप्यों की गति कितने प्रकार की है ? कृपा कर कहिये ॥ ३-४ ॥

हुताशवेशस्य वचस्तच्छ्रुत्वा गुरुत्रबीत् ॥ ५ ॥

पृष्ठवानसि यत्सौभ्य तन्मे शृणु सुविस्तरम् ।

दृष्टाः पञ्च शिरोरोगाः पञ्चैव हृदयामयाः ॥ ६ ॥

व्याधीनां द्रुथधिका पष्ठिदोष-मानविकल्पज्ञा ।

दशाष्टौ च क्षयाः सप्त पिङ्कामाधुमेहिकाः ॥ ७ ॥

दोषाणां विविधा चोक्ता गतिविस्तरतः शृणु ।

सन्धारणाहिवास्वप्नाद्रात्री जागरणान्मदात् ॥ ८ ॥

उच्चर्माद्यादवश्यायात्प्राप्तावादतिमैथुनात् ।

गन्धादसाम्यादाप्राताद्रजो-धूम-हिमातपात् ॥ ९ ॥

गुर्वस्त्वंहरितद्रानादतिशोताम्बु-सेवनात् ।  
 शिरोभितापाद् दुष्टामाद्रोदनाद् वाष्पनिग्रहात् ॥ १० ॥  
 मेघागमान्मनस्तापादेशकाल-विपर्ययात् ।  
 वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्तं च दुष्यति ॥ ११ ॥  
 ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ।

अग्निवेश के वचन को सुनकर गुरु महाराज बोले—हे सौम्य ! जो कुछ तुमने पूछा है उसको ध्यान देकर सवित्तर मुनो । शिर के रोग पांच प्रकार के हैं, और पांच ही प्रकार के दृश्य रोग हैं । दोषों के वात-पित्त-कफ के परिमाण से हानि वाले रोग बासठ (६२) प्रकार के हैं । क्षय अडारह (१८) प्रकार के, प्रमंद मधुमेह के कारण होने वाले पोषे सात प्रकार के, और दोषों की गति तान प्रकार की है । इसी को अब विस्तार से सुनो । मूत्र आदि के उपस्थित वेणों को रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागने से, नशा करने ( मदकारक पदार्थों के सेवन ) से, ऊँचे या अधिक बोलने से, ओस से, सामने की बायु के झोके से, अति छी-संभोग से, असात्म्य अर्थात् प्रतिकूल, गंभ के सूखने से, धूल धुवा वर्फ या धूप के सेवन से, गरिष्ठ, खट्टे, धनिया-मरिच आदि के अधिक खाने से बहुत ठण्डे पानी के सेवन से, शिर पर चोट लगने से, आम के दोष युक्त होने से ( अजीर्ण होने से ), रोने से, आंसुओं को रोकने से, बादलों के आने से, मानसिक विक्षोभ से, देश-काल के बदलने से ( इन के अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग होने से ), ( अथवा भूकम्प, उल्कापात आदि देश के मिथ्यायोग हैं इनसे वात, पित्त और कफ दूषित होकर शिर में रक्त को दूषित करते हैं । रक्त के दूषित होने से आगे कहे जाने वाले नानाप्रकार के लक्षणों वाले रोग शिर में उत्पन्न होते हैं ॥५-१॥

प्राणः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वे निद्र्याणि च ॥ १२ ॥  
 यदुक्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ।

प्राणधारियों के प्राण ( जीवन ) और सब इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियां ) जहां पर हित हैं और जो शरीर के सब अंगों में मुख्य, श्रेष्ठ अंग है, उसको 'शिर' कहते हैं ॥१२॥

अर्धावभेदको वा स्यात्सर्वं वा रुज्यते शिरः ॥ १३ ॥  
 प्रतिश्या-मुख्य-नासाक्षि-कर्ण-रोग-शिरो-भ्रमाः ।  
 अर्दितं शिरसः कम्पो गलमन्या-द्वनुग्रहः ॥ १४ ॥  
 विविधाङ्गापरे रोगा वातादि-क्रिमि-संभवाः ।

पृथग्घट्टास्तु ये पञ्च रंग्रहे परमर्षिभिः ॥ १५ ॥  
शिरोगदास्तान् शृणु मे यथास्वेहतुलक्षणैः ।

शिर में उत्पन्न होने वाले रोग—आधे शिर का दुखना, सारे शिर का दुखना, प्रतिव्याय ( जुकाम, सर्दी ), मुखरोग, नासिका के रोग, आँख के रोग, शिर में चक्रर आना; चेहरे का लकवा, शिर का हिलना, गलग्रह ( गले का बन्द होना ), मन्याग्रह ( गर्दन का इधर उधर न मुड़ सकना ), हनुग्रह ( जबाड़ी मिचना ) और दूसरे बात आदि दोषों तथा कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोग शिर में होते हैं । बात, पिच, कफ, सन्धिप्राप्त और कृमिजन्य ये जो पांच प्रकार के शिरोरोग ( आगे जो अष्टोदरीय अध्याय १६ में ) महर्षियों ने कहे हैं उनमें से एक एक लक्षण सुनो ॥ १३-१५ ॥

उच्चर्भाष्यातिभाष्याभ्यां तीक्ष्णपानात्प्रजागरात् ॥ १६ ॥

शीत-माहत-संस्पर्शाद् व्यवायाद् वेगनिप्रहात् ।

अभिधातोपवासाच्च विरेकाद् वमनादपि ॥ १७ ॥

बाष्प-शोक-भय-वासाद् भार-मार्गोत्कर्षणात् ।

शिरोगता वै धमनोर्बायुराविश्य कुप्यति ॥ १८ ॥

ततः शूलं महत्तस्य वातात्समुपजायते ।

निस्तुद्येते भृशं शङ्खौ धाटा संभिद्यते तथा ॥ १९ ॥

भ्रुवोमध्यं ललाटं च तपतीवातिवेदनम् ।

बध्येते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्ट्येते इवाक्षिणी ॥ २० ॥

घूर्णतीव शिरः सर्वं संधिभय इव मुच्यते ।

स्फुरत्यतिशिराजालं स्तम्भ्यते च शिरोधरा ॥ २१ ॥

स्तिर्गधोष्णमुपशेते च शिरोरोगेऽनिलात्मके ।

ऊंचे बोलने से, बहुत अधिक बोलने से, मद्य आदि तीक्ष्ण पदार्थों के पीने से, रात्रि में जागने से, ठण्डी वायु के स्पर्श से, अतिमैथुन से, मल सूत्रादि के उपस्थित बेगों को रोकने से, उपवास से, शिर पर चोट लगने से, अतिविरेचन से, अतिवमन से, बाष्प ( आंपु ) को रोकने से, शोक से, भय से, भार के उठाने से, अतिमार्ग के चलने से, परिश्रम से वायु कुपित होकर सिर में गया हुआ, रिशाओं में बढ़कर शिरमें महान् शूल को उत्पन्न करता है । इस शूल के कारण शंख ( कनपटियों ) पीड़ित होते हैं, गर्दन फटती है, भ्रुवों के बीच में माये पर बहुत बेदना होती है और माथा बहुत गरम होता है । कानों में गुंजार ( आवाज ) सुनाई देती है, आंखें बाहर निकलती प्रतीत होती हैं, शिर घूमता

हुआ प्रतीत होता है, शिर की सन्धियां फटती प्रतीत होती हैं, शिरोओं के अन्दर घड़कन विशेष ( स्पन्दन ) रूप से प्रतीत होती है, गर्दन जड़ बन जाती है, इधर-उधर नहीं हिलाई जा सकती और स्निग्ध और उष्ण किया आयम देत प्रतीत होती है । ये वातजन्य शिरोरोग के लक्षण हैं ॥१६-२१॥

**कट्टवम्ल-लवण-क्षार-मद्य-कांथातपानलेः ॥ २२ ॥**

पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरोरोगाय कल्पते ।

इष्टते रुज्यते तेन शिरः शीतं सुपूर्यते ॥ २३॥

दहोते चक्षुषी रुष्णा भ्रमः स्वेदश्च जायते ।

आम्यासुखैः स्वप्नसुखैर्गुरु-स्त्रिग्यातिभोजनैः ॥ २४ ॥

इष्टेष्मा शिरसि संदुष्टः शिरोरोगाय कल्पते ।

शिरो मन्दरुजं तेन सुस्पस्तिमितभारिकम् ॥ २५ ॥

भवत्युत्पद्यते तन्द्रा तथाऽस्त्रस्यमरोवक्षम् ।

बाताच्छूलं भ्रमः कम्पः पित्तादादा मदस्तृष्णा ॥ २६ ॥

कफाद् गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ।

तिल-क्षीर-गुडाजीर्ण-पूति-संकोर्ण-भोजनात् ॥ २७ ॥

क्लेदोऽसृक्क-मांसानां दाषमस्योपजायते ।

ततः शिरसि संक्लेदात्क्रियः पापकर्मणः ॥ २८ ॥

जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीमत्सलक्षणम् ।

व्यथच्छेद-रुजा-कण्ठ-द्वाक-दौर्गंव्य-दुःखितम् ॥ २९ ॥

क्रिमिरोगातुरं विद्यात्क्रिमीणां लक्षणेन च ।

पित्तजन्य शिरोरोग—कड़ुबे, खटे, नमकीन, क्षार पदार्थों के सेवन से, शराब के पीने से, क्रोध से, धूप से, आग से, पित्त शिर में कुपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर में जलन और पीड़ा होती है, तथा शीत उपचार अनुकूल पड़ता है । आंखें जलती हैं, प्यास होती है, चक्कर आता है, और पसीना आता है । कफजन्य शिरोरोग में निरद्योगी आलस्य का सुख-मय जीवन व्यतीत करना, दिन में सोना, गुरु, भारी और स्त्रिग्य घी आदि युक्त पदार्थों के अतिमोजन से; ऐष्मा अथोत कफ शिर में कुपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर में धीमी २ वेदना होती है, शिर सेया हुआ ला प्रतीत होता है, शिर जड़ हो जाता है, भारी हो जाता है । तन्द्रा, कार्य में अनिष्टा, आलस्य और भोजन में अव्यवहार उत्पन्न हो जाती है । विदेषजन्य शिरोरोग— वात के कारण चक्कर आना और कम्पन, पित्त के कारण जलन, मूर्जा और प्यास, कफ के कारण भारीजलन, और तन्द्रा, त्रिदोष जन्य शिरोरोग

में होती है। कुमि जन्य विरोरोग—तिल, दूध, गुड़ इनके अधिक सेवन से, अजीर्ण और दुग्धयुक्त सङ्ग गला भोजन करने से, संकीर्ण (बहुत गड़बड़ चीजें मिलाकर) भोजन करने से शिर के बातादि दोष बढ़कर शिर में रक्त, कफ और मांस को दूषित बनाकर रोग उत्पन्न करते हैं। पाप करनेवाले पुरुष के शिर में इस क्षेत्र से कोई उत्पन्न होकर बीमत्स अर्थात् घृणाजनक भयंकर शिरोरोग उत्पन्न करते हैं। इससे काटने, छेदने, के समान पीड़ा, खाज, सूजन, दुर्गन्ध और बहुत अधिक कष्ट होता है। इन लक्षणों को तथा कुमियों को देखकर कुमिरोग समझना चाहिये ॥२२-२६॥

पांच प्रकार के हृदयरोग—

शोकोपवासन्यात्राम-शुष्क-रूक्षात्प-भोजनैः ॥ ३० ॥  
 वायुराविश्य हृदयं जनयत्युत्तमां रुजम् ।  
 वेपशुर्वैष्टनं स्तम्भः प्रमाहः शन्यता दरः ॥ ३१ ॥  
 हृदि वातातुरे रूपं जीर्णं चात्यर्थवेदना ।  
 उष्णाम्ल-लवण-क्षार-कटकाजीर्ण-भोजनैः ॥ ३२ ॥  
 मद्याकाधातपेशाशु हृदिं पित्तं प्रकुप्यति ।  
 हृदाहस्तक्ता वक्त्रे तिक्ताम्लोद्गिरणं झूमः ॥ ३३ ॥  
 तृष्णा मूर्ढां भ्रमः स्वेदः पित्तं-हृद्रोगलक्षणम् ।  
 अत्यादानं गुरुस्तिनग्धमचिन्तनमचेष्टनम् ॥ ३४ ॥  
 निद्रासुखं चाप्यधिकं कफहृद्रोगकारणम् ।  
 हृदयं कफहृद्रोगे सुम-स्तिमितभारिकम् ॥ ३५ ॥  
 तन्द्रा-हृचि-परीतस्य भवत्यश्मावृतं यथा ।  
 हेतु-लक्षण-संतर्गादुच्यते सात्रिगतिकः ॥ ३६ ॥  
 ( हृद्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो महर्षिभिः )  
 त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा नियेवते ।  
 विल-क्षीर-गुडादीनि मन्दिस्तस्योपजायते ॥ ३७ ॥  
 मर्मैकदेशे संक्लेदं रसश्वास्योपगच्छति ।  
 संक्लेदात्रिकमयश्वास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ३८ ॥  
 मर्मैकदेशे गंजाताः सर्पन्तो भक्षयन्ति च ।  
 तुद्यमानं स हृदयं सूचीभिरिव मन्यते ॥ ३९ ॥  
 छिद्यमानं यथा शख्यजीत-कण्ठ-महारुजम् ।  
 हृद्रोगं क्रिमिजं त्वेतैलिङ्गैरुद्ध्रवा सुदारणम् ।  
 त्वरेत जेतुं तं विद्वान् विकारं शीघ्रकारिणम् ॥४० ॥

( १ ) योक, उपवास, व्यायाम ( परिश्रम ), रुक्ष, शुष्क, और स्वल्प भोजनों से कुपित होकर वायु हृदय में जाकर इसको दूषित करके तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है । इससे कम्पन, ऐटन के समान वेदना, जड़ता, मूँछां, दृन्यता ( शान का अभाव ), चक्कर आना आदि लक्षण वातजन्य हृदय वेदना में होते हैं । भोजन के जीर्ण होनेपर ये लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं । ( २ ) पित्तजन्य हृदय शूल—गरम, खट्टे, नमकीन, क्षार, कटु रस के अधिक सेवन से, अजीणांवस्था में भोजन करने से, मद्यपान में, कोध या धूप में बैठने या चलने से, पित्त वातजन्य हृदय में पहुंचकर जल्दी ही कुपित हो जाता है, कुपित होकर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है । इस कारण हृदय में जलन, मुस्त में कड़आपन, खट्टे, पित्तयुक्त डकार का आना, चिना परिश्रम के शकान, प्यास, मूँछां, चक्कर आना, पसीना आना ये पित्तजन्य हृदयशूल के लक्षण हैं । ( ३ ) कफजन्य हृदयशूल—बहुत परिज्ञाम में भोजन करने से, भारी, स्तिर्ग्रथ पदार्थों के सेवन से, चिन्ता न करने या थोड़ा करने, शारीरिक चेताओं के कम करने से, दिन में बेफिकरी से सोने और अधिक सोने से कफ कुपित होकर हृदय में जाकर रस को दूषित करके हृदयशूल उत्पन्न करता है । इसके कारण हृदय सोया हुआ, सुस्त, गीले बल्कि से ढंपा हुआ सा, भारी प्रतीत होता है और आलस्य, असच्च उत्पन्न होती है और ऐसा मालूम होता है कि किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिया हो । ( ४ ) त्रिदोषजन्य हृदय शूल—तीनों दोषों के मिलने से, तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको त्रिदोषजन्य हृदयशूल कहते हैं । ( ५ ) कृमिजन्य—त्रिदोषजन्य हृदयरोग में जो दुरात्मा तिल, दूध, गुड ( अजीणांवस्था में भोजन, सड़ा हुआ भोजन, विरुद्ध भोजन आदि ) सेवन करता है, उसके हृदय के एक भाग में ग्रन्थि ( गांठ ) उत्पन्न हो जाती है तथा रस का संक्लिन्नभाग सड़ने लगता है । रस के संक्लेदन से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं । ये कृमि हृदय के एक भाग में उत्पन्न होकर अन्य रथान में फैलने लगते हैं और हृदय को खाने लगते हैं । इस अवस्था में रोगी को ऐसी वेदना होती है मानो कोइ उसके हृदय में सुईचां चुम्हा रहा है । शब्दों से काँइ हृदय को काटता है, हृदय में बहुत खाज एवं पीड़ा उठती है । इन लक्षणों को देखकर कृमिजन्य भयानक हृदयरोग को समझकर विद्वान् शीघ्र मृत्यु करने वाले रोग को शान्त करना का यत्न करे ॥३०-४०॥

द्रुथुल्घणैकोल्बणैः षट् स्युर्दीनिमध्याधिकैश्च षट् ।

समैश्चैको विकारास्ते सञ्चिपाताख्योदश ॥ ४१ ॥

सीसर्गे नव षट् तेऽध्य एकवृद्धथा समैश्चयः ।

पृथक् त्रयः स्युस्तैवृद्धल्लाघयः पञ्चविंशतिः ॥ ४२ ॥

यथा वृद्धेस्थथा क्षीणंदोषैः स्युः पञ्चविंशतिः ।

वृद्धि-क्षय-कृतश्चान्यो विकल्प उपदेश्यते ॥ ४३ ॥

वृद्धिरेकस्य समता चैकस्यैकस्य रक्षयः ।

द्वन्द्व-वृद्धिः क्षयश्चैकस्यैकवृद्धिर्दोषोः क्षयः ॥ ४४ ॥

वात आदि दोषों के परस्पर संसर्ग से होने वाले विकारों के बासठ ( ६२ )

मेद-बढ़े हुए वात, पित्त, कफ के परस्पर संसर्ग से सन्निपात जन्य तेरह ( १३ )

विकार होते हैं । दो दोषों की अधिकता और एक की न्यूनता से ( वात-पित्त

बढ़े, कफ कम हो, पित्त-कफ बढ़े और वात कम हो, वात कफ बढ़े और पित्त

कम हो ) तीन; एक दोष की वृद्धि और दो दोष की न्यूनता से ( वात बढ़े,

पित्त-कफ न्यून, पित्त बढ़े वायु-कफ न्यून; कफ बढ़े और वायु-पित्त न्यून )

तीन; इस प्रकार छः सन्निपात हैं; हीन, मध्य और अधिक मेद से ये छः

सन्निपात हैं ( जैसे—वृद्ध वात, वृद्धतर पित्त, वृद्धतम कफ; वृद्ध वात, वृद्धतर

कफ; वृद्धतम पित्त; वृद्ध पित्त, वृद्धतर कफ और वृद्धतम वात; वृद्ध कफ,

वृद्धतर वात और वृद्धतम पित्त ) और वात-पित्त कफ तीनों दोषों के बढ़ने से

एक प्रकार का; इस प्रकार से तेरह प्रकार के सन्निपात हैं । अब दो दोषों के

मेद कहते हैं—बढ़े हुए वात, पित्त, कफ इनमें किन्हीं दो दोषों के परस्पर

मिलने से नीं मेद हो जाते हैं । यह संयोग एक-एक दांष की वृद्धि से छः प्रकार

का, और तीनों की समान वृद्धि से तीन प्रकार होता है । छः प्रकार का यथा—

वृद्ध वात अधिक, वृद्ध पित्त; वृद्ध पित्ताधिक, वृद्ध वात; वृद्ध वाताधिक, वृद्ध

कफ; वृद्ध कफाधिक, वृद्ध वात, वृद्ध पित्ताधिक वृद्धकफ, वृद्धकफाधिक

वृद्धपित्त—ये छः प्रकार का । तीन प्रकार का यथा—वृद्ध समवात पित्तज,

वृद्ध समवातकफज, वृद्ध समपित्ताकफज । इस प्रकार से नीं प्रकार का हुआ ।

पृथक् रूप में बढ़े हुए वात, पित्त, कफ से ( अलग-अलग उत्पन्न हुए ) रोग

तीन प्रकार से होते हैं । यथा—वृद्धवातज वृद्धपित्तज और वृद्धकफज । इस

प्रकार बढ़े हुए दोषों से २५ प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार दोषों

के बढ़ने से २५ मेद बनते हैं, उसी प्रकार दोषों के क्षीण होने से भी पचीस

मेद बन जाते हैं । वृद्धि और क्षय द्वारा उत्पन्न मेदों के अतिरिक्त दोषों के

अन्य मेद बनलाते हैं । यथा—एक दोष की वृद्धि, एक दोष की समता, और

एक दोष का क्षय । यथा—वृद्ध वात, समपित्त, क्षीण कफ; वृद्ध वात, सम कफ,

क्षीण पित्त; वृद्ध पित्त, सम वात, क्षीण कफ; वृद्ध पित्त, सम कफ, क्षीण पित्त;

बृद्ध कफ, सम पित्त; क्षीण वात; बृद्ध कफ, सम वात, क्षीण पित्त ये उः प्रकार। दो दोषों की बृद्धि और एक दोष का क्षय, यथा—बृद्ध पित्त कफ, क्षीण वात; बृद्ध वात कफ, क्षीण पित्त; बृद्ध वात पित्त, क्षीण कफ, यह तीन प्रकार का। एक दोष की बृद्धि और दो दोषों का क्षय—यथा बृद्ध कफ, क्षीण वात-पित्त, बृद्ध पित्त क्षीण कफ-वात, बृद्ध वात क्षीण पित्त-कफ ये तीन। इस प्रकार से ये बारह भेद उपरोक्त पचास भेद से पृथक् हैं। कुल मिलकर बाष्ठ (६२) भेद हो जाते हैं ॥४१-४४॥

प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः इलेघ्मणः क्षये ।  
स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ ४५ ॥

तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः ।  
गात्रेदेशे भवत्यस्य श्रमा दौर्बल्यमेव च ॥ ४६ ॥

सार्थे स्थितं कर्षं वायुः क्षीणे पित्ते यदा वर्णा ।  
कर्षेत्कुर्यात्तदा शूलं सशैत्य-स्तम्भ-गौरवम् ॥ ४७ ॥

यदाऽनिलं प्रकृतिं पित्तं कफपरिक्षये ।  
संरुणद्धि तदा दाहः शूलं चायोपजायते ॥ ४८ ॥

इलेघ्माणं हि समं पित्तं यदा वातपरिक्षये ।  
निपीडयेत्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरवं ऊरवम् ॥ ४९ ॥

- प्रवृद्धो हि यदा इलेघ्मा पित्ते क्षीणे समीरणम्।  
रुच्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतकं गौरवं रुजम् ॥ ५० ॥
- समारणे परिक्षीणे कक्षः पित्तं समत्वगम्।  
कुर्वीत संनिरुद्धानो मृदुगित्वं शिरोप्रहम् ॥ ५१ ॥
- निद्रा तन्द्रां प्रलापं च हृदोगं गात्रगौरवम्।  
नखादीनां च पीतत्वं प्रीतवनं कफपित्तयोः ॥ ५२ ॥
- हीनवातस्य तु कक्षः पित्तेन सहितश्वरन्।  
करोत्यरोचकापाकौ सदनं गौरवं तथा ॥ ५३ ॥
- इलासमास्यस्त्रवणं दूधनं पाणहुतो मदम्।  
बिरेकस्य हि वैषम्यं वैषम्यमनलस्य च ॥ ५४ ॥
- क्षीणपित्तस्य तु इलेघ्मा मारुतेनोपसंहितः।  
स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनयत्यनवस्थितम् ॥ ५५ ॥
- गौरवं मृदुतामग्नेभक्ताभ्रद्वां प्रवेपनम्।  
नखादीनां च शुक्रत्वं गात्रपारुष्यमेव च ॥ ५६ ॥

हनि कफे मारुतस्तु पित्तं तु कुपितं द्रव्यम् ।  
 करोति शानि लिङ्गानि शृणु तानि समासतः ॥ ५७ ॥  
 भ्रमसुद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटनवेपने ।  
 अङ्गमदै परीशोषं द्रव्यनं धूपनं तथा ॥ ५८ ॥  
 वात-पित्त-क्षये श्लेष्मा सोर्तास्यपि दध्वद्वशम् ।  
 चेष्टा-प्रणाशं मूच्छां च वाक्सङ्घं च करोनि हि ॥ ५९ ॥  
 इलेष्मवातक्षये पित्तं देहोजः संसयेचरत् ।  
 ग्लानिमिन्द्रियदौर्बल्यं तृष्णा मूच्छां कियाक्षयम् ॥ ६० ॥  
 पित्त-इलेष्म-क्षये वायुर्मर्माण्यभिनिपीडयन् ।  
 प्रणाशयति संज्ञा च वैपयत्यथवा नरम् ॥ ६१ ॥

जिस समय कि पित्त अपनी प्रकृति में होता है और कफ क्षीण होता है, उस समय वायु पित्त को उसके स्थान से लेकर शरीर में इधर-उधर दौड़ता है। जिससे कि फटने की चो दर्द, जलन, यकान और निर्बलता उत्पन्न होती है। शरीर में कफ के प्रकृत अवस्था में होने से, पित्त के क्षीण होने पर कुपित बलवान् वायु कफ के साथ मिलकर बेदना, जड़ता, ठण्डक और भारीपन शरीर में उत्पन्न करती है। शरीर में कफ क्षीण हो, पित्त कुपित हो, वायु प्रकृति रूप में हो, तो पित्त वायु की गति बन्द करके जलन और दर्द उत्पन्न करता है। कफ समानावस्था में हो, पित्त कुपित और वायु का क्षय हो तो, कफ को रोककर पित्त शरीर में तन्द्रा अर्थात् आलस्य, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है। कफ बढ़ा हुआ हो, पित्त क्षीण हो, और वायु समानावस्थ हो, तो कफ वायु की गति को बन्द करके ठण्डक, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है। वायु का क्षय हो, पित्त समानावस्था में हो, कफ बढ़ा हुआ हो, तो कफ पित्त की गति को बन्द करके, मन्दाग्नि, शिर का जकड़ना, नीद का आना, आलस्य, प्रलाप, द्रव्य रोग, शरीर का भारीपन, नख, ओष्ठ, आंख आदि को पीलापन तथा शूक्र में कफ और पित्त आने लगता है। वायु क्षीण हो और कफ एवं पित्त दोनों बढ़े हुए एक साथ मिलकर शरीर में अरुचि, अविपाक भोजन का अपचन, पीड़ा, भारीपन, वमन की रुचि, मुख से लार गिरना, पीड़ा, पीलापन, नशा सा, मल त्याग में विषमता, मल का कभी आना कभी नहीं आना, इसी प्रकार अग्नि की विषमता कभी भूख लगना और कभी नहीं लगना ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। पित्त के क्षीण होने पर कफ वायु के साथ मिलकर शरीर में जड़ता, ठण्डक, कभी यहां और कभी चहां, अनिवित स्थान पर बेदना, भारीपन, अग्नि की निर्बलता, भोजन में अनिच्छा, कम्पन, नख (मल, ओष्ठ,

आंख ) में सफेद रंग और शरीर में लक्षण अर्थात् रुक्षापन आ जाता है। कफ के क्षीण होने पर, वायु और पित्त दोनों कुपित होकर जो सक्षम शरीर में उत्पन्न करते हैं, उनको संक्षेप से नुनों। यिर में चक्र कर आना ऐंठन की पीड़ा, चुभने की सी दर्द, जलन, शरीर का घटना, कम्फन, अंगों का दूटना, शुष्कता, पीड़ा और धूप में बैठने से जैसे अंग गरम हो जाते हैं ऐसी जलन होती है। वात और पित्त दोनों क्षीण हो, केवल कफ बढ़ा हो तो—सब स्रोतों को कफ रोक लेता है। इससे क्रियायें नष्ट हो जाती हैं, मूर्च्छा, जीभ-बाणी का बन्द हो जाना, होता है। कफ और वात के क्षीण होने पर पित्त गति करता हुआ शरीर के ओज ( कान्ति ) को चलायमान कर देता है। शरीर में ग्लानि, थकान, इन्द्रियों की दुर्बलता, प्यास, मूर्छाँ और चेष्टाओं का नाश हो जाता है। पित्त और कफ के क्षीण होने पर वायु मर्म स्थानों का विशेष रूप में पीड़ित करती है। इससे मनुष्य की संज्ञा ( चैःना ) नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य कांपता है ॥४५-६१॥

**दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथावलम् ।**

**श्रीणा जहृति लिङ्गं भवं, समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥ ६२ ॥**

बढ़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने ( स्वाभाविक ) लक्षणों को उत्पत्ति की अवस्था में दिखाते हैं। यथा—पित्त का स्वाभाविक लक्षण उष्णत्व है। बढ़ने पर तीव्र उष्णिमा उत्पन्न करेगा। दांप क्षीण होने पर अपने स्वाभाविक लक्षणों को छोड़ देते हैं, जैसे पित्त के क्षोण होने से स्वाभाविक उष्णिमा नहीं रहती। समानावस्था में दोष अपना अपना काम करते हैं ॥६२॥

**वातादीनां रसादीनां मलानामोजसस्तथा ।**

**क्षयास्त्रानिलादीनामुक्तं संक्षीणलक्षणम् ॥ ६३ ॥**

**घट्टते सहते शब्दं नोचैर्द्रवति दूयते ।**

**हृदयं तास्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रक्षये ॥ ६४ ॥**

**परुषा स्पुटिता म्लाना त्वप्रूक्षा रक्तसंश्लये ।**

**मांसक्षये विशेषेण स्फिग्मीवोदरशुष्कता ॥ ६५ ॥**

**सन्धीना स्फुटनं ग्लानिरक्षणोरायास एव च ।**

**लक्षणं भेदांस क्षीणे तनुत्वं चोदरस्य च ॥ ६६ ॥**

**केश-छोम-नस्त्र-इमश्चु-द्विज-प्रपतनं श्रमः ।**

**ज्ञेयमास्थक्षये रूपं सन्धिशैथिल्यमेव च ॥ ६७ ॥**

**शीयेन्त इव चास्थीनि दुर्बलानि लघूनि च ।**

**प्रतर्वं वातरोगात्र क्षीणे मल्लनि वेहिनाम् ॥ ६८ ॥**

दीर्घ्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः ।  
 क्लौब्यं शुक्रविसर्गश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणम् ॥ ६६ ॥  
 क्षीणे शक्तिं चान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः ।  
 रूक्षस्योन्नमयन् कुर्क्षिं तिर्यगूर्ध्वं च गच्छति ॥ ७० ॥  
 मूत्रक्षये मूत्रकृच्छ्रं मूत्रवैवर्ण्यमेव च ।  
 पिण्डासा वाधते चाम्य मुखं च परिशुष्यति ॥ ७१ ॥  
 मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघुनि च ।  
 विशुष्काणि च लक्ष्यन्ते यथास्वं मलसंक्षये ॥ ७२ ॥  
 विभेति दुर्बलोऽभीक्षणं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः ।  
 दुश्लायो दुर्मना रूक्षः क्षामश्चैवौजसः क्षये ॥ ७३ ॥

अढारह प्रकार के क्षय—वात, पित्त, कफ ये तीन दोष; रस-रक्त आदि धातु, मल, मूत्र, कान का मल, हत्यादि सात मल और ओज इन ( अढारह ) के क्षीण होने के लक्षण कहते हैं । इनमें वात, पित्त, कफ के क्षीण अवस्था के लक्षण कह दिये हैं । रस के क्षीण होने पर हृदय मथा-बिलोया हुआ प्रतीत होता है, ऊँची आवाज़ को सहन नहीं कर सकता, हृदय जल्दी-जल्दी चलता है । पीड़ा होती है, ग्लानि होती है और थोड़ी किया होती है, अथवा थोड़ी चेष्टा से भी हृदय में उद्विग्नता आ जाती है । रक्त का क्षय होने पर त्वचा कठोर हो जाती है, फट जाती है, झुर्रियां पढ़ जाती हैं और रूखों बन जाती है । मांस के क्षय होने पर—सारा शरीर क्षीण हो जाता है, परन्तु नितम्ब, प्रीवा और पेट विशेष रूप से पतले हो जाते हैं । अथोत् मेद-चर्बी के क्षाण होने पर सन्धियां दूटने-फूटने लगती हैं, अंगों में ग्लानि, आलस्य, आंखों पर यकान और पेट पतला हो जाता है । अस्थियों के क्षय होने पर—शिर के बाल, शरीर के रोम, दाढ़ी-मूँछ के बाल, दांत, नख गिरने लगते हैं । शरीर यका प्रतीत होता है, और सब सन्धियां द्यिथिल पढ़ जाती हैं । मज्जा के क्षीण होने पर—अस्थियां मुरक्काती गिरती हुई प्रतीत होती हैं, अस्थियां निर्बल और छोटी ( हल्की ) हो जाती हैं और वातरोग जांर कर जाते हैं, निरन्तर वात रोग रहने लगता है । शुक्र के क्षीण होने पर—शरीर में निर्बलता, मुख में सूखापन, चेहरे पर पीलास, पीड़ा, यकान, पुरुषत्व की न्यूनता, सम्मोग समय में शुक्र का अभाव रहता है । मल के क्षीण होने पर—वायु आंतों ( अन्तङ्गियों ) को दबाती दुःखी करती प्रतीत होती है । शरीर अन्दर और बाहर से रूक्ष हो जाता है । वायु पेट को ऊपर उठाती हुई तिरछी या ऊपर को जाती है ( नीचे नहीं जाती ) । मूत्र के

क्षय होने पर—सूत्र कठिनाई से थोड़ा-थोड़ा आता है, सूत्र का रंग बदल जाता है। व्यास बहुत लगती है, गला और मुख सूखता है। कान, नाक, आंख मुख और त्वचा ( रोम कृप ) इन इन्द्रियों के मलों का क्षय होने से शून्यता, (शान की कमी), तथा रुक्षता और हल्कापन इन इन्द्रियों में अपने-अपने मल के क्षय होने से उत्तरन्न हो जाता है। ओज ( कान्ति ) के क्षीण होने पर—मनुष्य डरने लगता है, निर्वल हाँ जाता है, बार-बार सोचने लगता है, चिन्ता करने लगता है। इन्द्रियों का शान टीक नहीं रहता, पीड़ित हो जाता है। शरीर की कान्ति विगड़ जाती है, मन अनवश्यित हो जाता है, शरीर रुक्षा और दुर्बल हो जाता है ॥ ६३-७३ ॥

हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीपत्सपीतकम् ।

ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ ७४ ॥

( प्रथमं जायते होजः शरीरेऽस्मिन् शरीरिणाम् ।

सर्पिर्वर्णं मधुरसं लाजगन्धं प्रजायते ॥ १ ॥

भ्रमरेः फलपुष्पेभ्यो यथा संहियते मधु ।

एवमोजः स्वकर्मण्यो गुणैः संहियते नुणाम् ॥ २ ॥ )

ओज का स्वरूप—हृदय के अन्दर जो शुद्ध ( निर्मल ) और लाल तथा थोड़ा सा पीला रस आदि धातुओं का सार रस रहता है, उसे 'ओज' कहते हैं। इसके नष्ट होने से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कि भौंरे फल और पुष्पों से मधु का संचय करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के शारीरिक गुणों से ओज का संग्रह किया जाता है। शरीरधारियों के शरीर में सबसे प्रथम ओज उत्पन्न होता है। यह ओज धी के समान रंग में, मधुर-रस, और इसमें लाजा के समान ( लाजा धान की खील के समान ) गन्त होती है ॥ ७४ ॥

व्यायामोऽनशनं चिन्ता रुक्षाल्पप्रमिताशनम् ।

वातातपौ भयं शोको रुक्षापानं प्रजागरः ॥ ७५ ॥

कफ-शोणित-शक्राणां मलानां चातिवर्तनम् ।

कालो भूतोपघातश्च झातव्याः क्षयहेतवः ॥ ७६ ॥

क्षय के कारण—व्यायाम का अधिक करना, उपवास करना, चिन्ता करना, रुक्ष, थोड़ा और एक ही रस का खाना, बायु का या धूप का सेवन, भय, शोक, रुक्ष गुणकाले पदार्थों का पीना, रात में जागना, कफ, रक्त, शुक्र, मल इनका अधिक त्याग करना, छुट्टावस्था, भूत अर्थात् सूक्ष्म किमि आदि का आकर्षण, इन कारणों से अढारह प्रकार का क्षय होता है ॥ ७५-७६ ॥

गुरु-स्त्रिग्धाम्ल-लबणं भजतामतिमात्रशः ।  
 नवमन्तं च पानं च निद्रामास्यासुखानि च ॥ ७७ ॥  
 त्वयक्त्वायायाम-चिन्तानो संशोधनमकुर्वताम् ।  
 इष्टेभ्या पित्तं च मेदश्च मांसं चातिप्रवर्धते ॥ ७८ ॥  
 तैरावृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति ।  
 यदा बस्ति तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते ॥ ७९ ॥  
 समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः ।  
 दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याप्यते पुनः ॥ ८० ॥  
 उपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिङ्काः सप्त दारणाः ।  
 मांसलेघ्ववकाशेषु मर्मस्वपि च सन्धिषु ॥ ८१ ॥

मधुमेह का कारण—अति मात्रा में गुरु, स्त्रिग्ध, खट्टे या नमकीन पदार्थों के साने से, नवीन ( नवीन श्वतु के चारल-गेहूँ आदि ) अथवा नया पानी ( वरसात का पानी, कूओं या नदी से पीने पर ) अधिक सोने से, ऐश आरामतलबी का जीवन चिताने से, व्यायाम और चिन्ता न करने से, वमन विरेचन कर्मों के न करने से, कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत बढ़ जाते हैं । इनके बढ़ने से मार्गों के इक जाने से बायु आंज धातु को लेकर मूत्राशय ( मूत्रसंस्थान ) में चली जाती है । तब कष्ट साध्य 'मधुमेह' रोग उत्पन्न होता है । बढ़े हुए बात, पित्त, कफ के लक्षण प्रथम प्रकट होते हैं । कुछ समय पीछे इन्हीं दोषों की क्षीणता ( क्षय ) के लक्षण दीखने लगते हैं, और फिर बढ़े हुए दोषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं । इस समय उपेक्षा करने से सात भवानक पिङ्कायें अधिक मांस से युक्त स्थानों में, मर्मस्थानों में और सन्धियों में उत्पन्न हो जाती हैं ॥ ७५-८१ ॥

शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी तथा ।  
 अल्जी विनतास्या च विद्रधी चेति सप्तमी ॥ ८२ ॥  
 अन्तोऽस्ता मध्यनिम्ना इयावा क्लेदरुजान्विता ।  
 शराविका स्यात्पिङ्का शरावाकृतिसंस्थिता ॥ ८३ ॥  
 अवागाढाति-निस्तोदा महावास्तु-परिप्रहा ।  
 स्फूरणा कच्छपपृष्ठाभा पिङ्का कच्छपी मता ॥ ८४ ॥  
 स्तब्धा शिराजाह्वती स्त्रिग्धस्नावा महाशया ।  
 रुजा-निस्तोद-न्युहुला सूक्ष्मच्छिर्रा च जालिनी ॥ ८५ ॥  
 पिङ्का नातिमहती क्षिप्रपाका महारुजा ।

सर्वपी सर्वपाभाभिः पिङ्काभिश्चिता भवेत् ॥ ८६ ॥  
 दहति त्वचमुत्थाने तृष्णा-मोह-ज्वर-प्रदा ।  
 चिसर्पत्यनिशं दुःखाहत्यग्निरिवालजी ॥ ८७ ॥  
 अबगाढ़-क्षाक्षेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा ।  
 महती विनता नीला पिङ्का विनता मता ॥ ८८ ॥

सात पिङ्कायें—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्वपी, अङ्गजी, विनता और विद्रधि ये सात प्रकार की पिङ्कायें उत्पन्न होती हैं। किनारों से ऊँची और दीच से दर्वी, श्याव अर्थात् ऊदे रंग की, सावयुक्त और पीड़ायुक्त, यह पिङ्का शराव (परई, सकोरा के) के आकार की होती है, इसे शराविका कहते हैं। जो गम्भीर वेदना वाली दर्दयुक्त, महावस्तु का आभ्य करके रहती है [बहुत अधिक स्थान घेरा हो] ऊपर से चिकनी और कछुवें की पीठ के समान ऊपर से उठी पिङ्का 'कच्छपी' होती है। जड़ (न हिलने वाली), शिराओं के जालयुक्त, चिकने स्त्रावयुक्त, बड़े आशय में आश्रित, दर्द और चुम्मने की सी वेदनायुक्त तथा छोटेछोटे छेदों से घिरी पिङ्का 'जालिनी' होती है। बहुत बड़ी नहीं, जलदी पकने वाली, बहुत वेदना युक्त, सरसों के आकार की छोटी-छोटी पिङ्काओं से घिरी पिङ्का 'सर्वपी' है। अङ्गजी पिङ्का के उत्पन्न होने पर त्वचा जलने लगती है, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर होता है। रात दिन दुःखी करती है, अग्नि के समान दुःख से रोगी जलता है, इसका नाम 'अङ्गजी' है। जिस में स्त्राव बहुत गाढ़ा हो, बहुत सख्त वेदना हो, स्त्राव हो, पिङ्का पीठ या उदर में हो, बहुत बड़ी, दर्वी हुई सी, नीले रंग की पिङ्का को 'विनता' कहते हैं ॥ ८८-८९ ॥

विद्रधिं द्विविधामाहुर्चाहामाध्यन्तरीं तथा ।  
 बाह्या त्वक्त्वन्या-मासोत्था कण्ठराभा महारजा ॥ ९० ॥  
 शीतकाभविदाद्युष्ण-रूक्ष-शुष्कातिभोजनात् ।  
 विहृद्धाजीर्ण-संकिलष्ट-विषमासात्म्य-भोजनात् ॥ ९० ॥  
 व्यापश-बहु-मद्यत्वाद्विगसंधारणाच्छ्रमात् ।  
 जिह्वा-व्यायाम-शयनादतिभारावैश्युनात् ॥ ९१ ॥  
 अन्तःशरीरे मासासृग्विशन्ति यदा मळाः ।  
 तदा संजायते प्रनिर्गम्भीरस्थः सुदारुणः ॥ ९२ ॥  
 इष्ये क्लोम्नि यकृति सीहि कुक्षो च वृक्षयोः ।  
 नाईवा वक्षणयोर्वापि वस्तौ वा तीव्रवेदनः ॥ ९३ ॥

दुष्ट्रकालिमात्रत्वात्स वै शीघ्रं विद्यते ।  
 तसः शीघ्रविदाहित्वाद्विद्रधीत्यभिधीयते ॥ ६४ ॥  
 व्यधच्छेद-भ्रमानाह-शब्द-स्फुरण-सर्पणैः ।  
 वातिकीं, पैत्तिकीं तृष्णा-दाह-मोह-मद-ब्वरैः ॥ ६५ ॥  
 जम्भोत्कलेशारुचि-स्तम्भ-शीतकैः इलैचिकीं विदुः ।  
 सर्वासु च महच्छूलं विद्रधीपूपजायते ॥ ६६ ॥  
 तस्मैः शख्यैर्यथा भव्येतोलमुकैरिव दश्यते ।  
 विद्रधी व्यग्लतां याता वृश्चिकैरिव दश्यते ॥ ६७ ॥  
 तनुरुक्षारुणं सार्वं फेनिलं वातविद्रधी ।  
 तिळ-माष-कुलयोद-संनिभं पित्तविद्रधी ॥ ६८ ॥  
 इलैचिकी स्खवति श्वेतं बहलं पिच्छिलं बहु ।  
 लक्षणं सर्वमेवैतद्भजते सान्त्रिपातिकी ॥ ६९ ॥

विद्रधि पिडका दो प्रकार की होती है यथा— बाहा और आभ्यन्तरी । इनमें बाहा विद्रधि त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, इसका आकार कण्ठरा के समान होता है, इसमें बहुत बेदना होती है । अन्तः विद्रधि का निदान कहते हैं—ठण्डा भोजन, दाह करने वाला भोजन, उण्णा, लक्ष, शुष्क भोजन के खाने से, बहुत खाने में, विश्वद्व भोजन से अजीर्णवस्था में भोजन करने से, संकीर्ण ( अर्थात् मिश्रण किये खाने से ) विषम भोजन से, प्रकृति के प्रतिकूल भोजन से, व्यापज्ज अर्थात् दूषित भोजन से, बहुत मद्यपान से, उपस्थित बेगों को रोकने से, परिश्रम से, कुटिल व्यायाम ( अंगों को अनुचित रूप से मोडने-तोडने ) से, कुटिल शयन ( टेढ़ा-मेढ़ा होकर सोने ) से, बहुत बोक उठाने से, बहुत मार्ग चलने से, बहुत मैथुन के कारण जब मल ( वात, पित्त, कफ ) शरीर के अन्दर मांस और रक्त में घुस जाते हैं, तब गहरी और कठोर गांठ उत्पन्न हो जाते हैं । गांठ उत्पन्न होने के स्थान—हृदय, क्लोम ( पित्ताशय या आमाशय ), यकृत, प्लीहा, कुष्ठि ( पाश्वों ) में, शूक्रों ( गुदों ) में, नाभि में, धंकण ( जांघ की सन्धियों ) में और यस्ति ( मूत्राशय ) में उत्पन्न होती है और यहां तीव्र बेदना होती है । रक्त के बहुत अधिक दुष्ट होने से विद्रधि शीघ्र विदर्ग्ध होने लगती है, विदर्ग्ध होने से ही इसको 'विद्रधि' कहते हैं ।

वातजन्य विद्रधि में बीधने के समान, काटने के समान छेदने के समान पीड़ा होती है, चक्कर आता है, अफरा, शब्द सुनाई देता है, स्फुरण, घड़कनः

और सर्वण होता है। पित्तजन्य विद्रविष में—प्यास, जलन, मूर्छा, मद और ज्वर होता है। कफजन्य विद्रविष में—जग्माई, वमन, भोजन में अरुचि, शरीर की जड़ता और टण्डक होती है। सब विद्रविषों में बहुत अधिक शृङ्खल उत्पन्न हो जाता है। गरम शम्भों से जिस प्रकार कोई मसल रहा हो, या गरम बस्तुओं से कोई जला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। \* विद्रविष के पकने पर विच्छुओं के काटने के समान दर्द होता है।

अब साव के लक्षण कहते हैं—साव च लक्षण—जो साव पतला, रुक्ष, लाल और ज्ञागदार हो तो उसे वातज विद्रविष का साव, जो साव तिल, उड्ढ, कुलधी के पानी के समान हो तो पित्तज विद्रविष का और जो साव ब्नेत, घना, चिकना और मात्रा में बहुत हो तो कफज विद्रविष का होता है। संनिपातजन्य विद्रविष में सब दोषों के लक्षण होते हैं ॥ ८६-८८ ॥

अथासां विद्रविषानां साध्यासाध्यत्वं-विशेष-ज्ञानार्थं स्थानकृतं लिङ्गं-विशेषमुपदेश्यामः—तत्र प्रधानमर्मजायां विद्रविषां हृद्धृद्धृन-तमक-प्रमोह-कासाः, फ्लोमजायां पिपासा-मुख-शोप-गल-न्य्रहाः, यक्षजायां इवासाः, प्लीहजायां मुच्छवासोपरोधः, कुक्षिजायां कुक्षिपाश्वर्वान्तरासशूलं, धूक्ष-जायां पाश्वर्व-पृष्ठ-कटि-य्रहः, नाभिजायां हिक्का, वद्धक्षणजायां सक्षियसादः, बस्तिजायां कुच्छू-पृति-मूत्र-वर्चस्त्वं चेति ॥ १०० ॥

पकप्रभिज्ञासूर्धजासु मुखात्सावः स्वति, अधोजासु गुदान्, उभयतस्तु नाभिजासु ॥ १०१ ॥

तासां हन्नाभिबस्तिजाः परिपक्वाः सान्त्रिपातिकी च मरणाय, अवशिष्टाः पुनः कुशलमाशुप्रतिकारिणं चिकित्सकमासादोपशम्यन्ति; तस्माद्विरोत्थिता विद्रविष शब्द-सर्प-विद्युदग्नि-तुल्यां स्नेह-स्वेद-विरेच-नैराश्वेदोपक्रमेत् सर्वशो गुलमवचेति ॥ १०२ ॥

अब इन विद्रविषों के साध्य-असाध्य जानने के लिये स्थानजन्य विशेष लक्षण बताते हैं। यथा—प्रधान मर्मस्थान ( हृदय ) में उत्पन्न विद्रविष में हृदय का संघटन, तमक ( आंखों के आगे अन्धेरा ) सांस, मूर्छा, कास होता है। कफजन्य विद्रविष में प्यास, मुख का सूखना, गलेका रकना, यकृत-जन्य विद्रविष में—इवास, और प्लीहजन्य विद्रविष में इवास की रकावट और मूर्छा, कुक्षि में विद्रविष होने पर कुक्षि और पाश्वर्व के चीच में शूल और उसी पाश्वर्व के

\* कई स्थानों पर कलिकाता की छवी पुस्तकों में निम्न पाठ है—

“यज्ञाच्चैर्भिष्ठत इव चौलमुकेरिव दद्धते ॥”

के कन्दे में दर्द होता है। वृक्जन्य विद्रधि में पीठ का अकड़ना, कमर का जकड़ जाना, नाभिजन्य विद्रधि में हिचकी, वंक्षणजन्य विद्रधि में जांघों में दर्द, बस्तिजन्य विद्रधि में मूत्र में कुच्छुता, दुर्गन्धयुक्त मूत्र, और बदबूदार मल आता है। हृदय, क्लोम, यकृत्, प्लीहा, और कुञ्जे की विद्रधियों के पक्कर फूटने से साव मुख से, और नाभि के नीचे बक्षण एवं बस्ति की विद्रधियों के फूटने से गुदा के मार्ग से तथा नाभि की विद्रधि के फूटने से मुख और गुदा दोनों मार्गों से साव बहता है। इन विद्रधियों में हृदय, नाभि और बस्ति में उत्पन्न विद्रधि के पक्कने पर और सञ्जिपातजन्य विद्रधि मूरुखुकारक होती हैं और शोष विद्रधियां कुशल चिकित्सक से शीघ्र प्रतिकार करने पर शान्त हो जाती हैं। इसलिये जल्दी ही नवीन विद्रधि को जो कि शब्द, सर्प, विजला और अग्नि के समान पीड़ादायक है, उसकी स्नेहन, विरेचन द्वारा शीघ्र चिकित्सा करे। उनकी गुल्मों की भाँति सम्भूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये ॥

**भवन्ति चात्र—विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।**

**तावच्छैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ १०३ ॥**

**शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः ।**

**जायन्ते ता श्वातिबलाः प्रभूत-झेड-मेदसाम् ॥ १०४ ॥**

**सर्पयी चालजी चैव विनता विद्रधी च याः ।**

**साख्याः पितोल्वणास्ता हि संभवन्यल्पमेदसाम् ॥ १०५ ॥**

**मर्मस्वंसे गुदे पाण्योः स्तने सन्धिषु पादयोः ।**

**जायन्ते यस्य पिङ्काः स प्रमेही न जीवति ॥ १०६ ॥**

**तथाऽन्याः पिङ्काः सन्ति रक्तपीतासिताहणाः ।**

**पाण्डुराः पाण्डुचर्णाश्च भस्माभा मेचकप्रभाः ॥ १०७ ॥**

**मृदुधथश्च कठिनाश्चान्याः स्थूलाः सूक्ष्मास्तथाऽपराः ।**

**मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूला महारुजाः ॥ १०८ ॥**

**ता बुद्ध्वा मारुतादीनां यथास्वैर्हतुलक्षणैः ।**

**त्र्यादुपाचरेचाशु प्राणुपद्रवदर्शनात् ॥ १०९ ॥**

ये पिङ्कायें मेद के दुष्ट होने पर विना प्रमेह के भी उत्पन्न हो जाती हैं, और जब तक कि 'वास्तुपरिग्रह' अर्थात् स्थान को चारों ओर से पकड़ नहीं चेती, तब तक इनका पता नहीं चलता। शराविका, कच्छपिका और जालिनी ये कठिनमई से तहन की जा सकती हैं। जिन में कफ और मेद अधिक होते हैं, उन में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत घलबान् होती हैं। सर्पयी, अग्नी, विनता

और विद्रवि ये पिता की अधिकता से होती हैं और ये साध्य हैं, ये थोड़ी चर्चावालों में होती हैं। जिस प्रमेह रोगी के मर्म (दृदय, चक्षि, और नाभि) में, कन्धे, गुदा, हाथ, स्तन, सन्धियों और पांव में रिडकार्य उत्पन्न होती हैं, वह प्रमेह का रोगी नहीं बचता। इसी प्रकार अन्य दूसरी और भी विडकार्य हैं जो लाल, पीली, काली, पाण्डुर (धूपर) पीले रंग की, राख अर्थात् भस्म के समान; काले बालों की छाया जैसी, कुछ मृदु, कुछ कठिन, कुछ बर्डा, कुछ छोटी, कुछ मन्द वेग, कुछ तीव्र वेग, कोई थोड़ी वेदनावाली, कोई बहुत दर्दवाली होती हैं। इन बात, पिता, कफ की विद्रवियों को इनके अपने अपने लक्षणों से पहचान कर उपद्रवों के उत्पन्न होने से पूर्व ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०३-१०९ ॥

**हृद-ध्वास-मौस-संकोथ-मोह-हिक्का-मद-ज्वराः ।**

**बीसर्प-मर्म-संरोधः: पिडकानामुपद्रवाः ॥ ११० ॥**

उपद्रव—प्यास, श्वास, मांस का संकोच, मूळा, हिन्चकी, मद और ज्वर, बीसर्प, और हृदय आदि मर्म का अवरोध, ये पिडकाओं के उपद्रव हैं ॥ ११० ॥

**क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ।**

**ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ १११ ॥**

**इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः ।**

**त्रिविधा चापरा कोष्ठ-शाखा-मर्मास्थिन्सन्धिषु ॥ ११२ ॥**

**चय-प्रकोप-प्रशमाः: पित्तादीनां यथाकमम् ।**

**भवन्त्येकैकशः पष्टसु कालेष्वध्रागमादिषु ॥ ११३ ॥**

**गतिः कालकृता चैषा चयादा पुनरुच्यते ।**

**गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृती वैकृती च या ॥ ११ ॥**

**पित्तादेवोष्मणः: पक्षिर्नराणामुपजायते ।**

**तच्च पित्तं प्रकुपितं विकारान् कुरुते वहन् ॥ ११५ ॥**

**प्राकृतस्तु बलं इलेष्मा विकृतो मल उच्यते ।**

**स चैवौजः स्मृतः काये स च पाप्मोषदिश्यते ॥ ११६ ॥**

**सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः ।**

**तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुच्यते ॥ ११७ ॥**

**नित्यसंनिहिताभित्रं समीक्ष्याऽऽस्मान्मात्मवान् ।**

**नित्यं युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्यरम् ॥ ११८ ॥**

दोषों की गति तीन प्रकार की होती है—चय (षटना), स्थान (लम लहा), और वृद्धि (वहना), अथवा (ऊर्ध्वं) ऊपर जान, (अचः) नीचे जाना और (तिर्यक्), तिरछा जाना ये हूसरी प्रकार की दोषों की गति हैं। विधि

मेद से दोषों की तीन प्रकार की गति कह दी, एक और प्रकार से भी तीन प्रकार की गति होती है यथा—कोष्ठ, वाया, एवं मर्मास्थि और सन्धि इनमें दोषों का संचय, प्रकोप और शमन यह तीन प्रकार की गति हैं। यथा—उँगलियों में एक-एक दोष की तीनों जातियां होती हैं। यथा—वर्षा शृङ्ग में पित्त का संचय, शरद शृङ्ग में प्रकोप और हेमन्त में शान्ति। ग्रीष्म में वायु का संचय, वर्षा में प्रकोप तथा शरद में शान्ति। हेमन्त में कफ का संचय बसन्त में प्रबोध और ग्रीष्म में कफ की शान्ति होती है। दोषों के संचय आदि की गति दो प्रकार की है। यथा—प्राकृत और वैकृत। पित्त का वर्षा शृङ्ग में संचय होना प्राकृत गति है और बसन्त में संचय होना वैकृत गति है। इसी प्रकार कफ का हेमन्त में संचय होना प्राकृत और वर्षा में संचय होना वैकृत है, वायु का ग्रीष्म शृङ्ग में संचय होना प्राकृत और शरद में संचय होना वैकृत है। प्राकृत-स्वास्थ्यावस्था, वैकृत रुग्णावस्था है, इस प्रकार से पित्त आदि दोषों की भी दो प्रकार की गति है। मनुष्यों का पाचन पित्त की ही गरमी से होता है और वह पित्त विकृत होकर बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। प्राकृत स्वास्थ्यावस्था में स्थित कफ शरीर का बल, और आजसूप होता है, परन्तु यही विकृत, रुग्णावस्था में मल और पाप्ता अर्थात् पापरंग उत्पन्न करता है। वायु के कारण ही शरीर की सब चेष्टाएं, क्रियाएं होती हैं। यही वायु प्राणियों का प्राण है। इस के विकृत होने पर रोग उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं रोगों से इसी विकृत वायु से मनुष्य मर जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह समझ ले कि शत्रु ( वैकृत, पित्त, वायु, कफ ये बीष ) सदा समीप में खड़े हैं, इसलिये अपने कल्याण में मन को लगाकर प्रशस्त मन से परीक्षा करके नित्य ही न जानेवाली दीर्घ आयु की सदा इच्छा करता हुआ दीर्घायु होने का प्रयत्न करे । १११-११८। तत्र श्लोकौ । शिरोरोगाः सहद्रोगा रोगा मानविकल्पजाः ।

**क्षयाः सपिडकाश्वोक्ता दोषाणां गतिरेव च ॥ ११९ ॥**

**कियन्तःशिरसीयोऽस्मिन्नध्याये तत्त्वदर्शिना ।**

**ज्ञानार्थं भिषजां चैव प्रजानां च हितैषिणा ॥ १२० ॥**

शिरोरोग, दृद्य के रोग, दोषों के परिमाण मेद से होनेवाले रोग, दीलों के ध्यय से, पिढ़कायें, दोषों की गति, इन सब बातों का तत्त्वदर्शी महर्षि ने 'कियन्तःशिरसीय' अध्याय में, बैद्यों के ज्ञान और प्रजाओं की मंगलकामना से उपदेश किया है ॥ ११९-१२० ॥

**इत्यग्निवेशकृते तन्मे चरकप्रतिसंस्कते सूक्ष्मस्थाने रोगचतुष्के**

**कियन्तःशिरसीयो नाम सप्तदशोऽस्यायः ॥ १७ ॥**

## अष्टादशोऽध्यायः ।

---

अथातस्तिथीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'तिथीय अध्याय' का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

त्रयः शोथा भवन्ति वात-पित्त-इलेप्य-निमित्ताः । ते पुनर्द्विचिधाः निजागन्तुभेदेन । तत्राऽग्नतवश्लेदन-भेदन-क्षणन-भज्जन-पिच्छनोत्पेषण-प्रहार-वध-बन्धन-वेष्टन-व्यधन-पाङ्गनादिमिर्वा भज्जातक-पुष्प-फल-रसात्मगुप्ता-शूक-क्रिमिशूका हितपत्र-लता-गुल्म-संस्पर्शनैर्वा स्वेदन-परिसर्पणावूत्रैर्वा विषिणां, सविधाविष-प्राणिन्दृष्टा-दन्त-विषाण-नख-निपातैर्वा सागर-विष-वात-हिम-दहन-संस्पर्शनैर्वा शोथाः समुपजायन्ते । ते पुनर्बथास्वं हेतुजैव्यञ्जनैरादातुष्ठलभ्यन्ते निजव्यञ्जनैकदेशविपरीतैः, बन्ध-मन्त्रागद-प्रलेप-प्रताप-निर्वापणादिभिश्चोपकर्मरूपकम्भ्यमाणाः प्रशान्तिमापद्यन्ते ॥ ३ ॥

शोथ (सूजन) तीन प्रकार का है । १. वात से, २. पित्त से और ३. कफ से । यह तीन प्रकार का शोथ फिर दो प्रकार का है । ( १ ) शरीर में उत्पन्न होने वाला निज और ( २ ) बाहर कारण से उत्पन्न होने वाला आगन्तु । इन में आगन्तु शोथ छेदन ( दो खण्ड करना ), भेदन ( फाङ्ना ), क्षणन ( चूर्ण करना ), भज्जन ( तोड़ना, सर्जानी करना ), पिच्छन ( बहुत दबाना ), उत्पेषण ( शिला पर पीसने की भाँति पीसने ) से, वेष्टन ( रज्जु आदि से लेपटना ), प्रहार ( चोट ), वध ( मारने ) से, बन्धन ( बांधना ), व्यधन ( बांधना ), पीड़न और ( दबाने ) आदि से उत्पन्न होता है अथवा मिलाके के पुष्प या फल अथवा रसके लाने से, आत्मगुप्ता ( कौच की फली ), शूक, क्रिमिशूक ( रोये थाला कीड़ा ), अहितपत्र ( बिच्छू बूटी के पत्र ), लता ( बेल ) गुल्म ( झंकार शाढ़ी ) के स्पर्श से आगन्तु शोथ उत्पन्न होता है अथवा विषयुक्त प्राणियों के पसीने से, शरीर पर चलने फिरने से, इन के मूत्रों से, विषेलं प्राणियों के जाद, दांत, सींग, नख आदि के प्रहार से, कृत्रिम विषयुक्त चायु, बरफ या अनिन के स्पर्श से आगन्तु शोथ उत्पन्न होता है । ये आगन्तु शोथ प्रथम कारणों से उत्पन्न लक्षणों से प्रकट होते हैं । आगन्तु शोथ या रोग में व्यथा प्रथम उत्पन्न होती है, और पीछे शरीर के दोषों से सम्बन्धित होते हैं ।

ये शोथ बन्धन ( सुखप्रद लेप आदि की पही बाधने से ), मन्त्र से, औषध, प्रलेप, प्रताप, निर्वापण ( सेक आदि द्वारा वायु को निकालने से ) एवं शोधन रोपणादि से चिकित्सा करने पर शान्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥

**निजः पुनः स्नेह-स्वेदन-बमन-विरेचनास्थापनातुवासन-शिरोविरेचनानामयथावत्प्रयोगात्** मिथ्यासंसर्जनाद्वा छर्द्यलसक विसूचिका-ध्यास-कासातीसार-शोष-पाण्डुरोग-ज्वरोदर-प्रदर-भगन्दराशों-विकारातिकर्षणैर्वा कुष्ठ-कण्ठ-पिङ्कादिभिर्वा छर्दि-क्षवथूदगार-शुक्र-वात-मूत्र-पुरी-य-वेग-विधारणैर्वा कर्म-रोगोपवासातिकर्षितस्य वा सहसाऽविगुर्वस्तु-लवण-पिष्टाज-फल-शाक-राग-दधि-हरीतक-मद्य-मन्दक-विरुद्ध-ज्वर-शूक्र-शमी-धान्यानुपौदकपिशितोपयोगात् मृत्पङ्क-चोष्ट-भक्षणाल्पवणातिभक्षणाद्वा गर्भ-संदीडनादाम-गर्भ-प्रपतनात् प्रजातानां च मिथ्योपचारादुदीर्णदोषत्वात् शोयाः प्रादुर्भवन्तीत्युक्तः सामान्यो हेतुः ॥ ४ ॥

‘निज’ अर्थात् शरीर के अन्दर स्वतः उत्पन्न होनेवाले शोथ—स्नेह, स्वेद, बमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन के अति या हीन अथवा मिथ्या योग से, इन कर्मों के पीछे अपथ्य से, बमन, अलसक, विष-चिका, श्वास, कास, अतिसार, शोष, पाण्डु राग, ज्वर, उदर रोग, प्रदर, भगन्दर, अर्श रोग से, संशोधन कर्म से, कुष्ठ, खाज, पिङ्का आदि से, छींक, बमन, डकार, शुक्र, वायु और मल के उपस्थित वेगों को राकने से और संशोधन कर्मों से उत्पन्न रोगों से, उपवास से, शरीर के बहुत कर्षण से, एकदम से बहुत भारी, खट्टे, नमकीन पदार्थों के खाने से, पीठी से बने भोजनों से, फल, शाक, राग ( रायता ) घाङ्च, ( खीर आदि ), दही, हरी भाजी, मद्य, मन्दक-धीमे पढ़े उतरे मद्य को पीने से, अंकुरित अन्न, नवीन अन्न से, शूक्र धान्य-चावल गेहूँ आदि, शमीधान्य उड्ढ मूँग आदि, जलचर प्राणियों के मांस के सेवन से, मिट्टी, कीचड़, मिट्टी का ढेला इनके खाने से नमक के अधिक खाने से, गर्भ पर दबाव पढ़ने से, गर्भपात से, प्रसव के पश्चात् उचित परिचर्या न होने से, दोषों के बढ़ने से शोथ उत्पन्न होता है । ये शरीर जन्य शोथों के सामान्य लक्षण हैं ॥ ४ ॥

अर्थ त्वत्र विशेषः—शीत-रुक्ष-लघु-विशद-श्रमोपवासातिकर्षण-श-पणादिभिर्युः प्रकुपितस्त्वङ्मास-शोणितादीन्यभिभूय शोथं जनयति । स शिप्रोत्थापनप्रशमो भवति तथा इयावाहणवर्णः प्रकृतिवर्णो वा, चलः स्पन्दनः खर-पुष्प-भिन्न-त्वग्लोमा छियत इव भिथत इव पीड्यत ।

इव सूचीभिरिव लुप्तते पिपीलिकाभिरिव संसृष्टयते सर्वप-कल्काबलिस  
इव चिमिचिमायते संकुच्यते आयन्यत इति वावशोथः ॥ ५ ॥

उष्ण - तीक्ष्ण - कटुक - श्वाग - लघणाम्लाजीर्ण - भोजनेरन्यातप-प्रतापेश्च  
पित्तं प्रकुपितं त्वङ्मांसशोणितान्यभिभूय शोथं जनयति । स क्षिप्रो-  
त्थानप्रशमो भवति कृष्ण-पीत-नील-ताम्रावभास उष्णो मृदुः कपिल-  
ताम्र-लोमा उष्णते दूष्यते दृष्टयते धूष्यते ऊज्मायते स्विद्यति किलद्यते न च  
स्पर्शमुष्णं वा सुपूर्यत इति पित्तशोथः ॥ ६ ॥

गुरु-मधुर-शीत-स्त्रिग्यैरतिस्त्रप्न-व्यायामादिभिश्च इलेष्मा प्रकुपितः  
त्वङ्मांस-शोणितादीन्यभिभूय शोथं जनयति । स कुच्छ्रोत्थानप्रशमो  
भवति, पाण्डुः इवेतावभासः स्तिर्भवः इलक्षणो गुरुः स्थिरः स्थानः  
शुक्लाग्ररोमा स्पर्शेण्णिसहस्रेति इलेष्मशोथः ॥ ७ ॥

यथास्त्वकारणाकृतिसंसर्गाद् द्विदोषजाग्रथः शोथा भवन्ति ॥ ८ ॥

यथास्त्वकारणाकृतिसन्निपातात्सान्निपातिक एकः ॥ ९ ॥

एवं भेदप्रकृतिभिस्ताभिर्भिद्यमानो द्विविधख्विधश्चतुर्विधः सप-  
विधश्च शोथ उपलभ्यते, पुनरुचैक एव, उत्सेधसामान्यादिति ॥ १० ॥

इनमें इतना विशेष है कि—शीत, रक्ष, लघु, विशद अन्न, खानपान, परिश्रम, उपवास, वमन विरेचनादि कर्मों के बहुत करने और उपवास आदि से वायु कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त और भेद आदि, धातुओं पर अधिकार कर शोथ को उत्पन्न करता है । यह वातजन्य शोथ जल्दी ही उत्पन्न होता और जल्दी ही शान्त हो जाता है । इस का रंग काला सा या लाल-काला अथवा स्वाभाविक रंग का रहता है । यह शोथ गतिशील, धड़कन युक्त, कर्कश, कठोर, त्वचा फटती सी जाती है, और वाल टूट जाते हैं । रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीरदा रहा हो, भेदन कर रहा हो, दबा रहा हो, सुई चुमाने का सा दर्द होता है, चिंटियां सी चलती हैं, सरसों पीछकर लेप करने जैसी चिरमराहट लगती है, सिकुद्रता और फैलता है, यह वातजन्य शोथ के लक्षण हैं ।

गरम, तीक्ष्ण, कटुते, श्वार, नमकीन और खट्टे पदार्थों के खाने से, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से, आग और धूप के ताप के बहुत सेवन से, पित्त कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त पर प्रबल होकर शोथ उत्पन्न करता है । यह शोथ जहरी ही उत्पन्न होता और जल्दी शान्त हो जाता है । इसका रंग काला, पीला, नीला ताम्बे के समान, स्पर्श गरम और कोमल धाल भूरे या ताम्बे के रंग के हो जाते हैं । यह शोथ गरम होता, जलता सा है, पीका देता

है, तपाता है, गरम सा लगता है, पर्सीना आता है, नरमा जाता है, न तो स्पर्श और न गरमी को सहन करता है। यह पित्तजन्य शोथ है।

भारी, मधुर, शीत, स्निग्ध भोजनों से, बहुत सोने से, व्यायाम न करने से, श्लेष्मा कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त पर अविकार करके शोथ उत्पन्न करता है। यह शोथ देर में उत्पन्न होता और देर में ही शान्त होता है। इसका रंग धूसर ( धुमेला ) या इवेत, चिकना, स्नेहयुक्त, भारी, स्थिर ( न हिलने वाला ), गाढ़ा, बालों का अप्रभाग इवेत हो जाता है, स्पर्श के ओर गरमी को सहन कर लेता है, यह कफशोथ है।

अपने अपने कारणों से दो दोष कुपित हाफर दो दोषों के लक्षणों वाले शोथ को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से उत्तर्ग जन्य शोथ इ प्रकार के हैं।

तीनों दोषों के कारणों के मिलने से उत्पन्न सान्निपातिक शोथ एक प्रकार का है, इस में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं।

इस प्रकार प्रकृति भेद से शोथ दो प्रकार के ( निज और आगम्न ), तीन प्रकार के ( वातज, पित्तज, कफज ), चार प्रकार के ( वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सचिवातजन्य ), सात प्रकार के ( वातज, पित्तज, कफज, वातपैतिक, वातश्लैषिक, पित्तश्लैषिक और सान्निपातिक ) होते हैं। परन्तु दूजन की दृष्टि से शोथ एक ही प्रकार का है, दूजन का होना सब शोथों में सामान्य है ॥५-१०॥

भवन्ति चात्र—शून्ये यस्य गात्राणि स्वपन्तीव रुजन्ति च ;

पीडितान्युन्नमन्त्याशु वातशोथं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

यश्चाप्यरुपवर्णभः शोथो नर्कं प्रणश्यति ।

स्नेहोष्णमर्दनाद्यां च प्रणश्येत्स च वातेकः ॥ १२ ॥

यः पिपासाज्वरार्तस्य दूयतेऽयं विद्युते ।

खिद्यते किद्यते गन्धी स पैचः श्वयथुः स्मृतः ॥१३॥

यः पीतनेत्रवक्त्रत्वक् पूर्वं मध्यात् प्रश्युते ।

तनुत्वक् चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते ॥ १४ ॥

यः शीतलः सकंगतिः कण्ठमान् पाण्डुरेव च ।

निपीडिता नोन्नमति इवयथुः स कफात्मकः ॥ १५ ॥

यस्य शब्दकुशच्छेदाच्छोणितं न प्रवर्तते ।

कृच्छ्रेण पिच्छान् स्वाति स चापि कफसंभवः ॥ १६ ॥

निवानाकृतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद् द्विदोषजः ।

सर्वाकृतिः सञ्जिपाताच्छोयो व्यामिश्रहेतुजः ॥ १७ ॥

सूजन होने पर जितका शरीर लोग हुआ, (चेतना, स्वर्ण ज्ञान का अभाव) या प्रतीत हो, पीड़ा होती हो, दशने पर फिर जहाँ से ऊपर उठ आता हो, उसे बातजन्य शोथ समझना चाहिये और जिस शोथ का रंग लाल, काला हो, जो सूजन रात्रि में नष्ट हो जाती है, एवं स्वेदन, उच्छ्र किया अथवा मर्दन से हो जाता है, वह बातजन्य शोथ है। जिस शोथ में रोगी को प्वास बहुत लगे, ज्वर की पीड़ा हो, जलन हो, पक्ता हो, पसीना आता हो, नरम पड़ता हो, गन्ध आती हो, वह पित्तजन्य शोथ है। जिस में कि त्वचा, नेत्र, मुख पीछे हो जाते हों, और जो कि प्रथम बीच में से सूजता हो, त्वचा जितमें पड़ती हो और रोगी को अतिकार हो तो उसे पित्तजन्य शोथ समझना चाहिये। जो सूजन ठण्डी, पसीना न हो, जो हिले जुले नहीं, जिसमें खाज उठती हो, जितका रंग धूसर हो, दशने से फिर ऊर उठ जाये, वह सूजन कफजन्य है। जिस में कि शब्द या कुशा से काटने पर रक्त नहीं बहता, अथवा कठिनाई से थोड़ा थोड़ा चिकना भाव बहता है, वह सूजन भी कफजन्य है। दो दोषों के कारणों से दो दोषों के लक्षणों वाला संसर्गजन्य (द्विदोषज) शोथ होता है। उब दोषों के मिलने से सब लक्षणों वाला सञ्ज्ञापतजन्य शोथ होता है ॥ ११-१७ ॥

यस्तु पादाभिनिवृत्तः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत् ।

जन्ताः स च सुकृदः स्यात्प्रसृतः खीमुखाच्च यः ॥ १८ ॥

यश्चापि गुह्यप्रभवः खियो वा पुरुषस्य वा ।

स च कष्टवमो ज्ञेयो यस्य च स्युरुग्रद्वाः ॥ १९ ॥

जो सूजन पुरुषों के पांव से आरम्भ करके और जिन्हों के मुख से प्रारम्भ होकर समूर्ण शरीर में फैल जाता है वह कष्टाध्य होता है और जो शोथ ज्ञीया पुरुष के गुह्य भाग से प्रारम्भ होकर सारे शरीर में फैलता है, अथवा जिस शोथ में उपद्रव हो, वह शोथ तो अति अधिक कष्टाध्य है ॥ १८-१९ ॥

छर्दिः इवासाऽरुचिस्तुष्णा व्यरोऽर्तोसार एव च ।

सप्तकोऽयं सदौर्बल्यः शोथोपद्रवसंप्रहः ॥ २० ॥

उपद्रव—वमन, इवास, अद्वचि, प्वास, ज्वर, अतिकार और निर्बद्धता संबंध में ये सात शोथ के उपद्रव हैं ॥ २० ॥

यस्य इलेघ्ना प्रकुपितो जिह्वामूलेऽवतिष्ठते ।

आङ्गु संजनयेच्छोथं जायतऽस्योपजिह्वका ॥ २१ ॥

यस्य इलेघ्ना प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठते ।

आङ्गु संजनयेच्छोकं करोति गङ्गशुणिङ्काम् ॥ २२ ॥

यस्य इलेष्मा प्रकुपितो गलबाहेऽवनिष्टुते ।

शनः संजनयेच्छोथं गलगण्डोऽस्य जायते ॥ २३ ॥

यस्य इलेष्मा प्रकुपितस्तिष्ठत्यन्तर्गते स्थितः ।

आशु संजनयेच्छोथं जायते गलग्रहः ॥ २४ ॥

उपजिह्विका रोग—जब कफ कुपित होकर जिह्वा की जड़ में एकत्र होकर शोथ उत्पन्न करता है, उसे 'उपजिह्विका' कहते हैं । गलशुण्डिका—जब कफ कुपित होकर काकल गलग्रन्थि का आश्रय लेकर शोथ उत्पन्न करता है, तब इस रोग को 'गलशुण्डिका' कहते हैं । जब कफ कुपित होकर गले के बाहर आकर शोथ उत्पन्न करता है, तब इसे 'गलगण्ड' कहते हैं । यह सूजन बहुत धोरे धीरे होता है । जब बफ कुपित होकर गले के अन्दर रहकर शोध ही सूजन उत्पन्न करता है, उसे 'गलग्रह' ( गले का रुक जाना, स्वर का बंट जाना ) कहते हैं ॥ २१-२४ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं सरक्तं त्वचि सर्पति ।

शोथं सरागं जनयेद्विसर्पस्तस्य जायते ॥ २५ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तेऽवातष्टुते ।

शोथं सरागं जनयेन् पिण्डका तस्य जायते ॥ २६ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शृण्यति ।

तिळका विसबो व्यङ्गो नीलिका चास्य जायते ॥ २७ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्ख्योरवतिष्ठते ।

इवयथुः शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते ॥ २८ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूलेऽवतिष्ठते ।

ज्वरान्ते दुर्जयोऽन्ताय शोथस्तस्यापजायते ॥ २९ ॥

जब पित्त कुपित होकर रक्त के साथ मिलकर त्वचा में फैलता है, तब लाल रंग की सूजन उत्पन्न होती है, इस को 'पित्तर्प' कहते हैं । जब पित्त कुपित होकर रक्त के साथ त्वचा में स्थिर हो जाता है, तब लाल रंग के उत्पन्न शोथ को 'पिण्डका' ( पुन्सी ) कहते हैं । जब कुपित पित्त रक्त में पहुंच कर शुष्क हो जाता है तब नीलिका, तिळ, व्यंग, चर्मकील, लसन, शाई आदि रोग होते हैं । जब कुपित पित्त शंखप्रदेश ( कनपटी ) में आकर रुक जाता है, तब 'शंखक' नाम का भयानक शोथ उत्पन्न होता है । जब कुपित पित्त कान की जड़ में आकर रुक जाता है, तब झबर के अन्त में भयंकर सूजन उत्पन्न होती है, यह सूजन मारक होती है ॥ २५-२९ ॥

वातः सीहानुबुद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति ।  
 शनैः परितुदन् पाश्वं सीहा तस्याभिवर्धते ॥ ३० ॥  
 यस्य वायुः प्रकुपितो गुल्मस्थानेऽवतिष्ठते ।  
 शोथं सशूलं जनयन् गुल्मस्तस्योपजायते ॥ ३१ ॥  
 यस्य वायुः प्रकुपितः शोथशूलकरश्चरन् ।  
 वं छक्षणाद्वृष्टयौ याति ब्रह्मस्तस्योपजायते ॥ ३२ ॥  
 यस्य वातः प्रकुपितस्तद्भूमासान्तरमाश्रितः ।  
 शोथं संजनयेत् कुतानुदर्दं तस्य जायते ॥ ३३ ॥  
 यस्य वातः प्रकुपितः कुक्षिमाश्रित्य तिष्ठति ।  
 नाधो ब्रजति नायूधवमानाहस्तस्य जायते ॥ ३४ ॥  
 रोगाश्रोत्सेधसामान्यादधिमासावुदादयः ।  
 विशिष्टा नामरूपाभ्यां निर्देश्याः शाथसंग्रहे ॥ ३५ ॥

जब वायु कुपित होकर प्लाहा ( तिळी ) को ऊपर करती है, तब पाश्वों को धीरे धीरे दबाती हुई झींहा बढ़ जाती है। जब वायु कुपित होकर ( हृदय, नाभि, बस्ति और दांतों पादव ) गुल्म स्थानों का आश्रय ले लेती है तब शूलयुक्त सूजन उत्पन्न होती है, इसे 'गुल्म' कहते हैं। जब वायु कुपित होकर सूजन और दर्द को उत्पन्न करती हुई वक्षण ( जघासुनिधि ) प्रदेश से अण्ड कोष में जाती है, तब 'ब्रज्ञ' रोग होता है। जब वायु कुपित होकर त्वचा और मांस के बीच में उदर के अन्दर पहुंचकर आश्रय लेकर शोथ उत्पन्न करती है, तब 'उदर' रोग उत्पन्न हो जाता है। जब वायु कुपित होकर उदर का आश्रय लेकर स्थिर हो जाती है, न तो नीचे जाती है और न ऊपर जाती है, इस को 'आनाह' कहते हैं। अधिमास, अर्दुद आदि रोग में सूजन की समानता होने से, नाम और रूप से भिन्न होने पर भी इनका इसे शोथसंग्रह में निर्देश करना चाहिये ॥ ३०-३५ ॥

वात-णित्ता-कफा यस्य युगपत्कुपिताख्यः ।  
 जिह्वाभूलेऽवतिष्ठन्ते विदहन्तः समुच्छित्राः ॥ ३६ ॥  
 जनयन्ति भृशं शोथं वेदनाश्च पृथग्विधाः ।  
 तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीकेति निर्दिशेत् ॥ ३७ ॥  
 त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोभवति जीवितम् ।  
 कुशलेन त्वनुक्रान्तः विग्रासंपश्यते सुखी ॥ ३८ ॥  
 सन्ति श्वेवविधा रोगाः साध्या वाहणसंभवाः ।  
 ये हन्तुरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ३९ ॥

साध्याश्राप्यपरे सन्ति व्याधयो मृदुर्समदाः ।

यन्नायन्नहृतं येषु कर्मः सिद्धत्यसंशयम् ॥ ४० ॥

असाध्याश्रापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंक्षिताः ।

सुसाध्वपि कृतं येषु कर्म यात्राकरं भवेत् ॥ ४१ ॥

जिस पुरुष के बात, पित्त, कफ ये तीनों इकट्ठे मिलकर कुपित होकर जिह्वा की जड़ में स्थित होते हैं और जलन और चहुत सूजन उत्पन्न करते हैं, तथा नाना प्रकार की पीड़ियों देते हैं इस शोषकारी रोग को 'रोहिणी' कहते हैं। इस रोग के कारण मनुष्य केवल तीन दिन जीवित रहता है। इस बीच में यदि कुशल वैद्य से शीघ्र चिकित्सा कराई जाये तो मनुष्य बच जाता है। इस प्रकार के बहुत से भयानक परन्तु साध्य रोग हैं, जिनकी चिकित्सा न करने अथवा मिथ्या वा अशुद्ध चिकित्सा करने से मनुष्य मर जाता है। दूसरे कोमल रोग ऐसे सुखसाध्य हैं, जिनमें कि यज्ञपूर्वक या अयज्ञपूर्वक ( योग्य या अयोग्य वैद्य ) के चिकित्सा करने से भी निश्चित रूप में आराम हो जाते हैं। दूसरे असाध्य रोग हैं, जिनको 'शाप्य' कहा है। जिन रोगों में भली प्रकार चिकित्सा करने पर भी जो याप्त रहते हैं, वे कुछ समय के लिये अच्छे हो जाते हैं ॥ ४१ ॥

सन्ति चाप्यपरे रोगाः कर्म येषु न सिद्धति ।

अपि यन्नकृतं वैयनेन तान् विद्वानुपाचरेत् ॥ ४२ ॥

साध्याश्रापैवाऽप्यसाध्याश्र व्याधयो द्विविधाः स्मृताः ।

मृदु-दारुण भेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः ॥ ४३ ॥

एक और प्रकार के रोग हैं, जिनमें किसी प्रकार की भी चिकित्सा उफल नहीं होती। इन रोगों में मृदु लोग ही उत्साह से काम करते हैं, परन्तु विद्वान् इनकी चिकित्सा नहीं करते। रंग दो प्रकार के हैं—‘साध्य’ और ‘असाध्य’। और मृदु और दारण मेद से ( दोनों ) चार प्रकार के हो जाते हैं। मृदु-साध्य, दारण-साध्य, मृदु-असाध्य और दारण-असाध्य ॥ ४२-४३ ॥

त एवापरिसंस्थेया भिद्यमाना भवन्ति हि ।

रुजा-बण-समुत्थान-स्थान-संस्थान-नामभिः ॥ ४४ ॥

व्यवस्थाकरणं तेषा यथास्थूलेषु संप्रहः ।

तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषूपदिश्यते ॥ ४५ ॥

विकारनामाकुशलो न जिह्वीयात्कदाचन ।

न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति श्रुता स्थितिः ॥ ४६ ॥

स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः ।

स्थानान्तरगतश्चैव जनथयामयात् बहून् ॥ ४७ ॥

तस्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च ।

समुत्थानविशेषश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेन् ॥ ४८ ॥

यो ह्येतत्त्विधं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते भिषक् ।

ज्ञानपूर्वं यथान्यायं स कर्मसु न मुहूर्ति ॥ ४९ ॥

ये रोग रुजा ( पीड़ा ), वर्ण, समुत्थान अथात् कारण ( जैसे रुक्ष मोजन या रात्रि जागरण आदि के कारण से वायु कुपित होकर भिन्न चिकित्सा से शान्त होता है ), स्थान ( आमाशय, रक्षादि ), संस्थान ( आकृति गुल्म, अर्द्ध आदि ), नामभेद इन भेदों के कारण भेद होने से असंख्य बन जाते हैं । चिकित्सा कार्य में व्यवहार करने के लिये स्थूल संप्रह ( अष्टोदरीय संप्रह ) किया है । इसलिये चिकित्सा कार्य में प्रकृति की समानता से यह रोग वातजन्य, यह पित्तजन्य, यह कफजन्य इत्यादि रोगों की व्यवस्था बोलनी चाहिये । रोगों को नाम से न जानने वाला वैद्य कभी भी चिकित्सा कार्य में लज्जा न उठावे । सब रोगों की नाम द्वारा स्थिरत नहीं, (सब रोगों के नाम नहीं) हैं । कोई एक दोष कारण विशेष से कुपित होकर अन्य स्थान पर पहुंचकर नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है । इसलिये रोग के स्वभाव को, उस के अधिष्ठान को, उस के भेदों को और रोग के विशेष कारणों को जानकर चिकित्सा कार्य ज्ञानपूर्वक उचित रूप से करता है, वह चिकित्सा कार्य में मोहित नहीं होता, वह भूल नहीं करता ॥४४-४६॥

नित्याः प्राणभूतां देहे वात-पित्त-कफाख्यः ।

चिकृताः प्रकृतिस्था वा तान् बुमुत्सेत पण्डितः ॥ ५० ॥

उत्साहोच्छ्वास-निःश्वास-चेष्टा धातुगतिः समा ।

समो मोक्षो गतिमर्ता वायोः कर्मविकारजम् ॥ ५१ ॥

दर्शनं पक्षिरुज्मा च चुन्तुष्णा दैहमार्दवम् ।

प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्मविकारजम् ॥ ५२ ॥

स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता वलम् ।

ज्ञाना धृतिरलोभश्च कफकर्मविकारजम् ॥ ५३ ॥

वारे पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते ।

कर्मणः प्राहृताद्वानिर्वद्विर्बाऽपि विरोधिनाम् ॥ ५४ ॥

दोष-प्रकृति-वैशेष्यं निष्टं वृद्धिलक्षणम् ।  
दोषाणां प्रकृतिर्हानिर्वृद्धिश्चैवं परीक्ष्यते ॥ ५५ ॥ इति ॥

शरीरधारियों के शरीर में बात, पित्त और कफ ये तीनों नित्य सदा रहते हैं । वे या तो विकृत अवस्था में रहते हैं, या प्रकृत अथात् स्वाभाविक रूप में रहते हैं । विद्वान् को चाहिये कि वह इन को पहिचाने, जाने कि विकृतावस्था में हैं, या प्रकृतावस्था में । काम करने में उत्साह, सांस का अन्दर और बाहर आना, चेष्टा, रस, रक्त आदि धातुओं की गति को समान रखना, पुरीष, मल-मूत्र आदि गमन शील वस्तुओं को ठीक प्रकार से बाहर करना, ये अविकृत धातु के कर्म हैं । देलना, अन्न का पचन, देहकी, उष्णिमा, भूख व्याप्ति का लगना, शरीर की कोमलता, ऊनित, मन की प्रसन्नता, और वृद्धि का होना ये अविकृत पित्त के कार्य हैं । चिकनाई, सनिधयों का बन्धन, स्थिरता, मारीपन, पुरुषत्व, बल, सहन शक्ति, मन की स्थिरता, धैर्य, लोभ का न होना ये अविकृत कफ के कार्य हैं । बात, पित्त, कफ इन के क्षीण होने पर लक्षण कहते हैं—स्वाभाविक कर्मों में न्यूनता आती है अथवा स्वाभाविक कर्मों के विरोधी कार्यों की वृद्धि होती है ( यथा धातु के क्षीण होने पर उत्साह के विपरीत विषाद बढ़ता है, पित्त के क्षीण होने पर नहीं दीखता, कफ के क्षीण होने पर रुक्षता बढ़ती है ) । वृद्धि का लक्षण कहते हैं—दोष की प्रकृति ( स्वभाव ) का वैषम्य ( बढ़ना ) वृद्धि का लक्षण होता है । यथा—कफ की स्निग्धता, मधुरता और शीतलता यह प्रकृति है, इसका अति स्निग्ध, अति शीत होना वृद्धि है । इस प्रकार दोषों की प्रकृति, शनि और वृद्धि की परीक्षा करनी चाहिये ॥ ५०—५५ ॥

तत्र इलोकाः ।

संख्या निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतां न च ।  
तेषां तेषां विकाराणां शोफोस्तास्त्रश्च पूर्वजात् ॥ ५६ ॥  
विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्यसंग्रहम् ।  
प्राकृतं कर्म दोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिषु ॥ ५७ ॥  
बीत-राग-रजो-दोष-लोभ-मान-मद-स्तुहः ।  
व्याख्यातवाङ्गिशोकीये रोगाध्याये पुनर्वसुः ॥ ५८ ॥

शोथों की संख्या, कारण, लक्षण, साध्यासाध्य इनसे उत्पन्न रोगों को और जिन रोगों में शोथ प्रथम होता है उनको, रोगों के विधि, मेद से तीन प्रकार की प्रकृति का ज्ञान, दोषों के स्वाभाविक कर्म, वृद्धि और शनि के लक्षण, यह सब

मोह, रज दोष, लोभ, मान, मद, स्तृश्वा इन से रहित पुनर्बसु महर्षि ने 'विशो-  
शीष' अध्याय में कह दिया ॥५६-५८॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के  
त्रिशोधीयो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### उनविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽप्त्वोदरीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'अष्टोदरीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

इह खल्वश्वायुत्तराणि, अष्टौ मूत्रायातः, अष्टौ क्षोरदोषाः, अष्टौ रेतोदोषाः, सप्त कुष्ठानि, सप्त पिण्डकाः, सप्त वीसर्पाः, पठ्ठतीसाराः, पञ्चावर्ताः, पञ्च गुल्माः, पञ्च सीहदाषाः, पञ्च कासाः, पञ्च श्वासाः, पञ्च हिकाः, पञ्च तुष्णाः, पञ्च छर्दयः, पञ्च भक्तस्यानशनस्थानानि, पञ्च शिरोरोगाः, पञ्च हृद्रोगाः, पञ्च पाण्डुरोगाः, पञ्चोन्मादाः, चत्वारोऽप-स्माराः, चत्वारोऽक्षिरोगाः, चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरागाः, चत्वारो भहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्च्छायाः, चत्वारः शोषाः, चत्वारि क्लैव्यानि, त्रयः शोथाः, त्रीणि किलासानि, त्रिविधं लाहितिर्त्ता, द्वो उत्तरी, द्वो ब्रणी, द्वावायामी, द्वे गृष्मस्यौ, द्वे कामले, द्विविधमार्म, द्विविधं वातरक्तं, द्विविधान्यर्णवसि, एक ऊरुस्तम्भः, एकः संन्यासः, एका महागदः, विशतिः क्रिमिज्ञातयः, विशतिः प्रमेहाः, विशतिर्योनिज्यापदः, इत्यष्टचत्वारिंशद्रोगाविकरणा-न्यस्मिन् संमग्ने समुद्दिष्टानि ॥ ३ ॥

इस आयुर्वेद शास्त्र में आठ प्रकार के उदर रोग हैं, आठ मूत्राधात हैं, आठ प्रकार के दूध के दोष, आठ प्रकार के वीर्य दोष। सात प्रकार के कुष्ठ, सात पिण्डायें, सात वीसर्प। छः प्रकार के अतीतार, छः उदावर्त्ता। पांच गुल्म' पांच घ्लीहा के दोष, पांच कास, पांच श्वास, पांच हिक्कियं, पांच तुष्णायें, पांच छर्दन्बमन, पांच प्रकार की अज में असूचि, पांच प्रकार के शिरोरोग, पांच ऊरु से रोग, पांच प्रकार के पाण्डुरोग, पांच उन्माद। चार प्रकार के अपस्थाप, चार नेत्ररोग, चार कर्णरोग, चार प्रकार के प्रतिश्याय, चार मुख रोग, चार

प्रकार के ग्रहणी रोग, चार प्रकार के मदरोग, चार प्रकार की मूर्ख, चार प्रकार के होश, चार प्रकार की क्लीबता तीन प्रकार का शोथ, तीन प्रकार का किळास, तीन प्रकार का रक्तपित्त, दो प्रकार का ज्वर, दो प्रकार के ब्रण, दो प्रकार के आथाम, दो प्रकार की गृष्मसी, दो प्रकार का कामला, दो प्रकार की आम, दो प्रकार का बातरक्त, दो प्रकार का अर्द्ध । एक प्रकार का अस्तम्भ, एक प्रकार का संन्यास, एक प्रकार का महामद; बीस प्रकार के कृमिमेद, बीस प्रकार के प्रमेह, बीस प्रकार के योनि रोग, इस प्रकार से इस स्थूल संग्रह में अड़तालीस प्रकार के रोगों की गणना है ॥ ३ ॥

इन को स्पष्ट करके कहते हैं—

**एतानि यथोदेशमभिनिर्देश्यामः—अष्टावुदराणीति वात-पित्त-कफ-सन्निपात प्लीह-बद्ध-चिछ्ड्र-द्वोदराणीति, अष्टौ मूव्राघाता इति वात-पित्त-कफ-सन्निपाताइमरी-शर्कर-शुक्र-ओणितजा इति, अष्टौ क्षीरदोषा इति वैवर्ण्यं वैगन्ध्यं वैरस्यं पैच्छिल्यं फेनसहृधातो रौक्ष्यं गौरवमति-स्नेहश्चेति, अष्टौ रेतोदोषा इति तनु शुक्रं फेनिलमश्वेतं पूत्यतिपिच्छिल-मन्यधातूपूत्यतमवसादि चेति ॥ ( १ ) ॥**

आठ प्रकार के उदर रोग हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य प्लीहीदर, बद्धोदर, छिछ्डोदर और द्वोदर ये आठ । आठ मूव्राघात—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, अशमरीजन्य, शर्कराजन्य, शुक्रजन्य और ओणितजन्य । छिंयों के दूध में आठ प्रकार के दोष हैं—वैवर्ण्य, वैगन्ध्य, वैरस्य, पैच्छिल्य, फेनसहृधात ( शाग का बहुत आना ), रौक्ष्य ( रूखापन ), गौरव ( भारीपन पानी में नीचे फैठना ) और अति स्नेह ( चिकनाई की अधिकता ) बीर्य के दोष आठ हैं—तनु ( पतला ), शुक्र, फेनिल ( शागदार ), अश्वेत ( मैला, धूसर रंग ), पूति ( दुर्गन्धयुक्त ), अति पिच्छिल ( बहुत चिकना ), अन्य धातु से गिरित और अवसादि ( हीनसत्त्व ) ॥ ( १ ) ॥

**सप्त कुष्ठानीति कपालोदुर्घर-मण्डलर्ज्यजिह्वा-पुण्डरीक-सिध्म-काक-णकानीति, सप्त पिढ़का इति शाराविका कच्छपिका जालिनी सर्वप्यलजी विनता विद्रविश्चेति, सप्त बीसर्पी इति वात-पित्त-कफाग्निन-कर्दम-ग्रन्थि-स्खलिपाताख्याः ॥ ( २ ) ॥**

सात प्रकार के कुष्ठ—कपाल, उदुम्भर, मण्डल, शूलजिह्वा, पुण्डरीक, सिध्म और काकपिका । सात पिढ़कार्य—शाराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पी, अड़जी, विनता और विद्रवि । सात विसर्पी—वातजन्य, पित्त जन्य, कफजन्य, अग्नि, कर्दमक, ग्रन्थि और सन्निपातजन्य ॥ ( २ ) ॥

• वहतीसारा इति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-भय-शोकजाः; वहुदावर्ता  
इति वात-मूत्र-पुरीष शुक्र-च्छर्दिं-क्षबथुजाः ॥ ( ३ ) ॥

छः अतीसार हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, भयजन्य  
और शोकजन्य । छः उदावर्त हैं—वातजन्य, मूत्रजन्य, पुरीषजन्य, शुक्रजन्य,  
च्छर्दिजन्य और क्षबथुजन्य ॥ ( ३ ) ॥

पञ्च गुल्मा इति वात-पित्त-कफ सन्निपात-रक्तजाः । पञ्च सीहदोषा  
इति गुल्मैव्याख्यातातः । पञ्च कासा इति वात-पित्त-कफ-क्षत-क्षयजाः; पञ्च  
इवासा इति महोर्ध्वं-चिछन्नतमक-क्षुद्राः । पञ्च हिका इति महती गम्भीरा  
व्यपेता क्षुद्रा चान्नजा च । पञ्च तृष्णा इति वात-पित्ताम-क्षयोपस-  
र्गात्मिकाः । पञ्च छर्दय इति द्विष्टार्थसंयोग-वात-पित्त-कफ-सन्निपातो-  
द्रेकात्मिकाः । पञ्च भक्तस्थानशनस्थानानीति वात-पित्त-कफ-द्रेष्टायासाः,  
पञ्च शिरोरोगा इति पूर्वोद्देशमभिसमस्य वात-पित्त-कफ-सन्निपात-  
क्रिमिजाः । पञ्च हृद्रोगा इति शिरोरोगैव्याख्याताः । पञ्च पाण्डुरोगा  
इति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-मूद्रक्षणजाः । पञ्चोन्मादा इति वात-  
पित्त-कफ-सन्निपातागन्तुनिमित्ताः ॥ ( ४ ) ॥

पांच गुल्म हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और रक्त  
( आर्तव ) जन्य । पांच प्रकार के झीड़ा दोष—गुल्म के समान ( वात, पित्त,  
कफ, सन्निपात और रक्तजन्य ) हैं । पांच प्रकार के कास—वातजन्य, पित्तजन्य,  
कफजन्य, क्षत ( उरः क्षत ) जन्य और क्षयजन्य । पांच प्रकार के इवास—  
महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र । पांच प्रकार की हिका ( हिकी )—  
महती, गम्भीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अन्नजन्य । पांच प्रकार की प्यास ( तृष्णा )—  
वातजन्य, पित्तजन्य, आमजन्य, क्षयजन्य और ओपसर्गिक कारण से होने  
वाली । बमन भी पांच प्रकार का है—दूषित अन्न के खाने से, वातजन्य,  
पित्तजन्य, कफजन्य और हन्तिपात से होने वाला । पांच प्रकार का अपचन—  
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, द्रेष ( भोजन से द्रेष ) और आयात ( भोजन  
के बीछे सहसा भग्न करने से ) । पांच प्रकार के शिरोरोग—( ‘अदावमेदको  
वा स्थात्’ से आरम्भ करके ‘कियन्तः शिरसीय’ अध्याय में कह दिये गये हैं ) ।  
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और क्रिमिजन्य । पांच प्रकार के  
छुदय रोग—शिरोरोग की मांति हैं । पांच पाण्डुरोग—वातजन्य, पित्तजन्य, कफ-  
जन्य, सन्निपातजन्य और मिट्टी के खाने से उत्पन्न । पांच प्रकार का उन्माद—  
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात और आगन्तुज कारण से ॥ ( ४ ) ॥

चत्वारोऽप्समारा इति वात-पित्त-कफ-सन्नियात-निमित्तजाः ।  
चत्वारोऽक्षिरोगाः, चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्वायाः, चत्वारे  
मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्छार्या  
इत्यपस्मारैव्याख्याताः । चत्वारः शोषा इति साहस-संधारण-क्षय-विष-  
माशनजाः, चत्वारि लौब्यानीति बीजोपधातादूष्वजभङ्गाज्वरादाः  
शुक्कक्षयाच ॥ ( ५ ) ॥

चार अपस्मार-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्नियातजन्य ।  
चार आंख के और चार कान के रोग, चार प्रतिश्वाय, चार मुखरोग चार  
ग्रहणी दोष, चार मद, चार मूर्छार्ये, ये अपस्मार के समान ( वात, पित्त,  
कफ और सज्जिगतजन्य ) हैं । चार प्रकार का शोष, साहस, संधारण ( मल-मूत्र  
के उपस्थित वेगों का रोकना ) क्षय तथा विषम भोजनजन्य । चार प्रकार की  
नपुंसकता—बीज के ( वीर्य के ) दोष से, ध्वज ( साधन ) के दोषसे, जरा  
( बुद्धापे ) से और शुक्र के क्षय के कारण ॥ ( ५ ) ॥

त्रयः शोषा इति वात-पित्त-इलेम-निमित्ताः, श्रीणि किळासानीति  
रक्त-ताप्र-शुक्रानि, त्रिविधं लोहित-पित्तमित्यूर्ध्वं भागमधोभागमुभय-  
भागं च ॥ ( ६ ) ॥

शोष तीन प्रकार का—वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य । तीन प्रकार  
के किळास-रक ( लाल ), ताप्त और शुक्र ( इवेत ) । तीन प्रकार का रक्त-  
पित्त उर्ध्वगामि, अधोगामि और उभयगामि ( ऊर्ध्व एवं अधः दोनों मार्गों से  
जाने वाला ) ॥ ( ६ ) ॥

द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायाः शीतसमुत्थञ्च शीताभिप्रायश्चोषास-  
मुत्थः, द्वौ ब्रणौ इति निजश्वागन्तुजश्च, द्वावायामाविति वाशश्वाम्यन्त-  
रश्च, द्वे गुप्रस्थाविति वाताद्वातकफाच, द्वे कामले इति कोष्टाश्रया शाखा-  
श्रया च, द्विविधमाममित्यलसको विसूचिका च, द्विविधं वातरक्तमिति  
गम्भीरमुत्तानं च, द्विविधान्यर्थासीति शुष्काण्याद्वाणि च ॥ ( ७ ) ॥

इसर दो प्रकार का—शीत से उत्पन्न हुआ, जिसमें उष्ण उपचार की इच्छा  
हो, यह एक प्रकार का, उष्णिया से उत्पन्न हुआ जिसमें शीत उपचार की इच्छा  
हो, यह दूसरी प्रकार का । ब्रण दो प्रकार के—निज ( शारीरिक ) और आगन्तुक  
( वात कारण से ) दो आयाम—शाश्वत और आमन्तर । दो अन्तर का एकही  
रोग—वातजन्य और वात-कफजन्य । कामला दो प्रकार का—कोष्टामिति और शाखा-  
श्रयि । आम दो प्रकार शा-अकलसक और विद्युक्ति ( हैंगा ) । वातरक दो

प्रकार का—गम्भीर और उच्चान ( तत्त्वा के पृष्ठवित्ति ), अर्थ दो प्रकार के—  
शुद्ध और आदृत ॥ ७ ॥

एक ऊरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषसमुत्थानः, एकः संन्यास इति  
त्रिहोषात्मको मनःशरीराभिष्ठानसमुत्थः, एको महागद इति अतस्वा-  
भिनिवेशः ॥ ( ८ ) ॥

ऊरुस्तम्भ एक प्रकार का—आम-दोषमिश्रित त्रिदोष जन्य । संन्यास एक  
प्रकार का विदोषजन्य, मन और शरीर में आभित । महागद एक प्रकार  
का अतस्वाभिनिवेश अर्थात् यथार्थ तत्त्व का न जानना यह मन का विकार है  
है और संसार के सब दुःखों का कारण है ॥ ८ ॥

विशतिः क्रिमिजातय इति युक्तः पिरिलिकाश्वेति द्विविधा बहिर्म-  
लज्जाः, केशादाः लोमादाः लोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरश्चेति  
षट्शोणितज्ञाः, अन्त्रादा उदरादा हृदयदराश्चुरबो दर्भपुष्पाः सौगन्धिका  
महाशुद्धाश्चेति सप्त कफजाः, कक्खका मक्खका लेलिहाः सशूलकाः  
सौमुरादाश्चेति पञ्च पुरीषजा इति विशतिः क्रिमिजातयः । विशतिः  
प्रमेहा इति उद्क्रमेहश्चेष्टुरसमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च  
शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शर्णमेहश्च सिकतामेहश्च लालामेह-  
श्चेति दश इलेघ्निमित्ताः, क्षारमेहश्च कलमेहश्च नीलमेहश्च लोहि-  
तमेहश्च माङ्गाष्ठामेहश्च हरिद्रामेहश्चेति षट् पित्तनिमित्ताः, वसामेहश्च  
मज्जमेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति चत्वारो वातनिमित्ता इति  
विशतिः प्रमेहाः । विशतिर्योनिव्यापद इति वातिकी पैत्तिकी इलेघ्निमित्ती  
सान्निपातिकी वैत चत्सः, दोष-दूष्य-संसर्ग-प्रकृतिनिर्देशरवशिष्टाः  
बोढ़ा निर्दिश्यन्ते, तदथा—रक्तयोनिश्चारजस्का चाचरणा चातिच-  
रणा च प्राक्चरणा चोपल्लुता चोदावर्तिनी च कर्णिनी च पुत्रघ्नी चान्त-  
मुखी च सूचीमुखी च शुष्का च वामिनी च षण्डयोनिश्च महायोनि-  
श्चेति विशतिर्योनिव्यापदः । केवल इचायमुद्देशो यथोद्देशमभिनिर्दिष्ट  
इति ॥ ४ ॥

इमियों की जातियाँ बीस प्रकार की हैं, यथा—यूक ( जूँ ) और पिरिलि-  
कार्द ( लोग ) ये दो प्रकार के कृमि बादा मल ( पक्षीने आदि ) से उत्पन्न  
होते हैं । केशाद लोमाद, लोमद्वीप, सौरव, औदुम्बर और जन्तुमात्रा ये छः  
रक्तजन्य, अन्त्राद, उदराद, हृदयचर, तुरु, दर्भपुष्प, सौगन्धिक, महामुद्र ये  
चात चक्रजन्य, कफेक, लेलिह, सशूलक, और सौमुराद ये पांच मुखीवज्रन्य हैं ।  
ये बीस प्रकार के कृमि हैं ।

प्रमेह बीस प्रकार के हैं। शुक्रमेह, शुक्रमेह, शीतमेह, शनैमेह, सिक्तामेह, लालामेह, उदकमेह, इन्द्रमेह, सान्द्रमेह, सान्द्रप्रसादमेह ये दस प्रमेह कफजन्य, खारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, भंजिष्ठामेह, हरिद्रामेह ये छः प्रमेह पित्तजन्य, वसामेह, मजामेह, हस्तिमेह और मधुमेह ये चार प्रमेह वातजन्य हैं। इस प्रकार से बीस प्रकार के प्रमेह हैं। योनिरोग बीस प्रकार के यथा वातिकी, पैतिकी, इलैडिमिकी और साज्जिपातिकी ये चार और वाकी सोलह दोषवातादि, दूष्य रक्तादि इनके संसर्ग से तथा प्रकृति निर्देश से होते हैं यथा—रक्तयोनि, अरजस्का, अचरणा, अतिचरणा, पाक्चरणा, उपस्थुता, परिस्थुता, उदार्थर्त्तिनी, कर्णिनी, पुत्रप्री, अन्तर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, घण्डयोनि और महायोनि ये बीस प्रकार के योनिरोग हैं। यहां पर केवल रोगों को नाम गणना ही की गई है, आगे विस्तार से यथास्थान कहेंगे ॥ ४ ॥

सर्वएव विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निवर्तन्ते, यथा हि शकुनिः सर्व दिवसमपि परिपतन् स्वां छायां नातिवर्तते, तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफात्रातिवर्तन्ते, वातपित्त-इलेमणां पुनः स्थान-संस्थान-प्रकृति-विशेषानभिसमीक्ष्य तदात्मकानपि च सर्वविकारास्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्त इति ॥ ५ ॥

कहे या न कहे हुए सब प्रकार के रोग ( शारीरिक रोग ) वात पित्त कफ को छोड़कर नहीं हो सकते। वातरित कफ के कारण ही सब शारीरिक रोग होते हैं। जिस प्रकार कि सारे दिन भर उड़ता रहने पर भी पक्षी अथवा छाया का अतिक्रमण ( उल्लंघन ) नहीं कर सकता, उसी प्रकार शरीर के धातुओं की विषमता से उत्पन्न होनेवाले सब रोग वात पित्त और कफ को नहीं छोड़ सकते। वात, पित्त और कफ ही स्थान ( रसादि वस्ति आदि ), संस्थान ( आकृति लक्षण ), प्रकृति ( कारण ) इनकी विशेषताओं को देखकर, एवं वातादि जन्य सब विकारों को इन्हीं से उत्पन्न उक्तबुद्धिमान् कहते हैं ॥ ५ ॥

#### भवतश्चात्र—

स्वधातुवैषम्यनिमित्तजा ये विकारसद्धा बहवः शरीरे ।

न ते पृथक् पित्तकफानिलेभ्य आगन्तवस्त्वेद ततो विशिष्टाः ॥६॥

आगन्तुरन्वेति निजंविकारं निजस्थाऽऽगन्तुमपि प्रबृद्धः ।

तत्रानुबन्धं प्रकृति च सम्यक् ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत ॥७॥

प्रायः जितने रोग शरीर के अन्दर शरीर की धातुओं की विषमता से उत्पन्न होते हैं, वे पित्त, कफ और वात से पृथक् नहीं होते। आगन्तुक रोग इन वात पित्त, कफ से पृथक् हैं।

निज ( स्वतःशरीर में उत्पन्न हुए ) रोग को आगन्तुज रोग अनुवान कहता है। इसी प्रकार आगन्तुज (अभिषातजन्य) रोग के पीछे ( कारण को लेकर ), निज ( अर्थात् शारीरिक लक्षणोंसे लक्षित ) रोग भी हो जाता है। जैसे चोट लगाने के पीछे जबर हो जाता है इसलिये अनुचन्धन ( अपघान, मुख्य ) और प्रकृति ( मूल कारण को भली प्रकार जानकर चिकित्साकर्म आरम्भ करना चाहिये ॥ ६-७ ॥

तत्र इलोकौ—विशकाश्चैककाश्चैव त्रिकाञ्चोक्ताख्याख्यः ।

द्विकाश्चाष्टौ चतुष्काश्च दश द्वादश पञ्चकाः ॥ ८ ॥

चत्वारश्चाष्टका वर्गाः पट्कौ द्वौ सप्तकाख्याः ।

अष्टोदरीये रोगाणामध्याये संप्रकाशिताः ॥ ९ ॥

इस 'अष्टोदरीय' नामक अध्याय में बीस प्रकार के तीन, एक प्रकार के तीन, तीन प्रकार के तीन, दो प्रकार के आठ, चार प्रकार के दस, बारह प्रकार के पांच, चार प्रकार के आठ छः प्रकार के दो और सात प्रकार के तीन रोग कहे हैं ॥ ८-९ ॥

हत्यमिवेशकृते तन्ये चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के

अष्टोदरीयो नामैकोनविशोऽध्यायः ॥ १० ॥

### विशोऽध्यायः ।

अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्मात्तद्वये भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे महारोगाध्याय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे— जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

चत्वारो रोगा भवन्ति—आगन्तु-बात-पित्त-इलेम-निमित्ताः । तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, रुक्सामान्यात् । द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषां, आगन्तु-निज-विभागात् । द्विविधं चेषामधिष्ठानं, मनःशरीर-विशेषात् । विकाराः पुनरेषामपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यधिष्ठान-छिङ्गायतन-विकल्प-विशेषात्, तेषामपरिसंख्येयत्वात् ॥ ३ ॥

मुखानि तु खल्वागान्तोर्नस-दृशन-पतनाभिषाराभिश्चापभिष्ठ-व्यष्ट-व्यष्ट-पीडनरक्तु-वहन-मन्त्राशनि-भूतोपसर्गादीनि. निजस्य तु मुखं बात-पित्त-इलेमणावैषम्यम् ॥ ४ ॥

द्वयोस्तु स्वल्पागन्तुनिजयोः प्रेरणभसासपेन्द्रियार्थसंयोगः, प्रक्षापराधः, परिणामश्चेति ॥ ५ ॥

सर्वेऽपि तु स्वल्पेऽभिप्रवृद्धाभ्यत्वारो रोगाः परस्परमनुबन्धन्ति, न चान्योन्यसदेहमापयन्ते ॥ ६ ॥

आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्य वातपित्तश्लेष्मणः वैषम्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्लेष्मणः पूर्व वैषम्यमापयन्ते, जघन्य व्यथामभिनिर्वत्यन्ति ॥ ७ ॥

तेषां त्रयाणाभपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग उपदेश्यते, तद्यथा—  
बस्तिः पुरीषाधानं कटिः सकिथनी पादावस्थीनि च वातस्थोनानि,  
तत्रापि पक्षाशयो विशेषेण वातस्थानं, स्वेदो रसो लसीका रुधिरमाम-  
शयश्च पित्तस्थानानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उरः शिरो  
ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि, तत्राप्युरो विशेषेण  
श्लेष्मणः स्थानम् ॥ c ॥

सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्मणो हि सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता-  
कुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति—प्रकृतिभूताः शुभान्युपचय-बल-वर्ण-  
प्रसादादीनि, अशुभानि पुर्वविकृतिमापन्नानि विकारसंज्ञकानि ॥ ८ ॥

तत्र विकारः—सामान्यजा, नानात्मजाश्च । तत्र सामान्यजाः पूर्व-  
मष्टोदरीये व्याख्याताः, नानात्मजांस्त्विहाध्यार्थेऽनुव्याख्यास्यामः,  
तद्यथा—अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशतिपित्तविकाराः विश्वितः  
श्लेष्मविकाराः ॥ १० ॥

रोग चार प्रकार के हैं आगन्तुज, घात, पित्त, कफजन्य, । इन चारों में  
ही दृक्-पीडा सामान्य है, इसलिये एक प्रकार है, वेदना की समानता होने से ।  
इन चारों प्रकार के रोगों की प्रकृति दो प्रकार की है; आगन्तुज और निज  
शरीर में उत्पन्न होने वाले । इन रोगों के अधिष्ठान, आशय दो प्रकार के हैं,  
मन और शरीर । किन्तु रोग असंख्य है । क्योंकि प्रकृति, कारण नाम आदि  
अधिष्ठान ( दूष, रस, रक्तादि ), लिंग ( लक्षण ), आयतन ( बाय देतु—दृष्ट  
आहार-विहार ) इनके भेद असंख्य हैं । इसलिये रोग भी अगणित प्रकार के हो  
जाते हैं । आगन्तुज रोगों के मुख्य कारण दान्त का लगाना, गिरना, अभिचार  
( मारण आदि ), अभिशाप-शाप देना, अभिषङ्ख, अभिधात ( चोट का-  
लगना ) वज्र ( मारना ), बन्धन ( बौंचना ), दबाना, रस्ती से बांधना,  
जड़ना, छेद का लगाना, बिजली जा गिरना, वे सूखमूत दस्त के उपक्रम  
के कारण हैं । जिन शारीरिक जन्य रोगों के मुख्य कारण वात,

पित्त और कफ की विषमता है। इन दोनों ( आगन्तुज और निज ) प्रकार के रोगों का मूल प्रेरक ( प्रहृति का ) कारण असात्मेन्द्रियार्थ-संयोग, प्रक्षापराध और परिणाम है। ये चारों प्रकार के रोग बढ़कर परस्पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। परन्तु तो भी सन्देह को उत्पन्न नहीं करते। परस्पर मिलने पर भी लक्षण पृथक् पृथक् दीख पड़ते हैं। आगन्तुज रोग प्रथम शरीर के अन्दर पीड़ा को उत्पन्न करता है और पीछे से वात, पित्त और कफ की विषमता को उत्पन्न करते हैं और फिर पीछे से पांझा को उत्पन्न करते हैं। तीनों ही दोषों का शरीर में स्थान विभाग कहते हैं—यथा—बृत्ति ( मूत्राशय ), पुरीवाधान ( पक्षाशय ), कटि ( कमर ), सक्षिथं ( जंधार्ये ) और पांव की अस्थियां ये वायु के स्थान हैं। इनमें भी पक्षाशय विशेष करके वायु का स्थान है। पक्षीना, रक्ष, लतीका, इधिर और आमाशय ( का निचला भाग ) ये पित्त के स्थान हैं। इनमें भी आमाशय मुख्य करके पित्त का स्थान है। छाती, घिर, ग्रीवा, व सन्धियां, आमाशय का ( ऊपर का भाग ) और मेद, ये कफ के स्थान हैं। इनमें भी छाती विशेष करके कफ का स्थान है<sup>१</sup>। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष समूर्ण शरीर में गति करते हैं, और गति करते हुए कुपित या अकुपित अवस्था में रहकर समूर्ण शरीर में शुभ या अशुभ लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। यथा—प्रकृतिभूत स्वस्थरूप में रहकर शुभ लक्षणों को, यथा—उपचय ( शरीर की पुष्टि ), बल-कान्ति की वृद्धि, वर्ण ( कान्ति ) की उज्ज्वलता और विकृत ( कुपित रूप ) अशुभ लक्षणों ( रोगों ) को उत्पन्न करते हैं। विकार ( रोग ) दो प्रकार के हैं—सामान्य और नानात्मज। सामान्य-वातादि दोष प्रत्येक मिलकर जो रोग उत्पन्न करते हैं। नानात्मज—जब वातादि दोष परस्पर न मिल कर स्वतन्त्ररूप से रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें सामान्यज रोग पहिले 'अष्टोदरीय' अध्याय में कह दिये हैं और नानात्मज रोगों का इस अध्याय में वर्णन करेंगे। यथा—अस्ती प्रकार के वात रोग, चालीस प्रकार के पित्तरोग और बीम प्रकार के कफ रोग हैं॥ ३-१० ॥

तत्राऽऽदौ वातविकाराननुव्याख्यात्यामः, तद्यथा—नखभेदश्च,  
विपादिका च, पादशूलं च, पादभ्रंशश्च, पादसुप्रता च, वातखुड़ता च,

<sup>१</sup> प्राण अपान मेद से वायु के स्थान अन्यत्र कहेंगे। वहां पर बताये हुए स्थानों में इन दोषों के विकार प्रायः करके होते हैं, अतः इनकी गणना की है।

<sup>२</sup> आमाशय के ऊर्ध्वभाग में पित्त और अधोभाग में कफ का स्थान है।

गुल्फप्रहश्च, पिण्डिकोद्देष्टनं च, गृप्रसी च, जानुमेदश्च, जानुविश्लेषश्च,  
ऊरुस्तम्भश्च, ऊरुसादश्च, पाङ्गल्यं च, गुदध्रेशश्च, गुदार्तिश्च, वृषणोत्से-  
पश्च, शोकस्तम्भश्च, वक्ष्यशाणानाहश्च, ओणिमेदश्च, विष्मेदश्च,  
उदावत्तेश्च, खल्जत्वं च, [ कुञ्जत्वं च, ] वामनत्वं च, त्रिक्लप्रहश्च,  
पृष्ठप्रहश्च, पाश्वांवर्मदश्च, उदरावेष्टश्च, हृन्मोहश्च, हृद्रवश्च, वक्ष-  
उद्धर्षश्च, वक्षउपरोधश्च, ( वक्षस्तोदश्च, ) वाहुशोषश्च ग्रीवास्तम्भश्च,  
मन्यास्तम्भश्च, कण्ठोद्दृवंसश्च, हनुस्तम्भश्च, ओष्ठमेदश्च, ( अक्षिमेदश्च, )  
दन्तभेदश्च, दन्तशैथल्यं च, मूकत्वं च ( गद्यादन्तं च, ) वाक्सङ्गश्च,  
कण्ठायास्यता च, सुखशोषश्च. अरसज्जता च, [ अगन्धज्जता च, ग्राण-  
नाशश्च, ] कण्ठशूलं च, अशब्दशब्दवणं च, उवैःश्रुतिश्च, वाचिर्यं च,  
वर्त्मस्तम्भश्च, वर्त्मसंकोचश्च, तिमिरं च, अक्षिशूलं च, अक्षिव्युदासश्च,  
अव्युदासश्च, शङ्खमेदश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरुक् च, केशभूमिस्फुटं  
च, अर्दितं च, एकाङ्गरोगश्च, सर्वाङ्गरोगश्च, [ पक्षवधश्च, ] आक्षेपकश्च  
दण्डकश्च, अमश्च, अमश्च, वेष्युश्च, जूम्भा च, विषादश्च, ( हिक्का च ),  
अतिप्रलापश्च, रजानिश्च, रौक्ष्यं च, पाहृष्यं च, श्यावारुणावभासता  
च, अस्वप्नश्च, अनवस्थितत्यं चेत्यशीतिर्वार्तविकारा वातविकाराणा-  
मपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याताः ॥ ११ ॥

सबसे प्रथम वात रोगों को कहते हैं। यथा—नलों का दूटना, विपादिका  
( पांव का फटना ), पादशूल ( पांव की बेदना ), पादध्रेय, पादसुसता ( पांव  
का सोना, ज्ञानशून्यता ), वातखुड़का, गुल्फप्रह; पिण्डिकोद्देष्टन ( पिण्डियों  
में ऐंठन ), घ्रसी, जानुमेद और जानु विश्लेष, ऊरुस्तम्भ, ऊरुसाद, पंगुता,  
गुदध्रेय, गुदार्ति, वृषणोत्क्षेप ( अंडाकोश का ऊपर लीचना ) शोकस्तम्भ ( गिर्भ  
में अक्षड़ाहट रहना ), वंक्षण में आनाह, ओणिमेद ( नितमों का फटना ),  
विष्मेद ( मलमेद ), उदावर्त, खल्जत्व ( लंगड़ापन ), कुञ्जत्व ( कुञ्जड़ापन ),  
वामनत्व ( नाटापन ), त्रिक्लप्रह, पृष्ठप्रह. पाश्वांवर्मद ( परलियों की पीड़ा ),  
उदरावेष्टन ( पेट में ऐंठन ), हृन्मोह ( हृदय की मूर्छा ), हृद्रव ( हृदय का  
द्रवित या घड़कन अधिक होना ) वक्षःउद्धर्ष ( ढातों में पीड़ा ), वक्षोपरोध  
( ढातों का घड़जाना ), वाहुशोष ( भुजा का दूतना ), ग्रीवास्तम्भ ( ग्रीवा  
का अक्षड़ाहटना ), मन्यास्तम्भ ( घाट की अक्षड़ाहट ), कण्ठोद्दृवंस ( व्याख्यांग ),  
हनुस्तम्भ ( मुख का, जबाको का खुआ रहना ), ओष्ठमेद ( ओष्ठ की विदीर्जता )  
दन्तमेद ( ढातों का दूटना ), दन्तशैथल्य ( ढातों की गिरिडाता ), मूकत्व  
( गूरजपन ), वाक्सङ्ग ( वाणी का दूटना ), सुख का करैकापन, तुल की

शुद्धता, स्वाद का ज्ञान न होना, गन्धज्ञान का अभाव, ज्ञाणशक्ति का नाश होना, कान में वेदना, शब्द का सुनाई न देना, औंचा सुनाई देना, बहरापन, पलकों का स्तम्भ, पलकों का संकुचित होना, शंख, कनपटी का फटना, माये का फटना, शिरोवेदना, बाकों की भूमि का फटना, अर्दित वात, एकांग रोग, सर्वांग रोग, पश्चवध (पशाषात) आखेपक, दण्डापतनक, यक्कान, चक्कर आना, कम्पन, जम्माई, विशाद, चिन्ता, बहुत प्रलाप, गळानि, रूक्षता, कक्षयता, छाल-छाल रक्त की चमक, नींद का न आना, तिमिर (काच रोग), औंख में वेदना, आंख का पलटना, भुवों का संकुचित होना और चित्त की अनवस्थितता, चंचलता (अस्थिरता) ये अस्ती वात विकार हैं। वात विकार असंख्य हैं—यहाँ पर प्रधान प्रधान वात रोगों की गणना की है ॥ ११ ॥

सर्वेष्वपि खल्वेतेषु वातविकारेषु केष्वन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदिमात्मरूपमपरिणामि कर्मणहच स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवधवं वा विमुक्तसंदेहा वातविकारमेवाध्यवस्थ्यन्ति कुशलाः, तथाया—रौक्ष्यं लाघवं वैश्वदं शैत्यं गतिरमूर्तत्वं चेति वायोरात्मरूपाणि, एवंविधत्वाच कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं शरीरावयवमाविश्वतः; तथाया—संस-ञ्जन-न्यासङ्ग-भेद-साद-हर्ष-नर्व-नर्त-मर्द-ऋग्म-चाल-तोद-न्यथा-चेष्टादीन, तथा खर-परुष-विशद-सुषिर तारुण-कषाय-विरस-मुखशोष-शूल-सुमिसंकुञ्जान-स्तम्भन-खञ्जतादीनि च वायाः कर्माणि, तैरन्वितं वातविकारमेवाध्यवस्थेत् ॥ १२ ॥

तं भवुराम्ल-छवण-स्तिर्घोष्णेरूपकमेत स्नेहस्वेदास्थापनानुबास-ननस्तःकर्मभोजनाध्यक्षोत्सादन-परिषेकादिभिर्वातहरेमात्राः काळं च प्रमाणीकृत्य; आस्थापनानुबासनं तु खलु सर्वोपकमेऽया वाते प्रधान-तमं मन्वन्ते भिषजः, तद्वधादित एव पकाशयमनुषविश्य केवलं वैकारिकं वातमूलं छिनन्ति, तत्रावजिते वातेऽपि शरीरान्तर्गता वात-विकाराः प्रशान्तवापद्यन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छिन्ने स्कन्धशास्त्रावरोह-कुसुमफलपलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वत् ॥ १३ ॥

इन खब यहाँ पर कहे हुए वातविकारों में वायु के अपने स्वाभाविक (अन्य उपाधि से न हुए) कमों से, तथा अपने लक्षणों से वायु को पहिचान कर वात के एक भाग को देखकर सन्देह राहेत हाकर कुशल चिकित्सक वात रोग ही है ऐसा पहिचानते हैं। वे ये हैं यथा—रूक्षता, असु

(हल्कापन) विशदता, शीतलता, गर्ति, अमूर्तत्व (अवश्यत्व), ये वायु के स्वरूप हैं। वायु के कर्मों से पहिचान-शरीर के जिस जिस अवयव में वायु आश्रय लेती है, वहाँ पर संस (खिसकना), भ्रंश (दूर खिसकना), विस्तार, अवसन्नता, हर्ष, प्लास, मर्दन की पीड़ा, आवर्तन, हिलने की चुभने की पीड़ा, चेष्टा आदि कम्पन, कर्कशता, कठोरता, पृथक्करण, छेद करना, लाल रंग, कषाय रस, मुख की विरसता, मुख का शुष्क होना, दर्द, शून्यता, संकोच, स्तम्भन, खञ्जत्व (लंगड़ापन) आदि वायु के काम हैं। इन लक्षणों वाले को बातरोग ही जानना चाहिये। इस वायु की मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण क्रियाओं से चिकित्सा करना चाहिये। स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य कर्म, भोजन, मर्दन, उबटन छगाना, परिषेक-स्नान आदि बातनाशक कर्मों को मात्रा और काल का विचार करके प्रयोग करना चाहिये। इन सब कर्मों में वैद्य लोग आस्थापन और अनुवासन (वस्ति) को ही सब से श्रेष्ठ उपाय वायु के लिये मानते हैं। यह शीघ्रता से पक्वाशय में पहुँचकर सम्पूर्ण रोगों को उत्पन्न करने वाले वायु को जड़ से नष्ट कर देती है। ऐसी अवस्था में वायु के पूर्ण शान्त न होने पर भी शरीर के अन्दर के बायुरोग शान्त हो जाते हैं, जैसे—वनस्पतियों के जड़ के कट जाने पर लता, शाला, अंकुर, फल, फूल पत्ते आदि का नाश अवश्यभावी है॥ १२-१३॥

पित्तविकाराश्रित्वारिशदत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यन्ते; तथाथा—ओषधि, प्लोषधि, दाहश, दवशुधि, धूमकश्च, अम्लकश्च, विदाहश, अन्तर्दाहश, [अङ्गन्दाहश]. अज्ञाधिक्यं च, अतिस्वेदश्च, [अङ्गन्स्वेदश्च], अङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरणं च, शोणितक्लेदश्च, मासिक्लेदश्च, त्वग्दाहश्च, मासदाहश्च, त्वगवदरणं च, चर्मावदरणं च, रक्तकोठाश्च, (रक्तविद्सफोटाश्च,) रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, हरितत्वं च, हारिद्रत्वं च, नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तिक्तास्यता च, (लोहितगन्धास्यता च,) पूर्तिसुखता च, तृष्णाया आधिक्यं च, अतुमिश्च. आस्थ्यपाकश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, मेदपाकश्च, जीवादानं च, तमः-प्रवेशश्च, हरित-हारिद्र-मूत्र-नेत्र-वर्चस्त्वं चेति चत्वारिंशत्पित्तविकाराः पित्तविकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमाव्याख्याता भवन्ति॥१४॥

इषुके आगे पित्तजन्य, विकारों की व्याख्या करते हैं—पित्त विकार—ओषध (पात्र में रखी अग्नि की आंच), प्लोष (जलने के समान जलन), दाह (जलन), दवशु (सब अंगों में जलने के समान धक्क-धक्क होना), धूमक (धूमें जैसा वमन आना), खट्टास, जलन, शरीर के अन्दर दाह, अंगों में दाह, गरमी

की अधिकता, परीने का अधिक आना, अंगों ( बगल आदि ) में परीना आना, अंगों से दुर्गन्ध आना, अंगों का फटना, रक्त में छिन्नता ( बद्ध ) आना, मांस की छिन्ननदा, त्वचा का जलना, मांस की जलन, त्वचा और मांस का फटना, त्वचा के ऊपर के चर्म का फटना, लाल-लाल घबे चकचे, हरा रंग हल्दी का सा पीला रंग, नीलिका ( शाई ), कक्षा ( बगल का मांस फटना ), कामला मुख की कहुता, मुख से दुर्गन्ध आना, प्यास का अधिक लगना, भोजन में अदृष्टि, मुख का पकना, गले का पकना, आंख का पकना, गुदा का पकना शिशन का पकना, प्राणों का नाश, और आंखों के सामने अन्धेरा रहना, मल-मूत्र और आंख का हरा या पीला होना, ये चालीस पित्तजन्य रोग हैं। पित्त विकार असंख्य हैं, यहां पर मुख्य रोगों की गणना की गई है ॥ १४ ॥

सर्वेष्वपि स्वर्वेतेषु पित्तविकारं ष्वन्यं पु चानुक्त्वा पित्तस्येदमात्मरूप-मपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसंदेहः पित्तविकारमेवाभ्यवस्थन्ति कुशलाः । तदथा अोष्ठयं तैक्षण्यं लाधवमन्तिस्नेहो वर्णश्च शुक्लारुणवर्जो गन्धश्च विस्तो रसाँ च कटुकाम्लो पित्तस्याऽत्मरूपाणि, एवं विधत्वाच्च कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति । तं तं शरीरावयवमाविशतः । तदथा—दाहौ औष्ठयपाक-स्वेद-क्लेद-कोथ-स्राव-रागा यथाख्वं च गन्ध-वर्ण-रसाभिनिर्वर्तनं पित्तस्य कर्मणि, तैरन्वितं पित्तविकारमेवाभ्यवस्थेत् ॥ १५ ॥

तं मधुर-तिक्त-क्षाय-शीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेह-विरेचन-प्रदेह-परिधेकाभ्यङ्गावगाहादिभिः पित्तहरैर्मात्रा कालं च प्रमाणीकृत्य, विरेचन तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्धथादित एवाऽमाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूँडं चापकर्षति, तत्रावजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाऽमौ व्य-पोढे केवलमनिगृह्य शीतीभवति तद्वत् ॥ १६ ॥

इन सब यहां कहे या नहीं कहे हुए पित्त विकारों को या उसके एक भाग को स्वाभाविक रूप से ( किसी दूसरे दोष से न मिला होने पर ), कार्यों, एवं पित्त के लक्षणों से पहिचानकर कुशल वैद्य लोग पित्त रोग ही है, ऐसा निश्चय करते हैं। यथा गरमी, तीक्ष्णता, लघुता, चिकास की अधिकता न होना, सफेद और काले-लाल रंग को छोड़कर अन्यरंग, सफांद ( दुर्गन्ध युक्त ) कटु और खट्टा रस होना ये पित्त के लक्षण हैं। निम्न प्रकार के कर्मों से पित्त की पहिचान होती है शरीर के जिस जिस अवयव में पित्त आश्रय लेता है, वहां कह

पर दाह, गरमी, पाक ( पक्ना ), पकोना, क्लिन्जता, सडांद, खज, खाव, रंग तथा पित्त के समान गन्ध, वर्ण और रस की उत्पत्ति होना ये पित्त के कर्म हैं। इन कार्यों से युक्त रोग को पित्त का विकार जानना चाहिये। इस पित्त का शान्त करने के लिए मधुर, तिक्त, कथाय, शीत उपकरणों से चिकित्सा करनी चाहिये। पित्त नाशक स्नेह, विरेचन, प्रदेह, स्नान, मर्दन आदि कार्यों को मात्रा एवं समय को देखकर प्रयोग करना चाहिये। पित्त को शान्त करने के लिए वैद्य लोग विरेचन को हा तब से मुख्य साधन मानते हैं। यह जल्दी ही आमाशय में प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण पित्तविकार को जड़ से बाहर निकल देता है। ऐसी अवस्था में पित्त के सम्पूर्ण शान्त न होने पर भी शरीरस्थ पित्तरोग ऐसे ही शान्त हो जाते हैं जिस प्रकार को भट्ठी से आग निकाल लेने पर भट्ठी अपने आप ठण्डी हो जाती है ॥ १६ ॥

इलेघ्मविकारादृश विश्विमित ऊर्ज्वं व्याख्यास्यामः, तथाच—  
तृप्तिश्च, तन्द्रा च, निद्राया आधिक्यं च, स्तैमित्य च, गुरुग्रावता च,  
आळस्यं च, मुखमाधुर्यं च, मुखस्नादृश्च, इलेघ्मोद्विगिरणं च, मलस्याऽऽ-  
धिक्यं च, कण्ठोपलेपश्च, बलासञ्च हृदयोपलेपश्च, धमनी-प्रतिच्छयश्च,  
गलगण्डश्च, अतिस्थौर्लयं च, शीताग्निता च, उद्दृश्च, इवेतावभासता च,  
इवेत-मूत्र-नेत्र-वर्चस्त्वं चेति विश्वितः इलेघ्मविकाराः इलेघ्मविका-  
राणामपरिसंख्येयानामाविष्कृतवत्तमा व्याख्याताः ॥ १७ ॥

कफजन्यरोग बीस हैं। उन का कहते हैं यथा—भाजन न करने पर भा-  
तुसि का अनुभव, तन्द्रा, नींद का अधिक आना, स्तैमित्य ( शरीर का गीले बज्ज से ढंपा प्रतीत होना ), शरीर का भारीपन, आलस्य आना, मुख की मिठाप, मुख से लाला बहना, कफ का बमन, शरीर से मल का अधिक निकलना, कफ का क्षय, हृदय का भरा रहना, कण्ठ का भरा रहना, धमनियों का अवरोध, गलगण्ड, अतिस्थूल, मन्दाग्निं, उदर्द ( छाकी ), इवेत रंग की प्रतीति, मूत्र मल और नेत्र में सफेदी, ये बीस कफजन्य रोग हैं। कफजन्य विकार असंख्य हैं, परन्तु यहां पर प्रधान रोगों की गणना की है ॥ १७ ॥

स्वेष्वपि तु खल्वेतेपु इलेघ्मविकारेष्वन्येषु चानुकेषु इलेघ्मण इद-  
मात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विसु-  
क्तसंदेहाः इलेघ्मविकारमेवाध्यवस्थन्ति कुशलाः, तथाच—इवैत्य-शैत्य-  
स्नेह-गौरव-माधुर्य-मात्रन्यानि इलेघ्मण आत्मरूपाणि, एवं चिधत्वाच  
कर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं शरीरावयवमाविशतः, तथाच-  
इवैत्य-शैत्य-कण्डू-स्थैर्य-गौरव-स्नेह-स्तम्भ - सुप्ति-होपदेह-बन्ध-माधुर्य-

चिरकारित्वानि इलेघ्मणः कर्माणि, तैरन्वितं इलेघ्मविकारमेवाध्यव-  
स्येत् ॥ १८ ॥

तं कदुक-तिक-कषाय-तोङ्गोष्ठ-रुक्षौरुपक्रमैरुपक्रमेत स्वेदन-वमन-  
शिरोविरेचन-न्यायामादिभिः इलेघ्महरैर्मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य, वमनं  
तु सर्वोपक्रमेऽयः इलेघ्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्वथादित  
एवाऽस्त्रमाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं इलेघ्ममूलमपकर्षति, तत्राव-  
जिते इलेघ्मण्यपि शरीरान्तर्गताः इलेघ्मविकाराः प्रशान्तिमापयन्ते,  
यथा—भिन्ने केदारसेतो शालिं-यव-षष्ठिकादीन्यभिष्यन्दमानान्यम्भसा  
प्रशोषमापयन्ते तद्वदिति ॥ १९ ॥

इन सब कफ की विकारों में कहे हुए या नहीं कहे हुए रोगों को या उसके  
एक भाग को कफ के अपने स्वाभाविक रूप से, कार्यों से, लक्षणों से पहिचान  
कर कुछल युक्त सन्देहरहित होकर इलेघ्मविकार ही हैं ऐसा निश्चय करते हैं।  
यथा चिकास, शीतलता, सफेदी, मारीपन, मधुरता, मसूणता ( पिंडलता ),  
ये कफ के रूप हैं। निम्न प्रकार के कार्यों से कफ की पहिचान होती है—

शरीर के अवयवों में प्रविष्ट होकर कफ सफेदी, शीतलता, खाज, स्थिरता,  
मारीपन, चिकास, जड़ता, निष्क्रियता, क्लिन्चता, चिकनापन, अवरोध, मधुरता,  
देर में कार्य करना ये कफ के कार्य हैं। इनके द्वारा कफ रोग को जानना  
चाहिये। इस कफ को शान्त करने के लिये कड़, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण, गरम  
और रुक्ष उपकरणों से चिकित्सा करनी चाहिये। मात्रा और समय के अनुसार  
स्वेद, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि श्लेघ्मनाशक कार्यों का प्रयोग करे।  
कफ को शान्त करने के लिये वैद्य वमन को ही सब से उत्तम साधन मानते हैं।  
वमन जल्दी से आमाशय में पूर्वं कर सम्गूणं वैकारिक कफ को जड़ समेत  
बाहर कर देता है। इस कफ के पूर्ण रूप से शान्त न होने पर भी शरीर के  
अन्दर के कफस्तोग शान्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कि धान्य, जौ, सांठी पानी  
से भरे होने पर खेत की मेंट के दूटने पर पानी से खुइक हो जाते हैं, ( सख  
जाते हैं ), इसी प्रकार कफ के निकलने से रोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ १८-१९ ॥  
भवन्ति चात्र—रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् ।

ततः कर्म भिषक्पश्चाज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥ २० ॥

यस्तु रोगविज्ञाय कर्माण्यारम्भते भिषक् ।

अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यहच्छ्या ॥ २१ ॥

यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्व-भैषज्य-कोविदः ।

देश-काळ-प्रमाण-ज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् ॥ २२ ॥

सब से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिये, उसके बीचे औषध की परीक्षा, इसके अनन्तर वैद्य ज्ञानपूर्वक चिकित्सा का आरम्भ करे। जो वैद्य, रोग की परीक्षा द्वारा निश्चय किये विना चिकित्सा कर्म आरम्भ कर देता है, भले ही वह वैद्य औषधि के विधान को जानता हो, तो भी उसकी सफलता निश्चित नहीं ( कभी हो जाती है, और कभी नहीं )। जो वैद्य रोगों को भली प्रकार जानता है, इसी प्रकार औषधियों को भी जानता है, साथ में देश, काल और प्रमाण को भी समझता है, उसकी सफलता निश्चित, अवश्यम्भावी है ॥२०-२२॥  
तत्र इलोका:—संग्रहः प्रकृतिर्देशो विकारमुखमीरणम् ।

असंवेद्होऽनुबन्धश्च रोगाणां संप्रकाशितः ॥ २३ ॥

दोषस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये ।

रूपं पृथक्त्वादोषाणां कर्म चापरिणामि यत् ॥ २४ ॥

पृथक्त्वेन च दोषाणां निर्दिष्टाः समुपकमाः ।

सम्यक् महति रोगाणामध्याये तत्त्वदर्शिना ॥ २५ ॥

रोगों की संक्षिप्त संख्या, इनके स्थान और इनके साक्षात् अथवा प्रेरक कारण, असन्देह, और अनुबन्ध, दोषों के स्थान, नानाप्रकार के रोगों की गणना, दोषों के पृथक् पृथक् रूप, और स्वाभाविक कर्म, दोषों के पृथक् पृथक् शान्ति के उपाय, इस महारोग अध्याय में तत्त्वदर्शि पुनर्वर्तु ने कह दिये हैं ॥२३-२४॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सुत्रस्थाने रोगचतुष्के

महारोगाध्यायो नाम विशेषध्यायः ॥ २० ॥

### एकविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽष्टौनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'अष्टौनिन्दितीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

इह खलु शरीरमधिकृत्याष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति; तथा—  
अतिदीघ्वश्चातिहस्तश्चातिलोमा चालोमा चातिकृष्णश्चातिगौरश्चातिस्थू-  
लश्चातिकृशश्चेति ॥ ३ ॥

इस लोक में शरीर के सम्बन्ध में ( मन के सम्बन्ध में अधार्मिक आदि इन से भिन्न हैं ) आठ पुरुष निन्दित माने जाते हैं । यथा १. अतिदीर्घ २.

अतिहस्त, ३. अतिलोमा ( बहुत बालों वाला ), ४. अलोमा ( एक दम बाल रहत ) ५. अतिकृष्ण ( बहुत काला ) ६. अतिगौर, ७. अतिस्थूल ( बहुत मोटा ) और ८. अतिकृश ( बहुत पतला ) ॥ ३ ॥

तत्रातिस्थूलकृशयोर्मुद्य एवापरे निनिदत्विशेषा भवन्ति; अतिस्थूलस्य तावदायुषो ह्वासो जरोपरोधः कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं दौर्गन्धं स्वेदाशाधः क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगङ्गचेति भवन्त्यष्टौ दोषाः । तदति-स्थौल्यमतिसंपूरणाद् गुरु-मधुर-शीत-स्तिरधोपयोगादव्यायामादव्यवायादिवास्वप्नाद्वर्धनित्यत्वादचिन्तनाद् बीजस्वभावाचोपजायते । तस्या-तिमात्रं मेदस्त्रिवनो मेद एवापचीयते न तथेतरे धातवः, तस्मादस्याऽस्युषो ह्वासः, शैथिल्यात् सौकुमार्याद् गुरुत्वाच्च मेदसाः जरोपरोधः, शुक्रबहु-त्वाद् मेदसाऽस्युत्वमार्गत्वाच्च कृच्छ्रव्यवायता, दौर्बल्यमसमत्वाद्वातुता, दौर्गन्धं मेदोद्वाधानमेदसः स्वभावात्स्वेदलल्त्वाच्च, मेदसः इलेष्मसंस-र्गाद्विष्यनिदत्वाद् बहुत्वाद्वयायामासहत्वाच्च स्वेदाशाधः, तोक्षणगिन-त्वात्प्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुद्रात्मात्रं पिपासातियोगङ्गचेति ॥ ४ ॥

इन आठों पुरुषों में भी अतिस्थूल और अतिकृश ये दोनों पुरुष विशेष रूप से निनिदत् हैं । इनमें अतिस्थूल पुरुष की आयु छोटी होती है, उसे बुढ़ापे जल्दी आ घेरता है, मेथुन में कठिनता, निर्बलता, शरीर में दुर्गन्ध, पसीना बहुत आता है, भूख और प्यास खूब अधिक लगती है, ये आठ दोष होते हैं । यह अतिस्थूलता अधिक भोजन करने से, गुरु, मधुर, शीत, स्तिरध पदार्थों के मेवन से, व्यायाम न करने से, सम्मोग न करने से, दिन में सोने से, नित्य खुश ( वेफ़िकर ) रहने से, चिन्ता न करने से, माता पिता के स्थूल होने से उत्पन्न होती है । अतिस्थूल पुरुष के शरीर में मेद के बड़े होने पर आगे मेद ही बढ़ता जाता है और अन्य धातु नहीं बढ़ते । इसलिये ( विषम धातु होने से ) आयु छोटी होती है, मेद के शिथिंठ, सुकुमार और भारी होने से बुढ़ापे का जल्दी आना, शुक्र के कम होने से, मेद के द्वारा शुक्र बाह्य स्रोतों के रक जाने से मेथुन में कठिनाई; धातुओं के विषम होने से दुर्बलता, मेद के दोष से, मेद के स्वभाव से तथा पसीने के अधिक आने से दुर्गन्ध, मेद के इलेष्मा के साथ मिलने से, उड़ने से, बहुत होने से, मारी होने से और परिभ्रम को न उड़ सकने के कारण पसीने का बहुत आना, अग्नि के प्रबल होने से और कोष्ठ में वायु की अधिकता से भूख अधिक और बहुत प्यास लगती है ॥ ४ ॥

भवन्ति चात्र—मेदसाऽस्युत्वमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ।

चरन् संधुष्यत्यग्निमहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥

तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं चातिकाङ्क्षति ।  
 विकारांश्चाशनुते घोरान् काञ्चित्कालव्यतिकमात् ॥६॥  
 एताप्तुपद्रवकरौ विशेषादग्निभास्तौ ।  
 एतौ हि दहतः स्थूलं बनदावो बनं यथा ॥ ७ ॥  
 मेदस्यतीव शबृद्धे सहस्रैवानिलादयः ।  
 विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥  
 मेदोमासातिवृद्धत्वाष्टलस्फुदरस्तनः ।  
 अथ योपचयोत्साहो नरोऽतिस्थल उच्यते ॥ ९ ॥  
 इति मेदस्विनो दोषा हेतुवो रूपमेव च ।  
 निर्दिष्टं, वक्ष्यते वाच्यभतिकाश्चेऽप्यतः परम् ॥ १० ॥

मेद के द्वारा स्रोतों के रुक जाने पर वायु कोष्ठ का आभय लेकर गति करता है, इससे अग्नि को बढ़ाता ( तेज करता है ) है, और भोजन को शुष्क करता है । इसलिये अग्नि आहार को शीघ्र जीर्ण कर देती है और अन्य आहार को चाहती है । आहार काल के अतिक्रमण होने से भयानक रोगों को उत्पन्न करती है । ये अग्नि और वायु विशेष रूप से उपद्रव करने वाले हैं । जिस प्रकार की जंगल की आग बन को जला देती है, उसी प्रकार ये वायु और अग्नि मोटे व्यक्ति को जला देते हैं । मेद के बहुत बढ़ने पर एक दम से वायु, पिच, कफ, भयानक रोगों को उत्पन्न करके जीवन का नाश शीघ्रता से कर देते हैं । मेद के अति बढ़ने से मनुष्य के नितम्ब, उदर और स्तन घल-गल करने लगते हैं । शरीर का आकार और उत्साह शक्ति नष्ट हो जाते हैं । ऐसे पुरुष को अतिस्थूल कहते हैं । ये मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और लक्षण कह दिये इसके आगे अतिकृष्ण व्यक्ति के लक्षण कहते हैं ॥ ५-१० ॥

सेवा-रूपान्न-पानानां लङ्घनं प्रमिताशनम् ।  
 क्रियातिथोगः शोकश्च वेग-निन्द्रा-विनिप्रहः ॥ ११ ॥  
 रूपस्योदूर्तनं स्नानस्याभ्यासः प्रकृतिर्जरा ।  
 विकारानुशयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिक्षणं नरम् ॥ १२ ॥  
 व्यायाममतिसौहित्यं क्षत्पिपासामहोषधम् ।  
 कृशो न सहस्रे सद्वदतिशीतोष्णमैथुनम् ॥ १३ ॥  
 सीहां कासः क्षयः इवासो गुल्माशांस्युदराणि च ।  
 कृशं प्राप्तोऽभिज्ञावन्ति रोगाश्च प्रदीपिताः ॥ १४ ॥  
 शक्ष-स्फुदुदर-ग्रीवो धमनी-आळ-सन्तुतः ।

त्वगस्त्रियोऽरिकृशः स्थूलपर्वा नरो मतः ॥१५॥

सततव्याधितावेतावतिस्थूलकृशौ नरौ ।

सततं चोपचर्यै हि कर्पणेवंहणैरपि ॥१६॥

स्थौल्यकाशये वरं कार्यं समोपकरणौ हि तौ ।

यदुभौ व्याधिरागच्छेत्स्थूलमेवातिपीडयेत् ॥१७॥

लक्ष खान पान के सेवन से, उपवास से थोड़ा खाने से, स्नेहन, स्वेदन घमन, विरेचन आदि क्रियाओं के अतियोग से, शोक से, मल-मूत्र के उपस्थित वेगों को अथवा नीद के उपस्थित वेग को रोकने से, स्नेह घर्दन किये विना उबड़न लगाकर स्नान (नित्य प्रति) करने से, स्वभाव से, बुद्धापे से, रोगों के कारण (रोग की कमजोरी में) उत्पन्न कमजोरी में, मिथ्याहार-विहार से, क्रोध से पुरुष बहुत कृश हो जाता है। परिव्रम, अतिशय पेट भर के खाना, भूख, प्यास और बच्चावान् औषध, बहुत सर्दी, बहुत गरमी और मैथुन इनको कृश पुरुष सहन नहीं कर सकता। प्लोहा कास, क्षय, इवास, गुल्म, अर्श, उदर-रोग, और ग्रहणी रोग (आमाशय आंत्र रोग) प्रायः करके कृश (निर्बल) पुरुष को शीघ्र चिपटते हैं। नितम्ब, उदर और ग्रीवा शुष्क हो जाते हैं, थरीर पर धमनियों के जाल दीखने लगते हैं, त्वचा और अस्थियों का ही ढांचा बच जाता है, अनियंत्र मोटी-मोटी हो जाती है, ऐसे पुरुष को 'अतिकृश' कहते हैं। ये अतिस्थूल और अतिकृश युरुष सदा रोगी रहते हैं। इसलिए कर्ण से (स्थूल की) और बुंदण से (कृश पुरुष की) सदा परिचर्या करनी चाहिये। स्थूलता और कृशता में कृशता श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि दोनों को एक ही समान चिकित्सा से साथ व्याधि हो जाय तो स्थूल पुरुष ही अधिक पीड़ित होगा (क्योंकि स्थूल पुरुष का यदि संतर्दण किया जाय तो स्थूलता बढ़ती है, अपर्यण करे तो वह सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जाठराग्नि बढ़ी होती है) ॥११-१७॥

सम-मांस-प्रमाणस्तु समसंहननो नरः ।

दृढेन्द्रियत्वाद् व्याधीनां न बलेनाभिभूयते ॥ १८ ॥

क्षुत्पिपासातपसहः शीत-व्यायाम-संग्रहः ।

समपक्ता समजरः सम-मांस-चयो मतः ॥ १९ ॥

जिस पुरुष की मांस पेशियां प्रमाण में उच्चत हैं और शरीर का संघटन ठीक प्रकार से है, इन्द्रियां बलवती हैं, वह पुरुष रोगों के बल से भी हार नहीं मानता। जो पुरुष भूख, प्यास, धूप का सहन कर सके, शीत, व्यायाम को

भली प्रकार सहन करें, न कम और न अधिक, भोजन को जोर्ज करने वाला हो, जिसको बुद्धाणा ठीक समीप पर आये, वह पुरुष उमान उपचय अर्थात् उचित शरीर की बनावट का होता है ॥ १८-१९ ॥

गुरु चारपंण चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति ।

कृशानां वृंहणार्थं च लघु संतर्पणं च यत् ॥ २० ॥

बातज्ञान्यन्यपानानि इलेष्म-मेदो-हराणि च ।

रुक्षोष्णा वस्तयस्तीक्ष्णा रुक्षाण्युद्वर्तनानि च ॥ २१ ॥

गुहृची-भद्र-मुस्तानां प्रयोगञ्चकलस्तथा ।

तकारिष्टप्रयोगस्तु प्रयोगो माक्षिकस्य च ॥ २२ ॥

विडङ्गनागरं क्षारः काल-लोह-रजो मधु ।

यवामलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते ॥ २३ ॥

बिल्वादिपक्चमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः ।

शिलाजतुप्रयोगस्तु साग्निमन्थरसः परः ॥ २४ ॥

प्रशातिका प्रियकुञ्ज श्यामाका यवका यवाः ।

जूर्णाह्वाः कोद्रवा मुद्रगाः कुलत्थाश्चकमुद्रकाः ॥ २५ ॥

आढकीनां च बीजानि पटोलामलकेः सह ।

भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानं चानु मधूदकम् ॥ २६ ॥

अरिष्टांचातुपानार्थं मेदो-माद-कफापहार् ।

अतिस्थौल्यविनाशाय संविभव्य प्रयोजयेत् ॥ २७ ॥

प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च ।

स्थौल्यमिच्छन् परित्यक्तं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् ॥ २८ ॥

स्थूल पुरुषों को कृश बनाने के लिये गुरु ( भारी ) और अपतर्पण किया ( यथा शहद भारी होने से अग्नि को कम करता है और अपतर्पण होने से मेद का कम करता है ) उचित है । कृश पुरुषों को मांटा करने के लिये लघु एवं सन्तर्पण किया करनी चाहिये । अतिस्थूल की चिकित्सा—

बातनाशक खान पान, कफ और मेदनाशक आहार, रुखी एवं गरम वस्तियां, तीक्ष्ण, रुक्ष उबटन का मलना, गिलोद, नागर मोथा, इनका, या त्रिफला का काथ देना, तकारिष्ट का प्रयोग अथवा मधु का उपयोग, वायविडंग, लोठ, शार, कान्त लोह-भस्म को शहद के साथ, जो और आब्ले का चूर्ण, इनका प्रयोग उत्तम है । बिल्व, अरणी, सोना पाठ, काशमरी, पाटना इनके काथ में मधु प्रस्त्रेप करके पीना, अग्निमन्थ (अरणी) के रस के साथ शिल्जाजीत

का उपयोग, प्रश्नातिक ( नीचार धान्य ), प्रियंगु, स्यामाक ( लालक ), चुदजल, जौ, कंगनी, कोदो धान्य, मूंग, कुळधी, लंगली मूंग, अरहर की दाढ़, परवड, आंबला इनके साथ खाने के लिये देवे; और पीने के लिये पानी में शहद मिशा के देना चाहिये । अनुपान के लिये मेद, मास और कफ को नष्ट करने वाले अरिष्टों को अतिस्थूलता नाश करने के लिये प्रयोग करना चाहिये । स्थूलता का नाश करने की इच्छा वाले पुरुष को, रात में जागना, मैथुन, परिश्रम करना, चिन्ता करना इनको कम से शानैः शानैः बढ़ाना चाहिये ॥ २०-२८ ॥

स्वप्रो हर्षः सुखा शर्या मनसो निर्वृतिः शमः ।  
 चिन्ता-व्यवाय-व्यायाम-विरामः प्रियदर्शनम् ॥ २६ ॥  
 नवाक्षानि नवं मद्यं प्राम्यानूपौदका रसाः ।  
 संस्कृतानि च मासानि दधि सरिः पर्यासि च ॥ ३० ॥  
 इश्ववः शालयो मासा गोधूमा गुह्यवैकृतम् ।  
 वस्त्रयः स्तिनग्धभवुरास्तैलाङ्ग्यज्ञरुच सर्वदा ॥ ३१ ॥  
 स्तिनग्धमुद्धर्तनं स्नानं गन्धमालयनिषेवणम् ।  
 शुक्लवासो यथाकाळं दोषाणामवसेचनम् ॥ ३२ ॥  
 रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनम् ।  
 हत्वाऽतिकाश्यमादतो नृणामुपचयं परम् ॥ ३३ ॥  
 अचिन्तनाशकार्याणां ध्रुवं संतर्पणेन च ।  
 स्वप्नप्रसङ्गात् नरो वराह इव पुष्यति ॥ ३४ ॥

कृषि रोग की चिकित्सा—रात में और दिन में सोना, सदा प्रश्न रहना, आराम, गदेदार पक्कंग पर रहना, बैठना, मनकी बैफ़िकरी, शान्ति, चिन्ता न करना, समोग का न करना, भम न करना और इच्छित वस्तुओं का दर्शन, नये अन्न, नया मद्य, प्राभ्य और जलचर प्राणियों के मास का रस, संस्कृत ( अच्छी प्रकार बनाये ) मांस, दही, धी और दूध, गन्ने, चावल ( लाल चावल ) माल, गेहूँ, गुड़ से बनी वस्तुएं, स्तिनग्ध और मवुर बस्तियां, सर्वदा तैळ मर्दन स्तिनग्ध उबटन, स्नान, सुगन्ध और माला का धारण करना, सफेद वस्त्र, समय समय पर वातादि दोषों का बाहर निकालना, रक्तायन एवं वाजीकरण-दोषों का सेवन करने से कृष्णता दूर होकर पुष्टि, बल ( मोटापा ) आता है । कार्यों की चिन्ता न करने ( बैफ़िकरी ) से, नित्य प्रति सन्तर्पण किया द्वारा और रात दिन सोने से मनुष्य कुछ भी तरह पुष्ट हो जाता है ॥ २६-३४ ॥

बदा तु मनसि क्रान्ते कर्मात्मानः क्रमान्विताः ।

विषवेद्यो निष्ठतन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ३५ ॥  
 निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काईर्य बलाचलम् ।  
 बृशता छीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ३६ ॥  
 अकाळेऽतिप्रसङ्गात् न च निद्रा निषेविता ।  
 सुखायुषा पराकृत्यत्कालं रात्रिरिवापरा ॥ ३६ ॥  
 सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देहं सुखायुषा ।  
 पुढ़वं योगिनं सिद्धया सत्या बुद्धिरिवाऽऽगता ॥ ३८ ॥  
 गीताध्ययन-मध्य-झी-कर्म-भाराध्य-कर्षिताः ।  
 अजीर्णिनः क्षताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथाऽचलाः ॥ ३९ ॥  
 तृष्णातीसारशूलार्ताः इवासिनो हिक्किनः कृशाः ।  
 पतिताभिहतोन्मत्ताः छान्ता यानप्रजागरैः ॥ ४० ॥  
 क्रोध-शोक-भय-क्लान्ता दिवास्त्वप्नोचिताश्च ये ।  
 सर्व एते दिवास्त्वप्नं सेवेन् सार्वकालिकम् ॥ ४१ ॥  
 चातुर्सास्त्यं तथा होषां बलं चाप्युपजायते ।  
 श्लेष्मा पुष्णाति चाङ्गानि स्थैर्यं भवति चाऽऽयुरः ॥ ४२ ॥

जब मन से संयुक्त आत्मा निष्क्रिय हो जाती है, इन्द्रियां क्रियारहित हो जाती हैं ( रूप, रसादि विषयों से हट जाती है ), तब पुरुष सो जाता है । यदि विष्पूर्वक नींद का सेवन किया जाय तो, सुख, शरीर की पुष्टि, बल, पुरुषत्व ज्ञान और जीवन नींद के अधीन हैं और यदि निद्रा का विष्पि से सेवन न किया जाय तो दुःख, कृशता, बलनाश, छीबता, अज्ञान, और मरण ये नींद के अधीन हैं । इसलिये मुख चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि दूसरो प्रकाय रात्रि के समान अकाल ( दिन में या सन्ध्याकाल में ) सोना, या बहुत सोना छोड़ दे । ये नींद के मिथ्यायोग हैं । यदि निद्रा उचित रूप में सेवन की जाय तो शरीर को मुख और आयु से ऐसे ही युक्त करती है जिस प्रकार योगी पुरुष को उद्दिद से तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

गीत गाने से कृष्णपूरुष, पढ़ने से कृष्ण, मध्यापान करने वाले झी-सेवा करने वाले, बग्न विरेचनादि कर्म में, मार्ग चलने से कृष्ण हुए, अक्षिसार आदि से कृष्ण, अजीर्ण रोगी, उरक्षत रोगी, क्षीण ( जिनके रत रक्तादि घातु क्षीण ) हों, वृद्ध, बालक, चियां ( कमज़ोर ) तृष्णारोगी, शूल से पीड़ित, श्वास से कृश, ऊपर से गिरे, चोट हो गे हुए, उन्मत्त ( घृत्रा आदि खाने से ), थके हुए, सबारी करने से, रात में जागने से, क्रोध, शोक, भय से निष्क्रिय पुरुषों को दिन में सोना उचित है । ये उपर दिखे पुरुष सब कालों में दिन में सो सकते हैं ।

दिन में सोने से इनके विरग बातु सम होते हैं, वह बढ़ता है, कफ अंगों के पुह करता है और आयु दिघर होती है \* ॥ ४५-४६ ॥

ग्रीष्मे चाऽऽवानलक्षणां वर्धमाने च मारुते ।

रात्रिणां चातिसङ्क्षेपादिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

प्रीष्मवज्येषु कालेषु दिवास्वप्नास्प्रकुप्यतः ।

इलेष्मपितो, दिवास्वप्नस्तस्मात्तेषु न शस्यते ॥ ४४ ॥

मेदस्विनः स्नेहनित्याः इलेष्मलाः इलेष्मरोगिणः ।

दूषीविषार्ताञ्च दिवा न शयीरन् कदाचन ॥ ४५ ॥

हलीमकः शिरः शूलं स्तैरित्यं गुरुगात्रता ।

अङ्गमदौऽग्निनाशञ्च प्रलेपो दृष्ट्यस्य च ॥ ४६ ॥

शोथारोचक-हङ्गास-रीनसार्धावसेदकाः ।

कोठोऽरुः पिण्डकाः कण्ठस्तन्द्रा कासो गडामयाः ॥ ४७ ॥

स्मृति-बुद्धि-प्रमोहञ्च संरोधः सोतसा ज्वरः ।

इन्द्रियाणामसामर्थ्यं विष-वेग-प्रवर्तनम् ॥ ४८ ॥

भवेत्त्राणां दिवास्वप्नस्याद्वितस्य निषेवणात् ।

तस्माद्द्विवाहितं स्वप्नं बुद्धवा स्वप्यात्सुखं बुधः ॥ ४९ ॥

रात्री जागरणं रुक्षं स्तिरं प्रस्वपनं दिवा ।

अरुक्षमनभिष्यन्द त्वासीनप्रवल्लायितम् ॥ ५० ॥

देहवृत्ती यथाऽहारसत्था स्वप्नः सुखो मर्तः ।

स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थौल्यकार्ये विशेषतः ॥ ५१ ॥

ग्रीष्म शूद्र आदान काल एवं रुक्ष है, इस समय बायु बढ़ती है, और राते बहुत छोटी होती है, इसलिये दिन में सोना उत्तम है। ग्रीष्म शूद्र का छोड़कर और शूद्राओं में सोने से कफ और पित्त विकृत होते हैं, इसलिये इन समयों में दिन के समय सोना ठीक नहीं है। मेदस्वी, नित्य स्नेह का सेवन करने वाले, कफप्रकृति, कफरोगी, और दूषी विष से पीड़ित पुरुष दिन में खास कर कमी भी न सोयें। दिन में सोने से हलीमक, शिरोवेदना, अंगों में मारीपन, अंगों

\* नींद का स्थान कहाँ है? यह तो कहना कठिन है, परन्तु जब मन या मन से युक्त आत्मा मस्तिष्क की पंचम ज्वनिका ( Fifth Ventrical ) में पहुँच जाती है तब पुरुष को नींद आती है। इस ज्वनिका के साथ किसी भी ज्ञानतन्तु का सम्बन्ध नहीं है। इसी से कहा है—“स्वप्नञ्च निरिन्द्रियप्रदेश ननोऽवस्थानम्” ॥

को गीके बद्ध से ठोपने की माति प्रतीति, अंगों का दूटना, जाठरामिन की खींता, हृदय का कफ से लिप्त होना, सूजन, अच्छि, वसनेच्छा, पीनस, आधा सीली, कोठ ( बर्दे के काटे के भाँति ), फुन्सियां, खाज, तन्द्रा, आकस्य, काल, गळे के रोग स्मृति नाश, बुद्धिमान्, भूचौ, सोतों का अवरोध, च्वर, इन्द्रियों में असमर्पयता, विष के बेग का जोर ( फिर से चढ़ना ) वे लक्षण अहितकारी निद्रा अर्थात् दिन में सोने से उत्पन्न होते हैं । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अहितकारी नींद का त्याग करे, और हितकारी नींद का सेवन करे इससे सुख होगा । शात्रि में जागने से शरीर में रुक्षता और दिन में सोने से स्लिंग्घता बढ़ती है । और बैठे-बैठे सोना न तो रुक्षता उत्पन्न करता है, न अभिष्यन्द अर्थात् स्लिंग्घता उत्पन्न करता है । शरीर के धारण के लिये जिस प्रकार भोजन सुखकारक होता है, उसी प्रकार नींद भी आवश्यक है । इसलिये स्थूलता और कृशता मुख्य रूप से आहार और निद्रा पर अवलम्बित है ॥ ४३-४१ ॥

अद्यङ्गोत्सादनं स्नानं ग्राम्यानूपौदका रसाः ।

सात्यन्नं सद्धि क्षीरं स्नेहो मर्द्य मनःसुखम् ॥ ५२ ॥

मनसोऽनुगुणा गन्धाः शब्दः संचाहनानि च ।

चक्षुषस्तर्पणं लेपः शिरसो वदनस्य च ॥ ५३ ॥

स्वास्तीर्णं शयनं वेशम् सुखं कालस्तथाचितः ।

आनयन्त्यचिरान्द्री प्रनष्टा या निमित्ततः ॥ ५४ ॥

तैलमर्दनं, उबठन, स्नान, ग्राम्य या जलचर प्राणियों का मांसरस,

चावल, दही, दूध, स्नेह ( धी-तैल ) मर्द्य, मन की प्रिय वस्तुएं, मनोनुकूल सुगन्धि, शब्द और संचाहन ( मसाज, मुही भरना ), आँखों का तर्पण, शिर और मुख, शरीर पर चन्दनादि का लेप, अच्छा बिछा पलंग, सुन्दर घर तथा उचित समय ये वस्तुएं कारण से नष्ट हुई नींद को शीघ्र ही उत्पन्न कर देती हैं \* ॥ ५२-५४ ॥

कायस्य शिरसश्चैव विरेकछद्रैनं भयम् ।

चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् ॥ ५५ ॥

उपचासोऽसुखा शव्या सत्त्वौदार्यं तमोजयः ।

निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थिरम् ॥ ५६ ॥

\* यदि भस्तिष्क में स्थित निद्रा को नियमित करने वाला केन्द्र नह कर दिया जाय या चोट आदि से नष्ट हो जाय अथवा विक्षित हो जाय तो पुरुष को नींद का आना असमर्प हो जाता है । जब तक भस्तिष्क में यह केन्द्र ठीक है तभी तक यह चिकित्सा फलवती हो सकती है ।

शरीर का विरेचन, शिरो-विरेचन, बग्न, मय, चिन्ता, क्रोध, कहानी दुनना, मैथुन रक्त मोक्षण ( शिरावेच ), उपवास, दुःखदायक विस्तर, सत्त्व गुण की अधिकता, तमोगुण का जय ( योगान्वाद से होती है ), ये कारण नीद को नहीं आने देते । इसलिए अहित, अवञ्चनीय नीद को रोकने के लिये स्वस्य पुरुष को इन्हें बर्तना चाहिये ॥५५-५६॥

एत एव च विश्वेया निद्रानाशस्य हेतवः ।

कार्यं कालो विकारश्च प्रकृतिर्व्युरेव च ॥ ५७ ॥

निद्रानाश के दूसरे कारण—कार्य में फंसा रहना, काल (ुदापा), विकार, शूल दर्द होना, स्वभाव से ही नीद कम आना, वायु, उन्माद रोग या वातरोग आदि निद्रानाश के कारण हैं ॥ ५७ ॥

तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनःशरीरश्रम-संभवा च ।

आगन्तुकी व्याघ्रनुवर्तिनी च रात्रिस्वभाव-प्रभवा च निद्रा ॥८॥

रात्रिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधात्री प्रबद्धन्ति निद्राम् ।

तमोभवामाहुरघस्य मूलं शेषं पुनर्व्याधिषु निदिशन्ति ॥८॥

नीद छः प्रकार की हैं यथा—तमोजन्या, निद्रा कफ से उत्पन्न मन और शरीर के यकने से ‘आगन्तुकी’ रोग ( सक्षिप्त ज्वर आदि ) उत्पन्न होने वाली रात्रि के स्वभाव के कारण उत्पन्न होने वाली निद्रा । इन छः प्रकार की निद्रा में जो निद्रा रात्रि-स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है उसको भूतधात्री अथात् धाय के समान प्राणियों को पोषण करने वाली कहते हैं, और तमोगुण से उत्पन्न निद्रा पाप अर्धम का मूल है, शेष निद्राओं की गिनती रोगों में की जाती है ।

तत्र श्लोकाः—निन्दिताः पुरुषस्तेषां यौ विशेषेण निन्दितो ।

निन्दिते कारणं दोषात्तयेनिन्दितभेषजम् ॥ ६० ॥

येष्यो यदा हिता निद्रा येष्यहच्चाप्यहिता यदा ।

अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेषजं यद्यवा च सा ॥ ६१ ॥

या या यथाप्रभावा च निद्रा तत्सर्वमत्रिजः ।

आष्टौनिन्दितसंख्याते व्याजहारं पुनर्वसुः ॥६२॥

निन्दित पुरुष, इनमें जो दो ( स्थूल और कृश ) अधिक निन्दित, निन्दित होने का का कारण, दोनों के दोष, औषध, जिनके लिये निद्रा दितकारी है, जिनके लिये अहितकारी, अति नीद और नीद के न आने की व्योध और जिस कारण से नीद आती है, जिसके प्रकार से उत्पन्न होती है, इन सब वालों को आनेप क्षमि ने ‘आष्टौ निन्दित’ नामक व्यायामें कह दिया ॥६०-६३॥

इत्यतिवेशकृते तत्र चक्रतिसंहरे सुन्नत्यामे योजनापतुष्के

आष्टौनिन्दितीयो नाम एकविंशतिमोध्यायः ॥२१॥

### द्राविंशतितमोऽन्धायः

अथातो लङ्घनबृंहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥२॥

अब लंघनबृंहणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

तपःस्वाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान् ।

षड्गिनवेशप्रमुखानुक्तवान् परिचोदयन् ॥ ३ ॥

लङ्घनं बृंहणं काळे रूक्षणं स्नेहनं तथा ।

स्वेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स चै भिषक् ॥ ४ ॥

आत्रेय महर्षि तपश्चर्या और स्वाध्याय में मग्न हुए, अनिवेश आदि प्रमुख एवं उत्तम छः शिष्यों के ज्ञान के लिये कहने लगे—जो लंघन, बृंहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन एवं स्तम्भन कियाओं के समय तथा विधि को जानता है, वही बैच है ॥ ३-४ ॥

तमुक्तवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच ह ।

भगवंज्ञलङ्घनं किंस्विज्ञलङ्घनीयाऽथ कीदृशाः ॥ ५ ॥

बृंहणं बृंहणीयाऽथ रूक्षणीयाइच रूक्षणम् ।

स्नेहनं स्नेहनीयाइच स्वेदाः स्वेदाइच के मताः ॥ ६ ॥

स्तम्भनं स्तम्भनीयाइच वक्तुमर्हसि तद् गुरो ।

लङ्घनप्रभृतीनां च वण्णमेषां समाप्ततः ॥ ७ ॥

कृताङ्कतातिरिक्तानां लङ्घणं वक्तुमर्हसि ।

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय श्रूति से अनिवेश ने कहा—कि भगवन् लंघन किस प्रकार का होता है और कौन पुरुष लंघन के योग्य हैं ? बृंहण क्या है और बृंहणीय विकित्या के योग्य कौन हैं ? रूक्षण क्या है और रूक्षणीय कौन हैं ? स्नेहन क्या है और स्नेहनीय कौन हैं ? स्वेदन क्या है और स्वेदनीय कौन हैं ? स्तम्भन क्या है और स्तम्भनीय पुरुष कौन हैं ? हे गुरो ! यह सब आप कहिये । इन छः लंघन आदि के लक्षण संक्षेप में कहिये । सम्यक् प्रकार से किये, न किये और अति किये हुए के लक्षण भी आप करें ॥ ५-६ ॥

वचस्तद्गिनवेशस्य निशम्य गुरुरब्रवीत् ॥ ८ ॥

यत्किञ्चिज्ञाष्वकर्त्त देवेऽत लङ्घलङ्घनं स्मृतम् ।

बृहस्पतं यच्छरीरस्य जनयेत्तच बृंहणम् ॥ ९ ॥

रोक्षर्य खरत्वं वैशद्यं यत्कुर्यात्तद्वि रूक्षणम् ।

स्नेहन स्नेह-विष्णव-भारद्व-कल्प-कारकम् ॥ १० ॥

स्तम्भगौरव-शीतज्ञं स्वेदनं स्वेदकारकम् ।

स्तम्भनं स्तम्भयति वद्रुतिमन्तं चर्द द्रवम् ॥ ११ ॥

अग्निवेश के बचन को मुनकर गुण बोले; शरीर के अन्दर जो बस्तु अनुता हल्कापन, उत्पन्न करती है, उसको 'लंघन' कहते हैं। जो बस्तु शरीर में स्थूलता उत्पन्न करती है, उसे 'बृहण' कहते हैं। जो बस्तु शरीर में स्थूलता, कफशता और विशदता, पृथक्त्व उत्पन्न करती है, वह स्खण है। शरीर में जो बस्तु चिकास, विष्णव, विलयन, कोमलता और क्लिनता उत्पन्न करती है, वह स्नेहन है, जो बस्तु शरीर में जड़ता उत्पन्न करे, भारीपन करे शीत का नाश करे तथा पशोंना लाये वह 'स्वेदन' है। जो बस्तु गतिशील, योगी सी यति को, द्रव को, रोक देती है, वह स्तम्भन है ॥ ८-११ ॥

लघुष्णतीक्ष्णविशदं रूक्षं सूक्ष्मं खरं सरम् ।

कठिनं चैव यद् द्रव्यं प्रायस्तञ्जक्वनं स्मृतम् ॥ १२ ॥

गुहशीतमृदुस्तिर्घर्षं बहलं स्थूलापिच्छिलम् ।

प्रायो मन्दं स्थिरं रूक्षणं द्रव्यं बृहणमुच्यते ॥ १३ ॥

रूक्षं लघु खरं तीक्ष्णमुष्णं स्थिरमपिच्छिलम् ।

प्रायशः कठिनं चैव यद् द्रव्यं तद्द्वि रूक्षणम् ॥ १४ ॥

द्रवं सूक्ष्मं सरं स्तिरधं पिच्छिलं गुण शीतलम् ।

प्रायो मन्दं मृदु च यद् द्रव्यं तत्संहनं मतम् ॥ १५ ॥

उष्णं तीक्ष्णं सरं स्तिरधं रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ।

द्रव्यं गुण च यत् प्रायस्तद्वि स्वेदनमुच्यते ॥ १६ ॥

शीतं मन्दं मृदु रूक्षणं रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ।

यद् द्रव्यं लघु चांहिटं प्रायस्तत्त्वमनं स्मृतम् ॥ १७ ॥

जो बस्तु लघु, गरम, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर ( कर्षण ), खर ( बहने वाला ) और कठिन हा वह बस्तु प्रायः करके 'लंघन' गुण वाली होती है। भारी, शीतवीर्य, मृदु, स्तिरध, घन, स्थूल पिच्छिल, चिरकारी, ( देर में आर्य करने वाला ) स्तिर, चिकना जो पदार्थ होता है, वह प्रायः करके 'बृहण' होता है। रूक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण; उष्ण, स्तिर, चिकास यद्दृत और कठिन द्रव्य है वह प्रायः करके 'कर्षण' होता है। जो द्रव्य पतला, सूक्ष्म, बहुते वाला,

\* स्वेदन में मुख्य काम है स्वेह का अभाव रहता है और लंघन में और जो अभाव रहता है वह दोनों में मुख्य मैद है।

चिकना, स्लेह युक्त, भारी, शीतल, मन्द ( चिरकारी ) और मृदु होता है, वह प्रायः करके 'स्नेहन' होता है। उष्ण, तीक्ष्ण, बहने वाला, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर, और भारी जो पदार्थ होता है, वह प्रायः करके 'स्वेदन' होता है। शीत, मन्द, मृदु, उष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव और स्थिर तथा लघु होता है। वह इम्यु प्रायः करके 'स्तम्भन' होता है ॥ १२-१७ ॥

**चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा। मारुतातपी ।**

पाचनान्युपवासइच व्यायामसइचेति लहूधनम् ॥ १८ ॥

प्रभूत-श्लेष्म-पित्ताम्ल-मलाः संस्पृष्टमाश्रताः ।

शूहच्छरीरा बलिनो लहूधनीया विशुद्धिभिः ॥ १९ ॥

येषां मध्यवल्ला रोगाः कफपित्तसमुत्थिताः ।

बम्यतीसार-हृद्रोग-विसूच्यलसक-ज्वराः ॥ २० ॥

विवर्ण-गौरवोद्धार-हङ्गासारोचकादयः ।

पाचनेस्ताम् भिषक् प्राज्ञः प्रायेणाऽऽदावुपाचरेत् ॥ २१ ॥

एत एव यथोदिष्टा येषामल्पवल्ला गदाः ।

पिपासानिप्रहैस्तेषामुपवारीइच ताङ्गयेत् ॥ २२ ॥

रोगाङ्गयेन्मध्यवल्लान् व्यायामातपमारुतः ।

बलिनां किं पुनर्येषां रोगाणामवरं बलम् ॥ २३ ॥

त्वच्वदेविषणा प्रभूढानां स्तिर्घामिष्यनिद्वृहिणाम् ।

शिशिरे लहूधनं शस्तमपि वातविकारिणाम् ॥ २४ ॥

चार प्रकार की शुद्धि अर्थात्—वमन, विरेचन, नस्य और आस्थापन बहित; व्यायाम का रोकना, वायु और धूप का सहना, पाचन, उपवास और व्यायाम ये शरीर में लहूता उत्पन्न करते हैं। जिन पुरुषों में कफ, पित्त, रक्त और मल बहुत बढ़े हों, जिन को वात रोग हो, जिनका शरीर बहुत बड़ा हो, बलवान् हो, उनको वमन विरेचन आदि संशोधन द्वारा लंबन देना चाहिये और जिन मध्यम बल वाले पुरुषों में कफ, पित्त से उत्पन्न रोग हो, जिन को वमन, अती-सार, इवय सोग, विशुचिका, अलसक, ज्वर, विवर्ण, गौरव, उद्गार, बेचैनी, अख्विं आदि ( अलीर्ण ) हो, उनको वैद्य प्रथम पाचन औषधियों से लंबन देकर चिकित्सा करे। यही रोग यदि अल्पबलवाले पुरुष को हो तो पिपासा के रोकने से और उपवास द्वारा लंबन कराके शान्त कराना चाहिये। मध्यम बलवाले रोगों को व्यायाम, धूप और वायु के सेवन से लंबन कराना चाहिये। इसी प्रकार बलवान् पुरुषों में जब रोग का बल न्यून हो, तब भी व्यायाम द्वारा लंबन कराना चाहिये। त्वचा के दोष वाले, प्रमेह रोगियों को, स्निग्ध वा अभिः-

अन्द अथवा पुष्ट शरीर वाले पुरुष को, एवं वात रोगियों को शिविर काल में लंबन देना उचम है । (शिविर के सामान गुण होने से इमन्त भी उचम है) ।

अविग्नविद्मकिल्लृष्ट वयःस्थ सात्म्यवारिणम् ।

मृगमस्यविहङ्गानां मांसं वृहणमुच्यते ॥ २५ ॥

क्षीणाः क्षाताः कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यमध्वगाः ।

खीमद्यनित्या ग्रीष्मे च वृहणीया नराः स्मृताः ॥ २६ ॥

शोषाशोः ग्रहणीदोषेव्याधिभिः कर्षिताश्च ये ।

तेषां क्रव्यादमांसानां वृहणा लघवो रसाः ॥ २७ ॥

स्नानमुत्सादनं स्वप्नो मधुराः स्नेहवस्तयः ।

शक्करा क्षीरसर्पीषि सर्वेषां विद्वि वृहणम् ॥ २८ ॥

विषयुक्त शब्द से न मारे हुए, नीरोगी, जवान, सात्म्यवस्तु को खाने वाले एवं सात्म्य स्थान में चरने वाले, मृग, मछली या पक्षियों का मांस वृहण के लिये उपयुक्त है । क्षीण रोगी, उरःक्षत का रोगी, कृश, वृद्ध, दुर्बल, रोज उफर ( परिभ्रम ) करने वाले, खीसेवी, मच्छसेवी पुरुषों का ग्रीष्म काल में वृहण करना चाहिये । शोष, अर्द्ध, ग्रहणीरोग के कारण जो पुरुष निबंध हो गये हैं, उनको मांस खाने वाले पशु-पक्षियों के मांस से वृहण करना चाहिये । मांस को संस्कार द्वारा लघु बना लेना चाहिये, अथवा लघु गुण वाले पक्षी वाज़ आदि का मांस प्रयोग करना चाहिये । स्नान, उबटन, निद्रा मधुर एवं स्नेह युक्त वस्ति या, शक्कर, घी, दूध ये वस्तुएँ सब पुरुषों का वृहण करती हैं ॥२८॥

कटु-तिक्त-कषायाणां सेवनं खीष्वसंयमः ।

खल्लि-पिण्याक-तक्राणां मधवादीनां च रूक्षणम् ॥ २९ ॥

अभिष्यन्दा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये ।

ऊरुस्तम्भप्रभृतयो रूक्षणीया निदर्शिताः ॥ ३० ॥

कटुए, तीखे, कषाय रस का सेवन, अति खींग, सरसों की खल्लि, तिळ की खड़, तक्रा और मधु ( शहद ) आदि विस्तक्षण करने वाले हैं । कफरोगी, वातरोगी और जिन को मर्म स्थान के रोग ( ऊरुस्तम्भ आद्यवात, प्रमेह आदि ) हो उनका विस्तक्षण उपचार करना चाहिये ॥ २९-३० ॥

● यह में पाढ़े या रक्खे पक्षी या मछलियों का मांस लामकर नहीं है । जो पशु-पक्षी अपने स्वामाविक रूप में रहते हैं और अपना स्वामाविक आहार केते हैं; उन का मांस ही काभद्राक है ।

स्नेहः स्नेहविषाक्तस्वेदाः स्वेदाः स्वेदाश्च ये नहाः ।

स्नेहाश्चाये भयोकास्ते स्नेहारुपे च सविस्तरम् ॥ ३१ ॥

स्नेह किंतने हैं और कौन स्नेह के योग्य हैं ? स्वेद किंतने हैं और कौन स्वेद के योग्य हैं ? ये स्नेह और स्वेद अध्याय में विस्तार से कह दिये हैं ॥ ३१ ॥

द्रवं तनु रित्रं यावच्छीतीकरणमौषधम् ।

स्वादु तिर्तं कषायं च स्तम्भनं सर्वमेव तत् ॥ ३२ ॥

पित्तक्षाराग्निद्रग्धा ये वम्यतीसारपीडिताः ।

विषस्वेदारियोगार्ताः स्तम्भनीयास्थाविधाः ॥ ३३ ॥

जो द्रव्य पतला, द्रव, बहने वाला और शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथा मधुर, तिक्त या कषाय रस है, वह सब 'स्तम्भन' है। पित्त रोगी, आर या अग्नि से जड़े रोगी, वमन या अतिशार से पीड़ित, विषवेग से या अतिस्वेदन किया से पीड़ित पुरुष स्तम्भन किया के योग्य हैं ॥ ३२-३३ ॥

वात-मूत्र-पुरीषाणां विसर्गे गात्रालाघवे ।

हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राकलमे गते ॥ ३४ ॥

स्वेदे जाते हृचौ चैव क्षुतिपासासहोदये ।

कृतं लङ्घनमादेश्यं निर्व्यये चान्तरात्मनि ॥ ३५ ॥

पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च ।

क्षुत्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दौर्बल्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥ ३६ ॥

मनसः संभ्रेमोऽभीक्षणमूर्खवातस्त्वमो हृदि ।

देहाग्निवलनाशश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत् ॥ ३७ ॥

अपान वायु, मल-मूत्र का बाहर आना, शरीर में हल्कापन, आमाशय, दक्षार, गङ्गा और मुख के शुद्ध होने पर, आलस्य और निष्क्रियता के नष्ट होने पर, पसीना और भोजन में रुचि उत्पन्न होने पर, भूख और प्यास का एक साथ सहन न होने पर, अर्थात् भूख और प्यास एक साथ लगने पर; मन के प्रसन्न होने पर, सम्यक् प्रकार से लंघन हुआ ऐसा जानना चाहिये। लंघन के अधिक करने से जोड़ों का दूनना, अंगों में पीड़ा, कास, मुख का सख्त्या, भूख का नष्ट होना, अस्त्रि, प्यास, कान और आँख में निर्वेद्या, मन की बेचेनी, चक्कर आना, शरीर के ऊपर के भाग में आरम्भाद वायु का छढ़ना, और होमा, हृदय में अन्वकार (हमोटुण की अविकल), अठराग्नि और शरीर के दृढ़ का नाश होना ये लंघन के अतिवेग से होते हैं ॥ ३४-३७ ॥

बलं पुष्टशुपलमध्यं कार्यदोषेभिर्वर्णनम् ।

क्लशणं दृढिते, स्थौल्यमति चात्यर्थं दृढिते ॥ ३८ ॥

बल, पुष्टि का होना, कृशता के दोषों का दूर हो जाना, ये सम्यक् प्रकार के दृढ़ण होने के लक्षण हैं । दृढ़ण के अतियोग से स्थौलता आती है ॥ ३८ ॥

कृताकृतस्य लिङ्गं यज्ञाहिते तद्दि रूपिते ।

लंघन के सम्यक् योग और अयोग के जो लक्षण हैं वे ही लक्षण स्थौल्य के सम्यक् योग और अयोग के हैं ।

स्तम्भितः स्याद्वले लव्वे यथोक्तैऽचाऽमयैर्जितैः ॥ ३९ ॥

स्थावता स्तब्धगात्रत्वमुद्घोगो हनुसंग्रहः ।

हनुचोनिग्रहश्च स्थावतिस्तम्भितलक्षणम् ॥ ४० ॥

स्तम्भन किया के योग्य रोगों के शान्त होने पर, बल प्राप्त होने से स्तम्भन मली प्रकार से हुआ जानना चाहिये । स्तम्भन के अतियोग से—काढ़ा रंग, शरीर का जड़ होना, वमन की इच्छा, जबाबदी का बन्द होना, हृदय का अवरोध, मल का रुक्ना ये अतिस्तम्भन के लक्षण हैं ॥ ३९-४० ॥

क्लशणं चाकृतायां स्थात् षण्णामेषां समासतः ।

तदौषधानां व्याधीनामशमो वृद्धिरेव च ॥ ४१ ॥

इति षट् सर्वरोगाणां प्रोक्ताः सम्यगुपकमाः ।

साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकाळानुरोधिनः ॥ ४२ ॥ इति ।

भवति चात्र—दोषाणां बहुसंसर्गात् रूकीर्यन्ते द्युपकमाः ।

षट्खं तु नातिवर्तन्ते त्रित्वं वातादयो यथा ॥ ४३ ॥

तत्र श्लोकः—इत्यर्मिलकृष्णाध्याये व्याध्याताः द्युपकमाः ।

यथाप्रश्नं भगवता चिकित्सा यैः प्रवर्तिता ॥ ४४ ॥

लंघन आदि छः कियाओं के अयोग से, इन कियाओं से शान्त होने वाले रोगों की शान्ति नहीं होती या बढ़ जाते हैं । इन छः कियाओं के सम्यक् योग से सब रोग धान्त हो सकते हैं । मात्रा और समय का विचार करके इन कियाओं का उपयोग करने से सब साध्य रोग ठीक होते हैं ।

बातादि दोषों के परवर्तन मिलने से बहुत मेद हो जाते हैं, इसकिये चिकित्सा मी द्युपक योग की है । जिस प्रकार कि रोग बात आदि तीन को छोड़कर नहीं होते उसी प्रकार चिकित्सा मी इन छः में ही सीमित है । इस लंगनीय अध्याय में छः कियावै प्रवर्तन के अनुसार मात्राकृति आवश्यक न होती है ॥ ४३-४४ ॥

इत्यमिवेदहृते लन्त्रे वरकपरितर्संस्कृते लक्षस्थाने योजनालक्ष्याः ॥ ४५ ॥

क्लशमहूँस्थिरो नाम द्वार्थितिरित्तमोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

**त्रयोविश्वतितमोऽध्यायः ।**

अथातः सन्तर्पणीयमध्यार्थं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्त भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे सन्तर्पणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

संतर्पयति यः लिङ्गधैर्मधुरैर्गुरुपिच्छिलैः ।

नवान्नैर्नवभूद्यैश्च मासैश्चानूपवारिजैः ॥ ३ ॥

गोरस्तैर्गाँडिकैश्चान्नैः पैष्ठिकैश्चातिमात्रशः ।

कैष्ट्राद्वेषी दिवास्वप्न-शत्यासन-सुखे रतः ॥ ४ ॥

रोगस्तस्योपजायन्ते संतर्पणनिमित्तजाः ।

जो पुरुष स्तिंग, मधुर, गुरु और पिंछल पदार्थों से शरीर का सन्तर्पण करते हैं, नये अन्न, नवीन मध्य, जलीय प्रदेश में या जलचर प्राणियों के मांस का सेवन, दूध से बने या गुरु से बने पदार्थों का या पौष्टिक भोजनों का अति उपयोग करते हैं, हाथ पांव हिलाने की क्रिया करना पसन्द नहीं करते, दिन में सोना, आरामतलबी से उठना-बैठना जिन्दगी बसर करना पसन्द करते हैं उनकी सन्तर्पणजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३-४ ॥

प्रमेह-कण्ठ-पिंडकाः कोठ-पाण्डवामय-ञ्चराः ॥ ५ ॥

कुष्ठान्यामप्रदोषाश्च मूत्रकुच्छ्रमरोचकः ।

वन्द्रा झौंध्यमतिस्थौल्यमालस्यं गुरुगात्रता ॥ ६ ॥

इन्द्रियस्त्रोतसां लेपो दुद्देमोहः प्रभीलकः ।

शोफाश्वैवं विधाश्वान्ये शीघ्रमप्रतिकुर्वतः ॥ ७ ॥

सन्तर्पणजन्य रोग—प्रमेह, कण्ठ, फुनिर्यां, कोठ ( वर्ते के काटे के समान चक्के ), पाण्डु रोग, च्वर, कुष्ठ रोग, विषूचिका आदि, मूत्रकुच्छ्र, असचि, तन्त्रा, झौंधता, अतिस्थूलता, आलस्य, शरीर का भारीपन, इन्द्रिय और स्रोतों का अवरोध, दुष्क्रियांश्च, निरन्तर एक ही बात की चिन्ता, सूजन एवं इसी प्रकार के अन्य रोग शीघ्र प्रतिकार न करने से उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ५-७ ॥

शस्त्रमुळेऽखनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणम् ।

व्यायामओपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च ॥ ८ ॥

सङ्खोद्रव्यामयाप्राशः प्रायो रुक्षाश्चसेवनम् ।

चूर्णप्रदेहा ये चोक्काः कण्ठकोठविनाशनाः ॥ ९ ॥

त्रिफलारगवधं पाठा संतर्पणं स्वत्सकम् ।  
मुस्तं निम्बं समवदनं जडेनोत्कथितं पिबेत् ॥ १० ॥  
तेन मेहादयो यान्ति नाशमध्यस्थयतो भ्रुवम् ।  
भाद्राकालप्रयुक्तेन संतर्पणसमुत्तिवाः ॥ ११ ॥

ऐसी अवस्था में वसन, विरेचन, रक्तमोक्षण, व्यायाम, उपवास, खूमचान, स्वेद किया, मधु के साथ हरीतकी खाना (या अगस्त्य हरीतकी का खाना), रुक्ष अन्त्रों का उपयोग, कण्ठ और कोठ को नष्ट करने वाले जो चूर्ण या प्रदेह आरग्वधीय अथाय में कहे हैं उनका सेवन, त्रिफला (हरड़, बदेश, आंदमा), अमलतातु, पादल, सतवन, इन्द्रजौ, नागरमोषा, नीम की छाल, मैनकक हनका जल में काढ़ा बनाकर अथाय पूर्वक (नित्यप्रति) पीने से प्रमेह आदि रोग जो कि मात्रा और काल में सन्तर्पण किया से उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाते हैं ॥८-११॥

मुस्तमारगवधः पाठा त्रिफला देवदारु च ।  
श्वदंघू खदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात् ॥ १२ ॥  
रसमेषा यथादोषं प्रातः प्रातः पिबेन्नरः ।  
संतर्पणकृतैः सर्वैर्व्याधिभिः संप्रमुच्यते ॥ १३ ॥  
एभिश्चोदृतनोद्भूर्षस्नानयोगोपयोजितैः ।  
त्वग्दोषाः प्रशामं यान्ति तथा स्नेहोपसंहितैः ॥ १४ ॥  
कुष्ठं गोमेदको हिङ्क कौश्लास्थि अ्यूषणं वचा ।  
वृषकैले श्वदंघू च खराङ्गा चाइमभेदकः ॥ १५ ॥  
तक्रेण दधिमण्डेन बदराम्लरसेन वा ।  
मूककृच्छ्रं प्रमेहं च पीतमेवदू व्यपोहति ॥ १६ ॥  
तक्राभयाप्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैष च ।  
अरिष्टानां प्रयोगैश्च यान्ति मेहादयः शमम् ॥ १७ ॥  
अ्यूषणं त्रिफला क्षीरं किमिन्नं साजमोदकम् ।  
मन्योऽयं सर्कवः सर्पिहिंतो लोहोदकाप्लुतः ॥ १८ ॥  
न्योषं विषज्ञं शिश्रूणि त्रिफलां कटुरोहिणीम् ।  
शुहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठा सातिविषां स्थिराम् ॥ १९ ॥  
हिङ्केशूकमूलानि यवानीधान्यचित्रकम् ।  
सौबर्चजमजाजी च हजुषां चेति चूर्णयेत् ॥ २० ॥  
चूर्णसैक्षृत-शौद्र-भागाः स्फुर्मानतः समाः ।  
सफूना शोषणगुणो भागः संतर्पणं पिबेत् ॥ २१ ॥

प्रयोगादस्य शास्यन्ति रागाः संतर्पणोत्थिताः ।  
 प्रमेहा मूष्ठवाताश्च कुडान्धभाँसि कामलाः ॥ २२ ॥  
 सीहा पाण्डवामयः शोको मूत्रकुड्डमरोचकः ।  
 हृद्रोगो राजबाध्मा च कासः श्वासो गलग्रहः ॥ २३ ॥  
 क्लिमशो प्रहणीदोषाः इवैत्यं स्थौल्यमतीव च ।  
 नरणां दीप्त्यते चाग्निः स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्धते ॥ २४ ॥  
 व्यायामनित्यो जीर्णाशी यव-गोधूम-भोजनः ।  
 संतर्पणकृतैर्दोषैः स्थौल्यं मुक्त्वा विमुच्यते ॥ २५ ॥

नागरमोया, अमलतास, पाढ़ल, त्रिफला, देवदारु, गोखरु, खैर की छाल, नीम की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, कूड़े की छाल, इन औषधियों से साथ करके दोषानुसार प्रतिदिन प्रातःकाल पीने से, सन्तर्पणजन्य सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है । स्नेह साधन द्वारा त्वचा के रोग मिट जाते हैं । कूठ, गोमेदक मणि, ( या अंकोल ) हींग, कौच पक्षी की अस्थि, सोठ, मिरच, पिप्पली, बच, वासा, इलायची, गोखरु, अजवायन, पाशाणमेद इन सब को तक या दधिमण्ड के साथ अथवा खट्टे बेरों के रसों के साथ पीने से मूत्रकुच्छ और प्रमेह रोग मिटते हैं । छाँ और हरड़ के प्रयोग से या छाँ और त्रिफला के प्रयोग से, या तक-रिष्ट के प्रयोग से ( प्रमेह में कहे अरिष्टों के उपयोग से ) प्रमेह आदि रोग शान्त होते हैं । सोठ, मिरच, पिप्पली, त्रिफला मधु, वायविंदग, अजवायन, पाना में धुला ( विरा ) अगर, धी और सत् इनका मन्थ बनाकर पीने से प्रमेह आदि रोग मिटते हैं । सोठ, मिरच, पीपल, वायविंदग, शोभाज्ञन, त्रिफला, कुटकी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, पाढ़ल, अतील, पृथिवीपर्णा, हींग, केवूक-मूल, अजवायन, धनिया, चीतामूल, सुबर्चल, जीरा हाउबेर, इनका चूर्ण कर लेना चाहिये । अब चूर्ण के बराबर तेल, धी और शहद प्रत्येक समान भाग मिलाना चाहिये । इसमें जो के सत् का सोलहवां भाग मिला कर खाना चाहिये । इस प्रकार करने से सन्तर्पणजन्य रोग शान्त हो जाते हैं । प्रमेह, मूढ़वात, कुष्ठ, अर्ध, कामला, झीहा, पाण्डुरोग, शोक, मूत्रकुच्छ, अचचि, हृदय रोग, राजयक्षमा, काल, ख्वास, गले का अवरोध, कूमि, प्रहणी रोग, दिवच रोग, अतिस्थूलता रोग नष्ट होते हैं, जाठरामि दीप होती है और स्मृति एवं कुदि बहती है । निष्प व्यावाय करने वाला, पहिले भोजन के बीर्ण होने पर खाने वाला, जो और गेहूँ का भोजन करने वाला भनुच्य सन्तर्पणजन्य रोगों से मुक्त होता है, तथा स्थूलता का नाश होता है ॥ १२-२५ ॥

उक्तं संतर्पणोत्थानामवर्तपूर्णमौषधम् ।  
 वहयन्ते सौषधाश्चोर्ध्वमपतर्पणजा गदाः ॥ २६ ॥  
 देहाग्नि-बल-वर्णोजः-शुक्र-मांस-बल-क्षयः ।  
 ल्वरः कासानुबन्धश्च पाइर्वश्लभरोचकः ॥ २७ ॥  
 ओत्रदीर्बल्वयमुन्मादः प्रलापे हृदयव्यथा ।  
 विषमूत्रसंग्रहः शुलं जङ्घोरुत्रिकर्णश्रयम् ॥ २८ ॥  
 पर्वास्थिराभेदश्च ये चान्ये वातजा गदाः ।  
 ऊर्ध्ववाताद्यः सबे जायन्ते तेऽपतर्पणात् ॥ २९ ॥  
 तेषां संतर्पणं तज्ज्ञैः पुनराख्यातमौषधम् ।  
 यत्तदात्वे समर्थं स्यादध्यासे वा तदिष्यते ॥ ३० ॥  
 सद्यः क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनोपचीयते ।  
 नरो सन्तर्पणाभ्यासाच्चिरक्षीणम्तु पुण्यति ॥ ३१ ॥  
 देहाग्नि-दोष भैषज्य-मात्रा-कालानुवर्तिना ।  
 कार्यमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुर्बले ॥ ३२ ॥  
 हिता मासिरसास्तस्मै पद्यांसि च धूतानि च ।  
 स्नानानि वस्त्रयोऽभ्यङ्गस्तर्पणास्तर्पणाश्च ये ॥ ३३ ॥  
 ज्वर-कास-प्रसक्तानां कृशानां मूत्रकृच्छ्रणाम् ।  
 लृप्यतामूर्धवातानां हितं वक्ष्यामि तर्पणम् ॥ ३४ ॥  
 शर्करा-पिपली-मूल-घृत-क्षीद्रैः समाशकैः ।  
 सकूट्टिगुणितो वृज्यस्तेषां मन्थः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥  
 सक्त्वा मदिरा क्षौद्रं शर्करा चेति तर्पणम् ।  
 पिबेन्माहूतविषमूत्रकफित्तानुलोमनम् ॥ ३६ ॥  
 फाणितं सक्तवः सर्पिर्दधि-मण्डोऽम्ल-काञ्जिकम् ।  
 तर्पणं मूत्रकृच्छ्रूद्धनमुदार्वत्तहरं पिबेत् ।  
 मन्थः खर्जूरमृद्दीका-बृक्षाम्लाम्लीक-दाहिमैः ।  
 परूषकैः सामलवैर्युक्तो मधुषिकारनुत् ॥ ३८ ॥  
 स्वाकुरलो जलकृतः सस्नेहो रुक्ष एष वा ।  
 सद्यः संतर्पणो मन्थः स्थैर्यवर्णबलप्रदः ॥ ३९ ॥

सन्तर्पण से झटक रोगों की औषध कह दी, अब अपतर्पण के कहते हैं, तथा अपतर्पण जन्य रोग और उनकी औषध भी कहते हैं—अपतर्पण से ऊर्ध्व, कास एवं कास सम्बन्धी विकार, बल, कान्ति, ओज, शुक्र और मांस का क्षय, कणेन्द्रिय की निर्वक्षण, उन्माद, प्रकाप, हृदय-पीड़ा, मङ्ग-मूत्र का अवरोध,

जंघा, ऊँठ और त्रिक ( कटि के नीचे ) प्रदेश में दर्द, पर्व, अस्थि और सन्धियों का दूटना, और अन्य वातजन्य रोग यथा ऊर्ध्ववात ( बायु का ऊर चढ़ना ) आदि रोग अपतर्पण के कारण उत्पन्न होते हैं । अपतर्पण से उत्पन्न इन रोगों के लिये सन्तर्पण किया जौषध है । सन्तर्पण किया दो प्रकार की है । यथा—सद्यः सन्तर्पण और अभ्यास ( क्रमशः शनैः शनैः ) सन्तर्पण । जो मनुष्य सहसा एकदम से क्षीण होता है, वह सद्यः सन्तर्पण किया से पुष्ट होता है और देर से क्षीण हुआ पुरुष विना अभ्यास जन्य सन्तर्पण के पुष्ट नहीं होता । जो पुरुष देर से निर्बल हो, उसमें शरीर जाठरामिन, दोष, औषध बल, मात्रा और समय का विचार करके शान्ति से ( जल्दा न करके ) चिकित्सा करनी चाहिये । इस प्रकार के रोगी के लिये मांस, रस, दूध, धी, स्नान, बहित्यां, मर्दन, सन्तर्पण करने वाले मन्थ आदि प्रयोग करने चाहिये ।

ज्वर, कास के रोगियों के लिये, निर्बलों के लिये, मूत्रकूच्छ रोगियों के लिये, प्यास रोगवालों के लिये, ऊर्ध्ववात रोगियों के लिये, हितकारी तर्पण किया का उपदेश करते हैं—शर्करा, पिप्पलीगूड़, धी और शहद ये समान भाग लेकर इन सब से दुगुना सत्तू लेकर मन्थ बनाये । सत्तू, मदिरा, शहद और शर्करा इनसे मन्थ तेयर करके बायु, मल, मूत्र के अनुलोमन ( अधोमार्ग से बाहर करने के लिये ) और कफ, पित्त को अनुकूल करने के लिये प्रयोग करना चाहिये । फारित ( राब ) सत्तू, धी, दहिमण्ड और धान्याम्ल कांजी, इनसे बना मन्थ मूत्रकूच्छ नाशक और उदार्वत्त रोग को नष्ट करने वाला तर्पण है । खजूर, मुनक्का, इमली, कोकम, अनारदाना, फालसा और आंवला उनसे बना हुआ मन्थ मदिरा के विकार को नष्ट करता है । खट्टे और मीठे ( अनारदाना ) पदार्थों से पानी में बना और धी युक्त या बिना धी के बना हुआ मन्थ सद्यः सन्तर्पण है और दियरता, वर्ण कान्ति और बल को देता है ॥ २६-३६ ॥

**तत्र श्लोकः—संतर्पणोत्था ये रोगा रोगा ये चापतर्पणात् ।**

**संतर्पणीये तेऽध्यायं सौषधाः परिकीर्तिवाः ॥ ४० ॥**

सन्तर्पण और अपतर्पण से उत्पन्न जो जो रोग हैं उनको तथा उनकी औषध को इस सन्तर्पणीय अध्याय में कह दिया ॥ ४० ॥

**इत्यग्निवेशाकृते तन्त्रे चक्रप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुर्थे**

**सन्तर्पणीयो नाम त्रयोर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥**

### चतुर्विश्वितमोऽध्यायः ।

अथातो विधिशोणितीयमध्यायं द्याव्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब विधिशोणितीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनाम् ।

देश-कालीक-सात्म्यानां विधिर्यः संप्रकाशितः ॥ ३ ॥

तद्विशुद्धं हि रुधिरं बल-वर्ण-मुखायुषा ।

युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं हानुवर्तते ॥ ४ ॥

देशसात्म्य, कालसात्म्य और अभ्यासात्म्य को जो विधि कही है उस विधि से मनुष्यों का जो रक्त उत्पन्न होता है, वह यदि विशुद्ध हो तो पुरुष को बल, वर्ण, मुख, आयु से युक्त करता है । क्योंकि प्राणियों के प्राण रक्त का अनुसरण करते रहते हैं ॥ ३-४ ॥

प्रदुष्टबहुतीक्ष्णोष्णमद्येरन्यैश्च तद्विधेः ।

तथाऽतिलवणक्षारंरेम्लः कदुभिरेव च ॥ ५ ॥

कुलत्य-भाष-निष्पाव-तिल-तेल-निषेवणैः ।

पिण्डालुमूलकादीना हरितानां च सर्वशः ॥ ६ ॥

जलजानूपशैलानां प्रसहानां च सेवनात् ।

दध्यग्ल-मस्तु-शुक्कानां सुरासौबीरकस्य च ॥ ७ ॥

विरुद्धानामुषप्रिक्लन्पूतीनां भक्षणेन च ।

भुक्त्वा दिवा प्रस्वपर्ता द्रवस्तिगधगुरुणि च ॥ ८ ॥

अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां चाऽतपानलौ ।

छर्दि-वेग-प्रतीघातात्काळे चानवसेचनात् ॥ ९ ॥

अमाभिघातसंतापैरजीर्णाभ्यशनैस्तथा ।

शरत्कालस्वभावाव शोणितं संप्रदुष्यति ॥ १० ॥

ततः शोणितज्ञा रोगाः प्रजायन्ते पृथग्विधाः ।

रक्त दूषित होने के कारण—अपनी प्रहृति से विपरीत, बहुत तीक्ष्ण, बहुत गरम मत्त अथवा इसी प्रकार के पानकादि (या अन्न से), बहुत नमक, शार या खटाई से, कड्डवे रस से, कुलथी, उड्ढ, राजधिमी, विळ, तैल के खाने से, पिण्डालू (कद ग्रन्थि, पांडरी रतालू, अरबी, शुईयां), मूँगी, और हरे शाक

सञ्जयों के खाने से, पानी में रहने वाले तथा जलीय प्रदेश में रहने वाले, तथा पर्वत पर रहने वाले और मांस खाने वाले पञ्चियों ( बाज़, चील ) का मांस खाने से, खट्टी दही, मस्तु, शुक ( कांजीमेद ), सुरा, सौबोरक ( कांजी मेद ) के खाने से, विरुद्ध, सड़े, गले, दुर्गन्ध युक्त भोजनों के खाने से, भोजन करके दिन में सोने से, तरल, स्निग्ध और भारी पदार्थों के सेवन से, बहुत अधिक खाने से, छोध, धूप, और अग्नि के अधिक सेवन से, बमन के बेग को रोकने से, रक्त के दूषित होने के समय ( शरतकाल ) में रक्त का मोक्षण न करने से, परिअम से, चोट से, सन्ताप से, अजीर्ण ( विना भोजन के पचे पुनः खाने ) से, अध्यशन अर्थात् भोजन के जीर्ण हुए विना फिर भोजन करने से तथा शरतकाल में स्वभाव से ही रक्त दूषित हो जाता है । रक्त के दूषित होने से नाना प्रकार के रक्तजन्य रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५-१० ॥

**मुखपाकोऽक्षिरागश्च पूतिघ्राणायगन्धता ॥ ११ ॥**

**गुल्मोपकुश-वीसर्प-रक्तपित्त-प्रमीलकाः ।**

**विद्रधी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितम् ॥ १२ ॥**

**वैवर्ण्यमन्निनाशश्च पिपासा गुरुग्रावता ।**

**सन्तापश्चातिदौर्बल्यमहचिः शिरसश्च रुक् ॥ १३ ॥**

**विदाहश्चान्नपानस्य तिक्ताम्लेद्विरणं क्लमः ।**

**क्रोधप्रचुरसा बुद्धे: संमोहो लवणास्यता ॥ १४ ॥**

**स्वेदः शरीरदौर्गन्धं मदः कम्पः स्वरक्षयः ।**

**तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदर्शनम् ॥ १५ ॥**

**कण्ठरुक्कोठपिडकाः कुष्ठचमद्लादयः ।**

**विकाराः सर्व एवैते विज्ञेयाः शोणिताश्रयाः ॥ १६ ॥**

**शीतोष्णस्तिग्निरुक्त्याद्यैरुपकान्ताश्च ये गदाः ।**

**सम्यक् साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तज्ञास्तान्विभावयेत् ॥ १७ ॥**

यथा मुखपाक, आंख की सूजन ( आंख की लालिमा ), नाक से बदबू, मुख का दुर्गन्ध, गुल्म, उपकुश, वीसर्प, रक्त पित्त, प्रमीलक, विद्रधि, रक्त प्रमेह, प्रदर, वातरक, विवर्णता, जाठराग्नि का नष्ट होना, प्यास, शरीर का भारीपन, सन्ताप, अतिनिर्बलता, अरुचि, शिर की दर्द, खान-पान का विदाह ( अपचन ), कहुची या खट्टी इकार आना, निष्क्रियता, छोध की अधिकता, दुष्कृत्या, मुख का नमकीनपन, पसीना आना, शरीर की दुर्गन्धता, मद, कम्पन, स्वरनाश, तन्द्रा, निद्रा का अधिक आना और आंखों के सामने

अन्वकार का अधिक आना, लाज, कोठ, कुनिष्ठा, कुष्ठ, चर्मदल ( चर्म फटने का विशेष रोग ), ये सब रोग रक्त के आश्रित होते हैं । जो रोग शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि उपकरणों ( चिकित्सा ) द्वारा भली प्रकार साध्य होने पर भी सिद्ध न हों तो इन रोगों को रक्तजन्य समझना चाहिये ॥ ११-१७ ॥

कुर्याद्व्योगितरोगेषु रक्तपित्तहर्ती क्रियाम् ।

विरेकमुपवासं वा स्नावणं शाणितस्थ वा ॥ १८ ॥

बलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्धया रुधिरस्य वा ।

रुधिरं स्नावयेजन्तोराशयं प्रसमोक्ष्य वा ॥ १९ ॥

चिकित्सा—रक्तजन्य रोगों में रक्त-पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये अर्थात् विरेचन, उपवास, अथवा रक्त का मोक्षण करना चाहिये । बल की मात्रा और रक्तजन्य व्याधि के स्वरूप की मात्रा, जितने रक्त के निकालने से रक्त शुद्ध हो जाय इतने दूरीत रक्त के स्थान को देखकर मनुष्य का रक्त ( थोड़ा या बहुत ) निकालना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

अरुणार्थं भवेद्वाताद्विशदं फेनिलं तनु ।

विच्छात्तीतासितं रक्तं स्त्यायत्नौष्ण्याच्चिरेण च ॥ २० ॥

ईषत्पाण्डु कफाद् दुष्टं विच्छिलं वन्तुमद्धनम् ।

द्विदोषलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सात्रिपातिकम् ॥ २१ ॥

बायु से दूषित रक्त लाल रंग का, विशद स्वच्छ, शागदार यतला होता है । पित्त से दूषित रक्त पीला, काला, घन ( सान्द्र ), बहुत गरम और जड़ होता है । कफ से दूषित रक्त थोड़ा पीला, पिछिल, तनु ( तांगे जैसा ) और घन ठोस होता है । दो दोषों के संसर्ग होने से दो दोषों के लक्षण होते हैं और तीन दोषों के मिलने से तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २०-२१ ॥

तपनीयेन्द्रगोपार्थं पद्मालकक्षसंनिभम् ।

गुज्ञाकलसवर्णं च विशुद्धं विद्धि शाणितम् ॥ २२ ॥

नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्त्रगानम् ।

तदा शरीरं द्वावनस्थितासृगचिन्दिशेषेण च रक्षितव्यः ॥ २३ ॥

प्रसन्नवर्णं न्द्रयमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमन्याहतपक्ववेगम् ।

सुखान्वितं पुष्टिवलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ २४ ॥

तदा तु रक्तवाहीनि रससङ्कावदानि च ।

पृथक् पृथक् समस्ता वा स्नोतासि कृपिता मलाः ॥ २५ ॥

विशुद्ध रक्त का लक्षण—तपे दुए रक्त ( कुन्दन ) के बमान, बीर-

बहूटी के रंग का, छाल कमल या माहवर ( जिसे औरतें पैर के तलुओं पर लगाती हैं ) के समान रंग, लाल रसी के रंग के समान विशुद्ध रक्त का रंग होता है । रक्त भोक्षण करने के उपरान्त न तो बहुत गरम और न बहुत ठण्डा, ल्यु एवं दीपक ( अग्नि को बढ़ाने वाला ), खान-पान सेवन करना चाहिये । रक्त मोक्षण होने से शरीर का रक्त अनवस्थित अस्थिर होता है ( रक्त का वेग बहुत चंचल होता है ), इसलिये अग्नि की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये, इसको मन्द नहीं होने देना चाहिये ।

विशुद्ध रक्तवाले पुरुष का लक्षण—जिस पुरुषका वर्ण कान्ति और इन्द्रियाँ निर्मल हों, इन्द्रियाँ अपने विषयों की इच्छा करें, जाठराग्नि का बल तथा मल-मूत्र आदि की प्रवृत्ति विना रुकावट के हों, मनुष्य का मन आनन्द थनुभव करे, प्रसन्नता और बल दीखता हो, उस पुरुष का रक्त शुद्ध जानना चाहिये ॥२५॥

मलिनाहारक्षीलस्य रजोमोहावृतात्मनः ।

प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ २६ ॥

मद-मूर्च्छाय-संन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः ।

तथोत्तरं बलायिकं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २७ ॥

दुर्बलं चेतसः स्थानं यदा दायुः प्रपद्यते ।

मनो विक्षोभयन् जनतोः संज्ञां संमोहयेत्तदा ॥ २८ ॥

पित्तसेवं कफश्वेवं मनो विक्षोभयन्नप्याम् ।

संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ २९ ॥

सर्कानल्पद्रुताभार्षं चलस्खलितचेष्टितम् ।

विद्याद्वातमदाविष्टं रुक्षश्यावारुणाकृतिम् ॥ ३० ॥

सक्रोधपरुषाभार्षं संप्रहारकलिंप्रयम् ।

विद्याद् पित्तमदाविष्टं रक्षीतासिताकृतिम् ॥ ३१ ॥

स्वल्पराबन्धवचनं तन्द्रालस्यसर्मान्वतम् ।

विद्यात्कफमदाविष्टं पाण्डुं प्रध्यानतत्परम् ॥ ३२ ॥

सर्वाण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे ।

जायते शम्यति त्वाशु मदो मद्यमदाकृतिः ॥ ३३ ॥

यश्च मद्यमदः प्रोक्तो विषजो रौधिरअथ यः ।

सर्वं एते मदा नरें वातपित्तकफत्रयात् ॥ ३४ ॥

मलिन आहार खाने वाले एवं रक्त और तम से आबृत मन वाले के कुपित बात, पित्त, कफ दोष पृथक् पृथक् या मिलकर रसवाही, रक्तवाही या संशावाही

क्षोतों को रोक लेते हैं, तब निम्न विवित रोग उत्पन्न होते हैं। यथा—मद, मूर्छा और सन्यास ये रोग होते हैं। इन तीनों दोषों के हेतु, लिङ्ग (लक्षण) और शान्ति, उपचार में उत्तरांतर बल की अधिकता रहती है। अर्थात् मद से अधिक मूर्छा में और मूर्छा से अधिक सन्यास में बल की अधिकता रहती है। जिस सभय चेतना का स्थान हृदय निर्बल हो जाता है और यहां पर वायु का प्रकोप हो, तब वह मन को क्षोभित करके मनुष्य की संज्ञा (चेतना) को ढांप लेता है, पित्त और कफ ही मन का विक्षोभ उत्पन्न करके संज्ञा का नाश करते हैं। विशेष रूप से पृथक् पृथक् कहते हैं एक-एक कर (तुतलाकर) बोलना, बहुत बोलना, जल्दी-जल्दी बोलना, चलते हुये लङ्खड़ा करके गिरते-पड़ते चलना, चेहरे का रंग रस्ता, काला, लाल सा होना, बातजन्य मद के लक्षण हैं। कोधयुक्त कठोर (गाली) बाणी बोलना, चंट या आघात करना, शगड़ा करना, चेहरे का रंग लाल, पीला या काला होना, पिच्जजन्य मद के लक्षण हैं। योद्धा परन्तु सम्बन्ध (पूर्वापर सम्बन्ध) युक्त बोलना, तन्द्रा और आलस्य का होना, चेहरे का रंग धूसरवर्ण, एक स्थान में मान होना ये कफजन्य मद के लक्षण हैं। सञ्चिपातजन्य मद में तब दोषों के लक्षण मिलते हैं। मद्यजन्य मद में आकृति शराबी पुरुष के समान होती है और यह मद जल्दी चढ़ता है और जल्दी उत्तर जाता है। मद्यजन्य, विषजन्य, रक्तजन्य और दोषजन्य ये चारों प्रकार के मद, बात, पित्त, कफ को छोड़कर नहीं होते हैं ॥ २६-३४ ॥

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम् ।

पश्यस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुद्ध्यते ॥ ३५ ॥

वेपथुश्चाङ्गमर्दृश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।

काश्यं इयावाऽरुणा छाया मूर्छाये बातसंभवे ॥ ३६ ॥

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।

पश्यस्तमः प्रविशति सस्वेदृश्च प्रबुद्ध्यते ॥ ३७ ॥

सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः ।

संभिन्नवर्च्छः पीताभो मूर्छाये पित्तरामवे ॥ ३८ ॥

मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोधनैः ।

पश्यस्तमः प्रविशति चिराश्च प्रतिबुद्ध्यते ॥ ३९ ॥

गुरुभिः प्रावृतैरङ्ग्यथैवाऽद्वेण चर्मणा ।

सप्रसेकः सहङ्कासो मूर्छाये कफसंभवे ॥ ४० ॥

सर्वाकृतिः सञ्चिपातादपस्मार इवाऽगतः ।

स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितः ॥ ४१ ॥  
 दोषेषु मदमूर्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम् ।  
 स्वयमेवोपशास्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ ४२ ॥  
 वापदेहमनमां चेष्टामाक्षिप्यातिबला भलाः ।  
 संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनसंश्रिताः ॥ ४३ ॥  
 स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः ।  
 प्राणेर्वियुड्यते शीघ्रं मुक्त्या सद्यःफलां क्रियाम् ॥ ४४ ॥

मूर्छा के लक्षण—आंखों के सामने आकाश नीला या काला अथवा लाल दीखता है, आंखों के सामने अन्धेरा आ जाता हो और मनुष्य मूर्छा से जल्दी ही सचेत हो जाय, शरीर में कम्पन और अंगों में पीड़ा हो, हृदय में बेदना का अनुभव हो, कृशता और छाया, मुख का वर्ण काला या लाल हो जाय, ये वातजन्य मूर्छा के लक्षण हैं । आकाश लाल पीड़ा या हरा दिखाई दे, अन्धकार आता दिखाई दे और उठते समय शरीर पर पसीना, प्यास वा जड़न हो, आंखें लाल या पीली, व्याकुल दीखती हों, मल पतला ( अतीसार ), चेहरे का रंग पीड़ा पड़ जाता है, ये पिच्चजन्य मूर्छा के लक्षण हैं । आकाश बादलों से घिरा या अन्धकार से आङृत दिखाई दे, अन्धकार सामने आता दिखाई दे, मूर्छा से देर में जागृत हों, भारी तथा गीले कपड़े में शरीर ढपा प्रतीत होता हो, ( शरीर जकड़ा एवं भारी ), मुख से लार बढ़ना, बेचैनी, ये कफजन्य मूर्छा के लक्षण हैं । सज्जितात से सब दोषों के लक्षण होते हैं, अपस्मार के समान इसमें बेग आता है । इस रोग में बीभत्स चेष्टाओं ( दांतों से काटना, हाथ पांव आदि फेंकने ) के विना मनुष्य गिर पड़ता है । शरीरधारियों में जब मद-मूर्छा को उत्पन्न करने वाले दोषों का बल कम हो जाता है, तब ये रोग अपने आप शान्त हो जाते हैं, परन्तु 'संन्यास' रोग विना औषध के अच्छा नहीं होता । अति बलवान् मल वातादि दोष, प्राणायदन ( हृदय आदि ) वावयवों का वाश्रय करके, वाणी, शरीर और मन की क्रियाओं को एकदम से बन्द कर देते हैं, तब मनुष्य निर्बल, निष्क्रिय, क्रियारहित, लकड़ी के सामान निर्जीव होकर गिर पड़ता है । इस समय यदि तात्कालिक फल देने वाली क्रियायें ( अंजन, नस्य आदि ) जल्दी न की जायें तो मनुष्य मर जाता है ॥ ३५-४४ ॥

दुर्गेऽम्भसि यथा मञ्जद्वाजनं त्वरया बुधः ।  
 गृह्णायात्तलमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम् ॥ ४५ ॥  
 अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमः प्रधमनानि च ।

सूचीभिस्तोदनं शस्त्रैर्दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ४६ ॥  
लुञ्जनं केशलोप्त्रां च दन्तैर्दशनमेव च ।  
आत्मगुप्ताववर्षश्च हितास्तस्यावबोधने ॥ ४७ ॥  
संमूलिंगानि तीक्षणानि मद्यानि विविधानि च ।  
प्रभूतकदुयुक्तानि॑ तस्यास्ये गाल्येन्मुहुः ॥ ४८ ॥  
मातुलुञ्जरसं तद्वन्महोषधसमायुतम् ।  
तद्वत्सौवर्चलं॒ दद्यायुक्तं मद्याम्लकाञ्जिके: ॥ ४९ ॥  
हिङ्गूषणसमायुक्तं यावत्संज्ञाप्रबोधनम् ।  
प्रबुद्धसंज्ञमन्नैश्च लघुभिस्तमुपाचरेत् ॥ ५० ॥  
विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रियश्रतिभिरेव च ।  
बुद्धिर्गीतवादिवशब्देश्चित्रैश्च दर्शनैः ॥ ५१ ॥  
संसनोङ्गेखनेर्धूमैरञ्जनैः कवलप्रहैः ।  
शोणितस्यावसेकैश्च व्यायामोद्धर्षणैस्तथा ॥ ५२ ॥  
प्रबुद्धसंज्ञं मतिमाननुबन्धमुपकर्मत् ।  
तस्य संरक्षितव्यं हि मनः प्रलयहेतुतः ॥ ५३ ॥

गहरे पानी में छूते हुए चर्तन को बुद्धिमान् मनुष्य जिस प्रकार तभी में रहन्चने से पूर्व ही पकड़ने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार सन्यास रोगों की गिरने से पूर्व चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये अजन ( आंखों में ), अवपीडन ( नासिका में औषधियों का रस ढालना ), नाक से धूम्रपान, प्रधमन ( नाक में फुट्कार से औषध पहुंचाना ), सुई चुमोना, शब्द आदि को गरम करके दाह करना, नखों में सुई, पिन आदि चुमोना, शिर या शरीर के बालों या लोमों को खीचना, दाँतों से काटना, कौच की फली का शरीर पर मलना, ये कर्म रोगी को चेतन करने के लिये हितकारी हैं । नाना प्रकार के तीक्ष्ण, मूर्च्छित एवं कटु द्रव्य युक्त मद्य रोगी के मुंह में ढालने चाहिये । सोठ में मिलकर बिजौरे निघू का रस, या मद्य और खट्टी कांजी में सौंचल मिलाकर वा हींग और सोठ मिरच, पिष्ठली इनको मिलाकर देवे, जबतक मनुष्य चेतन हो । चेतन होने पर हल्का भोजन देना चाहिये । चामत्कारिक बातों को मुनाना, पिछली बातों को याद करना, मन पसन्द कहना कहना, बढ़िया गाना-बजाना सुनाकर, सुन्दर सुन्दर चित्रों को दिखाकर, विरेचन, वमन, धूम्रपान, अजन, कवल अर्थात् मुड़ में औषध या गोली को रखकर, रक्त मोक्षण, व्यायाम कराके, अंगों के मर्दन से निरन्तर मनुष्य को जागृत चेतन रखने का यत्न करना

चाहिये । रोगी के मन को मोहित ( मूर्च्छ उत्सन्न ) करने वाले कारणों से बचा कर रखना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥

स्नेहस्वेदोपपश्चानां यथादोषं यथाबलम् ।  
पञ्च कर्मणि कुर्वीत मूर्च्छायेषु मदेषु च ॥ ५४ ॥

अष्टाविंशत्यौषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः ।

प्रयोगः शस्यते तद्वन्महतः षट्पलस्य वा ॥ ५५ ॥

त्रिफलायाः प्रयोगो वा सघृतक्षीद्रक्षर्करः ।

शिलाजतुप्रयोगो वा प्रयोगः पवसोऽपि वा ॥ ५६ ॥

पिप्पलीनीं प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य वा ।

रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ ५७ ॥

रक्तावसेकाच्छाक्षाणां सर्ता सत्क्वब्रतामपि ।

सेवनान्मदमूर्च्छायाः प्रशास्यन्ति शरीरिणाम् ॥ ५८ ॥ इति ॥

मूर्छा और मद रोगों में बल एवं दोष के अनुसार स्वेदन देकर पांखे से बमन, विरेचन, शिरोविरेचन ( नस्य ), आस्थापन और अनुवासन रूपी चंचकर्म करने चाहिये । उन्माद चिकित्सा में कहे 'पानीय कल्याण घृत' ( अद्वैत दवाइयां ), महातिक्त घृत या महाप्रृल घृत ( कुष्ठ रोग में ) का पान करना उत्तम है । धी, शहद और शर्करा के साथ त्रिफला का प्रयोग करना, अयथा दूध के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना, दूध के साथ पिप्पली चूर्ण या चीतामूल का प्रयोग करना, रसायनों तथा दस वर्ष पुराने मटके में रखके हुए धी का प्रयोग करना उत्तम है । रक्त मोक्षण, वेद आदि सत् शारू का पद्धना, सजन, सत्वगुणी, तपस्वी पुरुषों का सत्तंग मद मूर्च्छा रोग को शान्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥

तत्र इलोकौ—विशुद्धं चाविशुद्धं च शोणितं तस्य हेतवः ।

रक्तप्रदोषजा रोगास्तेषु रोगेषु चौधधम् ॥ ५९ ॥

मद-मूर्च्छाय-संन्यास-हेतु-लक्षण-भेदजम् ।

विधिशोणितकेऽध्याये सर्वमेतत्प्रकाशितम् ॥ ६० ॥

शुद्ध या अशुद्ध रक्त, इनके कारण, रक्त प्रदोष से उत्पन्न होने वाले रोग, इनकी औषध, मद, मूर्च्छाय, संन्यास रोगों के कारण लक्षण और औषध, ये सब विषय इस 'विधिशोणित' अध्याय में कह दिये ॥ ५९-६० ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते सूक्ष्मस्थाने योजनाचतुर्ब्दे

विधिशोणितीयो नाम चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

पञ्चविंशतितमोऽन्यायः ।

अथातो यज्ञः पुरुषीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'यज्ञः पुरुषीय' अध्याय का व्याख्यान करेगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

पुरा प्रत्यक्षधर्माणं भगवन्तं पुनर्वसुम् ।

समेतानां महर्षीणां प्रादुरासीदिर्यं कथा' ॥ ३ ॥

आत्मेनिद्रियमनोर्धानां याऽयं पुरुषसंज्ञकः ।

राशिरस्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये ॥ ४ ॥

अथ काशिपतिर्वाक्यं वामकोऽर्थवदन्तरा ।

व्याजहारर्विसमितिमभिसूत्याभिवाय च ॥ ५ ॥

किं तु स्यात् पुरुषो यज्ञस्तज्जास्तस्याऽमयाः स्मृताः ।

न वेत्युक्ते न रेन्द्रेण प्रोवाचर्षान् पुनर्वसुः ॥ ६ ॥

सर्वं प्रवामित-ज्ञान-विज्ञान-च्छन्न-संशयाः ।

भवन्तश्छेत्तुमर्हन्ति काशिराजस्य संशयम् ॥ ७ ॥

धर्म के प्रत्यक्ष किये हुए महर्षि आत्रेय एक बार महर्षियों के साथ मिलकर बातचीत करने लगे कि—'आत्मा, इन्द्रिय, मन और विषय' इन से युक्त जो 'पुरुष' बनता है इसकी तथा रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार और कहाँ से होती है? इस प्रसंग में काशि के राजा वामक शूषितभा के सन्मुख अभिवादन करके बोले लगे—हे भगवन्! जिन कारणों से पुरुषों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं, यह मानना संगत है या नहीं? शूषि पुनर्वसु ने कहा कि—हे महर्षियो! तुम सब अपार शान रखते हो, विज्ञान से तुम्हारे सब सन्देह मिट चुके हैं। आप लोग इन काशिपति के सन्देह को दूर करें ॥ ७ ॥

पारीक्षिस्तप्तरीक्ष्याये मौदूगल्यो वाक्यमब्रवीत् ।

आत्मजः पुरुषो रोगाऽचाऽत्मजाः कारणं हि सः ॥ ८ ॥

स चिनोत्युपभुद्भुक्ते च कर्म कर्मफलानि च ।

नहोते चेतनाधातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः ॥ ९ ॥

पारीक्षि मौदूगल्य कहने लगे कि—पुरुष आत्मा से उत्पन्न होता है और रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। वही आत्मा आहार-विहारादि कर्मों को

१. महर्षय उपासीना प्रादुर्धकुरिमां कथार्माति वा पाठः ।

करता है और इसीसे आरोग्यता या रोग रूपी कर्मफलों का भोग करता है। क्योंकि 'चेताना धातु' आत्मा के विना सुख दुःख के हेतु रूप आरोग्यता या व्याधि नहीं हो सकती ॥ ८-६ ॥

शरलोमा तु नेत्याह न ह्यात्माऽऽत्मानमात्मना ।  
योजयेद् व्याधिभिर्दुर्खैर्दुर्खद्वेषी कदाचन ॥ १० ॥  
रजस्तमोऽया तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकम् ।  
शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम् ॥ ११ ॥

शरलोमा शृष्टि बोले—यह ठीक नहीं। क्योंकि आत्मा स्वभाव से दुःखों से द्रेष रखने वाला 'आनन्दमय' है। इसलिये आत्मा अपने आपको व्याधियों के कष्टों से युक्त नहीं करेगा। वास्तव में, 'सत्त्व' नामक मन के साथ रज और तम गुण मिलकर पुरुष और रोग दोनों को ही उत्पन्न करते हैं ॥ १०-११ ॥

वायोविदस्तु नेत्याह नहोकं कारणं मनः ।  
नते शरीरं शारीररोगा न मनसः स्थितः ॥ १२ ॥  
रसजानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः ।  
आपो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निर्विचिह्नतवः ॥ १३ ॥

वायोविद शृष्टि बोले—यह ठीक नहीं है कि अकेला मन ही इनकी उत्पत्ति में कारण है। क्योंकि शरार के विना न तो शारीरिक रोग हो सकते हैं और न मन ही रह सकता है। इसलिये प्राणियों की उत्पत्ति में कारण रस है और 'रस' से ही सब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रस का उत्पत्ति का जल ही इनकी उत्पत्ति का कारण है ॥ १२-१३ ॥

हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः ।  
नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥ १४ ॥  
षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः षड्धातुजास्तथा ।  
राशिः षड्धातुजां ह्येष साख्यरात्यैः प्रकीर्तिः ॥ १५ ॥

हिरण्याक्ष शृष्टि बोले—कि नहीं, यह ठीक नहीं, आत्मा रसजन्य नहीं है, आत्मा और मन अतीन्द्रिय हैं। (कुछ रोग) भी शब्दादि (अतिथेग अयोग, मिष्यायोग) से उत्पन्न होते हैं। जो कि रसजन्य नहीं। वास्तव में पुरुष छः धातुओं (आत्मा और पृथ्वी अप, तेज, वायु एवं आकाश) से उत्पन्न होता है, रोग भी इन्हीं छः धातुओं से पैदा होते हैं। सांख्य दर्शन का सिद्धान्त भी है कि 'छः धातुओं के समूह का नाम पुरुष' है ॥ १४-१५ ॥

तथा बुवाणं कुशिकमाह वन्नेति शौनकः ।  
कस्मान्मातापिरुद्धयां हि विना षष्ठातुजो भवेत् ॥ १६ ॥  
पुरुषः पुरुषाद् गौर्गोरश्वादश्वः प्रजायते ।  
ऐच्छा मेहादयश्चोक्ता रोगास्तावत्र कारणम् ॥ १७ ॥

इस प्रकार कहते हुए कुशिक ( हिरण्याक्ष ) को शौनक ने कहा कि—  
माता पिता के विना छः धातु कैसे हो सकते हैं ? पुरुष से, पुरुष गौ से गाय,  
और घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है और माता पिता के प्रमेहादि रोग पुत्र में  
आते हैं, इसलिये रोगों और पुरुषों की उत्पत्ति में कारण माता-पिता ही हैं ॥ १७ ॥

भद्रकाप्यस्तु नेत्याह नहन्दोऽन्यतप्रजायते ।  
मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिर्न युज्यते ॥ १८ ॥  
कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चाऽमयाः ।  
नहृते कर्मणो जन्म रोगाणा पुरुषस्य च ॥ १९ ॥

भद्रकाप्य श्रूषि बोले—यह ठीक नहीं, क्योंकि अन्धे माता-पिता से पुत्र  
अन्धा उत्पन्न नहीं होता । माता-पिता की उत्पत्ति से पूर्व पुरुष का और रोग  
का होना असम्भव होता है । इसलिये कर्म से ही पुरुष उत्पन्न होता है और  
कर्म से ही रोग उत्पन्न होते हैं । कर्म के विना न तो पुरुष का और न रोगों का  
जन्म हो सकता है ॥ १८-१९ ॥

भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्ता पूर्वं हि कर्मणः ।  
हृष्टं न चाहृतं कर्म यस्य स्यात्पुरुषः फलम् ॥ २० ॥  
भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च ।  
खरद्रवचलोष्णत्वं तेजोन्तानां यथेव हि ॥ २१ ॥

भरद्वाज श्रूषि बोले कि—कर्म से पहिले कर्ता है । विना कर्मों के किये  
हुए कर्म का फल नहीं देखा जाता । प्रथम कर्म होने से फल होता है, इसलिये  
प्रथम कर्म होना चाहिये, जिसके फलस्वरूप पुरुष उत्पन्न होना चाहिये । कर्म  
को करने के लिये कर्ता ( पुरुष ) आवश्यक है । इसलिये मनुष्य और रोग की  
उत्पत्ति में कारण 'स्वभाव' ही है । जिस प्रकार पृथ्वी, अप, बायु और अग्नि  
में खरत्व ( खरलाग्न ) द्रवत्व ( तरलता ), चलत्व ( गति ) और उष्णत्व  
( गरमी ), स्वभाव से ही होता है ॥ २०-२१ ॥

काङ्क्षायनस्तु नेत्याह नशारम्भ फलं भवेत् ।  
भवेत्स्वभावाद्वावानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा ॥ २२ ॥

**खष्टा त्वमितसंकल्पो नद्यापत्यं प्रजापतिः ।**

**चेतनाचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः ॥ २३ ॥**

कांकायन शूष्णि बोले—यह ठीक नहीं। यदि स्वमाव से ही रोग और पुरुषों की सिद्धि और अविद्धि होती हो, तो आम्भ अर्थात् लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध वज्र, छापि, पदाना, पहना आदि कार्य निष्प्रयोजन होजायें। इस सुख-दुःख को बनाने वाला एवं चेतन वथा अचेतन जगत् का कर्ता अनन्त संकल्प वाला, ब्रह्म का पुत्र प्रजापति है ॥ २२-२३ ॥

**तन्नेति भिञ्चुरात्रेयो नद्यापत्यं प्रजापतिः ।**

**प्रजाहितैषी सतर्तं दुःखैर्युक्त्यादसाधुवत् ॥ २४ ॥**

**कालजस्त्वेव पुरुषः कालजास्तस्य चाऽमयाः ।**

**जगत्कालवशं सर्वं कालः सर्वत्र कारणम् ॥ २५ ॥**

भिञ्चुरात्रेय बोले—यह ठीक नहीं है। यह संसार प्रजापति से (पुनर्ऋपण) उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि प्रजा की मंगलकामना करने वाला प्रजापति, संतान से द्वेष करने वाले की भाँति किस प्रकार से दुःखों को देता, अपनी संतान को दुःखी करता, वास्तव में पुरुष काल से उत्पन्न होता है और रोग भी काल से ही उत्पन्न होते हैं। सम्पूर्ण जगत् काल के वश में है और सब जगह काल ही कारण है ॥ २४-२५ ॥

**तथर्थीणा विवदतासुवाचेदं पुनर्वसुः ।**

**मैव बोचत तत्त्वं हि दुष्पार्प पक्षसंभ्रात् ॥ २६ ॥**

**वादान् सप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानिव ।**

**पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद् गतौ ॥ २७ ॥**

**मुक्तवैवं वादसंघटमध्यात्ममनुचिन्त्यताम् ।**

**नाविधूतवतःस्कन्धे झेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥ २८ ॥**

**येषामेव हि भावानां संपत्संजनयेन्नरम् ।**

**तेषामेव विपद्व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत् ॥ २९ ॥**

इस प्रकार शूष्मिमण्डल में विवाद चलते हुए देख कर पुनर्वसु शूष्णि बोले कि इस प्रकार एक पक्ष को लेकर वादविवाद करते जाओगे तो किसी निश्चित तत्त्व को नहीं पहुंच सकोगे। जिस प्रकार तैल के कोल्हू (चरखी) पर बैठा हुआ मनुष्य चारों ओर अनन्त काल तक धूमता रहता है, परन्तु किसी निश्चित दिशा या स्थान पर नहीं पहुंचता। इस किये इस वादविवाद को छोड़ कर महलव की बात खोचो। अन्तचरसदूह को जष किये विना छातव्य विश्व में जान

नहीं शास्त्र होता । जिस प्रकार के गुणों से पुरुष उत्सव होता है उसी प्रकार के अप्रशस्त गुणों से ये उत्सव होते हैं । पांच महामूलों से पुरुष उत्सव होता और इन्हीं महामूलों से वात, पिच्छा, कफ, (रोगों के कारण) बनते हैं ॥२६-२७॥

अथान्त्रयस्य भगवतो वचनमनुनिश्चय पुनरेव वामकः कारिणपति-  
रुचाच भगवन्तमात्रेयं—भगवन् ! संपत्तिमित्तजस्य पुरुषस्य विपत्तिमि-  
त्तजानां च रोगाणां किमभिवृद्धिकारणमिति ॥ ३० ॥

आत्रेय श्रवणि के वचन सुन कर फिर कारिणपति वामक कहने लगे । हे भगवन् ! प्रशस्त गुणों से उत्सवन पुरुष की ओर अप्रशस्त गुणों से उत्सव रोगों की वृद्धि करने वाले कौन से कारण हैं ? ॥३०॥

तमुच्चाच भगवानात्रेयः—हिताहारोपयोग एक एव पुरुषस्याभिवृ-  
द्धिकरो भवति, अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधीनां निमित्तमिति ॥३१॥

वामक श्रवणि को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया । हितकारी वस्तुओं का आहार रूप में उपयोग करना ही पुरुष की वृद्धि में अकेला कारण है । अहित-  
कारी वस्तुओं का सेवन करना ही रोगों की वृद्धि में एकमात्र कारण है ॥३१॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमनिवेश उचाच—कथमिह भगवन् !  
हिताहितानामाहारजातानां लक्षणमनपवादमभिजानीयात्, हितस-  
माख्यातानां चैव क्षाहारजातानामहितसमाख्यातानां च मात्राकालक्रि-  
यामूमिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वमुपलभामहे ॥३२॥ इति

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय श्रवणि को अग्निवेश ने पूछा—हे भगवन् ! किस प्रकार से हितकारा या अहितकारी आहार रूप पदार्थों को बिना दोष ( अपवाद ) के जान सकते हैं । क्योंकि हितकारी पदार्थ एवं अहितकारी पदार्थ मात्रा, काल, क्रिया ( संस्कार ), भूमि, देह, दोष और पुरुष मेद से विपरीत, विरुद्ध गुण वाले हितकारी पदार्थ अहितकारी, और अहितकारी पदार्थ हितकारी बन जाते हैं ॥ ३२ ॥

तमुच्चाच भगवानात्रेयः—यदाहारजातमनिवेश ! समाश्वैव शरीर-  
धातुन् प्रकृतौ स्थापयति विषमांश्च समीकरोतीत्येतद्वितं विद्धि, विप-  
रीतमहितमिति; यतद्विताहितलक्षणमनपवादं भवति ॥ ३३ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—हे अग्निवेश जो भोजन ( आहार के पदार्थ ) शरीर के सम धातुओं को प्रकृति अर्थात् समानावस्था में रखता है और विषम धातुओं को सम करता है वह हितकारी है । इसके विपरीत पदार्थ अहितकारी हैं, हित और अहित पदार्थों का यह लक्षण दोषशूल्य है ॥ ३३ ॥

एवं वादिनं च भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—भगवन् ! न त्वे-  
तदेव मुपदिष्टं भूयिष्ठ कल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति ॥ ३४ ॥

तस्मात् भगवानात्रेयः—येषा विदितमाहारतस्वमग्निवेश ! गुणतो  
द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवतश्च मात्रादयो भावाः, त एतदेव मुपदिष्टं  
विज्ञातु मुत्सहन्ते । यथा तु खल्वेतदुपदिष्टं भूयिष्ठ कल्पाः सर्वभिषजो  
विज्ञास्यन्ति, तथैतदुपदेक्ष्यामो मात्रादीन् भावानुदाहरन्तः । तेषां  
हि व्युत्पन्न विधिविकल्पा भवन्ति । आहारविधिविशेषांस्तु खलु लक्ष-  
णतश्चावयवतश्चानुव्याख्यास्यामः ॥ ३५ ॥

तथाथ—आहारत्वमाहारस्यैकविधमर्थभेदात् ; स पुनर्द्वियोनिः,  
स्थावरजड्डमात्मकत्वात् ; द्विविधप्रभावो हिताहितोदर्कविशेषात् ;  
चतुर्विधोपयोगः पानाशन-भक्ष्य-लेहोपयोगात् ; षडास्वादो रसभेदतः  
षट्विधत्वात् ; विशतिगुणो गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्नित्य-रूक्ष-मन्द-तीक्ष्ण-  
स्थिर-सर-मृदु-कठिन-विशद-पिच्छिल-शक्षण-खर-सूक्ष्म-स्थूल-सान्द्र-  
द्रवा-नुगमात् ; अपरिसंख्येयविकल्पो द्रव्य-संयोग-करण-बाहुल्यात् ॥ ३६ ॥

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय शूष्पि को अग्निवेश बोले—इतना कह देने  
से सब वैद्य सब बातों को नहीं समझ सकेंगे । अग्निवेश को भगवन् आत्रेय ने  
कहा—कि जिन वैद्यों को आहारयोग्य पदार्थ गुण, ( गुरु लघु आदि ) कारण  
( यह आप्य है, यह आंशेय है इत्यादि ), कर्म ( यह जीवनीय, यह दृढ़ीय  
इत्यादि ) सब अवयव २ ( रस, वीर्य, विषाक्त प्रभाव से ), मात्रा एवं पुरुष  
की अवस्था का ज्ञान होगा वे ही इतने ( ऊपर कहे हुए ) उपदेश से समझ  
सकते हैं । जिस प्रकार कहने से सब वैद्य सम्पूर्ण रूप में ज्ञान सकेंगे, उसी  
प्रकार से मात्रा आदि वस्तुओं को उदाहरण के साथ कहेंगे । इनके बहुत  
से मेद होते हैं । आहार की जो विशिष्ट विधि है, उसको प्रथम साधारण  
रूप में कहकर फिर विभाग पूर्वक कहेंगे । यथा—आहारत्व ( खाद्यत्व ) गुण  
समान होने से सम्पूर्ण आहार एक प्रकार का है, क्योंकि अर्थ में कोई मेद नहीं  
है । इस आहार के दो उत्पत्ति स्थान हैं, स्थावर और जंगम । इस आहार के  
दो प्रकार के प्रभाव हैं, एक हितफलजनक और दूसरा अहितफलजनक । इस  
आहार का चार प्रकार से उपयोग होता है । यथा—पान ( पीना ), अयन  
( दांतों से काटकर खाना ), भक्ष्य ( चबाना ) और छेष ( चाटने ) के उपयोग  
से । इस आहार के छः स्थावर होने से यह रस मेद से छः प्रकार का है, क्योंकि  
रस छः प्रकार के हैं । इस आहार के गुण वीस प्रकार के हैं । यथा—गुरु, लघु,

शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिण्डिङ्ग, अक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सान्द्र, द्रव मेद से । द्रव्य ( शूक्रधान्यादि ), संयोग ( खाद्य पदार्थों का मिश्रण ), करण ( संस्कार ) मेद से आहार-द्रव्य असंख्य प्रकार का हो जाता है ॥ ३४-३६ ॥

तस्य खल्ये ये विकारावयवा भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते, भूयिष्ठकल्पानां  
च मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाइचाहिततमाइच, तांस्तान्यथावदनु-  
व्याख्यास्यामः ॥ ( १ )

तथाद्या-लोहितशालयः शुक्रधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति,  
मुद्रगाः शमीधान्यानां, आन्तरिक्षमुद्रकानां, सैन्यवं लब्धानां, जीवन्ती-  
शाकं शकानां, ऐणेयं मृगमासानां, लावः पक्षिणां, गोधा विलेशयानां,  
रोहितो मत्स्यानां, गर्व्यं सर्पिंषां, गोक्षीरं क्षीराणां, तिलत्तेलं स्थावरजा-  
तानां स्नेहानां, वराहवसा आनूपमृगवसानां, चुलुकीवसा मत्स्यवसानां,  
पाकहंसवसा जलचरविहङ्गवसानां, कुकुटवसा विष्करशकुनिवसानां,  
अजमोदः शाखादमेदसा, शृङ्खवेरं कन्दानां, मृद्रोका फलानां, शर्करा  
इक्षुविकाराणामिति प्रकृत्यैव हिततमानामाहारविकाराणां प्राधान्यतो  
द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ ( २ )

प्रायः करके जो जो आहार पदार्थ हितकारी और अहितकारी कहे जाते हैं  
और बहुत अधिक व्यवहार में आते हैं, उन पदार्थों का यहां वर्णन करते हैं ।  
जैसे—लाल चावल शुक्रधान्यों में सबसे अधिक हितकारी ( श्रेष्ठ ) है । मूर्ग  
शमीधान्यों में, वरसात का पानी सब पानियों में, सेंधा नमक सब नमकों में,  
जीवन्ती का शाक सब शाकों में, मूर्ग का मांस सब पशुओं के मांसों में, बटेर  
सब पक्षियों में, गोधा ( गोह ) विल में रहने वाले जन्तुओं में, रोहित मत्स्य सब  
मछलियों में, गौ का धी सब धी में, गाय का दूध सब दूधों में, तिल का तेल  
स्थावरजन्य सब स्नेहों में, वराह की चर्बी सब जलचर प्राणियों की चर्बियों में,  
चुलुकी ( शुशु ) मछली की चर्बी सब मछलियों की चर्बियों में, सफेद हंस की  
वसा सब जलचर पक्षियों की वसा में, मुर्गे की चर्बी विलेर कर खाने वाले सब  
पक्षियों में, बकरी का मेद शाखा या टहनी खाने वाले पशुओं की मेदों में,  
अदरख सब कन्दों अर्थात् भूमि में रहने वाले फलों में, किशमिश सब फलों  
में, शकर गजे के रस से बनी सब वस्तुओं में भेष्ट है । ये भोज्य पदार्थों में  
स्वभाव से हितकारी द्रव्य कह दिये हैं ॥

अतः ऊर्ध्वमहितानप्युपदेश्यामः—यवकाः शूक्रधान्यानामपथ्यत्वे

प्रकृष्टम् भवन्ति, माषाः शमीधान्यानां, वर्णानारेयमुदकानां, औचर लवणानां, सर्षपशाकं शाकानां, गोमासं वृगमासानां, काषकपोतः पक्षिणां, भेको चिलेशयानां, चिलिचिमो मत्स्यानां, आविकं सपिः, अविक्षीरं क्षीराणां, कुसुभस्नेहः स्थावरलेहानां, महिषबसा आनूपसुग-वसानां, कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां, काकमदगुबसा जलचरविहङ्गव-सानां, चटकवसा चिकिरशकुनिवसानां, हस्तिमेदः शाखादमेदसां, लिकुचं फलानां, आलुकं कन्दानां, फाणितमिष्ठुविकाराणाम्.—इति प्रकृ-त्यं अहितमानामाहारविकाराणां प्रकृष्टमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति—इति हिताहितावयवो व्याख्यात आहारविकाराणाम्॥ ३७ ॥

अब इसके अनन्तर अहित पदार्थों का उपदेश करेंगे—यवक ( जई, जत्री ) शूक-धान्यों में सबसे अमय एवं अति निनिदित है। माष ( उड्ड ) शमी-धान्यों में, बरसात में नदियों का पानी सब पानियों में, ऊसर देश में उत्पन्न नमक सब नमकों में, सरसों का शाक सब शाकों में, गाय का मांस सब पशुओं के मांसों में, छोटा कच्चूतर सब पक्षियों में, मेंढक विल में रहने वालों में, चिलिचिम मत्स्य सब मछलियों में, भेड़ का धी सब धीयों में, भेड़ का दूत सब दूधों में, कुसुभ का तेल सब स्थावर तैलों में, मैंस को चर्बी सब जलीय देश के पशुओं की चर्बियों में, कुम्भीर मछली की वसा सब मछलियों की वसा में, पानी के कोवे (पनकड्डा) की चर्बी सब जलचर पक्षियों में, कारण्डव (पनडुब्बी इसमेद ) की चर्बी सब जलचारी पक्षियों की चर्बियों में, हाथी की चर्बी शाखा खानेवाले सब पशुओं में, लिकुच, ( बड़हल, क्वो ) सब प्रकार के फलों में, आलू सब कन्दों में, राघ गजे से बने सब विकारों में, चिड़िया की चर्बी विशेष कर खाने वाले सब पक्षियों की चर्बियों में निनिदित हैं। ये भोज्य पदार्थों में स्वभाव से ही हितकारी एवं निन्दनीय द्रव्य कहे गये हैं॥ ३७ ॥

असो भूयः कर्मौषधानां च प्राधान्यतः सानुवन्धानि च द्रव्याण्डलु-व्याख्यात्यामः । तद्यथा—अन्नं वृत्तिकराणां श्रेष्ठं, उदकमाश्वासकराणां, मुरा शमहराणां, क्षीरं जीवनीयानां, मांसं वृहणीयानां, रसस्तर्पणीयानां, लघणमध्रव्यक्षिकराणां, अम्लं दृश्यानां, कुकुटो बल्यानां, नक्केलो वृद्धयाणां, मधु श्लेष्मपित्तप्रशमनानां, सर्पिंबीतपित्तप्रशमनानां, तैकं चातश्चेष्यप्रशमनानां, वमनं श्लेष्महराणां, विरेचनं पित्तहराणां, अस्ति-वीतहराणां, स्वेदो मार्दवकराणां, व्याघ्रामः स्वेच्छकराणां, शारः पुरुषोऽवातिनां, तिन्दुकमनज्ञद्रव्यक्षिकराणां, आर्द्धं कमिस्थमकण्ठयानां, आ-

विकं शर्षिद्वृष्ट्यानां, अजाक्षीरं शोषण-स्तन्य-सास्त्रम्-कोक्कल-रक्त-साक्षा-  
हिक्क-रक्त-पित्त-प्रशमनानां, अविक्षीरं इलेघपित्तोषचयकरणां, महिषी-  
क्षीरं स्वप्नजननानां, मन्दकं दृष्ट्यगिर्भ्यन्दकरणां, गवेशुकान्नं कर्षणीया-  
ना, उद्धालकान्ने रूक्षणीयाना, इक्षुर्मूत्रजननाना, यथाः पुरीषजननाना,  
जाम्बवं वातजननाना, शङ्खल्यः इलेघपित्तजननाना, कुलत्था अम्ल-  
पित्तजननाना, माषाः इलेघपित्तजननाना, मदनफलं व मनास्थापनानु-  
वासनोपयोगिना, त्रिवृत्सुखविरेचनाना, चतुरकुलं मृदुविरेचनाना,  
स्तुकृपयस्तीक्ष्णविरेचनाना, प्रत्यक्पृष्ठा शिरोविरेचनाना, विडङ्गं  
क्रिमिजनाना, शिरीषो विषज्ञाना, स्वादिरः कुष्ठग्राना, रास्ता वातहरणां,  
आमलकं वयःस्थापनाना, हरीतकी पथ्याना, एरण्डमलं वृक्ष्यवात-  
हरणां, पिप्पलोम्लं दीपनीय-पाचनीयानाह-प्रशमनाना, चित्रकम्लं  
दीपनीय-पाचनीय-गुदशुल्शोषाशर्णे-हरणां, पुष्करम्लं हिका-श्वास-कास-  
पाश्व-शुल्हरणां, मुस्तं संग्राहक-दीपनीय-पाचनीयाना, उदीच्यं निर्बाप-  
णीय-दीपनीय-पाचनीय-च्छर्द्यतीसार-हरणां, कटवङ्गं संग्राहक-दीपनीय-  
पाचनीयाना, अनन्ता संग्राहक-दीपनीय-रक्त-प्रशमनाना, अमृता संग्रा-  
हक-वातहरदीपनीय-इलेघ-शोणित-चिवन्ध-प्रशमनाना, बिल्वं संग्राहक-  
दीपनीयवात-कफ-प्रशमनाना, अतिविषा दीपनीय-पाचनीय-संग्राहक-सर्व-  
दोष हरणां, उत्पल-कुमुद-पद्म-किञ्चलं संग्राहक रक्त-पित्त-प्रशमनाना,  
दुराळमा पित्त-इलेघ-प्रशमनाना, गन्धग्रिवङ्गुः शोणित-पित्तातियोग-प्रशम-  
नाना, कुटजत्वक् इलेघ-पित्त-रक्त-संग्राहकोपशोषणाना, काशमर्यफलं रक्तसं-  
ग्राहक-रक्त-पित्त-प्रशमनाना, इश्नपर्णीं संग्राहक-वातहर-दीपनीय-वृद्ध्या-  
णां, विदारिगन्धा वृक्ष्यसर्वदोषहरणां, बला संग्राहक-बल्य-वात-हरणां,  
गोक्षुरको मूत्रकुच्छ्रानिलहरणां, हिङ्कुनिर्यासश्चेदनीय-दीपनीय-भेदनी-  
यानुलोभिक-वात-कफ-प्रशमनाना, अम्लवेत्ससो भेदनीय-दीपनीयानुलोभि-  
क-वात-इलेघ-प्रशमनाना, यावशूः संसनीय-पाचनीयाशर्णेनाना, तका-  
भ्यासो ग्रहणी-दोषाशर्णे-घृत-न्यायपत्त्वशमनाना, क्रन्याद-मास-रसायनासो  
ग्रहणी-दोष-शोषाशर्णेनाना, घृतक्षीराभ्यासो रसायनाना, समघृतशक्त्यापा-  
शमनासो वृक्ष्यवातहरणां, तैङ्गण्डृष्ट्यासो दन्त-बल-हृष्टिकरणां,  
चन्दनोक्त्यस्तरं दाहनिर्बापिण्डेपनाना, रास्तातुरुणी शीतापनयन-प्रछेय-  
नाना, लामज्जकोशीरे दाहत्वगदोषस्वेदापनयप्रछेपनाना, कुष्ठं वातहरण्य-  
अमेवहृष्टेगिनां, मधुकं चहुष्य-वृक्ष्य-इलेघ-कण्ठ्य-वृक्ष्य-वृक्ष्य-विश्वानीय-

रोपणीयानां, वायुः प्राणसंज्ञाप्रथानहेतूनां, अग्निरामस्तम्भ-शीत-शूलो-  
द्रेपन-प्रशमनानां, जलं स्तम्भनीयानां, मृदूष्टुलोष्टुनिर्बापितमुदकं तृष्णा-  
तियोगप्रशमनानां, अतिमात्राशनमामप्रदोषहेतूनां, तथाऽग्न्यभ्यवहारोऽ-  
प्रिनसंधुक्षणानां, यथासात्प्रयं चेष्टाभ्यवहारावुपसेव्यानां, कालभोजन-  
मारोग्यकराणां, वेगसंधारणमनारोग्यकराणां, तुमिराहारगुणानां, मर्य-  
सौमनस्यजननानां, मद्याक्षेपो धी-धृति-स्मृति-हराणां, गुरुभोजनं हुर्विं-  
पाकानां, एककालभोजनं सुखपरिणामकराणां, छीब्बतिप्रसङ्गः शोष-  
द्वाराणां, शुक्रवेगनियहः षाण्ड्यकराणां, पराधातनमज्ञाश्रद्धाजननूनां,  
अनशनमायुषो ह्वासकराणां, प्रमिताशनं कर्षणीयानां, अजीर्णध्यशनं  
प्रहणीदूषणानां, विषमाशनमग्निवैषम्यकराणां, विरुद्धवीर्याशनं निन्दित-  
व्याधिकराणां, प्रशमः पथ्यानां, आयासः सर्वापथ्यानां, मिथ्यायोगो  
व्याधिमुखानां, रजस्वलाभिगमनमलक्ष्मीमुखानां, ब्रह्मचर्यमायुड्याणां,  
सकल्पो वृज्याणां, दौर्मनस्यमवृज्याणां, अयथावलमारम्भः प्राणोपरो-  
धिनां, विषादो रोगवर्धनानां, स्नानं श्रमहराणां, हर्षः प्रीणनानां, शोकः  
शाश्वणानां, निर्वृतिः पुष्टिकराणां, पुष्टिः स्वर्णकराणां, स्वर्णस्तन्द्राकराणां,  
सर्वरसाध्यासो बलकराणां, एकरसाध्यासो दौर्बल्यकराणां, गर्भशल्य-  
मनाहार्याणां, अजीर्णमुद्दार्याणां, बालो मृदु भेषजीयानां, वृद्धो याप्यानां,  
गर्भिणी तीक्ष्णौषधव्यायाम-वर्जनीयानां, सौमनस्यं गर्भधारकाणां,  
संनिपातो दुश्चिकित्स्यानां, आमो विषमचिकित्स्यानां, ज्वरो रोगाणां,  
कुष्ठं दीर्घरोगाणां, राजयक्षमा रोगसमूहानां, प्रमेहोऽनुषङ्गाणां, जलौ-  
कसोऽनुशङ्गाणां, वस्त्रिस्तन्त्राणां, हिमवानौषधिभूमीनां, मरुभूरारोग्य-  
देशानां, अनूपोऽहितदेशानां, निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, भिषक्-  
चिकित्साङ्गानां, नास्तिको वर्ज्यानां, लौल्यं क्लेशकराणां, अनिर्देशका-  
रित्वमरिष्टानां, अनिर्वेदो वार्तलक्षणानां, वैद्यसमहो निःसंशयकराणां,  
योगो वैद्यगुणानां, विज्ञानमोषधीनां, शास्त्रसंहितसर्कः साधनानां,  
संप्रतिपत्तिः कालक्षान-प्रयोजनानां, अव्यवसायः कालातिपत्तिहेतूनां,  
दृष्टकर्मता निःसंशयकराणां, असमर्थता भयकराणां, तद्विषयस्माप्ता  
बुद्धिवर्धनानां, आचार्यः शास्त्राधिगमहेतूनां, आयुर्वेदोऽसूतानां,  
सद्गुच्छनमनुष्ठेयानां, असंबद्धवचनमसंप्रहणसर्वाहितानां, सर्वसंन्यासः  
सुखानामिति ॥ ३८ ॥

अब तक सब प्रकार के हितकारी वा अहितकारी मुख्य-मुख्य द्रव्य कहे हैं ।

अब इसके बागे वस्ति आदि कर्मों में तथा ओषधियों में मुख्य रूप से—अनुवन्न  
सहित द्रव्यों की व्याख्या करेंगे—

शरीर की दिव्यति करने वाले सब पदार्थों में अज्ञ श्रेष्ठ है। वैर्य, उत्साह  
पैदा करने वाले सब पदार्थों में पानी, थक़.न मिटाने वाले सब पदार्थों में शराब,  
जीवन देने वाले पदार्थों में दूध, बृहण करने वालों में मांस, अज्ञद्रव्य भोजन  
में कचि उत्पन्न करनेवालों में नमक, हृदय को पसंद आने वालों में अम्ल रस,  
बलकारक वस्तुओं में कुक्कुट, वृष्ट (शुक्रवर्धक) वस्तुओं में नक (मकर) का  
वीर्य, कफ-पित्तनाशक वस्तुओं में मधु, वातपित्तनाशकों में धी, वात-कफनाशक  
वस्तुओं में तेल, कफनाशक वस्तुओं में विरेचन, वातनाशक वस्तुओं में वस्तिकर्म,  
कामलता उत्पन्न करने वालों में स्वेदन, स्थिरता करनेवालों में व्यायाम, पुरुषत्व  
नाश करने वालों में क्षार, अन्न के अन्दर अस्त्रि करने वाले पदार्थों में तिन्दुक,  
आवाज़ या गला बिगाड़ने वाले पदार्थों में कच्चा कैथ, हृदय के लिये इलानि-  
कारक अप्रिय वस्तुओं में मेह का धी; शोषनाशक, दूध के लिये हितकारी  
दोषनाशक, रक्त बन्द करने वालों, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में बकरी का दूध;  
अभिध्यन्द अर्थात् कफबर्द्धक वस्तुओं में मन्दक दही, <sup>१</sup> कुश करने वाली  
वस्तुओं में गवेधुक (कसई), कफ पित्त को बढ़ाने वालों में मेह का दूध, नींद  
लाने वालों में मैसूर का दूध, विरुद्धता पैदा करने वालों में जंगली कोटों  
(बनकोद्रव), मूत्र लाने वालों में गजा, मल लाने वालों में जौ, वात पैदा  
करने वालों में जामुन, कफ पित्त पैदा करने वालों में तिल में तड़े हुए बड़े  
या कच्चौरी, अम्लपित्त पैदा करने वालों में कुलथी, कफ पित्त करने वालों में  
उड्ढ; वमन, आस्थापन और अनुवासन के लिये उपयोगी वस्तुओं में मैनफल,  
सुखपूर्वक विरेचन करने वालों में निशोथ; मृदु विरेचकों में अमलतास, तीक्ष्ण  
विरेचक वस्तुओं में थोर का दूध, शिरोविरेचनों में विरचिटे के चावल, कूमि-  
नाशकों में वायविडंग, विषनाशकों में शिरीष (सिरस), कुष रोग नाशकों में  
खेर, वातनाशकों में रासना, आयु स्थिर करने वालों में आंवला, पथ्य हितकारी  
वस्तुओं में छोटी हरड़; वृष्ट, वातनाशक वस्तुओं में परण्ड की जड़; दीपन  
पाचन, अफारे को नाश करने वाली वस्तुओं में पिप्पलीमूल; दीपन, पाचन,  
गुदा की शोथ, बवासीर और शूलनाशक वस्तुओं में चित्रकमूल; हिका, इवाइ,  
कास और पाईवृद्धूल नाशक द्रव्यों में पुष्कर मूल; संग्राहक, दीपन, पाचन गुण

१. मन्दक—मन्द दुई दूध में पांच गुना पानी मिलाकर जो दही  
बनाई जाय।

वाली वस्तुओं में नागरमोत्तम; निर्कापण ( दाह को कम करनेवाली ) दीपन, पाचन, वमन, अतिसार को नष्ट करनेवाली वस्तुओं में नेत्रवाक्ष; संग्राहक, पाचन और दीपनीय वस्तुओं में टेढ़ू ( स्वोनाक ); संग्राहक, रक्त पित्तनाशक वस्तुओं में सारिवा; संग्राहक, दीपनीय, वात-कफ-रक्त और विवर्धननाशक वस्तुओं में गिलोय, संग्राहक, दीपन, वात कफनाशक वस्तुओं में बेलगिरी; दीपन, पाचन, संग्राहक सर्वदोषनाशकों में अतीस; संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में नील कमल; कमल इवेत, पद्म का केशर ( कमल केशर ); पित्त-कफनाशक वस्तुओं में धमासा; रक्त-पित्त के अतियोग को कम करने वाली वस्तुओं में ग्राघपियंग ( घेउड़ा ); कफ-पित्त-रक्त संग्राहक, शुष्क करने वाली वस्तुओं में कुड़े की छाल, रक्त-संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक-वस्तुओं में गम्भारी का फल; संग्राहक, वातनाशक, दीपनीय और शुक्रवर्धक वस्तुओं में पृदिनपर्णी; वृद्ध और सर्वदोषनाशक वस्तुओं में विदारीकन्द, संग्राहक, बलकारक, वातनाशक वस्तुओं में बला ( खरैटी ); मूरक्कच्छु, वायुनाशक वस्तुओं में गोखरू; छेदनीय, दीपनीय, आनुषेमिक ( वायु मल-मूत्र का अनुलोमन करने वाले ), वात-कफनाशक वस्तुओं में अब्लवेतस; मलनिःसारक, पाचनीय अर्द्धनाशक वस्तुओं में यवक्षार; ग्रहणी-दोष, अर्द्ध, वृतजन्य रोगों की शान्ति के लिये तक का अन्यास अर्थात् सतत सेवन; ग्रहणी रोग, शोष, अर्द्ध नाशक वस्तुओं में व्याघ्र आदि मांस खाने वाले पशुओं का मांस; रसायनों में दूध और धी का सततसेवन; उदावर्षनाशक और वृद्धकारक वस्तुओं में बराबर धो और सत्तु को खाना; दांतों को बल और शक्ति, चमक, कान्ति पैदा करने की वस्तुओं में तैल के कोण्ठे करना; दाह जलन को शान्त करने लिये चन्दन और गूँड़ का लेप; शीत को दूर करने वाले लेपों में चन्दन और अगर का लेप; जलन में त्वग्-रोग, पलोने को दूर करने वाले लेपों में कत्तुण और खस का लेप, वातनाशक मर्दन और लेप के प्रयोग में कूठ; आंखों के लिये हितकारी, वृद्ध केश, कण्ठ के हितकारी वर्ण, बल और विरजनीय ( रंग पैदा करने ) और रोपण करने वाली वस्तुओं में मुलैहठी; प्राण वा जीवन देने वाली वस्तुओं में वायु; आमविकार, मल मूत्रादि का अवरोध, ठण्ड, शूल, कम्पन को दूर करने के लिए आग का सेक; स्तम्भक पदार्थों में जल; प्यास की अविकता की कम करने के लिये मिट्टी के ढेले वा पत्थर को खूब गरम करके खुशाया हुआ पानी पिकाना; आम रोग को करने वाले कारणों में बहुत अधिक खाना; अग्निवर्धक वस्तुओं में जाठराजि के बकानुसार खाना; सेव्य, उपयोगी वस्तुओं में अपनी

प्रहृष्टि के अनुसार आहार विहार करना; आरोग्यकारक वस्तुओं में, समय पर भोजन करना; आनारोग्योत्पादक वस्तुओं में, वेगों का सेकना; मन की प्रसन्नता करने वालों में मध्य; बुद्धि, धैर्य और स्मृतिनाशक वस्तुओं में, मध्य वा अधिक उपयोग; पचने में कठिन वस्तुओं में, गुरु, गरिष्ठ भोजन; सुगमता से पचाने वाली वस्तुओं में, एक समय भोजन करना; शोष और क्षय करने वाली वस्तुओं में, ज्वी संग की अधिकता; नयुंतक करनेवाले कारणोंमें शुक्र के उपरिधित वेग का रोकना; अब्र में अभद्रा पैदा करने वालों में वशस्थान; आयु का ह्रास करने वाले कारणों में न खाना; क्षीण, निर्बल करने वालों में योद्धा खाना; ग्रहणी राग के करने वाले कारणों में अजीर्णवस्था में अध्यशन अर्थात् खाने के क्षपर खाना; अग्नि को विषम करने वाले कारणों में विषम (ठोक समय पर न खाना) खाना; कुष्ठ आदि निन्दित रोगों को पैदा करने में विशद् वीर्य (जैसे दूध और मछली आदि) वस्तुओं का खाना; सब पथ्यों में शान्ति; सब अपथ्यों में परिश्रम थकान (शक्ति से बाहर परिश्रम करना); व्याधियों में मुख्य बयान, विरेचन, आहार-विहार का मिधायोग; दारिद्र्या अमंगलता के कारणों में रजस्वला ज्वी के साथ सम्भोग; आयुर्वर्धक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य; वृद्ध-वस्तुओं में संकल्प; अवृद्ध वस्तुओं में मन की अप्रसन्नता; प्राणहारक वस्तुओं में बल से बाहर काम करना; रोग के बढ़ाने में शोक; अमनाशक वस्तुओं में स्नान; प्रीणन, पुष्टिकारक वस्तुओं में प्रसन्नता; सुखाने वाली वस्तुओं में शोक; पुष्ट करने वाली वस्तुओं में वेफिकरो (सन्तोष); नींद लाने वाली वस्तुओं में पुष्टि; आलस्य करने वाली वस्तुओं में नींद; बलकारक वस्तुओं में सब रसों का अन्यास, निर्बल करने वालों में एक ही रस का निरन्तर सेवन; आनाहार्य अर्थात् खींच कर निकालने में अयोग्य वस्तुओं में गर्भ रूपी शल्य; बाहर निकालने वाली वस्तुओं में अजीर्ण, कोमल औषधियों के उपचार में बालक; याप्य रोगों में वृद्ध; तीक्ष्ण वेग की औषध और व्यायाम त्याग करनेवालों में गर्भिणी; गर्भ स्थिर करने वालों में मन की प्रसन्नता; दुष्क्रित्य रोगों में सञ्जिपात जन्य रोग; विषम चिकित्सा (कठिन) व छे रोगों में आमजन्य रोग; सब रोगों में ज्वर; दीर्घ रोगों में कुष्ठ; रोग समूहों में राजयश्मा; अनुषङ्गिक रोगों में प्रमेह; अनुशब्दों में, जोक, तंत्रों में वस्ति; औषध-भूमियों में हिमालय, आरोग्य देशों में मरमूमि; अहितकारी देशों में जल-प्राय प्रदेश (जैसे बंगाल), रोगों के चारों गुणों में वैद्य के आदेशानुसार काम करना; चिकित्सा के चारों छंगों में वैद्य; त्याग्य वस्तुओं में नास्तिक; दुःखदायक कारणों में छोड़; अरिष अर्थात् मृत्यु-कारणों में कहे के अनुसार न चलना; रोग

के लक्षणों में मन की दुष्क्रियता; शोक, सन्देह मिटानेवालों में बैद्यों का समूह अर्थात् बहुत बैद्यों का होना; वैद्य के गुणों में देश काल के अनुशार चिकित्सा करना; औषधियों में यथार्थ ज्ञान; ज्ञानसाधनों में शास्त्र सहित तर्क; काल ज्ञान समयानुसार काम करना; व्यवसाय न करना-समय के नाश करने वाले कारणों में, कर्म का देखना सन्देह को मिटाने वाली वस्तुओं में; भय करनेवाले कार्योंमें असामर्थ्य; बुद्धि बढ़ाने वाले कारणों में उप विद्या को जानने वालों से बात-चीत; शास्त्र के तत्त्व को जानने के लिये आचार्य; अमृतों में आयुर्वेद, कर्तव्य कार्यों में उत्तम सत्य वचन, सब अहितकारी वस्तुओं में 'असत्य' का सेवन; उब प्रकार के सुखों में; संन्यास ( सर्वस्व त्याग ) श्रेष्ठ अर्थात् श्रेयस्कर है ॥

**भवन्ति चात्र—अग्न्याणां शतमुहिष्टं यद् द्विपञ्चाशदुत्तरम् ।**

**अलमेतद्विकाराणां विधातायोपदिश्यते ॥ ३६ ॥**

इस प्रकार से १५२ ( एक सौ बावन ) श्रेष्ठ पदार्थ कहे हैं, ये विकार अर्थात् रोगों के नाश करने के लिये पर्याप्त हैं ॥ ३६ ॥

**समानकारिणो येऽर्थास्तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणम् ।**

**ज्यायस्त्वं कार्याकारित्वेऽवरत्वं चाप्युदाहृतम् ॥ ४० ॥**

**बातपित्तकफेड्यश्च यद्यत्प्रशामने हितम् ।**

**प्राघान्यतश्च निर्दिष्टं यद् व्याधिहरमुत्तमम् ॥ ४१ ॥**

**एतत्रिशस्य निपुणं चिकित्सा संप्रयोजयेत् ।**

**एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामौ समशुन्ते ॥ ४२ ॥**

**पथ्यं पथोऽनपेतं यद्यज्ञोक्तं मनसः प्रियम् ।**

**यज्ञाप्रियमपथ्यं च नियतं तन्न लक्षयेत् ॥ ४३ ॥**

**मात्रा-काल-क्रिया-भूमिन्देह-दोष-गुणान्तरम् ।**

**प्राप्य तत्तद्विद्यश्च ते ते भात्रास्तथा तथा ॥ ४४ ॥**

**तस्मात्स्वभावो निर्दिष्टस्था मात्रादिराश्रयः ।**

**तदपेक्ष्योभयं कर्म प्रयोजयं सिद्धिमिच्छता ॥ ४५ ॥**

जो पदार्थ शरीर के दोषों को समान करते हैं, या समान अवस्था में रहने देते हैं वे श्रेष्ठ का लक्षण है । इन के कार्य करने की शक्ति से ही श्रेष्ठ और हीन मेद किये हैं । ( यथा—लोहितशाश्वयः शूक्रधान्यानां श्रेष्ठतमाः, उदकमा-इवातकरणां श्रेष्ठम् ) । इसी प्रकार वात, पित्ता, कफ के नाश के लिये जो वस्तु-मुख्य रूप में श्रेष्ठ है और जो रोग को नष्ट करने के लिये उत्तम है, इन को जानकर चिकित्सा का आरम्भ करना चाहिये । इस प्रकार करने से वैद्य को

धर्म और काम दोनों मिलते हैं। शरीर और मन के लिये जो विषय या हितकर हों, वे पर्य हैं और जो शरीर और मन के लिये अप्रिय हों वे अपर्य हैं, ऐसा लक्षण नहीं समझना चाहिये। क्योंकि मात्रा (जैसे-घृत पर्य होते हुए भी अधिक मात्रा में अपर्य है), काल (वसन्त में भी अपर्य है), किया (घृत विषद्वद्वय के साथ अपर्य है), भूमि (जल बहुत देश में अपर्य है)। देह (अतिस्थूल शरीर में भी अपर्य है), दोष (कफ दोष में भी अपर्य है) से मेद हो जाता है। इधी प्रकार विष भी पर्य हो जाता है (वथा—उदरे विष तिल दद्यात् । उदर रोगों में तिलमात्र विष देना चाहिये)। इस प्रकार पर्य वस्तु अपर्य हो जाती है और अपर्य वस्तु पर्य बन जाती है, इसलिये जो वैद्य यथा की इच्छा करते हों, उन को वस्तु के स्वभाव, प्राकृतिक गुण और मात्रा, काल आदि का विचार करके प्रयोग करना चाहिये ॥ ४०-४५ ॥

तदात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिश्चय पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्नि-वेश उवाच—यथोदेशमभिनिर्दिष्टः केवलोऽथमर्थो भगवता अतस्त्व-स्माभिः । आसवद्रव्याणामिदानीं लक्षणमनविसक्षेपेणोपदिश्यमानं शुश्रूयमह इति ॥ ४६ ॥

आत्रेय श्रुति के वचन को सुनकर फिर भी अभिवेश भगवान् आत्रेय मुनि से पूछने लगे। हे महाराज ! आपने प्रतिज्ञानुसार पर्याप्त्य का प्रधान विशेष समूर्ण रूप से प्रतिपादन कर दिया है। इस समय आसव द्रव्यों के लक्षणों को विस्तार में आपसे सुनना चाहते हैं ॥ ४६ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—धान्य-फल-मूल-सार-पुष्प-काण्ड-पत्र-त्वचो मवन्यासवयोनयोऽग्निवेश ! संभ्रहेणाष्टौ शर्करानवमीकाः तास्वेव द्रव्य-संयोगकरणतोऽपरिशब्देयासु यथापर्यथमानामासवानां चतुर्स्त्रीति निवोष । तथाथा—सुरा-सौवीर-तुषोदक-मैरेय-मेदक-धान्याम्लाः पद्म-धान्यासवा भवन्ति, मूद्रीका-खर्जूर-काश्मर्च-धन्वन-राजादन-तृणमूल्य-परूषकाभयामलक-मुगलिङ्गिका-जामूव-कपित्य-कुब्ज-बदर-कर्कशु-पीलु-पियाम्ल-पनस-न्यमोधाशवस्थ-प्लक्ष-कपीतनोदुम्वराजमोद-शृङ्गाटक-शङ्खनीमिः फलासवाः पद्मविशतिः । विद्वारिगन्धाशवगन्धा-कुण्डलन्धा-शताबरी-इयामा-त्रिवृद्धनवी-विश्वोरुद्युक-वित्रकः-मूलैरेकाम्ल-मूलासवाः । शालप्रियकाशवकर्ण-वन्दन-स्वन्दन-खदिर-कदर-सप्त-र्जुनासवनारिमेद-विन्दुक-किञ्चिही-रामी-सुकिञ्चिशशा-सिरीच-वज्रुल-वन्दन-मधूकः सारासवा विशतिः । पश्चोत्पल-नठिन-कुमुद-सौनांचिद्व-

पुण्डरीक-शतपत्र-मधूक-प्रियकृ-धातकीपुष्पेदशा पुष्पासवा भवन्ति । इक्षु-काण्डेश्विक्षुबालिका-पुण्ड्रक-चतुर्थः काण्डासदा भवन्ति । पटोल-ता-डपत्रासबौ द्वौ भवतः । तिल्वक-लोध्रैल्वालुक-क्रमुक-चतुर्थास्त्वगासवा भवन्ति, शकरासब एक एवेति । एवमेषामासवानां चतुरशीतिः परम्परेणासंसृष्टानामासबद्रव्याणामुपनिविष्टा भवति । एषामासवानामासु-तत्वादासवसंक्षा । द्रव्य-संयोग-विभागस्त्वेषां बहुविकल्पः संस्कारश्च । यथास्त्वं योनिसंस्कारसंस्कृताऽष्टाऽसवाः स्वकर्म कुर्वन्ति । संयोग-संस्कार-देश-काळ-स्थापन-मात्रादयश्च भावास्तेषां तेषामासज्जानां ते ते समुपदिश्यन्ते तत्त्वाकार्यभिसमीक्ष्येति ॥ ४७ ॥

अग्निवेश को भगवान् आश्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! संक्षेप से उन सब के उत्पत्ति स्थान ह ( नौ ) हैं । यथा—धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, काण्ड, पत्र, त्वचा, ( छाल ) और शकरा । इन्हीं में द्रव्यसंयोग ( मिश्रण ), करण ( संस्कार ) द्वारा असंख्ये आसव बन जाते हैं । इनमें अधिक हितकारी ( मुख्य ) आसव २४ ( चौबीस ) हैं । उनको कहते हैं—

सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय और मेदक और धान्यामूल—ये छः धान्यामूक ( कांजी ) आसव होते हैं । द्राक्षा, खजूर, गम्भारी, धान्वन, राजादन ( खिरनी ), तृणशन्य ( केतकी ), परूषक ( फालसा ), अभया ( दरड ), आमलक ( आंवला ), मृगलिपिङ्का ( बेढ़ा ? ), जामव ( जामुन ), कपित्थ ( कैथ ), कुबल ( बढ़ा बेर ), बदर ( छोटा बेर ), कर्कन्धु ( शाकी का बेर ), पीलू, पिंयालु ( प्याल ), पनस ( कटहल ), न्योध ( बड़ ), अश्वत्थ ( पीपल ), मूष ( पिलखन ), कपीतन, उदुम्बर ( गूलर ), अजमेद ( अजवायन ), शृङ्खाटक ( सिंघाड़ ), और शंखिनी, ये छन्दीस फलासव हैं । विद्वारीगन्धा ( शालपर्णी ), अश्वगन्धा ( असगन्ध ), कृष्णागन्धा ( शोभाज्जन ), शतावरी, निशोध, जमालगोटा, द्रवत्ती ( सुआहै ऐरेह ), बेलगिरी, एरण्डमूळ, चीतामूल, ये ग्यारह मूलासव हैं । बढ़ासाल, अशर्करण ( साल भाग ), चन्दन, तीनस, खेर, सफेद खेर, सलवन, अर्जुन, असन, अरिमेद ( विट् खदिर ), तिन्दुक, किण्ठी ( अपामार्ग ), शमी ( जंड ), शुक्कि ( बेर ), शीशम, सिरस, अशोक, धान्वन और मुलैहठी ये बीस 'सारासव' हैं । पद्म ( लाल आठ पत्तों वाला ), उत्तल ( नील कमल ), कुमुद, सौगन्धिक, पुण्डरीक, ( इवेत कमल ), शतपत्र—

१. सौवीरं निष्टुष्यवकृतम्, मेरेयं सुरासवकृता सुरा, मेदकः इवेतसुर जगलाख्या, धान्यामूक ( कांजिज ) ।

कमल, मधूक ( महुवे के फूल ), प्रियंगु, धाय के पुष्प, ये दस 'पुष्पासव' हैं । गजा, इन्द्रुवालिका ( गजे के ऊपर का भाग ), गजे की जड़, पौष्टि ये चार 'काण्डासव' हैं । परबल और ताङ के पत्ते ये दो 'पत्रासव' होते हैं । तिलवक ( शावर लोध ), लोध ( पठानी लोध ), एलवालुक, क्रमुक ये चार 'त्वगासव' हैं । शर्करासव एक ही है । इस प्रकार एक एक द्रव्य से बनने वाले ये ८४ ( चौरासी ) आसव हैं । आमुत अर्थात् सत के खिंच जाने से इन को 'आसव' कहते हैं । द्रव्यों के संयोग और विभाग से ये बहुत प्रकार के और असंख्य बन जाते हैं । आसव अपने संयोग तथा संस्कार के अनुसार अपना कार्य करते हैं । संयोगसंस्कार से अभियाय देश ( भस्मराशि, धान्यराशि ), काल ( पन्द्रह दिन, एक मास ), स्थापन ( सन्धान ), मात्रा आदि ( द्रव्यस्त्वभाव ) से है । कार्य की अपेक्षा से ही आसवों के संयोग संस्कार रूपी कार्य किये जाते हैं ॥ ४७ ॥

भवति चात्र-मनःशरीराग्नि-बल-प्रदानामस्वप्न-शोकारुचि-नाशनानाम् ।

संहर्षणानां प्रवरासवानामशीतिरुक्ता चतुरुत्तरैषा ॥ ४८ ॥

तत्र इलोकः—

शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाऽहारविनिष्ठयो यः ।

उवाच यज्ञःपुरुषादिकेऽस्मिन्मुनिस्तथाऽप्यथाणि वरासवांश्च ॥ ४९ ॥

मन, शरीर, अग्नि को बल देनेवाले, नीद न आना, शोक और अरुचि को मिटाने वाले, मन में प्रसन्नता करने वाले ये उत्तम ( भेष ) ८४ आसव कह दिये । शरीर एवं रोगों की उत्पत्ति, अधियों के मत, आहार की हिताहित-विधि का अन्तिम सार, पथ्यापथ्य और श्रेष्ठ आसव इस अध्याय में कह दिये हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अन्नपानचतुरुषके  
यज्ञःपुरुषीयोऽध्यायः पञ्चविंशतितमः समाप्तः ॥

### षड्विंशोऽध्यायः ।

अथात आत्रेयभद्रकाप्यीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'भद्रकाप्यीय' अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुन्तेयस्थैव च ।  
 पूर्णाक्षश्चैव मौदगल्यो हिरण्याक्षश्च कौशिकः ॥ ३ ॥  
 यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चानधः ।  
 श्रीमान् वायोविदश्चैव राजा भवित्मता वरः ॥ ४ ॥  
 निमिश्च राजा वैदेहो वडिशश्च महामतिः ।  
 काङ्क्षायनश्च बाह्यिको बाह्यिकभिषजां वरः ॥ ५ ॥  
 एते श्रतवयोवृद्धा जितात्मानो महर्षयः ।  
 वने चैत्ररथे रस्ये समीयुविजिहीर्षवः ॥ ६ ॥  
 तेषां तत्रोपविष्टानामियमर्थवती कथा ।  
 बभूवार्थविदां सम्यग्साहारविनिश्चये ॥ ७ ॥

आत्रेय, भद्रकाप्यीय, शाकुन्तेय, पूर्णाक्ष, मौदगल्य, हिरण्याक्ष, कौशिक, भरद्वाज कुमारशिर, विद्वच्छैष्ठ वायोविद, वैदेहमहाराज निर्भ, महाराज वडिश, बाह्यिक देशी भिषजों में श्रेष्ठ बाह्यिक ( बलव देशीय ), श्रीकायन ये शानवृद्ध वयोवृद्ध और जितेन्द्रिय महर्षि चैत्ररथ नामक सुन्दर वन में विहार करते थे । वहाँ इन के पक साथ बैठने पर रस दाय आहार के निर्णय करने के लिये आपस में गोष्ठी आरम्भ हुई ॥ ३-७ ॥

एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यो यं पञ्चानामिन्द्रियार्थानामन्य-  
 तमं जिह्वावैषयिकं भावमात्क्षते कुशलाः, स पुनरुदकानन्य इति । द्वी  
 रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणश्छेदनीयश्चोपशमनीयश्चेति । त्रयो रसा  
 इति पूर्णाक्षो मौदगल्यश्छेदनीयोपशमनीयो साधारणश्चेति । चत्वारो  
 रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः स्वादुर्हितश्च स्वादुरहितश्चास्वादुर्हि-  
 तश्चेति । पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजा भौमोदकानेयवायवी-  
 यान्तरिक्षाः । षड्सा इति निमिवैदेहो मधुराम्ल-लवण-कटुक-तिक्त-कषाय-  
 क्षाराः । अष्टौ रसा इति वडिशो धामार्गंवो मधुराम्ल-लवण-कटु-तिक्त-क-  
 पाय-क्षाराव्यक्ताः । अपरिर्हालयेया रसा इति काङ्क्षायानो बाह्यिक-भिष-  
 क्, आश्रय-गुण-कर्म-स्वाद-विशेषाणामपरिमेयत्वात् ॥ ८ ॥

भद्रकाप्य श्रूषि बोले कि—‘रस’ एक ही है जिसको कि पांचों इन्द्रियों  
 के विषयों में से एक जिह्वा का ही विषय कहते हैं, वह ‘रस’ पानी से अभिन्न है  
 और एक ही है । शाकुन्तेय ब्राह्मण ने कहा कि—‘रस’ दो हैं, एक छेदनीय और  
 दूसरा उपशमनीय ( अर्थात् अपरिर्हालयेय ) । पूर्णाक्ष मौदगल्य  
 श्रूषि बोले कि—तीन रस हैं । यथा—छेदनीय, उपशमनीय और साधारण अर्थात्  
 आमेय और सौम्य गुणों की समानता से लंघन, बृंहण दोनों कार्य करने वाला । हिर-

ज्याज्ञ कौशिक ने कहा कि—‘रस’ चार हैं । स्वादु ( प्रिय ) हितकारी, स्वादु अहित, अस्वादु हित और अस्वादु अहित । कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा कि—रस पांच हैं । भौम ( पृथ्वी का ), उदक ( पानी का ), आमय ( तेज का ), वायवीय ( वायु का ) और आन्तरिक्ष ( आकाश का ) ये पांच रस हैं । राजर्षि वायोविद बोले—‘रस’ छः हैं । गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष । बदेह निमि ने कहा—रस सात हैं । मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय और श्वार । धामार्गव बडिश बोले—रस आठ हैं । यथा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, श्वार और अव्यक्त । बाह्योक्तमिष्ट कांकायन ने कहा कि—‘गुण ( गुरु लघु आदि ), कर्म ( धातु वर्धन क्षयण आदि ), संस्वाद ( रसों के नाना अचान्तर मेद ) मेंदों से रस अगणित बन जाते हैं ॥ ८ ॥

षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसुर्भुराम्ल-लवण-कटु-तिक्त-कषायाः । तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमनेद्वे कर्मणी, तयो-मिश्रीभावात्साधारणत्वं, स्वाद्वस्वादुता भक्तिः, हिताहितो द्वौ प्रभावौ । पञ्चमहाभूतविकारात्स्वाश्रयाः प्रकृति-विकृति-विचार-देश-कालवशाः, तेषांप्रयेषु द्रव्यसंख्येषु गुणा गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रुक्षाद्याः । क्षरणात्क्षारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमनेकरसं कटुक-ल-वण-भूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थार्थसमन्वितं करणाभिनिर्वृत्तम् । अव्यक्तीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतो भवत्यनुरसेऽनुरससमन्विते वा द्रव्ये । अपरिसंख्येयत्वं पुनरेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तं, एकैकोऽपि हि पुनरेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विशेषाप-रिसंख्येयत्वात् । न च तस्मादन्यत्वमुपपद्यते । परस्परसंसृष्ट-भूयिष्ठ-त्वान्न चैषामभिनिर्वृत्तेर्गुणप्रकृतीनामपरिहस्येयत्वं भवति, तस्मान्न संसृष्टानां रसानां कर्मोदिशनित बुद्धिमन्तः । तर्षेव कारणमपेक्षमाणाः षण्णां रसानां परस्परेणांसंसृष्टानां लक्षणपृथक्त्वमुपदेश्यामः ॥ ९ ॥

पुनर्वसु भगवान् आत्रेय ने कहा कि—रस छः ही हैं । यथा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय । इन छः रसों की उत्पत्ति का स्थान पानी ही है । छेदन और उपशमन ये दोनों कर्म हैं, इन दोनों कर्मों के मिल जाने से साधारण हो जाता है । स्वादु और अस्वादु यह रुचि हैं, हित और अहित भीभाव हैं । पंच महाभूत विकार हैं । वे रस के आश्रय स्थान हैं, वे रस नहीं हैं । गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ये द्रव्यों में आभित गुण हैं, जो कि प्रकृति ( यथा—मूँग, कषाय और मधुर स्वभाव से ही हैं इसकिये लघु हैं ),

विष्णुति ( चावलो से बने ताज़ा खील लघु और सच् बड़े भारी होते हैं ), विचार ( द्रव्यान्तर संयोग यथा—मधु और ची का मेल विष बनता है ), देश ( दो प्रकार का है यथा—भूमि और रोगी । भूमि जैसे—इवेतकपोती वल्मीकीविरुद्धा विवहरी होती है, हिमालय की ओषधियाँ अधिक गुण युक्त होती हैं, शरीर देश जैसे टांग के मांस से कन्धे आदि का मांस गुरु होता है ) और काल इन के मेद से बनते हैं । क्षार रस नहीं है । क्योंकि क्षरण किया जाने से, अनेक पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण अनेक रस होने से, कटुक, लवण आदि रसों का अनुभव होने से, क्षार में स्पर्श और गन्ध होने से यह द्रव्य है, रस नहीं, और हेत्वन्तर अर्थात् अन्य कारण—प्रस्त्र साव आदि से बनने के कारण, रस नहीं है । 'अव्यक्त' भी रस नहीं । क्योंकि अव्यक्तता तो कारण में ही है । ( रसों के कारण जल में ही अव्यक्तता है ) । इस के अतिरिक्त अनुरस में अव्यक्तीभाव होता है । रस के पीछे जो रस होता है, वह अनुरस है । यथा—*रुक्षः कवायानुरसो मधुरः कफपित्तश्च* । यथा—विष के विषय में ( 'उष्णमनिदेश्यरसम्' ) । अथवा अनुरसयुक्त द्रव्य में अव्यक्तता होती है । और जो यह कहा है कि रसों के आश्रय आदि भावों के असंख्य होने से रस भी असंख्य हैं, यह ठीक नहीं । क्योंकि एक-एक रस इन आश्रय रूपी भावों में से किसी एक भाव का आश्रय करके विशेष रूप से रहता है ( यथा—चावल, मूंग, घूत, दूध आदि वस्तुओं में मधुर रस के आश्रय की भिजता रहने पर भी मधुरत्व रस समान है, जिस प्रकार की बगुला, दूब, और कपास में आश्रय मेद होने पर भी सफेद रंग समान है ) । आश्रय आदि असंख्य हैं । इसलिये छः से भिन्न अन्य रस का होना सम्भव नहीं । और यदि कहो कि रसों के परस्पर मिलने से रस असंख्य हो जायेंगे ! यह भी ठीक नहीं, क्योंकि परस्पर मिलने पर भी इनके गुरु, लघु आदि गुण या मधुर आदि स्वभाव अथवा आयुष्यवर्दक आदि असंख्य मेद हो जाते हैं । यहां पर भी मधुर आदि के प्रत्येक के गुण और प्रकृतियाँ जो कहीं हैं वे ही परस्पर मिलती हैं । इसलिये एक रस के दूतरे रस के साथ मिलने से और दोषों के दूसरे दोषों से मिलने पर भी रस असंख्य, अगणित नहीं होते । इसीलिये मिले हुए रसों के कर्मों का बुद्धिमान् उपदेश नहीं करते । और इसी कारण से परस्पर न मिले हुए छः रसों के लक्षणों को पृथक्-पृथक् कहेंगे ॥ ९ ॥

अग्रे तु चावद् द्रव्यभेदमभिप्रेत्य किञ्चिदभिवास्यामः । सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिन्नेवार्थं । तत्तेतनावद्येतनं च, तस्य गुणः । शब्दाद्यतो

गुर्वाद्यश्च द्रव्यातः, कर्म पद्धतिभुक्तं वमनादि । तत्र द्रव्याणि गुरु-खर-कठिन-मन्द-स्थिर-विशद-सान्द्र-स्थूल-गन्धगुणः बहुलानिपार्थिवानि, तान्युपचय-संघात-गौरव-स्थैर्य-कराणि; द्रव्य-स्तिरभ-शीतमन्द-मृदु-पि-च्छिल-रस-गुण-बहुलान्यायानि, तान्युत्केद-स्नेह-बन्ध-विषयन्द-मार्दव-प्रहाद-कराणि; उष्ण-तीक्ष्ण-सूक्ष्म-लघु-रूप-विशद-रूपगुण-बहुलान्याम्बेयानि, तानि दाह-पाक-प्रभा-प्रकाश-वर्ण-कराणि । लघु-शीत-रूप-खर-विशद-सूक्ष्म-स्पर्श-गुणबहुलानि वायव्यानि, तानि रोक्ष्य-छानि-विचार-वैश्य-लाघव-कराणि; मृदु-लघु-सूक्ष्म-श्लक्षण-शब्द-गुण-बहुलान्याकाशा-त्मकानि, तानि मार्दव-सौर्पिण्य-लाघव-कराणि ॥ १० ॥

इस के आगे आयुर्वेद के उपयोगी द्रव्यों के भेद को लेकर कुछ कहेंगे—यहाँ पर जो भी द्रव्य कहेंगे वे सब पांचभौतिक अर्थात् पांच महाभूतों से बने हैं । ये दो प्रकार के हैं, चेतना से युक्त और अचेतन । इस द्रव्य के जहाँ शब्दादि गुण हैं, वहाँ गुरु आदि ( बोस ) गुण हैं । द्रव्य का कर्म पांच प्रकार का है । वथा वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनुचासन । इन द्रव्यों में जो द्रव्य पार्थिव ( पृथ्वीजन्य ) है वे गुरु, कर्कश, कठोर, धीमे, स्थिर, विशद, ( पृथक् पृथक् ), सान्द्र, स्थूल और गन्ध युक्त इन गुणों वाले प्रायः करके होते हैं । ये पार्थिव पदार्थ उपचय संवात, गौरव ( भारीगत ) और स्थिरता करते हैं । जलीय पदार्थ तरल, स्तिरभ शीत, मन्द, विच्छिल और जलीयगुण युक्त प्रायः करके होते हैं । ये द्रव्य उरुकेद नमी, स्नेह, बन्धन परस्पर मिलाने वाले, कोमलता, प्रहाद शरीर इन्द्रियों का तर्पण करनेवाले हैं । अग्निगुणयुक्त अर्थात् आनेय द्रव्य गरम, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूप, विशद एवं रूप गुण में ( अग्निवत् ) होते हैं । ये द्रव्य जलन, पकाना, कान्ति, प्रकाश और वर्ण ( रंग ) को उत्पन्न करते हैं । वायवीय पदार्थ लघु, शीत, रूप, खर, विशद, सूक्ष्म, स्तर्पय गुण ( वायवीय गुण ) वाले होते हैं । ये शरीर में रुक्षता, ग्लानि, विचारों की निर्मलता और लघुता उत्पन्न करते हैं । आकाश गुण वाले द्रव्य मृदु, लघु, सूक्ष्म, स्त्रोतों में पहुंचाने वाला, विकाना एवं शब्द गुण आकाश गुण युक्त होते हैं । ये द्रव्य शरीर में मृदुता, सौर्पिण्य ( छिद्राधिक्य ) और लघुता उत्पन्न करते हैं ॥ १० ॥

अनेनोपदेशेन नानौषधिभूर्तं जगति किञ्चिद् द्रव्यमुपलङ्घते तां तां पुक्षिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य । न सु केवलं गुणप्रभावादेव कार्यकाणि भवन्ति । द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावाद् गुणप्रभावाद् द्रव्यगुणप्रभावाद् तर्स्मि-स्तस्मिन् कालेत तदधिष्ठानमासाधतां तां च पुक्षिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य यस्तु-

वर्णित तत्कर्म, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं, यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणं, यदा कुर्वन्ति स कालः, यथा कुर्वन्ति स उपायः, यत्साधयन्ति तत्कलम् । ११।

इस उपरोक्त उपदेश द्वारा जगत् में जो भी द्रव्य मिलते हैं, वे सब उपाय, प्रयोजन के उद्देश्य से औषध समझने चाहियें अर्थात् वे सब द्रव्य दोष-नाशक हैं, निरुपयोगी नहीं हैं। पार्थिवादि द्रव्य के बल गुरु खर आदि गुणों से औषध या दोष नष्ट करने वाले नहीं बन जाते, परन्तु द्रव्य द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य एवं गुण दोनों के प्रभाव से, उस उस समय में, उस अधिष्ठान का आधाय लेकर, और उस योजना तथा प्रयोजन को लक्ष्य में करके जो करते हैं, उसका नाम 'कर्म' है, यथा—द्रव्य के प्रभाव से दन्ती ( जमाल गोटा ) विरेचक है, मणि आदि का धारण विष को दूर करता है। गुण के प्रभाव से—ज्वर में तिक रस, शीत में अग्नि। द्रव्य एवं गुण के प्रभाव से जैसे—कृष्णाजिन ( काली शूगड़ाला )। यहां पर मृगछाला द्रव्य और कृष्ण गुण है। उसपर वे जो कार्य करते हैं। यथा—शिरोविरेचन द्रव्य शिर का विरेचन करते हैं, यह कर्म है। जित के द्वारा ( उष्ण गुण के द्वारा शिरो विरेचन ) करते हैं वह 'वीर्य' अर्थात् 'शक्ति' है। जहाँ कर्म करते हैं, वह 'अधिकरण' है जैसे शिर। जिस समय करते हैं वह 'काल' है। जिस प्रकार करते हैं वह उपाय है। इस प्रकार से जो सिद्ध करते हैं वह फल है ॥ ११ ॥

**मेदश्चैषा त्रिष्टुविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद् भवति, तसु-पदेष्यामः ॥ १२ ॥**

रसों के मेद इन छः रसों के द्रव्य प्रभाव से, देश प्रभाव से ( यथा—हिमालय की द्राशा और दाढ़िम मीठे होते हैं दूसरे स्थानों के खट्टे ), काल प्रभाव से ( यथा—कच्चा आम और कसेला, कुछ बढ़ा होने पर भी कच्चा आम खट्टा और पकने पर मीठा, इसी प्रकार ऐमन्त में ओषधियां मीठी और वर्षा में खट्टी ), ( ६३ ) मेद बन जाते हैं ॥ १२ ॥ यथा—

**स्वादुरम्लादिभियोगे शोषैरस्त्वादयः पृथक् ।**

**आन्ति पञ्चदशैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ १३ ॥**

दो रस वाले पन्द्रह मेद हैं यथा—स्वादु ( मधुर ) और अम्ल के योग से पांच, अम्ल और लवण के योग से चार, लवण और कटु के योग से तीन, कटु तिक और कशाय के योग से दो, तथा तिक और कशाय के योग से एक। जैसे—  
 (१) मधुराम्ल ( २ ) मधुरलवण ( ३ ) मधुरकटु ( ४ ) मधुरतिक ( ५ ) मधुरकशाय ( ६ ) अम्ललवण ( ७ ) अम्लकटु ( ८ ) अम्लतिक ( ९ ) अम्लकशाय ( १० )

लबणकटु ( ११ ) लबणतिक ( १२ ) लबणकषाय ( १३ ) कटुतिक ( १४ )  
कटुकषाय ( १५ ) तिककषाय ॥ १३ ॥

पृथगम्लादियुक्तस्य योगः शेषैः पृथग्भवेत् ।

मधुरस्य तथाऽम्लस्य लबणस्य कटोस्तथा ॥ १४ ॥

निरसानि यथासंख्यं द्रज्याण्युक्तानि विश्लिष्टिः ।

तीन तीन रसों के २० मेद हैं, जैसे—( १ ) मधुर, अम्ल के साथ लबण  
आदि चारों का पृथक् २ योग होने से चार मेद । ( २ ) मधुर, लबण के  
साथ कटु आदि तीन का पृथक् २ योग होने से तीन मेद । ( ३ ) मधुर कटु  
का कटु, कषाय से पृथक् २ योग होने से दो मेद । ( ४ ) मधुर तिक का कषाय  
से योग होने से एक मेद । ( ५ ) अम्ल लबण का कटु आदि तीन के साथ  
योग होने से तीन मेद । ( ६ ) अम्ल कटु का तिक कषाय दो के साथ  
पृथक् पृथक् योग होने से दो मेद । ( ७ ) अम्ल तिक का कषायसे योग होने से  
एक मेद । ( ८ ) लबण कटु का तिक और कषाय दो से योग होने से दो  
मेद । ( ९ ) लबण तिक का कषाय से योग होने से एक मेद । ( १० ) कटु  
तिक का कषाय से योग होने से १ मेद । जैसे—( १ ) मधुर अम्ल लबण, ( २ )  
मधुर अम्ल कटु, ( ३ ) मधुर अम्ल तिक ( ४ ) मधुर अम्ल कषाय । ( ५ )  
मधुर लबण कटु, ( ६ ) मधुर लबण तिक, ( ७ ) मधुर लबण कषाय । ( ८ )  
मधुर कटु तिक, ( ९ ) मधुर कटु कषाय । ( १० ) मधुर तिक कषाय । ( ११ )  
अम्ल कटु तिक, ( १२ ) अम्ल कटु कषाय । ( १३ ) अम्ल तिक कषाय ।  
( १४ ) लबण कटु तिक, ( १५ ) लबण कटु कषाय । ( १६ ) अम्ल लबण  
कटु ( १७ ) अम्ल लबण तिक ( १८ ) अम्ल लबण कषाय । ( १९ ) कटु  
तिक कषाय, ( २० ) लबण तिकत कषाय ॥ १४ ॥

बक्ष्यन्ते तु चतुर्ज्ञेण द्रव्याणि दश पञ्च च ॥ १५ ॥

स्वाद्वाम्लौ सहितौ योगं लबणाणैः पृथग्गतौ ।

योगं शेषैः पृथग्यात्तु चतुर्ज्ञकरसरस्य ॥ १६ ॥

चार रसों के मेद पन्द्रह हैं । यथा—चार रसों ( स्वादु, अम्ल, लबण और  
कटु ), में एक एक रस का ( कटु, तिक, कषाय ) संयोग होने से छः रस बनते  
। इन में स्वादु और अम्ल रस स्थिर रहते हैं ॥ १५-१६ ॥

सहितौ स्वादुलबणौ तदृत्कट्कादिभिः पृथक् ।

मुक्तौ शेषैः पृथग्योगं यातः स्वादुबणौ तथा ॥ १७ ॥

कट्कायैरम्ललबणौ संमुक्तौ सहितौ पृथक् ।

यातः शेषैः पृथग्योगं शेषैरस्तु कदू तथा ॥ १८ ॥

युज्येते तु कषायेण सविक्तौ लवणोषणौ ।

स्वादु और लवण के साथ कटु, तिक्क, कषाय के योग से तीन, और लवण को छोड़कर स्वादु, कटु, तिक्क, कषाय के योग से एक, इस प्रकार से दस मेद हुए । अब स्वादु ( मधुर ) रस के छोड़ने से ( अम्ल, लवण इन का कटु, तिक्क, कषाय के साथ योग होने से ) तीन, लवण के छोड़ने से अम्ल, कटु, तिक्क और कषाय के योग से एक और मधुर, अम्ल रस को छोड़ने से लवण, कटु, तिक्क, कषाय, यह एक मेद, इस प्रकार से पन्द्रह मेद बन जाते हैं । जैसे—(१) मधुराम्ललवणकटु, (२) मधुराम्ललवणतिक्क, (३) मधुराम्ल-लवणकषाय, (४) मधुराम्लकटुतिक्क, (५) मधुराम्लकटुकषाय, (६) मधुराम्ल-तिक्ककषाय, (७) मधुरलवणकटुतिक्क, (८) मधुरलवण तिक्ककषाय, (९) मधुरलवणकषायकटु, (१०) मधुरकटुतिक्ककषाय, (११) अम्ललवणकटुतिक्क, (१२) अम्ललवणतिक्ककषाय, (१३) अम्ललवण कषायकटु, (१४) अम्ल-कटुतिक्ककषाय, (१५) लवणकटुतिक्ककषाय ॥ १७-१८ ॥

षट् तु पञ्चरसान्याहुरेकैकस्यापवर्जनात् ॥ १९ ॥

षट् चैवैकरसानि स्युरेकं षड्समेव तु ।

इति त्रिष्टुप्त्रिर्व्याणां निर्दिष्टा रससंस्यया ॥ २० ॥

त्रिष्टुप्तिः स्यात्त्वसांख्येया रसानुरसकल्पनात् ।

रसास्तरतमाघ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ २१ ॥

संयोगाः सप्तपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिष्टुप्तिः ।

रसानां तत्र योग्यत्वात्कल्पिता रसचिन्तकः ॥ २२ ॥

एक एक रस के छोड़ने से छः रस बनते हैं, ( यथा—मधुर को छोड़ने से अम्ल, लवण, तिक्क, कटु, कषाय; अम्ल को छोड़ने से स्वादु, लवण, कटु, तिक्क, कषाय, इसी प्रकार लवण, कटु, तिक्क, कषाय के छोड़ने से छः रस ) । (१) अम्ललवणकटुतिक्ककषाय (२) मधुरलवणकटुतिक्ककषाय (३) मधुराम्लकटु-तिक्ककषाय (४) मधुराम्ललवणतिक्ककषाय (५) मधुराम्ललवणकटुकषाय (६) मधुराम्ललवणकटुतिक्क ।

एक एक रस के छः मेद ( यथा—मधुर, अम्ल, आदि ) और सब मिलित होने से एक मेद, इस प्रकार से कुल मिलाकर तिरसठ ( ६३ ) रस जाते हैं । ये जो तिरसठ ( ६३ ) प्रकार के रसों के मेद कहे हैं, इन में एवं अनुरस की कल्पना नहीं की गई है । और यदि रस और अनुरस मिला दें,

तो असंख्य हो जाते हैं। इसी प्रकार रसों के तरन्तम् ( यथा—मधुरतर, मधुरतम् आदि ) मेद से भी रस असंख्य-अगमित बन जाते हैं। इस प्रकार रसों के असंख्य होने पर भी आचार्यों ने चिकित्सा व्यवहार के लिये रसों के सचावन ( ५७ ) संयोग और मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कशाय इन को मिलाकर तिरसठ ( ६३ ) मेदों की कल्पना कर रखी है ॥ १६-२२ ॥

कचिदेदो रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित् ।

दोषौषधादीन् भूचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ २३ ॥

द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्तांश्च रसान् वुधः ।

रसानेकैकशो वाऽपि कल्पयन्ति गदान् प्रति ॥ २४ ॥

यः स्याद्वासविकल्पज्ञः स्याच्च दोषविकल्पवित् ।

न स मुहोद्विकाराणां हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २५ ॥

कहीं पर एक रस की, कहीं पर मिलित रसों की, दोष ओषधि आदि ( देश, काल ) का विचार करके सफलता चाहने वाले वैद्य को कल्पना करनी चाहिये। जैसे—दो रस वाले द्रव्य ( मूँग कशाय और मधुर होते हैं ), तीन रस वाले ( मधुराम्लकशायं च विष्ट्रिम्बि गुरु शीतलम्, पित्त-इलेम्हाहरं भव्यम् ), चार रस वाले ( जैसे—तिल, स्निग्धोष्णमधुरस्तिककशायः कटुकस्तिलः । ) पांच रस ( जैसे—हरीतकी, शिवा पंचरसा ), छः रस ( अव्यक्त हों यथा—विष । ‘विष्ट्रन्वव्यक्तं पद्मरससंयुक्तम्’ या हरिण का मांत्र )। एवं दो रस वाले रसों की या मिलित द्रव्य या रसों की कल्पना, अथवा एक एक रस की कल्पना रोगों के अनुसार करते हैं। जो मनुष्य रस के मेदों को भली प्रकार जानता है ( वह रोगों के कारण द्रव्य ज्ञान को मी अनिवार्य रूप से जान ही जायेगा ), एवं दोगों ( वातादि ) के लक्षणों को मी भली प्रकार से पहिचानता है, अथवा जो मनुष्य भेषज द्रव्यों को स्वरूप से एवं हन के प्रयोग विषय को जानता है, वह रोगों के कारण लक्षण, और शान्ति ( चिकित्सा ) में नहीं ध्वनाता और भ्रम में नहीं फंसता ॥ २३-२५ ॥

व्यक्तः शुष्कस्य चाऽऽदौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते ।

विपर्येणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ २६ ॥

अनुरस—शुष्क या गीले द्रव्य में जो रस जिहा के स्पर्श से स्पष्ट होता है, ह व्यक्त रस है। परन्तु जो रस इह प्रकार से शात नहीं होता अर्थात् फीले द्वारा जाना जाता है, वह ‘अनुरस’ है। अथवा जो रस गीले द्रव्य में वह व्यक्त ( अनुरस ) और जो रस शुष्क होने पर स्पष्ट होता है वह

'रस' है । यथा—पिप्पली आद्रावस्था में मधुर, और हुँक अवस्था में 'कटु' रस है । इसलिये कटु व्यक्त रस, और मधुर अव्यक्त अनुरस है । अथवा पीछे से जो रस अनुभव होता है, वह 'अनुरस' है । यथा—कांजी, तक आदि पदार्थों के पीने पर प्रथम जिस रस का अनुभव हो वह रस और जो पीछे स्पष्ट हो वह 'अनुरस' है । सातवां रस कोई पृथक् नहीं है ॥ २६ ॥

परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च ।

विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमव्यापि च ॥ २७ ॥

संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणा छेयाः परादद्यः ।

सिद्धधुपायाश्चिकित्साया लक्षणैस्तान् प्रचक्षमहे ॥ २८ ॥

दस गुण—पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास ये दस गुण हैं । चिकित्सा में सफलता इन दस गुणों में आभिन्न है । इनके लक्षण कहते हैं ॥ २७-२८ ॥

देश-काळ-बयो-मान-पाक-बीर्य-रसादिषु ।

परापरत्वे, युक्तिस्तु योजना या च युज्यते ॥ २९ ॥

संख्या स्याद् गणितं, योगः सहस्रंयोग उच्यते ।

द्रव्याणां द्रन्द्रसर्वैकर्मजोऽनित्य एव च ॥ ३० ॥

विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो ग्रहः ।

पृथक्त्वं स्यादसंयोगो वेलक्षण्यमनेकता ॥ ३१ ॥

परिमाणं पुनर्मानं, संस्कारः करणं मतम् ।

भावाभ्यसनमभ्यासः शीतर्ळं सततक्रिया ॥ ३२ ॥

इति स्वलक्षणैकता गुणाः सर्वे परादद्यः ।

चिकित्सा यैरविदितैर्न यथावत् प्रवर्तते ॥ ३३ ॥

गुणा गणाभ्यासा नोकास्तस्माद्रसगुणान् भिषक् ।

विद्याद् द्रव्यगुणान् कर्तुरभिप्रायाः पृथग्विधाः ॥ ३४ ॥

अतश्च प्रकृतं बुद्ध्वा देशकालान्तराणि च ।

तत्र कर्तुरभिप्रायानुपायांश्चार्थमादिशेत् ॥ ३५ ॥

देश-महदेश पर और आनन्द अपर । काळ-विसर्ग पर, आदान अपर ।  
बय-तद्वण पर, बाक, बृद्ध अपर । मान-शरीर का कहा हुआ पर, इस के अन्य अपर । पाक, बीर्य और रस ये जिस योग के प्रति हो उसके लिये पर दूसरों के प्राप्त अपरपर-अपर यह देश, काळ, बय, मान, बीर्य, रस आदि के अपेक्षा से हैं । जेसे महदेश-बंगाल की अपेक्षा पर है, और बंगाल-महदेशों बाबों की अपेक्षा से पर

है; इसी प्रकार वयमें बाल्यावस्था से योवनावस्था पर है और बाल्यावस्था अपर है पर-अपर अपेक्षा से है। अथवा सञ्जिकृष्ट, और विप्रकृष्ट मेद से पर-अपर भाव होता है। युक्ति योजना दोषादि के अपेक्षा से औषध की भली प्रकार कल्पना करना। संख्या-गिनती, एक, दो, तीन आदि। संयोग—द्रव्यों का परस्पर संयुक्त होना संयोग है। यह संयोग तीन प्रकार का होता है। १. द्वन्द्व ( दो का जैसे-लड़ते हुए दो मेढ़ों का ), २. सबका ( जैसे-एक पात्र में रखक्ये उड़दों का ), और ३. एककर्मजन्य, ( जैसे-बृक्ष पर बैठे कौवे का ) यह संयोगजन्य कर्म अनित्य है। विभाग-विभजन, बाटना, भाग करना। संयोग का वियोग या विभाग रूप में ग्रहण होना विभाग है। पृथक्त्व—जिसके द्वारा यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि यह वस्तु घड़े से भिन्न है वह पृथक्त्व है। यह तीन प्रकार का है। १. सर्वधा अभिन्न वस्तुओं का जैसे-मेड़ और दिमालय का। २. विजातियों में जैसे- मैस और सुअर का। ३. विलक्षणताजन्य—विशिष्ट लक्षण युक्त विजातियों से मेद, अनेकता—एक जातीय द्रव्यों के संयोग में रहने वाली भिन्नता का नाम 'अनेकता' है, यथा—उड़दों में अनेकता मिलती है, सब उड़द एक समान नहीं होते। परिमाण—मान, तोल, वजन। संस्कार—किसी द्रव्य में जिस क्रिया से गुणान्तर उत्पन्न किया जाता है, उस क्रिया का नाम संस्कार है ( संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते )। अभ्यास—किसी द्रव्य या क्रिया का निरन्तर उपयोग करना, व्यवहार करना, अभ्यास कहता है। इस 'अभ्यास' को शील या निरन्तर करना या आदत भी कहते हैं। इस प्रकार से पर आदि दस गुणों के लक्षण कह दिये हैं। यदि वैद्य को इनका पूरा ज्ञान न होगा तो चिकित्सा पूर्ण रूप में सफल नहीं हो सकेगी। अब तक रसों के परस्पर संयोगी गुण कहे हैं। अब जिग्नवत्तादि गुण कहते हैं। जो गुण कहे हैं, वे गुण रूप, रस आदि में आभित नहीं, अपितु रस के आधारभूत द्रव्य में आभित हैं। इसलिये रस के गुणों को भी द्रव्य का गुण समझना चाहिये, रस का नहीं। यथा—मधुर रस, जिग्न, शीत, गुरु है, इस का अर्थ यह है कि मधुर रस वाला द्रव्य जिग्न, शीत गुरु इन गुणों से युक्त है। गुण गुण का धात्रय करके नहीं रह सकते। इस प्रकार कहना ग्रन्थकार की शैली है। प्रत्येक ग्रन्थ को समझने के लिए ग्रन्थकार के अभिप्राय को ( उस के अभिप्राय के पृथक् होने से ), प्रकरण, देश, और काल को भी जानना चाहिये। प्रकरण जैसे—“क्षारः शीरं फलं पुष्पम्” यहां पर वनस्पति प्रकरण होने से थोर का दूध लेना चाहिये, गाय, मैस का नहीं। देश—शिर शोधन कहने में, ‘क्रिमिभ्याधि’ जर्यात् जिरोजन्य कृमि रोग में प्रेसा समझना

चाहिये । काल—वमन काल में कहने पर 'प्रतिग्रहं चोपहारयेत्' अर्थात् वमन का पात्र लाओ । इसी प्रकार भोजन के समय 'सैन्धवमानय' कहने से नमक का लाना उचित है, न कि घोड़े का । इसलिये ग्रन्थकर्ता के अभिग्राय से रसों में गुणों का कथन उमझना चाहिये । जहां पर प्रकरणगत देश काल आदि द्वारा ग्रन्थकर्ता का अभिग्राय स्पष्ट नहीं होता, वहां उपायों द्वारा तन्त्र-युक्ति रूपी उपायों से अर्थ को समझना चाहिये । २९-३५ ॥

परं चातः प्रब्रह्मयन्ते रसानां षड् विभक्तयः ।

षट्पञ्च भूतप्रभवाः संख्यातात्त्वं यथारसाः ॥ ३६ ॥

सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लङ्घयश्चाव्यक्त-  
रसात्त्वं; तास्त्वन्तरिक्षाद् भृश्यमाना धृष्टाश्चपञ्चमहाभूत-विकार-गुण-सम-  
न्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु षड्-  
भिमूर्च्छन्ति रसाः ॥ ३७ ॥

पञ्च महाभूतों से उत्पन्न छः रसों को विभाग करके कहते हैं किस प्रकार से छः रस उत्पन्न होते हैं । एव रसों का उत्पत्तिस्थान पानी है । यह पानी सौम्य ( सोमगुणी ), अन्तरिक्ष से उत्पन्न होने वाला, स्वभाव से शीतल, लघु एवं 'अव्यक्त रस' है । यह पानी अन्तरिक्ष से नीचे गिरता हुआ अन्तरिक्ष में स्थित पृथ्वी आदि के परमाणुओं से दूषित होकर, पञ्च महाभूतों से बने स्थावर ( जड़ ) और जंगम ( चल ) पदार्थों को तर्पण करता है, इन पदार्थों के स्वरूप को बनाता है, उत्पन्न करता है । इन पदार्थों से ही छः रस अभिव्यक्त होते हैं ॥ ३७ ॥

तेषां षण्णां रसानां सोमगुणातिरेकान्मधुरो रसः पृथिव्यमि-  
भूयिष्ठत्वादम्ळः, सङ्किलाभिमूयिष्ठत्वाङ्ग्रवणः, वाय्वमिभूयिष्ठत्वा-  
त्कटुः, वाय्वाकाशातिरेकात्तिकः, पवनपृथिव्यतिरेकात्कषाय इति ।  
एवमेषां रसानां षट्क्वमुत्पन्नं, उनातिरेकविशेषान्महाभूतानां भूताना-  
मिव जङ्गमस्थावराणां नानावर्णाकृतिविशेषाः, षट्क्वत्वात् काल-  
स्योपपन्नो महाभूतानामूनातिरेकविशेषः ॥ ३८ ॥

यहां पर अन्तरिक्ष स्थित पानी को रसोत्पत्ति में मुख्य कारण माना है । इस से पृथ्वी पर स्थित पानी भी स्थावर और जंगम पदार्थों में रस उत्पन्न करने में कारण है । इन छः रसों में सोम गुण के अधिक होने से ( अर्थात् अन्य भूत भी योड़ी २ मात्रा में हैं ) मधुर रस, पृथ्वी और अग्नि गुण की अधिकता से अम्ळ, पानी और अग्नि गुण की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कद, वायु और आकाश गुण की अधिकता से तिक्त ।

धायु और पृथिवी गुण की अधिकता से कथाय रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार से पञ्च महाभूतों के कम अधिक होने से छः रस उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर और जंगल पदार्थों में महाभूतों के कम अधिक होने से नाना प्रकार के वर्ण, रंग, आकृति, रूप आदि बन जाते हैं, उसी प्रकार छः रस भी बन जाते हैं। इसी प्रकार महाभूतों के कम अधिक होने से ही काल, संवत्सर छः श्रद्धुओं में विभक्त हो जाता है। यथा—हेमन्त काल में सोम गुण की अधिकता होती है, विश्वर श्रद्धु में वायु और आकाश गुण की अधिकता होती है। ‘तावेतावर्कवायू’ (च० स० अ० ६) में स्पष्ट कर चुके हैं। बीजाङ्कुरवत् कार्य कारण की भाँति संसार के अनादि होने से, पंच महाभूत और श्रद्धुओं का कार्यकारण सम्बन्ध समझना चाहिये ॥३८॥

तत्राभिन्नमारुतात्मका रसाः प्रायेणोर्ध्वभाजः, लाघवात्सवनत्वाच्च  
वायोर्ध्वर्धज्वलनत्वाच्च वह्नेः, सलिलपृथिव्यात्मकरु प्रायेणाधोभाजः,  
पृथिव्या गुरुत्वान्निमनगत्वाद्वोदकस्य, व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतो-  
भाजः ॥ ३९ ॥

इन में अग्नि और वायु गुण की अधिकता वाले रसयुक्त द्रव्य प्रायः ऊर्ध्वगामी ( वमनकारक ) होते हैं। क्योंकि वायु हड्डी और उड़ने वाली है। अग्नि का स्वभाव ऊपर को लालने का है, वह ऊपर को गति करता है, इसलिए इन गुणों वाले द्रव्य ऊर्ध्वगामी हैं। जल और पृथिवी गुण युक्त रस वाले द्रव्य प्रायः करके अघोगामी ( विरेचनकारक ) होते हैं। क्योंकि पृथिवी गुरु है और पानी का स्वभाव नीचाई की ओर बहना है। जिन पदार्थों में चारों तत्त्व मिले रहते हैं वे ऊर्ध्वगामी और अघोगामी दोनों तरह के होते हैं ॥ ३९ ॥

तेषां वर्णां रसानामेकैकस्य यथाद्रव्यं गुणकर्मण्यनुव्याख्यास्यामः। तत्र  
मधुरो रसः शरीरसात्म्याद्रस-रुधिर-मास-मेदोऽस्थि-मज्जौजः-शुक्राभिव-  
र्धन आयुष्यः षड्निद्रियप्रसादनो बलवर्णकरः पित्त-विष-मारुत-भस्तुष्णा-  
प्रश्नमनस्त्वच्यः केद्यः कण्ठ्यः प्रीणनो जीवनस्तपेणो वृंहणः स्थैर्यकरः  
क्षीणक्षतसंधानकरो ग्राण-मुख-कण्ठौष्ठ-जिह्वा-ग्रहादनो दाहमूर्छाप्रशमनः  
षट्पदपिपीछिकानामिष्टुतमः स्तिगदः शीतो गुरुश्च। स एवं गुणोऽप्येक  
प्रजात्यर्थमुपयुज्यमानः स्थौल्यं मार्ववमाळस्यमतिस्वप्नं गौरवमनमा-  
लाषमभिदीर्बल्यमास्यकण्ठमासाभिवृद्धिं इवास-कास-प्रतिह्यावालस-  
शीत-ज्वरानानाहास्य-माधुर्य-बमशु-संज्ञास्वरप्रणाश-गङ्गाण्डगण्डमा-

**का-सीपह-गङ्गासोक - वस्ति-धमनीगण्डोपकेषाह्यामयानभिष्यन्दभिल्येष  
प्रभृतीन् कफजान् विकारानुपजनयति ॥ ( १ ) ॥**

इन छः रसों में से एक-एक रस के आधार द्रव्य के अनुसार गुण, कर्म की व्याख्या करेंगे । इन में मधुर रस—जन्म से ही शरीर के अनुकूल ( सत्त्व ) है । ( जन्म से ही मधुर रसकुक द्रव्य को पीकर बचा बढ़ाता है ) । रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्ति, अंज और शुक्र को बढ़ाता है, आयुर्वर्द्धक, शोष, स्वक्, नासिका, चब्बी, रसना ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन इन को प्रसन्न, निर्मल करता है । बलशारक, कान्तिकारक पित्त-नाशक, विषनाशक, वायुनाशक, तुष्णानाशक, स्वचा, केश, और स्वर के लिये हितकारी, आहादजनक, अभिषात आदि से बेहोश पुरुष को जीवन देने वाला, दूसि करने वाला, वृद्धि करने वाला, स्थिरकारक, क्षीण और क्षत व्यक्ति को पापण करने एवं रन्धनान अर्थात् दूटे का जोड़ने वाला नासिका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ और जाम का आहाद करने वाला, जड़न और मूर्ढनाशक, भ्रमर और चिंताटियों का प्रिय, स्तिर्व, शीत और गुह दै । यद्यपि इस मधुर रस में इतने गुण हैं, तो भी इस अकेले रस को ही निरन्तर अधिक मात्रा में खाने से स्थूलता कोमलता, आळस्य, नींद की अविकृता, भारीपन, अज में अहनि, अग्नि की निर्वलता, मुख ( गाल ), गले में मांस की वृद्धि, इवास, काश, प्रतिश्वाय, अलसक, शीत ज्वर, आनाह ( अक्षारा ), मुख की मधुरता, वमन, रंगनाश, स्वर नाश, गङ्गागण्ड, गण्डमाला, श्लापद, गड़े को सूजन, बस्ति, धमनी गुदा ( गड़े में ) में मांस, चर्बी या कफ कोई पदार्थ बढ़ जाता है, नेत्र रोग, अभिष्यन्द, कफ रोग ( कफसाव ) आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥

अम्लो रसो भक्त रोचयति, अग्निं दीपयति, देहं वृहयति ऊर्जयति, वातमनुलोमयति, हृदयं तर्पयति, आस्यमासावयति, भुक्तमपकर्षयति, क्लेदयति, जरयति, प्रीणयति, लवुहृष्णः स्तिर्गद्यश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुक्तमानो दम्नान् हर्वयति, तर्पयति, सीबीजयति छोमानि, कफं विडापयति, पित्तमभिवर्धयति, रक्तं दूषयति, मांसं विद्वहति, काशं शिथिलोकरोति, क्षीण-क्षत-कृश-दुर्बलानां इवयस्युमापादयति, अपिच्छ क्षताभिहत-दृष्ट-दग्ध-भग्न-शून-च्युतावग्नितः-परिसंपित्त-मर्दित-चिलः-मिन्त-विलिष्ट-विद्वोत्पिष्टादीन् पाचयस्याग्नेयस्वभावात् परिवर्ह कण्ठ-मुरो हृदयं च ॥ ( २ ) ॥

अम्ल रस अज में शक्ति पैदा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, शरीर

बढ़ाता है, तेज देता है, मन को उचेजित ( आगृत ) करता है । इनियों को बहवान् करता है, बल को बढ़ाता है बायु का अनुलोमन करता है, हृदय के लिये हितकारी है । मुल में लार चुआता है, खाये हुए भोजन को बाहर निकालता है, क्लिन ( शरीर को गीला ) बनाता है । खाये भोजन को पचाता है, प्रसन्नता करता है छष्टु, उष्ण, स्निग्ध गुण वाला है ॥

यही एक रस यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाय, तो दातों को कोट करता है, ( खट्टा करता है ), तृति अर्थात् भोजन में अनिष्टा उत्पन्न करता है, आंखों को मीचाता है, शरीर के बालों को कंपा देता है, ( रोमांचित करता है ), कफ को पिघलाता है, पित्त को बढ़ाता है, रक्त को दूषित करता है, मांस में जलन पैदा करता है, शरीर को ढीला ( सुस्त करता है ), श्वीण, उर्द्धवर रोगी, निर्बल, कमजोर पुरुषों में सूजन उत्पन्न करता है और भी जरूर, चोट, दाँत लगे, जले, अस्थि आदिका दूटना, सूजन, संविभ्रंश, प्राणियों के मृत्युजन्य विष, स्वर्णजन्य विष ( मकड़ी के ), रगड़ लगे हुए, दां दुर्जड़े हुए, उमे हुए पिसे हुए आदि ब्रणों को पका देता है । अग्निगुण होने से कण्ठ, आती और हृदय में जलन उत्पन्न करता है ॥ ( ३ ) ॥

लवणो रसः पाचनः क्लेदनो दीपनश्चयावनश्लेदनो भेदनस्तीक्ष्णः  
सरो विकास्यथः स्तंस्यवकाशकरो वातहरः स्तम्भ-बन्धं हंघात-विघमनः  
सर्वरसप्रत्यनीकभृतः, आस्थमास्थावयति, कफं विष्यन्दृयति, मार्गान्  
विशोधयति, सर्वशरीरावथवान्मृदूकरोति, रोचयत्याहारमाहारयोगी,  
नात्यर्थं गुरुः स्निग्ध उष्णश्च; स एवंगुणोऽयेक एवात्यर्थंमुपयुज्यमानः  
पित्तं कोपयति, रक्तं वर्धयति, तर्षयांत, मूर्छयति, तापयति, दारयति,  
कुण्डाति भासानि, प्रगाढ़यति कुष्ठानि, विषं वर्धयति, शोफान् स्फोटयति,  
दन्ताश्चयावयति, पुस्त्वमुपहन्ति, इन्द्रियाण्युपकणद्वि, बली-पलित-  
खालित्यमापादयति, अपि च "लोहित-पित्ताम्ल-पित्त-बीसर्प-वात-रक्त-  
विचर्चिकेन्द्रलुप-प्रभृतीन्विकारानुपजनयति ॥ ( ३ ) ॥

लवण रस—पाचक, नरम बनाने वाला, अग्निदोषक, नीचे गिराने वाला, छेदन मेदन करने वाला, तीक्ष्ण, सर ( मल लाने वाला ), विकारी ( क्लेद का छेदन करने वाला ) अथःसंसी, विष्यन्दशील ( रेचक ) विरलता करने वाला

वातनाशक, मल-मूत्रादि के अवरोध को नाश करने वाला और जहां पर  
जरा सा अधकि हो जाता है, वहां पर और कोई दूसरा रस सह नहीं  
में थूक उत्पन्न करता है, कफ को पिघलाता है, मार्गों का शोधन

करता है, शरीर के सब अवयवों को कोमल करता है, आहार में रुचि उत्पन्न करता है, आहार में सदा वरता जाता है, बहुत भारी नहीं होता, स्लिंग और उच्च गुणवाला है।

यही एक रस यदि अधिक सेवन किया जाय तो पिण्ठ को कुप्रिय करता है, रक्त को बढ़ाता है, प्यास उत्पन्न करता है, संशा नाश करता है, शरीर को गरम करता है, फाड़ता है, मांस को गलाता है, कुट्ठों को द्रवित करता है, विष को बढ़ाता है, सूजन को फाड़ता है, दांतों को गिरा देता है, पुरुषत्व का नाश करता है, इन्द्रियों को जड़ बनाता है। हृरियाँ पैदा करता, बालों को इवेत करता, गंज अथात् बालों को गिराता है। इसके अतिरिक्त रक्तपित्त, अंगमित्ति, बीरपी, बातरकत, विचर्चिका, इन्द्रलुत आदि रोगों को उत्पन्न करता है ॥(३)॥

कटुको रसो रक्तं शोधयति, अग्निं दीपयति, भुक्तं शोषयति, ग्राण-मास्त्रावयति, चक्षुविरेचयति, स्फुटीकरोति निन्द्रियार्ण, अलसक-व्यथूप-चयोदर्दभिष्यन्द-न्नेह-स्वेद-क्लेद-मलानुपहन्ति, रोचयत्यशनं कण्ठविन शयति, क्रिमीन छिन्निति, मांसं विटिखति, शोणितसंधातं भिनत्ति, बन्धां-श्लिनत्ति, मार्गांन्विवृणोति, श्लेष्मार्णं शमयति, लघुरुणो रुक्षश्च । स एवं गुणोऽप्येकं एवात्यर्थमुपयुक्तमानो विपाकप्रभावात् पुस्त्वमुपहन्ति, रसवीर्यप्रभावान्मोहयति, ग्लपयति, सादयति, कर्षयति, मूर्च्छयति, नमयति, तमयति, भ्रमयति, कण्ठं परिदृहति, शरीरतापमुपज्ञनयति, बलं छिणोति, तृष्णा चोपजनयति । अपिच वाय्वग्निबाहुल्याद् भ्रम-म-द-द्रवशु<sup>१</sup> कृपतोद भेदश्चरण-भुज-पाश्वर्षपृष्ठ-प्रसृतिषु माहतजान्विका-रानुपज्ञनयति ॥ (४) ॥

कटु रस मुख का शोधन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, खाये हुए भोजन को सुखाता है, नाक से कफ बहाता है, आंखों में आंसू लाता है, इन्द्रियों को उत्तेजित करता है, अलसक, सूजन, हृदि, उदर्द, अभिष्यन्द, स्नेह, पसीना, क्लेद, मल का नाश करता है। हृमियों को मारता है, मांस का लेखन करता है ( रथूलता को कम करता है ) । खाये हुए भोजन का रेचन करता है, खाज को मिटाता है, दृणों को बैठाता है, भरता है। जमे हुए रक्त को तोड़ता है, उत्तिष्ठन-बन्धनों को छेदन करता है, मांगों को साफ़ बनाता है, कफ को शान्त करता है। रक्षु, उष्ण और रुक्ष होता है।

यही एक रस यादि अधिक मात्रा में सेवन किया जाय तो कटु ।

१. ‘भ्रममदवमशु’ इति च पाठः ।

प्रभाव से ( कटु रस का कटु विपाक ) पुरुषत्व का नाश करता है । रस और वीर्य के प्रभाव से संशानाश करता है । ग्लानि उत्पन्न करता है, ज्वरज्वर करता है, कर्षण ( निर्वल ) करता है, मूर्च्छित करता है, शरीर को शुक्राता है, अन्वकार लाता है, चक्कर ल्यता है, गड्ढे में जलन तथा शरीर में तापन्नर उत्पन्न करता है । बल को कम करता है, प्यास को पैदा करता है । वायु, अग्नि गुण की अधिकता होने से चक्कर; मुख ओढ़ में जलन, कंपकपी, जुमने की सी दर्द, मेदन जैसी पीड़ा, पांव, हाथ, पार्श्व पसलियों और पीठ में वात विकार उत्पन्न करता है ॥ ( ४ ) ॥

तित्को रसः स्वयमरोचिष्णुररोचकघ्नो विषघ्नः कुमिद्धनो मूर्च्छा-दाह-कण्ठ-कुष्ठ-तुष्णा-प्रशमनः त्वच्मांसयोः स्थिरीकरणो व्वरघ्नो दीपनः पाचनः स्तन्यशोवनो लेखनः क्लेद-मेदो-वसा-भज्ज-ल्लसीका-पूय-स्वेद-मूत्र-पुरीष-रित्त-स्लेष्मोपशोषणो रुक्षः शीतो लघुश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवा-त्यर्थमुपयुज्यमानो रौक्ष्यात् खरविशदस्वभावात् रस-रुधिर-मांस-मेदोऽस्थिमज्ज-शुक्राण्युच्छोषयति, स्रोतसां खरत्वमुपपादयति, बलमादत्ते, कर्षयति, गलपयति, मोहयति, भ्रमयति, बदनमुपशोषयति, अपरांश्च वातविकारात्तुपजनयति, ॥ ( ५ ) ॥

तिक रस थाने आप अचिकारक होने पर भी दूसरे भोजनों में इनि उत्पन्न करता है, इसलिये अरोचकनाशक है । विषनाशक, कुमिनाशक, मूर्च्छा, जलन, खाज, कोढ़ और प्यास को शान्त करने वाला, त्वचा मांस को हिथर करने वाला, ज्वरनाशक, अग्निदीपक, पाचक, दूष का शोधन करने वाला, लेखन करने वाला, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, ल्लसीका, पूय, स्वेद, मूत्र पुराण ( मल ) पित्त, कफ को सुखाता है, रुक्ष, शीत और लघु है ।

यही रस अधिक मात्रा में सेवन करने से रुक्ष, कर्षण और विशद स्वभाव होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का शोधन करता है, स्रोतसों में खरता उत्पन्न करता है, बल देता है, शरीर की स्थूलता का कर्षण करता है, हर्ष का छल्य करता है, संशानाश करता है, चक्कर उत्पन्न करता है, मुख में शुक्रता उत्पन्न करता है और अन्य वात, रोगों को भी उत्पन्न करता है ॥ ( ५ ) ॥

इन्होंने रसः संशमनः १ संप्राही संधारणः पीड़नो रोपणः शोषणः

स्तम्भनः प्रेष्म-पित्त-रक्त-प्रश्मनः शरीरकलेवस्योपयोक्ता, रक्षः शीतो  
गुहश्च । स एवंगुणोऽप्येकं पवात्यर्थमुपयुज्यमानं आस्यं शोषयति,  
हृदयं पीडयति, उदरमाभापयति, वाचं निगृह्णति, म्लोतास्ववद्वभ्राति,  
इयावत्वमापादयति, पुंस्त्वमुपहन्ति, विष्ट्रियं जरां गच्छति, वातमूत्रं  
पुरीषाण्यवगृह्णति, कर्षयति, म्लापयति, तर्धयति, स्तम्भयति, खर-  
विशद्-रुक्षत्वात्पक्ष-वध-ग्रहापतानकार्दित-प्रभृतीश्च वातविकारानुपत्त-  
नयतीति ॥ ( ६ ) ॥

क्षाय रस संशमन करने वाला, संग्राहक, सन्धारक, ब्रण का पीड़न करने  
वाला, रोपण, ब्रण को शुष्क करने वाला, स्तम्भन, कफ, रक्त, पित्तनाशक,  
शरीर में क्लेद को चूसने वाला, रक्ष, शीत और गुरु है । यही रस अधिक  
मात्रा में उपयोग करने से मुख को मुखा देता है, हृदय को पीड़ित करता है,  
उदर में वायु से फुलाव उत्पन्न करता है, वाणी को जड़ कर देता है, खोतों को  
बन्द कर देता है, कृष्णता उत्पन्न करता है, पुरुषत्व को नष्ट करता है, अज्ञ  
को अवरोध करके पचन करता है, वात, मूत्र, मल, रेतस् ( शुक्र ) को बन्द  
कर देता है, रोक देता है, शरीर को कर्षण करता है, म्लान कर ( मुरक्का )  
देता है, प्यास लगाता है, जकड़ देता है । खर, विशद और रक्ष होने से  
पक्षवध, हनुग्रह, मन्याग्रह, पृष्ठग्रह, अपतानक, अर्दित आदि वात रोगों को  
उत्पन्न करता है ॥ ( ६ ) ॥

एषमेते षह् रसाः पृथक्त्वेनैकत्वेन वा मात्रशः सम्यगुपयुज्यमाना-  
उपकारकरा भवन्त्यज्यात्मलोकस्य, अपकारकराः पुनरतोऽन्यथोपयुज्य-  
मानाः । तान् विद्वानुपकारार्थमेव मात्रशः सम्यगुपयोजयेदिति ॥ ४१ ॥

इस प्रकार से ये छः रस पृथक् पृथक् या दो या तीन अथवा सब परस्पर,  
मिलकर मात्रा में योग्य प्रमाण से सेवन करने से सर्व प्राणिमात्र को आरोग्य  
पुष्टि देकर उपकार करते हैं और असम्यक् रूप में उपयोग करने से सब प्राणियों  
का अपकार करते हैं । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि इन को मात्रा  
में सम्यक् प्रकार से उत्तरे ॥ ४१ ॥

भवन्ति चात्र—शीतं वीर्येण यदौ द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः ।

तयोररम्लं यदुष्णं च यज्ञोर्णां कटुकं तयोः ॥ ४२ ॥

तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रहः ।

वीर्यतोऽविपरीक्षानां पाकतङ्कोपदेश्यते ॥ ४३ ॥

यथा यथो यथा सर्पियथा वा चव्यचित्रको ।

• एवमाहीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो मिष्टक् ॥ ४४ ॥

एसमें श्लोक है—रसानुसारी द्रव्यों का वीर्य—जो द्रव्य रस और विपाक में मधुर हो, उस को शीतवीर्य समझना चाहिये, और जो द्रव्य रस और पाक में अम्ल हो, उस को उष्णवीर्य, जो द्रव्य रस और पाक में कटु हो, उस को भी उष्णवीर्य समझना चाहिये। जो द्रव्य वीर्य और विपाक में विरोधि न हो—एक समान हो, उनके गुणों का ज्ञान रस से ही करना चाहिये। परन्तु इस का अपावाद भी है। जहां पर रस समान है, वहां पर विपाक द्वारा गुणों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार कि दूध और भी मधुर रस और मधुर विपाक हैं, इन का वीर्य भी शीत है, इसी प्रकार चव्य और चित्रक इन का रस और विपाक कटु हैं, इसलिये वीर्य भी इन का 'उष्ण' है। इस प्रकार से अन्य द्रव्यों को भी रसनिदेश से वैद्य सुगमता से समझ सकता है। क्योंकि रस के अनुसार गुण हैं ॥ ४२-४४ ॥

मधुरं किञ्चिदुल्लां स्यात्कवायं तिक्तमेव च ।

यथा महापञ्चमूलं यथा चानूपमामिषम् ॥ ४५ ॥

छवणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा ।

अर्कागुणुद्गचीना तिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ ४६ ॥

किञ्चिदमर्लं हि संप्रादि किञ्चिदमर्लं भिन्नति च ।

यथा कपित्वं संप्रादि, भेदि चामलकं तथा ॥ ४७ ॥

पिप्पली नागरं वृद्धयं कटु चावृद्धमुच्यते ।

कधायः स्तम्भनः शीतः सोऽभ्यायामतोऽन्यथा ॥ ४८ ॥

तस्माद्रसोपदेशेन न सर्वं द्रव्यमादिशेत् ।

दृष्टुं तुल्यरसेऽप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम् ॥ ४९ ॥

कभी कभी मधुर, कधाय और तिक्त रस भी उष्णवीर्य हो जाते हैं। यथा—  
विष्णादि महापञ्चमूल तिक्त और कधाय होने पर भी उष्ण वीर्य हैं, और जड़-  
चर या जड़देशीय मांस मधुर होने पर भी उष्ण है। सैन्धव नमक उष्णवीर्य  
नहीं और आंवला खट्टा होने पर भी उष्णवीर्य नहीं है। आकड़ा, अगल और  
शिक्कोये ये तिक्त रस होने पर भी 'उष्ण' वीर्य हैं। अम्ल-रस में कोई द्रव्य  
मम और कोई रेचक हैं। जिस प्रकार की कैथ अम्ल होने पर संग्राही और  
अम्ल होने पर भी रेचक है। पिप्पली और सोठ कटु रस होने पर भी  
(कृष्णवर्षक) है, क्योंकि उनका मधुर विपाक है। और वैसे कटु-रस

अवृष्टि होता है । कषाय रुल स्तम्भनकारक और शीतबीर्य होता है, परन्तु इस का कषाय रस रेचक और उष्ण-चीर्य है । इस लिये रस को ही देखकर सब द्रव्य के गुण नहीं समझने चाहिये । रस की समानता होने पर भी द्रव्य-द्रव्य में गुणमें देखा जाता है ॥ ४५-४६ ॥

रौक्ष्यात्कषायो रूक्ष्याणमुक्तमो मध्यमः कटुः ।  
 तिक्तोऽवरस्तथोष्णानामुष्णात्वाङ्गवणः परः ॥ ५० ॥  
 मध्योऽम्लः कटुकश्चान्त्यः स्तिंगधानां मधुरः परः ।  
 मध्योऽम्लो लवणश्चान्त्यो रसः स्तेहान्त्रिहृच्यते ॥ ५१ ॥  
 मध्योऽकृष्टवराः शैत्यात्कषाय-स्वादु-तिक्तकाः ।  
 [ तिक्तात्कषायो मधुरः शीताच्छीतवरः परः । ]  
 स्वादुर्गुरुस्त्वादधिकः कषायाङ्गवणोऽवरः ॥ ५२ ॥  
 अम्लात्कटुस्ततस्तिक्तो लघुत्वादुक्तमो मतः ।  
 केचिङ्ग्रन्थानामवरमिच्छन्ति लवणं रसम् ॥ ५३ ॥  
 गौरवे लाघवे चैव सोऽवरस्तुभयोरपि ।

इन छः रसों में कषाय, कटु, तिक्त तीनों रस रूप हैं । इनमें भी कषाय रस रूपतम (उत्तम), कटु रसस्ततर (मध्यम) और तिक्त रस रूप (अवर) है । इसी प्रकार लवण रस उत्तम (उत्तम), अम्ल उष्णतर (मध्यम), कटु रस उष्ण (अवर) है । मधुर रस स्तिंगधतम (उत्तम), अम्ल रस स्तिंगधतर (मध्यम), लवण रस स्तिंग (अवर) है । शैत्य चर्म सम्बन्ध की हाँ में कषाय रस मध्यम; स्वादु रस उकृष्ट और तिक्त रस अवर है । गुरुता की हाँ से मधुर रस सबसे गुरु, कषाय रस मध्यम और लवण रस सब से अवर है । लघु गुण की हाँ से अम्ल रस उत्तम, कटु मध्यम और तिक्त रस अवर है । कुछ आचार्य लवण रस को सब से लघु (अवर) मानते हैं । क्योंकि अम्ल में पृथ्वी कारण है, लवण में जल कारण है । इसलिये पृथिवीजन्य रस की अपेक्षा जलजन्य वस्तु हल्की होनी चाहिये, इसलिये मृतों के आधार से गौरव या लाघव का ज्ञान नहीं करना चाहिये । क्योंकि पानी की अधिकता से उत्पन्न रस, पृथ्वी की अधिकता से उत्पन्न कषाय रस से 'गुरु' होता है । यहां पर गुरुत्व की ही लघु माना है । वास्तव में इस मतमेदः का कोई विशेष अर्थ नहीं, क्योंकि ही पक्ष (लवण रस) को अवर मानते हैं । अम्ल, कटु, तिक्त रस शैत्य को लवण रस को गुरु समझते हैं; वे गुरुता की हाँ से देखते हैं ।

मानते हैं वे लघुत्व होने से लघु उमसते हैं। दोनों ही पद किञ्चित् गुरुत्व स्वीकार करते हैं ॥

परं चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवद्यते ॥ ५४ ॥  
 कटु तिक्त-कधायाणा विपाकः प्रायशः कटुः ।  
 अम्लोऽम्लं पचयते, स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ॥ ५५ ॥  
 मधुरो लवणाम्लौ च स्तिर्यभावात्वयो रसाः ।  
 वात-मूत्र-पुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा भवतः ॥ ५६ ॥  
 कटुतिक्तकधायास्तु रुक्षभावात्वयो रसाः ।  
 दुःखाय मोक्षे दृश्यन्ते वातविष्णमूत्ररेतसाम् ॥ ५७ ॥  
 शुक्रहा बद्धविष्णमूत्रो विपाको वातलः कटुः ।  
 मधुरः सृष्टविष्णमूत्रो विपाकः कफशुकलः ॥ ५८ ॥  
 पित्तकृतसृष्टविष्णमूत्रः पाकोऽम्लः शुक्रनाशनः ।  
 तेषां गुरुः स्यान्मधुरः कटुकाम्लावतोऽन्यथा ॥ ५९ ॥  
 विपाकलक्षणस्यालपमध्यभूयिष्ठता प्रति ।  
 ग्रन्थाणां गुणवैशेष्यात्तत्र तत्रोपलक्षयेत् ॥ ६० ॥

विपाक—इसके आगे विपाकों<sup>१</sup> का लक्षण कहते हैं। कटु, तिक्त, कधाय रस के आधार मूत्र द्रव्यों का विपाक प्रायः कटु होता है। (पिपलो कटु रस होने पर भी विपाक में प्रायः कटु होता है। पिपलो कटु रस होने पर भी विपाक में मधुर है, इसलिये प्राय शब्द है)। अम्ल रस का अम्ल और मधुर तथा लवण रस का मधुर विपाक होता है। मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों रस द्विनश्च होने के कारण वायु, मूत्र, मल को सुख पूर्वक बाहर निकालने में उद्यायक होते हैं। कटु, तिक्त और कधाय रस रुक्षगुण होने से वात, मल, मूत्र और शुक्र के बाहर निकालने में कष्ट रूप होते हैं, अवरोध करते हैं। जित द्रव्य का विपाक कटु होता है, वह वीर्यनाशक, मल मूत्र का अवरोध करने वाला और वायुकारक होता है। जित द्रव्य का विपाक मधुर होता है, वह मल मूत्र का प्रवर्तक (रेचक) और कफ एवं शुक्र को बढ़ाता है। जित द्रव्य का विपाक अम्ल होता है, वह पित्तकारक, मल-मूत्र का रेचक और वीर्यनाशक होता है।

१. विपाक—खाये हुए अन्न का जाठराग्नि में पाचन किया के पश्चात् इस उत्पन्न होता है उत्पक्त नाम विपाक है।

“जाठरेणाग्नियोगात् यदुदयति रसान्तरम् ।

रसाना परिणामान्वये उ विपाक इति स्मृतः ॥”

इन विपाकों में मधुर विपाक गुरु और कटु तथा अम्ल विपाक लघु होते हैं । विपाक के अल्पत्व और बहुत्व उस उस द्रव्य के रस रूपी गुण की अधिकता या न्यूनता पर निर्भर करते हैं । उदाहरण के लिये गन्धे में मधुर रस अधिक प्रमाण में है, इसलिये इसका विपाक भी मधुर ( उच्चम ) होगा । इसी प्रकार जिसमें मध्यम प्रमाण में होगा उस का विपाक भी मध्यम, जिसमें न्यून प्रमाण में होगा, उसका विपाक भी अबर होगा । प्रत्येक पदार्थ का विपाक उसके रस के परिमाण में होता है ॥ ५४-६० ॥

तीक्ष्णं रुक्षं मृदु रिनग्धं लघूष्णं गुरु शीतलम् ।  
 वीर्यं मष्टुविधं केचित्केचिद् द्विविधमास्थिताः ॥ ६१ ॥  
 शीतोष्णमिति, वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया ।  
 नावीर्यं कुरुते किञ्चित्सर्वा वीर्यकृता क्रिया ॥ ६२ ॥  
 रसो निपाते द्रव्याणां, विपाकः कर्मनिष्ठया ।  
 वीर्यं यावद्धीवासान्निपाताक्षोपलभ्यते ॥ ६३ ॥

कोई आचार्य वीर्य को आठ प्रकार मानते हैं । यथा—मृदु, तीक्ष्ण रुक्ष, लघु, रिनग्ध, उच्च और शीतल । और कोई आचार्य वीर्य को दो प्रकार का मानते हैं । यथा—शीत और उच्च । रस, विपाक और प्रभाव इनसे व्यतिरिक्त जो द्रव्य के अन्दर छिपी शक्ति विशेष कार्य करती है, उसका नाम 'वीर्य' है । कार्यरहित वस्तु कुछ क्रिया नहीं कर सकती, सम्पूर्ण क्रियावें वीर्य अर्थात् शक्ति से होती है ।

रस, वीर्य और विपाक के पृथक्-पृथक् लक्षण कहकर अब एक द्रव्य में स्पष्ट करते हैं । जिहा के साथ किसी पदार्थ का सम्बन्ध होने पर जो रस ( खट्टा, कहुवा ) अनुभव होता है, वह रस, वस्तु के पाचन होने के पीछे शरीर में कफ-वृद्धि, पित्तवृद्धि, वीर्यवृद्धि, वातवृद्धि आदि कार्य के होने से जो अनुभव होता है, उसका नाम विपाक है । वस्तु का ( पचन से पूर्व और रसना के सम्बन्ध होने के पीछे ) शरीर के साथ संयोग होने से वीर्य का शान होता है । तथा—जलचर प्राणियों के मांस का जिहा के साथ सम्बन्ध मात्र से उण्ठत्व स्पष्ट हो जाता है, मरिच का तीक्ष्णवीर्य जिहा स्पर्श से मालूम हो जाता है । मरिच की अग्निवर्धक दीपन क्रिया शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर शान होती है । रसका शान द्रव्य का जिहा के साथ सम्बन्ध होने से तरुणत होता है; विपाक का शान कर्म से; वीर्य का शान-शरीर में जब तक रहने से तथा जिहा के साथ सम्बन्ध होने से तरुणत होता है ।

१. 'मृदुतीक्ष्णगुरुरिनग्धलघुक्षोष्णशीतलम् ।' इति च पाठः ।

होने से होता है । रस प्रत्यक्ष है, विपाक सदा परोक्ष और वीर्य अनुमान द्वारा ज्ञात होता है । यथा—सैन्धव नमक शीत वीर्य और जलचर मांस उष्ण है । कहीं २ वीर्य का प्रत्यक्ष द्वारा भी ज्ञान हो जाता है । यथा—राई को चखकर तीक्ष्ण वीर्य का पता लग जाता है । यह वीर्य सहज और कृत्रिम है, उड़द का भारीपन और मूँग का इल्कापन यह स्वभाव से ही है । और लाजा का इल्कापन यह कृत्रिम है ॥ ६१-६३ ॥

रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते ।

विशेषः कर्मणां चेव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ ६४ ॥

कटुकः कटुकः पाके वीर्येज्ज्ञायित्रको मतः ।

तद्वृद्धन्तीं प्रभावात् विरेचयनि मानवम् ॥ ६५ ॥

विर्यं विषध्रमुक्तं यत् प्रभावस्तत्र कारणम् ।

उड्डर्वानुलोमिकं यज्ञं तत्प्रभावप्रभावितम् ॥ ६६ ॥

मणीनां धारणीयानां कर्म यद्विविधात्मकम् ।

तत्प्रभाव कुतं तेषां, प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ ६७ ॥

किंचिद्रसेन कुरुते कर्म वीर्येण चापरम् ।

द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किञ्चन ॥ ६८ ॥

रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तानपोहति ।

बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं बलम् ॥ ६९ ॥

सम्यग्विपाकवीर्यणि प्रभावश्चाप्युदाहतः ।

प्रभाव—जिस स्थान पर रस, वीर्य और विपाक की समानता होने पर भी कार्य में विशेषता उत्पन्न होती हो, उसे 'प्रभाव' कहते हैं । जिस प्रकार वित्रक ( चीतामूल ) का रस कटु, विपाक कटु और वीर्य उष्ण है, उसी प्रकार दन्ती ( जमालगोटा ) भी कटु रस, कटु विपाक और उष्णवीर्य है । परन्तु जमालगोटा विरेचन करता है, चीता नहीं करता । जो विष विष को ( सावर विष जंगम विष को—'तस्माद् दंष्ट्राविषं मौलम्' ) नष्ट करता है, उसका भी कारण प्रभाव है । जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों मार्गों का संशोधन करता है, वह भी प्रभाव है । मणियों के धारण करने से विषनाश, शूलहरण आदि जो नाना प्रकार के कार्य होते हैं, वे सब प्रभाव के कारण ही होते हैं । द्रव्य द्रव्य की वह अचिन्त्य शक्ति है जिसके विषय में कुछ कह नहीं सकते कि ज्ञात होता है । कोई द्रव्य अपने रस से, कोई वीर्य से, कोई गुण से, कोई विपाक से कार्य करता है । किसी पदार्थ में रस आदि का बल

समान हो, तो वहाँ पर रस को विपाक, रस और विपाक को वीर्य, रस, विपाक, वीर्य को प्रभाव अपने स्वाभाविक बड़ से जोत लेता है। जिस प्रकार कि मैंस की चर्वी रस और विपाक में मधुर है, परन्तु वीर्य-उष्ण है, इसलिये वह मधुर रस के कार्य पित्त-श्वामन को न करके, उष्ण वीर्य के कार्य पित्तप्रकोप को करता है। मद्य, इसका रस और विपाक अम्ल है, वीर्य उष्ण है, परन्तु यही मद्य अपने प्रभाव से इन तीनों को रह करके छियों में दुग्ध उत्पन्न करता है। अब तक विपाक, वीर्य और प्रभाव का वर्णन भण्डी प्रकार कर दिया है ॥ ६४-६६ ॥

षण्णा रसानां विज्ञानमुपदेश्याम्यतः परम् ॥ ७० ॥  
 स्नेहन-प्रीणनाहाद-मार्दवेरुपलभ्यते ।  
 मुखस्थो मधुरश्वाऽस्य व्याप्रुव्विभितीव च ॥ ७१ ॥  
 दन्तहर्षान्मुखस्थावात्स्वेदनान्मुखवोधनात् ।  
 विदाहाद्वाऽस्यकण्ठस्य प्राशयैवाम्लं रसं वदेत् ॥ ७२ ॥  
 प्रलीयन्क्लेदविष्यन्दमार्दवं कुरुते मुखे ।  
 यः शीघ्रं लबणो ज्ञेयः स विदाहान्मुखस्य च ॥ ७३ ॥  
 संवेजयेद्यो रसना निपाते तुदतीव च ।  
 विदहन्मुखनासाक्षिं संस्नावी स कटुः स्मृतः ॥ ७४ ॥  
 प्रतिद्वन्द्विति निपाते यो रसनं स्वदते न च ।  
 स विक्तो मुख-चैश्य-शोष-प्रह्लाद-कारकः ॥ ७५ ॥  
 वैश्य-स्त्रभ-जाड्यैर्यो रसनं योजयेद्रसः ।  
 वधातीव च यः कण्ठं कषायः स विकास्यपि ॥ ७६ ॥ इति ॥

इसके आगे छ: रसों के लक्षण कहते हैं। जो रस स्त्रियाधता, प्रसन्नता, आल्हाद अथवा मृदुता उत्पन्न करता है, मुख में रखने से समूर्ण मुख को चिकास से भर देता है, लिसलिंघा बना देता है, वह मधुर रस है। जो रस दांतों को खट्टा कर देता है, मुख से थूक (लाला) चुआता है, परीना आता है, मुख में जागृति उत्पन्न कर देता है, मुख और गले में जलन करता है, वह 'अम्ल' रस है। जो रस मुख में रखने से घुलने लगे, क्लिन नमोदार, लाला बहावे, मुख में हल्कापन लाये, मुख में विदाह करता हो, उसे 'लवण' रस कहते हैं। जो रस जीम को छूते ही चुरचुराहट उत्पन्न करे और सुरे जैवा जुमने लगे, मुख को जलाता हुआ नाक और आँखों से पानी बहाने लगे तो 'कहु' रस है। जो रस जीम के साथ स्पर्श होने पर जीम को अड़ कर ले और कुछ अच्छा नहीं लगता और मुख को साफ़ करता है, सुरे जैवा की

आल्हादित करता है वह 'तिक' रस है । जिस रस के खाने से जीभ स्वच्छ, जड़ और स्तम्भित हो जाती है और गले को रोक देता है और हृदय को पीड़ित करता है, वह 'कषाय' रस है ॥ ७०-७६ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयं पुनरग्निवेश उवाच—भगवन् ! श्रुत-  
मेतदवितथमर्थसंपृश्युक्तं भगवतो यथावद् द्रव्यगुणकर्माणिकारे वचः,  
परं त्वाहारविकाराणां वैरोधिकानां लक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानं  
शुश्रृष्टामह इति ॥ ७७ ॥

तमुदाच भगवान् त्रयः—देहनातुपत्यनीकभूतानि द्रव्याणि देह-  
धातुभिर्विरोधमापद्यन्ते, परस्परगुणविरुद्धानि कानिचिन् कानिचित्सं-  
योगात्संस्कारादपराणि देश-काल-मात्रादिभिन्नापराणि तथा स्वभावा-  
दपराणि ॥ ७८ ॥

तत्र यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपगुज्यन्ते तेषामेकदेशं वैरोधिक-  
मधिकृत्योपदेश्यामः—न मत्स्यान् पयसा सहाध्यवद्दरेत्, उभयं  
होतन्मधुरं मधुरविपाकं महाभिष्यन्दि शीतोष्णत्वाद्विरुद्धवीर्यं विरुद्ध-  
वीर्यत्वाच्छाणितप्रदूषणाय महाभिष्यन्दित्वान्मार्गोपरोधाय चेति ॥ ७९ ॥

इस प्रकार से कहते हुए महर्षि आत्रेय को अग्निवेश ने कहा कि हे भगवन् ! आपने द्रव्यगुण कर्म के विषय में जो कुछ अर्थयुक्त वाणी कही है, वह यथार्थ रूप में सुन ली । परन्तु विरुद्ध आहार के लक्षणों को विस्तार से सुनने की इच्छा से, इच्छिये आप उसको प्रतिगदन करें । इस पर आत्रेय श्रूपि ने कहा—शरीर के रसादि सात धातु या वातादि दोष, इनको प्रकृति के विरुद्ध करने (दूषित करने) वाले द्रव्यों से शरीर के धातु विरुद्ध जाते हैं । इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुणों से कुछ संयोग से और कुछ संस्कार से, कुछ देश, काल, मात्रा से और कुछ स्वभाव से ही दूषित करने वाले (विरोधी गुण के) होते हैं । परस्पर विरुद्ध जैसे मछलियों को दूध के साथ खाना । संयोग विरुद्ध-जैसे पके हुए चहल को उड़दों में मिलाकर खाना । संस्कार विरुद्ध-जैसे कबूतर को सरसों के तेल में भून कर खाना । देश दो प्रकार का है, भूमि और शरीर । भूमि विरुद्ध—रात और धूल में मिला भोजन या परोष में बना भोजन खाना । शरीरविरुद्ध—उष्णावस्था में मधु खाना । समयविरुद्ध—बासी रक्खा मक्कोय का ; खाना । मात्रा विरुद्ध—एक बजन में मधु और भी खाना । स्वभाव विरुद्ध-  
विष ओष के विरुद्ध दसगुण रखता है । इनमें से जो विरोधी द्रव्य  
में व्यवहार किये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण देते हैं । यथा-

मछलियों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । क्योंकि दोनों ही वस्तुएं मधुर रस और मधुर विपाक वाली हैं । इसलिये दोनों को एक साथ सेवन करने से कफ की बहुत वृद्धि होती है, दूध शीतकीर्य और मछलियां उष्णकीर्य हैं । इसलिये रक्त को दूप्रिय करती हैं और महा अभिष्यन्ति होने से स्रोतों को रोक देंगी ॥

तदनन्तरभावेयवचनमनुनिशम्य भद्रकाप्योऽग्निवेशमुवाच—  
सर्वानेव मत्स्यान् पयसा सहाभ्यवहरेदन्यत्रैकस्माच्छिलिचिमात्, स पुनः  
शक्ती सर्वतो लोहितराजी रोहितप्रकारः प्रायो भूमौ चरति, तं चेत्प-  
यसा सहाभ्यवहरेत्रिःसंशयं शोणितजानां विवन्धजानां च व्याधीनाम-  
न्यतममथवा मरणं प्राप्नुयादिति ॥ ८० ॥

आत्रेय महर्षि के वचन को अवण कर भद्रकाप्य मुनि अग्निवेश को बोले कि एक चिलचिम मछली को छोड़कर और सब मछलियों को दूध के साथ खा सकते हैं । इस चिलचिम मछली पर चारों ओर लाल लाल रेखाएँ, धारियां होती हैं, इसका रंग लाल होता है और प्रायः भूमि ( रेगिस्तान, जैसलमेर में जिसे रेगमाही मच्छी कहते हैं ) में किरणी हैं । इस मछली को दूध के साथ खाने से निश्चय रूप में रक्तजन्य या अवरोध ( मलमूत्र ) जन्य रोगों या मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है ॥ ८० ॥

नेति भगवानात्रेयः । सर्वानेव मत्स्यान् पयसाऽभ्यवहरेद्विशेषतस्तु  
चिर्लिचिमं, स हि महाभिष्यन्दित्वातस्थलक्षणतरानेतान् व्याधीनुपज-  
नयत्यामविषमुदीरयति च ॥ ८१ ॥

प्रास्यानूपौदकविशितानि च मधु-तिळ-गुड-पयो-माष-मूलक-विसै-  
विसैरुद्धान्येत्र नैकधाऽद्यात्, तन्मूलं च बाधिर्यान्ध्य-वेपशु-जाङ्घ-विक-  
ल-मृक्तामैन्मिष्यमथवा मरणमान्नोति न पौष्टकर, रोहिणीकं शाकं,  
कपोतान् वा सर्वपत्तेल-मृष्टान्मधुपयोऽर्था सहाभ्यवहरेत्, तन्मूलं हि  
शोणिताभिष्यन्द-धमनी-प्रविच्चयापस्मार-शङ्खकनालगण्ड-रोहिणीकाना-  
मन्यतमं प्राप्नोत्यथवा मरणमिति । न मूलक-लशुन कृष्णगन्धार्जक-  
सुमुख-सुरसादीनि भक्षणित्वा पयः सेव्यं, कुष्ठावाधभयात् । न जातुक-  
शाकं न लिकुचं पक्क मधुपयोऽर्था सहोपयोज्यं, एतद्वि मरणायाथवा  
बल-वर्णनेजो-बीर्योपरोधायालघुव्याधये वाणद्वाय चेति । तदेव लिकुचं  
पक्क न माष-सूप-गुड-सर्पिंभिः सहोपयोज्यं वैरोधिकत्वात् । तथाऽम्लाङ्ग-  
तक-मातुलुङ्ग-लिकुच-करमद्भूमोच-इन्त-शठ-षट्ठ-दर-कोशान्न-भव्य-जल-  
कपित्थ-तिन्तिढीक-पारावताक्षोट-पनस-नालिकेर-दाहिमामछली की

प्रकाराणि चान्यानि सर्वं चामलं द्रवमद्रवं च पयसा सह विरुद्धम् । तथा ककुवनक-मकुष्ठक-कुलत्थ-माप-निष्ठावाः पयसा सह विरुद्धः ॥ पद्मोत्त-  
रिकाशाकं शार्करो मेरेयो मधु च सहापयुक्तं विरुद्धं वातं चातिकापयति ।  
हारिद्रिकः सर्षप-तेल-भृष्टो विरुद्धः पित्तं चातिकापयति । पायसां मन्था-  
नुपानो विरुद्धः श्लेष्माणं चातिकापयति । उपोदिका तिलकलकसिद्धा  
हेतुरतीसारस्य । बलाका वारुण्या सह कुल्मापरंपि विरुद्धा । सर्वं  
सूकरवसापरिभृत्या सद्यो व्यापादयति मायूर-मांसमेरण्ड-सीसकावस-  
क्तमेरण्डाग्नि-प्लुष्टमेरण्ड-तेल-युक्तं सद्यो व्यापादयति तदेव भस्मपांसु-  
परिध्वस्तं सक्षाद्रैं मरणाय । हारीतकमांसं हाराद्रसीसकावसक्तं हारिद्रा-  
ग्निप्लुष्टं सद्यां व्यापादयति । तदेव भस्मपांश्चपारध्वस्तं सक्षाद्रैं मरणाय  
मत्स्यानेस्तालनसिद्धाः पिप्पल्यस्तथा काकमाचीं मधु च मरणाय;  
मधु चोष्णमुष्णात्सस्य च मधु मरणाय । मधुसर्पिणी समधृतं; मधु वारि-  
चान्तरिक्षं समधृतं, मधुपुष्करवीजं, मधु पात्वाष्णोदकं, भज्ञातकाष्णो-  
दकं; तकसिद्धः कम्पिल्लकः, पर्युषिता काकमाची, अङ्गारशूल्या भास-  
ओति विरुद्धानि—इत्येतद्यथाप्रथमभिनिर्दिष्टं भवतीत ॥ ८२ ॥

भगवान् आव्रेय ने कहा—यह ठोक नहीं । सभी मछलियां को दूध के साथ  
नहीं खाना चाहिये, परन्तु खालकर चिलचिम मछली को तो कभी भी नहीं खाना  
चाहिये । क्योंकि यह मछली ( चिलचिम ) बहुत अभिष्यन्द करने वाली है,  
इसलिये भयंकर बड़े २ रंगों को और आमविश को उत्पन्न करती है । ग्राम्य,  
आनूप और जलचर प्राणियों का मांस, मधु, तिल, गुड, दूध, उड्ढ, मूली,  
भिस, नाल, अंकुरित धान्यों के साथ एक साथ नहीं खाना चाहिये । इन के  
साथ में खाने से बहरापन, अन्वत्व, कम्पन, जड़ता, अव्यक्त उच्चार ( मिनिम )  
गूँगापन, नाक से बोलना, अथवा मरण तक हो सकता है । पुष्करपत्र के शाक  
कटु रोहिणी के शाक का, या कबूतर के मांस के सरसी के तेल में भूनकर दूध  
और शहद के साथ नहीं खाना चाहिये; इन के खाने से रक्ताभिष्यन्द,  
सिराजन्य ग्रनियन्योग, अपस्मार, शंखकशूल, गलगण्ड, रोहिणी ( कण्ठरोहिणी )  
रोगों में से कांई एक रोग अथवा मृत्यु प्राप्त होती है । मूली, लहसुन, शोभाज्ञन  
की भाजी, अर्जक ( कुठरेक ), सुमुख ( राई ) और तुलसी आदि को खाकर  
दूध नहीं पीना चाहिये, क्योंकि कुष्ठरोग होने की दंका है । वंशपत्रिका का  
दूध या पके हुए ढ्यो ( बढ़हल ) को शहद और दूध के साथ नहीं खाना

रिदकः इति च पाठः ।

चाहिये, क्योंकि इन के स्वाने से या तो मृत्यु हो जाती है, अथवा बल, वर्ण, तेज, वीर्य का नाश होता है और बड़े २ रोग तथा नपुंसकता उत्पन्न होती है। इसी पके हुए ढ्यो फल को उड्डद की दाल, गुड़ और धी के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये क्योंकि संयोग विशद है। इसी प्रकार कच्चे आम, विजौरा, ढ्यो, करौंदा, केला, निम्बू, बेर, जंगली आम, कमरख, जामुन, कैथ, इमली, फालसा, अखरोट, पनस ( कटहल ), नारियल, अनार, आंबला या इस प्रकार के अन्य सब तरल अथवा ठोस सब प्रकार के खट्टे पदार्थ दूध के साथ विरोधी गुण रखते हैं। इसी प्रकार कंगु ( नीबार धान्य ), जंगली मूंग, मोठ, कुलत्थी, उड्डद, या पिछी से बने पदार्थ दूध के साथ विरोधी हैं। पद्मोद्धरिका के शाक, को शब्दर, मैरेय, मधु के साथ खाना विशद है और वायुकारक है। कबूतर को सरसों के तेल में भूनकर खाना विशद है, वह पिच को बहुत कुशित करता है। सन्तू को दूध में या खीर में ध्यकर खाना विशद है और अधेष्ठा को बढ़ाता है। तिल कल्क के साथ तेयार की हुई चौलाई की भाजी अनुसार रोग को उत्पन्न करती है। बलाका ( पक्षी ), वारुणी-शराव तथा कुलमाप ( धान्य ) के साथ विशद है। इसी बलाका पक्षी को सुअर की चर्ची में भूनकर खाने से शीघ्र मरण होता है। मोर का मांस, एरण्ड की कड़छी ( खौंचा, भूनने की लकड़ी ) से, एरण्ड की लकड़ियों की आग से, एरण्ड तैल में पकाकर खाने से तुरन्त मार देता है। हल्दा कबूतर का मांस, हल्द की लकड़ी की बना कड़छी से, हल्द की लकड़ियों के आंच में पकाकर खाने से शीघ्र मार देता है। इसी कबूतर के मांस को राख, धूल में मिले हुए शहद में मिलाकर खाने से मृत्यु होती है। मछलियों की चर्ची में अथवा जिस वर्षान में मछलियां पकाई जाती हैं, उसी पात्र में पिपली, मकोय या शहद पकाकर खाने से मृत्यु होती है। उष्ण क्रिया करने पर या उष्ण शरीरावस्था में गरम शहद खाना मृत्यु का कारण होता है। एक मात्रा में मधु और धी, मधु और वृष्टि जल, शहद और कमलगटा, मधु पीकर गरमपानी, भिलावा और गरमपानी, छाँड़ में सिद्ध पकाया कमीला, रात की बातों रखती मकोय, अंगारों पर शूलाङ्गुत भास ( कुकुट ) पक्षी का मांस ये विशद होते हैं। ये प्रश्न के अनुसार विरोधी अन्न कह दिये गये ॥ ८१-८२ ॥

भवन्ति चात्र असेकाः—

यस्त्विचिद्वोषमुत्क्लेश्य न निर्दृति कायतः ।

आहारजातं वत्सर्वमहितायोपपश्यते ॥ ८३ ॥

यज्ञापि देश-कालाभ्यन्मात्रा॑-सात्म्यानिलादिभिः ।  
 संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्टावस्थाकमैरपि ॥ ८४ ॥  
 परिहारोपचाराभ्यां पाकात्संयोगतोऽपि च ।  
 विरुद्धं तच्च न हितं हृत्संपद्विधिभिश्च यत् ॥ ८५ ॥  
 विरुद्धं देशतस्तावद्रूपशीक्षणादि धन्वनि ।  
 आनुपे रिनग्धशीतादि भेषजं यन्निषेव्यते ॥ ८६ ॥  
 कालतोऽपि विरुद्धं यच्छीत-रूपशादि-सेवनम् ।  
 शीते काळे तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम् ॥ ८७ ॥  
 विरुद्धमनले तद्वन्नानुरूपं चतुर्विधे ।  
 मधुसर्पिः समधृतं मात्रया तद्विरुद्धते ॥ ८८ ॥  
 कटुकोष्णादिसात्म्यस्य स्वादुशीतादि-सेवनम् ।  
 यत्तस्तात्म्यविरुद्धं तु, विरुद्धं त्वानलादिभिः ॥ ८९ ॥  
 या समानगुणाभ्यां सविरुद्धान्नोषधक्रिया ।  
 संस्कारतो विरुद्धं तद्यद्गोब्यं विषवद् भवेत् ॥ ९० ॥  
 ऐरण्डसीसकासकं शिखिमार्सं तथैव हि ।  
 विरुद्धं वीर्यां ज्ञेयं वीर्यतः शांतलात्मकम् ॥ ९१ ॥  
 तत्संयोजयोष्णवोर्येण द्रव्येण सह सेव्यते ।  
 क्रूकोष्ठस्य चात्यलं पं मन्दवीर्यमभेदनम् ॥ ९२ ॥  
 भृतुकोष्ठस्य गुरु च भेदनीयं तथा वहु ।  
 एतत्कोष्ठविरुद्धं तु, विरुद्धं स्यादवस्थया ॥ ९३ ॥  
 अम-व्यवाय-न्यायाम-सक्तस्यानिलकोपनम् ।  
 निद्रालसस्यालसस्य भोजनं श्लेष्मकोपनम् ॥ ९४ ॥  
 यज्ञानुत्सृज्य विषमूर्च्छा भुड्के यश्चाद्युभुक्षितः ।  
 तच्च क्रमविरुद्धं स्याद्यज्ञातिक्षुद्रशानुगः ॥ ९५ ॥  
 परिहारविरुद्धं तु वराहादीनिषेव्य यत् ।  
 सेवेतोष्णां, घृतादीश्च पीत्वा शीतं निषेवते ॥ ९६ ॥  
 विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्टदुर्दीरुसाधिनम् ।  
 अपक-तण्डुलात्यर्थ-पक्ष-दग्धं च यद्वेत् ।  
 संयोगतो विरुद्धं यद्यथाऽमलं पयसा सह ।  
 अमनोरुचितं यज्ञ हृद्विरुद्धं तदुच्यते ॥ ९८ ॥

[स्यासात्म्यानिलादिभिरिति च पाठः ।

संपद्विरुद्धं तद्विद्यादसंजावरसं तु यत् ।

अतिक्रान्तरसं वाऽपि विपन्नरसमेव वा ॥ ६६ ॥

झीर्णं विधिविरुद्धं तु भुज्यते निभृतेन यत् ।

तदेवंविधमन्नं स्याद्विरुद्धमुपयोजितम् ॥ १०० ॥

सात्म्यतोऽल्पतया वाऽपि दीप्ताग्रेस्तरुणस्य च ।

स्नेह-व्यायाम-बलिनो विरुद्धं वितर्थं भवेत् ॥ १०१ ॥

षाष्ठ्यान्ध्य-वीसर्प-दकोदराणां विस्फोटकोन्माद-भगन्दराणाम् ।

मूर्च्छा-मदाध्मान-गलामयानां पाण्डवामयस्याऽस्म-विषस्य चैव ॥ १०२ ॥

किलाद-कुष्ठ-ग्रहणी-गदानां शोषास्त्र-पित्त-ज्वर-पीनसानाम् ।

संतानदोषस्य तथैव मृत्योविरुद्धमन्नं प्रवदन्ति हेतुम् ॥ १०३ ॥

जो भोजन दोषों को विशेष स्पृ में कुपित करके शरीर से बाहर नहीं करता, अर्थात् कुपित अवस्था में शरीर में ही रहने देता है वह सब अन्न अहितकारी होता है । इसी प्रकार देश, काल, अग्नि, सात्म्य, वायु आदि दोष, संस्कार वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृत-संपत् और विधि में जो द्रव्य विरोधी हों, वे अहितकारी हैं । मारवाह आदि निर्जल देशों में रुक्ष, तीक्ष्ण पदार्थ; जलबहुल ( बंगाल आदि ) प्रदेश में लिङ्ग और शीत पदार्थों का सेवन करना देशविरुद्ध है । इसी प्रकार शीत शून्य में शीत और रुक्ष पदार्थों का सेवन या उष्णकाल में कटु और उष्ण पदार्थों का सेवन कालविरुद्ध है । अग्नि के विषम, मन्द या तीक्ष्ण या सम इन चार प्रकार की जाठराग्नि में विरोधी अन्न-पान (यथा-तीक्ष्णाग्नि में मन्द आद्वार और मन्दाग्नि में गुरु आद्वार करना) विरोधी है । मधु और धी एकसमान मात्रामें परस्पर विरोधी हैं । जिस पुरुषको कटु, उष्ण आदि वस्तुओं का सात्म्य हो, वह यदि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करे तो यह सात्म्य-विरोधी है । समान गुणों के अभ्यास के विशद जो आद्वार है वह वायु आदि दोषों का भी विरोधी है । एरण्ड की कढ़ी से पकाया हुआ मोर का मांस विष के समान होने से संस्कार-विरुद्ध है । जो वस्तु शीतवीर्य हो उस को यदि उष्णवीर्य की वस्तु के साथ मिलाकर खाया जाये तो यह वीर्य-विरोधी है । क्रूरकोष्ठ वाले पुरुष को योद्धा, मृदुवीर्य अथवा अरेचक पदार्थ देना और मृदुकोष्ठ वाले पुरुष को गुरु, बहुत अथवा रेचक पदार्थ देना, कोष्ठविरोधी है । परिग्रम, मेशुन, ऊसंग और व्यायाम में लगे हुए पुरुष को वायुकोपक आद्वार देना या निद्राशील, आलड़ी पुरुष को कफकोपक भोजन देना अवस्थाविरुद्ध जो मल मूत्र का त्वाग किये बिना, बिना भूख के खाना, अथवा बहुत कमी

लाचार होकर खाना ये क्रमविशद है। सुअर आदि का मास खाकर या गरम अथवा घी आदि खाकर ऊपर शीतल पदार्थों का सेवन करना परिहार विरोधी है। दुष्ट या बुरी (बांस आदि, या मिठी के तेल से) लकड़ियों से पकाये, कच्चे-पके, बहुत पके, या जले हुए चावल आदि आहार का खाना पाकविरोधी कहते हैं। खटाई का दूध के साथ संयोग करना यह संयोगविरोधी है। जो आहार मन को नहीं रुचता वह हृदयविरोधी है। जिस आहार में रस उत्पन्न नहीं हुआ वह सम्पदविशद है। इसी प्रकार जिस आहार का रस नष्ट हो गया या विगड़ गया है, वह भी सम्पदविशद है। जो भोजन एकान्त में नहीं खाया जाता है वह आहारविधि अर्थात् शाख के विशद है। इस प्रकार का विरोधी अन्न भी स्वस्थ पुरुष को, जिसकी अग्नि दीप्त हो, युवा पुरुष को, साल्य वन गया हो, या अल्पमात्रा में हो अथवा स्नेह एवं व्यायाम से बलवान् बने पुरुष को विशद भोजन विशेष हानि नहीं करते।

विरोधी अन्न के सेवन से निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। यथा—नयुंतकता, अन्त्वापन, वीसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भग्नदर, मूर्ढा, मद, अकाश, गलरोग, पाण्डुरोग, आमविष, किलास, कुछ, संग्रहणी, शोष, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस। इसी प्रकार संतति में पहुँचने वाले दोषों एवं मृत्यु का भी कारण विशद आहार को ही कहते हैं॥ ८८—१०३॥

एषां च खलु परेषां च वेरोधिकनिमित्तानां व्यधीनामिमे भावाः प्रतिकारा भवन्ति। यथा—वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोगः, तथाविधैश्च द्रव्यैः पूर्वमभिसंस्कारः शरीरस्येति॥ १०४॥

इस प्रकार के विशद अन्न पान के सेवन से अथवा अन्य विरोधस्पी कारणों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के ये उपाय हैं। यथा—वमन, विरेचन, उक रोगों के विरोधी द्रव्यों का शान्ति के लिये उपयोग करना, विशद आहार-जन्य रोगों के विशदद्रव्यों का निरन्तर उपयोग करके शरीर को संस्कृत करना, अथवा रसायन औषधियों से शरीर को शुद्ध करना॥ १०४॥

भवति चात्र—विशदाशनजान् रोगान् प्रतिद्वन्ति विरेचनम्।

वमनं शमनं चैव पूर्वं वा हितसेवनम्॥ १०५॥

विशद आहार से उत्पन्न रोगों को विरेचन, वमन, संशमन किया अथवा

प्रधि के निवारणार्थ पहले ही पथ्य तदा दशायनादि का सेवन नष्ट

करना॥ १०५॥

तत्र शोकः—मतिरासीन्महर्षीणां या या रसविनिश्चये ।  
 द्रव्याणि गुणकर्मभ्यां द्रव्यसंख्या रसाश्रयाः ॥ १०६ ॥  
 कारणं रससंख्या या रसानुरसलक्षणम् ।  
 परादीनां गुणानां च लक्षणानि पृथक् पृथक् ॥ १०७ ॥  
 पञ्चात्मकानां पद्मत्वं च रसानां येन हेतुना ।  
 ऊर्ध्वानुलोमभाजश्च यद्गुणातिशयाद्रसाः ॥ १०८ ॥  
 षण्णां रसानां पद्मत्वे च सविभक्ता विभक्तयः ।  
 उद्देशश्चापवादश्च द्रव्याणां गुणकर्मणी ॥ १०९ ॥  
 प्रवरावरमध्यत्वं रसानां गौरवादिषु ।  
 पाकप्रभावयांलिङ्गं वीर्यसंख्याविनिश्चयः ॥ ११० ॥  
 षण्णामास्वाद्यमानानां रसानां यत्स्वलग्नम् ।  
 यद्यद्विरुद्धते तस्मादेन यत्कारि चैव यत् ।  
 वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामौषधं च यत् ।  
 आत्रेयभद्रकार्प्यीये तत्सर्वमवदन्मुनिः ॥ ११२ ॥

रस-निश्चय सम्बन्ध में महर्षियों की भिन्न २ मति, द्रव्यों के गुण कर्म, रस की संख्या, इन के भेद होने के कारण, रस या अनुरस का लक्षण, पर आदि गुण एवं उन के लक्षण, दंच महाभूतों से उत्पन्न रसों की संख्या, कौन कौन द्रव्य ऊर्ध्वगामी, अधोगामी किया करते हैं, छः रसों के विभाग, रसके आधारभूत द्रव्यों के सामान्य गुण, कर्म और इनके अपवाद, गोरव, लघुता, रसों में उत्कृष्ट, मध्यम, अवर भेद, विपाक, प्रभाव का लक्षण, वीर्य कितने प्रकार का, छः रसों के लक्षण, परस्पर विरुद्ध द्रव्य, इन के सेवन से उत्पन्न विकार एवं इन रोगों की औषध ये सब विषय इस 'आत्रेय-भद्रकार्प्यीय' अध्याय में आत्रेय शृष्टि ने कह दिये ॥ १०६-११२ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेऽजपानचतुष्के  
 आत्रेयमद्रकार्प्यीयोऽध्यायः षड्विशतिमः समाप्तः ॥ २६ ॥

सप्तविशोऽध्यायः ।

अथातोऽजपानदिघिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
 इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे अन्नपानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२॥

इष्ट-बर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शं विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणिसंज्ञ-  
कानां प्राणमाचक्षते कुशलाः, प्रत्यक्षफलदर्शनात्, तदिन्धना ह्यन्तराग्नेः  
स्थितिः; तत् सत्त्वमूर्जयति, तच्छरीर-वातु-न्यूह-बल-बर्णं निद्र्यप्रसाद-  
करं यथोक्तमुपसेव्यमानं, विपरीतमहिताय संपद्यते ॥ ३ ॥

प्रिय या हितकर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शयुक्त विधिपूर्वक<sup>१</sup> सेवन किया अन्न पान, प्राणिमात्र का प्राण है; ('अन्न वै प्राणाः') ऐसा विद्वान् मनुष्य कहते हैं। सब प्राणियों के प्राण स्थिर रखने के लिये आहार मुख्य कारण है। यह यात प्रत्यक्ष प्रभाव से भी सिद्ध है। ठांक प्रशार सेवन करने पर अन्न शरीर में स्थित जाठराग्नि का आधार है और इस अग्नि का अन्न इन्धन रूप होता है। अन्न के सेवन करने से मन की शक्ति बढ़ती है, शरीर के धातुसमूह, बल वर्ण बढ़ता है, तथा इन्द्रियां निर्मल होती हैं। विधि से विपरीत<sup>२</sup> सेवन करने पर अन्न, विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥

तस्माद्द्विताहि तावोधनार्थमन्नगानविधिमदिलेनोपदेश्यमोऽग्नि-  
वेश ! तत्स्वभावादुकं ल्लेदयति, ल्लवणं विष्यन्दयति, क्षारः पाचयति,  
मधुं संधधाति, सर्पिः स्नेहयति, क्षीरं जीवयति, मांसं वृंदयति, रसः  
प्रीणयति, सुरा जर्जरांकरोति, शीघ्रुरवधमयति, द्राक्षासवो दोषयति,  
फाणितमाचिनोति, दधि शोफं जनयति, पिण्याकशाकं ग्लपयति, प्रभू-  
तान्तर्मलो माषसूपः, दृष्टिशुक्रवनः क्षारः, प्रायः पिरालमस्लमन्यत्र दाढ़ि-  
मामलकात्, प्रायो मधुरं श्लेष्मलमन्यत्र मधुनः पुराणाच्च शालियवगो-  
धूमात्, प्रायः सर्वं तत्कं वातलमवृष्यं चान्यत्र वेत्राग्रपटोलात्, प्रायः  
कदुकं वातलमवृष्यं चान्यत्र पिपलीविश्वभेषजात् ॥ ४ ॥

इसलिये है अग्निवेश ! हितकारी और अहितकारी विषयका शान करने के लिये अन्न-पान विधि को विस्तार से कहते हैं। स्वाभाविक रीति से जल (क्लिन्टा) उत्पन्न करता है। लवण विष्यन्द (नरम बनाना, जलसाब उत्पन्न) करता है। क्षार पाचन करता है, शहद जोड़ता है, धी निकान बनाता है। दूध जीवन देता है, मांस वृंदण पोषण देता है। रस क्षीणता को पुष्ट करता है। मद्य शरीर को जीर्ण करता है। शैधु [सिरका] शरीर का लेखन करता है, द्राक्षासव अग्नि को बढ़ाता है।

<sup>१</sup> सूत्रस्थान इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय (८। स० १६) में ('नारक-  
द्वितीयादि भोजन करने के सम्बन्ध में उचित विश्वान किया है।

फाणित [ राब ] वात, पित्त, कफ इन को बढ़ाता है, दही सूजन को उत्पन्न करता है। पिण्याक (तिलकल्क ) और हरे शाक प्रसन्नता का नाश करते हैं। उड़द की दाल मल को विद्येष रूप से उत्पन्न करती है। शार नेत्र और शुक्र को नाश करते हैं। अनार और आंवले को छोड़ कर प्रायः सब अस्त्र पिचका-रक हैं। मधु और पुणे चावल, जौ और गेहूं को छोड़कर प्रायः करके मधुर रस कफकारक होता है, बैंत के अग्रिम भाग और परबल को छोड़ प्रायः करके सब तिक्त रस वायुकारक और शुक्रनाशक होते हैं। पिप्पली और सोठ को छोड़ कर प्रायः करके सब कटु रस वायुकारक तथा शुक्रनाशक हैं ॥ ४ ॥

**परमतो वर्गसंप्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यामः ॥ ५ ॥**

शूक्रधान्य-शमीधान्य-मांस-शाक-फलाश्रयान् ।

**वर्गान् हरित-मद्याम्बुनोरसेष्वं विकारिकान् ॥ ६ ॥**

दश द्वौ च पर्वौ वर्गौ कृतान्नाहारयोगिनाम् ।

**रसवीर्यविपाकैश्च प्रभावैश्च प्रचक्षमहे ॥ ७ ॥**

इस के आगे वर्गकम से आहार पदार्थों की व्याख्या करेंगे। यथा—शूक्रवर्ग, शमीधान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, फलवर्ग, हरितवर्ग, मद्यवर्ग, अम्बुवर्ग, गोरसवर्ग, इक्षुविकारवर्ग, कृतान्नवर्ग और आहारयोगवर्ग। इन बारह वर्गों में सब द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वर्णन करेंगे ॥ ५-७ ॥

अथ शूक्रधान्यवर्गः—

रक्तशालिर्महाशालिः कलमः शकुनाहृतः ।

तूष्णिको दीधेशूक्रश्च गौरः पाण्डुकलाङ्गलौ ॥ ८ ॥

सुगन्धिका लाहवालाः शारिवाख्याः प्रमादकाः ।

पतञ्जास्तपनीयाश्च ये चान्ये शाल्यः शुभाः ॥ ९ ॥

शीता रसे विपाकं च मधुराः स्वल्पमारुताः ।

बद्धाल्पवर्चसः स्तिंघां बृंहणाः शुक्रमूत्रलाः ॥ १० ॥

रक्तशालिर्वरस्तेषां तृष्णाग्रन्धिमलापहः ।

महास्तस्यानु कलमस्तस्याप्यनु ततः परे ॥ ११ ॥

यवका हायनाः पांशुवाप्या नैषधकादयः ।

शालीनो शालयः कुर्वन्त्यनुकारं गुणागुणैः ॥ १२ ॥

शीतः स्तिंघोऽगुरुः स्वादुखिदोषघनः स्थिरात्मकः ।

षष्ठिकः प्रवरो गौरः कृष्णगौरस्ततोऽनु च ॥ १३ ॥

बरकोहालकौ चीन-शारदोज्ज्वल-दरुराः ।

गन्धलः कुरुविन्दाश्च षष्ठिकाल्पान्तरा गुणः ॥ १४ ॥  
 मधुरश्चाम्लपाकश्च ग्रीहिः पित्तकरो गुरुः ।  
 बहुमूत्रपूरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ॥ १५ ॥  
 सकोरदूषः इयामाकः कषायमधुरो लघुः ।  
 वातलः कफपित्तद्वनः शीतः संग्राहिशोषणः ॥ १६ ॥  
 हस्ति-इयामाक-नीवार-तोय-पणीं-गवेधुकाः  
 प्रशातिकाप्यः इयामाक-लोहिताणु-प्रियङ्गवः ॥ १७ ॥  
 मुकुन्दो ज्ञिणिटगर्मुटी चारुका वरकास्तथा ।  
 शिविरोत्कटजूर्णाहाः इयामाकसदृशा गुणः ॥ १८ ॥  
 रुक्षः शीतोऽगुरुः स्वादुर्बहुवातशक्त्यवः ।  
 स्थैर्यकृत्सकषायस्तु वल्यः शेषमविकारनुत् ॥ १९ ॥  
 रुक्षः कषायानुरसो मधुरः कफपित्तद्वा ।  
 मेदः क्रिमिविषद्वनश्च वल्यो वेणुयबो भर्तः ॥ २० ॥  
 सन्धानकृद्वातहरो गोधूमः स्वादुशीतलः ।  
 जीवनो बृंहणो वृष्यः स्तिंग्धः स्थैर्यकरो गुरुः ॥ २१ ॥  
 नन्दीमुखी मधूली च मधुरस्तिंग्धशीतले ।  
 इत्यर्यं शूकधान्यानां पूर्वां वर्गः समाप्यते ॥ २२ ॥

रक्तशालि, महाशालि, कलम, शकुनाहृत, तर्णक, दोर्घटक, गौर, पाण्डुक, लंगुल, सुगन्धिकर ( हंसराज ), लोहवाल, शारिवा, प्रमोदक, पतंग और तपनीय तथा अन्य उच्चम शालि ( चावल ) ठण्डे, रस और विपाक में मधुर, किंचित् वातकारक, स्तिंग्ध, पुष्टिकारक, शुक और मूत्रवद्दक हैं । मल को थोड़ा उत्पन्न करनेवाले एवं रोकने वाले हैं ( मधुर विपाक होने से कब्ज़ करना प्रभाव से है ) । इन सब चावलों में लाल चावल श्रेष्ठ हैं, ये लाल चावल तृष्णानाशक और त्रिदोषनाशक हैं । इन से उत्तर कर महान् शालि, फिर कलम और फिर उच्चरोत्तर गुण न्यून होते गये हैं । यवक, <sup>१</sup> हायन, पांसु, वाष्प, नैषष आदि चावल ( मोटे धान्य ) लाल चावल आदि के विपरीत गुण करते हैं । अर्थात् लाल चावल, तृष्णानाशक और त्रिदोषहारक हैं और ये इन के विशद् गुण वाले हैं । ( ३ ) षष्ठिक ( साठी ग्रीष्म श्वस्तु में पकने वाले ) धान्य शीत, लघु,

१. यहाँ पर दिये हुए नाम नाना देशों में प्रसिद्ध हैं । इसलिये सब का किलना असम्भव है । 'शालि' है मन्त्र धान्यम्, षष्ठिकादयश्च, ग्रीष्मकाः, ग्रीष्मद्वाः—इन में यही मेद है ।

मधुर, त्रिदोष नाशक, शरीर को दृढ़ करने वाले हैं। इन में श्वेत साठी श्रेष्ठ हैं, और काली जाति के धान्य इन से हीन गुण वाले हैं, (४) वरक, उद्धालक, चीन; शारद, उज्ज्वल, दर्दुर, गन्धक और कुशविन्द ये घटिक धान्यों की जातियाँ हैं। ये गुणों में हीनगुण वाले होते हैं। (५) श्रीहि (शरद शूद्र में पकने वाले ) स्वावल, मधुर रस, अम्लपाकी, पित्तकारक गुरु हैं। इनमें पाटल जाति का धान्य मल-मूत्रवर्द्धक और त्रिदोषकारक है।

(५) कोशदूष (कोद्रव कुशान्य कोदो). श्यामाक (सांवक) ये धान्य कषाय और मधुर रस, लघु, वायुकारक, कफ-पित्तनाशक, शीतवीर्य, संग्राही और शोषक हैं। (६) हस्ति, संबंध, नीवार (देवभात), तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशातिका; अग्नःश्यामाक, लोहिताणु, प्रियंगु (कांग), मुकुन्द, शिंटी, गर्मुटी, चारुक, वरक, शिविर, उत्कट, जूराह (जोनार) ये सब धान्य गुणों में संबंध के समान हैं। (७) जौ रस्त्र, शीत, गुरु, मधुर रस, वायु और मल-कारक, शरीर को दियर करने वाले, कषाय रस, बल कारक और कफजन्य विकारों को नाश करने वाले हैं। वेणुयव रस्त, मधुर, कषाय अनुरस, कफ-पित्तनाशक, मेद, कुमि और विष के नाशक एवं बलकारक हैं। (८) गोहृं-दूटे हुए को मिलाने वाला, वातनाशक, स्वादु रस, शीत वीर्य जीवनीय, बृहण-कारक, वृथ्य, शुक्रवर्द्धक, स्त्रिगृह, स्थिरताकारक गुरु है। नान्दीमुखी और मधूली ये दोनों मधुर, स्त्रिगृह, शीतल हैं। यह शूक्र-धान्यों का पहिला वर्ग समाप्त हुआ ॥ ८-२२ ॥

इति शूक्रधान्यवर्गः ।

अथ शमीधान्यवर्गः ।

कषायमधुरो रूक्षः शीतः पाके कुर्दलघुः ।

विशदः श्लेष्मपित्तन्नो मुद्रगः सूख्योत्तमो मतः ॥ २३ ॥

वृथ्यः परं वातहरः स्त्रिगृहेणमधुरो गुरुः ।

बल्यो बहुमलः पुरुर्वं भाषः शीघ्रं ददाति च ॥ २४ ॥

राजमाषः सरो रुच्यः कफशुक्राम्ल-पित्तकृत् ।

तत्स्वादुर्वातलो रूक्षः कषायो विशदो गुरुः ॥ २५ ॥

उष्णाः कषायाः पाकेऽम्लाः कफशुक्रानिलापहाः ।

कुचलत्या भ्राह्मणः कास-हिङ्का-श्वासार्शसा हिताः ॥ २६ ॥

मधुरा मधुराः पाकैर्ग्रहिणो रूक्षशीतलाः ।

मकुष्टकाः प्रशस्यन्ते रक्त-पित्त-ज्वरादिषु ॥ २७ ॥

चणकाश्च मसूराश्च खण्डिकाः सहरेणवः ।  
 लघवः शीतमधुराः सकपाया विरुद्धणाः ॥ २८ ॥  
 पित्तमुखेमणि शस्यन्ते सूपेष्वालेपनेषु च ।  
 तेषां मसूरः संग्राही कलायो वातलः परः ॥ २९ ॥  
 द्विधोष्णमधुरस्तिकः कपायः कटुकस्तिलः ।  
 त्वच्यः केश्यश्च बल्यश्च वातग्रः कफपित्तकृत् ॥ ३० ॥  
 गुद्योऽथ मधुराऽशीता वल्ययो रूक्षणात्मिकाः ।  
 सस्नेहा वलिभिर्भूज्या विविधाः शिस्तिजातयः ॥ ३१ ॥  
 शिस्ती रूक्षा कपाया च कोष्टवातप्रकोपिनी ।  
 न च वृष्या न चक्षुष्या विष्ट्रभ्य च विपच्यते ॥ ३२ ॥  
 आढकी कफपित्तव्यी वातला कफवातनुन् ।  
 अबलगुजः सैडगजो, निष्पावा वातपित्तिळाः ॥ ३३ ॥  
 काकाप्डोलात्मगुप्तानां भाष्वत्कलमादिशेन् ।  
 द्वितीयोऽर्थं शम्भाधान्यवर्गः प्रांका महर्विणा ॥ ३४ ॥

शमीधान्य वर्ग— १. मूंग कपाय, मधुर रस, रुक्ष, शीत, विपाक में कटु, लघु, स्वच्छ, स्फेदमित्तनाशक और दालों में सब से उत्तम और शमीधान्यों में भी उत्तम है । २. उड्ढ-अत्यन्त वृष्य, वातनाशक, स्तिरव; उष्ण, मधुर और गुद हैं; ये वल्यकारक, अधिकमात्रा में मल उत्सन्न करने वाले, और युक्तत्व को शीत उत्सन्न करने वाले हैं<sup>१</sup> । राजमाष मल्लभेदक, रुचिकर, कफ, वीर्य और अम्लपित्त को करने वाले, उड्ढ के समान मधुर, वायुकारक, रुक्ष, कपाय, स्वच्छ और गुद हैं । कुलस्थी कपाय रस, विपाक में अम्ल, कफ शुक्र और वायुनाशक, ग्राही (संग्राही) तथा काट, इवास, हिचकी, अर्या रोग में हितकारी है । मोठ मधुर रस, मधुर विपाक, संग्राही, रुक्ष, शीतल, रक्तपित्त तथा ज्वर में प्रशस्त हैं । चने, मसूर, खण्डिक त्रिपुट (फाफरा) और मटर लघु, शीतवीर्य, मधुर, कपाय रस, रुक्ष, कफ-पित्त में हितकारी हैं । इन का उपयोग दाल में तथा लैप में होता है । इन में मसूर सब से अधिक संग्राही और मटर

१. वृष्य वस्तु तीन प्रकार की होती है । यथा—

शुक्लसुतिकरं किञ्चित् किञ्चिन्चुकविवर्धनम् ।

सुतिहृदिकरं किञ्चित् त्रिविधं वृष्यमुच्यते ॥

कोई वस्तु शुक्र का श्वरण करती, कोई शुक्र को बढ़ाती है और कोई दोनों दोनों है । उड्ढ में तीनों प्रकार के गुण हैं ।

सब से अधिक वायुकारक है। तिल ( काले तिल<sup>१</sup> ) स्निग्ध, उष्ण, मधुर रस, तीक्ष्ण, कशाय, तिक, त्वचा और बालों के लिये हितकारी, शक्तिदायक, बातनाशक तथा कफ-पित्तवर्द्धक हैं। यहां पर कहे हुए, शमीधान्यों के सिवाय जो दूसरे गोल जाति के धान्य हैं, वे सब गुरु, मधुर, उष्ण, बलनाशक, रुक्ष, स्निग्ध, शक्तिशाली पुरुषों के स्वाने लायक हैं। सामान्यतः शमीधान्य रुक्ष, कशाय, कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले, अवृप्त्य, नेत्रों के लिये अहितकारी और पचने तक मल मूत्र का अवरोध करने वाले हैं। अरहर ( तुअर ) कफ-पित्तनाशक, वायुकारक है। बाबची, चक्रमर्द के बीज, कफ वायुनाशक हैं। निष्पाव ( सफेद बाल लोभिया ) पित्तकारक, वायुकारक हैं। काकाण्ड ( शूकरशिखी, कौंच ), उमा ( अलटी ), और कौंच इन का गुण उड़द के अनुसार है। इस प्रकार आत्रेय शृष्टि ने शमीधान्य का दूसरा वर्ग कह दिया ॥ २३-३४ ॥

इति शमीधान्यवर्गः ।

अथ मांसवर्गः ।

गोखराश्वतरोश्वाश-द्वीपि-सिंहक्षेप-वानराः ।

वृको व्याघ्रस्तरक्षुश्च बभु-मार्जार-भूषिकाः ॥ ३५ ॥

लोपाको जम्बुकः इयेनो वान्तादश्चाष-वायसौ ।

शशध्नी मधुहा भासो गृध्रोलूक-कुलिङ्ककाः ॥ ३६ ॥

धूमीका कुररक्षेति प्रसदा दृगपक्षिणः ।

गाय, गधा, घोड़ा, ऊँठ, खचर, चीता, सिंह, भालु रीछ, बानर, भेड़िया, व्याघ्र, तरक्कु ( व्याघ्रमेद ), बभु ( जिस के ऊपर बहुत सा बाल होते हैं ), बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गोदड़, बाज, कुत्ता, चाष ( नीलकण्ठ ), कौवा, शशध्नी ( बाज़ चील ), कुरर ( भास ), मधुहा, गोध, उल्ल, कुलिंग ( बगुड़ा की जाति ), धूमिका, कुरर ये 'प्रसद' श्रेणी के पशु पक्षी हैं ॥ ३५-३६ ॥

श्वेतः इयामश्चित्रपृष्ठः कालवः काकुलीमूरगः ॥ ३७ ॥

कुर्चींका चिछटो भेको गोधा शाल्कगण्डकौ ।

कदली नकुलः श्वाचिदिति भूमिशयाः स्मृताः ॥ ३८ ॥

१. तिलों में काले तिल अच्छे हैं—

"तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो, दीनतरास्ततोऽन्ये ।"

काकुलीमृग (मालया सर्प) की चार धेणियाँ हैं यथा—इवेत, काली, चित-कबरी और कालक, कूर्बांका चिल्लट (चियार), मैदक, शल्लक, गोह, गण्डक (गोह का भेद, सर्पणी), कदली, नेवला, श्वाकित् ये भूमिशय या विलेशय अर्थात् बिल में रहनेवाले हैं ॥ ३७-३८ ॥

सूमरश्वमरः स्वङ्गो महिषो गवयो गजः ।

न्यूड्कुर्बराहश्वानूपा मृगाः सर्वे स्त्रस्तथा ॥ ३९ ॥

सूमरः (सूवर) चमर (चमरिया गाय), गोंडा, भैसा, नील गाय, हाथी न्यंकु (हरिण), सुअर (छोटा) और रुक (बारह सींगा) ये सब 'आनूप' अर्थात् जल बहुल प्रदेश के पशु हैं ॥ ३९ ॥

कूर्मः कर्कटको मत्स्यः शिशुमारस्तिमिङ्गिलः ।

शुक्ति-शङ्गाद्र-कुम्भीर-चुलुकी-मकरादयः ॥ ४० ॥

इति वारिशयाः प्रोत्काः, वश्यन्ते वारिचारिणः ।

कछुआ, कैंकड़ा, मछली, तिमिंगिल (मछली भेद), सीप शंखमें होने वाले जन्तु शिशुमार, उद्र (जल बिङ्गाल, ऊदविलाव) कुम्भीर (नाका), चुलुकी, और मकर ये 'वारिशय' अर्थात् जल में रहने वाले जन्तु हैं। पानी पर रहने वाले प्राणियों के नाम कहते हैं ॥ ४० ॥

हंसः क्रौञ्चो बलाका च वकः कारण्डवः स्वः ॥ ४१ ॥

शरारिः पुष्कराहश्व केशरी मानतुण्डकः ।

मृणालकण्ठो मद्गुश्च कादम्बः काकतुण्डकः ॥ ४२ ॥

उत्कोशः पुण्डरीकाक्षो मेघरावोऽस्तुकुकुटी ।

आरा नन्दीमुखी वाटी सुमुखाः सहचारिणः ॥ ४३ ॥

रोहिणी कामकाली च सारसो रक्षीषंकः ।

चक्रवाकास्तथाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४४ ॥

हंस, कौञ्च, बलाका, बगुला, कारण्डव (हंसभेद बत्तख), लव, शरारि, पुष्कराह, केशरी, मानतुण्डक, मद्गु (जलकौवा), कादम्ब, काकतुण्ड, उत्कोश (कुरल), पुण्डरीकाक्ष, मेघराव (मेघनाद मोर), अम्बुकुकुटी (पानी की मुर्गी), आरा, नन्दीमुखी, वाटी, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, लाल शिर वाला सारस, चक्रवाक (चकवा) और अन्य जलचर पक्षी स्नीमें विचरने वाले हैं ॥ ४१-४४ ॥

पृष्ठतः शरभो रामः इवदंड्हा मृगमातृका ।

त्रिलोरणौ कुरङ्गश्च गोकर्णः कोट्कारकः ॥ ४५ ॥

चारुज्ञो हरिणीौ च शम्बरः कालपुच्छकः ।

ऋग्यश्च वरपोतश्च विजेया जाङ्गला मृगाः ॥ ४६ ॥

चित विरंगे हरिण, शरम ( आठ पांव का ऊंठ के आकार का मोटे सींगों का एक हरिण, इस के पीठ में चार पांव होते हैं, कालमीर देश में प्रसिद्ध है ), राम ( हिमालय का महामृग ) इवदंषा ( चार दांत का एक जाति का पशु ), मृगमातृका ( छोटाभोटे उदर वाला पशु ), शश हरिण, कुरञ्ज ( हरिणमेद ) गोकर्ण ( गाय के से मुख का हरिण ), कोहकारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर ( सांभर ), कालपुच्छ, मृग्य और वरपोत ये जंगली मृग हैं । यहाँ पर शश-शब्द मृगवाची है । जैसे चन्द्रमा को शशांक और मृगाङ्क कहते हैं इसमें वस्तु तो एक होनी चाहिये या तो शशका चिन्ह हो या मृग का ॥ ४५-४६ ॥

लावो वर्ती बकश्चैव वार्तीकः सकपिङ्गलः ।

चकोरश्चोपचक्रश्च कुकुभो रक्तवर्णकः ॥ ४७ ॥

लावाद्या विष्किरास्त्वेते धक्षयन्ते वर्तकादयः ।

वर्तको वर्तिका चैव बहीं तितिरिकुकुटो ॥ ४८ ॥

कङ्ग-सारपदेन्द्राभन्गोनर्द-गिरिवर्तकाः

कक्रोऽवकरश्चैव वारटाश्चेति विष्किराः ॥ ४९ ॥

बंटेर, वर्ती ( तीतर ), बक ( बगुला ), वार्तीक ( बतख ), कपिङ्गल ( इवेत तीतर ), चकोर, उपचक ( चकोर मेड ), कुकुम, रक्तवर्णक, विष्किर पक्षी हैं । वर्तक ( बंटेर ), वर्तिका, बहीं ( मोर ), तीतर, कुकुट, कङ्ग, सारपद, इन्द्राभ, गोनर्द, गिरिवर्तक, कक्र, अवकर और वारटा से सब मुर्गा जाति के 'विष्किर' पक्षी हैं ॥ ४७-४९ ॥

शतपत्रो भृङ्गराजः कोयष्टी जीवजीवकः ।

कैरातः कोकिलोऽत्यूहो गोपापुत्रः प्रियात्मजः ॥ ५० ॥

लट्बा लट्बको बभ्रुवटहा दिपिङ्गमानकः ।

जटी दुन्दुभिवा ( पा ) क्षार-लोह-पृष्ठ-कुलिङ्गकाः ॥ ५१ ॥

कपोत-शक्ख-सारङ्गाश्चिरिटी-ककुयष्टिकाः ।

शारिका कलविङ्गश्च चटकोऽङ्गारचूडकः ॥ ५२ ॥

पारावतः पानविक इत्युक्ताः प्रतुदा द्विजाः ।

शतपत्र ( कटोका ) मृगराज ( मांवरा ), कोयष्टि ( कोका ) जीवजीव, कैरात, कोकिल, अत्यूहा, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्बा, लट्बक, बभ्रु ( पक्षी, पीछे बालोवाला पक्षी ), वटहा दिपिङ्गमानक ( उत्कटर्थी )

दुन्दुभि, बाक्का, लोहपृष्ठ, कुलिग, कबूतर, तोता, चारक, चिरिटा, ककुयषिक,  
सारिका, कलविक, चटक, अंगारचूड़क ( बुलबुल ), पारावत, पानविक ये सब  
'प्रतुद' पक्षी हैं ॥ ५०-५२ ॥

प्रसद्ध मध्ययन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिताः ॥ ५३ ॥

भूशया बिलवासित्वादानूपाऽनूपसंश्रयात् ।

जले निवासाजलजा जलेर्चर्याद्वजलेचराः ॥ ५४ ॥

स्थलजा जाङ्गलाः प्रोक्ता मृगा जाङ्गलचारिणः ।

विकीर्य विभिकराश्चैव प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृताः ॥ ५५ ॥

योनिरष्टविधा त्वेषां मासानां परिकीर्तिता ।

गाय, प्रोडा, बाघ आदि प्राणी भक्षण द्वारा से एकदम जोर से खाने पर पिरते हैं, इसलिये इनको 'प्रसह' कहते हैं । सांप, मेंटक आदि बिल में रहते हैं, इसलिये इनको 'बिलेश्वर' कहते हैं । हाथं भैंसा आदि प्राणी पानी के आश्रय से रहते हैं, इसलिये इनको 'आनूप' कहते हैं । पानी में रहने से 'जलज', जल में चरने-विचरने से 'जलचर', स्थलभूमि पर चलने वाले जंगल में फिरने वाले पशुओं को 'जांगल' कहते हैं । तीतर आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बिलेर कर खाते हैं, इसलिये 'विभिकर' और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को चोच से तोड़कर खाते हैं इस लिये 'प्रतुद' कहलाते हैं । इस प्रकार से मांस के थाठ उत्पत्तिस्थान हैं ॥ ५३-५५ ॥

प्रसहा भूशयानूपत्रारिजा वारिचारिणः ॥ ५६ ॥

गुरुल्ल-स्तिनग्ध-मधुरा बलोपचयवर्धनाः ।

वृष्याः परं वातहराः कफपित्ताभिवर्धिनः ॥ ५७ ॥

हिता व्यायामनित्येष्यो नरा दीपामयश्च ये ।

प्रसहानां विशेषण मासां मासाशिर्ना भिषक् ॥ ५८ ॥

जीर्णार्णी-ग्रहणी-दोष-शोषार्तानां प्रयोजयेत् ।

लावाद्यो वैष्डिकरो वर्गः प्रतुदा जाङ्गला मृगाः ॥ ५९ ॥

लघवः शीतमधुराः सकषाया हिता नृणाम् ।

पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्त्रिपाते कफानुगे ॥ ६० ॥

विभिकरा वर्तकाद्यास्तु प्रसहाल्पान्तरा गुणैः ।

नातिशीत गुरु-स्तिनग्धं मासमाजमदोषलम् ॥ ६१ ॥

शरीर-धातु-सामान्यादनभिष्यन्दि वृंहणम् ।

जीर्णं मधुरशीतत्वाद् गुरु वृंहणमाविकम् ॥ ६२ ॥

वैष्डिकजाविके मिश्रगोचरत्वादनिष्ठिते ।

सामान्येनोपदिष्टानां मासानां स्वगुणैः पृथक् ॥ ६३ ॥  
 केषाचिद् गुणवैश्वयाद्विशेष उपदेश्यते ।  
 दर्शन-श्रोत्र-मेधाग्नि-वयो-वर्ण-स्वरायुषाम् ॥ ६४ ॥  
 वर्ही हिततमो बल्यो वातग्रो मासशक्लः ।  
 गुरुष्ण-द्विनग्ध-मधुराः स्वर-वर्ण-बल-प्रदाः ॥ ६५ ॥  
 बृंहणाः शुक्लाश्रोक्तका हंसा मारुतनाशनाः ।  
 मिनग्धाश्रोष्णाश्च वृृष्णा श्च बृंहणाः स्वरवोधनाः ॥ ६६ ॥  
 बल्याः परं वातहराः स्वेदनाश्वरणायुधाः ।  
 गुरुष्णमधुरो नातिधन्वानूपनिषेदणात् ॥ ६७ ॥  
 तित्तिरिः संजयेच्छीघ्रं त्रीन् दोषाननिलोल्बणान् ।  
 पित्तश्लेष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिञ्जलाः ॥ ६८ ॥  
 मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्य-माधुर्य-लाघवात् ।  
 लावाः कषायमधुरा लघवोऽग्निविवर्धनाः ॥ ६९ ॥  
 सञ्जिपातप्रशमनाः कटुकाश्च विपाकतः ।  
 कषायमधुराः शीता रक्तपित्तनिर्बहृणाः ॥ ७० ॥  
 विपाके मधुराश्वैव कपोता गृहवासिनः ।  
 तेभ्यो लघुतराः किञ्चित्कपोता वनवासिनः ॥ ७१ ॥  
 शीताः संग्राहिणश्चैव स्वल्पमूत्रकराश्च ते ।  
 शुक्रमासं कषायमर्द्धं विपाके रूक्षशीतलम् ॥ ७२ ॥  
 शौष-कास-क्षय-हितं संग्राहि लघु दीपनम् ।  
 कषायो विशदो रूक्षः शीतः पाके कटुलघुः ॥ ७३ ॥  
 शशः स्वादुः प्रशस्तश्च संनिपातेऽनिलावरे ।  
 चटका मधुराः स्तिंग्धा बलशुक्रविवर्धनाः ॥ ७४ ॥  
 सञ्जिपातप्रशमनाः शमना मारुतस्य च ।  
 मधुरामधुराः पाके त्रिदोषशमनाः शिवाः ॥ ७५ ॥  
 लघवो बद्धविषमत्राः शीताशैणाः प्रकीर्तिताः ।  
 गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका रसे ॥ ७६ ॥  
 वात-पित्त-प्रशमनी बृंहणी बलवर्धनी ।  
 शाळको मधुरामलश्च विपाके कटुकः स्मृतः ॥ ७७ ॥  
 वात-पित्त-कफजनश्च कास-ध्वास-हरस्तथा ।  
 गुरुष्णमधुरा बल्या बृंहणा पवनापहाः ॥ ७८ ॥

मत्स्याः स्तिर्घाश्च वृज्याश्च बहुदेशाः प्रकीर्तिताः ।  
 शैवलाहारभोजित्वात्स्वप्रस्थं च विवर्जनात् ॥ ७१ ॥  
 रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको मदावलः ।  
 स्नेहनं बृहणं वृज्यं श्रमणमनिलापहम् ॥ ८० ॥  
 वराहपिशितं बलं रोचनं स्वेदनं गुरु ।  
 बल्यो वातहरो वृज्यश्चक्षुष्यो बलवर्धनः ॥ ८१ ॥  
 मेधास्मृतिकरः पथ्यः शोषधनः कूर्म उच्यते ।  
 गव्यं केवलवातेषु पीनसे विषमज्वरे ॥ ८२ ॥  
 शुष्क-कास-श्रमात्यग्नि-मांस-क्षय-हितं च तत् ।  
 स्तिर्घोषणमधुरं वृज्यं माहिर्षं गुरु तर्पणम् । ॥ ८३ ॥  
 दाढ़्यं वृहत्त्वमुत्साहं स्वप्रं च जनयत्यपि ।  
 धार्तराष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥ ८४ ॥  
 चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च ।  
 रेतःक्षीणेषु कासेषु हंडोगेषु अत्रेषु च ॥ ८५ ॥  
 मधुराण्यविदाहीनिः सद्यो बलकराणि च ।  
 शरीरबृहणे नान्यदाद्यं<sup>३</sup> मांसाद्विशिष्यते ।  
 इति वाग्स्तुतीयोऽयं मांसानां परिकीर्तिः ॥ ८६ ॥

इनमें प्रसद, भूशय, आनूप, जलज और जलचर प्राणियों का मांस गुरु, स्तिर्घ, मधुर, शक्ति बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्धक, वातनाशक, कफपित्त को बढ़ाने वाला है, इनका मांस नित्य प्रति व्यायाम करने वाले, जिनकी जाठराग्नि प्रदीप हो, उनके लिये हितकारी है। ‘प्रसद’ जानवर दो प्रकार के हैं। एक मांस खाने वाले ऐह आदि, दूसरे मांस न खाने वाले गाय आदि। इनमें मांस खाने वाले ‘प्रसद’ पक्षी या पशुओं का मांस पुराने अर्च-रोग, ग्रहणी-रोग, क्षय, या निर्वल पुरुष के लिये उपकारी है।

लावा (बटेर) आदि विभिन्नर्ग के पक्षी, प्रतुदपक्षी, जांगलदेश के पशु इनका मांस लहु, शीतल, मधुर कथाय रस, और पित्तप्रधान, मध्यम वात, क्लिनिष्ट कफ वाले संज्ञितात में हितकारी है। बटेर आदि समस्त विभिन्न पक्षियों का मांस ‘प्रसद’ श्रेणों के मांसों से गुणों में मिलता है, योद्धा ही अन्तर है।

तकरी का मांस बहुत ठण्डा नहीं, बहुत भारी नहीं, बहुत क्लिनिष्ट नहीं, कुछ ठण्डा, कुछ गुरु और कुछ क्लिनिष्ट है) इसलिये वह दोषों को कुपित करता पाठः । २. मधुराण्यविदाहीनि इति पाठः । ३. खार्य इति पाठः ।

नहीं करता, कफ को उत्पन्न नहीं करता । उक्त गुणों के कारण मनुष्यों के मांस के समान धातुओं वाला है, जो गुण मनुष्य के धातुओं के हैं, वे ही गुण बकरी के मांस के हैं इसलिये पुष्टिकारक है । मेह का मांस मधुर, ठण्डा और भारी है । मधुर और शीतल होने से पित्तनाशक<sup>१</sup> है । बकरी और मेह के मिश्रित स्थान में चरने से मांस का गुण अनिश्चित है, फिर भी सामान्य रूप से कह दिया । और जो मांस अपने गुणों में विशेषता रखते हैं उन को कहते हैं ।

मोर का मांस—आंख, कान, मेधा, अग्नि, तादण्य, वर्ण, स्वर और आयु के लिये हितकारी; बलकारक, वायुनाशक और मांस एवं शुक्रवर्धक है । हंस का मांस गुरु, उष्ण, स्तिर्घ, मधुर, स्वर, वर्ण, बल को बढ़ाने वाला, छूँझ पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक और वातनाशक है । कुकुट का मांस—स्तिर्घ, उष्ण, वृद्धि, पुष्टिकारक, स्वर को अच्छा करने वाला, बलकारक और विशेषतः वातनाशक तथा पसीना लाता है । तितिर पक्षी का ( मरुभूमि और आनूप देश दोनों स्थानों में रहने से ) मांस मध्यम गुरु, मध्यम उष्ण और मध्यम मधुर है, वातप्रधान सञ्चिपात को शीघ्र शान्त करता है । कर्पिजल पक्षी का मांस—ठण्डा, मधुर और लघु होने से वात का जोर कम होने पर रक्तयुक्त पित्त या रक्तयुक्त कफ विकार में प्रशस्त है । लावा ( बटे० ), कशाय, मधुर, लघु, अग्निवर्धक, सञ्चिपात को शमन करने वाले और विपाक में कटु हैं ।

धर में पाले हुए कबूतरों का मांस—कशाय, विशद, शीत, रक्तपित्तनाशक, मधुर विपाक वाला होता है । और जो कबूतर जंगल में रहते हैं, उन का मांस इन से कुछ हल्का और शीतल, संग्राही और मूत्र को कम करने वाला होता है । तोते का मांस—कशाय, विपाक में अम्ल, रुक्ष, ठण्डा, शोष, क्षय, दमा, में हितकारी, स्तम्भक, हल्का, दीपक होता है । सरगोश का मांस—कशाय, स्वच्छ, रुक्ष, शीतल, विपाक में कटु, हल्का, मधुर और हीनवायु सञ्चिपात में प्रशस्त है । चिकित्या का मांस—मधुर, स्तिर्घ, शक्ति व वीर्य को बढ़ाने वाला, सञ्चि-

१. मुक्त्रुत में भी कहा है—

“दृष्ट्यं मांसमौरप्रे पित्तज्ञेष्यापहं गुह” ॥

२. मिश्र-गोवरत्नात्—बकरी या मेह आनूप और मरु दोनों प्रदेशों में रहती है । इसलिये इन की योनि निश्चित नहीं है । तितिर पक्षी धन्वं ऐर आनूप किसी एक स्थान पर रहता है, ऐसा निश्चित करके कहा जा सकता है, इसलिये वह इस भेजी में नहीं है ।

पात को शान्त करने वाला और विशेषतः वायुनाशक है । पिता ( गीदड़ ) का मांस—मधुर रस, मधुर विपाक, त्रिदोषनाशक है । काले इरिण का मांस—हल्का, मल मूत्र को रोकने वाला और शीतल होता है । गोह का मांस—विपाक में मधुर, कशाय, कटु रस, वात-पिचनाशक, पुष्टिकारक, बल-वर्धक है । शल्लकी का मांस—मधुर अम्लरस, विपाक में कटु, त्रिदोषनाशक, द्वास-कास नाशक है ।

मछलियों का मांस—गुरु, उष्ण, मधुर, बलकारक, पुष्टिकारक, वायुनाशक, स्तिंग्घ, वृद्ध्य, वीर्यवर्धक और बहुत से दोषों को उत्पन्न करने वाला है । रोह मछली का मांस—शैवाल ( सरवाल ) का भोजन करने से, कभी न सोने से, दीपनीय, अग्निवर्धक, पचने में लघु और बहुत बल देने वाला है ।

सुअर का मांस—स्नेहन, चूंदण, वीर्यवर्धक, यकान और वायुनाशक बलकारक, रुचिकर और बहुत पसीना लाने वाला है । कन्दुए का मांस—बल-कारक, वातनाशक, वीर्यवर्धक, आंखों के लिये हितकारी, बलवर्धक, मेघा, बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, आयु के लिये हितकारी, शोषनाशक है । गाय का मांस—केवल वात रोगों में, पीनस में, विषम ज्वर में, सूखी खांसीमें, यकान में, अग्नि या मांस के बहुत अधिक क्षय हो जाने में हितकारी है । भैंस का मांस—स्तिंग्घ, उष्ण, मधुर, वीर्यवर्धक, भारी, पुष्टिदायक, शरीर में दृढ़ता, पुष्टि, उत्साहवर्धक और नींद लाने वाला है । हंस ( जिन के पांव और चोंच काले होते हैं ) चकोर, बत्तख, मोर और चिड़ियां इनके अण्डे वीर्य की क्षीणता में, काट रोग में, दृद्य रोग में, क्षत ( उरःक्षत ) में हितकारी हैं । ये अण्डे मधुर अविपाकी और तत्काल बलदायक हैं । खाद्य पदार्थ में शरीर को पुष्ट करने के लिये मांस से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है । यह तीसरा मांस-वर्ग कह दिया ॥ ५६-५६ ॥

इति मांसवर्गः ।

अथ शाकवर्गः ।

पाठा शुष्ठा शटीशाकं वास्तुकं सुनिष्पण्णकम् ।

विद्याद् ग्राहि त्रिदोषव्यं भिज्ञवर्चस्तु वास्तुकम् ॥ २७ ॥

त्रिदोषशमनी वृद्ध्या काकमाची रसायनी ।

नात्युष्णशीतवीर्या च भेदिनी कुष्ठनाशनी ॥ २८ ॥

राजक्षवकशकं तु त्रिदोषशमनं लघु ॥

त्रेत्य के लिये—“तुस्मि चटकमांसानां गत्वा योऽनु पिवेत्यः ।”

प्राहि शस्तं विशेषेण प्रहण्यशोविकारिणाम् ॥ ८४ ॥  
 कालशाकं तु कटुकं दीपनं गरशोफजित् ।  
 लघूष्णं वातर्लं रूक्षं कालीयं शाकमुच्यते ॥ ८० ॥  
 दीपनी चोष्णवीर्या च प्राहिणी कफमारते ।  
 प्रशस्यरेऽमलचाङ्गेरी प्रहण्यशोंहिता च सा ॥ ८१ ॥  
 मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवधिनी ।  
 वृद्ध्या स्तिरधा च शीता च मद्धनी चाष्युपोदिका ॥ ८२ ॥  
 रूक्षो महाविषद्धनश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम् ।  
 मधुरोऽमधुरः पाके शीतलस्तण्डुलीयकः ॥ ८३ ॥  
 मण्डूकपर्णी वेत्राप्रं कुचेला वनतिक्ककम् ।  
 कर्कोटिकावलगुजकौ पटोलं शकुलादनी ॥ ८४ ॥  
 वृषपुष्पाणि शाङ्गेष्टा केवूकं सकठिल्लकम् ।  
 नाढी कलायं गोजिहा वार्ताकं तिलपर्णिका ॥ ८५ ॥  
 कुलकं कार्कर्णं निर्मंशं शाकं पार्पटिकं च यत् ।  
 कफपित्तहरं तिर्कं शीतं कटु विपच्यते ॥ ८६ ॥  
 सर्वाणि सूख्यशाकानि फज्जी चिल्ली कुतुम्बकः ।  
 आलुकानि च सर्वाणि सपत्राणि कुटिङ्गरम् ॥ ८७ ॥  
 शणशालमलिपुष्पाणि कर्बुदारः सुवर्चला ।  
 निष्पावः कोविदारश्च पत्तुरञ्चुचुपर्णिका ॥ ८७ ॥  
 कुमारजीवो लोटाकः पालङ्कथा मारिषस्तथा ।  
 कलम्बनालिकासूयः कुसुम्भवृकधूमकौ ॥ ८८ ॥  
 लक्ष्मणा प्रपुनाहां च नलिनीका कुठेरकः ।  
 लोणिका यवशाकं च कुम्भाण्डकमबलगुजम् ॥ १०० ॥  
 यातुकः शालकल्याणी त्रिपर्णी पीलुपर्णिका ।  
 शाकं गुडं च रूक्षं च प्रायो विष्ट्रभ्य जीर्यते ॥ १०१ ॥  
 मधुरं शोतवीर्यं च पुरीषस्य च भेदनम् ।  
 स्विनं निष्पीडितरसं स्नेहाद्यं तत्प्रशस्यते ॥ १०२ ॥  
 शणस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य शाल्मलेः ।  
 पुष्पं प्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १०३ ॥  
 न्यमोषोदुर्बराइवत्थ-प्लक्ष-पद्मादि-पल्लवाः ।  
 कषायाः स्तम्भनाः शीता हिताः पित्तातिसारिणाम् ॥

वार्यु वस्त्रादनी हन्यास्तकं गण्डोरवित्रकौ ।  
 श्रेयसी विलबपर्णीं च विलबपत्रं च वातनुत् ॥ १०५ ॥  
 भण्डी शतावरीशाकं बला जीवन्तिकं च यत् ।  
 पर्वण्याः पर्वपुञ्ज्याश्च वातपित्तहरं स्मृतम् ॥ १०६ ॥  
 लघुभिन्नशङ्खचिकं लाङ्गल्क्युरुषूकयोः ।  
 तिळवेतसशाकं च शाकं पञ्चाङ्गुलस्य च ॥ १०७ ॥  
 वातर्लं कदुतिक्ताम्लमधोमार्गं ग्रवत्कम् ।  
 रुक्षाम्लमुष्णं कौसुमं कफवनं पित्तवर्धनम् ॥ १०८ ॥  
 त्रपुसंवर्हकेस्वादु-गुरु-विष्ट्रिभिर्शीतले ।  
 मुखप्रियं च रुक्षं च मूत्रर्लं त्रपुसं त्वरि ॥ १०९ ॥  
 एर्वारुकं च संपकं दाह-तृष्णा-क्रमार्तिं-नुत् ।  
 वर्चोभेदीन्यलावूनि रुक्षशीतगुरुणि च ॥ ११० ॥  
 चिर्भैङ्ग्युर्वीरुके वद्धद्वर्चोभेदहिते तु ते ।  
 कूष्माण्डमुक्तं सक्षारं मधुराम्लं तथा लघु ॥ १११ ॥  
 सृष्टमूत्रपुरीषं च सर्वदोषनिवर्हणम् ।  
 केलुटं च कदम्बं च नदीमाषकमैन्दुकम् ॥ ११२ ॥  
 विशदं गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते ।  
 उत्पलानि कषायाणि रक्पित्तहराणि च ॥ ११३ ॥  
 तथा तालप्रलम्बं च उरःक्षतरुजापहम् ।  
 खर्जूरं तालशस्यं च रक्पित्तक्षयापहम् ॥ ११४ ॥  
 तरुट-विस-शालूक-क्रौञ्चादन-कशोरुकम् ।  
 शृङ्गाटमङ्गलोऽचं च गुरु विष्ट्रिभि शीतलम् ॥ ११५ ॥  
 कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पाः सफलाः स्मृताः ।  
 शीताः स्वादुकषायास्तु कफमारुतकोपनाः ॥ ११६ ॥  
 कषायमीषद्विष्ट्रिभि रक्पित्तहरं स्मृतम् ।  
 पौष्टकरं तु भवेद् बीजं मधुरं रसपाकयोः ॥ ११७ ॥  
 बल्यः शीतो गुरुः स्तिरधस्तर्पणो वृद्धणात्मकः ।  
 वातपित्तहरः स्वादुर्वृष्यो युज्ञातकः स्मृतः ॥ ११८ ॥  
 जीवनो वृद्धणो वृष्यः कण्ठयः शस्तो रसायने ।  
 विदारिकन्दो बल्यश्च मूत्रलः स्वादुशीतलः ॥ ११९ ॥  
 अस्मिलक्षायाः स्मृतः कन्दो ग्रहणशीहितो लघुः ।  
 वृद्धणः कफवातप्तनो ग्राही शस्तो मदत्यये ॥ १२० ॥

त्रिदोषं बद्धविष्णमूत्रं सार्वपं शाकमुच्यते ।  
 बद्धत्पिण्डालुकं विशात्कन्त्वात् मुखप्रियम् ॥ १२१ ॥  
 सर्पच्छन्नाकवस्थ्यास्तु बहुयोऽन्याइष्टत्रजातयः ।  
 शीताः पीनसकर्येष्वं भधुरा गुर्व्यं एव च ॥ १२२ ॥  
 चतुर्थः शाकवगोऽयं पत्रकन्दफलाश्रयः ।

**शाकवर्ग—पाठा,** शुषा ( सुशब्दी ), कच्चर, वास्तुक ( बथुआ ), सुनिषण्णक ( मेथी ) ये सब शाक ( भाजी ) ग्राहक, त्रिदोषनाशक हैं, परन्तु बथुआ की भाजी ज़रा रेचक है । काकमाची ( मकीय ) की भाजी तीनों दोषों को नाश करने वाली, पुष्टिदायक, और रसायन है, यह न हो बहुत भरम और न बहुत ठण्डी है, मध्यमवर्तीय, रेचक और कुष्ठनाशक है । राजक्षवक की भाजी त्रिदोषनाशक, लघु, संग्राही है, ग्रहणी और अश्व रोग में विशेषतः हितकारी है । काल नामक शाक—इट, अग्रिदीपक, संयोगजन्य विशनाशक और शोथनाशक, लघु, उष्ण, वायुकारक और रस है । खट्टी चांगेरी ( चौपीतिया ) की भाजी—अग्रिदीपक, उष्णवर्तीय, संग्राही, कफ-वायु रोग में उत्तम तथा ग्रहणी और अश्व रोग में हितकारी है । उपोदिका ( चौलाई ) मधुर रस मधुर विपाक, रेचक, श्लेष्मवर्धक, वृष्य; रिनग्घ, शीतल और उन्मादनाशक ( धत्तूरे आदि के मद को नष्ट करनेवाली ) है । तण्हुलीयक ( चौलाई का मेद ) रुक्ष, मद और विशनाशक, रक्पित्त रोग में अधेन, मधुर रस, मधुर विपाक और शीतल है । मण्डुकपर्णी का शाक, बेत का अम्र भाग, कुचेला, बनतिका, कंकोळा, अवस्तुजा ( बाबती ), परबल, शकुनादनी, अद्वासे के फूल, शाङ्गेटा के खुक, कठिल्लक ( पुनर्नवा ), नाड़ी ( नाड़ीच ), कलाय ( मटर ), गोजिहा ( गाजबा ), वार्ताक ( बैगन ), तिळपर्णी ( हुलहुल ), कुलक ( करेला या परबल का मेद ), कर्कश ( असूण-दत्त के अनुसार कुचला, चक्रदत्त के अनुसार ककोटक ), नीम का शाक, पिचपापडा इन की भाजी कफ-पित्त नाशक, तिक्क, शीत और कटु विपाक है । ‘सूख्य शाक’ ( माषपर्णी, इडपर्णी आदि ) फंजी ( ब्राह्मण, यष्टिका, भांगी ), चिल्ही<sup>१</sup> कुतुम्बक ( द्वोषपुर्णी, गोमा ), आलुक ( आलु, रतालु, पिण्डालु कन्द मूल ), इन के पश्चे और कुटिंजर ( जंगली बथुआ ), सन, सिम्बल के फूल, कर्वुदार ( कचनार ), सुवर्चदा ( हुलहुल ), निष्पाव ( पालक ), कोविदार

१. सुश्वत में काकमाची को—“तिक्का काकमाची बातं शमयत्पुण्यवीर्यत्वात् ।” उष्णवर्तीय कहा है ।

२. ‘चिल्ही’—‘माषपर्णी शुनः पुच्छे चिल्ही स्याच्छाकलोष्ये’ ।

( लाल कचनार ), पत्तुर ( शाकिच ), चुचुपर्णिका ( नाड़ीच का भेद ) उंगुरकानी ( आखुपर्णी ), कुमारजीव ( जीवशाक ), लोहाक ( लोहा मारिष ), पालंक्य ( पालक ), मारिष कलम्ब, नालिका, आसुरी ( राई ), कुसुम्म ( चनिया ), वृक्खधूमक, लक्षणा, प्रपुष्ट्राङ् ( चक्रमर्द ), नलिनी ( कमल की नाल, भिस ), कुठेरक ( तुलसी भेद ), लोणिका ( लूणी ), यवशाक ( सेत पापडा ), कृष्णाण्डक ( पेठा ), अवलगुजा ( बाबन्ची ), यात्रुक ( सफेद शाल-पर्णी ), शालकल्याणी, त्रिपत्री ( हंसपादिका ), पीलुपर्णी ( मोरटक, मोरबेळ ), इन की भाजी गुरु, रुक्ष और ग्रायः करके जब तक पचती नहीं, तब तक पेट में अफ़्रा करती है, मधुर, शीतवीर्य और मल के रेचक है। इनको पानी में भाष्पकर ( बिना बाहर का पानी गिलाये ) रस निकाल कर इस में धी या तैल मिलाकर खाना उत्तम है।

सन, कचनार, लाल कचनार और सिम्बल इनके फूल संग्राही है, इसलिये रक्तपित्त में विशेषतः प्रशस्त हैं। न्यग्रोष ( बढ़ ), गूँडर, पीपल, पिलखन, कमल आदि के पत्ते कथाय रस, स्तम्भक, शीत तथा पित्तातिसार में हित-कारी हैं।

बत्तादनी ( गिलोय ) की भाजी बायु नाशक, गण्डीर ( शमठ, कहुवा जिमीकन्द ) और चीता की भाजी कफनाशक, धेयसी ( गज पिप्ली ), बिल्वपर्णी और बेल के पत्तों की भाजी बायुनाशक है। भण्डी ( भिण्डी ), शतावर, बला, खरेटी, जीवन्ती, पर्वणी ( इन्द्रवारी ), पर्वपुष्पी इन की भाजी बातपिचनाशक है। लांगड़ी ( कलिहारी ) की, लाल एरण्ड की भाजी तिक्क, रेचक और लघु है। तिक अम्ल बेतस ( या बैत का शाक ), या एरण्ड की भाजी बायुकारक, कटु, तिक, अम्ल तथा रेचक है। कुसुम्म की भाजी रुक्ष, अम्ल, उष्ण, कफनाशक, पित्तावर्धक है। त्रिपुर ( खीरा ), उर्वारुक ( ककड़ी ), स्वादु गुरु, अवष्टम्भ करने वाली और शीतल है। इनमें खीरा मुख्यिय ( खाने में त्वादु ), रुक्ष और बहुत मूत्र लाने वाले हैं। पका हुआ उर्वारुक ( ककड़ी ), प्यास, जलन थकान की पीड़ा को नष्ट करती है। अलाबू ( दूधी, धीया, आळ ) मल का रेचक, रुक्ष, शीतल और गुरु है। चिर्मटी ( ककड़ी ), एवां-रुक्ष भी रेचक हैं। पेठा कद्दू-क्षारखुक, मधुर, अम्ल, लघु, मल मूत्र का रेचक, निदोषनाशक है।

१. कच्चे और पक्के कृष्णाण्ड के गुणों में अन्तर है। यथा—

“पित्तम् तेषु कृष्णाण्डं बालं मध्यं कफावहम् ।

पक्कं रुधूणं स शारं दीपनं बस्तिशोधनम् ॥

रुद्दोषरुद्दूषम्—॥”

केलुट ( केलुक कन्द शाक ) और कटम्ब नन्दी माषक ( उन्दी मानवक ), ऐन्द्रक इन की भाजी स्वच्छ, गुरु, शीतल, कफकारक है। नीड़ कमल कथाय रस और रक्त पित्तनाशक है। ताल प्रकट्म ( ताल का अंकुर ), खर्जूर, ताळशस्त्य ( ताल के सिर की मज्जा ) रक्तपित्त और क्षयरोगनाशक है। तष्ट ( तिरट कन्द ), विस वा भिस, कमल की ढण्डी, लाल कमल का कन्द, कौचादन ( ढक्कर कन्द, कमल ), कशेरू, शृंगाटक ( सिंचाड़ा ) अंकालोक्य ( हूस्व उत्पलकन्द ), गुरु, विष्ट्रिमि और शीतल हैं। कुमुद ( श्वेत कमल ), उत्पल ( नीला कमल ) पूल और फल समेत शीतल, मधुर, कथाय रस, कफ वायु के प्रकोपक हैं। पुष्कर का बीज कथाय रस, थोड़ा विष्ट्रिमि करने वाला, रक्तपित्तनाशक, मधुर रस और मधुर विपाक है। मुंजातक ( औषधपथिक कन्द ) बलकारक, शीतल, गुरु, स्तिवध, तुसिकारक, बृंहण पुष्टिकारक, वात-पित्तनाशक, मधुर वृद्धि है। विद्वारीकन्द, जीवनीय, बृंहण, वृद्धि, स्वर के लिये हितकारी, रसायन में प्रशस्त, बलकारक, मूत्ररेचक, मधुर और शीतल है। अम्ली कन्द ( आसाम में होता है आंवर जाति का कन्द ) ग्रहणी, अर्द्ध में हितकारी, लघु, बहुत गरम, कफ-वातनाशक, संग्राहि और मदात्यय रोग में प्रशस्त है। सरसों का शाक—त्रिदोषकारक मल-मूत्र का अवरोधक है। पिण्डालु ( रतालु ) भी इसी प्रकार का है, परन्तु कन्द जाति का होने से खाने में अच्छा लगता है। सर्पठत्रक ( खुम्बी ) को छोड़कर अन्य सब इस प्रकार की भाजियाँ शीतल, पीनस रोग को उत्पन्न करने वाली, मधुर गुरु होती हैं। इस प्रकार से पत्ते, कन्द और फलवाला शाकवर्ग समाप्त हुआ ॥ ८७-१२२ ॥

इति शाकवर्गः ।

#### अथ फलवगः

तृष्णा-द्वादश-वर-द्वावास-रक्त-पित्त-क्षत-क्षयाद् ।  
 वातपित्तमुदावन्तं स्वरभेदं मदात्ययम् ॥ १२३ ॥  
 तिक्तास्ततामास्यशोषं कासं चाऽऽशु व्यपोहति ।  
 मृद्वीका बृंहणं वृद्ध्या मधुरा स्तिवधशीतला ॥ १२४ ॥  
 मधुरं बृंहणं वृद्ध्यं खर्जूरं गुरु शीतलम् ।  
 क्षयेऽभिषाते दाहे च वातपित्ते च तद्वितम् ॥ १२५ ॥  
 तर्पणं बृंहणं फलगु गुरु विष्ट्रिमि शीतलम् ।  
 परूषकं मधूकं च वातपित्ते च शस्त्रते ॥ १२६ ॥

मधुरं वृद्धर्ण बल्यमाश्रातं तर्षणं गुरु ।  
 सल्लेहं श्लेष्मलं शीर्तं वृद्धर्ण विष्टुभ्य जीर्यति ॥ १२७ ॥  
 तालश्शस्थानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च ।  
 वृद्धजस्तिग्वशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ १२८ ॥  
 मधुराम्लकवार्यं च विष्टुभ्य गुरु शीतलम् ।  
 पित्ताश्लेष्मकरं भव्यं ग्राहि बक्त्रविशोधनम् ॥ १२९ ॥  
 अम्लं परूषकं द्राक्षा बदराण्यारुकाणि च ।  
 पित्ताश्लेष्म-प्रकोपीणि कर्कन्धुलकुचान्यपि ॥ १३० ॥  
 नात्युणं गुरु संपर्कं स्वादुभ्रयं मुखप्रियम् ।  
 वृद्धणं जीर्यति क्षिप्रं नातिदोषलमारुकम् ॥ १३१ ॥  
 द्विविधं शीतमुण्ठं च मधुरं चाम्लमेव च ।  
 गुरु पारावतं हेयमरुच्यत्वग्निनाशनम् ॥ १३२ ॥  
 भन्यादल्पान्तरगुणं काशमर्यफलमुक्त्यते ।  
 तथैवाल्पान्तरगुणं तूदमम्लपरूषकात् ॥ १३३ ॥  
 कषायमधुरं टङ्कं वातलं गुरु शीतलम् ।  
 कपित्यं विषकण्ठघनमामं संग्राहि वातलम् ॥ १३४ ॥  
 मधुराम्लकवायत्वात्सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् ।  
 तदेव पकं दोषधनं विषधनं ग्राहि गुरुष्पि ॥ १३५ ॥  
 विलं तु दुर्जरं सिद्धं दोषलं पूर्तिमारुतम् ।  
 स्तिंग्वशीतीक्षणं तद्वालं दीपनं कफवातजित् ॥ १३६ ॥  
 वातपित्तकरं बालमापूर्णं वित्तवर्धनम् ।  
 पकमाश्रं जयेद्वायुं मांसशुकबलप्रदम् ॥ १३७ ॥  
 कषायमधुरप्रायं गुरु विष्टुभ्य शीतलम् ।  
 जाम्बवं कफपित्ताधनं ग्राहि वातकरं परम् ॥ १३८ ॥  
 मधुरं बदरं स्तिंग्वशं भेदनं वातपित्तजित् ।  
 तच्छुष्कं कफवातधनं पित्ते न च विश्वर्यते ॥ १३९ ॥  
 कषायमधुरं शीर्तं ग्राहि सिम्बितिकाफलम् ।  
 गाङ्गेरुकं करीरं च विष्वीतोदनधन्वनम् ॥ १४० ॥  
 मधुरं सकषायं च शीर्तं पित्तकफापहम् ।  
 संपर्कं पनसं मोर्चं राजादनफलानि च ॥ १४१ ॥  
 स्वासूनि सकषायाणि स्तिंग्वशीतक्षुरुणि च ।

कषायविशदत्वाच सौगन्ध्याच रुचिप्रदम् ॥ १४२ ॥  
 अबदंशक्षमं रुक्षं वातलं लवलीफलम् ।  
 नीं पं सभार्गकं पीलु रुणशून्यं<sup>१</sup> विकङ्करम् ॥ १४३ ॥  
 प्राचीनामलकं चैव दोषज्ञं गरहारि च ।  
 ऐहुदं तिकमधुरं स्निग्धोष्णं कफवातजित् ॥ १४४ ॥  
 तिन्दुकं कफपित्ताद्यं कषायमधुरं लघु ।  
 विद्यादामलके सर्वान् रसाँज्ञवणवर्जितान् ॥ १४५ ॥  
 स्वेद-मेद-कफोत्कलेद-पित्तरोग-विनाशनम् ।  
 रुक्षं स्वादु कषायमल्लं कफपित्ताद्यरं परम् ॥ १४६ ॥  
 रसासृङ्-मास-मेदो-जान्दोषान् हन्ति विभीतकम् ।  
 स्वरभेद-कफोत्कलेद-पित्तरोग-विनाशनम् ।  
 अमलं कषायमधुरं वातज्ञं ग्राहि दीपनम् ॥ १४७ ॥  
 स्निग्धोष्णं दाढिमं हृदयं कफपित्ताविरोधि च ।  
 रुक्षामलं दाढिमं यतु तस्तित्तानिलकोपनम् ॥ १४८ ॥  
 मधुरं पित्तनुत्तोषा तद्वा दाढिममुत्तमम् ।  
 वृक्षामलं ग्राहि रुक्षोष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते ॥ १४९ ॥  
 अमिलकायाः फलं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणः ।  
 गुणस्तंरेव संयुक्तं भेदनं त्वम्लवेतसम् ॥ १५० ॥  
 शुलेऽरुची विवन्दे च मन्देऽप्ती मद्यविकल्पे ।  
 हिक्काकासे च श्वासे च वस्त्रां वर्चोगदेषु च ॥ १५१ ॥  
 वातश्लेष्मसमुत्थेषु सर्वेष्वेतेषु दिश्यते ।  
 केशरं मातुलुङ्गस्य लघु शीतमतोऽन्यथा ॥ १५२ ॥  
 गुर्वां त्वगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी ।  
 रोचनो दीपनो हृदयः सुगन्धिस्त्वग्विवर्जितः ॥ १५३ ॥  
 कर्चूरः कफवातज्ञः श्वासहिक्कार्शसां हितः ।  
 मधुरं किञ्चिदमलं च हृदयं भक्तप्ररोचनम् ॥ १५४ ॥  
 दुर्जरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु ।  
 वातामाभिषुकाक्षोट-मकूलक-निकोकचाः ॥ १५५ ॥  
 गुरुष्वस्निग्धमधुराः सोरमाणा वलप्रदाः ।  
 वातज्ञा वृहणा वृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः ॥ १५६ ॥  
 १. वाताहकं, वाताष्कमिति च पाठौ ।

पित्तश्लेष्मवा सहजं विद्यादौष्ठयं विना गुणैः ।  
 श्लेष्मलं मधुरं शीतं श्लेष्मातकफलं गुह ॥ १५७ ॥  
 श्लेष्मलं गुह विष्टमिम चाङ्कोटफलमग्निजित् ।  
 गुरुणां मधुरं रुक्षं केशनं च शमोफलम् ॥ १५८ ॥  
 विष्टमयति कारञ्जं पित्तश्लेष्माविरोधि च ।  
 आम्रातकं दन्तशठमस्तु सकरमदंकम् ॥ १५९ ॥  
 रक्तपित्तकर्त विद्यादैरावतकमेव च ।  
 वातघ्नं दीपनं चैव वार्ताकं कटुतिक्कम् ॥ १६० ॥  
 वातलं कफपित्तघ्नं विद्यात्पटकीफलम् ।  
 पित्तश्लेष्मघ्नमस्तु च वातलं चाक्षिकीफलम् ॥ १६१ ॥  
 मधुराण्यनुपाकीनि वातपित्तहराणि च ।  
 अश्वस्थोदुर्बर-प्लक्ष-न्यप्रोधानां फलानि च ॥ १६२ ॥  
 कथायमधुराम्लानि वातलानि गुरुणि च ।  
 भज्ञातकास्थग्निसमं त्वच्मांसं स्वादु शोतलम् ।  
 पञ्चमः फलवर्गोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः ॥ १६३ ॥

फलवर्ग—एकी हुई किशमिश प्यास, जलन, ज्वर, इवास, रक्त-पिण्ड, उरः-  
 खत, क्षय, वातपित्त, उदावर्ती, स्वरमेद, मदात्यथ, मुख की कहुता मुखशोष और  
 और कास को शीघ्र नष्ट करती है । यह चूंहणी पुष्टिकारक, वृष्टि, मधुर, स्तिर्घ  
 शीतल है । खजू-मधुर, पुष्टिकारक, शुकर्वर्धक, गुरु शोतल, क्षय, चोट छाने,  
 जलन और वात-पित्त रोग में हितकारी है । फलगु ( अंजीर ), तुतिकारक,  
 चूंहण, गुरु, विष्टमयी और शोतल है । फालसा और महुबा वात-पित्त रोग में  
 उच्चम है । आम्रात ( आम्रा ) मधुर, पुष्टिकारक, बलकारक, तुतिकारक,  
 गुरु, स्तिर्घ, कफकारक, शीतल, वृष्टि और पेट में अफ्काय करता है । ताळके  
 फल ( ताळफल ) और पका हुआ नारियल चूंहण, स्तिर्घ, शीतल, बलकारक  
 और मधुर होते हैं ।

भव्य ( कमरख ) मधुर, अम्लकशाय, विष्टमिम, गुरु, शीतल, पित्तश्लेष्म-  
 कारक, स्तम्भक और मुख को शोधन करता है । खड़ा फालसा, द्राष्टा, जाही के  
 बेर, आरक ( आदु या आलुबुखारा ), ये पित्तकफल को कुपित करने वाले हैं ।  
 इसी प्रकार बेर और लकुच ( बो ), भी पित्त-कफक्षोभक है । आरक ( आलु-  
 बुखारा ) बहुत गरम नहीं, स्वादुमधुर और खाने में स्वादित, चौंहण पुष्टिकारक,

जल्दी पच जाता है, बहुत अधिक दोषों को नहीं बढ़ाता। पारावत (कामरूप में प्रसिद्ध है) दो प्रकार का है। मधुर और अम्ल। इनमें मधुर शीतल और अम्ल, उष्ण गुरु, अद्यचि और अग्नि की तीक्ष्णता को नाश करता है।

कामरी (गम्भारी) का फल लगभग कमरख के फल के समान है, इसी प्रकार खट्टे फालसे के समान तूद (औचरण्यिक शहदत) भी है। टक का फल कथाय मधुर, बातल, गुरु और शीतल है। कच्चा कैथ कण्ठ (स्वर) को नाश करने वाला (स्वर बिठानेवाला), विषनाशक, आम का संग्राहक, वायुकारक है। पका हुआ कैथ मधुर-अम्लकथाय रस एवं सुगन्धित होने से खाने में दूषिकर और अच्छी तरह पक जाने पर दोषनाशक, विषनाशक, संग्राही और गुरु है। पका हुआ बेल पचने में दुर्जर, दोषकारक, बहुत दुर्गन्धयुक्त वायु पैदा करने वाला है। कच्चा बेल स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, कफ-वायुनाशक है। कच्चा आम (गुरुली बैठने से पहिले) रक्तपित्तकारक, पित्तकारक है। पकने पर आम वायुनाशक, मांस शुक्र और बलवद्धक है। पका हुआ जामुन कथाय मधुर रस, गुरु विषम्भी, शीतल, कफ-पित्तनाशक संग्राही और वायुकारक है। बेर-मधुर, स्निग्ध, रेचक, बात-पित्तनाशक है, सूखा बेर कफ-बातनाशक और पित्त के लिये अविरोधी है, पित्त का प्रकोप नहीं करता। सिङ्गितिका (सेव, सफरज़ंद) कथाय, मधुररस, शीतल, संग्राही है। गंगेरन (नागबला) और करीर (करौदा), कन्दूरी, तोदन और धाय के फल मधुर-कथाय, शीतल, पित्त-कफनाशक हैं। पका हुआ कटहल, केला और राणादन (सिरनी) स्वादु, कथाय, स्निग्ध, शीतल, गुरु हैं।

छबकी का फल (इरफारेवडी) कथाय और विशद एवं सुगन्धित होने से दूषिकर हृद्य, वायुकारक तथा अवदंशक्तम (इस फलको खाकर दूसरे वस्तुओंमें रुचि होती) है, नीप (कदम्ब), शताहुक (शरका), पील, तुण्डान्य (केतकी फल), विकड़ुत, प्राचीन आमलक, दोषनाशक और विषनाशक हैं। इंगुद (हिंगोट) का फल तिक्त मधुर स्निग्ध, उष्ण और कफबातनाशक है। तिन्दुक-फल (तेन्दु), कफ-पित्तनाशक कथाय, मधुर और छघु है। आंवडे में लवण रस को छोड़कर और सब रस हैं और स्वेद मेद, कफ, उत्क्रोद (वमन की दवा) और पित्त के रोगों को नष्ट करता है, रुक्ष, स्वादु, कथाय, अम्ल, कफ-पित्तनाशक है। बिमीतक (बहेडा), रस, रक्त, मांस, मेदजन्य रोगों को नष्ट करती है स्वर मेद, कफ के उत्क्रोद, तथा पित्त रोग नाशक है। सहा अनार कथाय, मधुर, बातनाशक, संग्राही, अग्निदीपक, स्निग्ध और उष्ण है, तथा दूदम के

लिये इच्छिकर कफपित्र का अविरोधी ( प्रकोपक नहीं ) रुक्ष है। भीड़ा अनार पिच्चनाशक है इन सब में खट्टा अनार शेष है।

शूद्राम्ब (कोकम) संग्राही, रुक्ष, उष्ण, वात-कफ में प्रशस्त है। अभिका ( इमली ) का फल पकने पर लगभग कोकम के समान गुणवाला होता है। अम्लवेत्सु का गुण भी इसी प्रकार है, परन्तु रेचक है। मातुरुलंग ( विजौरे निम्बू ) का केशर शूल, अश्वचि, विवर्धन, मन्दार्थन, मदार्थय, हिक्का, कास, इच्छास, बमन, मल सम्बन्धी रोगों में और तथा वातकफ-जन्य रोगों में प्रशस्त और लघु है। इसकी छाल, गिरी आदि गुरु और वात-प्रकोपक है।

विना छाल का कच्चूर रोचक, अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकारी, सुगन्धित, कफ-वातनाशक, इच्छास, हिचकी और अर्द्ध रोग में हितकारी है। नारंगी का फल—मधुर, कुछ खट्टा, हृष्ट, खाने में इच्छिकर, पचने में दुर्जर, वातनाशक और गुरु है। बादाम, अभिषुक् ( पिस्ता ), अखरोट, मक्कल, निकोच, गुरु, उष्ण स्तिर्घ, मधुर, शक्तिवर्धक, बायुनाशक, पुष्टिदायक और कफ-पित्र के बढ़ाने वाला है। इनमें पियाल के गुण भी इसी के समान हैं, परन्तु वह उष्ण नहीं है। ऐसेष्यातक ( लसडे ) का फल कफकारक, मधुर, शीतल, गुरु है। अंकोटक का फल कफकारक, गुरु, विष भी और अग्निनाशक है। शमी ( जंडी ) का फल गुरु, उष्ण, मधुर, शीतल और बालों का नाशकारक है। कर्ज का फल विषाधी और वात-कफ के लिये अविरोधी है।

आम्रातक, दन्तशठ ( निम्बू, खट्टा ), करौंदा और ऐराबत ये रक्त-पित्तनाशक हैं। वातर्क, वातनाशक, अग्निदीपक, कटुतिक रुक्ष है। पिच्चपापडे का फल बायुकारक और कफ-पित्तनाशक है। आसिकी-फल पिच्च-कफनाशक, खट्टा और बायुकारक है। पीपल, गूलर, पिलखन, वड इनके फल पकने पर मधुर और वात-पित्तनाशक हैं। कच्चे फल क्षाय मधुर, अम्ल, बायुकारक और गुरु हैं। भिलाके का फल अग्नि के उत्तम ( छाले डाढ़ने वाला ) है, भिलाके की छाल, मज्जा स्वादु, शीतल है। इस प्रकार से उपयोगी पांचवाँ-फलवर्ग भी कह दिया है ॥ १२३-१६३ ॥

इति फलवर्गः ।

अथ हरितवर्गः ।  
रोचनं दीपतं बृद्धमार्दिकं विहवमेषजम् ।

वातसेव्यविकम्भेषु रसस्तस्योपविद्वते ॥ १६४ ॥

रोचनो दीपनस्तीहणः सुगन्धिस्मृद्धशोषनः ।  
 जम्बीरः कफवातधनः कुमिज्ञो मुक्तपाचनः ॥ १६५ ॥  
 वालं दोषहर्त्, द्वं त्रिदोषं, मारुतापहम् ।  
 स्तिंधसिद्धं, विशुकं तु मूलकं कफवातजित् ॥ १६६ ॥  
 हिङ्ग-कास-विष-इवास-पाश्व-शूल-विनाशनः ।  
 पित्तकुत्कफवातधनः सुरसः पूतिगन्धहा ॥ १६७ ॥  
 यवानी चार्जंकश्चैव शिशुशालेयमृष्टकम् ।  
 हृष्णान्यास्वादनीयानि पित्तमुत्क्लेशयन्ति च ॥ १६८ ॥  
 गण्डीरो जलपिप्लयस्तुम्बुरुः शृङ्खवेरिका ।  
 तीक्ष्णोष्ण-कटु-रुक्षाणि कफवातहराणि च ॥ १६९ ॥  
 पुंस्त्वध्रः कटुरुक्षोष्णो भूस्त्रुणो वक्त्रशोषनः ।  
 खराश्वा कफवातझी वस्तिरोगरुजापहा ॥ १७० ॥  
 धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखाश्वेति रोचनाः ।  
 सुगन्धना नातिकटुका दोषानुत्क्लेशयन्ति च ॥ १७१ ॥  
 ग्राही गृज्ञनकस्तीक्ष्णो वातश्लेष्माशसां हितः ।  
 स्वेदनेऽध्यवहार्ये च योजयेत्तमपित्तिनाम् ॥ १७२ ॥  
 इलेघ्मलो मारुतधनश्च पलाण्डुर्न च पित्तनुत् ।  
 आहारयोगी बल्यश्च गुरुर्वृष्ट्योऽथ रोचनः ॥ १७३ ॥  
 कुमि-कुष्ठ-किलासध्नो वातधनो गुलमनाशनः ।  
 स्तिंधश्चोष्णश्च वृष्ट्यश्च लशुनः कटुको गुरुः ॥ १७४ ॥  
 शुष्काणि कफवातधनान्येतन्येषां फलानि च ।  
 हरितानामयं चैषां षष्ठो वर्गः समाप्यते ॥ १७५ ॥

इति धर्मग्रं—आर्द्रक (अदरक) रोचक, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक है। इस का रस वात-कफजन्य अवरोधों में गुणकारी है। नीमू, रुचिकारक, दीपक, तीक्ष्ण, सुगन्धित, मुख को साफ करने वाला, कफ-वातनाशक, कुमिनाशक और अन्न का पाचक है। कच्ची मूली दोषनाशक है और बढ़ने पर (पकाने पर) त्रिदोषकारक है, स्तिंध और सिद्ध (पकाई हुई) मूली वातनाशक, सूखी मूली कफ-वातनाशक है । तुलसी-हिंचकी, कास, विष, इवाद, पाश्वशूल का नाश करती तथा पित्तकारक, कफ-वायुनाशक एवं शरीर तथा

( १. मूली—यावदि चाव्यकरणवित्तानि, नश्प्रकटानि च मूलकानि । )  
 तावश्वद्वा दीपनानि पित्तानिष्ठलेष्महाणि चैव ॥

अज के दुर्गन्ध को नह करती है। अजवायन, अर्जक ( लजका ), शोभा-  
ज्ञन, शाकेयमृष्टक और राह ये इदय को प्रिय और स्वादि इत्या पित्तवर्धक हैं।  
गण्डीर ( लाल और इवेत मेद से दो प्रकार का है, यहां पर लाल का ग्रहण है  
और इवेत को शाकवर्ग में कह दिया है), जल पिष्ठली, तुम्बड, गोजिङ्गा  
( गाज़बी ) ये तीक्ष्ण, उच्छ, कटु, रुक्ष, कफ-वायुनाशक हैं। भूस्तुण ( गन्ध-  
तृण ), पुश्पत्वनाशक, कटु, रुक्ष, उच्छ और मुख का शोधक है। खराक्षा  
( काढ़ाजीरा ) कफ-वातनाशक, वस्तिरोग और वस्तिशूलनाशक है।

घनिया, अजवायन, सुमुखा ( तुलसी मेद ), रोचक, सुगन्धि बहुत कष्ट  
नहीं और दोषों को उत्तेजित करते हैं। गाजर ( गृजन ) या शलजम संभावी,  
तीक्ष्ण, वात-कफ अर्द्ध रोग में हितकारी, स्वेदन कार्य में हितकारी है, इतका  
उपयोग पित्त जहां न बढ़ा हो वहां पर करना चाहिये। पलाण्ड ( प्याज़ )  
कफकारक, वायुनाशक है, परन्तु पित्त नाशक नहीं है, भोजन में उपयोगी,  
बलकारक, गुरु, इच्छ और फविकर है। लहसुन कुमि, कुष्ट, किलास रोग-  
नाशक, वायुनाशक, गुलमनाशक, स्त्रियों और उच्छ, वीर्यवर्धक, कटु, और  
गुरु है। ये सब सूखे होने पर तथा इनके फल कफ-वायु नाशक हैं। यह छद्य  
इरितवर्ग समाप्त हुआ। इरितवर्ग की बत्तुवें प्रायः हरी कच्ची ही बरती जाती  
है; इस लिये इसे इरितवर्ग कहते हैं—जैसे आजकल सलाद, प्याज टमाटर  
कच्चे खाने का रिवाज़ है॥ १५४-१७५॥

इति इरितवर्गः ।

अथ मध्यवर्गः ।

प्रकृत्या मध्यमम्लोष्णमम्लं चोक्तं विपाकतः ।  
सर्वं सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेश्यते ॥ १७६ ॥  
कृशाना सक्तमूत्राणां प्रहण्यशर्तोविकारिणाम् ।  
सुरा प्रशस्ता वातन्त्री स्तन्यरक्तश्येषु च ॥ १७७ ॥  
हिङ्गा-न्धास-प्रतिश्याय-कास-वर्चो-प्रहारुचौ ।  
वस्त्रानाहविवन्देषु वातन्त्री मदिरा हिता ॥ १७८ ॥  
शूल-प्रवाहिकाटोप-कफ-वातार्शसां हितः ।  
जगडो प्राहिलक्षोषणः शोकमो भुखपाचनः ॥ १७९ ॥  
शोकाशों-प्रहणीदोष-पाण्डुरोगाक्षविज्वरान् ।  
इन्द्रियाणां कफहतात् रोगान् रोगनदीपनः ॥ १८० ॥

सुखप्रियः सुखमदः सुगन्धिर्बस्तिरोगनुत् ।  
 जरणीयः परिणतो हृषो वर्णवश झार्करः ॥ १८१ ॥  
 रोचनो दीपनो हृषः शोषशोकार्थसाः हितः ।  
 स्नेह-स्लेष्म-विकारम्बो वर्णः पकरसो मदः ॥ १८२ ॥  
 जरणीयो विवन्धनः स्वरवर्णविशेषनः ।  
 कर्षणः शीतरसिको हितः शोफोदरार्शसाम् ॥ १८३ ॥  
 सूष्टुभिजशकृद्वातो गोडस्तर्पणदीपनः ।  
 पाण्डुरोगब्रणहिता दीपनी चाक्षिकी मता ॥ १८४ ॥  
 सुरासवस्तीत्रमदो वातज्वो वदनप्रियः ।  
 लेही मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुहः ॥ १८५ ॥  
 धातव्याभिषुतो हृषो रुक्षो रोचनदीपनः ।  
 माष्वीकवज्ञ चात्युष्णो मृद्धीकेशुरसासवः ॥ १८६ ॥  
 रोचनं दीपनं हृषं बल्यं पित्ताविरोधि च ।  
 विवन्धनं कफज्वं च मधु लघ्वल्पमारुतम् ॥ १८७ ॥  
 सुरा समण्डा रुक्षोष्णा यवाना वातपित्तला ।  
 गुर्वाँ जीर्यति विष्ट्रय इलेष्मला तु मधूलिका ॥ १८८ ॥  
 दीपनं जरणीयं च त्याण्डुक्षिरागनुत् ।  
 प्रहण्यरोहित भेदि सौक्षीरकतुषोदकम् ॥ १८९ ॥  
 दाहज्वरापहं स्पर्शस्तानाद्वातकफापहम् ।  
 विवन्धनमविसंसि दीपनं चाम्लकाञ्जिकम् ॥ १९० ॥  
 प्रायशोऽभिनवं मर्दं गुह दोषसमीरणम् ।  
 स्नोतसा शोषनं जीर्णं दीपनं लघु रोचनम् ॥ १९१ ॥  
 हर्षणं प्रीणनं बल्यं भय-शोक श्रमापहम् ।  
 प्रागल्घ्य-नीर्य-प्रतिभा-नुष्टि-पुष्टि-बल-प्रदम् ॥ १९२ ॥  
 सास्त्विकैर्विविष्टुक्त्या पीतं स्यादमृतं यथा ।  
 वगोऽर्यं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीर्तिः ॥ १९३ ॥

मद्यवर्ग—स्वभाव से मद्य लहा, उत्ता है, वह रुद में अल्ल नहीं, विपाक में अल्ल है। पीने पर दात खटे होते हैं, मुख से काव होता है इसलिये अम्ल है। यह बात सब मर्दों में समान है, विषेष रूप से आर्य फैहते हैं—  
 • झुए ( अनुद्धृतमण्ड ) कृषु पुरुषों के लिये, मूत्र रक जाने पर, प्रहणी, अर्ध-

१. मद्य-सन्तोषों मद्यमम्बनामुपर्युपरि वर्तते ॥सु०॥

रोग में हितकारी, बायुनाशक तथा स्थन्य (दूच) और रक्तहृत्य में उपकारी है। मदिय (सुरामण्ड) हिचकी, इवास, प्रतिवशाय, काल, मलावरोध, अरुचि, अमन, अफारा, विवन्ध में हितकारी एवं बायुनाशक है। जगड़ (अज्ज से बनी सुरा) शूक, प्रवाहिका, अफारा, कफ-बायु और अशर्दोत्तर में हितकारी लंगाही, रुक्ष, उच्छ, शोफनाशक और अज्ज को पचाने वाली है। अरिष्ठ (ओषध काथ से सम्पादित) शोष, अर्श, ग्रहणी, पाण्डु, अरुचि, ज्वर एवं कफजन्य रोगों को नष्ट करता है, रोचक और अभिवर्धक है। शर्कर (शर्करा का प्राकृतिक आसव) खाने में प्रिय, सुखपूर्वक नशा करने वाला, सुगन्धित, बस्तियेगनाशक जीर्ण होकर पचने वाला। हृदय को प्रिय, वर्ण कान्तिकारक है। पक्ष रस (गजे के रस को पका कर बनाने पर) रोचक, अभिदीपक, हृदय, शोष, शोफ, अर्श रोग में हितकारी, स्नेह-श्लेष्मा के रोगों का नाशक और कान्तिकारक है। शीत रस (गजे के अपक रस से बनाया) लाघवकारक, विवन्धनाशक, स्वर वर्ण को साफ करने वाला, लेखन, शोफ, उदर, अर्श रोग में हितकारी है। गोड (गुरु से बना) मद्य रेचक, बायु का अनुलोभक, तृतिकारक और अभिवर्धक है। बहेड़े का मद्य पाण्डुरोग, ब्रण में हितकारी और दीपक है। सुरासव (सुरा को ही पानी के स्थान पर जहाँ व्यवहार करें) तीव्र मदकारी, बायुनाशक, मुख और शरीर के लिये प्रिय है। मटुडे के फूलों से बना आसव हृदय, रुक्ष, रोचक और दीपक है। मूदोंका रस और गजे के रस को मिलाकर तैयार किया दुआ आसव माध्वीक से बने आसव के समान गरम नहीं, रोचक, दीपक, हृदय, बक्कर और पिच के लिये अविरोधी है। मधु प्रधान आसव विवन्धनाशक, कफनाशक, लघु और थोड़ी बायुकारक है। मण्ड के साथ सुरा (यव-तण्डुलों से बनी) रुक्ष, उच्छ, बात-पित्तकारक है। मधूलक (गोहूं से बनी मद्य) गुरु, पेट में अफारा करके जीर्ण होती है, कफकारक है। धान्य-तुष से बनी कांजी दीपक, लघु, हृदय पांडु, कूमि, रोगनाशक, ग्रहणी, अर्शरोग में हितकारी और रेचक है। लट्टी कांजी के पीने से दाह, ज्वर नष्ट होता है, बात-करुनाशक, विवन्धनाशक, अविसंसी, दीपक है। नवीन मद्य प्रायः गुरु और दोष-प्रकोपक होता है। पुराना<sup>३</sup> मद्य स्रोतों का शोषक, दीपक, लघु, रुचिकर, इषों-

१. मेरेय—‘आसवस्य सुरायात्थ इयोरेकत्र भाजने।

सन्धानं तद् विजानीयात् मेरेयस्तुमवाभवम् ॥

२. एक वर्ष के पीछे शराब पुरानी जाती है।

सादक, पुष्टिदायक, बलकारक, मग, शोक, अम को मिटाने वाला है। सात्त्विक विचिपूर्वक सेवन किया हुआ मध्य अमृत के समान होता है, यह मध्य अस्पन्त वीर्यप्रद, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टिवल को देता है। यह सातवां मध्यवर्ग समाप्त हुआ ॥ १७६-१८३ ॥

इति मध्यवर्गः ।

अथ जलवर्गः ।

जलमेकविधं सर्वं पतत्येन्द्रं नभस्तलात् ।  
 तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेक्षते ॥ १६४ ॥  
 स्वात्पतत्सोमवाच्चकैः स्पृष्टं कालानुवर्तिभिः ।  
 शीतं शुचि शिरं शृष्टं विमलं लघु घट्गुणम् ।  
 प्रकृत्या दिव्यगुदकं, श्रेष्ठं पात्रमपेक्षते । १६५ ॥  
 इवेते कथायं भवति पाण्डुरे चैव तिक्ककम् ।  
 कपिले क्षारसंसृष्टमूषरे लवणान्वितम् ।  
 कटु पर्वतविसारे मधुरं कृष्णमृतिके ॥ १६६ ॥  
 एतत्पाद्यगुणमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि ।  
 तथा उद्यक्तरसं विद्यादैन्द्रं कारं हिमं च यत् ॥ १६८ ॥  
 यदन्वरीक्षात्पततोन्द्रसृष्टं चोक्तेश्च पात्रैः परिगृहातेऽन्मः ।  
 सदैन्द्रमित्येष वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेत्य सलिलं प्रधानम् ॥ १६९ ॥  
 ऋतावृताविह ख्याताः सर्वं एवाम्भसो गुणाः ।  
 ईधत्कषायमधुरं सुसूक्ष्मं विशादं लघु ॥ २०० ॥  
 अरुक्षमनभिष्यन्दि सर्वं पानीयमुत्तमम् ।  
 शुर्वं भिष्यन्दि पानीयं वार्षिकं मधुरं नवम् ॥ २०१ ॥  
 तनु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति ।  
 तन्तु ये सुकुमाराः स्युः स्तिरध्मूयिष्ठभोजनाः ॥ २०२ ॥  
 तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्ये पेये च शस्यते ।  
 हैमन्ते सलिलं स्तिरं वृद्धं बलहितं गुरु ॥ २०३ ॥  
 किञ्चित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित् ।  
 कषायमधुरं रुक्षं विद्याद्वासन्तिकं जलम् ॥ २०४ ॥  
 ग्रेहिमकं त्वनभिष्यन्दि रूपमित्येष निश्चयः ।  
 विभ्रान्तेषु तु काळेषु यत्प्रयच्छन्ति तोयदाः ॥ २०५ ॥

सुक्षिलं तत्तु दोषाय युद्धते नात्र संशयः ।  
 राजभी राजमात्रेभ्य सुकुमारैभ्य मानवैः ॥ २०६ ॥  
 संप्रहीताः शरणापः प्रयोक्तव्या विशेषतः ।  
 नद्यः पाषाण-विच्छिन्नभ्य-विक्षुधाभिहतोदकाः ॥ २०७ ॥  
 हिमवत्प्रभवाः पद्म्याः पुण्या देवविसेविताः ।  
 नद्यः पाषाण-सिकतावाहिन्यो विमलोदकाः ॥ २०८ ॥  
 मल्लयप्रभवा याऽथ जलं तास्वसृतोपमम् ।  
 पश्चिमाभिसुखा याऽथ पद्म्यास्ता निर्मलोदकाः ॥ २०९ ॥  
 प्रायो शृदुवहा गुर्वर्यो याऽथ पूर्वसुद्रगाः ।  
 पारियात्रभवा याऽथ विन्यस्ताभवाऽथ याः ॥ २१० ॥  
 शिरोहृदोगकुष्ठानां ता हेतुः श्लीपदस्य च ।  
 वसुधा-कीट-सर्पासु-मल्ल-संदूषितोदकाः ॥ २११ ॥  
 वर्षाजलवहा नद्यः सर्वदोषसमीरणाः ।  
 वापी-कूप-न्तङ्गोत्स-सरः-प्रस्त्रवणादिषु ॥ २१२ ॥  
 आनूपशैलधन्वानां गुणदोषैर्विभावयेत् ।  
 पिच्छिलं कमिलं किञ्चं पर्णशैवालकर्दमैः ॥ २१३ ॥  
 विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धिं न हितं जलम् ।  
 विस्त्रिदोषं लबणमस्तु यद्वरुणालयम् ॥ २१४ ॥  
 इत्यस्मुवर्गः प्रोक्तोऽयमष्टमः सुविनिश्चितः ।  
 जलवर्गः समुद्दिष्टो मानवानां सुखप्रदः ॥ २१५ ॥

सम्पूर्ण पानी एक प्रकार का है । यह पानी बरसात के रूप में आकाश से गिरता है । यह गिरता हुआ, और गिरकर, [ गुण-दोष के लिये ] देश, समय की अपेक्षा करता है । आकाश से गिरता हुआ पानी श्वेत अनुसार खर्ष, चन्द्रमा और चान्दू ( आकाश में स्थित धूलि, तथा ज्युत जन्तु आदि परमाणुओं से मिलकर ) तथा भूमि के ऊपर गिर कर उस श्वेत के अनुसार भूमि की शीतलता, उष्णिया, स्तिरगता, रुक्षता आदि के सम्बन्ध होने पर उसी गुण बाला हो जाता है । आकाश से गिरता हुआ पानी स्वभाव से शीतल, पवित्र, कल्प्याणकारी, स्वादिष्ठ, स्वच्छ, इत्का—इन छः गुणों बाला है । नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेक्षा से गुण बाला बन जाता है । इवेत मूर्मि पर गिरने से पानी करेका, पाण्डुर जमीन में लिक; कपिल मूर्मि अर्थात् खारमिश्रित ( ऊसर में ) नमकीन; पहाड़ की मूर्मि पर कहु और काढ़ी मूर्मि में मधुर हो

जाता है। भूमि का जब इन छः गुलों वाला होता है। बरसात का पानी, बफ़ का पानी और कार अर्थात् खोके के पानी में कोई रस व्यह नहीं होता। आकाश से गिरते हुए पानी को नदी आदि स्थानों के अतिरिक्त, किसी झुट पात्र में एकत्र कर लिया जाय तो इसे बरसात का पानी कहते हैं। यह पानी राजाओं के पीने योग्य है। श्रद्ध-श्रुतु के अनुसार बरसात के पानी में गुण होते हैं। जो पानी थोका कथाय, मधुर, पतला ( सूखम ), स्वच्छ, लघु, अस्त अनभिष्यन्दि, कफ न करे, वह पानी उत्तम समझना चाहिये। बरसात का नया पानी गुरु, अभिष्यन्दि और मधुर रस होता है। शरद श्रुतु में बरसात का पानी बहुत स्वच्छ, लघु, अनभिष्यन्दि कफ नहीं करने वाला होता है। यह पानी सुकमार, एवं विशेषतः स्निग्ध एवं बहुत मोजन खाने वाले पुरुषों के मोजन में, भक्षण ( दांत से काट कर खाने की वस्तुओं ) में, पीने और चाटने में भी प्रशस्त है। हेमन्त श्रुतु में बरसात का पानी स्निग्ध, वीर्यकर्धक, बल-कारक, गुरु है। शिशिर श्रुतु में बरसात का और हेमन्त श्रुतु के पानी से कुछ हल्का एवं कफ-नातनाशक होता है। वसन्त श्रुतु में बरसात का पानी कथाय, मधुर रस और रुक्ष होता है। श्रीधर श्रुतु में बरसात का पानी कफनाशक और रुक्ष होता है, विश्रान्त अर्थात् बरसात के दिनों में बादलों से जो पानी गिरता है वह निरिचत रूप में दोषकारक होता है। राजाओं, श्रीमन्तों, रईसों तथा सुकुमार पुरुषों को चाहिये कि वे शरद श्रुतु में बरसात के पानी को इकठा करलें और सारे साल इसीका उपयोग करें।

हिमालय से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थरों की टक्कर के कारण मर्यादा से निर्दोष, पर्याकारी, पुण्य है। इनको देवता व श्रूषि सेवन करते थे, ये अति पुण्यकारी है। मल्याचल पर्वत से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थर, रेतीली भूमि में बहने से स्वच्छ हो जाता है। इन का जब भी अमृत के समान है। पर्विम समुद्र में गिरने वाली नदियां पर्याकारी एवं स्वच्छ पानी वाली हैं। पूर्वीय समुद्र में गिरने वाली नदियों धीरे धीरे चलती हैं और गुरु पानी वाली हैं। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न होनेवाली, विन्ध्याचल एवं सहाद्रि के पहाड़ों से उत्पन्न नदियां शिरोरोग, दृदयरोग, कुष्ठ और श्लोपद रोग को उत्पन्न करती हैं।

बरसात का पानी, मिट्टी, कूमि, कीट, उर्प, चूहा आदि के मध्यों से छूपित हो कर नदियों में जाकर मिलता है, इसकिये सभ नदियों का पानी छूपित होता है इसलिये इस श्रुतु में नदियों का पानी दोष बढ़ाने वाला होता है। बाल्की,

कूचा, तड़ाग, चश्मा, सरोवर, क्षारना आदि का पानी आनूप, पर्वत, और अन्यन अर्थात् खांगड़ देश के गुजराती दोषों के अनुतार समझना चाहिये । जो पानी पिण्डिल ( चिकास ), किमियुक छिन, पले, सरवाक अथवा कीचड़ से मिला, जिस पानी का रंग बदल गया हो, रस बिगड़ गया हो, कान्द ( तरक न हो, गाढ़ा हो ), दुर्गन्ध मुक्त हो, वह जड़ हितकारी नहीं है । समुद्र का पानी विस ( आमगन्धी ) तानों दोषों को करने वाला; नमकान हाता है । इतिहास नहीं पीना चाहिये । यह आठवां जलवर्ग समाप्त हुआ ॥ ११४-११५ ॥

इति जलवर्गः ।

### अथ दुर्घटवर्गः ।

रवादु शीतं सृदु स्तिर्धं वहलं स्फङ्गपिण्डिलम् ।  
शुरु मन्दं प्रसभं च गव्यं दशागुणं पयः ॥ २१६ ॥  
तदेवंगुणमेवोजः सामान्यादभिवर्धयेन् ।  
प्रवर्दं जीवनोयानां क्षीरमुक्तं रसायनम् ॥ २१७ ॥  
महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः ।  
स्नेहाऽन्यूनमनिद्राय हृतमत्यप्रये च तत् ॥ २१८ ॥  
रुक्षाणां क्षीरमुष्टीणामीषतसलङ्गं लघु ।  
शस्त्रं वात-कफानाह-कृमि-शाफोदरार्शसाम् ॥ २१९ ॥  
बल्यं स्थैर्यकरं सर्वमुष्णं चैकपकं पयः ।  
साम्भं सङ्खवणं रुक्षं शाखावानहरं लघु ॥ २२० ॥  
छागं काषयमधुरं शीतं प्राहि पयो लघु ।  
रक्तपित्तातिसारज्ञं क्षय-कास-ञ्चरापहम् ॥ २२१ ॥  
हिक्काइवासकरं तुणं पित्तफ्लेघलभाविकम् ।  
इस्तिनीनो पयो बल्यं गुरु स्थैर्यकरं परम् ॥ २२२ ॥  
जीवनं शृणुणं सात्यं स्नेहनं मानुषं पयः ।  
नावनं रक्तपित्ते च तर्पणं चाक्षिशूलिनाम् ॥ २२३ ॥

१. मुख्य में भी कहा है—अनूप देशे यद् वारि गुप्त तत् रुक्षेभवर्षम् ।

विपरीतमतो मुख्यं कषु जाङ्गलमुच्यते ॥

मुख्य में कूप, तड़ाग, बापी जौने आदि के पानी के गुरु पूर्वक-पूर्वक दिये हैं ।

दोचन दीपन वृष्ट्य स्नेहन बलवर्धनम् ।  
 पाकेऽम्लमुण्डं बातधनं मङ्गलं वृंहणं दधि ॥ २२४ ॥  
 पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे ।  
 अहृचौ मूत्रकृच्छ्रं च काश्यें च दधि शस्यते ॥ २२५ ॥  
 शरद-अधिम-बसन्तेषु प्रायशो दधि गहितम् ।  
 रसपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितं च तत् ॥ २२६ ॥  
 त्रिवोषं मन्दकं, जातं बातधनं दधि, शङ्कलः ।  
 सरः, श्वेष्मानिलघ्नस्तु मण्डः शोतोविशोधनः ॥ २२७ ॥  
 शोफाशों-महणी-दोष-मूत्र-कृच्छ्रोदरा-रुचौ ।  
 स्नेहव्यापदि पाणहुत्वे तकं दद्याद् गरेषु च ॥ २२८ ॥  
 संग्राहि दीपनं हृदयं नवनीतं नवोद्धृतम् ।  
 प्रहण्यशों-विकार-ज्ञमर्दितारुचिनाशनम् ॥ २२९ ॥  
 स्मृति-बुद्धयमि-शुक्रोजः कफ-मेदो-विवर्धनम् ।  
 बात-पित्त-विषोन्माद-शोषालक्ष्मी-विषापहम्<sup>३</sup> ॥ २३० ॥  
 सर्वस्नेहोत्तमं शीर्तं मधुरं रसपाकयोः ।  
 सहस्रधीर्यं विधिभिर्दृतं कर्मसहस्रकृत् ॥ २३१ ॥  
 भद्रापस्मार-मूर्छाय-शोषोन्माद-गर-ज्वरान् ।  
 योनिकर्णशिरःशङ्कलं घृतं जीर्णमपोहति ॥ २३२ ॥  
 सर्पार्थ्यजावि-महिषी-क्षीरवत्स्वानि निदिशेत् ।  
 पीयूषो मोरटं चैव किंडाटा विवधाश्च ये ॥ २३३ ॥  
 दीपामीनामनिद्राणा सर्व एते सुखप्रदाः ।  
 गुरवस्तर्पणा वृष्ट्या वृंहणाः पवनापहाः ॥ २३४ ॥  
 विशदा गुरवो रुक्षा ग्राहिणस्तकपिण्डकाः ।  
 गोरसानामयं वर्गो नवमः परिकीर्तिः ॥ २३५ ॥

शीरवर्ण—दूष-मधुर, शीतल, मृदु, स्निग्ध, बहल, इलक्षण, पिञ्चिल, गुरु, मन्द, प्रसन्न इन दृष्टि गुणोंबाला गाय का दूष है। ओज के भी ये ही दृष्टि गुण हैं। इस लिये सामान्य होने से दूष ओज को बढ़ाता है। इसलिये जीवनीय वस्तुओं में दूष सब से अधिक भेष गिना जाता है। वह रसायन है।

मैंस का दूष—गाय के दूष से भारी, गाय के दूष से ठण्डा और उसमें स्नेह अर्थात् धी भी अधिक होता है, निद्रा न आने वाले के लिये तथा अग्नि के बहुत बढ़ने में हितकारी है, अग्नि को कम करता है।

१. शुक्रलं इति पाठः । २. मूत्रप्रहोदरा इति पाठः । ३. ज्वरापहम् इति पाठः ।

अंटों का दूध बल, उम्ब, योका नमकीन, लघु, वात, कफ, आनाह कूमि, शोफ, उदर एवं अर्श रोग में हितकारी है। एक खुर वाले खोड़ी या गधी, खचर आदि जानवरों का दूध बलकारक, शरीर को स्थिर बनाने वाला, उम्ब, अम्ल-लवण रस, स्लू, हाय पांव के वातविकारों को नाश करने वाला और लघु है। बकरी का दूध-क्षाय, मधुर, शीतल, संप्राहि, लघु, रक्तपिण्ड-अतीतार नाशक, स्थय, कास, उवर में हितकारी है। भेड़ों का दूध-हिका, स्लूल रोग करने वाला, गरम, पित्त कफ को उत्पन्न करता है। हियनी का दूध-बल-कारक, गुरु, और शरीर को दृढ़ करने वाला है। जियों का दूध-जीवनीय, चूंहणीय, शरीर के सात्त्व, स्नेहक, नस्य के लिये और रक्तपिण्ड में हितकारी, आल के दुःखने में तर्पण करने के लिये उत्तम है।

दही के गुण—दही दचिकारक, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक, स्नेहन के योग्य, बलवर्धक, विपाक में अम्ल, उष्णवीर्य, वातनाशक, मंगलकारी, चूंहण, पौष्टिक है। पीनस, अतिसार, शीतजन्य विषमज्वर में, अद्विति, मूत्रकृच्छ्र, और स्वामाविक कृशता में दही उत्तम है। शरद-अग्नि और ब्रह्मन्त श्वृत्र में दही का खाना निनिदित है। मन्दक (जब, दही पूरी तरह न जमे उसे मन्दक कहते हैं) दही त्रिदोषकारक है, और ठीक तरह जमा दही वातनाशक होता है। सरः (दही के ऊपर की मलाई) शुकवर्धक (शुक की बुद्धि करने वाली) है। दही का मण्ड स्वच्छ द्रवमाग (मस्तु), कफ-वात नाशक और स्रोतों को साफ़ करने वाला है।

छाल के गुण—शोफ, अर्श, ग्रहणी, मूत्रावात (मूत्रावरोध), उदर रोग अद्विति, स्नेहकर्म जन्य रोगों में, पाण्डुरोग में तथा संयोग जन्य विष में छाल प्रशस्त है। मक्खन-संप्राहि, अग्निदीपक, हृष्ण, ग्रहणी, अर्शरोग-नाशक, अर्दित तथा अद्विति को मिटाता है। ताजा मक्खन ही अधिक प्रशस्त गुणकारी है, पुराना नहीं।

गाय के धी के गुण—स्मरण शक्ति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ-मेद, को बढ़ानेवाला, वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, दौर्माण्य, अशुभ-एवं ज्वर का नाशक है। सब स्लेहों में धी उत्तम है, शीतल, मधुर (रस एवं पाक में मधुर) है। नाना प्रकार के कर्म करने वाले द्रव्यों से धी का संस्कार करने पर धी सहस्रों प्रकार के, कर्म कर सकता है। मद, अपस्मार, मूर्छा, शोष, उन्माद, विष, ज्वर, योनिरोग, कर्ण रोग, जिर के शूल में पुराना धी (दस दाल का पुराना—‘जीर्ण’ तु दशवर्षीतीतम्) प्रशस्त है। अन्य बकरी-आदि के धी का गुण उनके दूध के समान समझना चाहिये।

पीयूष ( ताजी व्याहै हुई मादा पशु का दूध, सीत ), मोरट ( यही पीयूष जब अगडे दिन तक स्वच्छ नहीं होता, इसको मोरट कहते हैं ), किलाट ( जिसमें दूध से स्लेह माग निकाल दिया जाय ) तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुएं जिनको अभि बढ़ी हुई हो, या जिनको अनिद्र रोग हो, उनके लिये सुखदायक हैं, गुरु, तुसिकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्दक, बातनाशक हैं। छाँड़ का ऊना पा पनीर ( छाँड़ या दही को कपड़े में लटका कर उसका द्रव भाग निकाल देने पर बचा भाग ) स्वच्छ, गुरु, रुक्ष और तंगाही है। यह नवाँ गोरस का वर्ग समाप्त हुआ ॥ २१६-२३५ ॥

इति गोरसवर्गः ।

अयेषुवर्गः ।

वृष्यः शीतः स्थिरः स्निग्धो वृंहणो मधुरो रसः ।  
श्लेष्मलो भक्षितस्येक्षोर्यान्त्रिकस्तु विद्यते ॥ २३६ ॥  
शैत्याव्यप्रसादान्माधुर्यात्पौण्ड्रकाद्वैशको वरः ॥  
प्रभूत-कृमि-मञ्चासूक्ष्मेदो-मास-करो गुडः ॥ २३७ ॥  
श्लद्रो गुडश्वतुर्भागत्रिभागार्धीवरोषितः ।  
रसो गुरुर्यथापूर्वं धौरः स्वल्पमलो गुडः ॥ २३८ ॥  
यतो मत्स्यपिण्डकाक्षण्डशर्करा विमलाः परम् ।  
यथा यथैषा वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥ २३९ ॥  
वृष्याः क्षीणक्षतहिताः सरनेहा गुडशर्कराः ।  
कचायमधुराः शीताः सतिक्ता याः सशर्कराः ॥ २४० ॥  
रुक्षा व्ययतिसारनी छेदनी मधुशर्करा ।  
हुण्णासूक्ष्मित्तदाहेषु प्रशस्ताः सबैशर्कराः ॥ २४१ ॥  
भास्त्रिकं भ्रामरं क्षाद्रं पौत्रकं मधुजातयः ।  
भास्त्रिकं प्रबरं तेषां विशेषाद् भ्रामरं गुरु ॥ २४२ ॥  
भास्त्रिकं वैलवणं स्यात् इवेतं भ्रामरमुच्यते ।  
शौद्रं तु कपिळं विद्याद् घृतवर्णं तु पौत्रिकम् ॥ २४३ ॥  
बातर्लं गुरु शीतं च रक्तपित्तकफापहम् ।  
संचारं छेदनं रुक्षं कषायमधुरं मधु ॥ २४४ ॥  
हृन्यान्मधुण्णमुष्णार्तमथवा सविषान्वयात् ।  
गुरु-रुक्ष-कचायत्वाच्छेत्याकाल्यं हितं मधु ॥ २४५ ॥

नातः कष्टमं किञ्चिन्मध्यामासद्वि भानवर् ।

उपक्रमविरोधित्वात्सत्यो हन्यायथा विषम् ॥ २४६ ॥

आमे सोष्णा किया कार्या सा मध्यामे विरुद्धते ।

मध्यामं द्वारणं यस्मात्सत्यो हन्यायथा विषम् ॥ २४७ ॥

नानाद्रज्यात्मकत्वात् योगवाहि परं भव् ।

इतीकुविकृतिप्रायो वर्गोऽर्थं दशमो मतः ॥ २४८ ॥

**इकुविकारवर्ण—** गंगे का दातो से चूसकर खाया हुआ रस बीर्य-बद्धक, शीतल, रेचक, स्तिर्घ, पौष्टिक, मधुर एवं कफकारक होता है । यान्त्रिक (कोल) में पेल कर निकाला हुआ रस विदाहयुक्त हो जाता है । छिलके और गाठ के बोग से उसमें विदाह उत्पन्न होता है और बाहर धूप में बाजु के बोग से भी विदाह उत्पन्न होता है । पौष्टिक (नरम छिलके का) गन्ना अधिक शीतल, अधिक निर्मल (प्रसन्नता देने वाला) और अधिक मीठा होता है, बास गन्ना इससे उत्तर कर होता है ।

**गुड—अतिशय कृमि, भजा, रक्त, मेद, और मांस को बढ़ाता है ।** शुद्ध गुड (काले रंग का गुड), चार भाग तीन भाग और आधा भाग बचाकर गन्ने के रस से बनाये गुड की अपेक्षा पूर्णायर कम से गुरु हैं । अर्थात् शुद्ध गुड चार भाग से बने गुड से और चार भाग का गुड तीन भाग के गुड से अधिक गुरु हैं । साफ़ करके बनाया हुआ अर्थात् योके मळ वाला गुड कम तुकड़ान करता । इसके पीछे मत्स्यण्डिका (राश) खांड, शक्त, उत्तरोत्तर निर्मल-स्वच्छ होते जाते हैं और जिस प्रकार इनमें स्वच्छता बढ़ती है उसी प्रकार शीतलता भी बढ़ती जाती है । अर्थात् राश से खाण्ड और खाण्ड से शक्त शीतल है ।

गुड से बनी शक्त बीर्यवर्धक, शीण, उत्तराशत के रोगी के लिये हितकारी स्नेहयुक्त होती है । धमासे के काथ से बनाई शर्करा कथाय, मधुर रस, शीतक और कुछ तिक्त होती है । मधु की शर्करा, रुक्ष, वमन, अतिसार नादाक, छेदक (कफ आदि को तोकने वाली) होती है । तुष्णा रक्तपित्त और दाह रोग में उब शर्करायें प्रशस्त हैं ।

मधु के गुण-मधु की चार जातियाँ हैं । यथा १. मालिक (बड़ी मक्कियों या पिंगल रंग की मक्कियों से बना), २. आमर (भ्रमरोद्धारा बनाया) ३. खोद्र (छोटी मक्कियों द्वारा बना) ४. पीत्तिक (पीली मक्कियों से बना श्वेत रंग का) । इन चारों प्रकार के शहद ने 'मालिक' शहद भेष्ठ है । भ्रमरों से बनाया मधु विशेषतः गुड होता है । मालिक शहद का रंग तोक के उमानं (पीला) और

पौत्रिक यहद का रंग घो के समान ( सफेद ) पीला होता है । खोड़ यहद इवेत होता है ।

मधु—बायुकारक, गुरु, शीतल, रक्त-निपत्ति, कफना शक, ब्रणों को जोड़ने वाला, कफ मेद आदि को उत्तापने वाला, रुक्ष, कषाय और मधुर होता है । मधु नाना प्रकार के फूलों से विषैली मस्तिशयों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिये इसे गरम करके देने से अथवा गरम अवस्था में मनुष्य को देने से मारक होता है । \* मधु गुरु, रुक्ष और कषाय रुक्ष, तथा शीतल होने से थोका सेवन करना उत्तम है । मधु के अधिक खाने से उत्पन्न आम रोग जैसा कषायाध्य दूसरा रोग नहीं है । क्योंकि इतकी चिकित्सा में विरोध है । इसलिये विष की भाँति मनुष्य को शीघ्र मार देता है । क्योंकि आम-चिकार में उत्थ किया करनी चाहिये, वह मधु में विरुद्ध है; और मधु के हितकारी जो शीतल किया है, वह आमरोग के विरुद्ध है । इसलिये मधुजन्य आमरोग दाश्ण रोग है, इसलिये वह विष की भाँति मनुष्य को शीघ्र मार देता है । नाना प्रकार की रस-बीर्य वाली औषधियों के पुष्टों से उत्पन्न होने के कारण मधु में नाना प्रकार की शक्तियां छिपी रहती हैं । इसलिये तथा प्रभाव के कारण मधु योगवाही अर्थात् वमनकारक, आस्थापन या वृष्ट्य कर्म करने वाले जिस द्रव्य के साथ दिया जाता है वैसा ही कार्य करता है । इस प्रकार से यह दसवां इन्द्रुविकार-वर्ग समाप्त हुआ ॥ २३६-२४८ ॥

इतीन्द्रुवर्गः ।

अथ कृतान्नवर्गः ।

कुत्तृष्णा-ग्लानि-दौर्बल्य-कुक्षिरोग-विनाशिनी ३ ।  
स्वेदाभिजननी पेया वातवर्चोनुलोमनी ॥ २४९ ॥  
तर्पणी प्राहिणी लघ्वी हृद्या चापि विलेपिका ।

१. मुशुत में आठ मेद किये हैं—

‘पौत्रिकं आमरं खोड़ं मास्तिकं शात्रमेव च ।

आर्यमौद्दालिकं दात्रमित्यष्टौ मधुजातयः ॥’

\* शिखाजन्तु, तैल आदि भी योगवाही हैं । योगवाही होने पर भी स्नेहन कार्य में यहद प्रयुक्त नहीं होता । बायु में रुक्षादि गुण हैं । मधु में रुक्ष, कषाय गुण विशेषतः स्पष्ट हैं ।

२. रोगवरापादा इति पाठः ।

मण्डः संवीपयत्वमिं बातं चाष्टुलोभयेत् ॥ २५० ॥  
 शृदूकरोति ज्ञोतासि स्वेदं संजनवत्यपि ।  
 लहृतानां विरिकाना जीर्णे स्नेहे च दृष्टवाम् ॥ २५१ ॥  
 दीपनत्वाल्लघुत्वात् मण्डः स्वाधारणवारणः ।  
 लाजपेया अमग्नी तु क्षामकण्ठस्य देहिनः ॥ २५२ ॥  
 तृष्णातीसारशमनो धातुसाम्यकरः शिवः ।  
 लाजमण्डोऽमिजननो दाहमूर्छानिवारणः ॥ २५३ ॥  
 मन्दाग्निविषमाग्नीना बाल-स्थविर-योचिताम् ।  
 देयश्च सुकुमाराणा लाजमण्डः सुसंस्कृतः ॥ २५४ ॥  
 शुतिपासापहः पथ्यः शुद्धानां तु मलापहः ।  
 शृतः पिपलिशुण्ठीङ्गायुक्तो लाजाम्लदाढिमैः ॥ २५५ ॥

पेया ( ग्यारह गुने पानी में योगी स्विन्न होने पर बनी हुई काँजी ) भूल,  
 प्याल, ग्लानि, दुर्बलता, उदर रोग को नष्ट करती है, स्वेदकारक, अग्नि को  
 बढ़ाती और वायु, मल का अनुलोमन करती है। विलेपी ( चार गुने पानी में  
 बनाई ) तृप्तिकारक, संग्राही लघु, हृदय के अनुकूल होती है। मण्ड ( चौदह  
 गुने पानी में तैयार किया ) अग्नि का दीपन और वायु का अनुलोमन करता है,  
 स्नोतों को कोमल करता तथा पसीना लाता है। उपवास किये, विरेचन किये,  
 स्नेहपान के जीर्ण होने पर, प्यास लगने पर; अग्निदीपक और लघु होने से मण्ड  
 का सेवन करना उत्तम है ( मण्ड, लघु और दीपक गुण वाला है )। लाजपेया  
 ( लाज अर्थात् सीलों से बनाई पेया ) अमनाशक, गळे के खुश्क होजाने पर  
 हितकारी है। लाजमण्ड, अग्निवर्धक, दाह-मूर्छानाशक है। मन्दाग्नि और  
 विषमाग्नि बाले पुरुषों के लिये, बालक, वृद्ध, लियों को तथा कोमल-नारुक  
 प्रकृति वालों को लाजमण्ड पका करके देना चाहिये ॥। जो भूल और प्याल  
 को सहन न कर सकते हों, पथ्य सेवन करते हों, बमन विरेचन से जो  
 शुद्ध देह वाले हों, परन्तु याहा मल बमन विरेचन के पीछे रक्त गया हो  
 इस अवस्था में पिपली, सोठ, अनारदाना ( खड़े अनार के रत ) से बनाया  
 लाजमण्ड अग्नि को बढ़ावा और वायु का अनुलोमन करता है ॥ २५५-२५५ ॥

सुधोतः प्रस्तुतः स्विभः संतसश्चैदनो लघुः ।  
 अघौतोऽप्रस्तुतोऽस्विभः शोतश्चाप्योदनो गुरुः ॥ २५६ ॥  
 शृणुतपुलमिच्छन्ति गरल्लेष्मामयेष्वपि ।  
 मास-शाक-बसा-तैल-शृत-भज्ज-फलैदनाः ॥ २५७ ॥

\* बनिया, पिपली, सोठ, मरिच के साथ एकाना चाहिये ।

वन्धाः संतर्पणा हृषा गुरबो वृंहयन्ति च ।  
 तद्रम्माषतिलं क्षीरः मुदूग-संयोग-न्साधिता ॥ २५८ ॥  
 कुरुमाषा गरबो रुक्षा वातला मिळवर्चसः ।  
 स्तिवभक्षयोस्तु ये केचित्सोप्य-गोधूम-यावकाः ॥ २५९ ॥  
 मिषक् तेषां यथाद्रूप्यमादिशेद् गुहलाघवम् ।  
 अकृतं कृतयूषं च तनुं सांस्कारिकं रसम् ॥ २६० ॥  
 सूपमग्नमनम्लं च गुहं विद्याधथोत्तरम् ।

मली प्रकार से धोये, मांड निकाले, गलाये हुये, गरम-चावल (भात) छुट्ठु होते हैं। गलाये और ठाढ़े चावल गुह हो जाते हैं। कृत्रिम विष और कफजन्य रोगों में भूते हुए चावलों का भात अच्छा है। पूरे न धोये, बिना मांड उतारे, मांड, शाक, बसा, तैल, धूत, मज्जा और फल इनको मिलाकर तैयार किये चावल बलकारक, सन्तर्पक हृदय ग्रिय, गुरु और पौष्टिक होते हैं। इसी प्रकार उड़द, तिल, दूध, मूंग, के योग से बनाये भात भी इसी प्रकार गुणकारक होते हैं। कुरुमाष (जो को योड़ा सा पकाकर) गुरु रुक्ष, बायुकारक और रेचक होते हैं। स्तिवभक्षया (भाष देकर तैयार की बस्तुएँ) जो उड़द, मूंग, गेहूं, जौ आदि से पिछी करके बनाये जाय, वे जिस बस्तु से बनाये जाते हैं उसी बस्तु के अनुसार गुरु या लघु गुण बाले होते हैं।

अकृतयूष (धनिया आदि मसाले से संस्कार न किया हुआ यूष), हठयूष (मसाले से संस्कार किया), पतला एवं सांस्कारिक [कहुत-माल-न्सेहादि से संस्कृत] मांस रस; अम्लसूप (खट्टी दाल) और अनम्ल सूप, ये उत्तरोत्तर भारी हैं । अथात् अकृत यूष से कृतयूष भारी है, तनुमास रस से सांस्कारिक मांस रस भारी है । अनम्ल सूप से अनम्ल सूप भारी है ॥ २५६-२६० ॥

सक्तबो वातला रुक्षा बहुवर्चोऽनुलोमिनः ॥ २६१ ॥  
 तर्पयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योबलाद्य ते ।  
 मधुरा छष्टवः शीताः सक्तवः शालिसंभवाः ॥ २६२ ॥  
 ग्राहिणो रक्तपित्ताद्यनास्तुष्णा-च्छिद्यवरापहाः ।  
 सत् वायुकारक, कम्फ, पुष्कल मल उत्पत्त करने वाले, वायु के अनुको-  
 मक, पीते पर जल्दी ही तुसि करने वाले, एवं शीघ्र बलकारक हैं जैसे वाकि

× अस्नेहलवणं सर्वमहतं कटुर्विना ।

विशेषं छष्टणस्नेहकद्वक्षैः संस्कृते कृतम् ॥

\* मुशुत जे—“पद्मापहा” वायुनाशक किया है ।

( हेमन्त चान्य ) चान्द से बनाये तत्, मधुर, छमु, शीतल होते हैं । वे संभाही, रक्षित, तुच्छा, बमन, और ब्वर के नामक हैं ॥ २६१-२६२ ॥

इन्यात् व्यवर्चित् यदापूपो यावको बाढ़व पद च ॥ २६३ ॥

उदावर्त-प्रतिश्याय-कास-मेह-गलगहान् ।

धानासंज्ञामृते भक्ष्याः प्रायस्ते लेखनात्मकाः ॥ २६४ ॥

शुष्कत्वाक्षर्षणात्मेव विष्ट्रिभित्वात् दुर्जराः ।

विरुद्धधानाः शकुल्यो मधुकीहाः सपिण्डकाः ॥ २६५ ॥

पूपाः पूपलिकाश्च गुरवः पैषिकाः परम् ।

जौ के पूड़े, जौ की बढ़ियाँ, वाढ़ी, [ मूने जौ के चावल ], ये उदावर्त, प्रतिश्याय, कास, प्रमेह और गले के रोगों को मिटाती हैं । धाना ( मूने जौ ), प्रायः करके ले जन, कफ आदि के उखाइने वाले हैं । एवं शुष्क होने से प्यास लगाने वाले हैं । विष्ट्रिभी होने से देर में पचते हैं । विरुद्ध धाना ( अंकुरित चान्य ), शकुली ( चावलों को पीसकर तिल मिलाकर तेल में पकाने से ), मधुकोका ( पकाकर, घन बनाकर बीच में शहद रखने से ), सपिण्डका ( मधु कोका, पूरन पोली ), पूप ( पूड़े ), पूपलिका ( माल्पूआ; चापड़ ), ये अत्यन्त गुरु और पौष्टिक होते हैं ॥ २६३-२६५ ॥

फल-मास-वसा-शाक पलल क्षीद्र-संस्कृताः ॥ २६६ ॥

भक्ष्या वृद्ध्याश्च बल्याश्च गुरवो वृहणात्मकाः ।

वेशवारा गुरुः स्तिर्थो बडोपचयवर्धनः ॥ २६७ ॥

गुरवस्तर्पणा वृद्ध्याः शीरेहुरसपूपकाः ।

सगुडः सतिलात्मेव सक्षीरक्षीद्रशक्तराः ॥ २६८ ॥

वृद्ध्या बल्याश्च भक्ष्याश्तु ते परं गुरवः स्मृताः ।

फल, मास, वसा, शाक, पलल ( तिल का चूर्ण ), मधु इनके साथ बनाये साथ पदार्थ बीर्यवर्धक, बलकारक, गुरु और पौष्टिक हैं । वेशवार ( मांत में से इही निकाल कर पत्थर पर पिप्पली, मरिच, गुरु और जी के साथ पका लेने पर वेशवार बनता है ) गुरु, स्तिर्थ, बल्याक्षिवधक है । दूष और गन्ने के रस से तैयार किये खाय पदार्थ गुरु, तुमिकारक और बीर्यवर्धक है । गुरु, तिल, दूष और शकरा से बनाये पदार्थ बीर्यवर्धक, बलकारक, और बहुत गुरु हैं ॥ २६६-२६८ ॥

सन्त्वेहाः सन्त्वेहसिद्धाश्च भक्ष्या विविधलक्षणाः ॥ २६९ ॥

गुरवस्तर्पणा वृद्ध्या दृश्या गौथूमिका मताः ।

संस्कारालक्षणः सन्त्विं अहवा सोधूमपैषिकाः ॥ २७० ॥

**बानापर्षट-पूपाणास्तान्मुद्ध्वा निर्विशेषता ।**

गेहूँ के आटे को भी आदि स्नेह में मथकर या भी आदि स्नेह में पका कर नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं वे सब गुरु, दृष्टिकारक, पौष्टिक ( वीर्यवर्धक ) और हृदय को प्रिय होते हैं । इसी प्रकार गेहूँ आदि के जो पदार्थ अधिक अश्रिसंयोग से तैयार किये जाते हैं, जो कि स्वभाव से गुरु हैं, वे भी संस्कार द्वारा लघु बन जाते हैं । इसी प्रकार गेहूँ की पीठी, धान्य पर्षट, पूप आदि बस्तुएँ भारी होने पर संस्कार के कारण लघु बन जाती हैं । इसलिये वैद्य को संस्कार का विचार करके गुणों का निश्चय करना चाहिये ॥ २६६-२७० ॥

**पृथुका गुरवो भृष्टान्भक्षये इल्पशस्तु तान् ॥ २७१ ॥**

यावा विष्ट्रिय जीर्यन्ति सरसा भिज्वर्चसः ।

**सूख्यान्नविकृता भक्ष्या वातला रुक्षशीतलाः ॥ २७२ ॥**

सकदुस्नेहलवणानल्पशो भक्षयेत्तु तान् ।

**सृदुपाकाश ये भक्ष्याः स्थूलाश्च कठिनाश्च ये ॥ २७३ ॥**

गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाकाः पुष्टिवलप्रदाः ।

पृथुक ( चिवडा ) मारी होता है । भूने हुए चिवडे को थोका खाना चाहिये । याव ( जौ का बना चिवडा ) पेट में अवरोध करके जीर्ण होते हैं । सरठ ( न भूने हुए जौ ) रेचक हैं । सूख अल ( मूंग, उड्ड आदि से बनी बस्तुएँ ) वायुकारक, रुक्ष, शोतक होते हैं । इनको कट रख, स्नेह ( जो या तैल ), नमक के साथ थोकी मात्रा में खाना चाहिये । जो खाद्य पदार्थ मीठी औंच पर बनते हैं और जो स्थूल और कठोर होते हैं, वे गुरु, एवं देर में पकते हैं तथा पुष्टि और बल देते हैं ॥ २७१-२७३ ॥

**द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं पृथक्तथा ॥ २७४ ॥**

भक्ष्याणामादिशोद्भुद्ध्वा यथास्त्वं गुह्याधवश् ।

**नानाद्रव्यैः समायुक्तः पक्कामळिन्नभर्जितैः क्षः ॥ २७५ ॥**

चिमर्दके गुरुहृद्यो वृद्ध्यो बलवता हितः ।

**रसाला वृहणी वृद्ध्या स्तिर्घा बल्या हचिप्रदा ॥ २७६ ॥**

स्नेहनं तर्पणं हृदयं वातज्ञं संगुडं दधि ।

किसी पदार्थ के गुरु या लघु होने का निश्चय उस पदार्थ के मूल स्वभाव, संयोग, संस्कार ( पकाने की विधि ), मिलने के परिणाम ( राशि ), आदि सब बातों का विचार करके करना चाहिये । जिसमें वे बातें गुरु पक्का में आती

\* पक्का बनिषु भर्जितैः ॥ इति वा पाठः ॥

हो वे बस्तु गुरु उमस्तना, जिसमें छतु पद्म में हो वह बस्तु इहकी उमस्तनी चाहिये । विसर्दक (मांत को नाना प्रकार से बनाने की विधि से), नाना प्रकार के पदार्थों से मिला हुआ, पकाया, आम, डिल्न और मैट्रे हुए मेद से गुरु, हृदय के लिये, प्रिय, वीर्यवर्धक और बलवान्, पुरुषों के लिये द्वितीयारी है । मलाई बाली दही को खूब मध्यकर इसमें दाढ़चीनी, हृष्णची, तेजपात, नागकेशर, अजवायन, गुड़, अद्रक, सौंठ के साथ मिलाकर तैयार की रखाला पुष्टिकारक, वृद्ध, वीर्यवर्धक, रिंगघ, बलकारक, रचिकारक है । गुरुके साथ दही स्नेहक तृप्तिकारक, हृदय के लिये प्रिय और बातनाशक है । २७४-२७६ ॥

द्राक्षा-खर्जूर-कोलाना गुरु विष्टुभिम पानकम् ॥ २७७ ॥

परूषकाणा क्षौद्रस्य यच्चेषु विकृति प्रति ।

तेषां कटव्म्लसंयोगाः पानकानां पृथक् पृथक् ॥ २७८ ॥

द्रव्यमानं च विज्ञाय गुणकर्मणि निर्दिशेत् ।

कटव्म्लस्वादु-ल्लवणा लघवो रागषाढवाः ॥ २७९ ॥

मुखप्रियाश्च हृष्णाश्च दीपना भक्तरोचनाः ।

आम्रामलकलेहाश्च वृंहणा वलवर्धनाः ॥ २८० ॥

रोचनास्तपणाश्चोक्ताः स्नेहमाधुर्यगौरवात् ।

कुदूष्वा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानं च तच्छ्रूतम् ॥ २८१ ॥

गुणकर्मणि लेहानां तेषां तेषां तथा वदेत् ।

द्राक्षा, खर्जूर, बेर, फालसा, शहद, गन्ने का रस इनके रस में गुरु वा शकर दालकर बनाया हुआ शरबत, गुरु, मल-मूत्र का रोधक होता है । इन शरबतों में कटु या अम्ल वस्तुओं का योग तथा द्रव्य परिमाण जानकर रोग एवं विचिके के अनुसार पृथक् पृथक् रूप में देना चाहिये, इनके गुण कर्म पृथक् २ हो जाते हैं । गुड़ के साथ आम रस को पका तेल, सौंठ आदि मिलाकर बनाया रख, वा अनार, दाल, फालसा, जामुन रसादि से बना मधुर पाक 'रागषाढव' कहाता है । वह कटु, अम्ल, स्वादु नमकीन, लघु, स्वादिष्ठ, हृदय को प्रिय, अग्निदीपक और खाने में रुचिकर होता है । आम या आंवले के रस से बनाये चाटन, पुष्टिकारक, बलवर्दक, रचिकारक, तृप्तिकारक, होते हैं, क्योंकि इनमें स्नेह मधुरता और भारीपन होता है । द्रव्यों के संयोग संस्कार (पाक-विधि) और द्रव्यों की मात्रा को चाटने योग्य (लेहों) में देखकर विचार कर गुण कर्म का निष्पत्ति करना चाहिये ॥ २७५-२८१ ॥

रक्षपित्रकोत्कलेदि हुक्क बातानुलोमनम् ॥ २८२ ॥

कन्दमूळफलाण्डं च तद्विद्यात्तदासुतम् ।

शिण्डाकीक चाऽसुतं चान्यत् कालाम्लं रोचनं छधु ।

विद्याद्वृगं कृतान्नानामेकाशतमं भिषक् ॥ २८३ ॥

छुक ( चुक )—शुद्ध पात्र में गुक, शहद, कांजी सहित मस्तु ढाककर धान के ढेर में तीन रात रखने से शुक या चुक तैयार होता है । वह रक्षपित्रनाशक, कफ को पतला करने वाला, वायु का अनुलोमक होता है । चुक में कन्द, मूळ फल आदि ढाले गये हो तो इसको 'आसुत' कहते हैं । शिण्डाकी ( सिरके में काला लीरा आदि ढालने से ), आसुत, कालाम्ल ( देर तक रखने से जो अम्ल बन गया हो, अम्ल ढालने से नहीं ) वह रोचक और लघु होता है । इस ग्यारहवें कृतान्नवर्ग का वैद्य अवश्य शान करे ॥ २८२-२८३ ॥

इति कृतान्नवर्गः ।

### अथाऽहारयोगिवर्गः ।

कषायानुरसं स्वादु सूक्ष्ममुलाण्ड्यवौयि च ।

पित्तलं बद्धविष्मूत्रं न च श्लेष्माभिवर्धनम् ॥ २८४ ॥

बातध्नेषुत्तमं बल्या त्वच्यं भेषाग्निवर्धनम् ।

तैलं संयोगसंस्कारात्सर्वरोगापहृं मतम् ॥ २८५ ॥

तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः ।

आसन्नतिबलाः संख्ये दंत्याधिष्पतयः पुरा ॥ २८६ ॥

ऐरण्डतेलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम् ।

बातासूगुलम्-हृद्वोग-जीर्ण-ज्वर-हरं परम् ।

कट्टुर्णं सांबेषं तंलं रक्षपित्रप्रदूषणम् ।

कफशुक्कानिलहरं कण्ठकोठविनाशनम् ॥ २८८ ॥

पियालतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम् ।

हितमिच्छन्नित नात्यौष्ण्यात्संयोगे बातपित्रयोः ॥ २८९ ॥

आतस्य मधुराम्लं तु विपाके कटुकं तथा ।

उष्णवीर्यं हितं बाते रक्षपित्रप्रकोपणम् ॥ २९० ॥

कुसुमवैलमुलाण्डं च विपाके कटुकं गुरु ।

विद्याहि च विशेषेण सर्वरोगप्रकोपणम् ॥ २९१ ॥

फलानी वानि चाल्यानि तेजान्याहरसंविष्टौ ।  
शुष्मन्ते गुणकर्मङ्ग्या तानि श्रूयाशथाफलम् ॥ २६६ ॥  
मधुरो हृद्यो वृद्यो वल्यो मज्जा तथा वसा ।  
यथासत्त्वं तु शेष्यौष्ठे वसामज्जोर्विनिर्दिशेत् ॥ २६७ ॥

तैल का तेल कथाय अनुरास, स्वादु, रसम ( स्रोतों में मुसनेवाला ) उच्च, अवायी, छिंद्रों में पहुंचने वाला ( शरीर में फैलनेवाला ), विचकारक, मक्क मूत्र को रोकने वाला है, परन्तु कफ को बढ़ानेवाला नहीं है । वातनाशक औषधियों में अेष्ट, बलकारक, स्वचा के छिंदे हितकारी, तुदि, और अग्नि को बढ़ाने वाला है, संयोग एवं संस्कार करने से सब रोगों को नाश करने वाला है । प्राचीन काळ में इह तेल के प्रयोग से देत्याधिपति, बुद्धापे से राहित, विकार-शून्य, परिभ्रम सहन करनेवाले, न थकने वाले, लड़ाई में बहुत बलवान् द्युप वे ।

( १ ) ऐरण्ड का तेल—मधुर, गुरु, कफ को बढ़ानेवाला, वातरक, गुस्म, हृदय रोग, अजीर्ण और ऊंचरका नाशक है । सरसों का तेल कटु, उच्च, रक्त-पित्त को दूषित करने वाला, कफ, शुक्र और वायु को नष्ट करने वाला, कण्ठ और कोठ का नाशक है । ( सरसों के तेल को खाने से रक्त पित्त दूषित होते हैं, मलने से नहीं ) ( २ ) पियाक फल ( चिरींजी ) का तेल मधुर, गुरु, कफ को बढ़ाने वाला और बहुत गरम न होने से वात-पित्त के सम्मालन विकारों में उत्तम है ( ३ ) अलसी का तेल—मधुर, अम्ल, विपाक में कटु, उच्चवीर्य वात-रोग में हितकारी, रक्त और पित्त को कुपित करने वाला है । ( ५ ) घनिये का तेल—गरम, विपाक में कटु, गुरु, विदाही और सब रोगों को ( दोषों को ) कुपित करने वाला है । जिन फलों से अन्य तैल तैयार किये जाते हैं, उन तैलों के गुण उन्हीं फलों के अनुसार समझने चाहिये ।

चिचायता तिक्क, अतिमुक्क, विभीतक ( बहेडा ) ना रियल, वेर, अख-रोट, जीवन्ती, पियाल ( चिरींजी ) कुर्बुदार, सूर्यवल्ली, श्रुपुस, ऐरावासु, कफरि कूम्भाषण आदि के तेल मधुर, मधुवीर्य, मधुर विपाक वाले, वात पित्त को शान्त करने वाले, शीतवर्य, मार्गवाषक, ममूत्रकारक, अग्निवर्धक होते हैं ( सुभ्रुत ) मज्जा और वल्या, मधुर रस, पुष्टकारक, शुक्रवर्धक, बलकारक होता है । इनकी शीतता और उच्चता प्राणियों के अनुसार समझनी चाहिये । जिस प्राणी का मांस उच्च है उसकी मज्जा भी उच्च, जिसका मांस शीत उस प्राणी की मज्जा भी शीत समझनी चाहिये ॥ २६८-२६९ ॥

स्त्रेहं दीपनं दृग्मुष्ठं वातकफापहम् ॥ २६४ ॥

विपाकमधुरं हृद्यं दोषनं विश्वमेषजम् ॥

श्लेष्मला मधुरा चाऽऽर्द्धा गुरीं क्षिण्वा च पिपडी ।  
 सा शुष्का कफवातनी कदूष्णा वृद्ध्यसंमता ॥ २९५ ॥  
 नात्यर्थमुष्णं मरिचमवृद्धं लघुरोचनम् ।  
 छेदित्वा छोणत्वाच दीपनं कफवातजित् ॥ २९६ ॥  
 वातम्लेज्ञविवन्धनं कदूष्णं दीपनं लघु ।  
 हिङ्कु शूलप्रशमनं विशात्पाचनरोचनम् ॥ २९७ ॥  
 रोचने दीपनं वृद्धं चञ्चुष्ममविदाहि च ।  
 त्रिदोषधनं समधुरं सैन्धवं लघुणोचनम् ॥ २९८ ॥  
 सौकृत्यादौष्ठ्यालग्नुत्वाच सौगन्ध्याच रुचिप्रदम् ।  
 सौवर्चं ल विबन्धनं हृद्यमुद्गारशोधि च ॥ २९९ ॥  
 तैक्षण्यादौष्ठ्याद व्यवायित्वादीपनं शूलनाशनम् ।  
 ऊर्ध्वं चाधश्च वातानामानुलोभ्यकरं विडम् ॥ ३०० ॥  
 सतिर्कं कदु सक्षारं तोक्षणमुत्क्लेदि चौद्धिदम् ।  
 न काललवणं गन्धः सौवर्चं लगुणाश्च ते ॥ ३०१ ॥  
 सामुद्रकं समधुरं, सतिर्कं कदु पाशुजम् ।  
 रोचनं लवणं सर्वं पाकि संस्यनिलापहम् ॥ ३०२ ॥  
 हृत्पाण्हु-म्रहणी-दोष-सीहानाह-गल्प्रहात् ।  
 कासं कफजमशास्ति यावश्यको व्यपोहति ॥ ३०३ ॥  
 तीक्ष्णोष्णो लघुरुक्षश्च क्लेदी पक्ता विदारणः ।  
 द्वाहनो दीपनश्छेत्ता सर्वः क्षारोऽग्निसंनिभः ॥ ३०४ ॥  
 कारव्यः कुञ्जिकाऽजाजी यवानी धान्यतुरस्युरु ।  
 रोचनं दीपनं वात-कफ-दौर्गन्ध्य-नाशनम् ॥ ३०५ ॥  
 आहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विश्वते ।  
 समाप्तो द्वादशशार्थं वर्गं आहारयोगिनाम् ॥ ३०६ ॥

सोठ—योही रिनग्ध, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक, गरम, वातकफनाशक, विपाक में मधुर, हृदय के लिये हितकारी, रुचिप्रिय होती है। हरी पिपडी-कफ-कारक, मधुर, गुरु और स्लिंग्व होती है। सूखी पिपडी कफ वातनाशक कदु, उष्ण, वीर्यवर्धक है। काढ़ी मरिच सूखी-बहुत गरम नहीं, वीर्य को न बढ़ाने वाली, लघु, रुचिकारक, छेदन करने वाली, कफ आदि को उत्तापने वाली और दोषक होने से अग्निदीपक एवं कफ-वातनाशक है। और हरी अवस्था में स्वादु गुरु, कफवर्धक होती है। हींग वायु-कफ विवन्धनाशक, चह, उष्ण, अग्निदीपक, लघु, शूलनाशक, पाचक और रुचिकर है। सेना चह—रुचि-

आरक, अग्निवर्द्धक, इष्ट, बाँडों के लिये वित्कारी, अविदाही, विदेशीवासी, कुछ मधुर और सब नमकों में ज्वेह है ।

सौख्यचल नमक ( संचल नमक )—सूखम्, उष्ण, लघु होने से तथा मुश्मिन्दि होने से रुचिदायक, विवन्दनाशक, इष्ट, उद्गार ( डकार ) को घोड़न करने वाला है । विड ( काला नमक )—तीक्ष्ण, उष्ण और व्यवायी ( शरीर में फैलने वाला होने से ) अभिदीपक, शूद्रनाशक, एवं बायु को ऊपर या नीचे, अधोमार्ग दोनों से अनुलोभन करने वाला है । ऊद्यमिद् नमक-रिक, कट्ट, आरुक, तीक्ष्ण उड्कोदि अर्थात् वमन की रुचि करने वाला है । काले लवण के गुण संचल नमक के समान हैं, परन्तु इस में संचल के समान गन्ध नहीं होती । समुद्र के पानी से तैयार किया नमक मधुर है । पांशुज ( सज्जी ) जिससे धोवी कपड़ा चोते हैं, ऐसी भिट्ठी से तैयार किया नमक कट्ट और तिक्क होता है । सब प्रकार के नमक रुचिकारक, अच या ब्रण को पकाने वाले; संसी और बात-नाशक हैं ।

जौ-खार—हृदय, पाण्डु, ग्रहणी रोग, झीझा, आनाह, गलरोग, कफजन्य कास और अर्शरोग को नष्ट करते हैं । सब प्रकार के खार ( टंकण, सुज्जी, पापड़ खार आदि ) तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रुक्ष, झोदि, अच और ब्रण को पकाने वाले, पके हुए ब्रण को फाढ़ने वाले, जलाने वाले, अग्निवर्द्धक, कफ आदि का छेदन करने वाले अग्नि के समान गुण वाले ( उष्ण ) होते हैं । कारबी ( काला जीरा, ) कुंचीका ( मोटा जीरा ) ये रुचिकार अग्निदीपक, बात, कफ, दुर्गन्ध को नाश करने वाले हैं । खान पान में किन किन द्रव्यों का व्यवहार होता है या होना चाहिये इसका निष्पत्ति करना कठिन है, कोई एक नियम नहीं बन सकता, वयोकि प्रत्येक मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न है । यह बारहवीं आहारयोगी द्रव्यों का वर्ग भी समाप्त हुआ ॥ २६४—३०६ ॥

इत्याहारयोगिवर्गः ।

शूक्खान्यं शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते ।

पुराणं प्रायशो रुक्षं प्रायेणामिनवं गुद ॥ ३०७ ॥

यद्यद्यागच्छति क्षिप्रं तत्त्वाषुतरं स्मृतम् ।

निस्तुष्टं युक्तिस्थृतं तु सूखं छञ्च विषयते ॥ ३०८ ॥

शूक्खान्य ( चावल, गेहूँ आदि ), शमीधान्य ( मूंग, मदूर, उड्ड आदि ) ये एक लाल पुराने प्रसाद हैं । प्रसाद; उसके पुराने चान्दे जल होते हैं ।

थो चान्द दोने पर बहरी उग आता है ( जैसे ग्रीष्म चढ़ के बाती आवह )  
वह हल्का होता है और मूर्ग आदि दाढ़ की वस्तुओं को तुरन्तिर फरफे  
हिलाका उतारकर थोका भून लिया जावे तो ये लघु हो जाते हैं ॥ ३०५-३०६ ॥

सूर्त कृशातिसेष्य च वृद्धं बालं विवर्हतम् ।

अगोचरभृतं व्याघ्रसूदितं मासमुत्सृजेत् ॥ ३०७ ॥

अतोऽन्यथा हितं मांसं वृद्धं बलवर्धनम् ।

ग्रीणः सर्वधातूना॒ हृष्टो मासरसः परम् ॥ ३०८ ॥

हुण्यता॑ व्याघ्रिमुकाना॒ कृशाना॒ क्षीणरेतसाम् ।

बछवण्यार्थिना॑ चैव रसं विद्यायथाऽसृतम् ॥ ३०९ ॥

सदरोगप्रशमनं यथास्वं विहितं रसम् ।

विद्यास्वयं बछकरं वयोखुर्दीन्द्रियायुषाम् ॥ ३१० ॥

व्यायामनित्याः श्लोनित्या मध्यनित्याद्य ये नराः ।

नित्यं मासरसाहारा नाऽस्तुराः स्युन दुर्बलाः ॥ ३११ ॥

त्वात्प्र मांस— मरा हुआ, कृश दुर्बल प्राणी का, बहुत चर्ची वाला, बुझे  
पशु का, बालक का, विष द्वारा मारा, अगोचरमृत अथात् अपने स्वाभाविक  
स्थान को छोड़कर दूसरे प्रदेश में पले ( जलोय देश के प्राणी को मक्षस्थल में  
पोषण करने पर ), व्याघ्र अर्थात् व्याघ्र या सांप आदि हिंसक पशुओं से भारे  
हुए पशु का मांस त्वात्प्र है । इससे विपरीत प्रकार का मांस हितकारी, शरीर  
का पोषक, बछकारक है । मांस रस, पुष्टिदायक, सर प्राणियों के लिये हितकारी,  
हृदय को प्रिय होता है । सख्ते हुए, कृश होते हुए, रोग से उठे हुए, निर्बल,  
शुक जिनका खोज हो गया है, बछ या कान्ति को चाहने वाले पुरुषों के लिये  
मांस रस अमृत के उमान है । मांस रस सब रोगों को शान्त करने वाला है,  
स्वर के लिये उत्तम, आमुवर्धन, हुद्दि और इन्द्रियों के लिये हितकारी एवं  
बछकारक है । जो पुरुष नित्य प्रात् व्यायाम करते, खीं संग करते, शराब  
पीते हैं और नित्य प्रति मांस रस का सेवन करते हैं, वे न रोगी होते और न  
निर्बल होते हैं ॥ ३०६-३११ ॥

कृमिवातातपहृतं शालं जीर्णमनार्तवम् ।

शालं निःस्नेहसिद्धं च वर्य यथापरिस्त्रुतम् ॥ ३१२ ॥

पुराणमानं संकिञ्च कृमिव्याघ्रहिमारुपैः ।

अदेशकालजं लिङ्गं यत्स्यास्त्कलमसाधु तत् ॥ ३१३ ॥

\* उम्माद रोग में मांस का निवेद्य है—यथा 'उम्मादे निष्ठामिकमलो' का ।

इरिकानी ववास्ताङ्क लिरेदा सावनाहृते ॥

ववास्तुनोर सावीना हवे स्वे वर्गे विनिष्टवः ॥ ३१६ ॥

**स्थान्य शाक**—हमि, बात, घूप से मरा ( सूता ), शुष्क, पुण्ड्रा, शूष्क में उत्पन्न नहीं हुआ, और जो शाक विना स्वेह ( ची वा तेव ) के लैयार विना गया हो और जितका कि मांग कर पानी न निकाल दिया गया हो, वह शाक स्थान्य है । जो फल पुराना, ( बहुत पका ), कचा, लडा, हमि सर्व या हिंक पशु से सावा हुआ हो, वर्फ या घूप से खराब हो, भले देख में उत्पन्न न हुआ, किन्तु ( लडा ) हो वह फल उत्तम नहीं । पकाने की विधि को छोड़कर इरिक-वर्ग को शाकों की भावि समझना चाहिये । अर्थात् इनमें पानी का निचोकना, ची आदि में संखरित करना नहीं है । मद्य, जल, दूध आदि के अच्छे-बुरे का निष्ठय इनके अपने अपने वर्ग में कर दिया है ॥ ३१४-३१६ ॥

यदाहारगुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते ।

अन्नानुपानं भातूनां दृष्टं यन्त विरोधि च ॥ ३१७ ॥

आसवानां समुदिष्टा अशीतिश्चतुरत्तरा ।

जलं पेयमयेयं च परीक्षयानुपिवेद्वितम् ॥ ३१८ ॥

स्तिंगधोषाणं मारुते शस्तं पित्ते मधुरशीतलम् ।

कफेऽनुपानं रूक्षोषाणं, क्षये मासरसः परम् ॥ ३१९ ॥

उपवासाख्य-भाद्य-स्नी माहवातप-कर्मभिः ।

क्लान्तानामनुपानार्थं पयः पञ्चं यथाऽमृतम् ॥ ३२० ॥

सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थमनुपानं प्रशस्यते ।

काशीर्थं स्थूलदेहानामनुशस्तं मधूदकम् ॥ ३२१ ॥

अल्पाद्वीनामनिद्राणां तन्द्राशोक-भय-क्लयः ।

मद्यमासाचितानां च मद्यमेवानुशस्यते ॥ ३२२ ॥

अनुपानकर्म प्रवद्यामि—अनुपानं तर्पयति, प्रीणयति, ऊर्जयति, पर्यामिनिवर्तयति, भक्तमवसादयति, अन्नसंधात भिनच्छि, मार्दव-मापादयति, ऊर्जयति, जरयति, सुखपरिणामिवामाशुव्यवायितां चाऽस-हारस्योपजनयतीति ॥ ३२३ ॥

अनुपान—जो पेय पदार्थ आहार गुण के विपरीत ( यथा-उच्च आहार के पीछे शीत अनुपान ) तथा जो भातुओं का विरोधी न हो अपितु साम्य करने

\* अनु-पश्चात्-मीवनात् इत्यर्थः, पानं अलादिपानम् ॥ दाह के पीछे मधुर, दूध या चीर के लीड़े-कोली ( लहा ) अनुपान न दें, इसकिये कि भातुओं का विरोधी न हो ।

बाका हो, वह अनुपान प्रशस्त है। 'वस्त्रपुरीष' व्यापार में बौद्धती बकार के आसद कहे हैं। जब धीमा हितकारी है, वा नहीं इच्छा विचार करके हितकारी जल धीना चाहिये। बायुदोष में स्तिष्ठ और उम्म; पित्रविकार में मधुर और शीतल; कफ में रुक्ष एवं उष्ण तथा खूब में रस का अनुपान भेष्ट है। उपवास से, भारी चलने से कॅंचे या बहुत बोकने से जीर्णग, बायु, खूब या पंच कर्मों के कारण जो यके हुए हों, उनको अनुपान देने के लिये दूध अमृत के समान पथ्य, हितकारी है। मोटे शरीर वालों को पतला बनाने के लिये पानी में शहद, मिळाकर देना उत्तम है। जिनको मन्दगिन हो, नींद न आती हो, तन्द्रा, शोक, भय, झूम से थके, मद्य माट सेवन करने वालों के लिये मद्य अनुपान ही भेष्ट है।

अनुपान के कर्म ( गुण ) कहते हैं—अनुपान शरीर का तर्पण करता है, शरीर को और जीवन को पुष्ट करता है, तेज बढ़ाता है, खाये हुए भोजन से मिळकर शरीर में मिल जाता है, खाये हुए को पचाता है, मिले हुए अज को तोड़ता, पृथक् पृथक् करता है। शरीर में कोमलता है, आहार को किलच करता, पचाता और सुख पूर्वक पचाकर शीघ्र शरीर में व्याप्त कर देता है॥ ३२३॥

**अवति चात्र—अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवम् ।**

सुखं पचति चाऽहरमायुषे च बलाय च ॥ ३२४ ॥

योग्य हितकारी अनुपान मनुष्य को शीघ्र तर्पण कर देता है। भोजन को सुखपूर्वक पचाता है और आयु एवं बल को बढ़ाता है॥ ३२४॥

नोर्धर्वाङ्गमाकृताविष्टा न हिक्षाद्यासुकासिनः ।

न गीत-भाष्याभ्ययन-प्रसक्ता नोरसि शताः ॥ ३२५ ॥

पित्रेयुदकं भुक्त्वा, सद्गुणठोरसि स्थितम् ।

स्नेहमहारजं हत्वा भूयो दोषाय कर्त्तते ॥ ३२६ ॥

अनुपानैकदेशोऽयमुक्तः प्रावोपयोगिकः ।

द्रव्यं हु न हि निर्देष्टु शक्यं कात्स्येन नामभिः ॥ ३२७ ॥

यथा नानौषधं किञ्चिदेशजाना वचो यथा ।

द्रव्यं तत्तत्त्वायावाच्यमनुक्तमिह यद्वेत् ॥ ३२८ ॥

जिनको अनुपान नहीं करना चाहिये—कण्ठ, छासी; शिर, ( ऊर्ध्वांग ) में अथ बायु का ओर हो, जिनको हिचकी, श्वास, घास रोग हो, यीढ़, भाषण, अञ्जन में ओर को सहते हों, जिनकी छाती में ओट कर्मी हो इनको भोजन

उसके पासी अनुचाव इप में नहीं थीं तो चाहिये । इस वाचन्य में जिस पासी कष्ट, झारी ( आभाषय ) में हित आहारभव्य स्नेह को दूषित करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है ।

प्रायः उपयोग में आने वाले आहार, खान-पान का कुछ मात्र यहीं पर कह दिया है । खानपान के सब द्रव्यों का नाम से कथन करना उम्मद नहीं है, जिस प्रकार की कोई भी औषध रहित बनस्पति नहीं, जिस प्रकार देश वाले उसे लैसा गुणकारी या हानि कारक कहते हों, उसके अनुचाव यहीं पर न कहे हुए द्रव्य को समझना चाहिये । गुणज्ञान के विषय में और भी कहते हैं ॥ ३२८ ॥

चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रिया ।

लिङ्गः प्रमाणं संस्कारो भात्राचाव्र परीक्ष्यते ॥ ३२९ ॥

चरोऽनूप-जलाकाश-घन्वादो भक्ष्यसंविधिः ।

जलजानूपजात्र्वै जलानूपचरात्वं ये ॥ ३३० ॥

गुहमक्ष्यात्म ये सत्त्वाः सर्वे ते गुरवः स्मृताः ।

लघुमक्ष्यात्मु लघवो घन्वजाधन्वचारिणः ॥ ३३१ ॥

शरीरावयवाः सक्षिणि-शिर-स्कन्धावयस्तथा ।

सक्षिधमासाद् गुरुः स्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः ॥ ३३२ ॥

बुषणी चर्ममेदौ च श्रोणी बुक्कौ यक्षद् गुदम् ।

मासाद् गुहतरं विशादाव्यासनं मध्यमस्त्रिं च ॥ ३३३ ॥

स्वभावाल्पघवो मुद्गास्तथा लाघकपिञ्जलाः ।

स्वभावाद् गुरवो भाषा वराहमहिषास्तथा ॥ ३३४ ॥

धातुनां शोणिताद्यानां गुरुं विद्याद्यथोत्तरम् ।

अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः ॥ ३३५ ॥

गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां स्त्रीणां च लाघवम् ।

महाप्रभाणा गुरवः स्वजातौ लघवोऽन्यथा ॥ ३३६ ॥

चर ( जिस स्थान पर विचरता है ), शरीरावयव ( शरीर का अंग ), स्वभाव ( प्रकृति ), धातु ( रस, रक्तादि धातु ), क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार, मात्रा ये बातें गुह लघु विचार करने में देखनी चाहिये । चर, गति वस्त्रचर और भव्य रूप चर में से दो प्रकार के हैं । इनमें गति रूप चर आनूप अवार्त वस्त्रबुद्धु प्रदेश में विचरने वाले, आकाश में, घन्व देश में तथा जल आनूप देनों वेशों में विचरने वाले हैं । भव्य रूप चर गुरु, शीतक पदार्थ

जाते हैं । ऐसे दोनों प्रकार के प्राणी गुरु होते हैं । सन्व प्रेषण में उल्लङ वा सन्व ( रेतीके ) देश में विचरने वाले तथा लघु भोजन करने वाले प्राणी लघु होते हैं ।

शीष, घिर, स्फन्द आदि शरीर के अवयव हैं । इनमें जंधा से स्फन्द, स्फन्द से कोड़ और कोड़ से घिर, का मास गुरु होता है । घिर से वृषण और वृषण से इनका चर्म, फिर शिष्टन, फिर भोणी भाग, फिर वृक ( गुरुं ) और फिर यहूत, उसके पीछे गुरु और पीछे मध्यात्म्य ( मध्ना या अस्ति के ऊपर का मास ) गुरु होता है ।

स्वभाव वा प्रकृति से मूँग, बटेर कपिंजल लघु होते हैं और उड्ड-सुअर, मैंस ये गुरु होते हैं । धातुओं में रक्त मास, और मेद ये क्रमशः उच्चरोत्तर गुरु होते जाते हैं । जो प्राणी बहुत चेष्टाशील होते हैं, वे आलसी स्वभाव वाले प्राणियों से भिन्न अर्थात् लघु होते हैं ( आलसी प्राणी गुरु होते हैं ) लिंग की छ हि से नर गुरु और मादा पश्च लघु होते हैं, ( पशुओं में यह नियम है, परन्तु पश्चियों में नर लघु होता है । ) अपनी जाति में वडे शरीर वाले गुरु और छोटे शरीर के प्राणी लघु होते हैं ॥ ३२६-३२७ ॥

गुरुणा लाघवं विद्यात्संस्कारात्सविपर्ययम् ।

त्रीहेल्जा यथा च स्युः सच्चूना सिद्धपिण्डकाः ॥ ३२७ ॥

अल्पादाने गुरुणा च लघुना चारिसेवने ।

मात्राकारणमुहिष्टं द्रव्याणां गुरुलाघवे ॥ ३२८ ॥

गुरुणामल्पमादेयं लघुना तृप्तिरिष्यते ।

मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्रिमपेक्षते ॥ ३२९ ॥

बलमारोग्यमायुञ्ज प्राणश्चाग्नो प्रतिष्ठिताः ।

अग्रपातेन्धनैऽग्निर्दीप्यते शास्यतेऽन्यथा' ॥ ३४० ॥

गुरुलाघवचिन्तेयं प्रायेणाल्पबलान् प्रति ।

मन्दक्रियाननारोग्यान् सुकुमारान् सुखोचितान् ॥ ३४१ ॥

दीप्तामनयः खराहाराः कर्मनित्या महादराः ।

ये नराः प्रति ताँश्चिन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम् ॥ ३४२ ॥

संस्कार द्वारा गुरु पदार्थ लघु और लघु पदार्थ गुरु बन जाते हैं । ऐसे त्रीहि ( बाल्य ) स्वभाव वे गुरु हैं, परन्तु वाजा के रूप में लघु बन जाते हैं और सच्च स्वभाव से लघु होने पर भी उनकी आग से पकाई पिण्डियाँ

१. उपकृति अवेति आम्रपात्रा इति वा पाठः ।

गुरु रोकती हैं। गुरु पदार्थों को योका और लघु पदार्थों को अभिष्ठ विषय करने से वे गुरु हो जाते हैं। इसलिये गुरु अमृतों के निष्पत्त करने में भी मात्रा कारण है। गुरु पदार्थों को योका लेना और लघु पदार्थों को दूसिष्ठूर्धक लाना चाहिये जिससे पेट फूँक न जाय, श्वास चढ़ने न लगे। इच्छा, मात्रा अर्थात् परिमाण की अपेक्षा करते हैं और मात्रा अभिष्ठ की अपेक्षा करती है। वह, आरोग्यता, आयु और प्राज्ञ अभिष्ठ पर आभिष्ठ है—अभिन के अधीन है। अज पान ( खान, पान ) रूपी इन्धन से अभिष्ठ प्रदीप होती है, और सान पान के न मिलने से वह तुल जाती है, शान्त होजाती है। जो पुरुष अप्य वह वह वाले हो, मन्द क्रिया, मन्द-चेष्टावाले, अनारोग्य, रोगी, सुकुमार अर्थात् नाशुक प्रकृति, के आराम का जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनके विषय में गुरु-लघु का विचार करना चाहिये। जिनकी अभिन प्रबल हो, जो कठिन आहार को भी पचा सकते हों, नित्य मेहनत करने वाले, वडे पेट वाले, जिनकी अभिन बढ़ी हुई हो उनके विषय में गुरु-लघु का विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥ ३३७-३४२ ॥

हिताभिर्जुहुयाजित्यमन्तराग्निं समाहितः ।

अजपानसमिद्धिर्ना मात्राकालौ विचारयन् ॥ ३४३ ॥

आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तराग्नो जुहोति यः ।

दिवसे दिवसे त्रिष्ठा जपत्यथ ददाति च ॥ ३४४ ॥

नरं निःश्वसे युक्तं सात्मयज्ञं पानभोजने ।

अजन्ते नाऽमयाः केचिद्ग्राविनोऽप्यन्तराह्वते ॥ ३४५ ॥

षट्क्रिंशतं सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः ।

जीवस्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा संमतः सदाम् ॥ ३४६ ॥

मनुष्य को चाहिये कि मात्रा और काढ का विचार करके, हितकारी सान-पान रूपी समिधाओं से अन्तराग्नि में नित्यप्रति संयमित चित्त से इवन करे। जो आहिताग्निं इवन करने वाला नित्य प्रति दोनों उमय अन्तराग्निं में हितकारी अज की आहुति देकर ब्रह्म ( ओंकार ) का जप करता है और यथाग्निं दान करता है, जिसको सान-पान सम्बन्धी सुप्त्य का ज्ञान होता है, ऐसे पुण्यवान् गुरु को कारण के बिना कभी भी रोग नहीं होते। इसी प्रकार संचित धर्म के प्रधान से अन्यान्यर में भी रोग नहीं होते। हितकर आहार करने वाला अद्धि ३४०-३४० पात्रि ( १०० वर्ष ) पर्यन्त नीरेजी, जितेन्द्रिय, और सामने से शैक्षित होकर निषाण करता है ॥ ३४३-३४६ ॥

**चरकलंबिता—प्राणः प्राणसूतमन्तरं लोकोऽभिवाप्ति ।**

**वर्णः प्रसादः सौख्यवर्ती वीचिर्तं प्राप्तिवा सुखम् ॥ ३४७ ॥**

**तुष्टिः पुष्टिवर्छं मेषा सर्वमन्ते प्रतिष्ठितम् ।**

**ज्ञौकिर्कं कर्म यद्यवृत्तौ स्वर्गतौ यथ वैदिकम् ॥ ३४८ ॥**

**कर्मापवर्गे यज्ञोक्तं तश्चाप्यन्ते प्रतिष्ठितम् ।**

अब, उब प्राणियों का प्राण है, तारा संवार इसी अग्न की वाचना करता है ( पेड़ के लिये आदमी सब कुछ करता है ) । अग्न में ही वर्ण, शारीर की प्रसन्नता, सुखरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, हर्ष, पोषण, बल, मेषा, ये सब बातें स्थिर हैं । सांसारिक कर्म, तथा स्वर्ग प्राप्ति में यज्ञादि यो वैदिक मोल्लाद्यक यथ, तप आदि कर्म हैं, वे सब अग्न में प्रतिष्ठित हैं ॥ ३४७-३४८ ॥

**तत्र श्लोकः—अन्नपानगुणाः साम्र्या वर्गा द्वादश निश्चिताः ॥ ३४९ ॥**

**सगुणान्युपानानि गुरुङ्गाधधसंग्रहः ।**

**अन्नपानविधावुर्कं तत्परीक्षयं विशेषतः ॥ ३५० ॥**

इस अन्नपान नामक अध्याय में, अन्न-पान के गुण, वारह वर्गों में कह दिये हैं । अनुपान के गुण, गुरु एवं लघु विशेष का निरूपण किया है, इस विधि को विचार कर प्रयोग करना चाहिये ॥ ३४९-३५० ॥

**इत्यनिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अन्नपानविधिर्नाम  
सप्तविधितितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥**

### अष्टाविंश्चोऽध्यायः

अथातो विविधाशितपीतीयमध्यायं न्यास्यास्यामः ॥ १ ॥

**इति ह स्माऽह भगवानाश्रेयः ॥ २ ॥**

अब से 'विविधाशित-पीतीय' अध्याय का न्यास्यान करेंगे । जैसा भगवान् अश्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

विविधमश्चित-पीत-लीढ़-स्वादितं अन्तोहितमन्तरमिसन्तुष्टितवर्षेण  
यथास्वेनोप्यग्नः सम्बन्धिष्यत्यमानं काम्यवदन्तस्तित्वसर्वाद्यात्मानम्  
पद्मसर्वाद्यात्मादत्तकोऽतः केवलं शरीरमुपचय-कठ-वर्ण-सुखात्मा  
क्षेत्रयस्मि, सर्वेषामनूर्जवति, । धातव्रो हि चात्मादाराः प्रहरिन्द्र-  
वर्तमन्ते ॥ ३ ॥

मनुष का लाभ, वीक्ष, जल्द यह बाहर आती है साथा अवश्य, नाना प्रकार का इतिहासी पदार्थ, जादरामि के प्रदीप वक के कारण, लंग पूर्ण, जल, तेज, वायु और आकाश इब पांच महाभूतों को उपनी-अस्ती गरमी से ( पृथ्वी जादि के गुण वाले ) आहार द्रव्यों का पाचन होता है । इब बाहर से पचा दुआ अन्न काळ की भाँति नित्य निरन्तर गति करता दुआ, उच घातुओं के निरन्तर पाक होने से जिस शरीर में क्षीणता उत्पन्न होती है उस शरीर की तथा जिस शरीर में सब घातुओं की गरमी बनी दुर्ई है, और वायुवह खोत जिस शरीर में उपस्थित हैं, ऐसे सभूर्ण शरीर को दृष्टि करने के लाल साध बल, वर्ण, सुख और आयु देता है, तथा शरीर के घातुओं को तेज प्रदान करता है । घातु ही जिनका भोजन है ऐसे रतादि घातु नित्य प्रति जीव होते हुए लाये हुए भोजन रूपी घातु को खाकर स्वस्थ अवस्था में रहते हैं ॥ ३ ॥

तत्राऽहारप्रसादाख्ययो रसः किंच च मलाख्यमभिनिवृत्तते; किंटात्  
स्वेद-मूत्र-पुरीष-वात-पित्त-स्लेष्माणः कणीश्चिन्नासिकास्थ-लोम-कूप-प्रज-  
नन-मलाः केश-इमश्र-लोम-नखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति । पुष्यन्ति त्वाहार-  
रसात् रस-कृधिर-मौस-मेदोऽस्थिय-मज्ज-शुक्रोजासि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि धा-  
तुप्रसादसंक्षेपानि शरीर-सन्धि-बन्ध-पिच्छादयश्चावयवाः ते सर्वे एव धा-  
तवो मलाख्ययोः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्वं मानमनुवर्तते  
यथावयः शरीरम् । एवं रसमली स्वप्रमाणावस्थिती आश्रयस्त सम  
धातोर्भुत्साम्यमनुवर्तयतः; निमित्तवस्तु क्षीणघृदानां प्रसादाख्यानां  
धातूना दृद्धिक्षयाभ्यामाहारमूलाभ्यां रसः सात्म्यमुत्पादयत्यारोग्याय,  
किंच च मलानामेवमेव । स्वमानातिरिक्तः पुनरुसर्गिणः शीतोष्णपर्य-  
यगुणेष्वोपचर्यमाणा मलाः शरीरधातुसाम्यकराः समुपकृयन्ते । तेषां  
तु मलप्रसादाख्यानां धातूना स्नोतांस्ययनमुखानि; तानि यथाविभागेन  
यथास्वं धातूनापूर्यन्ति । एवमिदं शरीरमशित-पात-लीढ़-खादित-  
प्रभवम्, अशित-पीत-लीढ़-खादित-प्रभवाश्चास्मिन् शरीरे व्यावयो  
भवन्ति; हिंडितोपयोगविशेषास्वत्र शुभाशुभविशेषकरा भव-  
न्तीति ॥ ४ ॥

इब आहार से तीन वस्तुएं बनती हैं एक खाद रूपी रस, २. किंड, अकार मल और ३. मल । इनमें किंड भास के बड़ों, मूँ, मृद, घातु, सिंक, अक और आल, अंग, नाल, दुज, लोम, कूप और विष्व के मल उपमा देती हैं । तीस केढ़, खाली, मूँ, दोम ( शरोद के लाल ) और कम वार्ड अर-

वह पुष्ट होते हैं। आहार के प्रशाद रूपी रसमार्ग से, रस, रक्त, मांस, मेह, अस्थि, मस्ता, शुक्र, ओज तथा पृथकी, अ., तेज, वायु, आकाश ( ये पंच महामूर्त तो इन्द्रियों को बनाने वाले हैं ) अत्यन्त शुद्ध रूप में स्थित घातु शरीर को बांधने वाली स्नायु, पिण्डा आदि, सन्त्रिया, आर्थंड और दूष बनाते हैं। ये सब गठ नामक घातु या प्रशाद रूप घातु रस और मल द्वारा पुष्ट होते हुए आयु के अनुसार अपने परिणाम में बनते हैं ( अथवा कृष्ण, स्थूल, छोटे, वडे में अपने परिणाम से बनते हैं ) । \*

\* आहार के रसादि घातु में बदलने के विषय में एक पक्ष यह है कि रस, रक्त घातु में बदलता है और रक्त, मांस में, इस प्रकार आगे परिवर्तन होता जाता है। जिस प्रकार दही जमते हुए समूर्ण दूष दही रूप में बदलता है, इसी प्रकार समूर्ण रस रक्त रूप में बदल जाता है और रक्त मांस में इसी प्रकार आगे। दूसरे आचार्य इस परिवर्तन को 'केदार-कुल्यान्धाय' से मानते हैं। अर्थात् खेत में बहती पानी की धार में से प्रत्येक क्यारी अपना २ पानी के लिती है इसी प्रकार यहाँ पर भी अल्प से उत्पन्न रस, रस घातु में जाकर कुछ भाग से रस बन जाता है और शेष रस भाग रक्त में जाकर रक्त के गन्ध, वर्ष से मिल कर रक्त बन जाता है और शेष रस भाग आगे मांस घातु में पहुँचता है, वहाँ मांस के गन्ध-वर्ण में मिलकर मांस बन जाता है, और इससे अवशिष्ट रस भाग मेद में चढ़ा जाता है, वहाँ भी पूर्व की भाँति किया होती है। इसी प्रकार आगे २ चलता जाता है। तीसरे पक्ष वाले कहते हैं कि—अल रस पृथक् २ घातुमार्ग में जाकर रसादि घातुओं का पोषण करता है, यह नहीं कि इस घातु को पोषण करने वाला ही रक्त घातु में जाता है। रस आदि को पोषण करने वाले शोतुक्त्तरोष्टर सूक्ष्म मूल वाले और छम्बे हैं। इस प्रकार से रस को पोषण करने वाला भाग रसमार्ग में गमन करके रस का पोषण करता है, एवं रस का पोषण करने के लिये रक्त पोषण भार्ग में जाने से रक्त का पोषण करता है, इस प्रकार रक्त का पोषण करने के लिये मांस को पोषण करने वाला रस भाग दूर एवं सूक्ष्म भार्ग में गमन करने से मांस का पोषण करता है। इसी प्रकार आगे मेद आदि का पोषण हो जाता है। इस पक्ष में दूष आदि दृष्ट वस्तुओं से उत्पन्न रस प्रभाव से शीघ्र ही शुक्र से मिलकर शुक्र का पोषण कर देता है, इसी प्रकार दुषावस्था में भी एक दोष के दुष होने से कन्य घातु दुष नहीं होते, परन्तु परिमाण पक्ष में रस-घातु के दुष होने से रक्त आदि घातु भी दूषित हो जाते हैं, इसके अतिरिक्त परिणाम पक्ष में तीन जात उपवास से शरीर की शुद्धि होनी चाहिए और एक माह के शुद्धसेवन से दो शम्भूः

इस प्रकार से शरीर के अपने उत्तम में ( न अधिक और न कम परिमाण में ) दिघत होने पर चातु-साम्बाद्यता में रहते हैं । प्रलाद द्वय चातुर्खी-कांच या हृदि जो निमित्त को छेकर होती है, वह आहार के कारण ही होती है, इस-लिये आहार द्वारा हृदि और द्वय का सात्य उत्तम होकर आरोग्यता उत्तम होती है इसी प्रकार किछु और मक्क भी शरीर के आरोग्य सम्पादन में सहायक होते हैं । अपने परिमाण से अधिक बड़े हुए किछु और मक्क को बाहर निकाल कर द्वय शीत से उत्पन्न मल में उष्ण, उष्ण से उत्पन्न मल में शीत परिवर्त्या से मल शरीर के चातुर्खी को समानावस्था में रखते हैं । इन मल अर्थात् प्रलाद नामक चातुर्खी के स्रोत गमन करने के भार्ग हैं और वे स्रोत जो जिन जिनके हैं उन उन चातुर्खी को पूर्ण करते हैं । इस प्रकार से यह सम्पूर्ण शरीर खाये, पिये, चाटे, चाले आहार स्फी रस से पूर्ण होता है । और रोग भी इस शरीर में खाये, पिये, चाटे आदि भोजन से उत्पन्न होते हैं । इसमें हित बस्तुओं का उपयोग शुभकारी और अहित बस्तुओं का उपयोग अशुभकारी होता है ॥ ४ ॥

एवं बाहिनं भगवन्तमात्रेयमनिवेश उवाच—हृष्यन्ते हि भगवन् ! हितसमाख्यात मध्याहारमुपयुक्ताना व्याधिमन्तश्चागदाच्च, दथेवाहित-समाख्यातम्, एवं हटे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभाशु-भविशेषमुपलभामह इति ॥ ५ ॥

तुमुवाच भगवानात्रेयः—न हिताहारोपयोगिनामप्निवेश ! हन्तिमित्त-व्याधयो जायन्ते, न च केवलं हिताहारोपयोगादेव सर्वं व्याधिभयमतिकान्तं मवति, सन्ति हि श्रुतेऽप्यहिताहारोपयोगादन्या रोगप्रकृतयः, तथाचा—काळविपर्ययः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्च, शब्द-स्पर्श-रूप-रस- गन्धाश्चासात्या इति, ताच्च रोगप्रकृतयो रसान् सम्बुद्ध्यु-पयुक्तज्ञानमपि पुरुषमशुभेनोपयादयन्ति, तस्माद्द्विताहारोपयोगिनोऽपि हृष्यन्ते व्याधिमन्तः । अहिताहारोपयोगिनां पुनः कारणतो न सद्यो दोषवाल् भवत्यपचारः, न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि, न च सर्वे दोषास्तुल्यबद्धाः, न हि सर्वोणि शरीराणि व्याधिक्षमित्वे सर्वाणीनि भवन्ति, तदेव हृष्यत्वं देश-काळ-संयोग-बीर्य-प्रमाणातियोगाद् भूय-शरीर शुक्रमय ही होना चाहिये और 'केवलकृत्या न्याय, वाका पक्ष तीसरे पक्ष के उमान ही है । इसमें भी हृष्य बस्तुएं प्रभाव से शीघ्र शुक्र को उत्पन्न कर देती है ।

स्वरमध्यं संपर्यते, स एव रोगः संसूक्ष्मेनिर्विश्वेषकम् गम्भीरमुष्ट-  
तविश्वस्थितः प्राणवलवसमुत्थो मर्मोवाती वा यूवाण् कठुतदः क्षिप्र-  
कारितमश्च संपर्यते, शरीराणि आविस्थूलाभ्यतिकृशाम्बनिविश्वमाससो-  
णितास्थीनि तुर्बलान्यसात्मयाहारोपचितान्यस्वहाराण्यस्वसात्मानि वा  
भवन्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनर्बाधिसहानि, एव्यज्ञेवापथ्या-  
हार-दोष-शरीर-विशेषेषो ठाघयो मृद्दवो दारणाः क्षिप्रसमुत्थात्विर-  
कारिणश्च भवन्ति । अत एव च वात-पित्त-फ्लेबाणाः स्थानविशेषे प्रकृ-  
पिता व्याधिविशेषानभिनवंत्यन्वग्निवेश ! ॥ ६ ॥

इट प्रकार से कहते हुए आत्रेय श्रूति को अग्निवेश बोले—‘हे भगवान् ।  
संसार में देखने में आता है, कि जो मनुष्य हितकारी आहार का उपभोग करते  
हैं, वे रोगी दिलाई देते हैं और अहितकारी भोजन करने वाले भी नीरोग  
दीखते हैं ।

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—‘हे अग्निवेश ! जो मनुष्य हितकारी  
अज्ज खाते हैं उनको इनके कारण से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते और न  
केवल वित आहार का उपसेवन ही सब रोगों से बचा सकता । अहित आहार  
को छोड़कर कुछ दूसरी भी रोग को प्रहृति है । यथा काळ विपर्यय ( प्रदुषों  
का परिवर्तन ), प्रज्ञापराध और परिणाम, शब्द स्वर्ण, रूप, रुद, गन्ध का  
असात्म्य ( अतिरोग, मिथ्यारोग, या अयोग ) होना । ये रोग के कारण आहार  
रसों का सम्पूर्ण प्रकार से उपयोग करने पर भी पुरुष में अशुभ लक्षण उत्पन्न कर  
देते हैं । इसलिये हितकारी आहार को सेवन करने वाले भी रोगी दिलाई देते  
हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति अहित आहार का उपसेवन करते हैं, उनमें रोगों  
के ये कारण जहरी दोषयुक्त नहीं होते । क्योंकि सम्पूर्ण अपर्यय समान दोषकारक  
नहीं हैं और सब दोष समान बढ़ वाले भी नहीं हैं और सारे शरीर रसों को  
उहन करने में समर्थ नहीं होते । इसलिये अपर्यय देश चावल विशेषकर हैं,  
यही आनन्द देश के योग से अधिक अपर्यय कारक हो जाता है, काळ ( शर्तकाळ  
में अपर्यय बजावान् और हेमन्त में निर्बंध ), संबोग दही रात के साथ बजावान्  
और बहर के साथ निर्बंध ), वोर्य ( संस्कार का उपर्य करने से अपर्यहन्त्वार  
शीत से अपर्य ), प्रमाण अर्थात् मात्रा के अतिरोग से अपर्यतम और हीन वक्त  
से निर्बंध बन जाते हैं । इसी प्रकार बहुत से कारणों के प्रिल्लने से, विद्युत  
विकित्सा होने से गम्भीरे आशयों में, शरीर के बहुत अन्तर प्रवेश कर जावे से

तथा शरीर में विरक्ताकृ ते अकृतकृ जाने पर, योंस जाहि दल असामयों में  
स्थित होने से, मरम्भयानों को पौकित करने से बहुत पुःके दैने के आरने असाम्य  
होने से, शीघ्र विकार उलझ करने से अपर्य बढ़कान् यन जाता है। इसी  
प्रकार बहुत मोटा, बहुत कृष्ण, जिनके मास, रक्त, अस्ति, दाढ़े, निर्विक हो गये  
हो जो विषम शरीर वाले हैं, जो असाम्य आहार को सेवन करने वाले, जोका  
खाने वाले, अस्य सत्त्व वाले शरीर रोगों को सहन नहीं कर सकते। इनके विष-  
रीत गुणों वाले शरीर अधिक को सहन कर सकते हैं। इसलिये असाम्य आहार,  
दोष शरीर को विशेषता से रोग मृदु, दारुण, शीघ्र होने वाले, असाम्य येर में  
होने वाले होते हैं। इसलिये हे अग्रिवेष ! बात, पिच्च, कफ विशेष स्थानों में  
कुपित होकर मिळ-मिळ प्रकार के रोगों को उल्पन्न करते हैं ॥ ५-६ ॥

तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् यस्मिन् स्थाने  
ये ये व्याधयः संभवन्ति तास्तान् यथावदनुव्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥

अश्रद्धा चारुचिक्षास्य वैरस्समरसज्जता ।  
दृष्टासो गौरवं तन्द्रा साङ्गमदो छ्वरस्तमः ॥ ८ ॥  
पाणुत्वं स्नोत्सारा रोधः क्लेव्यं सादः कृशाङ्गता ।  
नाशोऽमेरयथाकालं वलयः पलितानि च ॥ ९ ॥  
रसग्रदोषजा रोगा, वद्यन्ते रक्तदोषजाः ।  
कुष्ठ-बीसपै-पिडका रक्तपिच्छमसृग्दरः ॥ १० ॥  
गुदमेद्रास्यपाकञ्च सीहा गुलमोऽथ विद्रवी ।  
नीलिका कामला व्यङ्गं विस्वरितिलकालकाः ॥ ११ ॥  
ददुर्घर्मदलं इवत्रं पामा कोठास्मण्डलम् ।  
रक्तप्रदोषाज्ञायन्ते, शृणु मासप्रदोषजान् ॥ १२ ॥  
अधिमासार्वुदं कीलन-गल-शालक-नुण्डकाः ।  
पूर्तिमासालजी-गण्ड-गण्डमालोपजिह्विकाः ॥ १३ ॥  
विद्यान्मासाश्रयान्, मेदःसंश्रयास्तु प्रचक्षमहे ।  
निनिदत्तानि प्रमेहाणा पूर्वरूपाणि यानि च ॥ १४ ॥  
अस्थस्थि-दन्त-दन्तास्थि-मेदश्लं विवर्णता ।  
केश-छोम-नख-इमशु-दोषाज्ञास्थिप्रकोपजाः ॥ १५ ॥  
हक पर्वणा असो मूर्छा दर्शनं उमसो भवताः ।  
अदशा स्तूपूकामी पर्वजानां च कर्मनम् ॥ १६ ॥  
मज्जप्रदोषाकृत्त्वं दोषालज्ज्वरप्रसाद ।

दोगिंजं वा क्लीवमल्पायुविरूपं वा अजायते ॥ १७ ॥

न वा संज्ञायते गर्भः पतति प्रस्तवत्यपि ।

शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं वाधते नरम् ॥ १८ ॥

इनमें रख आदि स्थानों में कृपित वात आदि दोष, जिस जिल स्थान पर जो जो रोग उत्पन्न करते हैं उन उन रोगों को कहते हैं—अध्रदा, भोजन में अद्वा न होना, अद्वचि ( भोजन में अद्वचि, अनिष्टा ), मारीपन, तन्द्रा, शरीर में पीड़ा, ज्वर, तम, अन्वकार, पाण्डु वर्ण स्रोतों का अवरोध, नपुंसकता, साद ( विधिलता ) शरीर की निर्बलता, अग्नि ( आठराग्नि ) का नाश, विना समय के कुर्चियाँ और बालों का इतेत होना ये रक्तजन्य रोग हैं ।

रक्तजन्य रोग कहते हैं—कुड़, बीलपै, पिटकायें, रक्तपित्त, रक्तपदर, गुदपाक, शिवन का पक्का, झींहा, गुलम, विद्विषि नीलिङ्ग, घ्यंग ( शाई ), कामडा, विष्वव, तिळ के आकार के भस्ते, दाद, चर्मदल विव्रत्र, पामा, कोठ, रक्तमण्डल ( छाल छाल चक्के ) ये रक्तजन्य रोग हैं ।

मारुजन्य रोग कहते हैं—अविमांड, अर्बुद, कील, गलशालूक, ( गडे में शोय होने से बढ़ा हुआ मास ) गलशुणिङ्गा, पूरिमांड, अङ्गी, गलगण्ड, गण्डमाला, उपजिह्विका, ये मारुजन्य रोग हैं ।

मेदजन्य रोग—कहते हैं प्रमेह के निनिदत पूर्वरूप ( बालों की जटिलता, आदि अथवा अति स्थूल पुक्ष के आयु हाव आदि आठ दफ ) ये रोग हैं अथवा अतिस्थूलता से उत्पन्न आयु का हास आदि रोग मेद जन्य है ।

अतिथि के नीचे दूसरी अहिय आना, अधिदन्त, दन्तमैद, दाँत तुखना, अतिथियों में शूल, केदा, रोग, नख और दाढ़ी मूँछ के रंग का परिवर्तन होना ये अस्तिथिन्य रोग हैं । जोड़ों में दर्द, चक्कर, आना, मूर्छा, आँखों के सामने अंजेठा आना, ब्रण, घिर में छोटी-छोटी पुनिथियों छोटे-छोटे जोड़ों में गाठें पक आना ये मञ्जाजन्य रोग हैं ।

शुक्र के दोष से नपुंसकता, अर्धरूप ( ध्वज के खड़े होने पर भी मेशुन में अधिक ), संतान रोगी, नपुंसक या योद्धी आयु बाली, विरूप, उत्पन्न हो, अथवा गर्भ नहीं रहता, रहने पर गिर जाता है या तीन मास से पूर्व ही वह आता है । दूषित शुक्र, बच्चे और बड़ी दोनों को तक्छीकृ देता है ॥ १७-१८ ॥

इन्द्रियाणि समाग्नित्य प्रकृष्णन्ति यसा भद्राः ।

उषधातोपदापाद्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ १९ ॥

स्नान्ती शिराकण्ठरब्दोर्मुद्दाः किञ्चत्वमिति सानवम् ॥ २० ॥

स्तम्भ-सङ्गोष-साक्षीभिर्विश्व-स्फुरण-सुप्रिमिति ॥ २० ॥

मङ्गलाभिस्त्वं कुपिता मेद-सोष-प्रदूषणम् ॥ २१ ॥

दोषा मदाना कुर्वन्ति सङ्गोत्सर्गावतीक च ॥ २१ ॥

विविधादशितालीतादहितालीदल्लादितात् ।

भवन्त्येते मनुष्याणां विराटा य उदाहृताः ॥ २२ ॥

तेषामिच्छन्ननुत्पत्तिं सेवेत मतिमान् सदा ।

हितान्येवाशितादीनि न स्युस्तज्जातथाऽमयाः ॥ २३ ॥

जित समय अपथ्य आहार के कारण मल कुपित होकर इन्द्रियों में स्थित होते हैं, उस समय ये मल इन्द्रियों का नाश या इन्द्रियों को पीकित करने क्गते हैं । ये मल वायु, धूरा, कण्डरा आदि में कुपित होकर मनुष्य को बहुत कड़ पहुँचाते हैं । इससे स्तम्भ, जड़ता, संकोच सिकुड़ना, खली हाथ पांव का झुक जाना, ग्रन्थि ( स्नायु आदि में गांठ ), स्फुरण, घमन, और संशानाश उत्पन्न होता है । जित समय आत आदि दोष मलों का आभ्य छेकर कुपित होते हैं, उस समय मल का मेद ( अतीसार ) तथा मलों को सुखाना अथवा मलों के रंग को विकृत करना या मलों का अवरोध अथवा अतिपृष्ठि उत्पन्न कर देते हैं । जो रोग यहां पर लिखे हैं, वे नाना प्रकार के खान, पान, चाटन, खाद्य रूप आहार द्वारा मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं । ये रोग उत्पन्न न हो, इस इच्छा से मनुष्य सदा हितकारक आहार का सेवन करे, जिससे कि आहाररन्ध्र रोग न होवे ॥ १६-२३ ॥

रसज्ञाना विकाराणा सर्वं लङ्घनमौषधम् ।

विभिन्नोणितकेऽध्याये रक्तज्ञानी भिषणितम् ॥ २४ ॥

मासज्ञानीं तु संशुद्धिः शब्दश्वारागिनकर्म च ।

अष्टौनिन्दितकेऽध्याये मेदाज्ञानीं चिकित्सितम् ॥ २५ ॥

अस्थ्याश्रयाणां व्याधीनां पञ्चकर्माणि भेषजम् ।

वस्तयः क्षीरसर्पीषि तिक्तकोपहितानि च ॥ २६ ॥

मख-शुक्र-समुत्थानामौषधं स्वादुतिक्तकम् ।

अस्त्रं व्यवायव्यायामौ शुद्धिः काढे च मात्रया ॥ २७ ॥

शान्तिरिन्द्रियज्ञानीं तु त्रिमर्मीये प्रबह्यते ।

स्नायुवादिज्ञानीं प्रश्नमो बह्यते बातरोगिके ॥ २८ ॥

न वेगान्व्यारणेऽध्याये चिकित्सासंभ्रहः कृतः ।

मछज्ञानीं विकाराणां सिद्धिक्षोक्ता कवित्कवित् ॥ २९ ॥

रत्नजन्य दद विकारों की चिकित्सा उपचार अवर्त् उपचार है । रत्नजन्य रोगों की चिकित्सा शस्त्र, धार और अग्नि कर्म से होती है । मेहमन्य रोगों की चिकित्सा 'अष्टोनिन्दित' अध्याय में कह दी है । अस्थियों में आस्ति रोगों की चिकित्सा पंचकर्म, एवं तिक्त वस्तुओं से तथा दूब एवं घृत से चिद वस्तियां ( विशेष ) चिकित्सा हैं । मज्जा और शुक्र से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा स्वादु, तिक्त अन्य, अव्याय, ( खी-संग ) अव्यायम और समय पर मात्रानुसार बमन आदि से शुद्धि है । इन्द्रियजन्य रोगों की चिकित्सा 'त्रिमर्मीय' अध्याय में कहेंगे । स्नायु आदि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा वातरोगाधिकार में कहेंगे । मलजन्य रोगों की चिकित्सा 'न वेगान्धारणीय' अध्याय में कह दी और कही २ ( अविसार, ग्रहणी आदि में ) आगे भी कहेंगे ॥ २४-२६ ॥

व्यायामसादूषणस्तैक्षण्याद्वितस्यानवचारणात् ।

कोष्ठाच्छालाखां मला यान्ति द्रुतत्वान्मारुतस्य च ॥ ३० ॥

तत्रस्थाश्र विलम्बन्ते कदांचिन्न समीरिताः ।

नादेशकाळे कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षिणः ॥ ३१ ॥

निम्ब कारणों से दोष शाखाओं में पहुँच जाते हैं, यथा व्यायाम से उत्पन्न श्वेत से कोष्ठ को छोड़कर मल शाखा में आजाते हैं । अग्नि के तीक्ष्ण होने से चिढ़के हुए दोष शाखा में आ जाते हैं । हितकारी बस्तु के अति सेक्षण से बहुत बढ़े हुए दोष पानी के पूर की भाति अपने स्थान पर भरकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं । वायु के गतिशील होने से वायु द्वारा दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं । वहां शाखा आदि में पहुँचकर दोष उत्पन्न करने में विकल्प करते हैं । क्योंकि निर्वल दोष किसी प्रबल दोष की प्रेरणा के बिना कुपित नहीं हो सकते । इसलिये उचितस्थान पर और उचित काल में ही कुपित होते हैं । वे निर्वल दोष और कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं । बलवान् दोष दूसरे प्रेरक कारण की बाट नहीं देखते । शाखाओं से दोष कोइ में किस प्रकार जाते हैं यह कहते हैं ॥ ३०-३१ ॥

वृद्धाभिष्यन्दनात् पाकात्स्तोत्रोमुखविशोधनात् ।

शाखां मुक्त्वा मलाः कोइं यान्ति वायोग्य निप्रहात् ॥ ३२ ॥

दोषों के बढ़ने से, ( अभिष्यन्द से बढ़ने से ऊँक, होने से ) दोष के पक्षने से, सोतों के मुख खुल जाने से... अपरोध, इच्छने से; तथा चौकड़े बाली वायु के स्फुट जाने से ये रिक्त होष कोइ में आजाते हैं ॥ ३२ ॥

अजातानामनुत्पत्तौ लालना विनिवृत्तये ।  
रोगाणा जो विविर्षः सुकार्या ते समाप्तरेत् ॥ ३५ ॥  
सुकार्याः सर्वभूतानां अकाः सर्वाः प्रवृत्तयः ।  
ज्ञानाकानविशेषाच्च मार्गमार्गप्रवृत्तयः ॥ ३६ ॥  
हितमेवालुक्ष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ।  
रजोमोहाश्रुतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः ॥ ३७ ॥  
श्रुतं बुद्धिः स्मृतिर्दार्थं धृतिहितनिषेवणम् ।  
बागिवशुद्धिः शमो धैर्यमाश्रयन्ति परीक्षकम् ॥ ३८ ॥  
लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहरजात्रितम् ।  
तन्मूला बहुलाक्ष्यै रोगाः शारीरमानसाः ॥ ३९ ॥

संखेप से सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिये कि रोगों को उत्सर्जन होने देने की जो विधि कही है, तथा उत्सर्जन हुए रोगों को इटाने की जो विधि कही है, उसका आचरण, सेवन करें। क्योंकि सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियाँ सुख प्राप्त करने की इच्छा से ही होती हैं। ज्ञान और अज्ञान के मेद से ही मनुष्य मार्ग या अमार्ग का अनुसरण करने लगता है। परीक्षक विद्वान्, परीक्षा करके हितकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, रजो गुण और मोह में फंसे साधारण-जन प्रिय पदार्थ ही चाहते हैं। श्रुत, बुद्धि, स्मृति इद्वता हितकारी वस्तुओं का सेवन, बाणी की शुद्धि, शम, और धैर्य, ये गुण विवेकी पुरुष में होते हैं। परन्तु मोह और रज से युक्त होने के कारण लौकिक, अविवेकी पुरुष में ये गुण नहीं होते। इसलिये इनको शारीरिक और मानसिक बहुत प्रकार के रोग होते हैं ॥ ३३-३९ ॥

प्रक्षापराधायहितानर्थात् पञ्च निषेवते ।  
संधारयति वेगात् सेवते साहसानि च ॥ ३८ ॥  
सदात्पुस्तकसंझेतु भावेष्वक्षोऽनुरच्यते ।  
रच्यते न तु विक्षात् विक्षाने द्वामठीकृते ॥ ३९ ॥  
न रागाज्ञात्यविक्षानादाहारसुखोजयेत् ।  
परीक्ष्य हितम् भीयारेहो द्वाहारसंभवः ॥ ४० ॥  
अहारस्य विवात्पौ विशेषा हेतुसंककाः ।  
क्षुद्रस्तुभवसुत्पत्तो तात् परीक्ष्योपयोजयेत् ॥ ४१ ॥  
विविहारार्थयपथानि सहा परिहर्त्वर ।  
भवारस्यवृण्डा भासः सामूलामिह परिषिदतः ॥ ४२ ॥

यजु रोगसमुत्थानमशक्तविह केवलित् ।

परिहतुं, न तत्प्राप्य शोचितव्यं अनीविणा ॥ ४३ ॥

अशानी मनुष्य बुद्धि के दोष से पञ्चेनियों के अहित शब्द, स्पर्शादि विषयों का सेवन करता है, मठ मूत्रादि के वेगों को रोकता है, साइन के कामों को करता है, प्रारम्भ में सुखदायक और परिणाम में दुःखदायक कामों को करता है, इसलिये दुःख उठाता है । परन्तु शानी पुरुष शान द्वारा बुद्धि के स्वच्छ होने से इन कामों में नहीं फैलता, अतः मुखी रहता है । राग अर्थात् आसक्ति से ( जानते हुए भी भोजन अहितकर है, फिर भी आङ्गन से ) या अशान से भोजन को नहीं खाना चाहिये, परीक्षा करके शानपूर्वक हितकारी अज्ञ को ही खाना चाहिये । क्योंकि शरार आहार से उत्पन्न होता है । भोजन की चुम्ब-अशुभ परीक्षा के लिये आठ प्रकार की परीक्षा है । ये आठ परीक्षायें विमान स्थान अध्याय १ में प्रकृति-करण, संयोग आदि से कही हैं । भोजन की इन आठ विशेषताओं से परीक्षा करके भोजन करना चाहिये । जिन अपव्ययों से मनुष्य बच सकता हो उनसे बचने का सदा यत्न करना चाहिये, इस प्रकार करने से पुरुष अपराधरहित होता है और साथु पुरुषों में बुद्धिमान् गिना जाता है । क्योंकि प्रारब्ध से उत्पन्न व्याघ्रि को साथु पुरुष बुरा नहीं मानते । जो रोग प्रारब्ध के बलवान् होने से उत्पन्न होता है वह यदि चिकित्सा कार्य के लिये असाध्य भी हो तो भी बुद्धिमान् मनुष्य को शोक, विन्दा नहीं करनी चाहिये ॥ ३८-४३ ॥

तत्र श्लोकः—आहारसंभवं वस्तु रोगश्चाऽहारसंभवाः ।

हिताहितविशेषाश्च विशेषः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥

सहत्वे चासहत्वे च दुःखानां देवसत्त्वयोः ।

विशेषो रोगसङ्घाश्च धातुजा ये पृथक् पृथक् ॥ ४५ ॥

तेषां चेव प्रशमनं कोषाच्छाला चपेत्य च ।

दोषा यथा प्रकृत्यन्ति शाखाद्यः कोष्टमेव च ॥ ४६ ॥

प्राक्काङ्गयोर्विशेषाश्च स्वस्थातुरहितं च यत् ।

विविधाश्चितपीतीये तत्सर्वं संप्रकाशितम् ॥ ४७ ॥

यह श्लोक आहार से उत्पन्न होता है, रोग भी आहार से उत्पन्न होते हैं । हित और अहित की विशेषता ही तुल दुःख में कारण है । दुःखों के उत्पन्न करने या न उत्पन्न कर सकने में देह, सत्त्व आदि विशेषतायें धातुजन्म पृथक् २ रोग, इनकी चिकित्सा, दोष चिकित्सा प्रकार से कोड दे शाका में आहार कुप्रिय

रोग हैं और जाकाओं से वित ग़ाहर ज्ञेष्ठ में बहते हैं; विद्युत् और अविद्युत्  
जी मिलता, स्वस्य और रोगी के लिये जो कुछ हिलकाते हैं, वह उन 'विविधा-  
'विविधीतीय' अध्याय में कह दिया ॥ ४४-४७ ॥

इत्यग्निवेदाङ्गुष्ठे तन्मे चरकप्रतिरूपस्तुते द्वास्यानेऽन्तर्वद्युष्टके  
विविधाशितीतीयो नाम अष्टाविंश्टाद्यावः समाप्तः ॥ २८ ॥  
समाप्तपिदं सप्तममन्तर्पानचतुष्पाद् ।

### एकोनश्रितोऽध्यायः ।

अथातो दशप्राणायतनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब आगे 'प्राणायतनीय' अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान्  
आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिराः ।

शङ्खो मर्मंत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी गुदम् ॥ ३ ॥

तानीन्द्रियाणि विज्ञानं चेतनाहेतुमामयम् ।

जानीते यः स वै विद्वान् प्राणाभिसर उच्यते ॥ ४ ॥ इति ॥

प्राण जिन स्थानों पर आविष्ट हैं वे दस स्थान हैं। यथा ( १-२ ) शांख-  
प्रदेश ( कनपटी ) दो, ( ३-५ ) तीन मर्म-हृदय, बस्ति और शिर, ( ६ ) कण्ठ,  
( ७ ) रक्त, ( ८ ) शुक्र, ( ९ ) ओज और ( १० ) गुदा ये दस प्राणों के  
स्थान हैं।

इन दस स्थानों को, इन्द्रियों ( आध्यात्मिक ), चेतनाहेतु ( आत्मा )  
और रोगों के कारण, लक्षण और ओश्पिचिकित्सा को जो विद्वान् जानता है,  
वही 'प्राणाभिसर' कहता है ॥ ३-४ ॥

द्विविवास्तु खलु भिषजो भवन्त्यग्निवेश ! प्राणानामेकेऽभिसरा  
इन्द्रादो रोगाणां, रोगाणामेकेऽभिसरा हन्ताः प्राणानामिति ॥ ५ ॥

एव वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश व्याच—भगवन् ! वे कथम-  
स्वामिर्बेदितव्या भवेयुरिति ॥ ६ ॥

भगवान्व्याच—व इमे कुठीमाः पर्यव्यातभूताः परिदृष्टकर्मणो  
पद्माः कुचयो जितहस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्तः सर्वनिष्ठो-  
पर्वताः प्रकृतिश्चाः त्रिविषिङ्गात्मे ग्राम्यानामभिसराः, हन्तादो रोगा-

जाम्, तथाविषा हि केष्ठे शरीरकाने शरीराभिनिर्वृशि-ज्ञान-  
प्रकृति-विकार-ज्ञाने च निःसंशयाः सुख-साध्य-कुच्छ-साध्य-भास्य-प्रत्या-  
ख्येयानां च रोगाणां समुत्थान-पूर्व रूप-लिङ्ग-वेदनोपशय-विशेष-विज्ञाने  
व्यपगतसन्देहाः, प्रिविधस्याऽऽयुवेदसूत्रस्य संसंग्रह-न्याकरणस्य सत्रिवि-  
धौषधप्रामस्य प्रवक्तारः, पञ्चत्रिशतश्च मूलफलानां चतुर्णां च स्लेहानां  
पञ्चानां च लवणानामष्टानां च मूत्राणामष्टानां च क्षीराणां क्षीरत्वगृ-  
क्षाणां च षण्णा शिरोविरोचनादेशं पञ्चकर्माश्रयस्यौषधगणस्याद्याविष-  
तेश्च यवागूर्ना द्राविंशत्च चूर्णप्रदेहानां षण्णा च विरेचनशतानां पञ्चानां  
च कषायशतानां, स्वस्थवृत्ताचापि च भोजन पान-नियम-स्थान-चक्रमण-  
शस्यासन-मात्रा-द्रव्याख्यान-धूम-नावनाभ्यज्ञन-परिमार्जन-वेगाविधारणा-  
व्याधाम-सात्म्येन्द्रिय-परीक्षोपक्रम-सदृशृत्तकशङ्काः; चतुष्पादोपगृहीते च  
भेषजे षोडशक्षेत्रे सविनिश्चये सत्रिपर्यंषणे सवातकलाकलङ्घाने व्यप-  
गतसन्देहाः, चतुर्विधस्य च स्नेहस्य चतुर्विशत्युपनयस्योपकल्पनी-  
यस्य चतुर्षष्ठिपर्यन्तस्य व्यवस्थापयितारो बहुविधानामुक्तानां च स्नेह-  
स्वेद्य-स्वमय-विरेच्यौषधोपचाराणां च कुशलाः; शिरोरोगादेशं दोषांशवि-  
कल्पजस्य व्याधिसंग्रहस्य सक्षयपिङ्काविद्रवेष्याणां च शोफानां बहु-  
विधशोफातुबन्धानामष्टाचत्वारिंशतश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिंशदुत्त-  
रस्य च नानात्मजस्य व्याधिशतस्य तथा विगर्हिताविस्थूलातिकृशानां च  
सहेतुलक्षणोपक्रमाणां स्वप्नस्य च हिताहितस्यास्वप्नातिस्वप्नस्य च  
सहेतुपक्रमस्य षण्णा च लङ्घनादीनामुपक्रमाणां सन्तर्पणापतर्पणजानां  
च रोगाणां सरूपप्रशमनानां च शोणितजानां व्याधीनां भद्रमूर्ढीयसं-  
न्यासानां च सकारणरूपौषधोपचाराणां कुशलाः; कुशलाश्चाऽऽहारविधि-  
विनिश्चयस्य प्रकृत्या च हिताहितानामाहारविकारणामैयसंग्रहस्याऽऽ-  
स्वाबानां च चतुरशीतिः द्रव्यगुणविनिश्चयस्य रसातुरससंश्रयस्य सवि-  
कल्पकवैरोधिकस्य द्रादशवर्गाश्रयस्य चाक्षयानस्य सगुणप्रभावस्य सानु-  
पानगुणस्य नवविषयस्यार्थसंग्रहस्याऽऽहारगतेष्व हिताहितोपयोगविशेषा-  
त्मकस्य च शुभाशुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणां च रोगाणामौषधसंप्रहृणाणां  
च दशानां च प्राणायतनानां यं च वक्ष्यामोऽथेदशमहामूढीये विश्वस्तमा-  
श्याये तत्र च कृत्स्नस्य तत्रोद्देशलक्षणस्य तन्त्रस्य च प्रहृण-धारण-विद्वान-  
प्रयोग-कर्म-कार्य-काळ-कर्तृ-करण-कुशलाकुशलाश्च सूक्ष्मि-मति-साक्ष-संयु-  
क्तिसुक्षिकावस्थाऽस्मनः क्षीलगुणोरविशेषादैनेन च संपादनेन सर्वग्रा-

पितु वेत्यसो नेत्रस्थ भास्तु-पितृ-भास्तु-वन्धुवदेवं गुणा १ अवश्यमिवेश !  
प्राणानामभिसरा हन्तारो रोताणामिति ॥ ७ ॥

वैद्यों के लक्षण—हे अग्निवेश ! वैद्य दो प्रकार के होते हैं । एक, 'प्राणा-  
भिसर' प्राणों को बाले और देगों का नाश करने वाले । दूसरे 'रेताभिं-  
वर' देगों को जाने वाले और प्राणों का नाश करने वाले ।

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले—इस इन  
दोनों प्रकार के वैद्यों को किंतु प्रकार से किन किन लक्षणों से जान सकते हैं ।

भगवान् आत्रेय ने कहा कि जो कुलीन उत्तम कुल में उत्तम हुए हों,  
जिनकी बुद्धि व शास्त्रज्ञान निर्मल हो, जिन्होंने क्रिया-कर्म देखा हो, जो अनु-  
भवी, चतुर, सदाचारी, अम्बस्त हाथ वाले ( शस्त्र चलाने में जिनको संशय  
न हो, कुशल हाथवाले ) जितेन्द्रिय, सर्व सामग्री से सम्पन्न, आंख, कान आदि  
सब इन्द्रियों से युक्त, जो कि शरीर की नीरोगस्तिति को भली प्रकार जानते हैं,  
उत्तम सूक्ष्म व परिणाम को भली प्रकार जानने वाले हों वे वैद्य प्राणरक्ष-  
क एवं रोगनाशक होते हैं । इस प्रकार से वैद्य सम्पूर्ण शरीर के शान से,  
वीर्य और शोणित के संयोग से शरीर किंतु प्रकार बनता है इसको जान,  
शारीरस्थान में कहे सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति विकृति के शान को  
विना सन्देह के समझते हों, सुखसाध्य, कष्टसाध्य, याप्य वा असाध्य इन चार  
प्रकार के रोगों के कारण, पूर्वरूप, लक्षण, वेदना, अनुकूल, आहार-  
विहार भली प्रकार जानते हों, सम्पूर्ण आयुर्वेद के सूत्र रूप जो  
यित्विष सूत्र हेतु, लिंग, लक्षण और औषध का ज्ञान है इसको; सामान्य और  
विशेष रूप से इनके संक्षेप और विस्तार को तथा तीन प्रकार की औषध दैवत्य-  
पाश्य और युक्तिव्यपाश्य, सत्वावजय समूह को जाननेवाले, १६ प्रकार की  
मूळिनी औषधियोंको, १६ प्रकार की कल्पर्ग की औषधियोंको, चार प्रकार के  
स्नेहों, पांच प्रकार के नमक, आठ प्रकार के मूत्र, आठ प्रकार के दूध, छः  
प्रकार के शीरी-वृक्षोंको, विरोविरेचनादि पांचकर्मों के औषध समूहोंको, अडा-  
इस प्रकार की यवागुणोंको, ३२ प्रकार के चूर्ण या प्रदेहोंको, छः सौ विरेचन,  
पांच सौ कषाय, मनुष्यों की प्रकृति स्वस्थ रहे इसके लिये भोजन, पान, के  
नियम, स्थान, चटना, फिरना, सोना, बेठना, मात्रा, द्रव्य, अंजन, घूमपान, नस्य,  
क्षम्यजन, स्नान, बेगों को न रोकना, व्यायाम, सात्य, इन्द्रियपरीक्षा-उपक्रम,  
वद्धत्रुप में कृपक, इनके नियमों को जानने वाले, चिकित्सा के चारों पाद और

१. 'वन्धुवदेववदुका' इति पाठः ॥

ठोकह रोगों में सन्देहराहित, तीन प्रकार की बातना, बायु के गुण-दोष में सन्देहराहित; चार प्रकार के स्नेह, स्नेह की २४ प्रकार की विचारणा में बहुत; रस मेद के ६४ प्रकार की योग्य योजना करने में, बहुत प्रकार के स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन औषधियों की यथायोग्य प्रयोग करने में कुशल, गिरोरेगादि रोग, बातादि दोषों की अधिकता या कमी से उत्तर देने वाले रोगों को; क्षय, पिङ्का, तीन प्रकार की विद्रधि, शोथजन्य नाना प्रकार के रोगों को, रोगों के ४८ प्रकारण, १४० प्रकार के बात, पिच, कफ रोगों को निन्दित अतिस्थूल अतिकृष्ण पुरुषों की हेतु, लक्षण, चिकित्सा को; हितकर अहितकर निद्रा को; अनिद्रा व अतिनिद्रा के कारण और चिकित्सा को; लंघनादि छः प्रकार की चिकित्सा को, सन्तर्पण अपतर्पण से होने वाले रोगों को, उनकी चिकित्सा को जानें, रक्तजन्य रोग, मद, मूर्छा और संन्यास के कारण, लक्षण और चिकित्सा में कुशल, आहारविधि में कुशल, स्वभावतः पथ्यापय्य आहार व संस्कार से होने वाले परिवर्तन, चौरासी ( ८४ ) प्रकार के आसव, रस व अनुरसात्मक द्रव्य गुण निश्चय, विकल्प में कुशल; अन्नपान के बारह वर्ग, गुण, प्रभाव, अनुपान गुण, अन्नपानादि से, रसादि धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पथ्यापय्य, आहार के हितकारी फल, बातादि दोष के प्रकृष्टित होने से उत्पन्न होने वाले रंग और उनकी चिकित्सा, प्राणायतनों के दस स्थान, इन सब विषयों में तथा अगले 'अर्थे दशमहामूलीय' अध्याय में जो कुछ कहेंगे, उन सब में निपुण, आयुर्वेद के उद्देश, लक्षण को जानने वाले हों, परं आयुर्वेद शास्त्र के प्रहण करने, प्रहण किये हुए को धारण करने और अर्थ से जानने, प्रयोग, चिकित्सा-प्रयोग, अनेक प्रकार से चिकित्सा करने, कार्य-धातुओं के समान करने, काल, क्रिया, काल, कक्षाँ, भिषक्, करण औषध में कुशल, तथा स्मरण शक्ति, बुद्धि, शास्त्रयोजना और तर्कज्ञान में समर्थ, अपने शील, स्वभाव रूपी गुणों से सब प्राप्ति मात्रा में मन, आत्मा द्वारा, माता, पिता, माई, बन्धु, आदि के समान मैत्री भाव रखने में कुशल होते हैं, स्नेह का व्यवहार करते हैं, हे अग्निवेद ! इस प्रकार के जो वैद्य होते हैं, वे 'प्राण-मिसर' अर्थात् प्राणरक्षक तथा रोगनाशक होते हैं ॥ ५-७ ॥

अतो विपर्ययेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां भिष-  
क्षुष्ठप्रतिष्ठन्नाः कण्टकभूता छोकस्य प्रतिरूपक्त्यक्त्यर्थाणो राक्षां  
प्रमादाहचरन्ति राष्ट्राणि । तेषामिदं विशेषविज्ञानम् । अस्यर्थं वैद्यवेष्य  
इकाशमाना विशिखान्तरमनुचरन्ति कर्मचोभात्, भूत्वा च कृत्यविदा-

तुर्यमभितः परिवतन्ति, संशब्देष्व चाहयाऽऽत्मनो वैष्णवगुणात्मकवैर्वदन्ति, यश्चात्म वैष्णवः प्रतिकर्म करोति तस्य च दोषान् मुहुर्मुहुर्वदाहरन्ति, आतुरमित्राणि च श्रहर्षोपजापोपसेवा विभिरच्छम्यात्मीकर्तुं, लक्ष्म्ये-चक्षती चाऽऽत्मनः ख्यापयन्ति, कर्म चाऽऽसाध्य मुहुर्मुहुर्वलोकयन्ति दाक्ष्येणाङ्गानमात्मनः प्रच्छादयितुकामाः, व्याधिं चापवर्तयितुमशक्तुं-वन्तो व्याधितमेवानुपकरणमपचारिकमनात्मवन्तमुहिशन्ति, अन्तं गतं चैनमभिसमीक्ष्यान्यमाश्रयन्ति देशमपदेशमात्मनः कृत्वा, प्राकृत-जनसन्निपाते चाऽऽत्मनः कौशलमकृशलवद्वर्णयन्ति, अचीरवच धैर्यमपवदन्ति धीराणां, विद्वज्जनसन्निपातं चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तारमध्यगाः परिहरन्ति दूरात्, यश्चैवां कश्चित्सूत्रावयवो भवत्यु-पयुक्तस्तमप्रकृते प्रकृतान्तरे वा सततमुदाहरन्ति, न चानुयोगामिष्ठ-न्त्यनुयोकुं वा, मृत्येरिव चानुयोगादुद्रिजन्ते, न चैषामाचार्यः शिष्यो वा सब्रह्मचारी वैवादिको वा कश्चित्प्रक्षायत इति ॥ ८ ॥

इनसे विपरीत गुण वाले वैष्णव 'रोगाभिरु' अर्थात् रोगों को लानेवाले और प्राणों का नाश करने वाले होते हैं। ये वैष्णवैष्णव के वैष में लोक में कटि के समान हुएवाली, विगाढ़ करने वाले, द्वोह करने वाले, धर्म का त्वाग करके, राजाओं के आळस्य से हो राष्ट्र में विचरते हैं। इन वैषों के विशेष लक्षण ये हैं—ये वैष के समान वस्त्र धारण करके अपनी प्रथंसा करते हुए रोगी के घर में गली में चिकित्सा कर्म के लोभ से जाते हैं, किसी को रोगी सुनकर उसको चारों ओर से घेर बैठते हैं, और अपने गुणानुवादों को ऊंचे २ सुनाने लगते हैं। जो पहले वैष चिकित्सा कर रहा है, उसके दोषों को बार २ कहते हैं। रोगी के मित्रों को खुश करके, चापलूसी, चुगली से, सेवा आदि द्वारा अपना बनाना चाहते हैं। और अपनी इच्छा को थोड़ा बतलाते हैं। चिकित्सा कार्य मिळने पर बार २ इधर उभर देखते हैं। चालाकी से अपने अज्ञान को छिपाने की चेष्टा करते हुए, रोग को अन्डा करने में अशक होने पर रोगी को ही उछाइना देने लगते हैं, तुम्हारे पास साधन नहीं, सेवक नहीं, पर्य नहीं रखते। मरता हुआ देखकर बढ़ाना करके दूसरे देश में चले जाते हैं। भोले भाके आदमी को देखकर अपनी कुशलता को मूर्ख पुरुष की भाँति विशद बचनों द्वारा प्रकट करते हैं। धीर पुरुषों के सामने अचीर की भाँति जोर २ से अपना धैर्य कहने लगते हैं। विद्वान् मनुष्यों को देखकर दुम दबाकर ऐसे मार जाते हैं, जिस प्रकार कि मर्यंकर भय की आशंका से जंगल के रास्ते को

दूर से ही छोड़ देते हैं। इन क्षेत्रों को जो ज़राता भी आयुर्वेद चिकित्सा का सूत्र मिल जाता है, तो उसीको बेसमय या बिना भवधन के ( पर्याप्त के बिना ही ) बार २ बोलने लगते हैं। ये न तो स्वयं किसी से कुछ पूछते हैं और न यह चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे। वे प्रश्न के पूछने से मृत्यु से जैसे डर कर भागते हैं। न तो कोई इनका आचार्य, न कोई शिष्य और न कोई सहाय्यार्थी होता है ॥ ८ ॥

भिषक्कृष्ण प्रविश्यैव व्याधितांस्तर्कयन्ति ते ।

वीरंसमिव संश्रित्य वने शाकुनिको द्विजान् ॥ ९ ॥

श्रुत-हष्टि-किया-काल-मात्रा-ज्ञान-बहिष्कृताः ।

वर्जनीया हि ते मृत्योश्चरन्त्यनुचरा भुवि ॥ १० ॥

कृत्तिहेतोर्भिषड्मानपूर्णान् मूर्खविशारदान् ।

वर्जयेदातुरो विद्वान् सर्पास्ते पीतमारुताः ॥ ११ ॥

ये तु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्मकोविदाः ।

जितहस्ता जितात्मानस्तेऽयो नित्यं कृतं नमः ॥ १२ ॥

रोगी को देखकर वैद्य का वेष पहिन कर रोगी के घर में घुस जाते हैं। ये जंगल में पहुंचे चिकित्सा की तरह पश्चियों को जाढ़ में फँसाने वाले होते हैं। इनको शास्त्रभवण, कर्मदर्शन, चिकित्सा और काल, मात्रा शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। ये मृत्यु के नौकर होकर पृथ्वी पर विचरते हैं, इसलिये इनको छोड़ देना चाहिये। जीविका प्राप्त करने के लिये वैद्य बने हुए, पूरे मूर्खों को, बुद्धिमान् रोगी छोड़ देवे, क्योंकि वे बायु यिये हुए सांप के समान हैं। जो वैद्य शास्त्रानी, कर्म में दक्ष, पवित्र, कर्मकुशल, जितहस्त, संयमी, ऐसे प्राणभिसर वैद्यों को नित्य प्रति नमस्कार है ॥ ११-१२ ॥

तत्र इलोकः—दश प्राणायतनिके इलोकस्थानार्थसंग्रहः ।

द्विविधा भिषजश्चोक्ताः प्राणस्याऽस्यतनानि च ॥ १३ ॥

इस दश प्राणायतनीय अध्याय में सम्पूर्ण सूत्रस्थान की संक्षिप्त सूची, दो प्रकार के वैद्य, शरीर के दस प्राणायतन ये विषय प्रतिपादन कर दिये हैं ॥ १३ ॥

इत्यनिवेद्यकृते तन्त्रे चरकप्रतिर्संस्कृते सूत्रस्थाने दशप्राणायतनीयो

नामैकोनत्रिशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २६ ॥

### त्रिष्णुत्तमोऽन्यायः

अथातोऽर्थे दशमहामूलीयमध्यायं व्याख्यात्याप्तमः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्त्वा भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'अर्थे दशमहामूलीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

अर्थे दश महामूलाः समासक्ता महाफलाः ।

महार्थश्च हृदये पर्यायैरुच्यते तु वैः ॥ ३ ॥

हृदय जिनका मूलस्थान है ऐसी महान् कार्य करने वाली दश घमनियो हृदय में आभित हैं । 'महात्' और 'अर्थं' ये हृदय के ही नामान्तर हैं ॥ ३ ॥

षड्ङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपञ्चकम् ।

आत्मा च सगुणश्चेत्क्षिण्णत्य च हृदि संश्रितम् ॥ ४ ॥

प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेषां हृदयमिद्यते ।

गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकैः ॥ ५ ॥

तस्योपघातान्मूर्छार्थं भेदान्मरणमृच्छति ।

यद्द्व तत्पर्यविज्ञानं धारि तत्तत्र संश्रितम् ॥ ६ ॥

तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः ।

हृदयं महार्थश्च त स्मादुक्तं चिकित्सकैः ॥ ७ ॥

छः अंगोवाला शरीर ( दो हाथ, दो पांव, शिर और ग्रीवा एवं कठि का मध्य भाग ), विज्ञान ( निष्ठ्यात्मक बुद्धि ), पांव शानेन्द्रियां तथा इन इन्द्रियों के शब्द, सर्व आदि विषय, आत्मा, गुणयुक मन, चिन्त्य ( मन के विषय ) ये सब हृदय में आभित हैं । यहाँ पर यह संदेश हो सकता है कि हृदय तो दो अंगुल मात्र है, इसमें छ अंगों वाला शरीर किस प्रकार समा सकता है । इन्द्रियों अपने आभितों में स्थित हैं, विषय वाला द्रव्यों में आभित हैं । आत्मा व्यापक होने से अनाभित है, गुणयुक मन भी अनाभित है, व्येय आदि हृदय में नहीं रहते । इस सन्देह का उत्तर देते हैं कि हृदय में ये भाव ( पदार्थ ) कार्यकारण सम्बन्ध से आविरोध रूप में रहते हैं । इनमें आधार-आवेद-सम्बन्ध नहीं, परन्तु आधार-आधारि, अथवा अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध है । आगारकर्णिका अर्थात् धर को दापने की ओर में एक वही वज्ञी होती है और उसके दोनों ओर दूसरी शाहतीरीया पड़ी रहती है, उसी प्रकार हृदय के चारों ओर ये वस्तुयें पड़ी हैं । इस हृदय को उपचात ( चोट ) लगाने से मूर्छा हो

जाती है और हृदय के विदीर्घ होने से मनुष्य भर जाता है । हृदय के नाश होने से हृदय में आभित संसारो आत्मा भी नष्ट हो जाता है । स्पर्श को जो जानता है या जिसके कारण स्पर्श ज्ञान होता है वही 'धारी' शरीर इन्द्रिय, सत्त्व और आत्मा के संयोग ( शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम् ) ये सब हृदय में आभित हैं । यह हृदय परम ( शेष ) ओज का स्थान है, चैतन्य विषयों में फैले हुए मन का इसी हृदय में संग्रह होता है । विषयों में गये हुए इसी मनको हृदय में रोकने से योगी बनते हैं और योग मोक्ष का साधन ( योगो भोक्षप्रवर्त्तकः ) है । इसलिये हृदय को महत् और इन शब्दों से चिकित्सक कहते हैं ॥ ४-७ ॥

तेन मूलेन महता महामूला मता दश ।  
 ओजोवहा: शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥  
 येनैजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः ।  
 यद्यते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ ९ ॥  
 यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्र्भैरसाद्रसः ।  
 संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा ॥ १० ॥  
 यस्य नाशात् नाशोऽस्ति धारि यद्यृदयाश्रितम् ।  
 यः शरीररसंनेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ ११ ॥  
 तत्फला वृद्धा वा ताः फलन्तीव महाफलाः ।  
 धमानाद्भूमन्यः स्ववणात् स्नोतासि सरणात्सिराः ॥ १२ ॥

इस हृदय से महामूल वाली ( जिनका प्रमावस्थान बड़ा है, ऐसी ) दस ओजवाहिनी धमनियां निकल कर इस सम्पूर्ण शरीर में फैलती हैं । जिस ओज के पुष्ट होने पर सब प्राणी जीते हैं, जिस ओज के बिना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता, जो ओज शुक्र रक्त संयोग से बने गर्भ में सारमूत है, और जो शुक्र रक्त के संयोग से बने कल्ल रूप में रसरूप सार है, जो ओज हृदय के बनने पर स्पष्ट होकर हृदय में रहता है, जिस ओज के नष्ट होने पर ( धातुओं का अथ न होने पर भी ) मृत्यु निश्चित है, जो कि प्राणों को धारण करने में मुख्य है, जिस ओज में प्राण आश्रित हैं उस ओज को लेजाने वाली, ओजोवहा, महाफला दस धमनियां हृदय का आभय लेकर अनेक प्रकार से फलती हैं । ये हृदय में दस होती हुई भी शरीर में प्रतान मेदों से असंख्य बनजाती हैं ।

पूरण अर्थात् बाया रस द्वारा भरने से ( स्पन्दन होने से ), धमनियां, स्ववण अर्थात् रस, पौष्य वस्तु का स्ववण होने से स्नोतस् और दूधरे देश या स्थान में जाने से 'सिरा' कहलाती हैं ॥ ८-१२ ॥

तन्महसा महामूलात्तर्कोजः परिरक्षता ।  
परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः ॥ १३ ॥  
हृदयं यत्स्याथदौजस्यं क्षोतसां यत्प्रसाधनम् ।  
तत्त्वसेव्यं प्रबन्नेन प्रश्नमो ज्ञानमेव च ॥ १४ ॥

हृदय स्थित मन की रक्षा में कारण छः अंगों वाले शरीर, बुद्धि आदि का हृदय स्थान है। ओजोवहा धमनियां मी इसी हृदय से निकलती हैं, यही हृदय इनका मूल है। इसलिये ओज की रक्षा करने के लिये मानसिक दुःखों के कारणों से विशेष रूप में बचना चाहिये। जो वस्तु हृदय और ओज के लिये हितकारी हो, एवं मनोवहा आदि स्रोतों को निर्मल करनेवाली हो और शान्ति तथा तत्त्वज्ञान को देने वाली हो, उसे प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये । १३-१४।

अथ खल्वेकं प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतममेकं बलवर्धनानामेकं बृंहणानामेकं नन्दनानामेकं हर्षणानामेकमयनानामिति । तत्राहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतमं, वीर्यं बलवर्धनानां विद्या बृंहणानां, इन्द्रिय-जयो नन्दनानां, तत्त्वावदोधो हर्षणानां, ब्रह्माचर्यमयनानामित्यायुर्वेद-विदो मन्यन्ते ॥ १५ ॥

सेवन करने योग्य वस्तुएं कहते हैं—प्राणों को बढ़ाने के लिये सबसे उत्कृष्ट वस्तु एक ही है (दूसरा नहीं), बल को बढ़ाने में एक; पृथ्य वस्तुओं में उत्कृष्टतम एक, श्रेय समृद्धिकारक हृषोत्पादक में एक; भोक्षदायक में सबसे श्रेष्ठ वस्तु एक ही है। जैसे प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने के लिये अहिंसा सबसे उत्कृष्ट है, बल वर्धकों में वीर्य, बृंहण वस्तुओं में विद्या, श्रेयस्कर वस्तुओं में इन्द्रियों का संयम, हृषोत्पादक वस्तुओं में तत्त्वज्ञान और भोक्षदायक वस्तुओं में ब्रह्माचर्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा आयुर्वेद विद्यान् मानते हैं ॥ १५ ॥

तत्राऽयुर्वेदविदस्तन्त्रस्थानाध्यायप्रश्नानां पृथक्त्वेन वाक्यशो वाक्यार्थंशोऽर्थावयवशङ्कं प्रवक्तारो भन्तव्याः ॥ १६ ॥

अत्राऽऽह-कथं तन्त्रादीनि वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवशङ्केत्युक्तानि भवन्तीति । अत्रोच्यते—तन्त्रमार्थं कात्स्येन यथाभ्यायमुक्त्यमानं वाक्यशो भवत्युक्तम् । बुद्धया सम्यग्नुप्रविश्यार्थतत्त्वं बारिम-र्जीष-समास-प्रतिक्षा हेतुदाहणोपनय-निगमन-युक्ताभिस्त्रिविष-शिष्य-बुद्धिगम्याभिवृद्ध्यमानं वाक्यार्थशो भवत्युक्तम् । तन्त्रलिपिवानामर्थ-दुर्गणा पुनर्विभावनैरुक्तमर्थावयवशः भवत्युक्तम् ॥ १७ ॥

जो पुरुष आयुर्वेद के ग्रन्थ, उनके स्थान, प्रसंग, अध्याय, प्रश्न उनके अवान्तर विषय, वाक्यार्थों और अर्थावयवों का निरूपण कर सकते हों, उनको आयुर्वेद का ज्ञाता मानना चाहिये। आयुर्वेद के ग्रन्थ में वाक्य, अर्थ और अर्थावयव किस प्रकार से कहे जाते हैं? यह कहते हैं, शूष्मिकृत तन्त्र को 'अथ' से 'इति' पर्यन्त समस्त ग्रन्थ को पाठकम से पढ़ना वाक्यार्थ होता है। अर्थतः तन्त्र को त्रुद्धि से भली प्रकार समझ कर वाणी द्वारा व्याप्त अर्थात् विभाग, समाप्त, प्रतिशा, हेतु, उदाहरण ( दृष्टान्त ), उपनय<sup>१</sup>निगमन<sup>२</sup>तीनों प्रकार ( उच्चम मध्यम और अचमकोटि ) के विषय जिस युक्ति से समझ सके इस प्रकार से कहना वाक्यार्थः निरूपण कहाता है। तन्त्र में आये हुए कठिन अर्थों को पुनः पुनः व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना यह 'अर्थावयवः निरूपण' होता है ॥ १६-१७ ॥

तत्र चेत्प्रष्टारः स्युः—चतुर्णामूर्कसामयजुरथर्ववेदानां कं वेदमुप-दिशन्त्यायुर्वेदविदः, किमायुः, कस्मादायुर्वेदः, किं चायमायुर्वेदः शाश्वतोऽशाश्वतश्च । कर्ति कानि चास्याङ्गानि, कैश्चायमध्येतत्यः, किमर्थं चेति ॥ १८ ॥

तत्र भिषजा पृष्ठेनर्वं चतुर्णामूर्कसामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽथ-र्ववेदे भक्तिरादेश्या । वेदो ह्यार्थवर्णः स्वस्त्ययन-बलि-मङ्गल-होम-नियम-प्रायश्चित्तोपवास-मन्त्रादिन-परिग्रहाचिकित्सा प्राह, चिकित्सा वाऽऽयुषो हितायोपदिश्यते ॥ १९ ॥

वेदं चोपदिश्याऽयुर्वाच्यं; तत्राऽयुश्चेतनानुकृतिर्जीवितमनुबन्धो धारि चेत्येकोऽर्थः ॥ २० ॥

तत्राऽयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः । कथमिति चेदुच्यते—स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च । यतश्चाऽयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोऽयुर्वेदः ॥ २१ ॥

तत्राऽयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि केवलेनोपदेश्यन्ते तन्मेण ॥ २२ ॥

यदि कोई पूछे कि शूष्मिति, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद इन चारों वेदों में से किस वेद को आयुर्वेद कहते हैं? आयुर्वेद का कौन से वेद के साथ सम्बन्ध है? आयु व्या है? आयुर्वेद किस लिये है? यह आयुर्वेद शाश्वत

१. सिद्धान्तापादितस्य सामनवर्मस्य साम्ये पुनः कथनमुपनयः ।

२. हेतुसाधितसाम्यस्यमर्कयनं निगमनम् ॥

( निष्प ) है या अशाश्वत ( अनित्य ) ? इस आयुर्वेद के कितने और कौन ३ से अंग हैं ? आयुर्वेद किन को पढ़ना चाहिये ? और इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है ? वैद्य से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर वैद्य को शूण, वण्ड, साम और अर्थवृत्त इन चारों वेदों में से अर्थवृत्त वेद में ही अपनी भक्ति ( भद्रा ) चतुरानी चाहिये । क्योंकि अर्थवृत्त वेद ने स्वस्ति-अयन, वृद्धि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, वा उपवासदि द्वारा रोग की चिकित्सा कही है । चिकित्सा आयु की मंगल कामना से कही जाती है, आयुर्वेद यह अर्थवृत्त वेद का एक भाग है । वेद सम्बन्धी विवेचन करने के पीछे ही आयुसम्बन्धी विवेचन किया जाता है । चैतन्यपरम्परा, जीवित, अनुबन्धन, धारि ये आयु-शब्द के समानार्थवाची हैं । आयुर्वेद किस लिये कहते हैं इसका उत्तर अपने लक्षण से, सुख-दुःख हितकारी अहितकारी, प्रमाण अप्रमाण एवं आयुर्वर्द्धक और आयुर्व्यक्तारक द्रव्योंके गुण कर्म सम्पूर्ण रूपमें कहे जाते हैं, इसलिये, इस शब्द को आयुर्वेद कहते हैं ॥ १८-२२ ॥

तत्राऽयुरुक्तं स्वलक्षणतो यथावद्वैव । तत्र शारीरमानसाद्या रोगाभ्यामनभित्तस्यानभिमूलस्य च विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगत-वल-वीर्य-यशः-पौरुष-पराक्रमस्य ज्ञान-विज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थ-वल-समुदाये वर्तमानस्य परमधिं-रुचिर-विविधोपभोगस्य समृद्धसर्वारम्भस्य यथेष्टविचारिणः सुखमायुरुद्ध्यते, असुखमतो विपर्ययेण । हितेषिणः पुनर्भूतनां परस्वादुपरस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्परेणानुपहतमुपसेवमानस्य पूजार्हसंपूजकस्य ज्ञान-विज्ञानोपशम-शीलस्य बृद्धोपसेविनः सुनियत-राग रावेष्वां-मद्मान-वेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपो-ज्ञान-प्रशम-नित्यस्याद्यात्म-विदस्तत्परस्य लोकमिमं चामुं चापेक्षमाणस्य स्मृतिमतो हितमायुरुच्यते । अहितमतो विपर्ययेण ॥ २३ ॥

आयु का लक्षण ( चेतनानुवृत्ति चेतनपरम्परा० ) इस स्थान पर कह दिया है । जिस मनुष्य को शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का रोग नहीं, शरीर में तारुण्य भरा है, शरीर में शक्ति, वल, वीर्य और पौरुष, पराक्रम है, ज्ञान, वृद्धि, इन्द्रिय और विषय बलवान् हैं, सम्पत्ति, प्रिय और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ अनुकूल हों, सब कार्यों में जिसको सफलता मिलती हो, स्वेच्छापूर्वक आहार-विहार करने योग्य जो मनुष्य हो, उसकी आयु सुखमय समाजनी चाहिये । इसके बिलकुल दुःखमय समाजना । जो मनुष्य सब प्राणियों का कल्याण चाहता

ही, जो दूसरे के बन की इच्छा नहीं करता, सत्यवादी, शान्तमन ( वंतोशी ), विचार कर कार्य करने वाला, उद्यमी, दूसरे को कहन पहुँचाते, इति प्रकार से जो धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है, पूजा के योग्य पुरुषों का जो पूजन करता है, ज्ञान, विज्ञान, उपशम शील-स्वभाव का, वृद्ध पुरुषों का सत्संग ( सेवा ) करने वाला, राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मान के बेगों को दमन करने वाला, निरन्तर नाना प्रकार के दान देने वाला, तप, ज्ञान में रत एवं सदा शान्त चित्त रहने वाला, आत्मा के चिन्तन में दत्तचित्त, इह लोक परलोक दोनों का ध्यान रखने वाला, उत्तम स्मरण शक्ति वाला जो पुरुष होता है, उसकी आयु हितकारी होती है, इससे विपरीत अहित है ॥ २३ ॥

प्रमाणमायुषस्त्वर्थे निद्र्यमनो-बुद्धि-चेष्टादीना विकृतिलक्षणैरुपलक्ष्य-  
तेऽनिमित्तौः इदमस्मात्क्षणान्मुहूर्तादिवसात् त्रिपञ्चसप्तशत्रादशाहात्प-  
क्षान्भासात्पृष्ठमासात्संवत्सराद्वा स्वभावमापत्स्यत इति । तत्र स्वभावः,  
प्रवृत्तेनपरमो, मरणमनित्यता, निरोध इत्येकोऽर्थः—इत्यायुषः प्रमाण-  
मतो विपरीतमग्रमाणम् । अरिष्टाधिकारे देहप्रकृतिलक्षणमधिकृत्य  
चोपदिष्टमायुषः प्रमाणमायुर्वेदे ॥ २४ ॥

प्रयोजनं चास्य—स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्र-  
शमनं च ॥ २५ ॥

आयु का प्रमाण, इन्द्रियों के विशय ( शब्द स्पर्शादि ) मन, बुद्धि, चेष्टा आदि के विकृत लक्षणों से जाना जाता है । लक्षण को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमुक मनुष्य एक मुहूर्त में, एक क्षण में, एक दिन में, तीन दिन में, पांच दिन में, सात दिन में, बारह, पन्द्रह दिनों में महीने, छः मास में, या साढ़ भर में स्वभाव अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा । स्वभाव, प्रवृत्ति, उपरम, मरण, अनित्यता, निरोध ये शब्द एकार्थवाची पर्याय हैं । यह आयु का प्रमाण है, इसके विपरीत अप्रमाण । अरिष्टाधिकार ( इन्द्रियस्थान ) में देह, प्रकृति, लक्षणों के अविकार से आयु का प्रमाण कहेंगे ॥ २४-२५ ॥

सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्स्वभावसंसिद्ध-  
लक्षणत्वाद्ग्रावस्वाभावनित्यत्वात् । न हि नाभूत्कदाचिदायुषः सन्तानो  
बुद्धिसन्तानो वा शाश्वतश्चाऽस्युषो वेदिता, अनादि च मुखदुःख-  
सद्वृत्य-हेतु-लक्षणमपरापरयोगात्; एष चार्यसंप्रहो विभाव्यते आयु  
वेदलक्षणमिति । गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रुक्षादीना च दून्ताना  
सामान्यविशेषाभ्यां बृद्धिहासी; यथोक्तम् । गुरुभिरुक्त्यस्वभानेगुरुलक्षण-  
भुपचयो भवत्यपचयो लघुनामेवमेवतरेषाभित्येष भावस्वभावो नित्यः,

स्वदृष्टिं च द्रव्याणां पूर्यित्वाहीना । सन्ति तु सर्वदा शुणाम् नित्या-  
नित्याः । न आयुर्वेदस्याभूत्वेत्पत्तिरपद्धत्यते, अन्यद्वावदोषोपदे-  
शास्याम् । एवद्वै द्रव्यमधिकृत्योत्पत्तिमुपविश्वन्त्येके । स्वाभाविकं चास्य  
क्लृप्तमकृतकं, यदुक्तमिह चाऽऽस्याये—यथाऽन्नेरौल्यमपां इवत्वम् ।  
भावस्वभावनित्यत्वमपि चास्य यथोक्तं गुरुभिरभ्यस्यमानेरुहृष्णा-  
मुपचयो भवत्यपचयो लघूनामित्येवमादि ॥ २६ ॥

यह आयुर्वेद नित्य है, ऐसा माना जाता है। उसके तीन हैं, १. अनादि होने से, २. स्वभाव लिद होने से, ३. पदार्थों के गुण, चर्म नित्य होने से। इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। आयुर्वेद में आयुष्य का प्रतिपादन किया है और सर्वदा ही आयु की परम्परा सन्तानन्याय से चली आ रही है ( जिना आयु के कोई नहीं हुआ )। इसी प्रकार बुद्धि की परम्परा भी अनादि काळ से चली आ रही है। ( एक मरता है, दूसरा जीवित रहता है इस प्रकार से आयु की परम्परा चली आरही है) इसलिये आयुष्यादि प्रतिपाद्य विषय अनादि है। इसको प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। आयुर्वेद उपकरण और आयुष्य उपकार्य है। जिना उपकरण के कार्य नहीं रह सकता। इसी प्रकार बुद्धि के भी अनादि होने से आयुर्वेद का ज्ञान भी अनादि है और इस ज्ञान को जानने वाले भी अनादि हैं। दूसरा आरोग्यता या रोग को उत्पन्न करने वाले, अथवा रोग के लक्षण, कारण, चिकित्सा आयुर्वेद में प्रतिपादन किये हैं और वे अनादि हैं। क्योंकि सुख-दुःख अनादि काल से चला आ रहा है, इसलिये इनको प्राप्त तथा नाश करने के भी उपाय अनादि होने चाहिये। तीसरी गुरु, इलका, ठण्ठा, गरम, स्तिव्यध, रूप पदार्थों के ये गुण चर्म भी नित्य हैं, इसलिये इन गुण धर्मों को बताने वाला आयुर्वेद भी नित्य है। पृथिव्यादि पञ्च महाभूतों के गुण धर्म नित्य हैं, परन्तु इनसे बने पदार्थ अनित्य हैं। इसी प्रकार मिट्टी नित्य और मिट्टी से बना घड़ा अनित्य है। इस प्रकार से मनुष्य-शरीर को बनाने वाले परिणाम नित्य हैं। और इस परिणाम रूप निर्माण किया को बताने वाला आयुर्वेद भी नित्य है। आयुर्वेद का एक समय अस्तित्व नहीं था, उत्पन्न हुआ है ऐसा कहीं पर सुनने में नहीं आता। वही पर भी आयुर्वेद का ग्राहुभाव किला है, वहां पर इसका अबोध या उपदेश रूप से प्रतिपादन किया है कि हन्दू के उपदेश से भरद्वाज मूनि मृत्यु लोक में आयुर्वेद को खाये, यह उपदेश और ब्रह्मा के अन्दर जो ज्ञान का उदय हुआ वही इसको उत्पत्ति है। आयुर्वेद स्वाभाविक एवं अकृतक है। जैसा कि

पहले अथवा मैं कहा है ( हिताहितं सुखदुखं० ) । अग्नि में उष्णिमा और पानी में तरलता स्वाभाविक है, बनाई हुई नहीं है इसी प्रकार आयुर्वेद भी स्वाभाविक है । भाव, अर्थात् स्वभाव के अकृत अर्थात् स्वाभाविक होने से भी आयुर्वेद नित्य है । यथा—गुरु पदार्थों के उपसेवन से गुच्छता बढ़ती है । और लघु पदार्थों के उपसेवन से शरीर में लघुता बढ़ती है । इसलिये आयुर्वेद भी नित्य है ॥ २६ ॥

तस्याऽऽयुर्वेदस्याङ्गान्यष्टौ । तद्यथा—कायचिकित्सा, शाळाक्यं शल्यापद्धर्तुकं, विष-गर-वैरोधिक-प्रशमनं, भूतविद्या, कौमार-भृत्यकं, रसायनानि, वाजीकरणमिति ॥ २७ ॥

इस आयुर्वेद के आठ अंग हैं । ( १ ) काय चिकित्सा, ( २ ) शाळाक्यं, ( ३ ) शल्यापद्धर्तुकं, ( ४ ) विष-गर-वैरोधिक-प्रशमन, ( ५ ) भूतविद्या, ( ६ ) कौमार-भृत्यकं, ( ७ ) रसायन और ( ८ ) वीजीकरण ये आठ अंग हैं ॥ २७ ॥

स चाध्येतत्त्वो ब्राह्मण-राजन्य-वैश्यैः । तत्रातुग्रहार्थं प्राणिनां ब्राह्म-गैरात्मरक्षार्थं राजन्यर्वृत्त्यर्थं वैश्यैः, सामान्यतो वा धर्मर्थकामपरिम-हार्थं सर्वैः । तत्र च यद्ध्यात्मविदां धर्मपथस्थापकानां धर्मप्रकाशकानां वा मातृ-पितृ-बन्धु-गुरु-जनस्य वा विकारप्रशमने प्रयत्नवान् भवति यच्चाऽऽयुर्वेदोक्तमध्यात्ममतुज्यायति वेदयत्यनुविधीयते वा सोऽस्य स्य परो धर्मः । या पुनरीश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्सुखोपहारनिभित्ता भवत्यर्थावाप्तिरक्षणं च या च स्वपरिगृहीतानां प्राणिनामातुर्याशरक्षा-सोऽस्यार्थः । यत्पुनरस्य विद्वद्भ्रह्मण्यशः-शरण्यत्वं च, या च संमानशुश्रूषा, यच्चेष्टानां विषयाणामारोग्यमाधत्ते, सोऽस्य काम इति यथाप्रश्नमुक्तमशेषेण ॥ २८ ॥

यह आयुर्वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हन तीर्णों वर्णों को पढ़ना चाहिये । ब्राह्मणों को प्राणियों का भला करने के लिये, क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिये, वैश्यों को वृत्ति अर्थात्, जीविकोपार्जन के लिये पढ़ना चाहिये । अथवा धर्म, अर्थ, काम रूपी पुरुषार्थों के उद्देश्य से ही सद को पढ़ना चाहिये । इनमें जो तत्त्वज्ञान को जानने वाले, धर्मसंरक्षणक, धर्मोपदेशक, माता, पिता, भाई बन्धु, पुरजनों के रोगों को दूर करने में प्रयत्नशोल होता है और जो पढ़े हुये आयुर्वेद को दूसरों को पढ़ाता है, बतलाता है, वैसा करता है, वह इस का सर्वोत्तम धर्म है । राजाओं या रईसों, सेठों से आरोग्यता प्रदान करने पर जो घन की प्राप्ति होती है, आत्मरक्षा होती है, इसी प्रकार अपने आध्यजीवी नौकर चाकर आदि को रोग मुक्त करता है वह इसका सर्वोत्तम अर्थ है । विद्वान् कोगों द्वारा

प्राप्त यथा, कीर्ति, सब लोगों का शरण में आना, आश्रयप्रदाता होना, आदर सत्कार लोगों से प्राप्त होना, प्रिय विषयों में आरोग्यता का प्राप्त होना वह इसका सर्वोच्चम् काम है। इस प्रकार से सब प्रश्नों का पूरा २ उत्तर देदिया ॥२८॥

अथ भिषजादित एव भिषजा प्रष्टव्योऽष्टविधं भवति । तथा—तन्त्रं तन्त्रार्थं स्थानानि स्थानार्थानध्यायानध्यायार्थान् प्रश्नार्थां अते । पृष्ठेन चैतदूरुक्तव्यमशेषेण वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थाव्यवश्यते ॥ २९ ॥

वैद्य परीक्षा के लिये वैद्य से आठ प्रश्न पूछे । यथा तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान स्थानों के अर्थ, अध्याय और अध्याय के अर्थ, प्रश्न और प्रश्नार्थ । पूछे जाने पर वैद्य को सम्पूर्ण रूप से वाक्य, वाक्यार्थ, अर्थाव्यव रूप से पूर्णतया कहना चाहिये ॥ २९ ॥

तन्त्राऽऽशुर्वेदः शास्त्रा विद्या सूत्रं ज्ञानं शाखं लक्षणं तन्त्रमित्य-  
नर्थान्तरम् ॥ ३० ॥

तन्त्रार्थः पुनः स्वलक्षणैरुपदिष्टः, स चार्थः प्रकरणैर्विभाग्यमानो भूय एव शरीर-वृत्ति-हेतु-न्याधि-कर्म-कार्य-काल-कर्तु-करण-विधि-विनि-  
श्चाहशप्रकरणः, तानि च प्रकरणानि केवलेनोपदेश्यन्ते तन्त्रेण ॥३१॥

इसमें आशुर्वेद, शास्त्रा, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण व तन्त्र ये सब एकार्थ-बाची शब्द हैं । तन्त्र का अर्थ “आशुर्वेदयतीत्याशुर्वेदः” आशु-जिससे जानी जाती है वह आशुर्वेद-इस प्रकार अपने लक्षणों से कह दिया । हित अहित आशुरूप लक्षण है और यह अर्थ प्रकरण मेद से बहुत प्रकार का है । यथा शरीर (पञ्च महाभूतों का समुदायरूप होने से अवश्यवादि मेद से बहुत प्रकार का है), हेतु ( असात्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रशापराध, परिणाम ), व्याधि ( घातुवैष्यम् ), कर्म ( चिकित्सा ), कार्य ( आरोग्यता ), काल ( श्रुतु आदि ), कर्ता ( भिषक् ), करण ( भेषज ), विधि ( उपकल्पना विधान जिसे काल, द्रव्य और व्याधि की अपेक्षा से समझना चाहिये ) । इन प्रकरणों से ग्रन्थ सम्पूर्ण रूप से भली प्रकार सुगठित होता है । ये प्रकरण तन्त्र में सम्पूर्ण रूप से कहे जावेंगे ३०-३१

तन्त्रस्यास्याष्टौ स्थानानि । तथा—इलोक-निदान-विमान-शारीरे-  
निद्रिय-चिकित्सित-कल्पसिद्धि-स्थानानि । तत्र त्रिंशदध्यायकं इलोकस्थानं  
अष्टाव्यायकानि निदान-विमान-शारीरस्थानानि, द्वादशकमिन्द्रियाणां,  
प्रिंशकं चिकित्सितानां द्वादशके कल्पसिद्धिस्थाने इति ॥ ३२ ॥

इस तन्त्र के आठ स्थान हैं यथा—१. सूत्र ( लोक ) स्थान, २. निदान-  
स्थान, ३. विमानस्थान, ४. शारीरस्थान, ५. इन्द्रियस्थान, ६. चिकित्सास्थान,

७. स्लोकस्थान और ८. सिद्धिस्थान। इनमें स्लोकस्थान ३० अध्यायों का, निवान, विमान और शारीरस्थान, आठ २ अध्यायों के हन्दियस्थान वारह का चिकित्सास्थान तीव्र का, कल्प और सिद्धिस्थान बारह २ अध्यायों के हैं ॥१२॥

### भवन्ति चाप्र—

द्वे प्रिंशके द्वादशकत्रये च त्रीण्यष्टुकान्येषु समाप्तिरुक्ता ।  
इसोकौषधारिष्ट-विकल्प-सिद्धिनिवान-मानाश्रय-संक्षेपेषु ॥३३॥  
स्वे स्वे स्थाने यथास्वे च स्थानार्थं उपदेश्यते ।  
सर्विंशमध्यायायशतं शृणु नामकमागतम् ॥ ३४ ॥  
दीर्घखीवोऽध्यपामार्गतण्डुलारम्बधादिकौ ।  
षड्विरेकाश्रयस्त्वेति चतुष्को भेषजाश्रयः ॥ ३५ ॥  
आत्रातस्याशितीयो च न वेगान्धारणं तथा ।  
इन्द्रियोपक्रमस्त्वेति चत्वारः स्वास्थ्यवृत्तिकाः ॥ ३६ ॥  
खुड्हाकश्च चतुष्पादां महास्तिस्त्वेषणस्तथा ।  
सह बातकलाख्येन विद्यान्देवं शिकान् बुधः ॥ ३७ ॥  
स्नेहनस्वेदमाध्यायातुमौ यशोपकल्पनः ।  
चिकित्साप्राभृतश्चैव सर्वा एवापकल्पनाः ॥ ३८ ॥  
क्रियन्तः शिरसीयश्च त्रिशोफाष्टोदरादिकौ ।  
रोगाध्याया महाश्चैव रोगाध्यायचतुष्टयम् ॥ ३९ ॥  
अष्टौनिन्दितसंख्यातस्तथा लंघनतपेणौ ।  
विधिशोणितकर्त्त्वं त्र्यास्थ्यातास्तत्र योजनाः ॥ ४० ॥  
यज्ञः पुरुषसंख्यातो भद्रकाप्याज्ञपानिकौ ।  
विविधाशितपीतीयश्चत्वारोऽन्नविनिश्चय ॥ ४१ ॥  
दृशप्राणायतनिकस्तथाऽथेवशमूलिकः ।  
द्वावेतौ प्राणदेहार्थों प्रांकौ वैष्णुणाश्रयौ ॥ ४२ ॥  
औषधस्वस्थनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः ।  
चतुष्काळः चट्टक्रमणोक्ताः सप्तमश्चाज्ञपानिकः ॥ ४३ ॥  
द्वौ चान्यौ संप्राणाध्यायाविति त्रिशत्कर्मर्थवत् ।  
स्लोकस्थानं समुहिष्टं तन्त्रस्थास्य शिरः शुभम् ॥ ४४ ॥  
चतुष्काणा महाथर्थीना स्थानेऽस्तिमन् संप्रहः कृतः ।  
स्लोकार्थः संप्राणार्थश्च स्लोकस्थानमतः स्मृतम् ॥ ४५ ॥  
इस प्रन्थ में तीस तीव्र अध्याय के द्वन्द्व और चिकित्सास्थान हैं । बारह २

अध्याय के तीन अरिह (इन्द्रिय), कहर और उद्दि स्थान, आठ २ अध्याय के निदान, विमान और शारीर ये तीन स्थान हैं। श्लोक, ओषध, अरिह, विकल्प, उद्दि, निदान, विमान और आभव नामक १२० अध्यायों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। अपने २ स्थान में यथायोग्य स्थानों का उपदेश तस्वार्थ सहित कहेंगे। इन १२० अध्यायों के क्रम से नाम सुनो—

दीर्घजीवितीय, अगमार्गतण्डुलीय, आरवधीय, षड्विरेचनशताभितीय, इन चार अध्यायों में 'ओषध-चतुर्ष' का निरूपण किया है। मात्रावितीय, तस्याशितीय, नवेगान्धारीय और इन्द्रियांपकमणीय ये चार स्वास्थ्य-चतुर्ष हैं। खुड़ाकचतुष्पाद, मट्टाचतुष्पाद, तिष्ठैणीय और बातकाकलीय ये चार निर्देश चतुर्ष (कर्त्तव्य अकर्त्तव्य विषयक) हैं। स्नेहन, स्वेदन, उपकल्पनीय और विकित्सा प्रामृतीय ये चार कल्पनाचतुर्ष हैं। कियन्तःशिरसीय, त्रिशोथीय, अषोदरीय, महारोगाच्याय—ये चार रोगचतुर्ष हैं। अष्टौनिन्दितीय लंबन-बृंहजीव सन्तर्पणीय और विविधशोणितीय ये चार योजनाचतुर्ष हैं। यजःपुष्टीय, आत्रेयमद्रकाप्यीय, अन्तपानीय, विविधाशितपीतीय ये चार अन्तपान-चतुर्ष हैं। दश प्राणायतनीय और अर्धे-दशमहामूलीय इन पिछ्ले दोनों अध्यायों में प्राप्त, ओज, धमनी और वैद्यो के गुणों का निरूपण किया है। इस प्रकार से इस सूत्रस्थान में ओषध-चतुर्ष, स्वास्थ्य-चतुर्ष; निर्देश-चतुर्ष, कल्पना-चतुर्ष; रोग-चतुर्ष; योजना-चतुर्ष, अन्तपान-चतुर्ष तथा पहले दो अध्यायों में इन अडाईस अध्यायों की सूची है। इस प्रकार से सूत्रस्थान के तीस अध्यायों में इन विषयों का वर्णन किया है। जित प्रकार मनुष्य के सब अंगों में श्रेष्ठ मस्तिष्क है उसी प्रकार से सब ग्रन्थों में यह श्रेष्ठ है। इस सूत्र स्थान में उपयोगी चतुर्षों का संग्रह किया है। इलोक रूप में संग्रह होने के कारण इसको 'श्लोकस्थान' कहते हैं ॥ ३३-४५ ॥

ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः ।

शोषोन्मादनिदाने च स्यादपस्मारिणां च यत् ॥ ४६ ॥

इत्यध्यायाष्टकमिदं निदानस्थानमुच्यते ।

ज्वर निदान, रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेह निदान, कुष्ठ निदान, शोष निदान, उन्माद निदान और अपस्मार निदान—ये आठ अध्याय निदान-स्थान में हैं ॥ ४६ ॥

रसेषु त्रिविषे कुष्ठो अस्ते जनपदस्य च ॥ ४७ ॥

त्रिविषे रोगविक्षाने लोकःस्वपि च वर्तने ।

रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च भिविजते ॥ ४८ ॥  
अष्टौ विमानान्युक्तानि मानाधीनि महिंषा ।

विमान स्थान में रत विमान, विविष्टकुमीय, अनपदोदध्वंणीय, विविधोग-विशेषविकानीय, स्त्रोतविमान, रोगानीक, व्याधिरूपीय और रोगभिष-जितीय—ये आठ अध्याय हैं ॥ ४९-५८ ॥

कतिधापुदधीयं च गोत्रेणातुल्यमेव च ॥ ४९ ॥

खुड़ीका महती वैव गर्भवकानितरूच्यते ।  
पुरुषस्य शरीरस्य विच्छयौ द्वौ विनिश्चितौ ॥ ५० ॥  
शरीरसंख्या सूत्रं च जातेरष्टमसुच्यते ।  
इत्युहिष्टानि मुनिना शारीराण्यत्रिसूनुना ॥ ५१ ॥

शरीर स्थान में कतिधापुदधीय, अतुल्यगोत्रीय, खुड़ीकागर्भाबकान्ति, पुरुष-विच्छय, शारीरविच्छय, शारीरसंख्या और जातिसूत्रीय ये आठ अध्याय हैं । ५१-५१ ।

वर्णस्वरीयः पृष्ठपाल्यस्तृतीयः परिमर्घणः ।

तथैव चेन्द्रियानीकः पूर्वरूपिक एव च ॥ ५२ ॥

कतमानिशरीरीयः पञ्चरूपोऽप्यवाक्शिराः ।

यस्य इथावनिमित्तश्च सद्योमरण एव च ॥ ५३ ॥

अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयचूर्णवान् ।

द्वादशाध्यायकं स्थानभिन्दियाणा प्रकीर्तिवम् ॥ ५४ ॥

वर्णस्वरीय, पुष्पितक, परिमर्घणीय, इन्द्रियानीक, पूर्वरूपीय, कतमानि शरीराणि, पञ्चरूपीय, अवाक्शिरीय, यस्यश्यावनिमित्तीय, सद्योमरणीय, अणु-ज्योतीय और गोमयचूर्णीय ये बारह अध्याय इत्युहिष्टस्थान में हैं ॥ ५२-५४ ॥

अभयामलकीयं च प्राणकामीयमेव च ।

करप्रचितिकं वेदसमुत्थानं रसायनम् ॥ ५५ ॥

संयोगशरमूलीयमासक्क्षीरिकं तथा ।

माषपर्णभृतीयं च पुमाव्जातबलादिकम् ॥ ५६ ॥

चतुष्कद्रूयमप्येतद्ब्यायद्वयमुच्यते ॥

रसायनमिति श्वेतं वाजीकरणमेव च ॥ ५७ ॥

ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्माना मेहकुष्ठयोः ।

शोषोन्मादेऽप्यपस्मार-क्षत-शोकोदराशसाम् ॥ ५८ ॥

प्रहणीपाण्डुरोगाणां इवासकासातिसारिणाम् ।

छर्दिवीसर्पतुष्णाना विषमध्यविकारिणाम् ॥ ५९ ॥

द्विवृणीवं त्रिमर्मीवमूरुष्टमिक्षमेव च ।

बातरोगे बातरके योनिव्यापदि चैव चत् ॥ ६० ॥

त्रिश्चिकित्सितान्युक्त्वाऽन्यतः कल्पान् परं शृणु ।

अभयामलकीय, प्राणकामीय, करपचितीय, आयुर्वेदसमुत्थानीय, संयोग-शरमूलीय, आसिक्कीरीय, माषपर्ण, पुमाज्ञातवलादिक इन मिल २ आठ प्रकारणों के दो अध्याय हैं। इनमें पहिले चार प्रकारणों में रसायनाभ्याय और दूसरे चार में वाजीकरणाभ्याय कहा है। इसके पीछे ज्वरचिकित्सा, रक्तपित्त-चिकित्सा, गुल्म-चिकित्सा, प्रमेह-चिकित्सा कुड़, शोष, उन्माद, अपस्मार, उरुःष्टत, शोफ, उदर, अर्श, ग्रहणी, पाण्डुरोग, श्वास, कास, अतीसार, छर्दि, वीरप, तृष्णा, विषरोग, मर्यारोग, द्विवृणीय, लिमर्मीय, ऊरुष्टम्, बातव्याधि, बात-रक इस प्रकार से कुल मिलाकर चिकित्सा स्थान में दीउ अध्याय हैं ॥ ५५-६० ॥

फलजीमूतकेश्वाकु-कल्पो धामार्गवस्थ च ॥ ६१ ॥

पञ्चमो वत्सकस्योत्तः षष्ठ्य छत्रवेधने ।

इयामात्रिवृत्योः कल्पस्तथैव चतुरहुळे ॥ ६२ ॥

तिल्वकस्य सुधायाश्च सप्तलाशङ्किनीषु च ।

दन्तोद्रवन्त्योः कल्पश्च द्वादशोऽर्थं समाप्यते ॥ ६३ ॥

मदनफलकल्प जीमूतकल्प, ईश्वाकुकल्प, धामार्गवकल्प, वत्सक-कल्प, छत्रवेधनकल्प, इयामात्रिवृत्कल्प, महावृक्षकल्प, सप्तलाशंखिनीकल्प, और दन्तोद्रवन्तीकल्प ये बारह अध्याय कल्पस्थान में हैं ॥ ६१-६३ ॥

कल्पना पञ्चकर्माख्या वस्तिमूत्रा तथैव च ।

स्नेहव्यापदिकी सिद्धिनेत्रव्यापदिकी तथा ॥ ६४ ॥

सिद्धिः शोधनयोश्चैव वस्तिसिद्धिस्तथैव च ।

प्रासृती मर्मसंख्याता सिद्धिर्वस्त्याश्रया च या ॥ ६५ ॥

फलमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिशोत्तरसंज्ञिता ।

सिद्धयो द्वादशैतात्सतन्मं चासु समाप्यते ॥ ६६ ॥

तिद्विस्थान, कल्पसिद्धि, पंचकर्माख्य सिद्धि, वस्तिमूत्रीय सिद्धि, स्नेहव्याप-दिक सिद्धि, नेत्रव्यापदिक सिद्धि, वमनविरेचन-व्यापदिकसिद्धि, वस्तिव्यापदिक सिद्धि, प्रसूतयोगिकसिद्धि, त्रिमर्मीय सिद्धि, वस्ति सिद्धि, फलमात्र सिद्धि, और उत्तर सिद्धि—ये बारह अध्याय सिद्धि स्थान में हैं। इस प्रकार से यह ग्रन्थ उपास होता है ॥ ६५-६६ ॥

त्वे स्वे स्थाने तथाऽन्याये चास्यायार्थः प्रबक्ष्यते ।

तं ब्रूयात्सर्वतः सर्वं यथास्वं शर्थसंप्रहात् ॥ ६७ ॥

प्रत्येक अध्याय में वर्णित विषयों का निरूपण उम्रह रूप से प्रत्येक अध्याय के अन्त में दे दिया है और जो मुख्य विषय आया है, उसको स्थान १ पर संक्षिप्त रूप से फिर कह दिया है। इसलिये एक अध्याय का वर्णन जो यत्र तत्र आया है, वह सब वर्णन उठी एक अध्याय का समझना चाहिये ॥ ६७ ॥

पृच्छा तन्त्राध्यायान्नायं विधिना प्रश्न उच्यते ।

प्रश्नार्थे युक्तिमास्तत्र तन्त्रेणैवार्थनिश्चयः ॥ ६८ ॥

निरुक्तं तन्त्रान्तात्तन्त्रं स्थानमर्थप्रतिष्ठिया ।

अधिकृत्यार्थमध्यायनामसंज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥

इति सर्वं यथाप्रभमष्टकं संप्रकाशितम् ।

कात्स्येन चोक्तस्तन्त्रस्य संमहः सुविनिश्चितः ॥ ७० ॥

ग्रन्थ के प्रारम्भ करने में सामान्य विशेष रूप से अथवा पूर्वापरविशेष से रहित जो विचार करना है उसका नाम 'प्रश्न' और विचार पूर्वक किये हुए प्रश्न का शास्त्र के आधार से युक्तपूर्वक जो निर्णय है उसका नाम 'प्रश्नार्थ' है। जिसमें अनेक विषय एक साथ में एकत्र किये गये हों उसका नाम 'तन्त्र' है। तन्त्र अर्थात् शास्त्र में मुख्य मुख्य विषयों में से एक एक भाग को जो पृथक् दृथक् लेकर प्रतिपादन किया है उसका नाम 'अध्याय' है (जैसे-दीर्घ-जीवितीय, अपामार्गतण्डुलीय-इत्यादि प्रत्येक विषय के अनुक्रम में निर्दिष्ट भाग का नाम अध्याय है)। इस प्रकार तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान स्थानार्थ आदि जो आठ प्रश्न, किये उनका उत्तर दे दिया है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ का संक्षेप है ॥ ६८-७० ॥

सन्वि पाङ्गविकोत्पाताः संक्षेपं जनयन्ति ये ।

वर्तकानामिवोत्पाताः सहस्रैवाविभाविताः ॥ ७१ ॥

तस्मात्तात् पूर्वसंजल्ये सर्वत्राष्टकमादिशेत् ।

परावरपरीक्षार्थं तत्र शास्त्रविदौ वलम् ॥ ७२ ॥

शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्यैकदेशिकाः ।

भ्रमन्त्यल्पबलास्तन्त्रे ज्याशज्जेनैव वर्तकाः ॥ ७३ ॥

पशुः पशुना दौर्बल्यात्कञ्चिन्मध्ये वृकायते ।

ससद्वं वृकमासाद्य प्रकृतिं भजते पशुः ॥ ७४ ॥

तद्रदज्जोऽज्ञमध्यस्यः कञ्चिन्मौखर्यसाधनः ।

स्थापयत्यासमात्मानमात्मं त्वासाद्य भिद्यते ॥ ७५ ॥

वभ्रुमूढ इवोणामिरवुद्धिरच्छ्रुतः ।

किं व वक्ष्यति संजल्ये कुण्डभेदी जडो यथा ॥ ७६ ॥

कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो शास्त्र के योके से भाग को पढ़कर निर्णय उत्पन्न करते हैं। सहसा उड़कर जिस प्रकार बटेर पक्षी उत्पात करने जाते हैं, उसी प्रकार ये अर्धपठित वैद्य भी उत्पात किया करते हैं। इसलिये प्रथम जहर (बाद-विवाद में) तन्त्र, तन्त्रार्थ आदि आठ प्रश्नों को पूछना चाहिये। अपने से भेड़ या हीन की परीका करने के लिये यही आठ प्रश्न असली शास्त्र को जानने वालों के बढ़ हैं। योके बल बाले, जिन्होंने शास्त्र का कुछ योका सा भाग ही देखा होता है वे इन प्रश्नों से इस प्रकार से भाग लेके होते हैं जिस प्रकार घनुम की ढाई की टंकार से बटेरे भाग जाते हैं। जैसे कोई पशु निर्बक पशुओं में अपने को मेहिया मानकर बोलने लगता है, परन्तु जब कोई बलवान् पशु सामने आ जाता है, तब वह पुनः अपने असली रूप में आजाता है, वह जो होता है वही बन जाता है। इसी प्रकार अपने मुख से प्रशंसा करने वाला मूर्ख मूखों में बैठकर अपना पाणिडल्य दिखाने लगता है, परन्तु जब कोई पण्डित विद्वान् सामने आ जाता है, तब यह अबुद्धि मूढ़, अबहुशुत, कुण्डमेदी (दुष्प्राण्यशेन), जब मूर्ख, बाद प्रतिवाद में क्या कहेगा? कुछ भी नहीं। जिस प्रकार भक्ती के जाल में फँसा कीड़ा कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार यह मूढ़ भी विद्वान् के सामने कुछ नहीं कर सकता ॥ ७१-७७ ॥

सदवृत्तन विशृङ्खियाद्विषगल्पश्रुतैरपि ।

हन्यात्रश्नाष्टकेनादावितरांस्त्वात्मभाविनः ॥ ७९ ॥

दर्मिनो मुखरा शङ्खाः प्रभूतावद्भाविणः ।

प्रायः प्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाविणः ॥ ८० ॥

तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थमहङ्कारमनाश्रिताः ।

परन्तु जो निरभिमानी सचे वैद्य हो वे यदि योके भी पढ़े लिखे हो तो भी उनके साथ शिष्याचार, सम्मानपूर्वक बरतना चाहिये और जो आत्मामिमानी हों उनको इन आठ प्रश्नों से पराप्त करना चाहिये। ऐसे पुरुष प्रायः दम्पी, अपनी मुख से अपनी श्लाष्ठा करने वाले, मूर्ख, बहुत एवं असम्बद्ध, प्रहंगरहित बोलने वाले होते हैं और जो अच्छे विद्वान् होते हैं वे योका और उचित प्रसंग में ही बोलते हैं, वे तत्त्वज्ञान का प्रकाश करने के लिये बोलते हैं और आईकार का आभ्य नहीं कहते हैं ॥ ७७-७८ ॥

तत्त्वज्ञानाराक्षसुखरान्मर्येयं विवादिनः ॥ ७९ ॥

परौ मूर्खज्ञुकोशस्तस्त्वज्ञाने परा दृश्या ।

येषां तेषामसद्वादिनभृते निरता भविः ॥ ८० ॥

परन्तु जो अपने तत्त्वज्ञान को दिखाने के लिये अपार के भारत आये हों, जो योके पढ़े हों, उन मूर्ख आत्मप्रशंसकों को कमो उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । जिनकी प्राणीमात्र पर कृपा और तत्त्वज्ञान में दया है उनकी अपत्तवाद के रोकने में सदा मति रहती है । क्योंकि इस प्रकार न करने से अष्टदैवियों को उत्तेजन मिळकर संतार का अपार होता है । इसलिये इनको निग्रह करने में सदा तत्पर रहना चाहिये ॥ ७६-८० ॥

असत्पक्षाक्षणित्वातिदम्भपारुष्यसाधनाः ।

भवन्त्यनासाः स्वे तन्त्रे प्रायः परविकथकाः ॥ ८१ ॥

तान् कालपाशसद्शान्वज्येच्छाक्षदूषकान् ।

प्रशम-ज्ञान-विज्ञान-पूर्णाः सेव्या भिषक्तमाः ॥ ८२ ॥

खोटे ( अपत्त ) पक्ष को लेकर विवाद करना, मुस्को समय नहीं है, फिर पूछना ऐसा बहाना करने वाले, पूछने पर धिर दुखता है, दायिक, पूछने पर गुस्से या जोर से उत्तर दे और दूसरों की धर्य निनदा करने वाले अपने तन्त्र में अनभिज्ञ होते हैं । इस प्रकार के शास्त्र को बदनाम करने वालों को मृत्यु के फाँसी के समान दूर से ही छोड़ देना चाहिये । जो शान्त, ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हो ऐसे उत्तम वैद्यों की सेवा करनी चाहिये ॥ ८१-८२ ॥

समग्रं दुःखमायत्तमविज्ञाने द्रव्याश्रयम् ।

सुखं समग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम् ॥ ८३ ॥

इदमेवमुदारार्थमज्ञानार्थं प्रकाशकम् ।

शास्त्रं हृष्टप्रनश्चानां यथैवाऽऽदित्यमण्डलम् ॥ ८४ ॥ इति ।

सब प्रकार के दुःखों का कारण शारीरिक और मानसिक ज्ञान का अभाव है । शारीर और मन सम्बन्धी ज्ञान न होने से सब रोग होते हैं । इन दोनों के विषुद्ध ज्ञान से सम्पूर्ण सुख-आरोग्य मिलता है । यह शास्त्र अति गम्भीर, दोनों लोकों में हितकारी अर्थ को बताता है, तथा अकात वस्तु को प्रकाशित करता है, परन्तु जिस प्रकार नेत्रहीन पुरुष चमकते हुए सर्व का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, इसी प्रकार शाश्वतीन व्यक्तियों के लिये यह कुछ काम नहीं हो सकता ॥ ८३-८४ ॥

तत्र श्लोकाः—अर्थे दश महामूलाः संक्षा चेष्टा यथा कृता ।

अयनान्ताः वडमयाद्य रूपं वेदविदां च चत् ॥ ८५ ॥

सप्तकशाष्टकमैव परिप्रश्नः सनिर्णयः ।

यथा वाऽर्थं यदर्थं च यद्विवाद्येकदेशिकाः ॥ ८६ ॥

अर्थे दशमहामूळे सर्वमेतत्प्रकाशितम् ।  
 संग्रहात्यावभाव्यावालन्त्रस्थास्यैव केवलः ॥ ८७ ॥  
 यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विषीयते ।  
 संग्रहार्थं तथाऽर्थानामूषिणा संग्रहः कुतः ॥ ८८ ॥

इदम् से सम्बन्धित इस घमनियां, 'महामूला' इह संहा होने के कारण, आयुवर्द्धक, छः उत्तम उपाय, आयुर्वेद का स्वरूप, सात व आठ प्रकार विशेष, वाक्याय, अर्थाय, निर्णय और अधूरे वैद्य, इतने विषयों का निरूपण इह 'अर्थे दशमहामूलीय' अध्याय में किया है । इस ग्रन्थ में वर्णित सब विषयों का संक्षिप्त निरूपण भी इह अध्याय में किया है । जिस प्रकार कि फूलों की माला को गूंथने के लिये सूत्र की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब विषयों का संग्रह करने के लिये श्रूषि ने यह सूत्र ( सूत्रस्थान ) बनाया है ॥ ८५-८८ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अर्थे दशमहामूलीयो  
 नाम त्रिशत्समोऽध्यायः ॥ ३० ॥  
 अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इयताऽवधिना सर्वे सूत्रस्थानं समाप्तते ॥

इति सूत्रस्थानं समाप्तम् ।



# निदानस्थानम्

## प्रथमोऽध्यायः

अथातो उवरनिदानं व्याख्यास्थामः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्त्रह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे उवरनिदान का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था<sup>३</sup> ॥ १-२ ॥

इह खलु हेतुर्मित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्थानं निदान-मित्यनर्थान्तरम् । तत्त्विकिर्ष-असास्त्वयेन्द्रियार्थसंयोगः, प्रशापराधः परिणामश्चेति ॥ ३ ॥

निदान के पर्याय—इस निदान स्थान में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता कारण, प्रत्यय, समुत्थान ये निदान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं । निदान अर्थात् रोगों की उत्पत्ति का कारण तीन प्रकार का है, १. असाल्येन्द्रियार्थ-संयोग, २. प्रशापराध ( बुद्धि का दोष ) और ३. परिणाम ( काल ) ॥ ३ ॥

अरुच्छिविधिविकल्पा व्याधयः प्रादुर्भवन्त्यप्रेय-सौम्य-वायव्याः । द्विविधाक्षापरे राजसास्तामसाक्ष । तत्र व्याधिरामयो गद आतहु यस्मा उत्तरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम् ॥ ४ ॥

इसलिये रोग भी तीन प्रकार के ही होते हैं । १. आग्नेय ( पित्तजन्य ) २. सौम्य ( कफजन्य ), और ३. वायव्य ( वायुजन्य ) । ये शारीरिक रोग के

१. जिससे रोग आना जाय उसका नाम 'निदान' है ।

'निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्' ॥ जैबट ॥

२. संक्षेप में लिंग को निर्देश करने वाला सूत्रस्थान कहने के पश्चात् हेतु और लिंग को जानकर की हुई चिकित्सा फलवती होती है । हेतु सकिङ्कह, विप्रकृष्ट, व्यमिचार और प्रधान मेद से चार प्रकार का है । विस्तार के लिये मधुकोष देखिये ।

में हैं। मानविक रोग भी दो प्रकार के हैं। १. राजव ( रक्तगुण से उत्पन्न हुए ), और २. तामस, ( तमोगुण से उत्पन्न हुए )।

रोग के पर्याय—व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्षा, ज्वर, विकार और रोग ये सब शब्द एक ही अर्थ ( रोग ) को कहते हैं ॥ ४ ॥

तस्योपलिङ्गनिष्ठान-पूर्वरूप-लिङ्गोपशय-संप्राप्तिः ॥५॥

निदान पञ्चक अर्थात् रोगज्ञान के पांच उपाय—१. निदान २. पूर्वरूप, ३. लिंग ( रूप ), ४. उपशय और ५. सम्प्राप्ति, इन पांच उपायों से रोग पहिचाना जाता है ॥ ५ ॥

तत्र निदानं कारणमित्युक्तमभे पूर्वरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याख्यः ।

रोगों के कारण को निदान कहते हैं, यह पहिले कह चुके हैं। रोग के उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको 'पूर्वरूप' कहते हैं। ( जैसे जंमाई का आना, अंगों का टूटना, घिर का ढुखना आदि ये ज्वर के पूर्वरूप हैं। ) रोग के आगे चलनेवाले लक्षण पूर्वरूप हैं। जैसे राजा के आने की दूरना राजा के आगे चलने वाले लोगों से मिल जाती है।

प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गं, तत्र लिङ्गमाकृतिलक्षणं चिह्नं संस्थानं व्यञ्जनं रूपमित्यनर्थान्तरमस्मिन्नर्थे ।

रोग के उत्पन्न होने पर जो लक्षण स्पष्ट होते हैं, जिन लक्षणों से रोग का मान होने लगता है, उनको लिंग कहते हैं। इसके लिंग, आकृति, लक्षण, चिह्न, संस्थान, व्यञ्जन और रूप ये सब पर्यायवाची हैं।

उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणा चौषधा-हारविहाराणामुपयोगः सुखानुबन्धः ।

उपशय—हेतुविपरीत, व्याधि-विपरीत और विपरीतार्थकारी, औषध, आहार और विहार का सुखोत्पत्ति के लिये सेवन करना 'उपशय' है।

१. उपशय द्वाय गूढ़ लिंगों, चिह्नों वाली व्याधि की परीक्षा की जाती है। जैसे 'मडेरिया' और 'कालाजार' रोग में। इनमें मडेरिया कुनीन से चला जाता है, परन्तु कालाजार नहीं जाता। इसका विवरण नीचे लिखे प्रकार से जानें।

ओषध—जैसे शीत कफ ज्वर में सोठ

हेतुविपरीत } अथ—जैसे ग्रम-बातजन्य ज्वर में मौस रत और चावण ।  
} विहार—जैसे दिन में सोने से उत्पन्न कफ ज्वर में रात को जागना ।

संप्राप्तिर्जीतिरागसिरित्वनर्दिन्द्वयः । सा संख्या आवश्य-विदि-  
विकल्प-बळ-काल-विशेषमित्यते । संख्या तावद्यथा—भृष्टो चराः, पश्च  
गुह्याः, सम कुञ्जन्येवमादिः । प्राप्तान्य मुनदोषाणां तरतमाङ्गां योगेनोप-  
लभ्यते । तत्र द्वयोस्त्वरक्षिषु वम इति । विधिर्नाम द्विविद्या व्यावयो  
निजागन्तुभेदेन, विभिन्नाङ्गिदोषभेदेन, चतुर्बिंशाः साव्यासाप्य-मृदुदा-  
रण-भेदेन । समवेतानां पुनर्दोषाणां मंशांश-बळ-विकल्पोऽस्मिन्नर्थे । बळ-  
कालविशेषः पुनर्वीधीनामृतवहोरात्राऽहार-काल-विद्यि-विनियतो  
भवति । तस्माद् व्याधीन् भिषगनुपहतस्त्रवयुद्धिहेत्वादिभिर्भवैर्यथा-  
वदनुवृद्ध्येत ॥ ६ ॥

इत्यर्थसंप्रहो निदानस्थानस्योदिष्टो भवति, तं विस्तरेण भूयस्तरम-  
तोऽनुव्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥

व्याधि की सम्प्राप्ति, जाति और आगति ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के

व्याधिविपरीत	औषध-जैसे अतिसार में पाठा स्तम्भन ।
	अन्न-जैसे अतिसार में मसूर ।
	विहार-जैसे उदावर्त्त में प्रवाहण ।
हेतु- व्याधिविपरीत	औषध-जैसे वातजन्य शोथ में दश्यमूल ।
	अन्न-जैसे शीत ऊर में ऊरनाशक यवागू ।
	विहार-जैसे दिन में सोने से उत्पन्न तन्द्रा में रात्रिजागरण ।
हेतु- विपरीतार्थकारी	औषध-जैसे पित्तजन्य शोथ में गरम उपनाह ( पुलटिल )
	अन्न-जैसे पित्तजन्य शोथ में विदाही अन्न ।
	विहार-जैसे वातोन्माद में मध्य बतलाना ।
व्याधि- विपरीतार्थकारी	औषध-जैसे छार्दि में मैनफळ से बमन करना ।
	अन्न-जैसे अतिसार में दूध से विरेचन ।
	विहार-जैसे छार्दि में प्रवाहण ।
हेतु-व्याधि- विपरीतार्थकारी	औषध-जैसे अग्नि से जड़ने पर अग्नस्ता कैप ।
	अन्न-जैसे मदात्यय रोग में मध्यपान ।
	विहार-जैसे भ्रमजनित मूदवात में पानी में तैरना ।

वाचक हैं । १. यह उच्चासि २. उच्चा, ३. प्राचान्त्र, ४. सिद्धि, ५. विकल्प और ६. बलकाल मेद से पांच प्रकार की है ।

(१) उच्चासम्प्राप्ति—प्रत्येक रोग के मेदों की गणना का माया उच्चासम्प्राप्ति है । जैसे आठ प्रकार के अबर, पांच प्रकार के गुल्म, चार प्रकार के कुष इत्यादि ।

(२) प्राचान्त्र-सम्प्राप्ति दोषों के अधिकतर व अधिकतम (तारतम्य) से रोगों की प्रधानता व अप्रधानता होती है । (वृद्ध पिता, वृद्धतर बायु और वृद्धतम कफ, यह एक प्रकार का सज्जिपात है ।) दो दोषों में एक दोष बढ़ा हो तो अधिकतर, तीन दोषों में एक दोष बढ़ा हो तो 'अधिकतम' समझना चाहिये ।<sup>१</sup>

(३) विधि-सम्प्राप्ति-व्याधि भेद से विधिरूप सम्प्राप्ति होती है । निज अर्थात् शारीरिक और आगन्तुज मेद से व्याधि दो प्रकार का है । वात आदि दोष भेद से तीन प्रकार का, और साथ्य, असाथ्य, मृदु और दारुण भेद से चार प्रकार का है ।

(४) विकल्प-संप्राप्ति—जिस समय वात आदि दोष दो या तीन मिलते हैं, उस समय अंशांश बल को कल्पना (विवेचना) को विकल्प-सम्प्राप्ति कहते हैं । यथा—बायु के प्रकृपित होने पर भी कभी तो वात का शीत अंश बलवान् होता है, कभी लघु अंश और कभी रुक्ष अंश एवं कभी लघु और रुक्ष दोनों अंश बलवान् होते हैं ।

(५) बलकालसम्प्राप्ति—श्रुतु, दिन, रात, आहार और काल भेद से रोग के बलकाल में अन्तर पड़ जाता है । जैसे श्रुतु और करुचर का बसन्त, अहोरात्र कफजवर का पूर्वाह्न और प्रदोष, आहार-फलजवर का मुक्तमात्रकाल ।

स्वस्थचित्त एवं बुद्धिमान् वैद्य (धैर्य एवं शान्ति तथा बुद्धि से) हेतु पूर्वरूप आदि से रोगों की व्याधि परीक्षा करे । यह निदानस्थान का संक्षेप में वर्णन कर दिया, अब इसी का विस्तार से वर्णन करते हैं ॥६-७॥

तत्र प्रथमर एव तावदाद्याङ्गोभाभिद्रोह-कोप-प्रभवानष्टौ व्याधी-  
जिदानपूर्वेण क्रमेणानुव्याख्यास्यामः, तथा सूत्रसंग्रहमात्रं चिकि-

१. कुछ रोग रोगोत्पत्ति के अन्तिम कारण से उत्पन्न कर्म को सम्प्राप्ति कहते हैं । यथा—‘त यदा प्रकृपितः प्रविश्याऽऽमाशयम्’ यहाँ से केवल ‘त यदा अव-  
मिलिकर्तवयिः’ तक बत की सम्प्राप्ति कही है ।

२. मायान-निदान में स्वतन्त्रता और परतन्त्रता को लक्ष्य में रखकर रोग की प्रधानता वा अप्रधानता की परीक्षा की है ।

त्साथाः । चिकित्सिरेषु चोषरकालं वयोद्दिष्टं यथोपचितविकाराननुव्यास्थास्थामः ॥८॥

इनमें प्रथम निदान क्रम से कोम, अभिद्रोह, कोप आदि से उत्पन्न आठ रोगों का वर्णन निदान स्थान में करेंगे, इसके पीछे संक्षेप से चिकित्सासूच कहेंगे । इसके अनन्तर सब रोगों का सविस्तर वर्णन चिकित्सास्थान में किया जायगा ॥ ८ ॥

इह तु ज्वर एवाऽऽदौ विकाराणामुपदिश्यते, तत्प्रथमत्वाच्छारी-राणाम् । अथ स्वल्पवृष्टाद्ययो ज्वरः संजायते मनुष्याणाम् । तथाथा वातात् पित्तात् कफात् वातपित्ताद्यां, वातकफाद्यां, पित्तश्लेष्माद्यां, वात-पित्तश्लेष्माद्यां, आगन्तोरष्टमात्कारणात् । तस्य निदान-पूर्वरूप-लिङ्गो-पश्य-संप्राप्ति-विशेषानुपदेश्यामः ॥ ९ ॥

ज्वर निदान—सब रोगों में प्रथम ज्वर का ही वर्णन करते हैं । क्योंकि शारीरिक रोगों में सब से मुख्य ज्वर है ।

मनुष्यों को ज्वर आठ कारणों से होता है । १. वात से, २. पित्त से, ३. कफ से, ४. वात-पित्त से, ५. पित्त-कफ से, ६. वात-कफ से, ७. वात-कफ और पित्त ( सन्निपात ) से और ८. आगन्तुज कारण से ।

अब ज्वर के निदान, पूर्वरूप, लिंग, उपशय और सम्प्राप्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥

तथाया-रूक्ष-लघु-शीत-व्यायाम-वमन-विरेचनाऽस्थापन-शिरोविरे-चनातियोग-वेगसंधारणानशनाभिघाव-व्यवायोद्रेग-शोक-शोणिताभिषेक-जागरण-विषम-शरीर-न्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यो वायुः प्रकोपमापद्यते ।

वात प्रकोप के कारण—रूक्ष, लघु, शीत, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्थापन इनके अतियोग से, मल-मूत्र आदि के उपस्थित वेग को रोकने से, उपवास से, चोट लगाने से, खींचन, उद्वेग, शोक, और रक्त के अधिक निकलने से, रात्रि-जागरण से, विषम रीति से शरीर के अवयवों को रखने से, इन कारणों के अतिसेवन से वायु प्रकृपित होती है ।

स यदा प्रकृपितः प्रविश्याऽस्थापनमाशयमूष्मणः स्थानमूष्मणा सह मिश्री-भूष आशमाहारपरिणामधार्तुं रसनामानमन्वयेत्य रसस्वेदवहानि च ज्वोतासि च पित्तायानिमुपहत्य पक्षिस्थानादूष्मणां वहिनिरस्य केवलं शरीरमनुप्रपश्यते, तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति । तस्येमानि छिङ्गानि भवन्ति ॥

सम्भासि—उपरोक्त कारणों से कुपित दुषा वायु उषिमा के स्वान आम-शय में पहुंच जाता है। वही उषिमा के साथ मिलता है। फिर अब के पाचन से उत्पन्न 'रस' नाम के बातु का आभय लेता है। इस बातु का आभय लेकर वायु रसवह और स्वेदवह सोतों को बन्द कर देता है, जठराशि को मन्द कर देता है और आमाशय से पाचकाशि को बाहर निकाल कर सम्पूर्ण शरीर में फैला देता है, इस लिये ज्वर उत्पन्न होता है। इस वातज्वर के निम्न लिखित लक्षण होते हैं ॥

तद्यथा—विषमारम्भविसर्पित्वम्, ऊर्मणो वैषम्यं, तीव्रतनुभाषान-वस्थानानि ज्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते धर्मान्ते वा ज्वराऽथ्य-गमनमभिवृद्धिर्वा ज्वरस्य । विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं नख-नयन-वदन-मूत्र-पुरीष-त्वचामत्यर्थं फूसीभावश्च, अनेकविधोपमाश्चलाच्छलाश्च वेदना-स्त्री तेषामङ्गावयवानां, तद्यथा—पादयोः सुस्रता, पिण्डिकयोरुद्देष्टनं, जानुनोः केवलानां च सन्धीनां विश्लेषणमूर्वोः सादः, कटि-पार्ष्व-पृष्ठ-स्कन्ध-बाह्यसोरसां च भग्न-हण्ण-मृदित-मर्थित-चटितावपीडितावनुब्रत्वमिव, हन्त्वोश्चापसिद्धिः, स्वनश्च कर्णयोः, शङ्खयोर्निस्तोदः, कषायास्यताऽस्य-वैरस्यं वा, मुख-तालु-कण्ठ-शोषः, पिपासा, हृदयग्रहः, शुष्कच्छर्विः, शुष्ककासः, क्षवथ्रूद्गारविनिप्रहृष्टश्वरसखेदः, प्रसेकारोचकाविपाकाः, विषाद-विजृम्भा-विनाम-वेपशु-प्रम-भ्रम-प्रल-पथ-जागरण-रोमहृषे-दन्तह-र्षास्तथोष्णामिप्रायता, निदानोकानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति वात-ज्वरस्य लिङ्गानि स्युः ॥ १० ॥

वातज्वर के लक्षण—जैसे ज्वर के चढ़ने या उतरने के समय का नियम न होना, शरीर में उषिमा का नियम न होना, ज्वर की तीव्रता या कम होने की प्रतीति में अस्थिरता, अब के पचन होने के समय, सार्यकाल में, अथवा वर्षा श्रुद्ध के प्रारम्भ में ज्वर का आना, अथवा ज्वर में हृदि होना; विशेषतः नख, थाल, मूत्र, मङ्ग, और त्वचा का बहुत कठिन और काला-भाल रंग पड़ना, मलमूत्र का अवरोध, ( नख-त्वचा आदि का फटना ), भिज-भिज अंगों में नाना प्रकार की चल और अचल ( गतिशील या स्थिर ) पीड़ाओं का होना । जैसे—दोनों पांवों में सो जाने की सी प्रतीति, पिण्डलियों में घेंठन, घुटने एवं सम्पूर्ण सनियों में टूटने और गीले कपड़े से ढाँपे होने की भाँति की दर्द जंशाओं में विथिलता; कमर, पार्ष्व-पीठ-स्कन्ध-बाहु और झांटी में दूर्घटने के समान, फटने के समान, मर्दन करने के समान, चटकने के समान,

अबपीठन अर्थात् दशाने के समान और सूहयी चुम्बने के समान वेदनायें होती हैं। इनपर ( जबाहे का न खुलना ), कानों में आवाज़ ( कण्ठनाद ) कान एवं शंख प्रदेश ( कनपटी ) में वेदना, मुख का कषाय स्थाद, मुख में विरसता, मुख, तालु, कण्ठ का पुनः २ सूखना; प्यास का अधिक लगाना, दिक या आती का जकड़ना, रक जाना, सूखी उबकाई, बमन होने पर बमन में किसी पदार्थ का बाहर न निकलना, सूखी खांसी, छींक और ढक्कार का बन्द हो जाना; सब अजरसों में अनिच्छा ( अथवा अज्ञ रुप का बमन ); मुख से पानी का बहना; अद्वचि, भोजन की अनिच्छा, अविषाक ( भोजन का न पचना ), विषाद, जम्भाईयाँ आना, अंगों का मुड़ना-नुड़ना, अंगड़ाई आना, कम्फन, प्रलाप, जागरण ( नींद का न आना ), रोमों का भर-भरा आना ( दान्तों का स्तब्ध हो जाना ) गरम वस्तुओं की चाह; एवं बातज्वर के निदानमूत वस्तुओं का सेवन अनुकूल न आना तथा निदान ( रुक्ष लघु, शीतादि गुणों ) के विपरीत गुणों वाले पदार्थों को अनुकूल आना ये सब बातज्वर के लक्षण हैं ॥ १० ॥

उष्णामूळ-लब्धण-क्षार-कटुकाजीर्ण-भोजनेभ्योऽविसेविरेभ्यस्तथाऽतितीक्ष्णातपाप्नि-सन्ताप-अम-क्रोध-विषमाहारेभ्यश्च पित्तं प्रकोपमापद्यते ।

पित्त प्रकोप के कारण—उष्ण, लट्टा, नमकीन, शार, कटु और अजीर्ण-कारक पदार्थों के अविसेवन से; तथा अतिरीक्षण, बहुत धूप, अग्नितन्त्राप, अम, क्रोध, विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकृपित होता है।

तद्यदा प्रकृपितमामाशयादूष्माणमुपसूज्याऽऽद्यमाहारपरिणाममधातुं रसनामानमन्वेत्य रसस्वेदवहनि स्नोतासि पित्ताय द्रवत्वादमिमुप-हत्य पक्षिस्थानादूष्माणं चहिनिरस्य प्रथोदयत्केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति; तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति ।

पित्तज्वर की सम्भासि—यह प्रकृपित हुवा पित्त आमाशय में स्थित उष्णिमा से मिलकर, अज्ञ के पाचन से उत्पन्न प्रसाद नामक रस से मिलकर रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बन्द कर देता है और पित्त द्रव होने से अग्निको मन्द करता है, इसलिये पक्षाशय से उष्णिमा को बाहर निकाल देता है, तब पित्त सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर को पीड़ित करता है। इस प्रकार से ज्वर को उत्पन्न करता है। पित्त ज्वर के लक्षण ये होते हैं ॥

तद्यथा—युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्थाईयागमनमभिषृद्धिर्वा भुक्षस्य विषाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे शरदि वा विशेषण, कटुकास्थयता ।

ब्राह्म-मुख-कण्ठोष्ट-ताळु-पाकः, डम्पा, दृष्णा, अमः, मदः, मूर्छा, पित्तच्छ-  
देनमवीसारोऽमद्वेषः, सदनं, संस्वेषः, प्रलापः, रक्कोठाभिनिर्वितिः  
शरीरे, हरितहारिद्रित्वं नख-नयन-वदन-मूङ्ग-पुरीष-त्वचामत्यर्थमूर्मणस्ती-  
ब्रमाबोऽलिमात्रं दाहः, शीताभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपसयो, विष-  
रीतोपशयश्चेति पित्तज्वरलिङ्गानि भवन्ति ॥ ११ ॥

पित्त-ज्वर के लक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में एक साथ ( सहसा ) ज्वर का चढ़ना, अथवा ज्वर का बढ़ना; भोजन के पचने के समय, मध्याह्न में, आधी रात में, शरद ऋतु में, विशेष करके ज्वर बढ़ता है; मुख में कड़वापन; नासिका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ, तालु का पकना; गरमी, प्यास का लगाना, भ्रम, मद, मूर्छा, पित्त का वमन, अतिसार, अज में अनिच्छा, परीना आना, प्रलाप, शरीर पर लाल लाल घब्बे वा चक्के, फुनियाँ निकलना, नख-आंख-मुख-मूङ्ग-मल-त्वचा इन का रंग हरा या हल्दी के समान हो जाना; गरमी बहुत बढ़ जाना, बहुत अधिक जलन होना, शीत वस्तुओं की चाह रहना और पित्त ज्वर के कारण रूप पदार्थों का अनुकूल न आना एवं विपरीत गुण वाले पदार्थों का अनुकूल आना ये पित्तज्वर के लक्षण हैं ॥ ११ ॥

**स्त्रिगृह-गुरु-मधुर-पिच्छिल-शीताम्ल-लवण-दिवास्वप्न-हर्षाऽव्यायामे-  
भ्योऽविसेवितेऽद्यः श्लेषा प्रकोपमापद्यते ।**

कफ प्रकोप के कारण—चिकास, भीठे, भारी, शोतू, पिच्छिल, खट्टे नमकीन पदार्थों के अतिसेवन से, दिन में सोने से, हर्ष वा आनन्द के अति सेवन तथा व्यायाम के न करने से कफ प्रकृपित होता है ।

**स यदा प्रकुपितः प्रविश्याऽमाशयमूर्मणा सहभिश्रीभूयाऽस्यमाहा-  
रपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधाया-  
ग्निमुषहत्य पक्षिस्थानादूष्माणं बहिनिरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरमनु-  
पश्यते, तदा ज्वरभिनिर्वर्तयति; तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति ।**

कफज्वर की सम्प्राप्ति—कुपित कफ आमाशय में आकर उछिया के साथ मिलकर, अज के परिणाम भूत रस नामक धातु से मिल कर, रसवह और त्वेदवह स्रोतों को बन्द करके अग्नि की मन्द कर देता है । पकाशय से अग्नि की बाहर निकाल कर सम्पूर्ण शरीर को पीकित करता है । इस प्रकार से कफ ज्वर को उत्पन्न करता है । कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं ।

**वृश्यथा—युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याऽयागमनमभिवृद्धिर्वा ।  
सुख्लात्रे पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे वसन्तकाले वा विशेषे गुरुग्रात्रस्यमनमा-**

भिलासः, स्लेष्मप्रसेष्ठो, मुखस्वच्छमायुरं, इडासो, हृदयोपषेषत्तिमित्तवं, छविंस्त्रिद्विनिराता, निद्राचिक्षयं, स्वस्मस्तन्द्रा, इवासुः, कासः, प्रतिश्यायाः, स्वेत्यं, व्यतीत्वं च नख-नयन-बदन-मूत्र-पुरीष-त्वचामल्पश्यं, शीत-पिंडिकाओः शृग्ममङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोकानाम-नुपशयो विपरीतोपशयश्चेति श्लेष्मज्वरधिकानि भवन्ति ॥ १२ ॥

कफज्वर के लक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में ज्वर एक साथ आता है, या बढ़ता है। भोजन करने के समय ( या खा चुकने पर ही ) पूर्वाह्न में, रात्रि के प्रथम भाग में, या बसन्त शूद्रु में ज्वर का वेग बढ़ा होता है । शरीर में भारीपन, भोजन में असुविधा, मुख से लार बहना, मुख में मिठास, बमन की वच्चि, बेचैनी, हृदय का रुकना, हृदय ( आमाशय ) प्रदेश पर कफ का लगा रहना, आठस्थ ( तन्द्रा ), बमन, अग्नि का भन्द होना, नींद का अधिक आना, जड़ता तुस्ती, लांघी, खास, लुकाम, शीत लगाना, नख, आंख, मुख, मूत्र, मल और त्वचा में सफेदी; शरीर पर बहुतसी पिंडिकाओं, फुन्सियों का निकल आना, इन पिंडिकाओं का स्पर्श शीतल होता है । उष्ण पदार्थों की चाह रहती है, कफज्वर के कारण वाले पदार्थों का अनुकूल न आना और विपरीत गुण वाले पदार्थों का अनुकूल आना होता है । ये कफज्वर के लक्षण हैं ॥ १२ ॥

विषमाशनाद् नशनादन्नपरिवर्त्ताद्युत्पापत्तेरसात्म्यगन्धोपद्माणाद् विषोपहृतस्योदकस्य चोपयोगाद् गरेभ्यो गिरीणां चोपश्लेषात् स्नेह-स्वेद-बमन-विरेचनाऽस्थापनानुवासन-शिरोविरेचनानामयथाव्रतप्रयोगात् मि-ध्यासंसर्जनाद्वा खीणां च विषमप्रजननात् प्रजावानां च मिध्योपचाराद्य-थोक्तानां च हेतूना भिशीभावाद्यथानिदानं द्वन्द्वानामन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकृपितास्तथैवाऽनुपूर्वी द्वरम-भिन्निर्वर्तयन्ति ।

तीन दोषों के प्रकोप के कारण ज्वर—विषम भोजन से, भोजन के न करने से, शूद्रु के बदलने से, शूद्रु के विकृत ( अतियोग, मिथ्यायोग ) होने से; प्रतिकूल-नांधयुक्त पदार्थों के संस्थने से; विषयुक्त पानी के उपयोग से; संयोगजन्य विष के दोष से; पर्वतों के पास में रहने से; स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, और शिरोविरेचन के अयोग्य प्रयोग से जियों के विषम प्रसव करने से; बालक की उत्पत्ति के पीछे मिथ्या परिचर्या से; और पूर्व कहे हुए बात, पिण्ड, कफ इन दोषों के परस्पर मिथ्य से दो दोष या तीनों दोष एक साथ प्रकृपित हो जाते हैं । औषधिकी गत्त्व से ज्वर होता है—यथा “हार्दफीकर” ।

तत्र यदोकाना व्यरज्जिकाना मिमीमद्विषेषद्वन्द्वा इन्द्र-  
मन्यतमं ज्वरं साग्रिपातिकं वा विचात् ॥ १३ ॥

संसर्गज व साग्रिपातिक ज्वर—इस प्रकार से दो दोष या तीन दोष साथ  
मिलकर अनुक्रम से—कफ-आतज, कफ-पित्तज और कफ-ब्रात-पित्तज ज्वर को  
उत्पन्न करते हैं। इन्द्रज ज्वर में दो दोष कुप्रिय होकर दोनों दोषों के  
लक्षण उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार तीनों दोषों से उत्पन्न ज्वर में तीनों दोषों  
के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को देखकर दो या तीन दोषों से उत्पन्न ज्वरों  
को जानना चाहिये ॥ १३ ॥

अभिधाताभिषङ्गाभिचाराभिशापेभ्य आगन्तुर्द्वि व्यथापूर्वो ज्व-  
रोऽष्टमो भवति ।

आगन्तुज ज्वर—अभिधात ( चोट आदि के लगाना ), अभिरंग ( काम  
आदि बेग ), अभिचार ( अर्थवंशन्त्र आदि से ज्वर पैदा करना ), अभिशाप  
( गुरु, सिद्ध आदि पुरुषों का शाप ), इन मुख्य चार कारणों से व्यथापूर्वक  
आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होता है। 'यह ज्वर आठवाँ प्रकार का है ।

स किञ्चित्कालभागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद् दोषैरनुबध्यते ।  
तत्राभिधातजो वायुना दुष्टशोणिताधिष्ठानेन, अभिषङ्गजः पुनर्वातपि-  
त्ताभ्या, अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेनानुबध्यते । स सप्तविधाज्ज्व-  
राद्विशिष्टलिङ्गोपक्रमसमुत्थानत्वाद्विशिष्टो वेदितव्यः, कर्मणा साधारणेन  
चोपक्रम्यत इत्यष्टविधा ज्वरप्रकृतिरुक्ता ॥ १४ ॥

आगन्तुज ज्वर की सम्प्राप्ति—आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होकर कुछ काल  
( सात दिन वा तीन दिन ) तक रहता है, फिर वात आदि दोष के साथ मिल  
जाता है। अभिधातज ज्वर में प्रथम चोट आदि से ज्वर उत्पन्न होता है,  
पीछे से दोष उत्पन्न होता है। इस ज्वर में वायु दूषित रक्त के साथ मिलकर<sup>1</sup>  
इसका आभय करके रहता है। अभिरंगज ज्वर ब्रात-पित्त का आभय करता  
है। अभिचार और अभिशाप से उत्पन्न ज्वर तीनों दोषों का आभय करके  
रहते हैं। आगन्तुज ज्वर के लक्षण, चिकित्सा और इसका निदान, दूसरे  
वात आदि दोषों से उत्पन्न सात प्रकार के ज्वर से सर्वथा भिन्न प्रकार हैं,  
अर्थात् देवव्यपाश्य वलि मंगल आदि तथा युक्त व्यपाश्य चिकित्सा करनी  
चाहिये। इसका साधारण कर्म, सब प्रकार के ज्वरों में सामान्यतः एक ही

१. 'व्यथापूर्वः' आगन्तुज ज्वर में व्यथा ही पूर्वस्प है। इन में प्रथम  
ज्वर होकर फिर दोषों का सम्बन्ध होता है।

प्रकार की विकिल की जाती है, क्योंकि ज्वर एक ही प्रकार का है। इस प्रकार से ज्वर के आठ प्रकार कह दिये हैं ॥१४॥

**ज्वरस्त्वेक एव संतापलक्षणः । तमेवाभिग्रावविशेषाद् द्विविधमा-**  
**चक्षते । निजागन्तुविशेषाद् । तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं**  
**सप्तविधं च ॥५॥**

ज्वर तो एक ही प्रकार का है। क्योंकि सब प्रकार के ज्वरों में 'सन्ताप' ( शरीरी ) पाई जाती है। परन्तु अभिग्राय विशेष को लेकर इसके निज ( शारीरिक ) और आगन्तुज ये दो मेद लिये जाते हैं। इसमें निजज्वर को बातादि दोषों की विकल्पना से ( संसृष्ट और असंसृष्ट शीत या उष्णमेद से ) दो प्रकार का, ( बात आदि दोष मेद से ) तीन प्रकार का, ( बात, पित्त, कफ और सनिपातज मेद से ) चार प्रकार का, ( दोष जन्य, मिथ्यण सन्निपात मेद से ) सात प्रकार का कहा जाता है ॥१५॥

**तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तथाथ—मुख्यैरस्यं गुरुगात्रत्वमनश्च-**  
**भिलाषश्चुषोराकुलत्वमस्तागमनं निद्राया आधिकयमर्तिर्जम्भा विनामो**  
**वेपथुः ग्रम-भ्रम-ग्रलाप-जागरण लोमहर्ष-दन्तहर्षाः शब्द-शीत-बातात्पा-**  
**सहत्वासहत्वमरोचकाधिपाकौ दौर्बल्यमङ्गमर्दः सदनमल्पप्राणता-दीर्घ-**  
**सूत्रताऽऽस्यमुचितस्य कर्मणो हानिः प्रतीपता स्वकार्येषु गुरुणा वाक्ये-**  
**ज्वरःसूया, बालेषु प्रद्रेषः, स्वधमेष्वचिन्ता माल्यानुलेपन-भोजन-परि-**  
**क्लेशनं मधुरेषु भक्षयेषु प्रद्रेषोऽस्तुलवणकटुकप्रियता चेति ज्वरपूर्व-**  
**रूपाणि भवन्ति प्राक्सन्तापात्, अपि चैनं सन्तापार्त्तमनुबन्धन्ति ॥१६॥**

इत्येतान्येकक्षो ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तरस-  
मासाभ्याम् ।

ज्वर के पूर्वरूप—इस ज्वर के पूर्वरूप ये हैं। जैसे-मुख में विरसता, शरीर में मारीपन, भोजन में अनिच्छा, आंखों में बेचैनी, आंखों से आंसू बहना; नींद का अधिक आना, <sup>१</sup>वेचैनो, जंभाई आना, शरीर का मुङ्गना <sup>२</sup>कम्पन, अम, भ्रम, प्रकाप, नींद का न आना, लोमहर्ष, शब्द, शीत, <sup>३</sup> वायु, धूप की कभी सहन करने की शक्ति और कभी सहने में अशक्ति का होना; भोजन में

१. 'अस्यागमनम्' इति वा पाठः। अर्थात् आंसे लाल हो जाती हैं।

२. 'विराम' इति पाठान्तरम्, अर्थात् भन की उदासीनता।

३. शीत के स्थान पर 'गीत' पाठान्तर है, वहां गीत अर्थात् ऊंगीत में अनिच्छा।

अद्वितीय, अद्विषाक, मुक्तेश्वरा, अंबों का दूषन्त, याकि ज्ञ ज्ञ द्वा द्वा ज्ञाना; अस्म प्राणता, दीर्घसूक्ष्मता ( काम में अवस्था ), आरम्भ किये हुए कार्य में इच्छा ज्ञ न होना, अपने किये हुए काम में प्रतिकृतित, गुणवत्तों के बासों में अभ्यास, बालकों से द्वेष, अपने कर्त्तव्य में ( धर्मकार्य में ) वैपर्याही; फूलों की माला, चन्दन का लेपन, और भोजन में दुःख मानना; मधुर वस्तुओं से द्वेष, सहेनमकीन कहुवे पदार्थों की चाह होना,—ये उवर के पूर्व स्वप्न हैं संताप से भी पूर्व, सन्तापमुक्त रोगी में प्रतीत होने लगते हैं । इत प्रकार से उवर के लक्षण अड्डा अलग विस्तार एवं संक्षेप में कह दिये हैं ॥ १६ ॥

उवरस्तु खलु महेश्वर-कोप-प्रभवः सर्वप्राणिनां प्राणहरो देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रश्ना-बल-वर्ण-हर्षोत्साह-सादनः<sup>१</sup>, श्रम-कूम-मोहाहारोप-रोध-संजननो, उवरयति शरीराणि इति उवरः, नान्ये व्याधयस्तथा दाकणा बहुपद्मवा दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयमिति, स सर्वरोगाधिपति-र्नानातिर्यग्नोनिषु बहुविधैः शब्दरभिधीयते, सर्वप्राणभृतश्च सञ्चरा एव जायन्ते सञ्चरा एव म्रियन्ते, स महामोहः, तेनाभिमूता देहिनः प्रागदैहिकं कर्म किंचिद्दपि न स्मरन्ति, सर्वप्राणभृतां च उवर एवान्ते प्राणानादत्ते ॥ १७ ॥

उवर का परिणाम—उवर महेश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ है । यह उवर सब प्राणियों का प्राण लेने वाला, इन्द्रिय और मन को ताप ( दुःख ) देने वाला; तुष्टि, बल, कान्ति, हर्ष, उत्साह का नाश करने वाला, व्याधि, भ्रम, क्रान्ति, मोह और द्वृष्टानाश को उत्पन्न करने वाला है ।

उवर शब्द की निश्चिकि—उवर शरीरों को पीड़ित करता है, इसलिये इसको ‘उवर’ कहते हैं । इसके समान कठिन, बहुत उपद्रवमुक्त, चिकित्सा करने में दुःखाध्य और दूसरा रोग नहीं हैं । उवर ही सब रोग का अधिपति है । नाना-प्रकार के पश्चि यों में अनेक प्रकार के शब्दों से कहा जाता है । ३ सब प्राणी उवर के साथ उत्पन्न होते हैं और उवर के साथ ही मरते हैं । उवर महामोह स्वरूप है, इसलिये इस उवर से आक्रान्त होने से पूर्वजन्म ( पूर्व शरीर ) के किसी भी कर्म का स्मरण नहीं करता । यह उवर ही सब प्राणियों के प्राणों का हरण करता है ॥ १७ ॥

१. ‘त्साहासुकरः’ इति पाठः । २. यथा—हाथियों में होने वाले उवर को ‘पाकल’, गायों में होने वाले उवर को ‘खेतिक’, मछलियों के उवर को ‘इन्द्र-शक्ति’, यक्षियों के उवर को ‘भ्रामरक’ कहते हैं ।

तत्र पूर्वस्पदर्शने ज्वरादौ वा हीर्व लज्जशनमतर्षेण वा ज्वर-स्थाऽमाशयसमुत्थत्वात् ततः कषायपानाभ्यङ्ग-स्वेद-प्रदेह-परिषेकानुलेप-पन-वमन-विरेचनाऽस्थापनानुवासनोपशमन-नस्तःकर्म-धूप-धूमपान-झान-क्षीरभोजन-विधानं च यथास्वं युक्त्या प्रयोग्यम् ।

ज्वर के चिकित्सा सूत्र—ज्वर के पूर्व स्पर होने पर अथवा ज्वर के प्रारम्भ में ही इलाका अन्न सेवन करना अथवा लंबन करना चाहिये । यद्योकि ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है । इसके अनन्तर कषाय ( काथ ) अभ्यंग, स्वेद प्रदेह ( क्लेप ), परिषेक, अनुबोमन ( बात को अनुकूल करने की क्रिया ), वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासनवस्ति, कर्म उपशमन, नस्यकर्म, धूप, धूमपान, अंजन और दूध भोजन की क्षम्यना, यथायोग्य उपयोग करना चाहिये ॥

जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते, यथास्वौषधसिद्धस्य सर्पिद्धिं स्नेहाद्वारात् शमयति, संस्कारात्कर्म, शैत्यात्पित्तमष्माणं च । तस्माज्जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिद्धित्सुदकमिदाभिसुष्टेषु द्रव्यैषिवति १-

जीर्णज्वर में धूतपान—सब प्रकार के जीर्ण ज्वरों में धी का पान करना प्रशस्त है । इसके लिये योग्य रीति से ओषधियों द्वारा उद्ध किया धी काम में जाना चाहिये । चिकना होने से धो वायु का शमन करता है, भिन्न २ ओषधियों के संस्कार से कफ को शीतलता से पित्त और उष्मा को शान्त करता है । इसलिये सब प्रकार के जीर्णज्वरों में धी ऐसा ही हितकारक होता है जिस प्रकार कि आग से जलते हुए पदार्थों के लिये पानी हितकारक है ॥१८॥

भवन्ति चात्र—यथा प्रज्वलितं वेशम परिषिख्नन्ति वारिणा ।

नराः शान्तिमभिग्रेत्य दथा जीर्णज्वरे धृतम् ॥ १९ ॥

स्नेहाद्वारात् शमयति, शैत्यात्पित्तं नियच्छति ।

घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात् जयेक्कर्म ॥ २० ॥

नान्यः स्नेहस्थापना क्षित्संहकारमनुवर्तते ।

यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम् ॥ २१ ॥

संस्कारविद्ध धूत—जिस प्रकार आग से जलते हुए घर को बुझाने के लिये मनुष्य पानी ढाला करते हैं, उसी प्रकार जीर्णज्वर में धूत का उपयोग उचम है धी स्नेह गुण से वायु को, शीतगुण से पित्त को सथा जिस ओषधि से सिद्ध किया जाता है उस ओषधि का गुण लेफर कफ को शान्त करता है ।

धूत की भेषजा—जिस प्रकार धी दूसरी दवाईयों के गुण अपने में प्राप्त

करके संस्कारयुक्त हो जाता है उस प्रकार और कोई अन्य स्त्रीहृषि के गुण प्रहृण नहीं करता। इसलिये सब स्त्रीहृषि में भी ही अेष्ट है ॥१६-२३॥

गद्योक्तो यः पुनः ऋषोकर्त्तर्यः समनुगीयते ।

तद्वृन्दविक्षियवसायार्थं द्विरुक्तं वन्न गर्हते ॥ २२ ॥

जो अर्थ गद्यरूप में कहा गया है, उसी को लोक रूप में कहते हैं। इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है। क्योंकि गद्य में कहे हुए विषय को ही पुनः और अधिक स्पष्ट और दढ़ करने के लिये पद्य में कहा जाता है ॥२२॥  
तत्र ऋषोकाः—त्रिविधं नामपर्यायैर्हेतुं पञ्चविधं गदम् ।

गदलक्षणपर्यायान् व्याख्यः पञ्चविधं ग्रहम् ॥ २३ ॥

उवरमष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्नकारणम् ।

पूर्वरूपं च रूपं च भेषजं संप्रहेण च ॥ २४ ॥

व्याख्यातवान् उवरस्वामे निदाने विगतव्यरः ।

भगवानगिनिवेशाय प्रणताय पुनर्वसुः ॥ २५ ॥

रोगों के तीन प्रकार के हेतु, पर्यायवाचक शब्द, पांच प्रकार के रोग, इनके लक्षण, पर्यायवाचक शब्द, रोगों के पांच प्रकारों का संप्रह, उवर के आठ मैद, इसके सभीप एवं दूरवर्ती कारण, उवर के पूर्वरूप, रूप और शोषण का संक्षेप में वर्णन, ये सब विषय 'उवर-निदान' नामक अध्याय में विनीत अभिवेद्या को भगवान् पुनर्वसु ने उपदेश किये।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने उवरनिदानं  
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

### द्वितीयोऽध्यायः

अथातो रक्तपित्तनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्त्रह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब रक्तपित्त निदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

पितॄं थथा भूतं लोहितपित्तमिति संक्षा उभते तथा उनुव्याख्या-स्यामः। यदा जन्मतुर्यकोहालक-कोरदूषक-प्रायाण्यनानि मुखके झूँझोण-

१. 'व्याख्यान' इति पाठः ।

तोऽस्मद्विषयात् निष्पाक-माय-कुलत्य-जार-सूपेनहिते एवि-  
मण्डोदशित्कट्टवराम्ल-काञ्जिकोपसेकं बाराह-माहिषाशुक-मास्त्र-गव्य-  
पिण्डित-पिण्याक-पिण्डालु-शुष्क-शाकोपहितं मूळक-सर्वत्त्व-ज्ञान-करब्ज-  
शिग्रु-मधुशिग्रु-खड्यूष-भूसृष्ट-सुमुख-सुरस-कुठेर-गण्डीर-कालमानक-  
पर्णास-क्षवक-फणिजकोपदंशं सुरासौबोरक-तुषोदक-मैरेय-मेदक-मधुड-  
क-शुक्त-कुवल-बदराम्ल-प्रायानुपानं पिष्ठान्नोचरभूयिष्ठमुष्णाभितपो  
वाऽतिमात्रमतिवेलं पयः पिबति पयसा वा समभाति रौहिणीकं काण-  
कपोतं वा सर्वपत्तैऽक्षारसिद्धं कुलत्य-पिण्याक-जास्त्रव-क्षुक्त-पक्षैः  
शौकिकवौ सह क्षीरमामभितमात्रमथवा पिवत्युष्णाभितमस्तस्यैवमा-  
चरतः पित्तं प्रकोपमापद्यते, लोहितं च स्वप्रमाणमतिवक्तते, तस्मिन्  
प्रमाणातिप्रवृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनुसर्पद्यदैव यकृत्सीहप्रभवाणां  
लोहितवहानां स्रोतसां लोहिताभिष्यन्दशुरुणि मुखान्यासाद्य प्रति-  
रुच्यात् तदैव लोहितं दूषयति ॥ ३ ॥

जिस प्रकार से पित्त को 'रक्तपित्त' कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं।  
जब मनुष्य यवक ( ब्रीहि-विशेष ), उद्धालक ( वनकोद्वा॑ ) कोरदूष, इनमें  
मिले खान-पान के अति सेवन से, अथवा दूसरे कोई अति उष्ण या तीक्ष्ण  
गुण वाले अन्न के सेवन करने से, अथवा पूरे, उड्ढ, कुलथी, दालें, वारखुङ्क  
पदार्थों के सेवन से, दही, दधिमण्ड ( मस्तु ), उद्धित ( आघा जल मिश्रित  
तक ), कट्टव, ( बिना पानी का तक या लट्टो छाछ ), अम्लकांजी ( लट्टी  
कांजी ), सुअर, भैंल, मेड, मछली और गाय के मांस के सेवन से, पिण्याक  
( फेणी ) पिण्डालु, कचालु शुष्क शाक ( दखे शाक ) से युक्त अन्न पान के  
सेवन से, मूली, सरसों, लशुन, करञ्ज, सहजन, मधुशिग्रु ( मीठा सहजन ),  
खड्यूष ( कढी आदि ), भूसृष्ट ( रोहिष तृष्ण ), सुमुख, सुरस, कुठेर,  
गण्डीर, कालमानक, पर्णास, क्षवक और फणिजक ( सब दुलसी के मेद )  
इनके सेवन से, सुरा, सौबीर ( कांजी ), तुषोदक, मैरेय, मेदक, मधुडक  
( महुबे की शाराव ), शुक ( सिरका आदि ), कुवड ( बडा बेर ), बेर अथवा  
दूसरे खट्टे पदार्थ मिश्रित वस्तुओं के अत्यन्त उपयोग करने से, अधिक उष्णिमा  
में रहने के पीछे अथवा पिछो युक्त अन्न के खाने के उपरान्त बार बार पानी  
के पीने से, अथवा दूष के साथ रोहितक शाक या कचूतर का मांस, सरसों के  
तेल अथवा खार में लिह किये हुए पदार्थों के खाने से, अथवा कुलथी, उड्ढ,  
पिण्याक, जामून, बदूडा आदि पके हुए कढ़ों के साथ कांजी या कच्चवा दूष

अतिमात्र में अथवा शरीर की गरम पित्तसे में खाने से, मुख का निष्ठ गड़-  
पित हो जाता है और रक्त अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाता है।

पित्त प्रकाप से रक्त का दोष—इस प्रकार प्रभाव में अधिक बढ़ा दुखा  
रक्त तथा प्रकृष्टि हुआ पित्त सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है और यहाँ एवं  
झीला से उत्थन होने वाले रक्तबह स्रोतों के बढ़े हुए रक्तके कारण मरे हुए  
मुखों को पहुँचकर बन्द कर देता है। इस प्रकार संसर्ग द्वारा पित्त-रक्त को  
दूषित कर देता है॥ ३॥

तज्जोहितसंसर्गाज्जोहितप्रदूषणाज्जोहितगन्धवर्णानुविदानाच पित्त  
ज्ञोहितपित्तमित्याचक्षते॥ ४॥

पित्त का रक्त के साथ संसर्ग होने से एवं शरीरस्थरक्त के पित्त के द्वारा  
दूषित होने से तथा पित्त का रक्त के समान गन्ध एवं रंग होने से पित्त को  
'रक्तपिता' कहते हैं॥ ४॥

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तथाथा—अनन्नाभिलाषो भुक्तस्य  
विदाहः शुक्ताम्लगन्धरस उद्गारश्छदेवभीक्षणागमनं छर्दितस्य वीभ-  
त्सता स्वरभेदो गात्राणां सदनं परिदाहो मुखादृधूमागम इव लोहोहित-  
मत्स्यामगन्धित्वमपि चाऽस्यस्य रक्त-हरित-हारिद्रवत्वमङ्गावयवशकृ-  
न्मूत्र-स्वेद-लाला-सिङ्घाणकास्य-कर्णभल-पिण्डकोलिका-पिण्डकानामङ्ग-  
वेदन-लोहित-नील-पीत-इयावानामचिष्पतां च रूपाणां स्वप्ने दर्शनम-  
भीक्षणमिति लोहित-पित्त-पूर्वरूपाणि भवन्ति॥ ५॥

रक्तपित के पूर्व रूप ये हैं—भोजन में अनिच्छा, खाये हुए अन्न का  
न पचना, खट्टे या शुक्त गन्ध अथवा रस की डकार आना, बार २ बमन  
की अभिवचि, बमन में आये रक्त आदि पदार्थ की भवंकरता, स्वरमेद, अंगों  
का दूटना, शरीर में दाढ़, मुख से धूंपे के समान इवास आना, मुख से झोला,  
रक्त, या भछली या कचे मांस की गन्ध आना, शरीर के अवश्य, मल, मूत्र,  
फौलना, लार, नासिका का मल, मुख का मल, कान का मल, और नेत्र का  
मल तथा पिण्डकालों का, लाल, इरा अथवा इस्ती के समान होना, अंगों में

\* रक्त के बढ़ने से रक्तबह स्रोतों के मुख खुल जाते हैं। परन्तु पित्त  
के कारण रक्त के दूषित होने से रक्त में घनता बढ़ जाती है। इससे ऊनहृ  
मुख बन्द हो जाता है। पित्त रक्त को दूषित करता है। रक्तबहस्रोतों का  
प्रभाव स्वान यकृत और झीला है।

वेदना, स्वप्न में छाल, नीले, पीले, काले का जड़ते हुए पदार्थों का बार बार दर्शन होना, रक्षित के पूर्वरूप हैं ॥ ५ ॥

उपद्रवारतु खलु दीर्घल्यारोचकादिपाक-श्वास-कास-ज्वरातीसार-  
शोफ-सोष-पाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च ॥ ६ ॥

रक्षित के उपद्रव—दुर्बलता, अश्वचि, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, सूजन, शोष, पाण्डुरोग, और स्वरभेद ये रक्षित के उपद्रव हैं ॥ ६ ॥

मार्गों पुनरस्य द्वावृद्धं चाधश्च । तद्वहुश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मसं-  
सर्गाद्वृद्धं प्रपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येऽयः प्रच्यवते । वहुवाते तु  
शरीरे वातसंसर्गादधः प्रपद्यमानं मूत्रपुरीषमार्गाभ्यां प्रच्यवते । वहु-  
वातश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मवातसंसर्गाद् द्वावपि मार्गों प्रपद्यते, तौ  
मार्गों प्रपद्यमानं सर्वेऽय एव यथोक्तेऽयः खेऽयः प्रच्यवते  
शरीरस्य ॥ ७ ॥

रक्षित के दो मार्ग—रक्षित के बाहर आने के दो मार्ग हैं । एक  
ऊर्ध्वमार्ग और दूसरा अधोमार्ग । जिस समय शरीर में कफ की प्रवानता होती  
है उस समय शरीर का पित्त कफ से मिलकर ऊर्ध्वमार्गी बन कर कान, नाक,  
नेत्र और मुखद्वार से बाहर निकलता है । वातप्रधान शरीर में पित्त वायु से  
मिलकर अधोमार्गी होता है । इस अवस्था में वह मल मूत्र के रास्ते से बाहर  
निकलता है और जब शरीर में वात और कफ दोनों प्रबल होते हैं तब शरीर  
में वात और कफ से मिलकर ऊर्ध्वमार्ग एवं अधोमार्ग दोनों से बाहर आता है ।  
इन दोनों मार्गों से बाहर निकलता हुआ रक्षित शरीर के सम्पूर्ण छिद्रों से  
निकलने लगता है ॥ ७ ॥

तत्र यदूर्ध्वभागं तत्साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वाद् बहौषधत्वाच् ।  
यद्योभागं तद्याप्यं, वमनोपक्रमणीयत्वादल्पौषधत्वाच् । यदुभयभागं  
तद्साध्यं, वमनविरेचनायोगित्वादनौचवत्वाचेति ॥ ८ ॥

साध्य-असाध्य का विचार—इसमें जो रक्षित ऊर्ध्वमार्गी है, वह साध्य  
है, क्योंकि इसकी चिकित्सा विरेचन द्वारा होती है और विरेचन की ओषधियां  
बहुत हैं । जो रक्षित अधोमार्गी है वह याप्य अर्थात् कष्टसाध्य है, क्योंकि  
इस की चिकित्सा वमन द्वारा होती है और वमन की ओषधियां कम हैं । जो  
रक्षित उभय-मार्गमार्गी अर्थात् ऊर्ध्व-अधोमार्गमार्गी है वह असाध्य है,  
क्योंकि इसमें वमन और विरेचन दोनों का उपयोग होता है और पेसी ओष-  
धियां नहीं हैं ॥ ८ ॥

रक्षपित्तप्रकोपस्तु खलुः पुरा दक्षयज्ञोदूष्वसे रुद्रकोपभवामिना १  
प्राणिना परिगतशरीरप्राणानामनु ज्वरमभवत् २ ॥ ६ ॥

तस्याऽग्निशुकारिणो दावानेत्रिवाऽप्रतितस्यात्ययिक्षत्याऽग्नि प्रशान्त्यौ  
यतितन्यं मात्रा देशं कालं चाभिसमीक्ष्य संतर्पणेन वा चतुर्भुव-  
रिशिरि-तिक्त-कथायैरध्यवहायैः प्रदेह-परिषेकावगाह-संस्पर्शनेवमना-  
यीर्वा तत्रावहितेन्ति ॥ १० ॥

रक्षपित्त का इतिहास—प्राचीन काल में जिस समय रुद्र के गणों ने दक्ष  
के यश<sup>३</sup> का विघ्नण किया था । उस समय रुद्र के कोप से, सम्पूर्ण देहशरी  
प्राणियों को कष्ट देने वाले ज्वर के पीछे, अग्नि के समान उष्णशक्ति (रक्षपित्त)  
उत्पन्न हुआ । यह रक्षपित्त शीघ्र कार्य करने वाला, प्राणहारक एवं अग्नि के  
समान नाश करने वाला है । इसको शान्त करने का शीघ्र उपाय करना  
चाहिये । मात्रा, देश, काल आदि का विचार करके संतर्पण या अपतर्पण किया  
द्वारा अथवा मृदु, मधुर, शीत, कटु, कथाय, रसयुक्त-भोजनों से, लेप, परिषेक,  
अवगाहन, संस्पर्शन, व्रमन आदि द्वारा सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १० ॥

मवन्ति चात्र—साध्यं लोहितपित्तं तद्यदूष्वं प्रतिपद्यते ।

विरेचनस्य योगित्वाद् वहुत्वाद्वेषजस्य च ॥ ११ ॥

विरेचनं तु पित्तस्य जयार्थं परमौषधम् ।

यद्य तत्रान्वयः इलेष्मा तस्य चानघमं स्मृतम् ॥ १२ ॥

भवेद्योगावहं तत्र मधुरं चैव भेषजम् ।

वस्मात्साध्यं मतं रक्तं यदूष्वं प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वगामी रक्षपित्त साध्य—जो रक्षपित्त ऊर्ध्वगामी हो, वह साध्य  
है, क्योंकि इसमें विरेचन द्वारा चिकित्सा की जाती है और विरेचन की  
ओषधियाँ बहुत हैं । ऊर्ध्वगामी रक्षपित्त में पिसदोष प्रधान होता है, और  
कफ दोष गौण होता है । पिसदोष को शान्त करने के लिये विरेचन परम  
भेष छिया है । और जो कफ इसमें अनुबन्ध रूप में रहता है, इसके लिये  
विरेचन मध्यम उपाय है । कथाय और तिक्त रसों के सिवाय मधुर रस भी साध्य

१. ‘दक्षयज्ञवसे रुद्रकोपामर्थमिना’ इति पाठः ।

२. ‘मभवज्वरमनु’ इति वा पाठः ।

३. यह इतिहास आलंकारिक है । दक्ष का यश इस में ही है । दक्ष  
विव जाठराग्नि है । उसके विकृत होने से ही रोग उत्पन्न होते हैं ।

औषधियों के साथ मिळकर योगदाही हो जाता है। इसलिये उत्तमांगमी रक्तपित्त साध्य हैं ॥११-१३॥

रक्तं तु यदधोभागं तथाप्यमिति निश्चयः ।  
वमनस्यालपयोगित्वादल्पत्वाद्वेषजस्य च ॥ १४ ॥  
वमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते ।  
यथ तत्रानुगो वायुस्तच्छान्तो चावरं मतम् ॥१५॥  
तच्छायोगावहं तत्र कथायं तिक्तकानि च ।  
तस्माद्याप्य समाख्यातं यदुक्तमनुलोमगम् ॥ १६ ॥

अधोगामी रक्तपित्त याप्य—जो रक्तपित्त अधोमार्गगामी है वह याप्य है। क्योंकि पित्त को जीतने के लिये 'वमन' पूर्णरूप से पव्यास किया नहीं है और वमन को औषधियां भी कम हैं। कफ दोष के साथ मिश्रित पित्त को निकालने में वमन पर्याप्त है। परन्तु रक्तपित्त के मूलरूप पित्त को निकालने में वमन श्रेष्ठ नहीं है। इसमें अनुबन्ध रूप से रहने वाले वायु को शमन करने के लिये वमन किया निश्चयोगी है। इसी प्रकार कथाय और कटु रस जो रक्तपित्त के नाशक हैं, वे रस वायु को बढ़ाने वाले हैं इसलिये योगों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिये अधोगामी रक्तपित्त याप्य हो जाता है ॥ १४-१६ ॥

रक्तपित्तं तु यन्मार्गां द्वावपि प्रतिपद्यते ।  
असाध्यमिति तच्छयेऽप्यूर्बोक्ताद्विकारणात् ॥१७॥  
न हि संशोधनं किञ्चिदस्त्पस्य प्रतिमार्गगम् ।  
प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्तो विधीयते ॥ १८ ॥  
एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते ।

उभयमार्गगामी असाध्य रक्तपित्त—दोनों मार्गों से जाने वाला रक्तपित्त, उपरोक्त कारणों से असाध्य हो जाता है। क्योंकि ( १ ) इसके प्रति-कूळ मार्ग के लिये संशोधन-चिकित्सा किसी प्रकार की भी नहीं है। और ( २ ) रक्तपित्त में विश्वद मार्ग से संशोधन कार्य गुणकारी होता है। इसलिये सब प्रकार की शान्ति करने वाले कोई भी औषध नहीं है ॥ १७-१८ ॥

संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजिद्धमनं मतम् ॥ १९ ॥  
इत्युक्तं त्रिविधोद्दकं रक्तं मार्गविशेषतः ।

द्विदोषों से व त्रिदोषव रक्तपित्त की विविला—संसृष्ट दो दोषों या तीनों दोषों से मिश्रित रक्तपित्त में उब दोषों को शमन करने वाली औषधि देनी

चाहिये । इस प्रकार से रक्षित के तीन प्रकार बाहर आने के मार्गों के लेदानुवार कह दिये ॥ १९ ॥

एथस्तु सलु हेतुम्यः किञ्चित्साध्यं न सिद्धति ॥ २० ॥  
प्रेष्योपकरणभावाहीरात्म्याद्वैषदोषतः ।

अकर्मतश्च साध्यत्वं क्षिद्वोगोऽतिवर्तते ॥ २१ ॥

तत्रासाध्यत्वमेकं स्यात्साध्ययाप्यपरिकमात् ।

रक्षितस्य विज्ञानमिदं तस्योपदेश्यते ॥ २२ ॥

साध्य रोग असाध्य हो जाने के कारण—इन निम्नलिखित कारणों से कोई साध्य रोग असाध्य बन जाता है । जैसे भूत्य आदि के अभाव से, क्षन्य आबृशक सामग्री के अभाव से, आत्मसंयम के अभाव से रोगी के दुष्ट आहार-विद्युर के कारण; वैद्य के दोष से, तथा चिकित्सा न करने से साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है ।

उभय मार्ग से जाने वाला रक्षित असाध्य है । इसी प्रकार साध्य रक्षित का याप्य हो जाना, या याप्य रक्षित का असाध्य हो जाना दोनों ही असाध्य हैं । इसके आगे रक्षित विषयक विज्ञान और अधिक कहते हैं ॥ २०-२२ ॥

यत्कृष्णमथवा नीलं यद्वा शक्वधनुष्मभम् ।

रक्षितमसाध्यं तद्वासदो रक्तजनं च यत् ॥ २३ ॥

भृशं पूत्यतिमात्रं च सर्वोपद्रववच्च यत् ।

बलमांसङ्घवे यच्च तच्च रक्तमसिद्धिमत् ॥ २४ ॥

येन चोपहो रक्तं रक्षितेन भ्रानवः ।

पश्येद् दृश्यं वियहचैव तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ २५ ॥

दत्रासाध्यं परित्यज्य याप्य यत्नेन वापयेत् ।

साध्यं चावहितः सिद्धैर्भेत्यैः साधयेद्विषक् ॥ २६ ॥

असाध्य रक्षित के लक्षण—जो रक्षित काला, नीला, अथवा इन्द्रभुष के उमान नाना प्रकार के रंगों वाले हो, और जिसमें वज्र पर लगा रक्त का दाग खोने से न मिटे और अतिशय दुर्गंब वाला हो, जिसमें सब उपद्रव हों, जिस के कारण रोगी का बल और मांस खोक होगा हो, के असाध्य रक्षित के लक्षण हैं । रक्षित का रोगी जब सब पदार्थों को अक्ष लाल ही देक्कने लगे तब रक्षित निःसंशय असाध्य उमाना चाहिये । असाध्य अवस्था की चिकित्सा आवश्यक ही नहीं करनी चाहिये, उपसाध्य यह उमाना असाध्य रोग

की प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । साथ रोग की सावधान होकर गुण-  
कारी औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३-२६ ॥

तत्र इलोकौ—कारणं नामनिर्वृत्तिं पूर्वरूपाण्युपद्रवान् ।

मार्गो दोषानुबन्धं च साध्यत्वं न च हेतुमत् ॥ २७ ॥

निदाने रक्षपित्तस्य व्याजहार पुनर्वसुः ।

बीत-मोह-रजोदोष-लोभ-मान-मद-स्पृहः ॥ २८ ॥ इति ॥

मोह, रजोगुण, दोष, लोभ, अमिमान, मद, और स्पृहा से रहित पुनर्वसु ने  
इस अध्याय में, रक्षपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्वरूप, उपद्रव, इसके दोनों  
मार्ग, बात आदि दोषों का अनुबन्ध, साध्यासाध्यत्व, हेतु इत्यादि सब-विषय  
वर्णन कर दिये हैं ॥

इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने रक्षपित्तनिदानं  
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह मभगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'गुल्मनिदान' का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान्  
आत्रेय ने कहा था ' ॥ १-२ ॥

इह स्तु एव गुल्मा भवन्ति । सद्यथा—वातगुल्मः, पित्तगुल्मः,  
इलेमगुल्मो, निचयगुल्मः, लोणितगुल्मश्चेति ॥ ३ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—कथमिह भगवन् !  
एव चानां गुल्मानां विशेषमभिजानीयाम् नह्यविशेषविद्रोगाणामौष-  
धविदृपि भिषक् प्रशमनसमर्थो भवतीति ॥ ४ ॥

समुच्चाच भगवानात्रेयः—समुत्थान-पूर्वरूप-लिङ्ग-वैद्यनोपशम्य-विशे-  
षेयो विशेषविज्ञानं गुल्मानां भवत्यन्येषां च रोगाणामग्निवेश ! ततु  
स्तु गुल्मेषूच्यमानं निष्ठोष ॥ ५ ॥

१. शरीर के भीतर दोष संचित होकर पिण्डाकार होते हैं । इससे ये  
'गुल्म' कहाते हैं ।

कुपितानिलमूक्त्वाद् गृदमूकोदयादपि ।

गुल्मवद्वा विशाङ्क्त्वाद् गुल्म इत्यभिशीयते ॥ मुकुत ॥

गुल्म के मेद—गुल्म पांच प्रकार के होते हैं । जैसे ( १ ) वातगुल्म, ( २ ) पितॄगुल्म, ( ३ ) कफगुल्म, ( ४ ) निचयगुल्म और ( ५ ) रक्तगुल्म<sup>१</sup> ।

इस प्रकार कहते हुए भगवान् आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि इन पांच प्रकार के गुल्मों के विषय में विशेष ( मेद-ज्ञान ) ज्ञान किस प्रकार कर्त्ते ? क्योंकि इनके मेदों को सम्पूर्णरूप से जाने विना, सम्पूर्ण औषध-ज्ञान होने पर भी वैद्य रोगों के शमन करने में समर्थ नहीं होता ।

भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—हे अग्निवेश ! उत्तरति, पूर्वरूप, लक्षण, वेदना और उपशय इनके मेद से भिन्न-भिन्न गुल्मों का विशेष ज्ञान होता है और इन्हीं साधनों से दूसरे अन्य रोगों का भी पता चलता है । इसलिये गुल्म के लक्षण आदि का वर्णन करते हैं, इसको ध्यान से सुनो और समझो ॥ ३-५ ॥

यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर-बमन-विरेचनातीसाराणामन्य-तमेन कश्चनेन कर्शितो वातलमाहारमाहरति शीतं वा विशेषेणातिमात्र-मस्नेहपूर्वं वा बमनविरेचने पिवत्यनुदीर्णां वा छार्दिमुदीरचत्युदीर्णान् वात-मूत्र-पुरीष-वेगान्तिरुणदूषत्यशितो वा पिवति नवोदकमतिमात्र-मतिमात्रसंक्षेपिणा वा यानेन यात्यतिव्यवाय-व्यायाम-मध्यरुचिर्बाड़-भिघातमृच्छति वा विषमाशन-न्यायनासन-स्थान-चक्रमण-सेवी भवत्य-न्यद्वा किञ्चिदेवं विधं विष-ममतिमात्रं व्यायामजातमारभते, तस्याप-चाराद्वातः प्रकोपमापद्यते ॥ ६ ॥

वातगुल्म—जब वातप्रकृति का मनुष्य विशेष कर ज्वर, बमन, विरेचन और अतिसार इनमें से किसी एक के कारण कृश हो जाता है, इस स्थिति में जब वह वायुकारक आहार या अति शीतल पदार्थों का सेवन करता है, वा स्नेहन कर्म किये विना विरेचन का उपयोग करता है, बमन की इच्छा न रहने पर भी बलात्कार से बमन करता है, अघोशायु, मल, मूत्र के उपस्थित देयों को रोकता है, अधिक भोजन करके नवीन पानी ( बरसात में कुएं आदि का पानी ) अधिक पीता है, बहुत अधिक क्षकोले वाली गाही वा सवारी से यात्रा करता है, ऊंस-समोग और मद्य के अति उपयोग से, सूचि के अभिषात होने से, विषम स्थिति में बैठने, ढोने, चलने या रहने से, इसी प्रकार के अन्य

१. इन पांच गुल्मों के सिवाय तीन और भी गुल्म हैं जैसा कि आगे चिकित्सा में कहेंगे—“व्यामिश्रलिंगानपरांतु गुल्माल्लीनादिशेदौषवकल्पनार्थम्” । अर्थात् वातपित्त, पित्ताकफ और वातफूज । इस प्रकार से आठ प्रकार के गुल्म हैं । २. ‘विषमतिमात्रं’ इति च पाठः ।

आयाम आदि भ्रमजनक कार्यों को अधिक मात्रा में करने से, वायु प्रकृष्टिरह जाता है ॥ ६ ॥

स प्रकृष्टिरो महामोतोऽनुप्रविश्य रौद्रवात्कठिनीभूतमाप्तुत्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति हृदि वस्तौ पार्श्वयोर्नीर्ध्वा वा । स शूलमुप-जनथति अन्धीश्वानेकविधान्, पिण्डितश्चावतिष्ठते, स पिण्डितत्वाद् गुल्म इत्युच्यते ॥ ७ ॥

वातगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित हुआ वायु महाशेषों से पुरु कर अपने रक्षण गुण के कारण कठिन होकर कोष में कैलकर गोल-पिण्डाकार बन जाता है और हृदय, बस्तिमांग, दोनों पार्श्वमांग अथवा नाभि आग में शूल अथवा अनेक प्रकार की गांठें उत्पन्न कर देता है । वायु गोलाकार बनकर पिण्डाकार होने से 'गुल्म' कहा जाता है । ( इसी की 'वायुगोल्म' कहते हैं, जोकि वातगुल्म का अप्रभंश है । ) ॥ ७ ॥

स मुहुराधर्मति, मुहुरण्त्वमापद्यते, अनियतविपुलाणुवेदनश्च भवति चलत्वाद्वायोः, पिपीलकासंप्रचार इषाङ्गेषु, तोद-स्फुरणायाम-संकोच-सुप्ति-हर्ष-प्रलयोदय-बहुलरत्नातुरञ्च सूचयेव शङ्खुनेव चाति-विद्मात्मानं मन्यते, अपि च दिवसान्ते ज्वर्यते शुष्यति चाऽऽस्यम्, उच्छ्वासचोपरुद्यते । हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायाः प्रादुर्भावे ।

वातगुल्म के लक्षण—यह वातगुल्म रक्षण भर में कैलकर बढ़ा हो जाता है और रक्षण भर में सिकुड़कर छोटा हो जाता है, इसकी पीड़ा अनियत, कभी अधिक और कभी कम हो जाती है । इसका कारण वायु का चंचल स्वभाव है, शरीर के अवयवों में कीड़ियों के चलने की सी प्रतीति होती है, इसमें तोद ( तुमने की सी वेदना ), स्फुरण ( घड़कन ), आयाम ( विस्तार ), तंकोच ( लिकुड़ना ), सुति ( स्पर्शज्ञान का अभाव ), हर्ष ( स्पर्शज्ञानका बढ़ना ), प्रलय ( नाश ), उदव ( जन्म ) प्रायः होते हैं अर्थात् कभी तो उत्पन्न होते हैं, और कभी शान्त हो जाते हैं । इस अवस्था में रोगी सूई तुमने या कील आदि से विचलने का दा अनुभव करता है । सन्ध्याकालमें पीड़ा होती है, रोगी का मुख दूल जाता है, श्वास छुटने या बन्द होने लगता है, वेदना के समय शरीर रोमांकित हो जाता है ॥

सीहाऽटोपान्त्र-कूजनाविपाकोदावर्तीज्ञमर्दै-मन्या-शिरःशङ्ख-शूल-  
ब्रह्मरोगाश्चैनमुपद्रवन्ति, कृष्णारुण-परुषत्वरूप-नख-नयन-वदन-मूँह-पुरी-  
पश्च भवति ।

मौहा, आठोप ( अनु का आधार ), जांबो में गुड़-गुड़ खनि, धोन्चन, उदाबर्च, अंगो का दृढ़ना, मन्याशूल, शिरःशूल, शंखशूल, ब्रह्म-रोल आदि नामा उपाधि होने लगते हैं । रोगी की त्वचा, नस, मुख, मूल और मल का रंग काला या लाल हो जाता है, तथा ये कर्कश हो जाते हैं ।

निदानोकानि चास्य नोपशोरते, विपरीतानि चोपशोरते—इति वातगुल्मः ॥ ८ ॥

वातगुल्म के कारणानुकूल आहार-विहार करने से रोग शान्त नहीं होता, परन्तु रोग के कारण के विपरीत गुणवाले आहार-विहार से रोग शान्त हो जाता है । वातगुल्म के बे लक्षण हैं ॥ ८ ॥

तैरेव तु कर्शनैः कर्शितस्य इत्य-लवण-कटुक-सारोष्ण-तीहज-शुक्त-व्यापञ्च-भूय-हरित-कफलाम्लाना विदाहिना च शाक-धान्व-मासादीना-मुपचोगादजीर्णाध्वशनाद्रौक्ष्यानुगते चाऽऽमाशये वमनविरेचनमतिवेलं संधारणं वातातपौ चातिसेवमानस्य पित्तं सह मालुतेन प्रकोपमा-पथते ॥ ९ ॥

वात के साथ पित्त प्रकोप के कारण—वातगुल्म में कहे हुए कारणों से कर्शित हुआ पुरुष जब खाए, नमकीन, कडवे, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त, सड़े, खराब हुए, मद्य, या हरी सब्जियाँ और फल खाता या दाहकारक शाक या मांस का सेवन करता है, अर्जीय या अध्यशन ( भोजन के ऊपर फिर भोजन करने ) से आमाशय में रुक्षता के उत्पन्न होने से वमन, विरेचन के बेगों को बहुत देर तक रोकने से, वायु या धूप के अतिसेवन करने से वायु के साथ पित्त भी कुपित हो जाता है ॥ ९ ॥

तत्प्रकुपितं मालुत आमाशयैकदेशे संमूर्छ्य तानेव वेदनाप्रका-रानुपञ्चनयति य उक्ता वातगुल्मे, पित्तं त्वेन विद्वाहिति कुक्षी हृद्युरसि कण्ठे च, स विद्वामानः सधूममिवोद्गारमुद्गिरत्यम्लान्वितं, गुल्मा-वकाशास्य दहरे दूषते धूषते उष्णायते स्विद्यति क्लिद्यते शिथिल इष च स्पर्शासहोऽल्परोमाङ्गो भवति । ज्वर-भ्रम-दवथु पिपासा-गल-बदन-तालु-शोष-प्रमोह-विद्वेदाश्वेनसुपद्रवन्ति, हरित-हारिद्रत्वक्त-नस्त-भवति । निदानोकानि चास्य नोपशोरते, विप-रीतानि चोपशोरते—इति पित्तगुल्मः ॥ १० ॥

पित्तगुल्म की सम्भावा—इस प्रकार से कुपित हुआ पित्त और वायु आमाशय के एक प्रदेश में मिलकर वातगुल्म में कही हुई वेदनाओं को

उत्सर्ज करते हैं । १ पित्रगुल्म में विशेषता यह है कि प्रकृपित पित्र कुष्ठि, हृषय, वस्त्रःस्थङ और कण्ठ इन स्थानों में दाह उत्पन्न करता है । इव दाह के कारण धुंए के समान और सहा डकार देगी को आता है और गुल्म के स्थान में दाह होता है, धूंका निकलता है, गरमी रहती है, परीना आता है, क्रिङ्गलता होती है, शरीर दीला पढ़ा प्रतीत होता है, स्वर्ण की असश्वता रहती है और किञ्चित् रोमाच रहता है । ज्वर-भ्रम, दवथु ( धक्, धक्, स्पन्दन ), पिपासा, गडे मुख और तालु में शुष्कता, मूर्छा, मल का पतला आना, ये उपद्रव होजाते हैं । त्वचा, नख, आँख, मूत्र और मल इनका रंग हरा या हल्दी के समान होजाता है । इसके निदान के समान गुण बाली वस्तुओं के उपयोग से रोग बढ़ता है और विपरीत गुणवाली वस्तुओं से कम होता है । यह पित्रगुल्म का वर्णन हुआ ॥ १० ॥

तैरव तु कर्णनैः कर्षितस्यात्यश्नादतिस्तिंग्ध-गुरु-मधु-शीताश्नाद-  
तिपृष्ठेष्टु-क्षीर-माष-तिल-गुड-विकृति-सेवनान्मन्दक-मध्यातिपानादूरितका-  
तिप्रणयनादानूपौदक-न्याय-मासाति भक्षणात्संधारणादतिसुहितस्य चाति-  
प्रगाढ़मुखपानात्संक्षेपभणाद्वा शरीरस्य श्लेष्मा सद् माहतेन प्रकोप  
मापद्यते ॥ ११ ॥

वात के साथ कफ-प्रकोप के कारण—बातगुल्म में कहे हुए कारणों से कुछ हुए व्यक्ति के अत्यन्त भोजन करने से, अतिस्तिंग्ध, गुरु, मधुर, शीत पदार्थों के खाने से, पीठी ( उड़द आदि को पीड़कर ), ईल, दूध, उड़द, तिल, गुड इनसे बने पदार्थों के अति सेवन से, मन्दक-दही और मध्य के अति-सेवन से, हरे शाक, आनूप या जड़चर प्राणियों के अथवा ग्राम्य मास के अति सेवन से, शरीर को बहुत विशेषित करने से, वायु कफ के साथ मिलकर कुपित होता है ॥ ११ ॥

तं प्रकृपितं मारुत आमाशयैकदेशे संमूर्च्छय तानेव गाढवेद-  
नाप्रकारानुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे । श्लेष्मा दवस्य शीतञ्चरारो-  
चकाविपाकाङ्ग-मर्द-हृष्ण-हृद्रोग-च्छर्दि-निद्राडस्य-स्तैमित्य-गौरव-शिरोभि-  
तापानुपजनयति, अपिच गुल्मस्य स्थैर्य-गौरव-काठिन्यावगाढ़-सुप्रता,

१. आमाशय के एकदेश में मूर्छित होने से पित्रगुल्म और कफगुल्म वस्ति में नहीं होते । क्योंकि नाभि और स्तनों के बीच के स्थान को आमाशय कहते हैं । वातगुल्म वस्ति में भी होता है । इसकिये वातगुल्म में ‘महासोत्सु शब्द पढ़ा है । महासोत्सु शब्द से वस्ति का भी प्रहण होता है ।

तथा कास-इवास-प्रतिश्यायान् राजयक्षमाणं चातिप्रवृद्धः स्वेत्य च त्वक्-  
नखनयन-बद्न-मूत्र-पुरीषेषु पञ्चनयति । निदानोक्तानि चास्य नोपरोरते,  
तद्विपरीतानि चोपशोरते—इति श्लेषमगुलमः ॥ १२ ॥

कफगुलम की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित कफ और वायु आमाशय  
के एक प्रदेश में मिलकर बातगुलम में कही हुई अनेक प्रकार को तीव्र देदनाये  
उत्पन्न करते हैं । प्रकुपित कफ शीतज्वर, अश्वचि अविग्रह अंगों में  
वेदना, रोमर्थ, हृदयरोग, वमन, निद्रा, आलस्य, स्तिमितता (भारीपन),  
घिर और अंगों में उष्णिमा, (ताप) उत्पन्न करता है । इस गुलम में स्थिरता  
(हिलने का अभाव), भारीपन, कठिनता, स्वर्णज्ञान का एकदम अभाव,  
(विहिरता) रहती है । बहुत चढ़ने पर कास, इवास, प्रतिश्याय और व्यय रोग  
उत्पन्न करता है । त्वचा, नख, आंख, मुख, मळ, मूत्र, उनका रंग इवेत  
हो जाता है । इसके निदान के समान गुण वाले आहार-विहार से रोग बढ़ता है  
और विपरीत गुणवाली वस्तुओं से कम होता है । यह कफगुलम का निदान  
कह दिया है ॥ १२ ॥

त्रिदोष-हेतु-लिङ्ग-सन्निपातात् सान्निपातिकं गुलमसुपदिशन्ति कु-  
शलाः । स विप्रतिविद्धोपक्रमत्वादसाध्यो निचयगुलमः ॥ १३ ॥

सान्निपातिक गुलम—जिल गुलम में तीनों दोषों के हेतु और तीनों दोषों के  
लक्षण मिले होते हैं ; उसको बुद्धिमान् वैद्य ‘सान्निपातिक गुलम’ कहते हैं ।  
यह सान्निपातिक गुलम चिकित्सा में विरोधि होने से चिकित्सा कर्म में  
असाध्य है ॥ १३ ॥

शोणितगुलमस्तु स्लु लिया एव भवति; न पुरुषस्य, गर्भकोषार्त-  
वागमनवैशेष्यात् ।

पारतन्त्र्यादवैशारद्यात्सततमुपचारानुरोधाद्वेगानुदीर्णानुपरुच्यन्त्या  
आमगमें वाऽप्यचिरात्पतितेऽप्यवाऽप्यचिरप्रजाताया ऋतौ वा वाव-  
प्रकोपणान्यासे वमानायाः क्षिप्रं वातः प्रकोपमापयते ॥ १४ ॥

रक्तगुलम—रक्तगुलम के बड़े लियों को ही होता है, पुरुषों में नहीं होता,  
क्योंकि लियों में ही गर्भाद्य तथा रजोदर्शन होता है । लियों परवश होने से  
वेगों को रोकती हैं, अधिक्षित होने से, पति आदि की सेवा में वत्यर रहने से  
और मळ मूशादि के उपस्थित वेगों को रोकने से, इन कारणों से वा अपक

१०. आमन्यतः रक्त का धूषित होना और धूसरे गुलमों में भी मिलता है ।  
प्रकार आगे कहेंगे ।

गर्भ के गिर जाने से, या वाहक प्रसव करने के पीछे अथवा अद्युक्तमें वात-प्रकोपक वस्तुओं के सेवन करने से वायु शीघ्र ही प्रकृष्टि हो जाता है ॥१४ ॥

स प्रकृष्टितो योनिमुखमनुभविश्वाऽर्तवमुपहणद्धि, माति माति लदार्तवमुपरुद्धयमानं कुक्षिमधिवर्धयति । तस्याः शूल-कासातीसारच्छ-र्धरोचकाविपाकाङ्गमर्द-निद्रालस्य-स्तम्भित्य-कफ-प्रसेकाः समुपजायन्ते । स्तनयोऽग्नि स्तन्यमोष्टयोः स्तनमण्डलयोश्च काण्यर्थं, ग्लानिश्चज्ञोषेर्मूच्छर्णा, हङ्गासो, दोहदः, इवयथुः पादयोरीषष्ठोदगमो रोमराज्याः, योन्याआटालत्वं, अपि च योन्या दौर्यन्ध्यमास्त्रावश्चोपजायते, केवलश्चास्या गुल्मः पिण्डित एव स्पन्दते, तामगर्भां गर्भिणीमित्याहुर्मूढाः ॥ १५ ॥

रक्खुलम की सम्भासि—यह कुपित वायु योनिमुख में प्रविष्ट होकर आर्द्ध को रोक देता है । प्रत्येक मास में इक इक कर यह आर्द्ध कोष्ठ को बढ़ा कर देता है । इससे ज्ञी को शूल, कास, अतीसार, वमन, असच्चि, अविपाक, अंगों का दूटना, निद्रा, आलस्य, कफ का ( लार का ) मुख से आना, स्तनों में दूध का आना \* औंठ एवं स्तनों के चूचुकों का काला हो जाना, आंखों में झानि, मूच्छर्ण, वमन की अभिरुचि, गर्भ के समान अनेक लक्षण, पांव में सूजन, रोमराजि में विस्फुरण, योनि का फैल जाना, योनि में दुर्गन्ध आना तथा योनि में से साव होना इत्यादि विकार उत्पन्न होजाते हैं । इस प्रकार गुल्म पेट में हिलता है, अज्ञानी लोग गर्भरहित ज्ञी को भी गर्भिणी कहने लगते हैं ॥ १५ ॥

एषां तु खलु पञ्चानां गुल्मानां प्रागभिन्निर्वृत्तेरिमानि पूर्वस्त्वपाणि भवन्ति । तद्यथा—अनज्ञाभिलक्षणभरोचकाविपाकावप्तिवैषम्यं विद्याहो शुक्रस्य विपाककाले चायुकत्या छर्द्युद्गारौ, वातमूत्रपुरीषवेगानाम-प्रादुर्भावः, प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्तिरीषदागमनं चा, वातशूलाटोपान्त्र-कूजनापरिहर्षणात्तिवृत्तपुरीषताऽबुभुक्षा, दौर्बल्यं, सौहित्यस्य चासह-त्वमिति गुल्मपूर्वस्त्वपाणि भवन्ति ॥ १६ ॥

\* आर्द्ध रोग का यह प्रभाव है कि स्तनों में दूध आजाता है । गर्भोचत्या में भी आर्द्ध के बकने से स्तनों में दूध आता है । गर्भवती ज्ञी में जो रस बनता है, उसके तीन कार्य होते हैं । (१) माता के शरीर का पोषण, (२) स्तनों में दूध उत्पन्न कर देता है । (३) बचे का पोषण, इसकिये यह आर्द्ध भी स्तनों में दूध उत्पन्न कर देता है ।

१. जो ज्ञिया बच्चों के लिये बहुत कालायित रहती है उनमें भी अद्यु गर्भ के इक जाने पर ये दृष्ट्याने छागते हैं । इस अवस्था में यदि हुंचाकर परीक्षा करें तो लिखाय वायु के और कुछ उपकरण नहीं होता

गुल्म का पूर्वरूप—इन पांचों प्रकार के गुल्मों की उत्पत्ति से पूर्व निन-  
किलित लक्षण होते हैं : यथा—अज में अनिष्टा, अहनि, अविष्टक, अग्नि की  
विषमता ( कभी तेज़ और कभी मन्द ), विदाह ( बड़न ), भोजन के पचने  
के समय जड़न, विना कारण के बमन और डकार आना, अधोक्षातु, मूत्र व  
मलों की अप्रवृत्ति अथवा प्रवाहण की प्रवृत्ति होने पर भी मलादि का बाहर  
न निकलना, अथवा योद्धा आना, चातशूल, पेट में गुड़-गुड़ाइट, आंतों में  
अफ़्रारा, शरीर में रोमांच, गांठदार मल का आना, भूख का न छगना, कृश्चाला,  
पेट भर अज्ञ ल्लाने पर उसका सहन न होना, इत्यादि लक्षण सब प्रकार के  
गुल्मों के पूर्वरूप हैं ॥ १६ ॥

सर्वेष्वपि च खल्वेतेषु न कश्चिद्वाताद्वते संभवति गुल्मः ॥ १७ ॥

इन सब प्रकार के गुल्मों का मूलभूत कारण वायु ही है, वायु के विना  
कोई भी गुल्म नहीं होता ॥ १७ ॥

तेषां सञ्चिपातजमसाध्यं ज्ञात्वा नोपक्रमेत । एकदोषजे तु यथा-  
स्वमारम्भं प्रणयेत् । संसृष्टास्तु साधारणेन कर्मणोपचरेत् । यज्ञान्य-  
दृष्यविरुद्धं मन्येत तदवचारयेद्विभव्य गुरुलाघवमुपद्रवाणां समीक्ष्य,  
गुरुनुपद्रवस्त्वरमाणश्चिकित्सेज्जघन्यमितरान्, त्वरमाणस्तु विशेषमनु-  
पलङ्घ्य गुल्मेष्वात्ययिके कर्मणि वातचिकित्सितं प्रणयेत्, स्नेहस्वेदौ  
वातहरी, स्नेहोपसंहितं च मृदुविरेचनं, वस्तीश्चाम्ललवणमधुरांश्च  
रसान् युक्तिरोद्वचारयेत् । मारुते शुष्पशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन  
शक्योऽन्योपि दोषो नियन्तुं गुल्मेष्विति ॥ १८ ॥

इनमें सञ्चिपातजन्य गुल्म को असाध्य समझ कर चिकित्सा में हाथ नहीं  
डाढ़ना चाहिये । एक दोष से उत्पन्न गुल्म की यथायोग्य रीति से चिकित्सा  
करनी चाहिये । दो दोषवाले गुल्मों की चिकित्सा साधारण प्रकार से करनी  
चाहिये । अथवा वैद्य रोगी के उपद्रवों की गुरुता लघुता को देखकर, दूसरे फिसी  
से चिकित्सा विकद न पड़े, इस प्रकार से चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिये । जो  
उपद्रव गुरु हों, उनकी तत्काल चिकित्सा करनी चाहिये और जो उपद्रव कम  
हों, उन की पीछे से चिकित्सा करनी चाहिये । जिस गुल्म में छुड़ पता न  
चकता हो या काम ज़रूरी या ज़र्दी करना हो तो प्रथम वायु की चिकित्सा  
करनी चाहिये । क्योंकि वायु को शान्त करने के लिये स्नेहन, मुदु विरेचन,  
वृत्तिकर्म, लाटा, नमकीन और भयुर रस युक्तिपूर्वक देने चाहिये । वायु के

सेक्षणे पर योके से परिभ्रम से दूसरे दोष भी छुगमता से कष में किंव-  
र सकते हैं ॥ १९ ॥

भवति चात्र—

गुल्मिनाम निलशान्तिरुपायैः सर्वशो विविवदाचरितव्या ।

मारुते द्युषजितेऽन्यगुहीणं दोषमल्पमवि कर्म निहन्यात् ॥ १६ ॥

गुल्मरोग में बायु को शान्त करने के लिये सम्पूर्ण विधि काम में लानी चाहिये । क्योंकि बायु को शान्त न करने पर दूसरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ दोष भी सम्पूर्ण किये कराये पर पानी फेरे देता है ॥ १६ ॥

तत्र श्लोकः—संख्या निमित्तं रूपाणि पूर्वरूपमथापि च ।

इष्टं निदाने गुल्मानामेकदेशश्च कर्मणाम् ॥ २० ॥

इस गुल्म निदान में गुल्मों की संख्या, कारण, पूर्वरूप और विकिसा कह दी है ॥ २० ॥

इत्यग्निवेदकृते तन्ने चरकपतिसंस्कृते निदानस्थाने गुल्मनिदानं  
नाम दृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

### चतुर्थोऽध्यायः

अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवान्त्रेयः ॥ २ ॥

अब हस्तके आगे प्रमेह-निदान का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥२॥

त्रिदोषकोपनिमित्ता विश्वितः प्रमेहा भवन्ति, विकाराभ्यापरेऽपरिसंख्येयाः । तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहानभिनिर्वर्तयति तथाऽनुव्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥

प्रमेहों की संख्या—वात आदि तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले प्रमेह बीस प्रकार के हैं, इनके सिवाय दूसरे रोग असंख्य हैं । त्रिदोष के कोप से प्रमेह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं इसका आगे वर्णन करते हैं ॥३॥

इह खलु निदान-दोष-दूष-विशेषेभ्यो विकार-विघात-भावाभाव-प्रतिविशेषा भवन्ति ॥ ४ ॥

निदान, दोष और दूष इनके विशेष-मेदों को छेकर रोगों के विचार अर्थात् रोग का देर में होना, थोड़ा या अधिक विकार होना आदि भाव-विशेष उत्पन्न होते हैं । इस स्त्रामक उिदान को विस्तार कहते हैं ॥४॥

बदा होते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नातुवप्रन्ति, अथवा वा  
कालप्रकर्षादवलीयासो वाऽनुवन्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वृत्तिः,  
चिराद्वाऽप्यभिनिर्वतन्ते, तन्वो वा भवन्त्यथवाऽप्ययोक्तसर्वङ्गाः ।  
विषयं विपरीताः; इति सर्वविकार-विधात्-भावाभाव-प्रतिविशेषाभि-  
निर्वृत्तिहेतुभवत्युक्तः ॥५॥

रोगो के उत्पन्न होने और न होने का कारण—निदान दोष और दूष  
भावों की भिन्नता से रोग उत्पन्न होते हैं और नहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब  
निदानादि ये तीनों परस्पर नहीं मिलते, अथवा लम्बे समय पीछे मिलते हैं, तो  
निर्वल अवस्था में मिलते हैं, तब रोग उत्पन्न नहीं होता, यदि उत्पन्न भी  
होता है तो देर में उत्पन्न होता है या निर्वल रूप में या अवगूर्ण लक्षणों के  
साथ उत्पन्न होता है। परन्तु जब निदान, दोष और दूष परस्पर समानरूप में  
मिलते हैं, तब शीघ्र, बलवान् एवं सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न होता है।  
सब रोगों की उत्पत्ति में निदान दोष और द्रव्य का होना या न होना  
कारण होता है ॥५॥

तत्रेम श्रयो निदानादिविशेषाः श्लेष्मनिर्मित्ताना प्रमेहाणामाइव-  
भिनिर्वृत्तिकरा भवन्ति । तथ्यथा—हायनक-यवक-चीनकोहालक-नैषधे-  
त्कट-मुकुन्दक-महाब्रीहि-प्रमोदक-सुगन्धकानां नवानामतिवेळमतिप्रमा-  
णेनोपयोगः, तथा सर्पिष्मतां नवहरेणुमाषसूख्यानां प्राम्यानुपौदकानां  
च मांसानां शाक-तिल-पल्ल-पिण्डान्न-पायस-कृशर-विलेशीज्ञविकाराणां  
क्षीर-मन्दक-दधि-द्रव-मधुर-तरुणप्रायणामुपयोगो, मृजा-व्यायाम-वर्जनं,  
स्वप्नशयनासनप्रसङ्गो यश्च कश्चिद्विधिरन्येऽपि श्लेष्म-मेदो-मूत्र-संजननः  
स सर्वो निदानविशेषः ॥ ६ ॥

कफजन्य प्रमेह में निदानादि की भिन्नता—निम्न कारणों से कफजन्य  
प्रमेह मुख्यतः उत्पन्न होता है। यथा हायनक ( धान्य विशेष ), यवक ( जौ ),  
चीनक, उहालक, नैषध, इत्कट, मुकुन्दक, महाब्रीहि, प्रमोदक, सुगन्धक  
इत्यादि जाति के चावलों को अतिमात्रा में वा नूतन चावलों का उपयोग  
करने से, इसी प्रकार जी के साथ हरेणु ( मटर ), उडद की दाल, आम्बा  
या आनूप अथवा जलचर प्राणियों का मांस अधिक खाने से, माजी,  
तिळ, माल, पिछो से बने पदार्थ खीर, लिचडी, विलेशी गाढ़ी कांजी),  
जै के रस से बनी वस्तुओं के अति उपयोग करने से, दूध,  
दूक, दही, द्रव, मधुर पदार्थ या नवीन शान्यों के अति उपयोग करने से,  
अतीत का शोधन न करने से, अंगों को परिचालन न करने से, सोने, छेने या

बैठे रहने से, अवस्था कफ, येद व नूच को बढ़ाने वाला जो भी चारण होता है वे सब प्रमेहों के विशेष कारण हैं ॥६॥

**बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः ॥ ७ ॥**

बहुद्रवं मेदोमासिं शरीरजल्लेदः शुक्रं शोणितं च वसा मज्जा लसीका रसश्लोजःसंख्यात् इति दूष्यविशेषाः ॥ ८ ॥

कफप्रमेह के दूष्य — बहुत तरल ( द्रव ) कफ इसमें दोष होता है, बहुत अवद ( असंहत अर्थात् ढीला-शिथिल ) मेद मास, शरीरजन्य झ्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसीका, रस और श्लोज ये दूष्य विशेष हैं अर्थात् इनमें ही दोष अपना बुरा प्रभाव उत्पन्न करता है ॥८॥

त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते प्रागतिभूयस्त्वात्, स प्रकुपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसृमि लभते, शरीरजैथिल्यात्स विसर्पक्ष्लरीरे मेदसैवादितो मिश्रीभावं गच्छति, मेदसश्वैव बहुद्रवदत्वान्मेदसश्च गुणानी गुणैः समानगुणभूयिष्टत्वात् सेदसा मिश्रीभावं गच्छन् दूषयत्येनद्विकृतत्वात्, स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः शरीरक्रेदमासाध्यां संसां गच्छति, क्लेदमासयोरतिप्रमाणाभिवृद्धत्वात् स मासे मासप्रदोषात्पूतिमासपिङ्काः शरा-विकाकच्छपिकाद्याः संजनयति, अप्रकृतिभूतत्वात्, शरीरक्लेदं पुनर्दूषयन्मत्रत्वेन परिणयति । मूत्रवहानां च स्रोतसां वस्त्रक्षणवस्तिप्रभवाणां मेदःक्लेदोपहितानि गुरुणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुद्ध्यते; ततस्तेषां स्थैर्यमसाध्यतां वा जनयति, प्रकृतिविकृतिभूतत्वात् ॥ ९ ॥

कफप्रमेह की सम्भावा — निदान, दोष और दूष्य इन तीनों के मिलने से कफ शीघ्र कुपित हो जाता है । क्योंकि रोग उत्पत्तिकाल में कफ अधिक बढ़ा होता है । इस प्रकार से कुपित कफ जल्दी ही शरीर में फैल जाता है । शरीर के शिथिल होने से फैलता हुआ यह कफ सबसे प्रथम शरीर में मेद के साथ

१. प्रमेह में सब से प्रथम कफ का ही विगाड़ होता है । इसलिये यह तो दोष है, और सप्तधातु, रस, रक्त, मांस आदि ये इससे दूषित होते हैं, इसलिये ये दूष्य हैं । इस अवस्था में जिस अपर ओज का परिमाण आवाह अखलि कहा है, वह ओज भाग विकृत होता है । झ्लेद रक्त का तरक भाग है जिसके दूषित होने से मधुमेह रोगी के वृण शीघ्र अच्छे नहीं होते । शरीर में त्वचा के नीचे रहने वाला पतला द्वेष, चिकना पकार्य है जो की रक्त करता है । ये सब दूष्य हैं ।

मिलता है। क्योंकि मेद बहुत अच्छा अचार्य विधिक रूप में होता है। तथा मेद के गुणों के समान गुण ही कफ के हैं और शरीर में मेद का परिवाह भी बहुत है। मेद के साथ मिलकर कफ अपने आप दूषित होने से इन को भी दूषित बना देता है। यह विकृत कफ दुष्ट मेद के साथ मिलकर शरीर के क्लोद भाग और मांस के साथ मिल जाते हैं। शरीर में क्लोद और मांस बहुत मात्रा में बढ़े होते हैं। यह मांस को दूषित करके मांस में उत्पन्न होने वाली पिण्डकार्य, शराविका, कच्छपिका आदि को उत्पन्न करता है। क्योंकि कफ अपनी प्रकृति में नहीं रहता, इसलिये अपनी शक्ति से इनको उत्पन्न करता है। शरीर के क्लोद को दूषित करके मूत्र रूप में बदल देता है। वैज्ञान सन्धि तथा बस्ति से उत्पन्न होने वाले मूत्र वह स्रोतों के मुख मेद और क्लोद के भारी होने से बन्द हो जाते हैं। इसलिये इनमें प्रमेह टिक जाता है। या बहुत बढ़कर असाध्य बन जाता है। क्योंकि कफ, मेद और वसा में समान है, परन्तु रक्तादि में असमान होता है; इसलिये प्रकृति विकृति होने से प्रमेह विषय बन जाते हैं या असाध्य हो जाते हैं ॥१॥

**शरीरके दस्तु श्लेष्म-मेदो-मिश्रः प्रविशन्मूत्राशयं मूत्रत्वमापद्यमानः  
श्लेष्मिकरेभिर्दर्शाभिर्गुणौरुपसूच्यते वैषम्ययुक्तः । तद्यथा—इवेत्-शीत-**  
**मूर्त-पिच्छिलाच्छ-स्तिरध-गुरु-प्रसाद-मधुर-सान्द्र-मन्दैः; अत्र येन  
गुणेनैकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसूच्यते तत्समाख्यं गौणं नामविशेषं  
प्राप्नोति ॥१॥**

शरीर की आर्द्धता कफ और मेद से मिलकर मूत्राशय में प्रवेश करती है। वहां पर मूत्ररूप होकर विषमतावाले कफ के दस गुणों के साथ मिल जाती है। कफ के दस गुण—इवेत्, शीतल, मूर्त, पिच्छिल, स्तिरध, गुरु, प्रसाद, मधुर, सान्द्र और मन्द, इनमें से एक गुण की या अनेक गुणों की प्रधानता होने से उसी के अनुसार सामान्य या विशेष नाम मिलता है ॥१॥

ते तु खलिमे दश प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति । तद्यथा—उदक-  
मेहश्चुवालिकारसमेहश्च, सान्द्रमेहश्च, सान्द्रप्रसादमेहश्च, शुक्लमेहश्च,  
शुक्लमेहश्च, शीतमेहश्च, सिकतामेहश्च, शनैर्मेहश्चाऽलालमेहश्चेति ॥१॥

ते दश प्रमेहाः साम्याः समानगुणमेदास्थानत्वात्कफस्य प्राप्तान्या-  
कियत्वाच्च ॥ १२ ॥

कफजन्य दस प्रमेह—इस प्रकार के कफजन्य प्रमेह दस प्रकार के हैं।

नाम (१) उदकमेह, (२) इन्द्रुवालिकारसमेह, (३) लालमेह, (४) लाल-

प्रशारमेह, (५) शुक्रमेह, (६), शुक्रमेह, (७) शीतमेह (८) चिकित्समेह (९) शनैर्मेह और (१०) आळालमेह ।

ये कफजन्य दस प्रमेह साथ्य हैं। क्योंकि कफ और मेद के गुण पर्व स्थान समान हैं, तथा कफ की प्रधानता होने से और कफ और मेद की चिकित्सा के समान होने से कफप्रमेह साथ्य है ॥१२॥

तत्र इलोकाः इलेघ्मप्रमेहविज्ञानार्था भवन्ति ।

कफप्रमेहो को बताने के लिये इलोक कहते हैं—

अच्छं बहुसितं शान्तं निरग्निथमुद्दोषम् ।

इलेघ्मकोपाश्चरो भूत्रमुद्दोषी प्रमेहति ॥ १३ ॥

अत्यर्थमधुरं शीतमीषत्पिच्छिलमाविलम् ।

काण्डेष्वरसर्वकाशं इलेघ्मकोपात्रप्रमेहति ॥ १४ ॥

यस्य पर्युषितं भूत्रं सान्दीभवति भाजने ।

पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सान्द्रमेहिनम् ॥ १५ ॥

यस्य संहन्यते भूत्रं किञ्चित् किञ्चित्प्रसीदति ।

सान्द्रप्रसादमेहेति तमाहुः इलेघ्मकोपतः ॥ १६ ॥

शुक्रं पिष्टनिभं भूत्रमभीक्षणं यः प्रमेहति ।

पुरुषं कफकोपेन तमाहुः शुक्रमेहिनम् ॥ १७ ॥

शुक्राभं शकमिश्रं वा सुहुर्मेहति यो नरः ।

शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं इलेघ्मकोपतः ॥ १८ ॥

अत्यर्थशीतमधुरं भूत्रं मेहति यो भृशम् ।

शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं इलेघ्मकोपतः ॥ १९ ॥

मूर्तान्मूत्रगतान्दोषानण्नमेहति यो नरः ।

सिकतामेहिनं विद्याजर्जरं तं इलेघ्मकोपतः ॥ २० ॥

मन्दं मन्दमवेगं तु कृच्छ्रं यो मूत्रयेच्छन्तः ।

शनैर्मेहिनमाहुस्तं पुरुषं इलेघ्मकोपतः ॥ २१ ॥

तन्तुबद्धिमिवाऽलालं पिच्छिलं यः प्रमेहति ।

आळालमेहिनं विद्यात्तं नरं इलेघ्मकोपतः ॥ २२ ॥

(१) उदकमेह—उदकमेह का रोगी कफ के प्रकोप के कारण बहुत स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, बिना गन्ध का, पानी के समान भूत्र करता है यह उदकमेह के लक्षण हैं ।

\* भूत्रमार्ग से शुक्र का भूत्र से पृथक् रूप में जाना यह शुक्रदोष इष्टका प्रमेह में अन्वर्याव नहीं होता ।

(२) इच्छुवालिकारसमेह—कफ के प्रकोप से अतिशय मधुर, शीतल, थोड़ा चिकाल वाला, मैला, अत्यधि, गर्जे के रस के समान मूत्र करता है। वह 'इच्छुमेह' का रोगी है।

(३) सान्द्रमेह—पहिले दिन का बरतन में रखा हुआ जिसका मूत्र, कफके कारण दूसरे दिन गाढ़ा हो जाता है, उसको 'सान्द्रमेह' का रोगी समझना चाहिये।

(४) सान्द्र-प्रसादमेह—कफप्रकोप के कारण मूत्र ऊपर जम जाये और नोचे थोड़ा-थोड़ा पतला रहे तो 'सान्द्रप्रसाद मेह' का रोगी समझना चाहिये।

(५) शुक्रमेह—कफप्रकोप के कारण जो मनुष्य शुक्र के समान, या शुक्र से मिला, मूत्र बार-बार करता है उसको 'शुक्रमेह' का रोगी समझना चाहिये।

(६) शुक्रमेह—कफप्रकोप के कारण जो मनुष्य शुक्र के समान, या शुक्र से मिला, मूत्र बार-बार करता है उसको 'शुक्रमेह' का रोगी समझना चाहिये।

(७) शीतमेह—जो मनुष्य कफप्रकोप से अत्यन्त शीतल, मीठा-मूत्र अधिकतर करता है, उसको 'शीतमेह' का रोगी जानना चाहिये।

(८) सिक्तामेह—कफप्रकोप से जब मनुष्य के मूत्र में सूख, बालू के समान छोटे छोटे कठिन कण जाने लगते हैं, तब उसे 'सिक्तामेह' का रोगी समझना चाहिये।

(९) शनैमेह—जब मनुष्य कफ के प्रकोप से धीरे-धीरे, बिना बेग के, कठिनाई से, मूत्र करता हो तब इसको शनैमेह का रोगी समझना चाहिये।

(१०) आलालमेह—जो मनुष्य कफ के प्रकोप से तारवाला या लार के समान चिकना मूत्र करता है तो इसको 'आलालमेह' का रोगी समझना चाहिये ॥ १३-२२ ॥

इत्येते दश प्रमेहाः श्लेषप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥

इस प्रकार से कफ के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले दस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है।

उच्चाम्ल-लवण-क्षार-कटुकाजीर्ण-भोजनोपसेविनस्तथा डिवितीक्ष्णा-  
तपारिन-संताप-प्रम-क्रोध-विषमाहारोपसेविनश्च तथा १५५ तकशीरसस्यै  
स्त्रियं पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ २३ ॥

तद्युक्तपितं तथेवाऽनुपूर्वीं प्रमेहानिमान् षट् द्विप्रमभिनिवृत्तं-  
यति ॥ २४ ॥

तेषामपि च पित्तगुणविशेषेण नामविशेषा पूर्ववद् युक्ता भवन्ति ।  
पृथा—क्षारमेहश्च, कालमेहश्च, नीलमेहश्च, छोहितमेहश्च, भृखिष्ठा-  
मेहश्च, हारिद्रमेहश्चेति । ते चहमिरेतेः क्षाराम्ल-लवण-कटुक-विक्षोष्योः

पितृगुणैः पूर्ववत्समन्विता भवन्ति । सर्वे एव च ते बालवाः संस्थृ-  
दोषमेदः स्थानस्वाद्विद्वोपकमत्याच्छ्रेति ॥ २५ ॥

पितृप्रमेह के कारण और सम्प्राप्ति—उष्ण, अम्ल, लबण, क्षार, वा कटु  
पदार्थों के अति सेवन करने से, अजीर्णवस्था में भोजन करने से, तीव्र  
धूप, अग्नि, सन्ताप, अम, क्रोध वा विषम भोजन के सेवन से, पितृ प्रकृतिवाले  
पुरुष में पितृ शांत्रिता से प्रकृपित हो जाता है ।

यह प्रकृपित पितृ, पूर्व वर्णित प्रकार से ही छः प्रकार के प्रमेह उत्पन्न  
करता है ।

पितृजन्य प्रमेह—छः प्रकार के प्रमेह भी, कफप्रमेह के समान ही पितृ के  
गुण के अनुसार भिन्न २ नाम वाले होते हैं । जैसे—( १ ) आरमेह, ( २ )  
कालमेह, ( ३ ) नीलमेह, ( ४ ) लोहितमेह, ( ५ ) मंजिष्ठामेह और ( ६ )  
हारिद्रमेह । ये छः प्रकार के प्रमेह पूर्ववत् क्षार, लबण, कटु, अम्ल, विश्व  
( दुर्गंथ ) और उष्ण इन पितृ के गुणों से युक्त होते हैं । ये पितृजन्य प्रमेह  
सब के सब आप्य हैं । क्योंकि पितृ और मेद इनका स्थान समीप, एवं धर्म  
परस्पर विरुद्ध हैं, एवं चिकित्सा भी परस्पर विरोधी हैं ॥ २३-२५ ॥

तत्र इलोकाः पितृप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति—

पितृ प्रमेह को बताने के लिये ये निम्न लिखित इलोक कहे हैं—

गन्धवर्णरसस्पर्शर्यथा क्षारस्तथात्मकम् ।

पितृकोपचारो मूत्रं क्षारमेही प्रमेहति ॥ २६ ॥

मसीवर्णमजस्तं यो मूत्रमुण्डं प्रमेहति ।

पितृस्य परिकोपेण तं विद्यात्कालमेहिनम् ॥ २७ ॥

चाषपक्षनिभं मूत्रं मन्दं मेहति यो नरः ।

पितृस्य परिकोपेण तं विद्यात्रीलमेहिनम् ॥ २८ ॥

विश्वं लबणमुण्डं च रक्तं मेहति यो नरः ।

पितृस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम् ॥ २९ ॥

मञ्जिष्ठारूपि योऽजस्तं भृशं विश्वं प्रमेहति ।

पितृस्य परिकोपातं विद्यान्माङ्गिष्ठमेहिनम् ॥ ३० ॥

\* पितृ का स्थान आमाशय, और मेद का वसावद्वाल स्थान आमाशय  
का एक प्रदेश है । इसकिये दोष एवं दूष्य के नित्यप्रति पात्र में रहने से आप्य  
है । पितृ को आन्त करने वाले जो मधुर, शीत आदि पदार्थ हैं, वे मेद,  
किये आप्य हैं और जो मेद के किये कटु रस आदि वस्तु पद्ध हैं, वे पितृ  
किये आप्य हैं । इसकिये चिकित्सा परस्पर विरोधी पक्ष जाती है ।

हरिद्रेष्वक्षं कदुकं यः प्रमेहति ।

पितॄस्य परिकोपात् विद्याद्वारिद्रमेहिनम् ॥ ३१ ॥

इयेते षट्प्रमेहाः पितॄप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥ ३२ ॥

( १ ) शारमेह—जो मनुष्य पितॄप्रकोप के कारण शार के समान शब्द, थर्ड रठ और स्पर्शवाला मूत्र करता है वह शारमेह का रोगी होता है ।

( २ ) काळमेह—जो मनुष्य पितॄप्रकोप के कारण स्थाही के समान काला एवं गरम मूत्र बार-बार करता हो उसको काळमेह का रोगी जानना चाहिये ।

( ३ ) नीलमेह—जो मनुष्य पितॄप्रकोप के कारण चाष ( नीलकण्ठ ) पक्षी के पंख के समान नीले रंग का एवं अम्ल मूत्र त्याग करता है, उसे 'नीलमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

( ४ ) रक्तमेह—जो मनुष्य पितॄप्रकोप के कारण दुर्गन्धयुक्त, नमकोन, गरम एवं लाल रंग का मूत्र त्याग करता है, उसको रक्तमेह का रोगी समझना चाहिये ।

( ५ ) मंजिष्ठामेह—जो मनुष्य पितॄप्रकोप के कारण मंजीठ के समान या ताम्बे के रंगवाला, दुर्गन्धयुक्त, मात्रा में बहुत, बार-बार मूत्र त्याग करता है, उसको मंजिष्ठामेह का रोगी समझना चाहिये ।

( ६ ) हारिद्रमेह—जो मनुष्य पितॄप्रकोप के कारण हल्दी के पानी के समान पीला, एवं कडुवा मूत्र त्याग करता है, उसको हारिद्रमेह का रोगी समझना चाहिये । इस प्रकार से पितॄप्रकोप के कारण होनेवाले छः प्रमेहों का वर्णन-कर दिया ॥ २६-३२ ॥

रुक्ष-कटु-कषाय-तिक्क-लघु-शीत-व्यवाय-व्यायाम-वमन-विरेचना-स्थापनशिरोविरेचनातियोग-संधारणानशनाभिघातपोद्रेग-शोक-शोणितातिसेक-जागरण-विषम-शरीरन्यासानुपसेवमानस्य तथात्मकशरीरस्यवक्षिप्रं वायुः प्रकोपमापद्यते । स प्रकुपितस्थथात्मके झरीरे विसर्पन् यदा वसामादाय मूत्रवहानि स्रोतांसि प्रतिपद्यते, तदा वसामेहमभिनिर्वर्तयति यदा पुनर्मज्जानं मूत्रवस्त्रावाकर्षति, तदा मउजमेहमभिनिर्वर्तयति; यदा लसीकां मूत्राशयेऽभिवहन्मूत्रमनुवन्धं चयोतयति लसीकातिवहृत्वाद्विक्षेपणात्तच वायोः खल्वस्यातिमूत्रप्रवृत्तिसङ्गं करोति, तदा स मत्त इव गजः श्वरत्यजसं मूत्रमवेगं, तं हस्तिमेहिनमाचक्षते; ओजाः पुनर्मधुर-स्वभावं, तथदा रौक्ष्याद्वायोः कषायत्वेनाभिसंसूच्य मूत्राशयेऽभिवहति । मधुमेहं करोति ॥ ३३ ॥

' तानिमांश्चतुरः प्रमेहाण् वातजानसाव्यानाचक्षते भिक्षः, महात्य-इत्याद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्च । तेवामस्मि च पूर्वचतुर्गुणविशेषेण जामवि-

शोषा भवन्ति । तथथा—वसामेहअ, मज्जमेहअ, हस्तिमेहअ, मधुमेहअते ॥ ३४ ॥

वातजमेह के कारण—रुक्ष, कटु, कषाय, तिक्त, लघु, शीत पदार्थों के उपयोग से छींग, व्यायाम, वमन, विरेचन, बस्तिकर्म और शिरोविरेचन इनके अतियोग से, वेगों को रोकना, अनशन ( उपवास ), चोट लगने से, घूप, शोफ, उद्देश, रक्त के अधिक निकलने से, जागने में, शरीर को विश्व अवस्था में रखने से, वातप्रकृतिवाले पुरुष में वायु तत्काल प्रकृति हो जाता है ।

( १ ) वातप्रमेह की सम्प्राप्ति—इन कारणों से कुपित वायु, वात प्रकृति आले मूलाध्य के शरीर में फैलता हुआ जब वसा के साथ मिलकर मूत्रवह स्रोतों में पहुँच जाता है, तब वसामेह को उत्पन्न करता है ।

( २ ) मज्जमेह—और जब वायु मज्जा को मूत्रवस्ति में खींचकर ले जाता है उस समय 'मज्जमेह' उत्पन्न होता है ।

( ३ ) हस्तिमेह—जिस समय वायु लसीका<sup>१</sup> से मिल कर मूत्राशय में आकर मूत्र रूप से बाहर निकलता है, उस समय लसीका की अधिकता एवं वायु की विक्षेपण शक्ति के कारण मूत्र बहुत अधिक मात्रा में आता है । तब पुरुष मस्त हाथी के समान निरन्तर वेग से रहित मूत्र बहाया करता है, इसको 'हस्तिमेह' कहते हैं ।

( ४ ) मधुमेह—शरीर में स्थित ओज का स्वभाव मधुर है । इस के साथ वायु का रुक्ष एवं कषाय गुण ( वायु अपनी शक्ति से ओज को कषाय में बदल देता है ) मिलकर जब मूत्राशय में जाता है, तब 'मधुमेह' रोग उत्पन्न होता है ।

सब वातजमेह असाध्य—वैदा लोग इन चार वातजन्य प्रमेहों को असाध्य मानते हैं । क्योंकि मज्जा आदि सार रूप धातुओं का शय हो जाता है और चिकित्सा विपरीत पक्ती है, क्योंकि वायु के लिये ज्ञिष्ठ आदि पदार्थ पद्ध्य हैं, यही मेद के लिये अपद्ध्य और जो रुक्ष आदि मेद के लिये पद्ध्य हैं वह वायु के लिये अपद्ध्य हैं । इनके भी नाम पूर्व की भौति गुणविशेष को लेकर हैं । यथा—१. वसामेह, २. मज्जमेह, ३. हस्तिमेह और ४. मधुमेह ॥ ३३-३४ ॥

तत्र इडोका वातप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति—

वातप्रमेहों को विशेष रूप से कहने के लिये ये निम्नलिखित श्लोक हैं—

१ कसीका का अर्थ मांस की स्वच्छा के अन्दर रहने वाके अलीय मांग जैदा कहेंगे—‘कम्मात्स्वगन्तरे उदकं तद्वसीकाशद्वं छमते ।’

बसामिश्रं बसाभं च मुहुर्मेहति यो नरः ।  
 बसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३५ ॥  
 मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः  
 मज्जमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३६ ॥  
 हस्ती मत्त इवाजलं मूत्रं क्षरति यो भृशम् ।  
 हस्तमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३७ ॥  
 कषायमधुरं पाण्डुं रुक्षं मेहति यो नरः ।  
 वातकोपादसाध्यं तं प्रतीयान्मधुमेहिनम् ॥ ३८ ॥

इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥ ३९ ॥

( १ ) बसामेह—जो मनुष्य वात के प्रकोप के कारण बसामित्रित या बसा के समान रंगवाला मूत्र बार-बार करता है, उसको बसामेह का रोगी जानना चाहिये, यह रोग असाध्य है ।

( २ ) मज्जमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मज्जा से युक्त मूत्र बारबार ल्याग करता हो, उसको मज्जमेह का रोगी जानना चाहिये । यह भी रोग असाध्य है ।

( ३ ) हस्तमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मस्त हाथी की भाँति एक समान मूत्र, निरन्तर और बहुत अधिक करता है, उसको हस्तमेह का रोगी कहते हैं, यह भी असाध्य है ।

( ४ ) मधुमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से कषाय, मधुर, पाण्डुवर्ण और रुक्ष मूत्र ल्याग करता है उसको मधुमेह का रोगी जानना चाहिये । यह भी असाध्य है । ये चार प्रमेह वायु के प्रकोप के कारण होते हैं ॥ ३५-३९ ॥

त पर्वं त्रिदोषप्रकोपनिमित्ता विश्वितिः प्रेहा व्याख्याता भवन्ति ४०

इस प्रकार से तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण बीस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है ॥ ४० ॥

त्रयस्तु दोषाः प्रकुपिताः प्रमेहानभिनिर्वर्तयिष्यन्त इमानि पूर्व-  
 रूपाणि दर्शयन्ति । तथादा—जटिलीभावं केशेषु, माधुर्यमास्ये, करपा-  
 दयोः सुप्रतादाहौ, सुखतालुकण्ठशोषं, विपासां, आलस्यं, मलं च काये,  
 कायच्छिद्रे षूपदेहं, परिदाहं, सुप्रता चाङ्गेषु, षट्पद-पिपीलिकाभिन्ना  
 शरीरमूत्राभिसरणं, मूत्रे च मूत्रदोषान्, विश्वं शरीरगन्धं, तन्द्रा च  
 हाळमिति ॥ ४१ ॥

१ का पूर्वस्य—तीनों दोष कुपित होकर प्रमेह रोग को उत्पन्न करते  
 लम्य ये पूर्वस्य दिलाई देते हैं । यथा—शालों का उच्छव काना,

मुख में मिठास, हाथ-पीढ़ी में शून्यता और जलन, मुख, बाढ़ और कण्ठ में शुक्रता, प्यास का लगना, आस्थ, कार्य करने में अविक्षम, शरीर में मल का जमना, शरीर के रोम-किन्ध्रों का बन्द हो जाना, अंयों में जलन एवं शून्यता, शरीर या मूत्र पर भौंरों वा चिउंटी का चलना, मूत्र में मूत्र के दोष शरीर से दुर्गन्ध आना, तथा हर समय आंसों में नींद या तन्द्रा ( भारीपन ) रहता है ॥ ४१ ॥

**उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणाः—तृष्णातीसार-ज्वर-दाह-दौर्बल्यारोच-काविपाकाः पूति-मासि-पिङ्काळजी-विद्रव्यादयश्च तत्प्रसंगाद्विन्ति ॥ ४२ ॥**

तत्र साध्यान् प्रमेहात् संशोधनोपशमनैर्यथार्हमुपपाद्यन्ति-कित्सेदिति ॥ ४३ ॥

प्रमेह के उपद्रव—प्रमेह के रोगियों में ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं । यथा-तृष्णा, प्यास, अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अफ्चि, अविपाक, अपचन, मांस में दुर्गन्धयुक्त पिङ्कालें, अलजी, विद्रवि आदि ये सब उपद्रव प्रमेह के कारण होते हैं ।

**चिकित्सा—इन सब प्रमेहों में जो प्रमेह साध्य हों, उनकी यथायोग्य रीति से संशोधन या सशमनविधि से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४२-४३ ॥**

**भवन्ति चात्र—गृभूमर्घ्यवहार्येषु स्नानचक्कमण्डिषम् ।**

**प्रमेहः क्षिप्रमर्घ्येति नीड्द्रुमभिवाणजजः ॥ ४४ ॥**

**मन्दोत्साहमतिस्थूलमर्तिस्नग्धं भाशाशनम् ।**

**मृत्युः प्रमेहरूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति ॥ ४५ ॥**

**यस्त्वाहारं शरीरस्य धातुसाम्यकरं नरः ।**

**सेवते चिविधाश्चान्याश्चेष्टाः स सुखमश्नुते ॥ ४६ ॥**

प्रमेह किसको होता है—धोउले की ओर जिस पक्षी जल्दी पहुंच जाता है, उसी प्रकार खानेव्वने के लालची, स्नान एवं चलने-फिरने से द्वेष करने वाले पुरुष को प्रमेह बहुत शीघ्र लग जाता है । मन्द उत्साहवाले निरस्ताही, अतिस्थूल, अत्यन्त स्निग्ध शरीर वाले एवं बहुत खाने वाले पुरुष को मृत्यु प्रमेह रूप लेकर चली आती है । जो मनुष्य शरीर के चातुर्थों को समान करने वाले आहार तथा अन्य प्रकार की चेष्टाओं ( विहार ) का सेवन करता है, वह सुख भोगता है ॥ ४४-४६ ॥

**तत्र श्लोकाः—हेतुव्यापिविशेषाणां प्रमेहाणां च कारणम् ।**

**दोषधातुसमात्येगो रूपं विविष्येत च ॥ ४७ ॥**

वृक्षश्लेष्मकुरा वस्मात्प्रेहाः बद्धं च पितजाः ।  
यथा करोति वायुश्च प्रमेहीश्वतुरो वडी ॥ ४८ ॥  
साध्यासाध्यविशेषात् पूर्वरूपाण्युपद्रवाः ।  
प्रमेहाणां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् ॥ ४९ ॥

इस प्रमेह-अध्याय में हेतु, व्याख्या, प्रमेहों के कारण, दोष एवं दूष्य का वर्णन, इनके नाना रूप, दस प्रकार कफजन्य, छः प्रकार के पितजन्य और चार प्रकार के वातजन्य प्रमेह, उनके साध्य-असाध्य भेद, प्रमेहों के पूर्वरूप, उपद्रव और क्रियासूत्र ये सब विषय कह दिये हैं ॥ ४७-४९ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने प्रमेह-  
निदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पञ्चमोऽध्यायः

अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे कुष्ठनिदान का व्याख्यान करते हैं । जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ।

सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिविकृतिभापभानि भवन्ति । तदथा—  
त्रयो दोषा बातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणविकृताः । दूष्याश्च शरीरधात-  
वस्त्वङ्-मास-शोणित-लसांकाश्वतुर्धां दोषोपधातविकृताः; इत्येवत्सप्तानां  
सप्तधातुकमेवंगतमाजननं कुष्ठानाम्, अतः प्रभवाण्यभिनिर्वर्तमानानि  
केवलं शरीरमुपतपन्ति ॥ ३ ॥

शरीर के अन्दर सात द्रव्य विकृत होकर कुष्ठ रोग के कारण बनते हैं ।  
यथा—प्रकोपकारक पदार्थों के संयोग से बात, पित्त और कफ ये तीन दोष  
विकृत होकर, त्वचा, मांस, रक्त और लसीका इन चार दूष्य ( धातु तथा उप-  
धातुओं ) को अपने संसर्ग से विकृत करते हैं । इस प्रकार से ये सात द्रव्य  
विकृत होकर कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं । १ इन सातों धातुओं से उत्पन्न

१. वीर्तप और कुष्ठ रोग में दोष और दूष्य एक समान ही हैं । इस समानता पर भी वीर्तप फैलाने वाला तथा रक्त का प्रधान दोष इसमें रहता है ।

अकेली और उब चिकित्साओं के समान है । रक्तजन्य कण्ठ, पूर्य, त्वक्-शून्यता, पसीने का न आना होता है जो वीर्तप में [ भेद है ।

कुष्ठ सात धातुओं में अग्रना प्रभाव प्रकट करता हुआ सम्पूर्ण शरीर को पीड़ित करता है ॥३॥

न च किञ्चिदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोपनिभिर्त्ता, अस्ति तु खलु समान-  
प्रकृतीनामपि सप्तानां कुष्ठानां दोषाशाश्व-विकल्प-स्थान-विभागेन वेदना-  
वर्ण-संस्थान-प्रभाव-नाम-चिकित्सित-विशेषः ॥ ४ ॥

कोई भी कुष्ठ एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होता । सातों प्रकर  
के कुष्ठों में प्रकृति के समान होने पर दोष, अंग, बल, विकल्प तथा  
स्थान भेद से, वेदना,<sup>१</sup> रंग, स्थिति, प्रभाव एवं नाम से चिकित्सा में भेद  
आजाता है ॥ ४ ॥

स सप्तविधोऽष्टादशविधोऽपरिसंख्येयविधो वा भवति । दोषा  
हि विकल्पनैर्बिकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान्, अन्यत्रासाध्यभा-  
वात्; तेषां विकल्प-विकार-संख्यानेऽतिप्रसंगमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव  
कुष्ठविशेषमुपदेश्यामः ॥ ५ ॥

इस प्रकार से कुष्ठ सात प्रकार का, अठारह प्रकार का अथवा असंख्य  
प्रकार का हो जाता है ।

कुष्ठ के सात भेद—दोष अनेक प्रकार की विकल्पनाओं के कारण  
मिन्न होते हुए नाना प्रकार से नाना रोग उत्पन्न कर देते हैं । अर्थात्  
व्याघ्रि, करण और दोष इनके भेद से कार्यरूप व्याघ्रि के भी बहुत से भेद  
हो जाते हैं । इसलिये दोषभेद से उत्पन्न भेदों को असाध्य भेद में नहीं गिना  
जाता । अतः इन कुष्ठों के भेदों की गणना को बहुत विस्तृत जान कर यहां  
पर केवल सात प्रकार के कुष्ठों का उपदेश करेंगे ॥५॥

इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादीश्चतुरः प्रदूषयत्सु वातेऽ-  
धिकतरे कापालकुष्ठमभिनिर्वर्तते, वित्ते त्वौदुम्बरं, श्लेषमणि मण्डल-  
कुष्ठं, वातपित्तायोर्श्वर्यजिह्वा, पित्तश्लेषमणोः पुण्डरीकं, श्लेषमाहतयोः;  
सिंहम, सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकमभिनिर्वर्तते; इत्येवमेष सप्तविधः  
कुष्ठविशेषो भवति ॥ ६ ॥

स चैष भूयस्तरमतः प्रवृत्तौ विकल्प्यमानायां भूयसी विकारवि-  
कल्पसंख्यामापयते ॥ ७ ॥

१. वेदनाविशेष—कापालं तोदवहुक्तम् । वर्णविशेष—काकणन्ति कावर्णं  
संस्थान—श्वस्यविहारं संस्थानम् । प्रभाव—साध्यताऽसाध्यतादि । नामविशेष  
कापालः,—ये उदाहरण हैं ।

वातादि दोष के अनुपार कुष्ठ—वात आदि तीनों दोष प्रकृष्टित होकर जब स्वचा, मांस, रक्त और लड्डीका इन चारों को दूषित करते हैं, तब कुष्ठ-रोग उत्पन्न होता है। इनमें वात की अधिकता से कापालकुष्ठ, रिचा की अधिकता से औदुम्भर-कुष्ठ, कफ की अधिकता से मण्डक-कुष्ठ, वात-पित्त की अधिकता से शूष्यजिह्वा-कुष्ठ, पित्त-कफ की अधिकता से पुण्डरीक-कुष्ठ, कफ-वायु की अधिकता से सिघ्ध-कुष्ठ होता है और सब दोषों की वृद्धि होने से काकण्ड-कुष्ठ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सात कुष्ठ उत्पन्न होते हैं।

यहो सात प्रकार के कुष्ठ प्रकृति के तर-तम अर्थात् न्यूनाधिक मेद के कारण नाना प्रकार के कुष्ठों के असंख्य मेद उत्पन्न कर देते हैं ॥७॥

तत्रेदं सर्वकुष्ठनिवानं समासेनोपदेश्यामः । शीतोष्णव्यत्यासमननु-  
पूर्वोपसेवमानस्य तथा संर्तपणापतर्पणाद्यवहार्यव्यत्यासं च, मधु-फा-  
णित-मस्त्य-मूल-काकमाचीश्च सततमतिमात्रमध्यजीर्णेऽन्ने समभ्रतश्चि-  
लिचिम्बं च पयसा, हायनक-यवक-चीनकोहालक-कोरदूषप्रायाणि चामानि  
श्चीर-दधि-तक-कोल-कुलत्थ-माषातसी-कुसुरभ-परुष-स्नेहवन्ति, एतैरेवा-  
तिमात्रं सुहितभक्षितस्य च व्यवाय-न्यायाम-संतापानत्युपसेवमानस्य,  
अतिभयश्रमसंतापोपहतस्य च सहसा शीतोदकमवतरतो, विद्गंधं  
चाऽऽदारजातमनुक्षित्वा विदाहीन्यद्यवहरतः, छर्दि च प्रतिष्ठनतः,  
स्नेहाश्रातिचरतो युगपत् त्रयो दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, त्वगाद्यश्वत्वारः  
शथिल्यमापद्यन्ते, तेषु शिथिलेषु त्रयो दोषाः प्रकृष्टिताः स्थानमभिगम्य  
संतिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्णान्यभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ८ ॥

कुष्ठ रोग के कारण—अब संक्षेप से सब कुष्ठों का निदान कहते हैं। शीत और उष्ण के परिवर्तन से, शीत और उष्ण के परिव्याग से ( अर्थात् उष्ण सेवन करके सहसा शीत सेवन या इसके विपरीत तथा अनुचित काळ में शीतोष्ण सेवन से ), संर्तपण एवं अरतर्पण दोनों के उल्ट केर से, मधु, फाणित ( राद ), मछली, मूली, काकमाची ( मकोय ), इनके निरन्तर या अधिक मात्रा में खाने से, अजीर्ण में भोजन करने से, दूष के साथ चिलचिम-मछली के उपयोग से, हायनक, यवक, चीनक, उहालक, कोद्रव आदि कुचान्धों के बहुत खाने से, दूष, दही, छाड, बेर, कुलयी, उड्ढ, अलसी, धनिया, इनके तेल में तैयार किये पदार्थों के अतिसेवन से, मैथुन, व्यायाम और सन्ताप के उत्तरण से, यम, अम और सन्ताप से युक्त होने पर एकदम उड़डे पानी से ( उण्डी वायु के सर्व से भी ), विदाहकारक पदार्थों का उभयन-

न करके पुनः विदाहश्चरक पदार्थों के साने है; कमज़ के बेग को रोलने से, स्लिंग पदार्थों के अति भोजन से, तीनों दोष एक साथ में कुप्रिय होते हैं, तथा त्वचा, रक, मांस और लसीका चारों धातु विशिष्ट होते हैं। इन विशिष्ट धूएँ धातुओं में कुप्रिय दुएँ दोष किसी एक मात्र में स्थान पाकर बर कर देते हैं। वहाँ पर रहकर त्वचा आदि को दूषित कराकर कुष्ठरोग उत्पन्न करते हैं ॥८॥

**तेषामिमानि** स्खलु पूर्वरूपाणि । तथथा—अस्वेदनमतिस्वेदनं पाक्ष्यमतिश्वस्थणता वैवर्ण्यं कण्ठूर्निस्तोदः सुप्रसापरिदाहः परिहर्षो लोमहर्षः स्खरत्वमुष्णायनं गौरवं इवयथुर्विसर्पागमनमभीक्षणं कायच्छिळ-द्रेष्पपदेहः पक्ष-दग्ध-दष्ट-क्षतोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना स्वल्पानामपि च ब्रणाना दुष्टिरसंरोहणं चेति कुष्ठपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ९ ॥

कुष्ठरोग के पूर्वरूप ये हैं—जैसे पसीने का सर्वथा न आना या बहुत पसीना आना, त्वचा में कर्कशता या कठोरता, अथवा बहुत चिकनापन, रंग परिवर्तन, खाज, सूई तुमने की सी वेदना, स्पर्शशान की शून्यता, जलन, रोमांच, इर्ष, रक्षता, उष्णता, भारीपन, सूजन, वीरपर्प रोग का होना, शरीर के छिद्रों में बार बार लेप सा होना, अवरोध, पक्कने या जलने या कटने या चोट लगने या गिरने पर बहुत दर्द होना, योड़े से ब्रण का भी संक्रान्त होना या शीघ्र न भरना, ये कुष्ठ के पूर्वरूप हैं ॥१०॥

**तेष्योऽनन्तरं** कुष्ठानि जायन्ते । **तेषामिदं** वेदना-वर्ण-संस्थान-प्रभाव-नाम-विशेष-विज्ञानं भवति । तथथा—रुक्षारुणपरुषाणि विष-मबिसुतानि स्खरपर्यन्तानि तनून्युद्वृत्ताबहिस्तनूनि सुप्रसापनिहृषितलो-माचितानि निस्तोदबहुलान्यरूपकण्ठ-वाह-पूय-लसीकान्याशुगतिसमु-त्थानान्याश्चेदीनि जन्तुमन्ति कुष्णारुणकपालवर्णानि च कापालकुष्ठा-नीति विद्यांत् ॥ १० ॥

उनके पीछे कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। इसके आगे इनके वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम विशेष वर्णन करते हैं ।

**कापाल-कुष्ठ**—स्ख, अदृश वर्ण, कर्कश, विषम, फैला, तथा किनारों पर स्तरखर, बाढ़ा पाश्वं से पतला तथा योड़ा उभरा हुआ, पतला, फैला, सीधे हुये के समान सोया, बहरा ( स्पर्शशान शून्य ), रोमांच सहित, अृतिशय तुमने की वेदनाकाले, योड़ी, खाज, दाह, पूय, लसीका युक्त; शीघ्रता उत्पन्न होनेवाले, शीघ्र फटनेवाले, कीड़ेवाले, काढ़े खाल, कापाल वर्ण के, को ‘कापाल कुष्ठ’ कहते हैं। कपाल-मिहो का ठोकरा, उत्तर कुमान ॥ १ ॥

वाङ्मयिः तात्र-चर-नोम-राजीविरचनद्वानि बहुत्तरं चक्र-पूर्व-उसीकानि कण्ठ-क्लेद-कोश-दाह-पाकवस्थाश्वभिसुखानभेदीनि सर्वंतावकृमीणि पक्षेषुम्बरफलवर्णान्युद्गवरकृष्णानीति विद्यात् ॥ ११ ॥

उदुम्बर-कुष्ठ—जो कुष्ठ ताम्बे के समान या ताम्बे के समान रंगाढ़े तथा कर्कश रोमवाले; बहुत रक्त-पूर्व और लसी का से युक्त, जिन में स्वाज, क्लेद ( स्वाव ), कोश ( गबना ), दाह एवं पाक हो, शीघ्रता से उत्पन्न होनेवाले एवं पक्षेषुवाले, जिनमें ताप एवं कृमि हों, जिनका रंग पके हुए गूलर के समान हो उनको 'उदुम्बर कुष्ठ' जानना चाहिये ॥ ११ ॥

स्त्रिघानि गुरुण्युत्सेधवन्ति इलक्षणस्थिरपीनपर्यन्तानि सुक्लरक्त-वभासानि शुक्लरोमराजीसन्तानार्णन बहुल-बहुल-शुक्र-पिच्छुल-स्वावाणि बहु-क्लेद-कण्ठ-कृमीणि सर्वगतिसमुत्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डल-कुष्ठानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

मण्डल कुष्ठ—जो कुष्ठ स्त्रिघ, भारी, ऊंचाईवाले, चिकने, स्थिर, किनारों से मोटे, सफेद या लाल रंग के, सफेद बालों ( रोम ) से व्यास, जिनमें बहुत, गाढ़ा एवं सफेद तथा चिकना स्वाव होता हो, जो बहुत स्वाव, स्वाज तथा कृमि से युक्त हों, जिनकी गति और उत्पत्ति धीरे २ होती हो, जिनका आकार चक्र के समान गोलाकार हो, उनको 'मण्डलकुष्ठ' कहते हैं ॥ १२ ॥

परष्पाण्यरुणवर्णानि बहिरन्तःश्यावानि नीढ़-पीत-तात्रावभासान्या-शुगतिसमुत्थानान्यल्प-कण्ठ-क्लेद-कृमीणि दाह-भेद-निस्तोद-पाक-बहुलानि शुक्रोपहसोपमानवेदनान्युत्सन्नमध्यानि तनुपर्यन्तानि कर्कशपिण्डका-चिरानि दीर्घपरिमण्डलानि शूष्यजिह्वाकृतीनि शूष्यजिह्वानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

शूष्यजिह्वा-कुष्ठ—जो कुष्ठ बाहर के पार्श्व में खर्खर तथा लाल रंग के, अन्दर से काढ़े रंग के, जिनमें नीढ़, पीले, ताम्बे के रंग की काँई दीलती हों, जो किं शीघ्रता से बढ़ते या उत्पत्ति वाले हों, जिनमें कण्ठ, कृमि और क्लेद कम हों, जिनमें दाह, फटना, वेदना तथा पाक बहुत हों, जिनमें शूक ( जल शूक, कृमि ) के लगाने के समान पीड़ायें हों, बीच से उठे हुए न हों, किनारों से पतले,

स्पर्शवाली पुनितोऽदारा चारों ओर से घिरे हों, वहे २ चक्रेवाले

जीव के समान आकृतिवाले कुष्ठों को शूष्यजिह्वाकुष्ठ जानना।

शुक्ररक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजीसंततान्युत्सेषवन्ति  
बहु-बहुल-रक्त-पूय-लसीकानि कण्ठ-कुमि-दाह-पाकवन्त्याशुगतिसमुत्था-  
नभेदीनि पुण्डरीकपलाशसंकाशानि पुण्डरीकाणीति विद्यात् ॥ १४ ॥

पुण्डरीककुष्ठ—सफेद या लाल रंग की चमक वाले, किनारों पर लाल,  
लाल रोम ( बालो ) से व्यास, त्वचा से ऊपर उठे हुए न हों, गाढ़ी पूय ( पीप ),  
रक्त एवं लसीका बहुत हो, खाज, कुमि, दाह और पाकयुक्त, जल्दी बढ़ने एवं  
उत्पन्न होने वाले, शीघ्रभेदी, कमल के पत्तों के समान आकारवाले कुष्ठों को  
'पुण्डरीक-कुष्ठ' कहते हैं ॥ १४ ॥

पृथग्विशीर्णवहितन्त्रन्त्यन्तःस्मित्यानि बहून्यल्पवेदनान्यल्प-क-  
ण्ठ-दाह-पूय-लसीकानि लघुसमुत्थानान्यल्पभेदकुमीण्यलालु-पुष्प-संका-  
शानि सिध्मकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १५ ॥

सिध्मकुष्ठ—जो कुष्ठ बाहर से कठिन, लाल वर्ण, किनारों से कटे-फटे,  
अन्दर से लिख, जिनमें सफेद या लाल रंग की चमक हो, जो कि बहुत  
अधिक हो। जिनमें पीड़ा कण्ठ, दाह, पूय, लसीका कम हो, जिनकी उत्पत्ति धीरे-  
धीरे हो, जो अल्पभेदी हों, जिनमें कुमि थोड़े हों और जिनका रंग दूधिया, धीया  
कदूक के फूल के समान हो उनको 'सिध्म कुष्ठ' कहते हैं ॥ १५ ॥

काकणनितकावर्णन्यादौ पश्चात्सर्व-कुष्ठ-लिङ्ग-समन्वितानि पापीयसा-  
सर्वकुष्ठलिङ्गसंभवेनानेकवर्णानि काकणकानीति विद्यात्, तान्यसा-  
ध्यानि साध्यानि पुनरितराणि ॥ १६ ॥

काकणक-कुष्ठ—जिन कुष्ठों का रंग प्रथम लाल रत्ति के समान हो और  
पछे से उनमें समूण कुष्ठों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनको 'काकणक  
कुष्ठ' कहते हैं। ( इनमें अनेक रंग उत्पन्न हो जाते हैं, ) ये कुष्ठ पापी  
मनुष्यों को होते हैं। इनमें सब कुष्ठों के लक्षण होने से अनेक प्रकार के रोग  
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १६ ॥

तत्र यदसाध्यं, तदसाध्यतां नातिवर्ते, साध्यं पुनः किञ्चित्साध्य-  
तामतिवर्ते कदाचिदपचारात्। साध्यानीह षट् काकणकवर्ज्यान्य-  
चिकित्स्यमानान्यपचारतो वा दाष्ठं भिष्यन्दमानान्यसाध्यतामुपयानित १७

साध्य-असाध्य मेद—इन कुष्ठों में से कुछ कुष्ठ साध्य हैं, और कुछ कुष्ठ  
असाध्य हैं, वे कभी अच्छे नहीं होते। परन्तु जो साध्य हैं, वे अपचार और  
मिथ्या आहार-विहार के कारण असाध्य हो जाते हैं। काकणक-कुष्ठ को ओड़हर  
षेष छः कुष्ठ भी चिकित्सा के न करने से अथवा दोषों के बढ़  
असाध्य हो जाते हैं ॥ १७ ॥

साध्यानामपि इपेक्ष्यमाणानमेवा स्वरूप-मास-शारित-क्षीका-को-  
थ-क्लोद-न्स्वेदजाः कृमयोऽभिमूल्छन्ति । ते भक्ष्यन्तस्त्वगादीन् दोषाश्च  
पुनर्दूचयन्त इमानुपद्रवान् पृथक्पृथगुल्पादयन्ति ।

साध्य कुछों में भी उपेक्षा करने से त्वचा, मांस, रक्त, क्षीका में सड़ना,  
स्वाद और परीने से कीके उत्पन्न होजाते हैं । ये कृमि त्वचा आदि को खाते  
हैं, और बात आदि दोष और अधिक दूषित होकर नीचे लिखे उपद्रवों को  
पृथक् पृथक् रूप में उत्पन्न करते हैं ।

तत्र बातः इयावारुणवर्णपञ्चतामपि च रौक्ष्य-शूल-शोष तोद-बेपथु-  
न्यथा-हर्ष-संकोचाऽयास-स्तम्भ-सुस्पि-भेद-भज्जान, पित्तं पुनर्दूह-स्वेद-  
क्लेद-कोथ-कण्ठ-स्वाव-पाक-रागान्, श्लेष्मा त्वस्य इवैत्य-शैत्य-स्थैर्य-  
कण्ठ-गौरवोत्सेषोपस्नेहोपलेपान्, कृमयस्त्वगादीश्वरुः शिराः स्नायूनि  
मांसान्यस्थीन्यपि च तरुणानि खादन्ति ॥ १८ ॥

अस्यामवस्थायामुपद्रवाः कुस्तिनं स्तुशन्ति । तथाथा—प्रस्त्रवण-  
मङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानीं तृणा-न्वरातोसार-दाह-दौर्बल्यारोचका-  
विपाकाश्च, तद्रिघमसाध्यं विद्यादिति ॥ १९ ॥

उपद्रव—वायु के कोप के कारण रंग लाल, काला, कर्कशता, स्वष्टता, शूल  
चुम्बने की सी बेदना, बींधने का सा अनुभव, रोमाच, हर्ष, कम्प, संकोच,  
अम, स्तम्भ, अंग का सो जाना, मेदन या भंग अथोत् अंगों का दूटना—ये  
उपद्रव होते हैं । पित्तप्रकोप के कारण दाह, पर्सीना, डिज्जता, सड़ना, खाज,  
स्वाद, पकना इत्यादि उपद्रव होते हैं । कफ के प्रकोप के कारण, श्वेत वर्ण,  
शीतकाता, खाज, स्थिरता, मारीपन, उमार, चिकात, उपलेप होना ये—  
उपद्रव होते हैं ।

इस प्रकार से उत्पन्न कीके त्वचा आदि चार धातुओं को तथा शिरा,  
स्नायु, मांस एवं कोमल अस्थियों (जैसे नाक की कोमल अस्थि) को  
खाने लगते हैं । इस अवस्था में कुच्छरोगी को निम्न लिखित उपद्रव धेर लेते  
हैं । यथा—स्वाव का बहना, अंगों का फटना या दूटना, अंगों का गिरना, तृणा,  
ज्वर, अतिसार, दाह, निर्बलता, अरचि, अविपाक ये उपद्रव होते हैं । इस  
अवस्था में रोग अवाध्य हो जाता है ॥ २०-२१ ॥

चात्र—साम्योऽयमिति यः पूर्वं नरो रोगसुपेक्षते ।

स किञ्चित्कालमासाद्य मृत एवावबुद्ध्यते ॥ २० ॥

यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु च ।

भेषजं कुरुते सम्बद्धं स चिरं सुखमशुते ॥ २१ ॥

यथा स्वल्पेन यन्नेन छिद्यते तदपस्तवः ।

स एवातिप्रवृद्धस्तु छिद्यते तिप्रथलतः ॥ २२ ॥

एवमेव विकारोऽपि तदृणः साध्यते सुखम् ।

विवृद्धः साध्यते कृच्छ्रादसाध्यो वाऽपि जायते ॥ २३ ॥

जी मनुष्य रोग के आरम्भ में 'साध्य' है ऐसा समझ कर उपेक्षा कर देता है, वह थोड़े समय पीछे ही मुर्दा होकर ( असाध्यावस्था में आकर ) ही चेतता है, और रोग के असाध्य होने पर ही उसकी नींद दूढ़ती है । जी मनुष्य-रोग के आक्रमण से पूर्ण ही या रोग की नवीन अवस्था में ही आैष उपचार कर लेता है, वह देर तक सुख ( जीवन ) का उपभोग करता है । जिस प्रकार थोड़े से परिश्रम से ही छोटा वृक्ष काटा जा सकता है, वही वृक्ष बड़ा होने पर बहुत परिश्रम से कटता है, इसी प्रकार नवीन अवस्था में रोग भी मुगमता से अच्छा हो जाता है और वही रोग बढ़ने पर कठिनाई से अच्छा होता है, अथवा असाध्य रूप में बदल जाता है ॥ २०-२३ ॥

तत्र स्फोकाः—संख्या द्रव्याणि दोषात् हेतवः पूर्वलक्षणम् ।

रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ताः कुष्ठानां कौष्ठिके पृथक् ॥ २४ ॥

इस कुष्ठनामक अध्याय में कुष्ठी की संख्या, द्रव्य, हेतु, दोष, पूर्वरूप, और उपद्रव ये सब विषय पृथक् पृथक् कह दिये हैं ॥ २४ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने कुष्ठनिदानं  
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

### षष्ठोऽध्यायः ।

अथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह मगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब शोष के निदान की व्याख्या करते हैं, ऐसा मगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ १-२ ॥

इह खलु चत्वारि शोषस्याऽयतनानि । तत्त्वा—साहसं, संवृत्तं  
क्षयो, विषमाहनमिति ॥ ३ ॥

शोष रोग के चार कारण होते हैं क्षेत्रे—( १ ) शाहस, ( २ ) संवृत्त,

( मह मूर्त्तादि के उपस्थित बैगो को रोकता ), ( ३ ) वाय, ( ४ ) विषमाश्वम् ( विषम गुणों वाले अलों का भोजन करना ), ॥ ३ ॥

तत्र यदुकं साहसं शोषस्याऽऽवतनमिति तद्नुव्याख्यामासः—थदा पुरुषो दुर्बलो हि सत्र बलवता सह विगृहाति, अतिमदता वा वनुषा व्यायाच्छति, जलपति वाऽन्यतिमात्रं, अतिमात्रं वा भारमुद्दृश्यति, अप्सु वा मध्ये चातिदूर्तं, उत्सादनपदाधातने वाऽतिप्रणाडमासेवते, अति-प्रकृष्टं वाऽध्यानं द्रुतमभिवतति, अभिहन्यते वाऽन्यद्वा किञ्चिदेवं विषम विषमतिमात्रं वा, व्यायामजातमारभते; तस्यातिमात्रेण कर्मजा उरः क्षण्यते ॥

साहस शोषरोग का कारण है, यह जो कहा है, इसकी व्याख्या करेंगे— जब कोई दुर्बल पुरुष अपने से बलवान् व्यक्ति के साथ कुशली आदि करता है, बहुत बड़े घनुष को तानता है, अथवा बहुत अधिक बोलता है, बहुत अधिक बोक्ष को बढ़ाता है, पानी में बहुत तैरता है, बहुत ऊंचा लम्बा कूदता है, जोर से भूमि पर पांव पटकता है, या बहुत लम्बे या कठिन रास्ते को बहुत तेज़ी से पार करता है, अथवा ऊंचेनीचे या किसी मारी दुःखह कार्य द्वारा चोट खाता है या और कोई ऐसा ही विषम या बहुत अधिक व्यायाम करता है अथवा आरम्भ किये कार्य को बहुत अधिक करता है; इससे उत्पत्ति की आती फट पड़ती है ॥

तस्योरोऽक्षरुपुसवते वायुः, स तत्रावस्थितः इलेघ्माणमुरःस्थमुपसं-सूज्य शोषयत् विहरत्यूर्ध्वमधस्तियर्क् च । योऽशस्तस्य शरीरसंघीना-विशिति तेनास्थ जूङ्माऽङ्गमर्दीं ज्वरओपजायते, यस्तु इदयमाविशिति तेनास्थ वर्धों भित्तिये, यस्तु इदयमाविशिति तेन रोगा भवन्त्युरस्याः, यो रसनां तेनास्थारोचकञ्च, यः कण्ठं प्रपद्यते, कण्ठस्तेनोद्भवस्यते स्वरक्षावसीदति, यः प्राणवहानि स्नोतास्यन्वेति तेन इवासः प्रतिश्या-यम्भोपजायते, यः शिरस्यविष्टुते शिरस्तेनोपहन्यते ॥३॥

इन बावों में वायु प्रवेश कर जाता है । वायु प्रवेश करके आती में स्थित कफ के साथ मिलकर इसको सुखाकर ऊपर, नीचे या दियंक् दक्षा में स्थर्य गमन करने लगता है । इस वायु का जो अंश शरीर की सन्धियों में जाता है,

अम्भाईं, अंगों का दूटना और ज्वर उत्पन्न हो जाता है और जो अंश । में पहुँचता है उससे मह पतला जाता है, जो भाग इदय में पहुँचता । इदय ( आती ) में अल्प रोग होते हैं । जो जीम में पहुँचता है उससे

अरुचि, जो भाग कण्ठ में पहुँचता है, उससे कण्ठ नष्ट होता तथा स्वरभंग हो जाता है, जो भाग प्राणवह स्रोतों में पहुँचता है उससे श्वास और प्रतिश्वाय उत्पन्न होते हैं और जो भाग शिर में पहुँचता है उससे शिरोरोग होता है ॥३॥

ततः क्षणनाच्चैवोरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कण्ठस्य चोद्द्रवं-  
सनात्कासा। सततमस्य संजायते, स कासप्रसंगादुरसि क्षते शोणितं  
ष्टीवति, शोणितागमाद्वास्य दीर्घन्ध्यमुपजायते, एवमेते साहसप्रभवाः  
साहसिकमुपद्रवाःः सृशन्ति । ततः सोऽप्युपशेषणैरेतैरुपद्रवैरुपद्रुतः  
श्नैः शनैरुपशुद्ध्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमान् बलमात्मनः समीक्ष्य  
तदनुरूपाणि कर्माण्यारभेत कर्तुं, बलसमाधानं हि शरीरं, शरीरमूलश्च  
पुरुष हति ॥ ४ ॥

इसके अनन्तर छाती में ब्रण होने और वायु की विषम गति होने से तथा कण्ठ के खर्खर बनने से निरन्तर कास ( खासी ), उत्पन्न हो जाता है । कास के होने से छाती में ब्रण बनने से थूक में रक्त आ जाता है, रक्त के आने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार से साहस करने वाले पुरुष को साहस से उत्पन्न हांसे वाले उपद्रव घेर लेते हैं । इन शुष्क करने वाले उपद्रवों से आक्रान्त होकर पुरुष भी धीरे-धीरे सूख जाता है । इसलिये बुद्धिमान् भनुष्य को चाहिये कि अपने बल को देखकर तदनुसार कार्य का आरम्भ करे । बल के कारण ही शरीर कछे प्रकार से धारण किया जाता है और शरीर ही पुरुष अर्थात् आत्मा का मुख्य आभय है ॥ ४ ॥

भवति चात्र—साहसं वर्जयेत्कर्म रक्षक्षजीवितमात्मनः ।

जीवन् हि पुरुषस्त्विष्ट कर्मणः फलमभुते ॥ ५ ॥

अपना जीवन चाहने वाले पुरुष को साहस के कार्य छोड़ देने चाहिये, क्योंकि जीता हुआ पुरुष ही अपने कर्म का इष्टफल भोग सकता है ॥५॥

अथ संधारणं शोषस्याऽप्यतनमिति यदुकं तदनुव्याख्यास्यामः—  
यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तृसमीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसम्बन्धं  
सर्वा समार्जं खीमध्यं वाऽनुप्रशिष्य यानेवोऽप्युच्चावचैरभियन् भयान्  
प्रसंगात् द्वीमत्त्वाद् धृणित्वाद्वा निहणद्वागतानि वातमूत्रपुरीषाणि,  
तदा तस्य संधारणाद्वायुः प्रकोपमाद्यते । स प्रकुपितः पित्तस्तेष्माणो  
समुदीर्धेष्वर्धमधस्तिर्यक च विहरति । तदाशिविशेषेण पूर्वं  
वयविशेषं प्रविश्य शूलं जनयति, मिनति पुरीषमुच्छोषः  
पाइवें चातिरुजति, अंसौ चावसूक्ष्माति, कण्ठमुरझावशमति,

बोपहन्ति, कालं इवासं ज्वरं स्वरमेदं प्रतिशयार्थं चोपजनयति । वहः सोऽप्युपशोषणैरेतेनपद्रवैरुपद्रवैः शनैः शनैरुपशुभ्यति । तस्मात्पुक्षो मतिमानात्मनः शरीरेऽवेष योगक्षेमकरेषु प्रयतेत । शरीरं इत्य मूर्छ, शरीरमूलश्च पुरुषो भवतीति ॥ ६ ॥

**भवति चात्र—सर्वमन्यत्परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् ।**

तदभावे हि भावाना सर्वाभावः शरीरिणाम् ॥ ७ ॥ इति ॥

( २ ) वेग सन्धारण मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना शोष का कारण है, यह जो कहा है उसकी व्याख्या करते हैं—

जिस समय पुरुष राजा के समीप, स्वामी के समीप, गुरु की चरणसेवा में, जुआखाने में, अथवा इसी प्रकार दूसरे सज्जन मनुष्यों की सभा में, या बिर्यों के बीच में घुसकर, या ऊंची-नीची सवारी पर यात्रा करते समय, भय से, प्रसंग से, लज्जा से वा धृणा से वायु मूत्र या मल के उपस्थित वेगों को रोक लेता है, तब उनके रोकने से वायु प्रकृष्टि हो जाता है । यह प्रकृष्टि हुआ वायु, पित्त और कफ को कुपित करके ऊपर-नीचे या तिरछे रूप में बहता है और तब किसी भाग से शरीर के अवश्यक विशेष में प्रवेश करके पूर्व की भाँति शूल उत्पन्न करता है, मल का भेदन अथवा शोषण करता है । रोगी के पाश्वों में पीड़ा उत्पन्न करता है, कन्धों को तोड़ सा ढालता है, ( कन्धों का आकार बोतल की गर्दन के समान हो जाता है, समकोण नहीं रहता ), कण्ठ और छाती पीड़ित होते हैं, घिर में बेदना होती है । काल, इवास, ज्वर, स्वरमेद, प्रतिशयाय रोग उत्पन्न हो जाते हैं । रोगी भी इन शोषण करनेवाले उपद्रवों से भरे-धीरे सूखने लगता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपना शरीर जित प्रकार से सुखी, स्वस्थ रहे, उस प्रकार का विशेष रूप से प्रयत्न करे, क्योंकि जो भी कोई अमूल्य अलग्य वस्तु है वह शरीर से ही होती है और पुरुष का शरीर ही आधार है ।

इसलिये और सब कुछ छोड़कर शरीर को रक्षा करनी चाहिये । शरीर के न रहने पर सब वस्तुओं का होना या न होना एक समान है । शरीर के होने पर ही और सब पदार्थ उपयोगी होते हैं ॥ ६-७ ॥

**शयः शोषस्याऽऽयतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः—यदा पुरु-**  
| शोक-चिन्ता-परीत-हृदयो भवति, ईज्योत्कण्ठा-भय-क्रोषा-  
ते, कृशो वा सन् रूक्षान्पानसेषी भवति, दुर्बल-  
हारोऽल्पाहारो वा इत्यत्ते, तदा तस्य हृदयस्थायी रसः इत्यमु-

पैति, स तस्योपद्धयात्संशोर्च प्राप्नोति, अप्रतीकारावानुवर्षते यक्षमण  
रथोपदेक्ष्यमाणस्त्वेण ॥ ८ ॥

(३) 'क्षय' शोषरोग का कारण है, यह जो पहिले कहा है, उसकी व्याख्या करेंगे—जित मनुष्य के हृदय में शोक वा चिन्ता, बहुत काम, ईर्ष्या, उत्कण्ठा, भय, क्रोध ( लोम, मोह ) आदि भाव मन में बहुत प्रवेश कर जायें वा जो कुछ होता हुआ फिर रुखे खान-पान का सेवन करे, शरीर से दुर्बल प्रकृति हो कर उपवास या आवश्यकता से न्यून भोजन ले, तब उस के हृदय में रहनेवाला रस ( ओज ) क्षय होने लगता है और इत रस ( ओज ) के क्षय होने से मनुष्य सूखने लगता है और इसका प्रतिकार न करने से पुरुष राजयक्षमा रोग से पीड़ित होता है। जैसा कि आगे उपदेश करेंगे ॥ ८ ॥

यदा वा पुरुषोऽतिप्रहर्षत्प्रसक्तभावः क्षीघ्वतिप्रसङ्गमारभते, तस्या-  
तिमात्रप्रसङ्गाद्वेतः क्षयमुपैति । क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि भनः  
खीऽप्यो नैवास्य निवर्तते एव । तस्य चातिप्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमा-  
पद्यमानस्य शुक्रं च न प्रवर्तते, अतिमात्रोपक्षीयत्वात् ; अथास्य वायु-  
र्याच्छमानशरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताद्यः  
शोणितं प्रच्यावयति, तच्छक्षयाच्छुक्मार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानु-  
सृतलिङ्गम् । अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितप्रवर्तनाच संघयः शिथिलीम-  
वन्ति, रौक्ष्यमुपजायते, भूयः शरीरं दौर्बल्यमाविश्यति, वायुः प्रकोप-  
मापद्यते । स प्रकुपितोऽवशिकं शरीरमनुसर्पन् परिशोषयति भास-  
शोणिते, प्रच्यावयति इलेघ्मपितो, संरुजति पाइवे, चावगृहास्यसौ,  
कण्ठमुद्भवंसयति, शिरः इलेघ्माणमुपक्लेश्य प्रतिपूरयति इलेघ्मणा  
संधोश्च प्रपीडयन् करोत्यज्ञमर्दमरोचकाविपाकौ च, पित्तश्लेघोत्क्षे-  
शात्प्रतिलोमगत्वाच वायुज्वरं कासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजन-  
यति; ततः सोऽन्युपशाषणैहपद्वैरुपद्वृतः शनैःशनैरुपशुभ्यति । तस्मा-  
त्पुरुषो मतिमानास्मनः शरीरमनुरक्षन् शुक्रमनुरक्षेत् । परा योषा फल-  
निर्वृतिराहारस्येति ॥ ९ ॥

भवति चात्र—आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रस्यमास्मनः ।

इयो हास्य बहून् रोगाभ्यरणं वा नियच्छति ॥ १० ॥

शुक्रस्य—जित समय पुरुष अति कामबोग के भाव में आकर होकर अति सम्भोग आरम्भ कर देता है, उस का अ-

करने से वीर्य का बाहु हो जाता है। वीर्य के क्षय होने पर भी जब मन अधिक से नहीं हटता और संग करता ही जाता है तब अति प्रचण्ड कामवालना के कारण मैथुन करने पर भी वीर्य उत्पन्न नहीं होता। स्पौंकिं वीर्य बहुत अधिक शीण हो चुका होता है। इस समय सम्मोग रूप परिवर्त्तन करते हुए वायु रक्तवाहिनी घमनियों में प्रवेश करके इनसे रक्त बहाने लगता है। तब शुक ( वीर्य ) के क्षय से शुक्रमार्ग द्वारा वायु के साथ मिला रक्त बाहर आने लगता है। इस अवस्था में वीर्य के क्षय से तथा रक्त के निकलने से शरीर की सन्धियाँ विथिल हो जाती हैं, शरीर में रुक्षता आ जाती है, शरीर और अधिक कमज़ोर हो जाता है और वायु का प्रकोप हो जाता है। इस प्रकार से प्रकृष्टिवायु शून्य ( अशक्त ) शरीर में संचार करता हुआ मांस और रक्त को शुक्र कर देता है, कफ और पित्त को बाहर निकालता है, पाइवों में पीड़ा उत्पन्न करता है, कन्धों को दबा देता है, गले को बिगाढ़ देता है, कफ को कुपित करके शिर को कफ से भर देता है, सन्धियों को पीड़ित करके अंगों में वेदना उत्पन्न करता है, पित्त और कफ को कुपित करके अद्वचि एवं अपचन उत्पन्न करता है। वायु की प्रतिलोम गति होने से ज्वर, कास, श्वास, स्वरमेद और प्रतिशयाय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में पुष्प शोषण करने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित होकर धीरे धीरे शुक्र हो जाता है। इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर की रक्षा करता हुआ शुक्र अर्थात् वीर्य की रक्षा करे। यही शुक ( वीर्य ) आहार का सर्वोक्तुष्ट सार वीर्य है, इसका रक्षण करना परम आवश्यक है। इसका क्षय बहुत से रोगों वा मृत्यु का भी कारण होता है ॥६-१०॥

विषमाशनं शोषस्याऽयतनमिति यदुकं, तदनुव्याख्यास्यामः—यदा  
पुरुषः पानाशनभृत्यलेषोपयोगान् प्रकृति-करण-संयोग-राशि-  
देश-कालोपयोग-संस्थोपशय-विषमानासेवते, तदा तस्य वातपित्त-  
श्लेष्माणो वैषम्यमापद्यन्ते, ते विषमाः शरीरमनुसृत्य यदा स्रोतसाम-  
यनमुखानि प्रतिवार्षीविष्णुन्ते तदा जनुर्यथाहारजातमाहरति तत्त-  
दस्य मूत्रपुरीषमेवोपजायते भूयिष्ठं नान्यस्तथा शरीरघातुः, स पुरी-  
षोपष्टमाद्वर्त्तयति, तस्माच्छुद्यतो विषेषण पुरीषमनुरक्ष्य, तथा  
त्यर्थक्षदुर्जलाना, तस्यानाप्याव्यमानस्य विषमाशनोपचिता  
पृथगुपद्रव्येरुक्षन्तो भूमः शरीरमुपशोषयन्ति । तत्र आसः—  
उष्णठोदूधस्तनं पाइर्वर्द्धजनमस्त्रावमर्दनं स्वरमेदं प्रतिशयायं

चोपजनयति, पिण्डं पुनर्ज्वरमतीसारमन्तर्दाहं च, इकेष्वा तु प्रति-  
इयायं शिरसो गुहत्वं कासमरोचकं च । स कासप्रसंगादुरसि क्षते  
शोणितं ष्ठीवति, शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यमुपजायते । एवमेते  
विषमाशनोपचिता दोषा राजयहमाणमभिनिर्वतयन्ति । तेरुपशे-  
षणेरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशैष्यति । तस्मात्पुरुषो भविमान् प्र-  
कृति-करण-संयोग-राशि-देश-कालोपयोग-संस्थोपशयादविषममाहारमा-  
हरेदिति ॥ ११ ॥

भवति चात्र—हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्काळभोजी जितेन्द्रियः ।

पश्यन् रोगान् बहून्कष्टान्बुद्धिमान्विषमाशनात् ॥ १२ ॥ इति ।

( ४ ) विषमाशन—विषमाशन शोष रोग का कारण है, यह जो कहा है  
अब उस की व्याख्या करेंगे—

जब मनुष्य प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था  
तथा उपशय के विरुद्ध, पान-अश्वान, भव्य और लेहा रूप में अन्न-पान  
का उपयोग करता है, तब उस के बात, पित्त और कफ विषम हो जाते हैं ।  
ये विकृत दोष जिन सभी शरीर में फैलकर स्रोतसों वा नाड़ियों के प्रुखों को  
धेर लेते हैं तब मनुष्य जो भी भोजन खाता है उस का अधिक भाग मूत्र और  
मल में बदलकर इन को ही अधिक बढ़ाता है, इस प्रकार शरीर के अन्य चारु  
नहीं बढ़ते । पुरुष मल के छकने से ही जीवन धारण किया करता है । इसलिये  
ज्ञान द्वारे हुए पुरुष के मल की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये । इस  
प्रकार कृश होते हुए मनुष्य के विषम भोजन से बड़े हुए दोष नाना उपद्रवों  
से युक्त होकर और भी शरीर को सुखा देते हैं; तब कुपित हुआ बातशूल, अंगों  
का दूनना, कण्ठमेद, पाश्वर्णों में पीड़ा, कन्धों का दूटना, स्वरमेद और प्रतिव्याय  
उत्पन्न करता है । पित्तज्वर, अतिसार और अन्तर्दाह को उत्पन्न करता है ।  
झेष्वा—प्रतिव्याय, शिर का भारीपन, कास और अद्वितीय उत्पन्न करता है ।  
कास के कारण छाती में ब्रण होने से थूक में रक्त आता है । रक्त के निकलने  
से कमज़ोरी आ जाती है । इस प्रकार से विषम भोजन द्वारा एकत्रित हुए दोष  
राजयहमा रोग को उत्पन्न करते हैं । शोषण करने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित  
होने पर धीरे धीरे मनुष्य सूखने लगता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये  
कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संख्या और उपशय के  
अनुकूल स्थान पान करे ।

१. इस का विस्तार 'रस-विमान' नामक अध्याय में कहेंगे ।

कुदिमान् मनुष्य विषमाशन के ज्ञारज नाना प्रकार के कष्टदायक रीगों की उत्पत्ति को देखकर, हितकारक, परिमित और समय पर भोजन करने वाला और जितेन्द्रिय बने ॥ ११-१२ ॥

**एवमेतैश्चतुभिः शोषस्याऽज्यतनैरङ्गुपसेवितैर्बीत-पित्त-श्लेष्माणः**  
प्रकोपमापशन्ते, ते प्रकृष्टिता नानाविधैरुपद्रवैः शरीरसुपशोषयन्ति ।  
तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्षमाणमाचक्षते भिषजः । यस्माद्वा पूर्व-  
मासीद्वागवतः सोमस्योहुराजस्य तस्माद्राजयक्षमेति ॥ १३ ॥

राजयक्षमा शब्द की निश्चिकी—शोष रोग के कहे हुए इन चार कारणों के सेवन करने से, बात, पित्त, कफ ये तीनों दोष प्रकृष्टि हो जाते हैं । ये दोष कुपित होकर नाना प्रकार के उपद्रवों से शरीर का शोषण करते हैं । यह रोग सब रोगों में अधिक कष्टाध्य है, इसलिये वैद्य लोग इस को 'राजयक्षमा' कहते हैं । अथवा यह अब फहले नक्षत्रराज चन्द्रमा को रहा, इसलिये इस का नाम 'राजयक्षमा' है ॥ १३ ॥

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तथा—प्रतिश्यायः क्षवशुरभीक्षणं  
श्लेष्मप्रसेको मुखमाधुर्यमनन्नाभिलाषोऽन्नकाले चाऽऽचासो दोषदर्शनं-  
मदोषेष्वल्पदोषेषु वा पात्रोदकान्न-सूपोपदंश-परिवेशकेषु भुक्तवतो इज्ञा-  
सस्तथोऽप्नेखनमाहारस्यान्तरान्तरा मुखस्य पादयोश्च शोषः पाण्योश्चा-  
वेक्षणमत्यर्थमक्षणोः श्वेतावभासवा चातिमात्रं बाह्योश्च प्रमाणजिज्ञासा  
खीकामताऽतिघृणित्वं बीभत्सदर्शनता चास्य काये स्वप्ने चाभीक्षणं  
दर्शनमनुदक्कानामुदकस्थानानां शून्यानां च ग्राम-नगर-निगमन-जनपदानां  
शुष्कदाधारभग्नानां च वनानां छक्कास-मयूर-वानर-शुक्र-सर्प-काको-  
ल्कादिभिः संस्पर्शनमधिरोहणं वा यानं च श्वोऽस्त्र-खर-वराहैः केशास्त्रि-  
भस्म-तुषाङ्गार-राशीनां चाधिरोहणमिति शोषपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १४ ॥

शोष के पूर्वरूप-शोष रोग के ये पूर्व स्पष्ट हैं । यथा—प्रातश्याय ( जुआम ), छींक आना, बार बार कफ का गिरना, मुख में मिठास, भाजन की अनिच्छा, भोजन करते समय यकान की प्रतीक्षा, पात्र, पानी, अज, दाल, चटना, शाक आदि निर्दोष या अल्प दोषवाली वस्तुओं में भी दोष देखना, भोजन करते समय जी मच्छना, मुंह में पानी बहुत आना, खाये हुए अल का बमन होना, मुख और पांप का सूखना, शाथों को बहुत अधिक देखते रहना, आंखों का

आना ( रक्त की न्यूनता ), मुआंखों में मोटाई, जांचने की प्रवृत्ति,  
अपने शरीर से जूणा या अपने शरीर में भयंकर रूप देखना

और स्वप्न में पानी से राहित स्थानों में पानी को देखना, घूम्य स्थानों में ग्राम, नगर, जनपदों की प्रतीति होना। जाँगलों का चकना, शुष्क होना या टूटना देखना, गिरगट, मोर, बन्दर, लोता, सौप, कौवा, उहूँ आदि के साथ सर्व की प्रतीति, कुचा, ऊंठ, गधा, सुखर आदि पर चढ़कर सकारी करना, केश, अस्थि, मस्त, भूता, अंगारे के ढेरों पर चढ़ना आदि देखना, ये शोष रोग के पूर्वरूप हैं ॥ १४ ॥

अत ऊर्ध्वमेकादश रूपाणि तस्य भवन्ति, तथा—शिरसः प्रति-पूरणं कासः इवासः स्वरभेदः ऋग्मणश्छर्दनं शोणित-ष्ठीवनं पार्श्वसं-हजनमयसावमर्दो ज्वरोऽतीसारस्थाऽरोचक इति ॥ १५ ॥

ग्यारह रूप—इस के बाद राजयक्षमा के ग्यारह लक्षण हो जाते हैं । यथा—  
 ( १ ) घिर का कफ से भरना, ( २ ) कास, ( ३ ) इवास, ( ४ ) स्वरभेद, ( ५ ) कफ का गिरना, ( ६ ) यूँ में रक्त आना, ( ७ ) पाश्वों में दर्द, ( ८ ) कन्धों का नीचे दबना, ( ९ ) ज्वर, ( १० ) अतिशार और ( ११ ) अरोचक ( अद्विति ) ॥ १५ ॥

तत्रापरिक्षीण-मास-शोणितो बलवानजातारिष्टः सर्वैरपि शोषलिङ्गे-रुपद्रवतः साध्यो ह्येयः, बलवर्णोपचयोपचितो हि सहिष्णुत्वाद् व्याध्यौषधबलस्य कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव भन्तव्यः । दुर्बलं त्व-तिक्षीण-मास-शोणितमल्पलिङ्गमप्यजातारिष्टमपि बहुलिङ्गमेव जाता-रिष्टमेव विद्यात्, तदसहस्राद् व्याध्यौषधबलस्य, तं परिवर्जयेत्, क्षणेन हि प्रादुर्भवन्त्यरिष्टानि, अनिमित्तश्चारिष्टप्रादुर्भाव इति ॥ १६ ॥

साध्य और असाध्य रूप—जिस रोगी के मांस और रक्त कम नहीं हुए, और शक्ति बनी हुई है और अरिष्ट-लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे रोगी को यदि सब उपद्रव भी घेर लें तो भी रोगी साध्य है, क्योंकि जिस रोगी के बल और दर्द सुरक्षित हैं, यह व्याधि और दौषध के बल को सुगमता से सह सकता है । इसकिये इस प्रकार का रोगी बहुत लक्षणों से युक्त होने पर भी योंके लक्षणों वाला ही गिनना चाहिये । जो रोगी मांस और रक्त के बीण होने से बहुत दुर्बल हो गया हो, इस में लक्षण चाहे थोड़े ही हो और कोई अरिष्ट-लक्षण न मां उत्पन्न हुआ हो तो भी ऐसे रोगी को बहुत लक्षणों वाला और अरिष्ट-लक्षणों से युक्त ही गिनना चाहिये, क्योंकि यह रोगी औषधि और रोग के सहम नहीं कर सकता, इसकिये छोड़ देना चाहिये । इस रोगी में—

अन्वर शोषि उभयन् द्वे सकर्ते हैं और विदा उत्तरण द्वे अरिह उच्च दीक्षने  
लगते हैं ॥ १६ ॥

तत्र शोकः—समुस्थानं च लिङ्गं च यः शोषस्काष्ठुम्हते ।

पूर्वरूपं च उत्त्वेन स राज्ञः कर्तुमहैति ॥ १७ ॥

जो वैष्णवों की उत्पत्ति, इक्षण और पूर्वरूप भवती प्रकार से जानक है  
वह राज्यकर्मा की चिकित्सा करने के योग्य है ॥ १७ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्मे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने  
शोषनिदानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽध्यायः ।

अथात उन्मादनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह मरवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब उन्माद निदान का वर्णन करेंगे ऐसा मरवान् आत्रेय ने उपदेश  
किया है ॥ २ ॥

इह खलु पञ्चोन्मादा भवन्ति । तथथा—वात-पित्त-कफ-सन्ताना-  
ताऽगन्तु-निमित्ताः ।

उन्माद पांच प्रकार के हैं । जैसे—( १ ) वातजन्य, ( २ ) पित्तजन्य,  
( ३ ) कफजन्य, ( ४ ) सन्तानातजन्य और ( ५ ) आगन्तुज । इन में से  
पहिले चार उन्माद दोषजन्य हैं ।

तत्र दोषनिमित्ताऽत्यत्वारः पुरुषाणामेवंविधाना क्षिप्रमभिनिर्वर्तन्ते  
तदथा,—भीरुणामुपुक्षिष्टसत्त्वानामुत्सञ्चादोषाणा च समलविकृतोप-  
हितान्यनुचितान्याहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुक्तानाना  
तन्त्रप्रयोगं वा विषमाचरतामन्या वा चेष्टा विषमा समाचरतामस्य-  
पक्षीणदेहाना च व्याधि-वैग-समुद्रव्रिमितानामुपहतमनसी वा काम-  
कोष-छोम-हर्ष-भय-मोहायास-शोक-चिन्तोद्वेगादिभिः पुनरभिधा-  
तात्वाहताना वा मनस्युपहृते बुद्धौ च प्रचलितायामभ्युदीर्णी दोषाः

पिता हृष्यसुपसूत्य मनोवहानि स्तोतस्थावृत्य जनयन्त्युन्मादम् ॥ ३ ॥

( दोषजन्य उन्माद निम्न छष्टानोक्ते व्यक्तियों में शीघ्र उत्पन्न  
जो मनुष्य उत्पोक हो, जिन के शरीर में उत्तर गुण न हो,

( अपिदु रज और तम हो ), जिन में बात आदि दोष वाले हुए हों, जो अपवित्र विगड़े हुए एवं विरोधी गुणबाले पदार्थों से मिले, अथवा कुष्ठ आदि के रोगी मनुष्यों द्वारा लाये हुए अल्प पान स्रावते हों, विषम रीति से भोजन करने वाले व्यक्तियों में, शास्त्रोक विधि के विवर आचरण करने वाले पुरुषों में, अथवा कोई अन्य प्रकार की विषम चेष्टा करने वाले व्यक्तियों में, जिन का शरीर अत्यन्त श्वीण हो गया हो, जिनका चिकित्सा रोग के बेग के कारण उद्भान्त हो चुका हो, जिन का मन, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयात, ( थकान ), शोक, चिन्ता और उद्भैरुग आदि द्वारा दुखित होता है, घाव या चोट के लगाने से जिनका मन ठिकाने पर नहीं रहता तथा बुद्धि चुलायमान हो गई हो, ऐसे मनुष्यों के बात आदि दोष प्रकृपित होकर, हृदय को दूषित करके ( हृदय में पहुंचकर ) मनोवद स्रोतसों की गति को बन्द करके उन्माद रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

उन्मादं पुनर्मनो-बुद्धि-संज्ञा-ज्ञान-स्मृति-भक्ति-शील-चेष्टा-चार-  
विभ्रमं विद्यात् ॥ ४ ॥

उन्माद का लक्षण—मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, आहार, चेष्टा इनका विभ्रम अर्थात् विक्षिप्त होना ‘उन्माद’ कहाता है, इन के विकार से उन्माद-रोग होता है ॥ ४ ॥

तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा—शिरसः शून्यभावश्चक्षुषोराकुलता, स्वनः कण्योरुच्छ्वासस्याऽधिक्यमास्यसंस्वरणमनज्ञाभिलाषोरोचका-विषाक्षो हृदयग्रहो ध्यानायाससंमाहोद्वेगाश्चास्थाने सततं लोमहर्षो व्यरथा भीक्षणमुन्मत्तचित्तत्वमुद्दित्वमिदिताकृतिकरणं च व्यावेः स्वप्ने च वृश्नमभीक्षणं भ्रान्तचलितावनवस्थितानां च रूपाणामप्रशस्तानां

१. मन चिन्तन का काम करता है, उस के विभ्रम से चिन्तन करने योग्य बातों को नहीं सोचता और चिन्तन न करने योग्य बातों की चिन्ता करता है । बुद्धि के विभ्रम से नित्य को अनित्य और प्रिय को अप्रिय देखने लगता है । संज्ञा, ज्ञान इस के विभ्रम से अग्नि से जलने की प्रतीति नहीं होती । स्मृति के विभ्रम से कुछ स्मरण नहीं होता या उल्टा स्मरण होता है । भक्ति अर्थात् इच्छा, इस के विभ्रम से पहिले जहाँ इच्छा थी वहाँ अनिच्छा हो जाती है । शील के विभ्रम से अति क्रोधी वा क्रोध के स्थान में भी जाता है । आचार के विभ्रम से अपवित्र आचरण करता है ।

सिंहधीड़क-चक्राधिरोहणं वातकुण्डलिकाभिज्ञानमयनं तिम्बज्ञनं कल्प-  
वाणामस्मसामावर्तेषु चक्रोद्घापसर्पणमिति दोषनिभिज्ञानामुन्मादाना  
पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

उन्माद के पूर्वस्त्र—उन्माद के पूर्वस्त्र निम्नलिखित हैं । यथा—धिर  
( मस्तिष्ठ ) का खालीपन, आंखों में चंचलता, कानों में झूनि का होना,  
इकास का ज़ोर से चलना, मुख से लार गिरना, भोजन में अनिष्टा, अहवि  
अविपाक, दृद्यग्रह, बेमोके ध्यान, आयात ( थक्का ), संमोह और उद्गेग  
होना, अर्थात् जहां पर न करने हो वहां इन का करना, निरन्तर रोमांच रहना,  
बार बार च्वर का आना, चित्त का उन्मत्त रहना, उदर्द, कोठ निकलना  
( अंगों का सूजन या शरीर के उर्ध्व भाग में पीड़ा होना ), अर्दित ( मुख की  
आकृति का आधा टेहा बनना ), हुदि आदि का भ्रम होना, स्वप्न में भ्रान्ति,  
चलित, चंचल या भयंकर स्वरूपों का बात्वार दीखना, अपश्यस्त कोल्हू  
( जिस यन्त्र से तेल निकाला जाता है ) आदि उन पर बैठना, वातकुण्ड-  
लिकारोग ( मूत्ररोध विकार ) का होना, गन्दे, खराद पानी के भवरों में  
खेलना, दुबकी मारना आदि, आंखों की अस्थिरता और चंचलता, दोषजन्म  
उन्मादों के ये पूर्वस्त्र हैं ॥ ५ ॥

वतोऽनन्तरमुन्मादभिनिर्वृत्तिः, तत्रेदमुन्मादविशेषविज्ञानं भव-  
ति । तथथा परिसर्पणमस्त्रिभुवामोष्टास-हनु-हस्त-पाद-विक्षेपणमकस्मात्,  
अनियतानां च सततं गिरामुस्तर्गः, फेनागमनमास्यात्, रिमत-हसित-  
नृत्य-गीत-वादित्राद्विषयोगाश्रास्थाने, बीणा-वंश-शङ्ख-शम्या-ताळ-शब्दा-  
तुकरणमसाम्ना, यानमयानंरलङ्घरणमनलङ्घारिकद्रव्येणोभाऽप्यवहा-  
र्यवल्लवेषु, छब्बेषु चावमानस्तात्रं मात्सर्यं, काश्य, पारुष्यमु-  
रिष्पद्वाऽरुणाश्वता, वातोपशयविषयर्यासादनुपशयता चेति वातान्माद-  
लिङ्गानि भवन्ति ॥ ६ ॥

इन पूर्वस्त्रों के प्रकट होने के पीछे उन्माद रोग उत्पन्न होता है । उस  
उमय उन्माद-रोग के विशेष लक्षण ये होते हैं:—

- ( १ ) वातान्माद के लक्षण—आंख और भौंहों का चलाते रहना ( अस्थि-  
जवाहा ( हृद ), कन्धा, हाथ और पांव का फेंकना, विना स्थान  
के ) इतना-मुखकुराना, नाचना, गाना, बजाना, विना  
इत्तेकत्ते बाना, मुख से ज्वाग निकलना, लीका, बांधुरी, शंख,

मुरडी, सनई, ताढ़े आदि वालों का नेतृत्व अनुकरण करना, ऊंची और न चढ़ने योग्य सवारी पर चढ़ना, जिन वस्तुओं से शरीर का अलंकार नहीं करना चाहिये उन से अलंकार करना, न मिलने वाले खाद्य पदार्थों में इच्छा, खोम, तथा प्राप्त वस्तुओं में तिरस्कार, बहुत अधिक द्रेष, मत्सरता ( ईर्ष्या ), कृष्टा, कठोरता, आंखों में लाली तथा आंखों का बाहर निकलना, वातवर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये वातजन्य उन्माद के लक्षण हैं ॥ ६ ॥

अमर्थ-क्रोध-न्सरम्भाश्रास्थाने, शब्द-लोट्य-काष्ठ-सुष्टिभिरभिहननं स्वेषां परेषां वा, अभिद्रवणं, प्रच्छायशीतोदकाङ्गाभिलाषः, संतापोऽतिवेळं, ताम्र-हरित-हारिद्र-संरब्धाकृता, पित्तोपशयविपर्यासाद्यनुपशयता चेति पित्तोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ७ ॥

( २ ) पित्तजन्य उन्माद के लक्षण—अनुचित स्थान और अवसर में अस-हिण्युता दिखाना, कोध करना या स्तम्भित रह जाना, शब्द, मिट्टी का ढेला, छक्की या मुढ़ी से अपने को या दूसरों को मारना, इधर-उधर दौड़ना, छाया, शीतलखान पान ( अज्ज या पानी ) की इच्छा करना, बहुत समय तक ताप का होना, आंखों का ताम्बे के समान लाल, हरा-पीला एवं खुले रहना और पित्तवर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये पित्तजन्य उन्माद के लक्षण हैं ॥ ७ ॥

स्थानमेकदेशे, तृष्णीभावो, अल्पशश्चक्कमणं, लालासिङ्गधाण-कप्रस्थवर्णं, अनञ्चाभिलाषो, रहस्कामता, वीभत्सत्वं, शौचद्रेषः, स्वप्न-निद्रता, श्यथशुरानने, शुक्ल-स्तिमित भलोपदिग्धाकृता, इलेघ्मोपशयविपर्यासाद्यनुपशयता चेति श्लेष्मोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ८ ॥

( ३ ) कफजन्य उन्माद के लक्षण—एकान्त स्थान में जुपचाप बैठना, योद्धा चलना फिरना, मुख से लार, नाक से मल का गिरना, भोजन में अनिच्छा, एकान्त स्थान में रहने की इच्छा, भयानक विकृत रूप, स्वच्छता से द्रेष, नींद कम होना, मुख पर सूजन, आंख में सफेदी भारीपन और मल का होना, कफ वर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये कफजन्य उन्माद के लक्षण हैं ॥ ८ ॥

त्रिवोषषलिङ्गसंक्षिपाते तु सार्वनपातिकं विद्यात्, दमसाध्यमित्याच-क्षते कुशलः ॥ ९ ॥

( ४ ) साज्जिपातिक उन्माद-नीनों दोषों के एक साथ मिलने से साज्जिपात-जन्य उन्माद रोग हो जाता है । इस को कुशल वैद्य असाध्य कहते हैं ॥ ९ ॥

साध्याना तु ग्रयाणं साधनानि भवन्ति । तद्यथा-

वर्मन-विरेचनास्थापनानुवासनोपशमन-नस्तःकर्म-धूप-धूमपानाङ्गनाव-  
पीड-प्रधमनाध्यङ्क-प्रदेह-परिषेकानुलेपन-बध-बन्धनावरोधन-वित्रासन-  
विस्मापन-विस्मारणापतर्पण-सिरा-व्यधनानि भोजनविधानं च यथास्वं  
युक्त्या, यष्टान्यदपि किञ्चिन्निष्ठानविपरीतमौषधं कायं तत्स्या-  
दिति ॥ १० ॥

उन्माद की चिकित्सा—इन तीन सिद्ध होने वाले उन्मादों की चिकित्सा  
निम्न प्रकार से करनी चाहिये । यथा—स्नेहन, स्वेदन, वर्मन, विरेचन,  
आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, नस्त्यर्कम, धूप, धूमपान, अडन, अव-  
पीडन, प्रधमन, अस्यंग, प्रदेह, परिषेक, अनुलेपन, वध ( मारने का भय  
दिलाना ), बन्धन, अवरोधन ( कमरे में बन्द करना ), वित्रासन ( डराना ),  
विस्मारण ( नाना प्रकार की बातों में भुलाना ), विस्मापन ( आश्वर्य से चकित  
करना ), अपतर्पण ( उपवास ), सिराव्यधन ( शिरा वेध आदि से रक्त बाहर  
करना ) से चिकित्सा करनी चाहिये और युक्तिपूर्वक दोषों को देलकर अन्न-  
पान का स्वयं निधय करना चाहिये । इस के सिवाय और भी जो कोई  
औषध रोगजनक कारण के विपरीत, उसको शान्त करने वाली हो, वह भी  
अवश्य देनी चाहिये ॥ १० ॥

भवति चात्र—उन्मादान्दोषजान् साध्यान् साधयेद्विषगुत्तमः ।

अनेन विधियुक्तेन कर्मणा यत्प्रकीर्तिंतम् ॥ ११ ॥ इति ॥

अेष्ठ वैद्य इस कही हुई विधि से दोषों से उत्पन्न साध्य उन्माद रोग  
को दूर करे ॥ ११ ॥

यस्तु दोषनिमित्तेऽप्य उन्मादेऽप्यः समुत्थान-पूर्वरूप-लिङ्क-वेदनोप-  
शय-विशेष-समन्वितो भवत्युन्मादस्तमागन्तुमाचक्षते । केचित्युनः  
पूर्वकृतं कर्माप्रशस्तमिळ्ळन्ति तस्य निभित्तं । प्रज्ञापराध एवेति  
भगवान्पुनर्वसुरात्रेय उवाच । प्रज्ञापराधाद्वयं देवर्घि-पितॄ-गन्धर्व-  
यक्ष-राक्षस-पिशाच-गुरु-हृद-सिद्धाचार्य-पूज्यानवमत्याहितान्याचरति,  
अन्यद्वा किञ्चित्कर्माप्रशस्तमाभरते, तस्मात्मना हत्युपग्रन्तो देवादयः  
कुर्वन्त्युन्मत्तम् ॥ १२ ॥

गन्तुज उन्माद—जो उन्माद दोषों से उत्पन्न होने वाले उन्माद से  
ज, वेदना और उपश्य में भिन्न होता है, उस को  
, कहते हैं । कुछ आचार्य पूर्वजन्म के अनुम पाप कर्मों  
की उत्पत्ति मानते हैं । उस का कारण प्रज्ञापराध ही

है—ऐसा भगवान् पुनर्वंशु आदेष ने कहा है। ग्रामराष्ट्र अर्थात् दुर्दि के दोष से ही मनुष्य देवता ज्ञाति, पितर, गन्धर्व, यज्ञ, राष्ट्रात्, पिण्डाच, गुरु, इद, सिद्ध, आचार्य एवं पूज्य पुरुषों का अपमान करता है। अथवा अन्य किसी प्रकार का निन्दनीय कर्म करता है। अपनी आत्मा द्वारा किये हुए अज्ञुम कर्म के द्वारा उसी पुरुषको मारने के लिये देव आदि उस को उन्मत्त कर देते हैं ॥ १२ ॥

तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेनाऽगन्तुकोन्मादेन पुरस्कृतस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तथाथा—देव-नो-ब्राह्मण-तपस्विनां हिंसा-हचित्वं कोपनत्वं नृशंसाभिप्रायत्वा अरतिरोजोवर्ण-च्छाया-बल-व-पुष्पामुपतासिः, स्वप्ने च देवादिभिरभिर्भर्त्सनं प्रवर्तनं चेत्यागन्तुनिमित्तस्योन्मादस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽगन्तव्यरमुन्मादाभिनिर्वृत्तिः ॥ १३ ॥

आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप—देवता आदि के प्रकारों के कारण आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप निज प्रकार के होते हैं। जैसे—देव, गौ, ब्राह्मण, तपस्वी पुरुषों की हिंसा करने में इच्छा, क्रोधीपन, दूसरे का अपकार करने की इच्छा, उदासीनता, आज, बल, वर्ण, छाया और शरीर में दाय होना, बिगड़ना, स्वम में देवता आदि का तिरस्कार करना, अथवा इन पर कोष करना आदि आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप हैं। इस के पीछे उन्माद उत्पन्न हो जाता है ॥ १३ ॥

तत्रायमुन्मादकराणां भूतानामुन्मादयिष्यतामारम्भविशेषः । तथाथा—अवलोकयन्तो देवा जनयन्त्युन्मादं, गुरु-बृद्ध-सिद्धर्घ्योऽभिशपन्तः, पितरो धर्षयन्तः, स्पृशन्तो गन्धर्वाः, समाविशन्तो यज्ञाः, राष्ट्रसास्त्वामगन्धमाप्नापयन्तः, पिण्डाचः पुनरधिकृष्ट वाहयन्तः ॥ १४ ॥

उन्माद का प्रारम्भ—उन्माद को उत्पन्न करने वाले भूतों की उन्माद को प्रारम्भ करने में निम्नलिखित प्रकार से भिन्नता होती है। यथा—देव औंखों से देख कर ही उन्माद उत्पन्न करते हैं, गुरु, बृद्ध, सिद्ध और ज्ञातिमन याप देकर, पितर-लोग घमकाकर, गन्धर्वगण स्पर्श करके, यज्ञ शरीर में पुराकर, राष्ट्रस आम ( सहे मांस आदि की ) गन्ध को सुंचाकर और पिण्डाच चढ़ाकर उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं ॥ १४ ॥

तत्त्वेमानि रूपाणि भवन्ति । तथाथा—अमर्त्य-बल-शीर्षं परमकम-आहृष्ट-वारष-स्मरण-काम-वचन-विज्ञानानि, अनिष्टानिष्ट कामः ॥ १५ ॥

(५) आकन्तुक के स्वरण—आगम्हज उन्माद के बे स्वरण होते हैं। जैसे—उन्मत्त रोती में अमानुष बल, बीर्य, पुरुषार्थ, प्राक्तम, ग्रहण, चारण, स्मरण, ज्ञान, जाणी और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्माद योग अंक काल भी अनिवित रहता है ॥ १५ ॥

उन्मादविद्यतामपि खलै देवर्ण-पितृ-गन्धर्व-यश-राश्वस-पिशाचान्ना  
गुरुवृद्धानां वा एष्वन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति । तथाया—  
पापस्य कर्मणः समारम्भे, पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परिणामकाले, एकस्य  
वा शून्यगृहवासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सम्भवावेलायां अप्रबत्तभावे वा,  
पर्वं संविषु वा मिथुनभावे, रजस्वलाभिगमने वा, विगुणे वा इत्यव्यव-  
वल्लि-मङ्गल-होम-प्रयोगे, नियम-व्रत-प्रद्युम्य-भक्ते वा, देश-कुल-पुरुष-विनाशे  
वा, महाप्रहोपगमने वा, खिया वा प्रजननकाले, विविधभूताशुभाशुचि-  
स्पर्शने वा, बमन-विरेचन-रुपिर-ज्ञावाश्चेः, अप्रयतस्य वा चैत्यदेवा-  
यतनाभिगमने वा, मांस-मधु-तिल-गुड-मधोचिछटे वा, दिग्बाससि वा,  
निशि नगर-निगम-चतुष्पथोपवन-इमशानाधातनाभिगमने वा, द्विज-गुरु-  
मुरपूर्णाभिर्वर्णे वा धर्माख्यानत्रयतिक्रमे वा, अन्यस्य कर्मणाऽप्रशस्त-  
स्याऽरम्भे चैत्याधातकाला व्याख्याता भवन्ति ॥ १६ ॥

आधात काल—देव, शूषि, पितर, गन्धर्व, यश, राश्वस, पिशाच आदि  
निम्नलिखित स्थान या समयों पर मनुष्यों में उन्माद उत्पन्न करते हैं। यथा—  
पाप कर्म के प्रारम्भ करने के समय; पूर्वजन्मकृत पापकर्म के परिणाम समय पर;  
निर्जन, एकान्त घर में अकेला होने पर; चौराहे पर खड़े रहने या बैठने पर;  
सन्ध्या-समय में असावधान या अविच्छिन्न रहने से; पूर्णिमा, अमावस्या में खोलंग  
करने से; रजस्वला झो के साथ संग करने से; अव्यवस्थित कार्य करने से;  
अध्ययन, बलि, मंगल, होम इनको नियम से न करने पर; नियम, व्रत या ब्रह्मचर्य  
के भंग करने पर; बड़े युद्ध के समय, देश, कुल या नगर के विनाश के समय;  
बड़े भारी ग्रह के आ जाने पर; प्रसिद्ध के समय झो पर; नाना प्रकार के अशुभ  
पदार्थों के स्पर्श से; बमन, विरेचन, रक्तसाव आदि अविच्छिन्न स्थान में  
जाने से; मांस, मधु, तिल, गुड, मद या जूँड़न ( उच्छिष्ट ), खाकर; या नग्ना-  
में, अथवा रात के समय ग्राम, नगर वा चौराहे या उपवन, इमण्डान  
ज्ञाने के समीप जाने से; ब्राह्मण, गुरु, सन्ध्याती, पूर्णपुरुषों को शमकाने  
तुष्णींघन करने से, इसी प्रकार के अन्य अविच्छिन्न, पाप कर्म के

आरम्भ करने से उन्माद रोग का आक्रमण होता है। इस प्रकार से आशात् काळ का बर्णन कर दिया है ॥ १६ ॥

त्रिविधं तु स्खल्न्माद्कराणा भूतानामुन्मादने प्रयोजनं भवति ।  
तथाथा—हिंसा, रति, अद्यर्थचर्चनं चेति । तेषां उत्पयोजनमुन्मत्साधा-  
रविशेषलक्षणैर्विद्यात् । तत्र हिंसार्थमुन्मादमानोऽप्तिं प्रविशत्पृष्ठं वा  
निमज्जति, स्थलाच्छ्वभ्रे वा निपतति, शब्दकशा-काष्ठ-छोष-मुष्टिभिर्ह-  
न्त्यात्मानमन्यष्ठ प्राणवद्यार्थमारभते किञ्चित्, तमसाध्यं विद्यात्,  
साम्यो पुनर्द्वावितरौ ॥ १७ ॥

उन्माद उत्पन्न करने का प्रयोजन—उन्माद रोग को उत्पन्न करने वाले भूतों के मनुष्यों को उन्मत्त बनाने में तीन प्रकार के प्रयोजन हैं। यथा—हिंसा, रति और पूजा। इन कार्यों ( प्रयोजनों ) को उन्मत्त पुरुष के लक्षणों से पहिचानना चाहिये। हिंसा के लिये उन्माद होने पर मनुष्य आग में छुता है, पानी में छूता है, ऊंचे स्थान से गड्ढे में गिरता है, दृश्यार, काष्ठ, कशा, ( चाबुक ), देला ( पत्थर ), मुक्तों आदि से अपने को मारता है, अथवा अन्य इसी प्रकार के प्राणनाश करने वाले कार्यों को करता है। इसको असाध्य जानना चाहिये। 'वाकी के दोनों प्रकार के उन्माद साध्य हैं ॥ १७ ॥

तथोः साधनानि-मन्त्रौषधि-मणि-मङ्गल-बल्युपहार-होम-नियम-  
ब्रत-प्रायश्चित्तोपवास-स्वस्त्ययन-प्रणिपात-गमनादीनीति । एवमेते पञ्चो-  
न्मादा व्याख्याता भवन्ति ॥ १८ ॥

ये उन्माद मन्त्र, औषधि, मार्ग, मंगल-पाठ, बलिदान, उपहार, इन, नियम, ब्रत, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात आदि मंगल कृत्यों से शान्त होते हैं। इस प्रकार से पांचों उन्मादों की व्याख्या करदी ॥ १८ ॥

ते तु स्खलु निजागन्तुविशेषेण साम्यासाम्यविशेषेण च प्रविभज्य-  
मानाः पञ्च सन्तो द्वावेव भवतः । तौ परस्परमनुबन्धीतः । कदाचिद्य-  
थोकहेतुसंसर्गादुभयोः संसृष्टेष्व पूर्वरूपं भवति, संसृष्टेष्व लिङ्गमभि-  
ज्ञेयम् । तत्रासाम्यसंयोगं साम्यासाम्यसंयोगं वाऽसाम्यं विद्यात् ।

१. रति प्रयोजन से आकान्त होने पर मनुष्य खेलता है, पूजा के लिये पूजा करता है। देव आदि मनुष्य को आकान्त नहो करते। जैसा कि सुभुतमें कहा है—

“न ते मनुष्ये: सह संविद्यन्ति न वा मनुष्यान् कविदाविद्यन्ति ।

ये त्वाविद्यन्ति बदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविद्यादपोद्दाः ॥”

साध्य तु साध्यसंयोगं, तस्य साधनं साधनसंयोगमेव विशादिति ॥१६॥

उन्माद के मेद—ऊपर कहे हुए पांच उन्माद निज और आगन्तुज मेदसे या साध्य और असाध्य मेद से, पांच प्रकार के होने पर भी दो प्रकार के होते हैं। कहीं बार निज दोषजन्य उन्माद के साथ आगन्तुज उन्माद भी परस्पर अनुइन्ध रूप से मिला होता है और कभी साध्य और असाध्य दोनों प्रकारके उन्मादों के कारणों का संयोग होता है, इस अवस्था में पूर्वसुर और लक्षण दोनों निभित होते हैं। दोनों प्रकार के लक्षणों के मिलने से रोग असाध्य हो जाता है। इस में भी असाध्य संयोग अथवा साध्य और असाध्य दोनों का संयोग हो तो इसको असाध्य जाने। साध्य लक्षणों का संयोग होते साध्य जाने। (अर्थात् निभित लक्षणों वाले उन्माद में संयुक्त औषधियों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये) ॥१६॥

भवन्ति चात्र—नैव देवा न गन्धवान् न पिशाचा न राक्षसाः ।

न चाये स्वयमकिष्टमुपकिष्टयन्ति मानवम् ॥ २० ॥

ये त्वेनमनुवर्त्तन्ते किष्टयमानं स्वकर्मणा ।

न तन्निमित्तः क्लेशाऽसौ न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ २१ ॥

प्रज्ञापराधात्संप्राप्ते व्याघौ कर्मज आत्मनः ।

नाभिशंसेद् बुधो देवान् पित्राणापि राक्षसान् ॥ २२ ॥

आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः ।

तस्माच्छ्लेष्यस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो व्रसेत् ॥ २३ ॥

देवादीनामपचितिहिंवाना चोपसेवनम् ।

ते च तेऽयो विरोधश्च सर्वभायत्तमात्मनि ॥ २४ ॥

जो मनुष्य स्वयं अपने दोगों से पीछित नहीं होता उसको न तो देवता, न गन्धवान्, न पिशाच, न राक्षस और न अन्य योनिया छोड़ित करती हैं। अपने कर्मों के कारण देवता आदि द्वारा जो पीड़ा मिलती है; उसका कारण देवता नहीं होते। क्योंकि अगुम कर्मों के काल स्वरूप उन्माद होता है। इन कर्मों के कर्ता देवता आदि नहीं हैं। बुद्धि के अस्तर से अपने कर्मों के दोष से रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि देवता, पितॄ या राक्षस आदि को दोष न दे, उनको उपालभ्य न दे। अपने को ही मुख और दुख का कारण माने। इसलिये मनुष्य देव आदि से भय न कर के भेयस्कर मार्गं का अनुसरण करे। देव आदि की पूजा, हितकारक पदार्थों का सेवन एवं लक्षण से विरोध करना, ये सब बातें अपने हाथ में हैं ॥२०-२४॥

संक्षिप्तः—संक्षया निभित्तं द्विविधं लक्षणं साध्यतां न च ।

उम्मादानां निषालेऽस्मिन् विकासूक्तं च अविवक्तं ॥ २५ ॥ इति ।

‘उम्मादनिदान’ नामक अध्याय में उम्माद रोग की उल्ला, निमित्त, हो प्रकार के वर्णण, साध्य और असाध्य मैद और चिकित्सादृश ये सब बातें कह दी हैं ॥ २५ ॥

इत्यविवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने  
उम्मादनिदानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः ।

अथातोऽपस्मारनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्त भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब ‘अपस्मार-निदान’ की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपरेक्ष किया है ॥ १-२ ॥

इह खलु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-निमित्ताः ॥ ३ ॥

अपस्मार रोग चार प्रकार का होता है । यथा—( १ ) वातजन्य, ( २ ) पित्तजन्य, ( ३ ) कफजन्य और ( ४ ) सन्निपातजन्य ॥ ३ ॥

त एवंविधानां प्राणभृतां शिप्रभिन्निर्वर्तन्ते, तथाथा—रजस्तमो-भ्यासुपहृतचेतसासुद्भ्रान्तविषमबहुदोषाणां समलविकृतोपहितान्यशुचीन्यध्यव्याहारजातानि वैषमययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुक्तानानां तन्त्रप्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्युपश्चीणदेहानां वा दोषाः प्रकृपिता रजस्तमोभ्यासुपहृतचेतसामन्तरात्मनः शेष्ठतममायतनं हृदयसुपसूत्यं पर्यवतिष्ठन्ते, तथेनिद्रायायतनानि । तत्र चावरिथताः सन्तो यदा हृदयमिन्द्रियायतनानि चेरिताः काम-क्रोष्ट-भय-लोभ-मोह-हृष्ट-शोक-चिन्तोद्वेगादिभिर्भूयः सहस्राभिपूरयन्ति; तदा जन्मतुरप्सरति ॥ ४ ॥

निदान और सम्प्राप्ति—अपस्मार रोग निम्न प्रकार के पुरुषों में बहुत जहरी होता है । यथा—जिन का मन रज और तम से युक्त होता है, जिन में दोष उद्भ्रान्त, विषम या बहुत बढ़े होते हैं, जिन का मन विक्षिप्त रह अपविज्ञ, महिन, विरोधी वस्तुओं से मिलित, अवंगड विक्षि से बाढ़े, अनुचित विक्षि से उपरोग करने वाले, साल्प के विक्षद् ।

आके, शरीर की अन्य चेष्टाओं को विषय कर से करने वाले, अस्त्रत शीण शरीर आके तथा रक्ष और तमोगुण से ज्ञात विषयाकाले—ऐसे पुरुषों में अन्य-रात्मा के प्रधान स्थान हृदय को बढ़े हुए दोष घेर लेते हैं। इसी प्रकार मिळ-मिल इन्द्रियों के स्थानों में भी जब ये कुप्रिय दोष फैल जाते हैं और काष, क्रोध, भय, छोड़, मोह, इर्ष, शोक, चिन्ता, उद्गेग आदि द्वारा हृदय तथा इन्द्रिय स्थानों को भर देते हैं, उस समय मनुष्य की स्मृति ( भान ) नह हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है ॥ ४ ॥

अपस्मारं पुनः स्मृति-बुद्धि-सत्त्व-संसाराद्वीभत्सचेष्टमावस्थिकं तमः-  
प्रवेशमाचक्षते ॥ ५ ॥

अपस्मार का लक्षण—स्मृति, बुद्धि और चित्त इन के विकृत होने से मुख में शाग, बमन, अंग-भंग आदि बीमस शरीर चेष्टाओं के होने से एक-दम तमोगुण के कारण बेसुध शिथिति में आ जाने को 'अपस्मार' कहते हैं ॥ ५ ॥

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—भ्रूव्युदासः सततमङ्गो-  
वैकृतमशब्दश्रवणं लालासिङ्घाणकप्रस्त्रवणमनञ्जाभिलषणमरोचका-  
विपाको हृदयप्रहः कुक्षेराटोपो दौर्बल्यमङ्गमर्दो भोहस्तमसो दर्शनं  
मूर्च्छा भ्रमञ्जाभीक्षणं च स्वप्ने भद्रन्तर्तन-पीडन-वेपथु-न्यथन-न्यवन-  
पतनादीन्यपस्मारपूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमपस्माराभिनिर्वृ-  
त्तिरेव ॥ ६ ॥

अपस्मार के पूर्वरूप—अपस्मार के निम्नलिखित पूर्वरूप होते हैं । यथा—  
भुवों का संकुचित ( वक्ष ) होना, आँखों का निरन्तर विकृत रहना, कान की  
भ्रवण शक्ति का नष्ट होना ( जो बोला जाय उसे स्पष्ट न सुनना ), मुख से लार  
और नाटिका से मल का बहना, भोजन में अनिन्जा, अरुचि, अविशक, हृदय-  
प्रह, पेट में अफारा, कृशता, अंगों में पीड़ा, मोह, अनधकार का आँखों के  
सामने आना, मूर्च्छा, भ्रम ( चक्कर आना ), स्वप्न में मस्त हो कर नाचना,  
कापना, पीडन, बीधना, गिरना आदि पूर्व-दक्षण होते हैं । इन लक्षणों के पीछे  
अपस्मार रोग उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

तत्रेदमपस्मारविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—अभीक्षणमपस्मरन्तं  
क्षणे संक्षां प्रतिलभमानमुत्पिण्डिताक्षमसाङ्गाविल्पन्तमुद्भवन्तं फेनमती-  
वाऽऽभ्यातप्रीवमाविद्विशिरसं विषमविनताकुलिकमनवस्थितसक्षिप्त-

प्राप्तमरण-परुष-न्यथा व-न्यत्व-नयन-न्यदन-न्यवचमनवस्थित-न्यपल-परुष-  
वादकानुपश्यत् विषरीकोपशार्यं वातेमपस्मरन्तं

**वातजन्य अपस्मार के लक्षण—अपस्मार रोग के विशेष लक्षण ये हैं।**  
**यथा—**रोगी बेसुध होकर शीघ्र ही थोड़े थोड़े समय में सबेत हो जाता है, आँखों का बहुत फैलना, व्यर्थ का बकवाद करना, मुख से क्षाग गिरना, प्रीवा का भरा एवं जकड़ा रहना, घिर का टेढ़ा रहना ( घिर में बींचने के समान पीड़ा होना ), अंगुलियों का विश्रम होना या मुङ्ग जाना, टांग, पांव और हाथ का चलाना ( इन में अस्थिरता ), नख, आँख, मुख और त्वचा का लाल, कठोर, खर्सर होना, चबल, अस्थिर, कठोर, रुक्ष आदि रूप गिरते समय रोगी को दीखते हैं । वातकारक पदार्थों से रोग में वृद्धि और विशद् पदार्थों से इस की शान्ति होती है, ये वातजन्य अपस्मार के लक्षण हैं ॥ ७ ॥

**अभीक्षणमपस्मरन्तं श्लणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमवकूजन्तमास्फा-  
 लयन्तं च भूमि हरित-हारिद्र-ताप्र-नख-नयन-वदन-त्वचं रुधिरोक्षितोप्र-  
 भैरव-प्रदीप-रूषित-रूप-दर्शिनं पित्तलानुपशयं विपरीतोपशयं पित्तेना-  
 पस्मरन्तं विद्यात् ॥ ८ ॥**

**पित्तजन्य अपस्मार—**जो रोगी बार-बार बेसुध होता हो और थोड़ी देर में किर सबेत हो जाता हो ( वातजन्य अपस्मार को अपेक्षा से कुछ देरी में ), गले से कूजने का सा शब्द होता हो, भूमि पर हाथ पांव पटकता हो, नख, नयन, मुख और त्वचा हरे, हर्दी के समान वा ताम्बे के समान लाल; रक्त से भरे तीव्र, भयंकर, प्रदीप, क्रोधी रूप को देखता हो, पित्तकारक पदार्थों से रोग बढ़े और विपरीत क्रियाओं से शान्त हो, ये पित्त से उत्पन्न अपस्मार के लक्षण हैं ॥ ८ ॥

**चिरादपस्मरन्तं चिराद संज्ञां प्रतिलभमानं पदन्तमनतिविकृतचेष्ट  
 लालानुद्रमन्तं शुक्ल-नख-नयन-वदन-त्वचं शुक्ल-गुरु-स्निग्ध-रूप-दर्शिनं  
 श्लेष्मलानुपशयं विपरीतोपशयं श्लेष्मणाऽपस्मरन्तं विद्यात् ॥ ९ ॥**

**कफजन्य अपस्मार—**जो रोग देर में बेहोश होता हो और देर में ही जाग्रत होता हो, गिरते समय जिस को चेष्टायें बहुत विकृत नहीं होती, मुख से आर गिरती हो, नख, आँख और त्वचा सफेद हो गई हो, जिसको सफेद, गुरु, स्निग्ध रूप दिखाई देता हो तथा कफवर्षक वस्तुओं से जिसका रोग बढ़े और विपरीत वस्तुओं से कम हो; उस को कफजन्य अपस्मार का रोगी समझना चाहिये ॥ ९ ॥

**समवेतस्वर्वंलिङ्गमपस्मारं सान्निपातिकं विद्यात्, तमसाध्यं  
 इति चत्वारोऽपस्मारा व्याख्याताः ॥ १० ॥**

सान्निपातिक अपस्मार—जिस अपस्मार में तोनो दोषों के लक्षण मिले रहते हैं; उस को सान्निपातिक अपस्मार समझना चाहिये। यह असाध्य है, इस प्रकार से चार प्रकार के अपस्मार कह दिये ॥ १० ॥

तेषामागान्तुबन्धो भवत्येव कदाचित्, स उत्तरकाळमुपदे-  
क्ष्यते । तस्य विशेषविज्ञानं यथोक्तेर्लिङ्गेर्लिङ्गाः। विश्वमशोषलिङ्गानु-  
रूपं किञ्चित् ॥ ११ ॥

इन चार प्रकार के अपस्मार रोगों में भाग्य से कमी आगन्तुज अपस्मार का सम्बन्ध होता है। इस का विस्तार आगे चिकित्सा-स्थान में करेंगे। जिस अपस्मार में उपरोक्त लक्षणों से भिन्न लक्षण अथवा लक्षणों की अधिकता या दोषों के लक्षणों से भिन्न लक्षण दिलाई दें; उसे आगन्तुज अपस्मार समझना चाहिये ॥ ११ ॥

सर्वमेवं हितम् । हितान्यपस्मारिभ्यस्तीक्ष्णानि चैव संशोधनान्यु-  
पशमनानि च यथास्वं, मन्त्रादीनि चाऽगन्तुसंयोगे ॥ १२ ॥

चिकित्सा सब—अपस्मार रोगी के लिये तीव्र संशोधन या तीव्र संशमन सब औषधियाँ हितकारी हैं। आगन्तुज अपस्मार में मंत्र आदि का प्रयोग करना होता है ॥ १२ ॥

तस्मिन् हि दक्षाध्वरोदूध्वंसे देहिना नाना दिल्जु विद्रवतामतिसरण-  
सवन-धावन-लङ्घनाद्यैर्देहविक्षोभणैः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्, इविष्ठा-  
शान्मेहकृष्णानां, भयोत्त्रासशोकैरुन्मादानां, विविधभूताशुचिसंस्पर्शाद-  
पस्माराणां, उवरस्तु खलु महेश्वरललाटप्रभवः, तत्संवापाद्रकपिर्चां,  
अतिव्यवायात्युननक्षत्राराजस्य राजयक्षमेति ॥ १३ ॥

भिन्न भिन्न रोगों को उत्पत्ति—प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विष्वस होने के समय सब प्राणी इवर-उवर दिशाओं में भागे। इन के भागने, कूदने-सांदने आदि शरीर को विक्षोभित करने वाली चेष्टाओं से 'गुल्म' रोग की उत्पत्ति हुई। इविष्ठ के अधिक खाने से 'प्रमेह' और 'कुष्ठ' रोग की; भय डर और शोक से 'उन्माद' रोग की; नाना प्रकार के अपविष्ठ पदार्थों के स्वर्य से 'अपस्मार' रोग की उत्पत्ति हुई। उवर महादेव के माथे से उत्पन्न हुआ है, उवर के सन्ताप से 'रक्पित्त' रोग और नष्टत्रयाज चन्द्रमा [अति छींसंग से 'राजयक्षमा' रोग उत्पन्न हुआ] ॥ १३ ॥

अपस्मरति वातेन पित्तेन च कफेन च ।  
प्रनिपातेन प्रस्थाख्येयस्तथाविष्ठः ॥ १४ ॥

साध्यास्तु भिषजः प्राह्णः साधयन्ति सूमास्तिः ।

तीक्ष्णोः संशोधनेश्वै यथास्वं शमनेरपि ॥ १५ ॥

यदा दोषनिमित्तास्य भवत्यागन्तुरन्वयः ।

तदा साधारणं कर्म प्रबद्धन्ति भिषग्वराः ॥ १६ ॥

साध्य और असाध्य—अपरमार चार प्रकार का है। बातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निगतजन्य। इन में सन्निगतजन्य असाध्य है। साध्य अपरमारों को बुद्धिमान् वैद्य तीक्ष्ण संशोधन एवं संदर्भन किया से अच्छा करते हैं और जित समय दोषज और आगन्तुज दोनों अपरमार मिले रहते हैं उस समय उत्तम वैद्य दोनों प्रकार की मिश्रित चिकित्सा करते हैं ॥ १४-१६ ॥

सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वोषधविशेषवित् ।

भिषक् सर्वामयान् हन्ति न च मोहं निगच्छति ॥ १७ ॥

इत्येतद्विलिङ्गेनोक्तं निदानस्थानमुत्तमम् ।

रोगज्ञान का फल—सब रोगों को और सब ओषधियों को भली प्रकार से जानने वाला वैद्य सब प्रकार के रोगों को शान्त कर सकता है और कभी भी घटराता नहीं। इस प्रकार से उत्तम निदानस्थान को सम्पूर्ण रूप में कह दिया है ॥ १७ ॥

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते ॥ १८ ॥

तद्यथा उवरसन्तापाद्रकपित्तमुदीयते ।

रकपित्ताज्ज्वरस्ताप्याशोषश्चाप्युपजायते ॥ १९ ॥

सीहाभिवृद्धधा जठरं जठराच्छोथ एव च ।

अशोभ्यो जठरं दुःखं गुलमश्चाप्युपजायते ॥ २० ॥

प्रतिश्यायादथो कासः कासात्सजायते क्षयः ।

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ २१ ॥

एक रोग के कारण दूसरा रोग—एक रोग दूसरे रोग का निदान अर्थात् उत्पादक कारण भी होता है। जैसे—उवर-सन्ताप से रकपित्त रोग उत्पन्न होता है। रकपित्त और उवर से शोष रोग उत्पन्न होता है। पीहा के बढ़ने से उदर रोग, उदर रोग से शोष रोग उत्पन्न होता है। अर्द्ध रोग से गुलदायी उदर रोग तथा गुलम रोग भी उत्पन्न हो जाता है। प्रतिश्याय से कास और कास रोग से क्षय तथा क्षय रोग से दूसरे अन्य रोग या शोष ही उत्पन्न हो जाता है ॥ १८-२१ ॥

ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद्वेत्यर्थकारिणः ।

उभयार्थकरा इष्टास्तथैवेकार्थकारिणः ॥ २२ ॥

कश्चिद्दि रोगो रोगस्य हेतुर्मृत्वा प्रशास्यति ।  
न प्रशास्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुते ऽपि च ॥ २३ ॥

ये रोग प्रथम स्वर्यं रोग रूप होते हैं, परन्तु यीँ से दूसरे रोगों के कारण बन जाते हैं। परन्तु कई रोग दोनों कार्य करते हैं अर्थात् अपने आप रोग रूप से रहते हुए भी कारण रूप बनकर दूसरे रोगों को उत्पन्न करते हैं। कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वर्यं शान्त हो जाता है। परन्तु कई रोग स्वर्यं शान्त न होकर दूसरे रोगों के कारण बनते हैं ॥ २३-२४ ॥

प्रयोगः शमयेद्वाधार्थं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।  
नासौ विषुद्धः, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥ २४ ॥  
एवं कृच्छ्रत्वमा नाणा दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ।  
प्रयोगापरिशुद्धत्वात्तथा चान्योन्यसंभवात् ॥ २५ ॥

शुद्ध प्रयोग का लक्षण—इस प्रकार से मनुष्यों में होने वाले अनेक प्रकार के कष्टसाध्य रोग दिखाई पड़ते हैं। एक औषध का प्रयोग अविशुद्ध होने से तथा एक से दूसरा रोग उत्पन्न होने से व्याधियों का संकर अर्थात् मिथक दिखाई देता है। जो प्रयोग एक रोग को शान्त करे परन्तु साथ में दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे वह प्रयोग विशुद्ध नहीं। शुद्ध प्रयोग तो वही है जो उपस्थित रोग को शान्त करदे तथा नया रोग उत्पन्न न करे ॥ २४-२५ ॥

एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि ॥ २४-२५ ॥  
व्याधेरेकस्य चानेको बहुनां बहोऽपि च ॥ २६ ॥  
ज्वरभ्रमप्रलापाद्या दृश्यन्ते रूक्षादेतुजाः ।  
रूक्षेणेकेन चाप्येको ज्वर एवारजायते ॥ २७ ॥  
हेतुभिर्बहुभिञ्चैको ज्वरो रूक्षादिभिर्भवेत् ।  
रूक्षादिर्भवेराद्याच्च व्याधयः संभवन्ति हि ॥ २८ ॥

कारण मेद—अनेक रोगों का एक कारण, एक रोग का एक ही कारण, एक रोग के अनेक कारण, बहुत से रोगों के बहुत से कारण भी होते हैं। ये से—एक रूक्ष कारण से ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि बहुत रोग होते हैं। एक रूक्ष कारण से ज्वर रूप एक ही रोग उत्पन्न होता है। रूक्ष आदि बहुत से कारणों

जित प्रकार अतिसार रोग में अक्षीम आदि देकर स्तम्भन करने से रूक्ष भा शूल हो जाता है। एक उमान रूप होने से प्रतिष्ठमन्य है कारण जाता है।

को छेकर ज्वर एक ही रोग उत्पन्न होता है और रुक्ष आदि बहुत से कारणों से ज्वर आदि अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं ॥ २६-२८ ॥

लिङ्गं चैकमनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।

बहून्येकस्य च व्याधेवंबूनां स्थुर्बहूनि च ॥ २९ ॥

विषमारम्भमूलानां लिङ्गमेकं ज्वरो मतः ।

ज्वरस्यैकस्य चाप्येकः संतापी लिङ्गमुच्यते ॥ ३० ॥

विषमारम्भमूलैश्च ज्वर एको निरुच्यते ।

लिङ्गैरेतैर्ज्वरश्वासहिकाद्याः सन्ति चाऽस्मयाः ॥ ३१ ॥

लक्षण मेद—अनेक रोगों का एक लक्षण, एक रोग का एक ही लक्षण, एक रोग के बहुत से लक्षण और अनेक रोगों के बहुत से लक्षण होते हैं । जैसे—उम्मा की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोगों का ज्वर रूप एक लक्षण होता है । ज्वर रोग का एक ही लक्षण सन्ताप है । विषमारम्भ मूलक अनेक लक्षणों से युक्त अकेला ज्वर होता है । इसी प्रकार विषमारम्भ मूलक लक्षणों से ज्वर, श्वास, हिचकी आदि अनेक रोग होते हैं ॥ २६-३१ ॥

एका शान्तिरनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।

व्याधेरेकस्य चानेका बहूनां बहूभ्य एव च ॥ ३२ ॥

शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लङ्घनक्रिया ।

ज्वरस्यैकस्य चाप्येका शान्तिर्लङ्घनमुच्यते ॥ ३३ ॥

तथा लघ्वशनाद्याश्च ज्वरस्यैकस्य शान्तयः ।

प्रताञ्चेव ज्वरश्वासहिकादीनां प्रशान्तयः ॥ ३४ ॥

चिकित्सा विधान—अनेक रोग एक ही चिकित्सा से शान्त होजाते हैं, एक रोग की शान्ति एक ही प्रकार से, एक रोग की शान्ति अनेक प्रकार से और अनेक रोगों की शान्ति अनेक प्रकार से भी होती है । जैसे आमाशय से उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों की शान्ति उपवास क्रिया से, ज्वर अकेले की शान्ति उपवास से हो जाती है । इसी प्रकार अकेले ज्वर को शान्त करने के लिये लघु भोजन आदि अनेक उपाय हैं । लघु भोजन आदि अनेक उपाय ज्वर, श्वास, हिचकी आदि अनेक रोगों को शान्त करते हैं ॥ ३२-३४ ॥

मुखसाध्यः मुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते ।

साध्यते कृच्छ्रसाध्यस्तु यन्नेन महता चिरात् ॥ ३५ ॥

मुखसाध्य और कृच्छ्रसाध्य—मुखसाध्य रोग, मुखपूर्वक चिकित्सा । पर थोड़े समय में अच्छा हो जाता है । कषसाध्य रोग बहुत प्रयुक्त । देर में अच्छा होता है ॥ ३५ ॥

याति नाशेषता व्याधिरसाधो याप्यसंक्षिप्तः ।  
 परोऽसाध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोऽतिवर्तते ॥ ३६ ॥  
 नासाध्यः साध्यता याति, साध्यो याति त्वसाध्यताम् ।  
 पाहावचाराहैवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३७ ॥  
 बुद्धिस्थानक्षयावस्था रोगाणामुपलक्ष्येत् ।  
 सुसूक्ष्मामपि च प्राङ्गो देहाभिवलचेतसाम् ॥ ३८ ॥  
 व्याध्यवस्थाविशेषान् हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः ।  
 तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छ्रूयः प्रपश्यते ॥ ३९ ॥

**याप्य और असाध्य—**याप्य-संक्षेप असाध्य रोग कभी भी जड़-मूल से नष्ट नहीं होते ( वे पथ्य और अौषध द्वारा कुछ काल तक दबे रहते हैं ) और असाध्य रोग सब प्रकार की चिकित्सा करने पर भी शान्त नहीं होते । असाध्य रोग साध्य नहीं हो सकते, परन्तु साध्य रोग असाध्य बन जाते हैं । सब रोगों की चिकित्सा के जो चार पाद हैं, इन के अपचार से अथवा दैवबल के कारण रोग दूसरी स्थिति ( असाध्य अवस्था ) में पहुंच जाते हैं । बुद्धिमान् वैद्य को उचित है कि दोष की बुद्धि, स्थान और क्षय की परीक्षा भली प्रकार करे । रोगी के शरीर, जाठराग्नि, बल और चिकित्सा का सहमता से शान प्राप्त करे । रोग की विशेष अवस्थाओं को भली प्रकार पूर्ण रूप से समझ कर उस प्रकार से शान्तिशारक चिकित्सा करने पर सुख ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चारों पुरुषार्थ ) प्राप्त होते हैं ॥ ३६-३९ ॥

प्रायस्तिर्थगता दोषाः क्लेशयन्त्यातुराँश्चिरम् ।  
 तेषु न त्वरया कुर्यादेहाभिवल-विक्रियाम् ॥ ४० ॥  
 प्रयोगैः क्षपयेद्वा तान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् ।  
 ज्ञात्वा कोष्ठप्रपञ्चस्तान् यथास्त्वं तं हरेद् बुधः ॥ ४१ ॥  
 ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संप्रदेः ।  
 व्याधयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानीष्टानि नाऽमयाः ॥ ४२ ॥

**प्रयः** बात आदि दोष कुमार्ग में जाकर रोगियों को बहुत समय तक पीड़ित करते हैं । ऐसे स्थानों में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये । अपितु रोगी के शरीर और अग्नि-बल को जानकर औषध-प्रयोग द्वारा दोषों को बीरे बीरे कम करना चाहिये । अथवा दोषों को कोष्ठ-स्थान में छाना चाहिये । और जब दोष के लिये जो लक्षण संक्षेप में हैं, उन को एक स्वतन्त्र रोग

समष्टना चाहिये । परन्तु विष स्थान पर दूरे रोगों का ज्ञान कराया गया है वहाँ पर इन लक्षणों को लक्षण ही समष्टना चाहिये ॥ ४०-४२ ॥

**विकाराः प्रकृतिश्वैव द्वयं सर्वं समासतः ।**

**तद्देतुवशां हेतोरभावान् प्रवर्तते ॥ ४२ ॥**

विकार और प्रकृति इन दो अवस्थाओं का जो वर्णन किया है ये दोनों ही कारण के अधीन हैं । कारण के अभाव से इन दोनों में से एक भी नहीं रह सकता ॥ ४२ ॥

तत्र इडोकाः—हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।

**संप्राप्तिः पूर्वमुत्पत्तिः सूत्रमात्रं चिकित्सितम् ॥ ४४ ॥**

ब्वरादीना विकाराणामष्टानां साध्यता न च ।

पूर्थगेकैकशश्चोक्ता हेतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४५ ॥

हेतुपर्यायनामानि व्याधीना लक्षणस्य च ।

निदानस्थानमेतावत्संप्रहेणोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ इति ।

इस निदान स्थान में उवर आदि आठ रोगों के हेतु, पूर्वरूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति, पूर्वोत्पत्ति, चिकित्सा सूत्र, साध्यता और असाध्यता, इन का वर्णन किया है । हेतु, लिंग, उपशय, व्याधि, लक्षण और हेतु के पर्यायवाची शब्द ये सब विषय संक्षेप में कह दिये हैं ॥ ४४-४६ ॥

इत्यग्निवेष्टकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थानेऽ-

पस्मारनिदानं नामाष्टमोऽस्यायः ।

इति निदानस्थानं संपूर्णम् ।

अनिदानस्थान में प्रधानभूत उवर आदि का ज्ञान कराने के लिये अविपाक, अवनि आदि को रोग कहे गये हैं, उनको स्वतंत्र अवस्था में उत्पन्न होने पर रोग ही जानने चाहिये और जब रुचरादि के कारण ये उत्पन्न होते हैं सूत्र, लक्षण ही हैं । क्योंकि आमुखेद में स्वतन्त्र अपनी चिकित्सा से ज्ञात ही रोग कहा जाता है ।

## विमानस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इस के बाद 'रस-विमान' का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

इह खलु व्याख्यानां निमित्त-पूर्वरूप-रूपोपशय-संख्या-प्राधान्यविधि-विकल्प-चल-काल-विशेषाननुप्रविश्यानन्तरं । रस-द्रव्य-दोष-विकार-भेषज-देश-काल-चल-शरीरादार-सार-सात्त्व-सत्त्व-प्रकृति-वयसी भान-मवहितमनसा यथावज्ज्ञेयं भवति भिषजा, रसादिमानज्ञानायत्तत्वात् क्रियायाः । न हामानज्ञो रसदोषादीनां भिषक् व्याधिनिप्रहसमर्थो भवति । तस्मात् रसादिमानज्ञानार्थं विमानस्थानमुपदेश्यामोऽरिनवेश ॥ ३ ॥

विमान-स्थान का प्रयोजन—चिकित्सा में सफलता चाहने वाले वैद्य को चाहिये कि उब से प्रथम रोगोंका निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प ( भेद ), चल, काल, विशेष ( संक्षय अदि पाँच, संशासि के भेद ) को भली प्रकार जानकर, अनन्तर सावधान मन होकर मधुर आदि रस, द्रव्य ( भेषज द्रव्य ), वात आदि दोष, विकार, देश ( भूमि और रोगी ), काल ( नित्य और आवर्दियक ), चल, शरीर, सार ( त्वग्, रक, ओज आदि ), आहार ( भोजन ), सात्त्व ( आंकसात्त्व ), सत्त्व ( मन ), प्रकृति ( वात-आदि ), वय ( काल के प्रमाण की अपेक्षा से बाल्यावस्था आदि ) आदि की रोगा में भली प्रकार परीक्षा करे, क्योंकि चिकित्सा-क्रिया का आधार रसादि ज्ञान ही है । इस लिये रसादि का ज्ञान भली प्रकार करना चाहिये । रसादि को न जानने वाला वैद्य रोगों को रोकने और उन की चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता । इसलिये हे अभिवेद्य ! रसादि ज्ञान के अधीन चिकित्सा के होने से, रसादि ज्ञान के छिये विमान-उपदेश करेंगे ॥ ३ ॥

अरेश्य इति च पाठः ।

तत्राऽऽद्वौ रस-द्रव्य-दोष-विकार-प्रभावात् वस्थामः ॥ ४ ॥

इन में सब से प्रथम मधुर आदि रस, मेषज द्रव्य, वात आदि दोष और विकार और इन के प्रभावों को कहेंगे ॥ ४ ॥

रसास्तावत् घट् मधुराम्लः लवण-कटु-तिक्त-कषायाः । ते सम्यगुपयुज्य-  
मानाः शरीरं यापयन्ति, मिथ्योपयुज्यमानास्तु खलु दोषप्रकोपनायो-  
पकल्पयन्ति ॥ ५ ॥

रुच छः हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय । इन का यदि  
भली प्रकार उपयोग किया जाय तो ये शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखते हैं  
और यदि अन्यथा अर्थात् अन्यथा रूप में सेवन किये जावे तो वातादि दोषों  
को प्रकृपित करके रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥

दोषाः पुनश्चयो वात-पित्त-श्लेष्माणः । ते प्रकृतिभूताः शरीरोपकारका-  
भवन्ति, विकृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैविकारैः शरीरसुपता-  
पयन्ति ॥ ६ ॥

दोष तीन हैं । वात, पित्त और कफ । ये तीनों दोष अपनी प्रकृति  
अर्थात् समान अवस्था में रहकर शरीर के उपकारक होते हैं और ये ही दोष  
विषम रूप में विकृत होकर शरीर को नानाप्रकार के रोगों से पीड़ित  
करते हैं ॥ ६ ॥

तत्र दोषमेकैकं त्रयस्यो रसा जनयन्ति, त्रयस्यश्चोपशमयन्ति ।  
तथ्यथा कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शम-  
यन्ति । कटुकाम्ललवणाः पित्तं जनयन्ति, मधुरतिक्तकषायास्त्वेनं  
शमयन्ति । मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषाया-  
स्त्वेनं शमयन्ति ॥ ७ ॥

रसों के प्रभाव—दोषों का शमन करना और दोषों को कुपित करना यह  
रसों का ही प्रभाव है । इन में तीन तीन रस एक एक दोष को उत्पन्न करते  
हैं और तीन तीन रस एक एक दोष को शान्त करते हैं । जैसे—कटु, तिक्त  
और कषाय ये तीन रस वायु को उत्पन्न करते हैं । मधुर, अम्ल और लवण  
ये तीन रस वायु का शमन करते हैं । कटु, अम्ल और लवण ये तीन रस  
पित्त को उत्पन्न करते हैं । मधुर, तिक्त और कषाय ये तीन रस पित्त का  
शमन करते हैं । मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस कफ को उत्पन्न करते  
हैं और कटु, तिक्त और कषाय ये तीन रस कफ को शमन करते हैं ॥ ७ ॥

रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैदोषैः समानगुणाः समान-  
यिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणास्तु ।

**भूषिषु वा शमयात्प्रस्थित्यमानाः—**इत्येतद्बन्धवस्थाहेतोः पदस्वप्नुपदि-  
श्वते रसानां परस्परेणासंसृष्टानां, त्रित्वं च दोषाणाम् । संसर्वाविकल्प-  
विस्तरो दोषामपरिसंख्येयो भवति, विकल्पेभेदापरिसंख्येयत्वात् ॥ ८ ॥

रस और दोषों के सम्बन्धित होने पर जो जो रस दोषों के समान गुण आँठे  
तथा समान स्वभाव के होते हैं वे उन दोषों को बढ़ाते हैं, विशेषतः जब ये  
रस नित्य प्रति निरन्तर सेवन किये जाते हैं । इसी प्रकार जो रस जिन दोषों  
के साथ विपरीत गुण और विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वे सेवन करने पर  
उन दोषों को शमन करते हैं । इस सामान्य और विपर्यय के कारण जो  
वृद्धि और हाथ का नियम है उस की दृष्टि से परस्पर न मिले हुए रस छः  
तथा परस्पर न मिले हुए दोष तीन हैं । इन्हीं में यह उपरोक्त व्यवस्था संभव  
है । इन के पारस्परिक संसर्ग में यह संभव नहीं, क्योंकि इन रसों और दोषों  
का परस्पर संयोग होने से वे असंख्य हो जाते हैं । क्योंकि विकल्पों के मेद  
अदंख्य हैं ॥ ८ ॥

**तत्र खल्वनेकरसेषु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-  
दोषप्रभावमेकैकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्यनिकारयोः प्रभावतस्वं व्यव-  
स्थेत् ।**

इन में अनेक रसवाले द्रव्यों में और अनेक दोषों को प्रारम्भ करने वाले  
विकारों में रस प्रभाव और दोषों के प्रभाव को पृथक् पृथक् रूप से देखकर,  
रसविकार द्रव्य-विकार के प्रभाव का निश्चय करे । अर्थात् जहाँ पर एक रस  
और एक ही दोष हो वहाँ पर रस और दोष के प्रभाव से द्रव्य-विकार के प्रभाव  
का ज्ञान हो ही जाता है ; परन्तु जहाँ पर अनेक रस और अनेक दोष मिले हों  
वहाँ पर भी छः रसों और तीन दोषों के प्रभाव का निश्चय कर लेना चाहिये ।

**न त्वेषं खल्लु सर्वत्र । न हि विकृति-विषम-समवेतानां नानात्मकानां**

१. रस का विकृति-समवाय जैसे मधुर भात में । मधुर रस स्वभाव से  
स्वेहकारी और वृद्धि है, परन्तु द्रव्य के विकार रूप भात में वह मधुरता वह गुण  
नहीं करती । भात स्तिरग्नि और वृद्धि नहीं है ।

रसों का विषम समवाय अर्थात् विषम मेड जैसे तिल में कवाय, कट्टु, तिक्क  
और मधुर चार रस मिले हैं । यदि वे विना मात्रा के मिले न होते तो तिल भी  
इंसों को इरने वाला वा त्रिदोषन्दारी होता, परन्तु तिल में रसों का

२. अर्थात् विषम रूप से मेड है । अतः वह वैसा नहीं है, प्रस्तुत  
रूप को उत्पन्न करता है । पदार्थों में कहीं तो ये रस अपना ठीक

द्रव्याणि परत्परेण चोपहतानामन्यैश्च विकल्पनैर्विकल्पितानामवयवप्रभावानुमानेन समुदायप्रभावतस्वमध्यवसातुं शक्यं । तथायुक्ते हि समुदाये समुदायप्रभावतस्वमेवोपलक्ष्य ततो रस-द्रव्य-विकार-प्रभाव-उत्तर्व व्यवस्थेत् ॥ ६ ॥

परन्तु इस प्रकार सब स्थानों पर जाना नहीं आ सकता । क्योंकि द्रव्य सम्पूर्ण विकृति भाव से और अनुमान परिमाण में परत्पर मिलते । इस मिलने के समय एक द्रव्य के द्वारा दूसरा द्रव्य नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार नाना रूपमें भी द्रव्य बदल जाता है । इन अवस्थाओं में अंशांश विकल्पना द्वारा प्रत्येक अंश का प्रभाव अनुमान द्वारा जानकर उसे सम्पूर्ण समुदाय रूप द्रव्य का प्रभाव जानना असम्भव है । इस अवस्था में सम्पूर्ण द्रव्य का सम्पूर्ण प्रभाव जानना चाहिये ॥ ६ ॥

तस्माद्वासप्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च विकारप्रभाव-तश्च तत्त्वमुपदेश्यामः—तत्राप रस-द्रव्य-दोष-विकार-प्रभाव उपदिष्टो भवति ॥ १० ॥

इसलिये चिकित्सा में रस-प्रभाव, द्रव्य-प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार-प्रभाव इन चारों की अपेक्षा है । इससे उन चारों प्रकार के प्रभावों का यथार्थ उपदेश करेंगे । रसों और द्रव्यों का वात, रिच और कफ इन दोषों को कुपित और शान्त करने का प्रभाव रसनिरूपण अध्याय में कह दिया ॥ १० ॥

द्रव्यप्रभावं पुनरुपदेश्यामः—तैलसरिंगं धूनि वात-पित्त-इलेघ-प्रज्ञ-मनार्थोनि द्रव्याणि भवन्ति । तत्र तर्छं स्नेहोष्यग्नोरवापयन्तत्वाद्वातं जयति सततमध्यस्थमानम् । वातो हि रौक्ष्यशैत्यतापवोपनिः विरुद्ध-गुणो भवति, विरुद्धगुणसन्निपाते हि भूयसाऽल्पमवजीयते, तस्मा-

फल उत्पन्न करते हैं और कहीं नहीं करते, इसी से उनके सम-समवाय या विषम-समवाय का अनुमान किया जाता है ।

एक ही पदार्थ के नाना रूप बन जाने से भी उनके गुणों में मेद आता है । रसों और दोषों का दो प्रकार का समवाय अर्थात् मेल होता है । (१) प्रकृतिके अनुकूल (२) प्रकृति के अनुकूल । जहाँ नाना रस मिलकर भी प्रकृति के गुणों का नाश नहीं करते वैसा मेल 'प्रकृति-सम-समवाय' कहाता है । जहाँ वे विकृति होकर मूल पदार्थ के गुणों का नाश कर देते हैं, वहाँ 'विकृति-विषम-समवाय' कहाता है, क्योंकि वहाँ विकृति हो जाने से विषम अर्थात् प्रकृति के रुग्णों का विपरीत मेल होता है ।

तैळं वातं जयति सततमद्यस्यमानम् । सर्पिः खल्वेवमेव पित्तं जयति, माधुर्याङ्गौत्थान्मन्दवीर्यत्वाच्च, पित्तं इमधुरमुण्डा तीक्ष्णं च । मधु च इलेघ्माणं जयति, रौक्ष्यारौक्ष्यान् कषायत्वाच्च । इलेघ्मा हि रिंगघो मन्दो मधुरञ्ज ॥ ११ ॥

द्रव्य के प्रभाव का अब उपदेश करते हैं । तैल वायु को, जी पित्त को और मधु कफ को शान्त करने वाले द्रव्य हैं । इन में तैल, स्नेह, उच्छ और गुरु होने के कारण निरन्तर सेवन करने से वायु को शान्त करता है । क्योंकि वायु, रुक्ष, शीत और लघु होने से तैल से विपरीत गुण बाला है । दो विरोधी गुणों के मिश्रण में जो गुण अधिक बलवान् होता है वह निर्वल को जीत लेता है । इसलिये तैल निरन्तर सेवन से वायु को जीत लेता है । इसी प्रकार जी भी पित्त को जीतता है, जी, मधुर, शीत एवं मन्दवीर्य है और पित्त अमधुर (कटु अम्ल), उच्छ और तीक्ष्ण है । वह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता है । मधु कफ को जीतता (शमन) करता है । मधु रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय है । कफ रिंगघ, मन्द और मधुर है, इसलिये मधु कफ से विपरीत गुण बाला है ॥ ११ ॥

यच्चान्यदपि किञ्चिद् द्रव्यमेवं वातपित्तकफेऽयो गुणतो विपरीतं विरुद्धं तज्ज्वालायत्यभ्यस्यमानम् ॥ १२ ॥

इसी प्रकार अन्य जो कोई द्रव्य गुणों में वात, पित्त, कफ से विपरीत गुण बाला होता है, वह निरन्तर सेवन करने से वात, पित्त और कफ को शान्त करता है ॥ १२ ॥

अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुक्तीताधिकमन्येऽयो द्रव्येऽयः । तथाथा पिप्पलीः, क्षारं, लवणमिति ॥ १३ ॥

इन निम्न-लिखित तीन द्रव्यों को अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अधिक सेवन नहीं करे । १. पिप्पली, २. क्षार और ३. लवण ॥ १३ ॥

पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरपिचाका गुव्यो नात्यर्थं स्तिंगघो-  
ण्डाः प्रक्लेदिन्यो भेषजाभिमताच्च । ताः सद्यः शुभाशुभकारिण्यो  
मवन्ति, आपातभद्राः प्रयोगसमसाद्गुण्यात्, दोषसंचयानुशन्धाः ।  
सततमुपयुज्यमाना हि गुरुप्रक्लेदित्वा छह्लेघ्माणमुत्क्लेश्यन्ति, औष्ठ्या-  
त्पित्तं, नच वातप्रशमनायोपकल्पन्ते, अल्पस्नेहोष्णभावात्, योगवाहि-  
न्यस्तु खलु भवन्ति । तस्मात्पिप्पलीनर्नात्युपयुक्तीत ॥ १४ ॥

( शुष्क पिप्पली ) कटु रस की होकर भी विपाक में मधुर, गुरु, न  
न अधिक उच्छ, शरीर के चातुरों को क्लिन करने ( गलाने )

बाकी है, ओषधि रूप से ठीक भी है, तो भी शीघ्र ही शुम-अथुम फळ को दिखाने वाली हैं। सम्यक् प्रयोग करने में पूर्णरूप में गुणजारी और ठीक तरह प्रयोग न करने पर दोष का संचय करने वाली होती है। क्योंकि पिपली का निरन्तर उपयोग करने से यह भारी तथा झेंड उत्पन्न करने वाली होने के कारण कफ को कुपित करती है। उष्ण होने से पित्त को कुपित करती है। यह विषरीत गुण होने पर भी बायु का शमन नहीं करती। क्योंकि इन में स्नेह और उष्णगुण न्यून रहता है। पिपली योगवाही है अर्थात् जिस द्रव्य के साथ मिलाकर देते हैं उसी द्रव्य के समान कर्म करने वाली होती है। इसलिये चर, गुलम, कुछ आदि में इस का उपयोग है। इसलिये पिपली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये। (पिपली का भोजनादि में अति प्रयोग हानिकारक है, रसायन में नहीं) ॥ १४ ॥

**क्षारः** पुनरौष्ण्यतैक्षण्यलाघवोपपन्नः क्लेदयस्यादौ पश्चादुपशोषयति । स पचनन्दहन-भेदनार्थमुपयुज्यते । सोऽतिप्रयुज्यमानः केशा-क्षिहृदयपुरुस्त्रोपवात्करः संपद्यते । ये होनं ग्राम-नगर-निगम-जनपदाः सरतमुपयुज्यते तेऽप्यान्ध्य-पाण्ड्य-खालित्य-पालित्य-भाज्ञां हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति, तद्यथा प्राच्याश्रीनाश्च । तस्मात्कार्यं नात्युपयुज्यते ॥ १५ ॥

क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण और लवण रक्त से युक्त होते हैं। ये क्षार पहिले दो शरीर को क्लिन्म करते हैं और पीठे से शुक्र करते हैं। शोक आदि संघात या पिण्डित हुए दोषों को जलाता है, पकाता है और फोड़ता है। इसलिये पकाने, जलाने और फोड़ने के लिये इस का उपयोग किया जाता है। यही क्षार यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये तो केश (बाल), आँख, हृदय और पुरुषत्व को नाश करता है। इसलिए जिस ग्राम, नगर, बस्ती प्रान्त वा देश के लोग इस का अधिक उपयोग करते हैं वे अन्वे, नरुंसक, बालों का गिरने (गंज) या पकने (पलित) और हृदय के रोग से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं। जैसे—प्राच्य (कामरूप) देश के और चीनी। इसलिये क्षार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥

**लवणं** पुनरौष्ण्यतैक्षण्योपपन्नमनतिरुच्चनविस्तिरध्यमुपक्लेदि विस्तंस-नसमर्थमभद्रव्यरुचिकरं आपातभद्रं प्रयोगस्थमाद्गुण्यात्, वोपसंचयानुचर्णं, तद्रोचनपाचनोपक्लेदनविस्तंसनार्थमुपयुज्यते । तदस्त्यर्थमुपयुज्यमानं गङ्गानि-शैथिल्य-दौर्बल्याधिनिरूचिकरं शरीरस्य शेनद्वा प्राम-नगर-निगम-जनपदाः सरतमुपयुज्यते, ते भूयिष्ठं

शिविळ-मास-शोणिता अपरिक्लेशसहाय भवन्ति । तथा । चाहीक-चौरा-  
ट्रिक-सैन्धव-सौबीरकाः, ते हि पयसाऽपि सदा लक्षणमशनन्ति, येऽपीह  
भूमेरत्युषरा देशात्तेष्वौषधिवीकृद्गुनस्यतिवानस्पत्या न जाषन्ते इत्यते जसो  
वा भवन्ति लक्षणोपहृतवात् । तस्माङ्गवर्णं नायुपयुज्ञात । ये द्वितील-  
वणसात्म्याः पुरुषास्तेषामपि ख। लित्येन्द्रलुप्तपालित्यानि तथा वलयश्चा-  
काले भवन्ति ॥ १६ ॥

लक्षण, उष्ण एवं तीक्ष्ण दोनों गुणों से युक्त है, न तो बहुत गुरु और न  
बहुत स्निग्ध होता है । क्रिक्कन करने वाला, विस्तंसन ( बहाने की ) शक्ति वाला,  
भोजन में रुचि पैदा करने वाला, भली प्रकार उपयोग करने पर समर्गूर्णरूप  
में कल्याणकारी है, ठीक प्रकार से न बरतने से दोषों को कुप्रित करने वाला  
होता है । इस का उपयोग रुचि पैदा करने में, पाचन के लिये, क्रिक्कन करने  
के लिये और विस्तंसन के लिये प्रयुक्त होता है । इस का उपयोग बहुत अधिक  
मात्रा में करने से शरीर में श्वानि, शिथिलता और दुर्बलता उत्पन्न होती है ।  
जिस ग्राम, नगर, प्रान्त वा देश के व्यक्ति इस का निरन्तर उपयोग करते हैं,  
उन को ग्लानि बहुत रहती है और उन के फैदर, स्नायु और मांस शिथिल हो  
जाते हैं । वे निर्बल होने से झँग्य सद्दने में असर्मर्य रहते हैं । जैसे—चाहीक  
( बल्ल ), सौरांशु ( गुजराती, काठियावाड़ी ), सैन्धव ( सिन्धु देशी ) और  
सौबीर देश के लोग । ये लोग दूष के साथ भी लक्षण खाते हैं ।

उधर भूमियों में ओरधि ( फलवालो ), लता, वनस्पति, फल-पुष्पवाले  
कृष्ण उत्पन्न नहीं होते । यदि होते हैं तो वे अल्पबल होते हैं । नमक ही इन की  
शक्ति को मार देता है, इसलिये नमक का अधिक उत्पादन नहीं करना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त जिन को लक्षण बहुत अनुकूल पड़ता है उन के बाल  
शीघ्र गिर जाते हैं, जलदी सफेद हो जाते हैं, इन्द्रलुप्त का रोग हो जाता है और  
युवावस्था में ही चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं ॥ १६ ॥

तस्मात्तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेगावगमनं अयेः; सात्म्यमपि हि क्रमे-  
णोपनिवर्त्यमानमदोषमल्पदोषं वा भवति ॥ १७ ॥

इसलिये इन पुरुषों को 'न वेगान्वारणीय' ( सूत्र ० ७ ) अध्याय में बताये  
कुएँ क्रम से नमक के इस प्रकार सारण्य ( अनुकूलता ) से पृथक् होना ही कल्पा-  
शक्तारी है, क्षेत्रिक ऐसे सात्म्य से क्रमपूर्वक इटना दोषरहित अपवा योऽपि दोष-  
ः ॥ १७ ॥

नाम तद् यदात्मन्युपशेते । सात्म्यार्थो शुपश्चार्थःः ॥

सात्य—उठ को कहते हैं कि जो अपनी देह के लिये सुखकारक या अनुकूल होता है। क्योंकि 'सात्य' का अर्थ 'उपशम्य' है।

तत् श्रिविधं—प्रवरावरमध्यविभागेन। सप्तविधं च रसैङ्कृत्वेन,  
सर्वरसोपयोगात् ॥ १५ ॥

तत्र सर्वरसं प्रवर्त, अवरमेकरसं, मध्यमं तु प्रवरावरमध्यस्थम्।  
तत्रावरमध्याद्यां सात्याद्यां क्रमेण प्रवरमुपपादयेत्सात्यम्। सर्वरस-  
मध्यं च द्रव्यं सात्यमुपपनं प्रकृत्याशुपयोक्त्रष्टुमानि सर्वाण्याहारविधि-  
विशेषायतनान्यभिसमीक्ष्य हितमेवानुरुद्धेत् ॥ १६ ॥

सात्य के मेद—यह सात्य तीन प्रकार का है। ( १ ) प्रवर  
( २ ) मध्यम और ( ३ ) अवर। अथवा सात प्रकार का है। जैसे एक एक  
रस से छः प्रकार का और सब रसों के उपयोग से सात प्रकार का है। इन  
सातों में सब रसों का सात्य 'प्रवर' है। 'एक रस का सात्य 'अवर' निष्ठा है।  
प्रवर और अवर के मध्य में स्थित सात्य को 'मध्यम' कहते हैं। इन में  
अवर और मध्यम सात्य को क्रमशः प्रवर सात्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न  
करना चाहिये। सब रसों का सात्य होने पर भी अर्थात् आहार-विधि के विशेष  
उपयोक्ता और प्रकृति आदि सब प्रकार के आठों अंगों को देखकर हितकारक  
पदार्थों का सेवन करना चाहिये ॥ १५-१६ ॥

तत्र स्वलिवमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति। तद्यथा प्रकृतिं-  
करण-संयोग-राशि-देश-कालोपयोग-संस्थोपयोक्त्रष्टुमानि भवन्ति ॥ २० ॥

आहार-विधि—ये निम्नलिखित आठ बाँतें आहार विधि में विशेष कारण  
या उठके अंग होती हैं। ( १ ) प्रकृति, ( २ ) करण, ( ३ ) संयोग, ( ४ )  
राशि, ( ५ ) देश, ( ६ ) काल, ( ७ ) उपयोग-संस्था और ( ८ ) उपयोक्ता ॥ २० ॥

तत्र प्रकृतिरुद्ध्यते। स्वभावो यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां स्वाभा-  
विको गुरुर्वादिगुणयोगः। तद्यथा—माषमुद्गायोः, शूकरैणयोश्च ॥ २१ ॥

उन में से प्रकृति का वर्णन करते हैं—( १ ) प्रकृति स्वभाव को कहते हैं।  
आहार-द्रव्य और औषध-द्रव्यों में जो गुरु, लघु आदि गुण स्वभाव से रहते हैं  
उन का नाम प्रकृति है। जैसे माष ( उड्डद ) और शूकर के मांस स्वभाव से  
ही गुरु हैं और मूँग तथा हरिण के मांस स्वभाव से ही लघु होते हैं ॥ २१ ॥

करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः, संस्कारो हि

१.करीष सब रस के पदार्थ खाती है, इसलिये इस का मांस  
निर्वोप माना है।

गुणान्तराचानमुच्यते । ते गुणाभं तोयानिसंनिकषेशौचमन्त्रनदेशं  
कालवशेन भावनादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिभिर्भास्तुषीयन्ते ॥२३॥

(२) करण—स्वाभाविक द्रव्यों के संस्कार का नाम 'करण' है । स्वाभाविक गुण से भिन्न दूसरे गुण को उत्पन्न कर देने का नाम 'संस्कार' है । ऐसे गुण जल, अग्नि के संयोग से, शौच ( धोने आदि से ), मन्त्रन ( विळोने से ), देश, काल और स्वरस आदि की भावना से, समय को अधिकता से, ( पात्र आदि की भिन्नता से ), उत्पन्न कर दिये जाते हैं ।

विळोने पर दहो के गुण भिन्न हो जाते हैं । दूध को मिहो के बर्तन और  
लोहे के बर्तन में पकाने पर उसके स्वाद में अन्तर आ जाता है ॥ २२ ॥

संयोगस्तु द्वयोर्बहुना द्रव्याणां संहतीभावः, स विशेषमारम्भते  
यन्नेकैकशो द्रव्याण्यारभन्ते । तदथा मधुसर्पिषोः, मधुगत्स्यपयसां  
च संयोगः ॥ २३ ॥

(३) संयोग—दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना 'संयोग' कहाता है । संयोग विशेष कार्य उत्पन्न करता है । जब कि अदेला २ द्रव्य वह कार्य  
उत्पन्न नहीं करता । जैसे, मधु और धो का समान मात्रा में संयोग मारक है,  
पृथक् पृथक् नहीं । इसी प्रकार मछली और दूध का संयोग कुष्ठ रोग को उत्पन्न  
करता है, पृथक् पृथक् नहीं ॥२३॥

राशिस्तु सर्वप्रहपरिग्रही, मात्रामात्राकलविनिश्चयार्थः प्रकृतः । तत्र  
सर्वस्याऽहारस्य प्रमाणग्रहणमेकपिण्डेन सर्वप्रहः । परिग्रहश्च पुनः  
प्रमाणग्रहणमेकेकत्वेनाऽहारद्रव्याणाम् । सर्वस्य हि प्रहः सर्वप्रदः ।  
सर्वतत्त्वं प्रहः परिग्रह उच्यते ॥ २४ ॥

(४) राशि—दो प्रकार की होती है । (१) सर्वप्रह और (२)  
परिग्रह । राशि का प्रयोजन मात्रा और अमात्रा अर्थात् कम या अधिक  
मात्रा में भोजन या औषध के लेने से उत्पन्न अच्छे या बुरे परिणाम का  
निश्चय करना है । सम्पूर्ण आहार को एक पिण्ड की मात्रा में ग्रहण करने  
का नाम 'सर्वप्रह' है । आहार द्रव्यों को एक एक करके नियत प्रमाण में

१. पानी से बार बार धोने पर पदार्थ के गुण बदल जाते हैं । यथा—  
'मुखौतः, प्रसृतः, स्तिवन्नः, संतसश्चौदनो लघुः ।' मथने से—दवि शोथ करती है,  
[ मथने पर स्नेह होने पर मी शोथन है । पात्र मैं—चांदी के पात्र मैं दही,  
[ के पात्र मैं पानी रखना उत्तम है । काल के कारण पन्द्रह दिन के पीछे या  
ूपिये । देशमें—रात के देर में रखते ।

ग्रहण करने का नाम 'परिग्रह' है। सब भोज्य पदार्थों के समुदाय इस में एक साथ मिलाकर उस में से ग्रहण करना 'सर्वग्रह' है और उस में से प्रत्येक से पृथक् पृथक् ग्रहण करना 'परिग्रह' है। (आहार भाग्रा—अग्नि और आहार-द्रव्य की अपेक्षा करती है। इसलिये अग्नि बड़ की अपेक्षा से सर्वग्रह और द्रव्य की अपेक्षा से परिग्रह समझना चाहिये) ॥ २४ ॥

देशः तुनः स्थानं द्रव्याणामुत्पत्तिप्रचारारौ देशसात्म्यं चाऽऽचष्टे ॥ २५ ॥

(५) देश का अर्थ है स्थान। यह स्थान (स्थावर और जंगम) द्रव्यों की उत्पत्ति, प्रचार के साथ साथ देश-सात्म्य को भी बताता है। उत्पत्ति से जैसे—हिमालय में उत्पन्न अन्नादि गुरु और मङ्ग में लघु होता है। प्रचार से जैसे—लघु पदार्थ खाने वाले, मङ्ग भूमि में विचरने वाले, बटूत खिंचने वाले प्राणियों का मांस लघु होता है, अन्यों का गुरु। देशसात्म्य जैसे अनुरूप देश में उष्ण, रुक्ष और मरुभूमि में शीत स्तिंश्रव पदार्थ हित लारी हैं ॥ २५ ॥

कालो हि नित्यगच्छाऽऽवस्थिकश्च । तत्राऽऽवस्थिको विकारमपेक्षते, नित्यगस्तु खलच्छ्रुत्सात्म्यापेक्षः ॥ २६ ॥

(६) काल दो प्रकार का है। नित्यग और आवस्थिक। रोगी की अवस्थानुरूप इन में आवस्थिक-काल विकार को अपेक्षा करता है। नित्यग काल अद्वृत, सात्म्य, शीत, उष्ण, वर्षा आदि की अपेक्षा करता है ॥ २६ ॥

उपयोगसंस्था तु उपयोगनियमः, स जीर्णलक्षणापेक्षः ॥ २७ ॥

(७) उपयोग-संस्था—उपयोग-व्यवस्था या उपयोग-नियम को उपयोग-संस्था कहते हैं। यह भोजन के पचने की अपेक्षा करता है। 'जीर्णऽऽनीयात्' यह आगे कहेंगे ॥ २७ ॥

उपयोक्ता पुनः यस्तमाहारमुपयुक्ते यदायत्तमोक्तसात्म्यम् ॥ २८ ॥

(८) उपयोक्ता—जो उस आहार का उपयोग करता है, उस भोक्ता को 'उपयोक्ता' कहते हैं। जित के अधीन अन्यास-सात्म्य है ॥ २८ ॥

इत्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । एषां विशेषाः शुभाशुभफलप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति, तात् बुमुत्सेत । बुद्ध्वा च हितेष्मुरेव स्थात्, न च मोहात्प्रमादाद्वा प्रियमहितमसुखोदर्क्षमु-पसेव्यं किञ्चिदाहारजातमन्यद्वा ॥ २९ ॥

३ सर्वग्रह—एक मनुष्य का भोजन आठ छटांक होना चाहिये। परिग्रह-सावध, दो छटांक, आदा-५, छटांक, दाढ़ एक छटांक, आक-एक।  
प्रकार से आठ छटांक।

इस प्रकार से आहार विधि के विशेष आठ आवश्यन कह दिये हैं । ये प्रकृति आदि आठों आवश्यन शुभ और अशुभ फल ( स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्य ) को उत्पन्न करने में परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं । इस लिये वैद्य हन को भी जाने । इन में जो सम-धातुओं को प्रकृति में रखते और विषय धातुओं को समान करें उन को जानकर हितकारक का सेवन करे । योह, अश्वान अथवा लापरवाही से आपातप्रिय ( सेवन के समय अतिप्रिय ), परन्तु उत्तरकाल में परिणाम में दुःख विकार वा रोगकारक अहित आहार पदार्थों या अन्य इस प्रकार के विहार का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥

तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणामातुराणां च केषाचित्काले प्रकृ-  
त्यैव हिततर्मं भुजानानां भवति । उष्णं स्तिरग्धं मात्रावज्जीर्णं वीर्या-  
विरुद्धमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिहृतं नातिविक्षमिवत्मजल्पन्नह-  
संस्तन्मना भुज्जीताऽऽत्मानमभिसमोद्य सम्यक् ॥ ३० ॥

यहां आगे कही जाने वाली आहार विधि स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिये उचित समय में स्वभाव से हितकारक होती है ।

आहार विधि—उष्ण ( गरम ) भोजन खावे, स्तिरग्ध भोजन करे, मात्रानु-  
सार खाये, पूर्व भोजन के जीर्ण होने पर खाये, अविकृद वीर्य वाले पदार्थों को  
खाये, मनोवाच्छित स्थान पर, मन के अनुकूल उपकरणों के साथ, न बहुत  
जल्दी, न बहुत धीरे, बिना बोले, बिना हँसे, पूर्ण मन देकर, आत्मा के साम्य  
या अपनी शक्ति को देखकर भली भांति विचार कर खाये ॥ ३० ॥

तस्य सादृगुण्यमुपदेश्यामः—उष्णमश्रीयात् । उष्ण हि सुज्यमानं  
स्वदते, भुक्तं चाग्निमौदर्यं मुदीरयति, क्षिं प्रं च जरा गच्छति, वातं  
चानुलोमयति, इलेष्माणं च परिशोषयति, तस्मादुष्णमश्रीयात् ॥ ३१ ॥

इस प्रकार भोजन करने के सदृगुणों का उपदेश करते हैं—गरम, जितना-  
गरम मुख में सहन हो सके, उतना गरम भोजन करे । गरम भोजन रुचि उत्पन्न  
करता है, खाने में अच्छा लगता है । खाने पर जाकर अग्नि को बढ़ाता है,  
धीर पाचन हो जाता है । शायु का अनुलोमन करता है, कफ को सुखाता है ।  
इस लिये गरम भोजन खावे ॥ ३१ ॥

स्तिरग्धमश्रीयात् । स्तिरग्धं हि सुज्यमानं स्वदते, युक्तमौदर्यमरिन-  
ति, क्षिं प्रं जरा गच्छति, वातमनुलोमयति, हड्डीकरोति शरीरो-  
बछामिवृद्धि चाभिजनयति, वर्णप्रसादमपि धाभिनिर्वर्तयति  
यात् ॥ ३२ ॥

स्त्रिघ्र भोजन करे । स्त्रिघ्र भोजन खाने में अच्छा लगता है । खाने पर निर्बल जाठराणि को बढ़ाता है । शीघ्र परिपाक होता है । वायु का अनुलोमन करता है, शरीर को बढ़ाता है, इनिद्रियों को बढ़वान् बनाता है, शरीर में बड़की हृदि करता है, रंग में कान्ति, चिकनाई उत्पन्न करता है, इसलिये स्त्रिघ्र भोजन करे ॥ ३२ ॥

मात्रावदभीयात् । मात्रावद्धि भुक्तं वात-पित्त-कफानप्रपीड्यदायुरेव विवर्धयति केवलं, सुखं गुदमनुपर्येति, न चोष्माणमुपहन्ति, अव्यर्थं च परिपाकमेति, तस्मान्मात्रावदभीयात् ॥ ३३ ॥

मात्रा में खावे । मात्रा में खाया हुआ अब वात, पित्त और कफ को कुपित नहीं करता, केवल आयु को ही बढ़ाता है । परिपाक होकर सुखपूर्वक गुदा मार्ग से बाहर निकल आता है । शरीर की अन्तराणि को नहीं बिगाढ़ता, बिना कष के परिपाक हो जाता है, इसलिये मात्रा में भोजन करे ॥ ३३ ॥

जीर्णेऽभीयात् । अजीर्णे हि भुज्ञानस्याद्यवहृतमाहारजातं पूर्वस्याऽहारस्य रसमपरिणतमुत्तरेणाऽहाररसेनोपसृजत् सर्वान्दोषान् प्रकोपयत्याश्, जीर्णे तु भुज्ञानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेष्वगतौ चोदीर्णे, जातायां च बुमुक्षायां, विवृतेषु च स्रोतसां मुखेषु, चोद्गारे विशुद्धे, विशुद्धे च हृदये, वातानुलोभ्ये, विसृष्टेषु च वात-मूत्र-पुरीष-वेगेष्वद्य-वहृतमाहारजातं सर्वशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेवाभिवर्धयति केवलम्, तस्माज्जीर्णेऽभीयात् ॥ ३४ ॥

पूर्व-भुक्त भोजन के जीर्ण होने पर खावे । अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से पूर्व में खाये हुए भोजन के अपरिक्व रस से नकीन आहार का रस मिलकर इश्वी ही दोषों को प्रकुपित कर देता है । इसलिये पूर्व भुक्त भोजन के जीर्ण होने पर, दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि के उद्दीप होने पर, मूख लगने पर, अन्ववह स्रोतों के मुलों के खुल जाने पर, डकार के विशुद्ध होने पर, हृदय ( आमाशय ) के साफ होने पर, वायु के अनुदृढ़ होने पर वायु, मूत्र, मल के देगों के साफ होने पर किया हुआ भोजन शरीर के सब धातुओं को समान अवस्था में रखता हुआ, केवल आयु को ही बढ़ाता है, इस लिये जीर्ण अवस्था में भोजन करे ॥ ३४ ॥

बीर्याविहृद्दमभीयात् । अविहृद्दवीर्यमभवत् हि न विरुद्धं जैविकारेयमुपसृज्यते, तस्माद्वीर्याविहृद्दमभीयात् ॥ ३५ ॥

अविहृद्द वीर्य वाढ़े पदार्थों को खावे । अविहृद्द :

बाढ़े पदार्थ के सेवन करने से, विश्व वीर्य बाढ़े पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाले (कुष, वीषप आदि) रोगों से मनुष्य बचा रहता है, इसलिये अविश्व वीर्य वाले पदार्थों को खाने ॥ ३५ ॥

इष्टे देशेऽभीयात् । इष्टे हि देशे भुज्ञानो नानिष्टदेशजैर्मनोद्विघातकरैर्भवैर्मनोविधातं प्राप्नोति, तथेष्टैः सर्वोपकरणौः, तस्मादिष्टे देशे तथेष्टसर्वोपकरणं चाभीयात् ॥ ३६ ॥

अभिमत प्रदेश में मनोऽनुकूल उपकरणों के साथ भोजन करे । मनो-वाञ्छित स्थान में भोजन करने से, अनिष्ट देश में उत्पन्न होने वाले, मन को हुँखी करने वाले भावों से मनुष्य हुँखी नहीं होता है । यही बात मन के अनुकूल उपकरणों के साथ भी जाने । इसलिये इष्ट स्थान में और अभिमत उपकरणों के साथ भोजन करें ॥ ३६ ॥

नातिद्रुतमभीयात्, अतिद्रुतं हि भुज्ञानस्योत्स्नेहनमवसादनं, भोज-नस्याप्रतिष्ठानं, भोज्यदोषसाद्गुण्यापलाभिधश्च न नियता, तस्मान्नाति-द्रुतमभीयात् ॥ ३७ ॥

बहुत जलदी जलदी भोजन नहीं करे । बहुत जलदी भोजन खाने से भोजन उन्मार्ग अथात् विश्व मार्ग में जाने लगता है । जलदी खाया हुआ भोजन अवश्यता पैदा करता है, तथा भोजन आमाशय में नहीं रहता, वमन हो जाता है । जलदी खाने से भोजन के गुण दोष की पहिचान भी नहीं होती, इसलिये बहुत जलदी भोजन नहीं करे ॥ ३७ ॥

नातिविलम्बितमभीयात् । अतिविलम्बितं हि भुज्ञानो न लूपिम-धिगच्छति, बहु भुज्ञके, शीतीभवति चाऽहारजातं, विषमपाकं च भवति, तस्मान्नातिवलम्बितमभीयात् ॥ ३८ ॥

बहुत धीरे रुक रुक कर मी भोजन नहीं करे । बहुत धीरे धीरे खाने से पुरुष को कमी तृती नहीं होती, इसलिये बहुत खा जाता है । भोजन भी टण्डा पड़ जाता है, भोजन विषम रूप में पचता है, इसलिये बहुत धीरे धीरे भोजन नहीं करे ॥ ३८ ॥

अ त्रल्पङ्गहसंस्तन्मना भुज्ञीत—जल्पतो हस्तोऽन्यमनसो वा भुज्ञा-नस्य त एव दि दोषा भवन्ति य एवातिद्रुतमभवतः, तस्माद्ब्रह्मनह-संस्तन्मना भुज्ञीत ॥ ३९ ॥

वार्ते न करते हुए या न हंठते हुए मनोयोग के साथ भोजन करे । वार्ते हुए और हंठते हुए अथवा दूसरी तरफ अन्य कार्य में मन को लगाये

दुष्ट भोजन करने पर वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो जल्दी खाने में उत्पन्न होते हैं। इसलिये बिना बोले, बिना हसे, पूर्ण मनोयोग के साथ भोजन करे ॥ ३६ ॥

आत्मानमभिसमीक्ष्य भुक्षीत सम्यक्। इदं भमोपशेते, इदं नोपशेते  
इति, विदितं हृत्य आत्मन आत्मसात्म्यं भवति, तस्मादात्मानमभि-  
समीक्ष्य भुक्षीत सम्यगिति ॥ ४० ॥

अपनी ऊनि वा हित-अहित को देखकर भोजन करे। मेरी आत्मा को यह  
अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, यह मेरे सात्म्य है, यह मेरे असात्म्य है,  
ऐसा विचार कर खावे। इस प्रकार खाने से आत्मसात्म्य का शान रहता है।  
इसलिये अपनी शक्ति और हित-अहित का विवेचन करके खाना चाहिये ॥ ४० ॥

भवति चात्र—रसान् द्रव्याणि दोषाश्च विकारांश्च प्रभावतः ।

वेद यो देशकालौ च शरीरं च स नो भिषक् ॥ ४१ ॥

जो पुरुष रस, द्रव्य, दोष, विकार, प्रभाव, देश, काल, शरीर ( प्रकृति,  
सत्त्व और सात्म्य ) इन को भली प्रकार जानता है वही हम में से बेद होने  
योग्य है ॥ ४१ ॥

तत्र श्लौकौ—विमानार्थो रसद्रव्यदोषरोगाः प्रभावतः ।

द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविधं सात्म्यमेव च ॥ ४२ ॥

आहारायतनान्यष्टौ भोज्यसादृगुण्यमेव च ।

विमाने रससंख्याते सर्वमेतत्प्रकाशितम् ॥ ४३ ॥

विमानस्थान का प्रयोजन, रस, द्रव्य, दोष और रोग इन चारों का प्रभाव,  
बहुत अधिक सेवन न करने योग्य द्रव्य, तीन प्रकार का सात्म्य, आठ आहार  
विधि के आयतन, भोजन का सादृगुण्य, ये सब बातें इस 'रस' संज्ञक विमान  
में भगवान् आत्रेय ने प्रकाशित कर दी हैं ॥ ४२-४३ ॥

इत्यग्निवेद्यकृते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने

रसविमानं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

### द्वितीयोऽध्यायः ।

—०८०—

अथातस्त्रिविधकुक्षीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'त्रिविध कुक्षीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करें  
जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

त्रिविधं कुक्षी स्थापयेद्वकाशीशमाहारस्याऽहारसुप्तुञ्जानः; तथा-  
कमवकाशादिं मूर्तीनामाहारविकाराणामेकं द्रवाणामेकं पुनर्वातपित्त-  
शेष्यणाम् । एतावर्ती हाहारमात्रासुप्तुञ्जानो नामात्राहारजं किञ्चि-  
दशुभं प्राप्नोति ॥ ३ ॥

आहार करने वाले मनुष्य को चाहिये कि वह भोजन के निमित्त ऐट में  
तीन विभागों की कल्पना करे । एक स्थान मूर्च ( स्थूल ) आहार के लिये,  
दूसरा द्रव ( पेय ) पदार्थों के लिये और तीसरा वात, पित्त और कफ के लिये ।  
इस प्रकार तीन विभाग करके आहार मात्रा का उपयोग करनेवाले पुरुष को  
आहार की अमात्रा से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम  
नहीं होते ॥ ३ ॥

न च केवलं मात्रावत्त्वादेवाऽहारस्य व त्स्नमाहारफलसौष्ठुवमवामुं  
शक्यं, प्रकृत्यादीनामष्टानामाहारविधिविशेषायतनानां प्रविभच्छ-  
फलत्वात् ॥ ४ ॥

तत्र वायदाहारराशिमधिकृत्य मात्रामात्राफलविनिष्पत्यार्थः प्रकृतः ।  
एतावानेव हाहारराशिविधिविकल्पो यावन्मात्रावत्त्वममात्रा-  
वत्त्वं च ॥ ५ ॥

केवल आहार की मात्रा से ही सम्पूर्ण आहार फल की उच्चमता प्राप्त नहीं  
हो सकती, क्योंकि प्रकृति आदि जो आठ आहार-विधि के विशेष अंग हैं, इन  
का भी भिन्न फल होता है । यहां पर प्रकृति आदि आठ आहार-विधि  
विशेषों में आहार की राशि को लेकर मात्रा और अमात्रा के फल का निश्चय  
करने के लिये यह प्रकरण है । आहार की राशि-विधि का मेद इतना ही है कि  
मात्रा का परिमाण इतना और अमात्रा का परिमाण इतना है ॥ ५-५ ॥

तत्र मात्रावत्त्वं पूर्वसुपदिष्टं कुक्ष्यंशविभागेन, तद् भूयो विस्तरे-  
णानुव्याख्यास्यामः । तथा—कुक्षेरप्रपीडनमाहारेण, हृदयस्यानव-  
रोधः, पाइर्वयोरविपाटनं, अनतिगौरवमुदरस्य, मीणनमिन्द्रियाणां,  
ज्ञुत्पिपासोपरमः, स्थानास्थन-शयन-गमन-प्रश्वासोच्छ्वास-हास-संकथासु  
च सुखानुवृत्तिः, साथं प्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्वं  
वेति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति ॥ ६ ॥

इन में मात्रावत्त्व ( मात्रा ) को कुक्षि के विभाग से प्रथम संक्षेप में कहा  
गया है । अब मात्रा और अमात्रा दोनों को विस्तार से कहते हैं । जैसे—  
कुक्षि से कुक्षेर का विकल्प ( दबना ) न होना, हृदय ( खाद प्रवास ) का

न इकना, भोजन के भार से पावर्षों का न फटना ( फटते हुए प्रतीत न होना, आँख आदि इन्द्रियों का पूर्ण उन्मुष्ट होना, भूल और प्यास का शान्त होना, स्थान ( सीधा स्थान होने में ) आसन ( बैठने में ), सोने में, चढ़ने में, इवास लेने एवं छोड़ने में, हाथ और बातचीत में सुखपूर्वक प्रदृश्ति, दिन में किये भोजन का सार्वकाळ और रात्रि में किये भोजन का प्रातःकाल सुखपूर्वक जीर्ण हो जाना, बल, वर्ण, उपचय ( पुष्टि ) का शरीर से होना ये सब मात्रा में किये भोजन के लक्षण हैं ॥ ६ ॥

अमात्रावस्तवं पुनर्द्विविधमाचक्षते । हीनमधिकं चेति । तत्रै हीन-  
मात्रमाहारराशि बलबर्णोपचयक्षयकरमतुमिकरुदावर्तकरमवृद्ध्यम-  
नायुष्यमनौजस्य शरीरमनोबुद्धीनिन्द्रयोपचावकरं सारविधमनमलक्ष्या-  
वहमर्शीतेश्च वातविकाराणामायतनमाचक्षते ॥ ७ ॥

अमात्रा—अहार की अमात्रा दो प्रकार की बताते हैं । ( १ ) हीन और ( २ ) अविक । इन में आहार राशि की हीन मात्रा बल और वर्ण को पुष्ट नहीं करती, न मनुष्य को तृप्त करती है, वह उदावर्त्-रोग को उत्पन्न करती है, आयु, वोर्ष एवं ओज के लिये हितकारी नहीं है, मन, बुद्धि, इन्द्रिय ( आँख आदि ) को नष्ट करने वाली है । सार ( त्वग् रक्त आदि ) को नष्ट करती है । अलक्ष्मी ( गरीबी ) को पैदा करती है । हीनमात्रा अस्ती प्रकार के बायु रोगों का कारण होती है ऐसा वैद्य लोग बताते हैं ॥ ७ ॥

अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणिच्छन्ति सर्वकुशलाः ॥ ८ ॥

यो हि मूर्तीनामाहारविकाराणा सौहित्यं गत्वा पश्चाद् द्रवेस्तुमि-  
मापद्यते भूयस्तस्याऽमाशयगता वातपित्तश्लेषागोऽभ्यवहारेणातिमात्रे-  
णातिप्रपाद्यमानाः सर्वे युगपत्रकोपमापद्यन्ते ॥ ८ ॥

ते प्रकुपितास्तमेवाऽहारराशिमपरिणतमाविद्य कुक्षयैकदेशमाश्रिता  
विष्टम्यन्तः सहसा वाऽयुत्तराधराध्यां मार्गाध्यां प्रच्यावयन्तः पृथक्  
पृथगिमान् विकारानभिन्वते यन्त्यतिमात्रभोक्तुः ॥ ९ ॥

आहार राशि की अतिमात्रा से सर दोष प्रकुपित होते हैं, ऐसा कुशल चिकित्सक मानते हैं । जो मनुष्य मूर्च् ( स्थूल ) आहार पदार्थों से पेट मर लेता है और ऊपर से पेय वदार्थों को पूर्णरूप से पी लेता है; उसके आमाशयमें  
स्थित वात, पित्त और कफ दोष इस अति अविक भार से पीकित होकर  
वायु कुपित हो जाते हैं । वे प्रकुपित हुए दोष इस क्षी ( अग्निपु-

रायि के साथ मिलकर इस आहार रायि को उक्त के एक भाग में रोक देते हैं अथवा सहसा उपर का नीचे के ( ऊर्ज्ज्वला या अक्ष ) माझों से बाहर लिखते हैं छगते हैं । अधिक खानेकाले, पुरुष में भिन्न २ नाना रोग पृष्ठक् २ रूप से उत्पन्न करते हैं ॥ ६-१० ॥

**तत्र वातः शूलानाहाङ्गमर्द-मुखशोष-मूर्ढां-भ्रमाप्तिवैषम्य-सिरासं-कोचन-संस्तम्भनानि करोति । पित्तं पुनर्ज्वरातीसारमन्तर्दाहं तुष्णा-मदभ्रमप्रलयनानि । इलेघ्मा तु छर्यरोचकाविपाकशीतज्वरालस्यगात्रगौ-रवामिनिर्वृत्तिकरः संपद्यते ॥ ११ ॥**

बायु, शूल, अफ्फारा, अंगमर्द ( अंगों का दूटना ), मुख का शुष्क होना, मूर्ढा, भ्रम, अग्नि की विषमता, पाइर्वप्रह, पृष्ठप्रह, कटिप्रह, सिराओं का आकुञ्जन ( संकोच ) और स्तम्भन ( जड़ता ), इन विकारों को उत्पन्न करता है । पित्तज्वर, अतिसार, अन्तर्दाह ( शरीर में जलन ), तुष्णा, मद, भ्रम और प्राणप को उत्पन्न करता है और कफ छर्दि ( बमन ), अश्वि, अविपाक, शीतज्वर, आलस्य और शरीर में भारीपन पैदा करता है ॥ ११ ॥

**न खलु केवलमितान्नमेवाऽहारराशिमामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरु-रुक्ष-शीत-शुष्क-द्विष्ट विष्टमिभविदाहशुविविहद्वानामकाले चान्नपानानामुपसेवनं, काम-कोष-लोभ-मोहेऽर्यांही-शोक-मानोद्वेग-भयो-पतम्भेन मनसा वा यदन्नपानमुपयुज्यते तदप्याममेव प्रदूषयति ॥ १२ ॥**

कुशल वैद्य के वेळ आहार रायि की अतिमात्रा को ही आमदोष का कारण नहीं मानते । किन्तु प्रकृति से भारो, रूक्ष, शीत, शुष्क, देषयुक्त ( मन के प्रति-कूल ), विष्टमी ( बायु, दर्द के होने पर भी मळ का न आना ), दाह ( जलन ) करने वाले, अवित्र, प्रकृति, संस्कार, रायि में विरोधी खान-न्यान का सेवन अथवा हितकारी अन्न को भी अनुचित काल में वा बमन, कोष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छाया, शोक, मन के उड़ेग, भय आदि अवस्था में किया हुआ अन्नन्यान भी आम को ही दूषित करता है ॥ १२ ॥

**भवति चात्र—मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चाम् न जीर्यति ।**

**विन्ता-शोक-भय-कोष-दुःख-मरण-प्रजागरे ॥ १३ ॥**

**तं द्विविष्टमामप्रदोषमाचक्षते भिषजो विसूचिकामलसकं च ।**

**तप्त विसूचिकामूर्ध्वं चाप्तप्त प्रवृत्तामदेष्यो यथोक्तस्तो विशात् ॥ १४ ॥**

हितकारी, पथ्य- अन्न मात्रा से खानेपर भी विष्टा, शोक, भय, कोष;

विन्ता, दुःख- दोषी, रायि- अन्न से जीर्ण नहीं होता है । इसका आम-

प्रदोष ( भोजन के इस प्रकार न पचाने ) को वैद्य दो प्रकार का मानते हैं । ( १ ) विसूचिका और ( २ ) अलसक । इन में विसूचिका के अन्दर आम दोष ( भोजन का न पचा अंश ) ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से बाहर निकलता है ॥ १३-१४ ॥

**अलसकसुपदेश्यामः—** दुर्बलस्याल्पाग्नेर्बहुश्लेष्मणो वात-मूत्र-पुरीष-वेग-विधारिणः स्थिर-गुरु-बहु-रुक्ष-शीत-शुष्काज्ञसेविनस्तदञ्चपानमन्ति-लप्रपीडितं श्लेष्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रलीनमलसत्वाज्ञ बहिर्सुखी भवति, ततश्छर्द्यातीसारवर्ज्यान्यामप्रदोषलिङ्गानि यथोक्तान्यभिदर्शय-त्यतिमात्राणि । अतिभात्रप्रदुषाक्ष दोषाः प्रदुषामवद्धमार्गास्तिर्यगच्छ-न्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दण्डवत्स्तम्भयन्ति, ततस्तमलसकम-साध्यं ब्रुवते ॥ १५ ॥

अलसक का उपदेश करते हैं—दुर्बल, अल्पाग्नि, बहुत कफयुक्त, वात आदि के वैद्य के स्वभाव के, स्थिर, गुरु, बहुत, रुक्ष, शीत, शुष्क इस प्रकार के अन्न को सेवन करने वाले पुरुष में वायु खान-पान को पीड़ित करता है और कफ से मार्ग रुक्ष के होने से वह बाहर नहीं निकलता । वही आमाशय में बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त हो जाता है । और आलस्य ( मन्त्रा ) के कारण बाहर भी नहीं आता । इसलिये इस को 'अलसक' कहते हैं । बाहर न होने से बमन और अतिसार को छोड़कर दोष अन्य आमदोष के रूपण बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट होते हैं ।

असाध्य अलसक—बहुत अधिकमात्रा में दूषित हुए वात आदि दोष दुष आम-द्वारा मार्गों के रुक जाने पर तिरछे गति करते हुए कभी अकस्मात् इस बहुत खाने वाले पुरुष के सम्पूर्ण शरीर को दण्डे की भाँति स्तब्ध कर ( जकड़ ) देते हैं । इसलिये इस अलसक को असाध्य कहते हैं ॥ १५ ॥

**विरुद्धाध्यशनाजीर्णशनशीलिनः** मुनरामदोषमासविषमित्याचक्षते भिषजो विषसद्वशलिङ्गत्वात् । तत्परमसाध्यमाशुकारित्वाद्विरुद्धोप-क्रमत्वाचेति ॥ १६ ॥

विरुद्ध मोजी, अध्यशन ( खाने के ऊपर खाना खाने ) और अजीर्णव-स्था में भोजन करने वाले पुरुष के दोष को वैद्य 'आमविष' कहते हैं, क्योंकि इसके रूपण विष के समान होते हैं । ( आम दोष में भी विष के खाने के समान मुख से छाकास्ताप होता है ) । यह भी बहुत असाध्य है । विषरूप होने से शीघ्र मारने वाला है और इसमें जो उपचार ।

वह विरोधी गढ़त है । अर्थात् विष में शीतक्रिया और आम एवं अजीर्ण में उष्णक्रिया करनी अपेक्षित है, ये दोनों परस्पर विरोधी होती हैं ॥ १६ ॥

तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमलसीभूतमुड्जेखयेदादौ पायगित्वा लबणमुष्णं च वाहि । ततः स्वेदनवर्तिप्रणिधानाभ्यामुपाचरेदुपवासयेष्वैनम् ॥ १७ ॥

साध्य अलसक की चिकित्सा—दुष्ट हुए एवं अलस ( क्रियाहीन ) बने आमन्दोप में लबण मिथित गरम पानी पिलाकर वमन कारक दोष को बाहर निकालना चाहिये । पीछे से स्वेदन ( फलवर्ति ) का उपयोग करे और रोगी को उपवास करावे ॥ १७ ॥

विसूचिकायां तु लङ्घनमेवामे विरित्तवचाऽनुपूर्वी ॥ १८ ॥

विसूचिका की अवस्था में सबसे प्रथम लंघन ही करना चाहिये । इसके पीछे विरेचन दिये पुरुष की भाँति पेयादि की व्यवस्था ( उपकल्पनीय अथाय [ सूत्र ० अ० १५ ] में कहे अनुसार ) करनी चाहिये ॥ १८ ॥

आमप्रदोषेषु त्वञ्काले जीर्णाहारं पुनर्दोषावलिप्तामाशयं स्तिमित-  
गुह्यकोष्ठमनन्नाभिलाषिणमभिसमीक्ष्य पाययेदोषशेषपाचनार्थमौषधमप्ति-  
संबुद्धाणाथं च, न त्वेवाजीर्णाशनम् । आमप्रदोषदुर्बलो ह्यमिर्युगपदोष-  
मौषधमाहारजातं चाशक्तः पक्तम्, अपि चाऽमप्रदोषाहारौषधविभ्र-  
मोऽविभलवत्थादुपरतकायामिन्ति सहसैवाऽनुरमवलमतिपातयेत् ॥ १९ ॥

आम प्रदोष में औषध प्रयोग—जब भोजन जीर्ण हो गया ही, जिस का कोड़ जड़ और भारी हो, जो अज्ञ की इच्छा न करता हो, ऐसे पुरुष के शेष अपक दोषों के पाचन के लिये और उसके अंगिन को बढ़ाने के लिये भोजन के समय में औषध देनी चाहिये, किन्तु अजीर्ण अवस्था में भोजन के जीर्ण हुए बिना औषध नहीं देनी चाहिये । क्योंकि आम-प्रदोष के कारण दुर्बल हुई अग्नि आम दोष, औषध और भोजन इन सबको एक साथ पचाने में समर्थ नहीं होती । इसके अतिरिक्त आमदोष, आहार और औषध में परस्पर विषमता अधिक बढ़वान् होने से शरीर की अग्नि को नष्ट करके ये निर्वळ रोगी को सहसा शीत्र ही भार सकते हैं ॥ १९ ॥

आमप्रदोषजानां पुनर्विकाराणामपर्तपणेनैषोपरमो भवति, सति-  
त्वनुष्ठन्वे कृतापत्पैणानां व्याधीनां निप्रहे निमित्तविपरीतमपास्यौष-  
त्वत्कुविपरीतमेवावचारयेद्यथास्वम् । सर्वविकाराणामपि च निप्रहे  
विचित्रित्वमौषधमिच्छन्ति कुशकाः, तदर्थकारि च ॥ २० ॥

सम्पूर्ण आमदोषजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण ( उपवास ) से होती है । संतर्पण से उत्पन्न रोगों में अपतर्पण किया कारबंध के विपरीत है । परन्तु अपतर्पण करने पर भी जहाँ अनुबन्ध हो वहाँ पर निदान के विपरीत औषध को छोड़ कर रोग के विपरीत ( जो जिस रोग के विपरीत हो ) वही औषध देनी चाहिये । यह बात केवल आमदोषजन्य रोगों के लिये ही नहीं है; अपितु सब रोगों के शमन के लिये निदान और रोग दोनों के विपरीत औषध देनी चाहिये ऐसा कुशल चिकित्सकों का मत है ॥ २० ॥

विसुक्तामप्रदोषस्य पुनः परिषकदोषस्य दीप्ते चाग्नावञ्चास्थ्य-  
पनाहुचासन विधिवत्तर्नेहपानं च युक्तया प्रयोज्यं प्रसमीकृत्य दोष-  
भेदज्ञ-देश-काल-दल-शरीराद्वार-सात्य-सत्त्व-प्रकृति-वयसामवस्थान्त-  
राणि विकारात्मा सम्यगिति ॥२१॥

जब आम प्रदोष शान्त हो जायें, दोषों का परिषक हो जाय, अग्नि प्रदीप हो जाय तब दोष, देश, औषध, काल, बल, शरीर, आहार, सात्य, सत्त्व, प्रकृति और आयु आदि अवस्थाओं को तथा विकारों को मली प्रकार देखकर अन्यंग, आरथापन, अनुवासन आदि वर्म और विधिपूर्वक रनेह-पान मुक्ति से करना चाहिये ॥२१॥

अवस्थित चात्र—अशितं स्वादितं पीतं लीढं च क विपच्यते ।

एतत्त्वा धार ! पृच्छामस्तन्न आचक्ष्व बुद्धिमन् ! ॥२२॥

इत्यनिवेशप्रमुखः शिष्यैः पृष्ठः पुनर्वसुः ।

आचक्ष्वे ततस्तेभ्यो यत्राऽऽहारो विपच्यते ॥ २३ ॥

नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ।

अशितं स्वादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते ॥ २४ ॥

आमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम् ।

पकः सर्वाश्रयं पश्चाद्घमनीभिः प्रपश्यते ॥ २५ ॥

१. अपतर्पण दोष बल की अपेक्षा से तीन प्रकार का है । ( १ ) लंघन, ( २ ) लंघन-पाचन और ( ३ ) दोषावसेचन । अल्पदोष में लंघन, मध्य दोष में लंघन-पाचन और बहुदोष में दोषावसेचन करना चाहिये ।

२. गुरु और स्विकृत पदार्थों से उत्पन्न रोग में शुद्ध स्वस्त्र चिकित्सा । स्वैर-स्वेदजन्य रोग में अंधनन्देश । अमन में और अविक अमन कराना कर्तव्य चिकित्सा है ।

खाये, खाये, पीये या चाटे उत्र अन्यान कहाँ पर बचते हैं, हे धीर गुरो ! यह हम आप से पूछते हैं, हे दुदिमन् ! यह आप हम को बताए। इस प्रकार अग्निवेष्ट आदि शिष्यों के पूछने पर पुनर्बंधु ने उन को उपदेश किया। मनुष्य के नाभि और स्तनों के मध्यबर्ती प्रदेश को 'आमाशय' कहते हैं। स्तनों से नीचे और नाभि से ऊपर 'आमाशय' और नाभि से नीचे गुदा से ऊपर 'प्रमाशय' है। आमाशय में अग्निस, खादित, पीत और ढीढ़ यह चारों प्रकार का अन्न पचता है। आमाशय में पहुँचा सब प्रकार का अन्न यहाँ पर परिपक्ष होकर घमनी-स्रोतों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होता है ॥ २२-२५॥

तत्र श्लोको—तस्य मात्रावतो लिङ्गं फलं चोकं यथायथम् ।

आमाश्रस्य तथा लिङ्गं फलं चोकं विभागशः ॥ २६ ॥

आहारविद्यायतनानि चाष्टौ सम्यक्परीक्ष्याऽऽस्यहितं विद्यत् ।

अन्यथा यः कश्चिदिद्वास्ति मार्गो हितोपयोगेषु भजेत तं च ॥ २७ ॥

मात्रावाले आहार के लक्षण और फल पूर्ण रूप में कह दिये हैं। इसी प्रकार अमात्रा अर्थात् होन और अधिक रूप में सेवन किये आहार के लक्षण और फल पृथक् २ करके कह दिये हैं। आहार-विधि के आठ आयतन (कारणों, अंगों) की टीक ३ परीक्षा करके अग्रना हित करें और भी जो कोई उत्तम मार्ग जिसका उपदेश नहीं किया हो उस को भी हित पदार्थों के उपयोग के अवलम्बन में प्रयोग करे ॥ २७ ॥

इत्यग्निवेष्टहृते तन्त्रे चरकप्रतिरूपहृते विमानस्थाने निविष्टकुर्बीयविमानं  
नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

### तृतीयोऽध्यायः ।



अथातो जनपदोद्भवं सनीर्यं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'जनपद-उद्भवं सनीर्य' नाम विमान का व्याख्यान करेंगे। जैवा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

जनपदमण्डले पञ्चालसेत्रे द्विजातिवराभ्युषितायां काम्पिन्द्रराज-  
यो भगवान्पुनर्बंधुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिषृतः पश्चिमे घर्मभासे  
पश्चिमी चारमनुविष्वरन् शिष्यमग्निवेशमन्त्रवीत् ॥ ३ ॥

ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्य इन द्विज वर्षों से वसे पंचाळ व्येच ( पंचाब ) के जनपद-मण्डल ( प्रान्त ) में, कामिल्य नाम राजधानी में शिष्यगण सहित भगवान् आज्ञेय पुनर्वसु ग्रीष्म काल के द्वितीय अर्थात् उत्ते र्षात में गंगा के किनारे बन में विहार करते हुए शिष्य अग्निवेश को बोले ॥ ३ ॥

दृश्यन्ते हि खलु सौम्य ! नक्षत्र-प्रह-चन्द्र-सूर्यनिलानलानां दिशां  
चाऽप्रकृतिभूतानामृतुवैकारिका<sup>१</sup> भावाः, अचिरादितो भूरपि च न यथा-  
चद्रस-वीर्य-विपाक-प्रभावमोषधीनां प्रतिविधास्यति, तद्वियोगाशाऽतङ्क-  
प्रायता नियता । तस्मात्प्रागुद्धर्वं सात्प्राक् च भूमेर्विरसीभावादुद्धरर्वं  
सौम्य ! भैषज्यानि यावत्तोपद्वत्-रस-वीर्य-विपाक-प्रभावाणि भवन्ति ।  
वयं चैषां रसवीर्यविपाकप्रभावानुपयोक्ष्यामहे, ये चास्माननुकाङ्क्षन्ति  
याश्च वयमनुकाङ्क्षामः, नहि सम्यगुद्धर्वतेषु भैषज्येषु सम्यग्विहितेषु  
सम्यग्विचारितेषु जनपदोद्धर्वं संकराणा विकाराणा किंचित्प्रतीकारगौ-  
रवं भवति ॥ ४ ॥

ऐ सौम्य ! नक्षत्र ( अविवनी आदि ), प्रह ( बृहस्पति आदि ), चन्द्रमा,  
सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के प्रकृति अर्थात् स्वाभाविक दशा में न होने  
पर अद्वृत-विकार से उत्पन्न होनेवाले नाना परिणाम देखे जाते हैं । इधर पृथ्वी  
मी ओषधियों में रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव को शीघ्र उत्पन्न नहीं कर सकती,  
इसलिये प्रायः भर्यकर रोगों का होना सम्भव होता है । अतः हे सौम्य । जन-  
पदोद्धर्वं अर्थात् देश भर को नाश कर देने वाले रोग होने से पूर्व तथा पृथ्वी  
के विरस ( रसहीन या विपरीत रसवाली ) होने से वै ही ओषधियों का  
संग्रह कर लो; जिस से कि इन ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव  
सुरक्षित बने रहें, नष्ट न हो । हम इन ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभावका  
उपयोग करते हैं, जिन की हम चाहते हैं और जो हम को चाहते हैं, उनके  
लिये इन ओषधियों का उपयोग करेंगे । ठीक समय पर ओषधियों के उत्ताक  
डेने पर, ठीक प्रकार से बना डेने पर और ठीक प्रकार से दोष आदि की  
अपेक्षा से प्रयोग करने पर जनपद-नाशक रोगों के प्रतीकार करने में कुछ भी  
कठिनाई नहीं होती ॥ ४ ॥

१. सुभ्रुत मे इस विकार को 'मरक' कहा है । यथा—

शीतोष्णवर्षाणि खलु विपरीतान्योषधीर्व्यापादयन्ति, तासामुपयोगाद् विविज-  
रोगप्रादुर्भावो मरको वा भवेत् ॥

सु० दृ० ३०० ६

एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच-उद्घृतानि खलु भगवन् !  
भष्म्यानि विद्वितानि च सम्यक् सम्यग्विचारचारितानि च । अपि तु  
खलु जनपदोद्भवं सनमेकेनैव व्याधिना युगपदसमानप्रकृत्याहारन्देह-  
बल-सात्यन्सर्व-वयसी मनुज्याणा कस्माद्वतीति ॥ ५ ॥

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अभिवेश बोले ! हे भगवन् !  
ओषधियां ठीक प्रकार से इकड़ी की गईं, ठीक प्रकार से बना ली जावेगी  
और भली प्रकार से विचार कर ही ओषधियां दी जावेगी । परन्तु भिज्ञ भिज्ञ  
प्रकृति, आहार, देह, बल, सत्य, सर्व और आयुर्वाले अनेक मनुष्यों का,  
देश भर को ध्वंस कर देने वाला एक ही प्रकार का रोग क्यों हो जाता है ॥ ५ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—एवमसामान्यानामेभिरप्यरिवेश ! प्रकृ-  
त्यादिभिर्भवैर्मनुज्याणा येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्वैगुण्यात्समानका-  
लाः समानलिङ्गात्र व्याधयोऽभिनिर्वर्तमाना जनपदमुद्भवं सर्वन्ति । ते  
तु खल्विमे भावाः सामान्यजनपदेषु भवन्ति । तद्यथा—वायुरुदकं  
देशः काल इति ॥ ६ ॥

भगवान् आत्रेय ने कहा । हे अभिवेश ! इन प्रकृति आदि की भिज्ञता  
होने पर भी जो अन्य कारण सब मनुष्यों में समान रूप से रहते हैं, उन में  
विकार आने से एक ही समय में, एक ही लक्षणोंवाले रोग उत्पन्न होकर जन-  
पद का नाश कर देते हैं । जनपदों में निज्ञ कारण समान रूप से होते हैं ।  
जैसे—वायु, जल, देश और काल ॥ ६ ॥

तत्र वातमेवं विधमनारोग्यकरं विद्यात् । तद्यथा—यथर्तु विषममविस्तिमितमविचलमविप्रदमतिशीतमत्युष्णमविरुद्धमत्यभिष्यन्दिनमविभैरवारावमविप्रदिव्यतपरस्परगतिमविकुण्डलिनमसात्म्य - गन्ध - वाष्प-  
सिकता-पाणु-धूमोपहतमिति ॥ ७ ॥

इन में निज्ञ लक्षणोंवाले वायु को आरोग्यनाशक समझना चाहिये ।  
जैसे—श्रूतु के विपरीत, सर्वया गतिरहित, बहुत बेग वाला, अति कर्कश, अति  
शीत, अति उष्ण, अतिरुक्ष, दोष, शातु, मल, स्रोतों में अति क्लिनता उत्पन्न  
करनेवाला, बहुत भीषण शब्द करनेवाला, परस्पर वायु से वायु का बेग  
खण्डित होता हो, आवर्च ( भंवरों ) वाला, हानिकारक-दुर्गन्ध वाला, वाष्प,  
सिकता ( रेत ), पाणु ( धूँडि ) और धुंप से व्याप्त हो, तब वायु को अनारो-  
ग्यकारक, ( रोगकारक ) समझना चाहिये ॥ ७ ॥

उदकं तु सत्यस्वर्णं विकृत-गन्ध-वर्णं-रस-स्पर्शं वद्वेद्बहुलमपकान्त-  
जलचरविहङ्गमुपक्षीणजलाशयमप्रीतिकरमपगतशुणं विद्यात् ॥ ८ ॥

जल—जिस पानी का गन्ध, रस, वर्ण और स्पर्श बहुत अधिक विकृत हो गया हो, जिस में झेद ( सड़द ) बहुत उठे, जिस पानी को जड़बारी पक्की छोड़कर चले गये हों, जिस पानी में रहने वाली मछलियां नष्ट हो गई हों और जलाशय भी कमती हो गया हो, इस प्रकार के पानी को अप्रिय और गुणरहित माने ॥ ८ ॥

देशं पुनर्विकृत-वर्णं-गन्ध-रस-स्पर्शं-झेद-बहुलमुपसृष्टं सरीसृप-च्याल-  
मराक-शळभ-मक्षिका-मूषकोलक-इमाशानिक-शकुनि-जञ्जुकादिभिस्तुणो-  
द्यूपोपवनवन्तं लता प्रतानादिवबहुलमपूर्ववद्वपतितं शुष्कनष्टशस्यं धूप्रप-  
वनं प्रभातपत्रिगणमुक्त-इश्वरणमुद्भ्रान्त-न्यथित-विविध-मृग-पक्षि-  
सरूप-मुत्सृष्ट-नष्ट-धर्म-सत्य-लज्जाचार-शील-गुण-जनपदं शशवत्सुभितो-  
दीर्णसलिलाशयं प्रततालकापातनिर्धात्मभूमिकम्पमतिभयारावरूपं रूप-  
ताम्नारुणसिताभ्र-जाल-संवृतार्क-चन्द्र-तारकमभीक्षणं संभ्रमोद्वेगमिव  
सत्रासरहितमिव सतमस्कमिव गुह्यकाचरितमिवाऽऽकन्दितशब्दबहु-  
लमिव चाहितं विद्यात् ॥ ९ ॥

देश—जिस स्थान का वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श विकृत हो गया हो, झेद बहुत हो, जिस स्थान में सरीसृप ( सरकने वाले सांप आदि जन्तु ), च्याल ( सिंह, चीते आदि ), मराक ( मच्छर ) शळभ ( पतंगे ), मक्षिका-मूषक ( चूहे ), उल्लू ( उल्लू ), शमशान में रहने वाले पक्की गीध, चील, गीढ़ आदि का उपद्रव हो, जहां पर ये बहुत हों, जहां पर तुण, धात, लता आदि बहुत हों, जो पहिले से एकदम नया ही दीखे, जहां पर अनाज के खेत सूख या नष्ट हो गये हों, जहां की वायु धुंवाली हो, जहां पर पक्षीगण घोर शब्द करते हों, जहां पर कुत्ते मुँह उठा कर रोते हों, जहां पर घबराये और पीड़ित नाना प्रकार के मृग-पशु-पक्षीसमूह हों, जिन नगरों में से धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, शील, दया, दार्ढिष्य आदि गुण नष्ट हो गये हों, जहाँ के तालाबों का पानी विना वायु के भी निरन्तर लुभित और तरंगों वाला रहे, जहां पर उल्कापात, विजली आदि का गिरना, भूकम्प आदि लगातार हो और भयंकर शब्द उत्पन्न होता हो, जहां पर सूर्य, चन्द्र और तारे रखे, तवि के से, छाल, काढ़, बादलों से ढंपे दिखाई देवे, जहां पर बार बार भ्रम, उद्वेग, के साथ, भय के साथ रोने का सा शब्द सुने, अन्धकार सा हो, जो गुह्यक ( वश ) आदि देवयोनियों से आकान्त सा हो, तथा रोने के से शब्दों से व्याप्त हो देश को अनारोग्यकारक समकाना चाहिये ॥ ९ ॥

कालं तु खलु यथर्तुष्ठिष्ठाहिपरीतष्ठिष्ठामविष्ठिष्ठां हीनष्ठिष्ठां चाहिर्त  
व्यष्टयेत् ॥ १० ॥

काल—धीर, उष्ण और वर्षा इन अनुभुओं के अपने लक्षणों से विपरीत होना या उन लक्षणों का अधिक होना या कम होना ( मिथ्यायोग, अतियोग और अयोग ) अनारोग्यकारक होता है ॥ १० ॥

इमानेवं दोषयुक्तश्चतुरो भावान् जनपदोद्भवंसकरात् वदन्ति  
कुशलाः । अतोऽन्यथाभूतास्तु हितानाचक्षते ॥ ११ ॥

विगुणेष्वपि तु खल्वेतेषु जनपदोद्भवंसनकरेषु भेषजेनोपपाद्यमा-  
नानामभयं भवति रोगेष्य इति ॥ १२ ॥

निपुण वैद्य इस प्रकार के दोषों वाले वायु, जल, देश और काल इन चारों को जनपदनाश का कारण मानते हैं । इनसे विपरीत लक्षणों वाले इन चारों को आरोग्यकारक मिनते हैं । इन चारों के विगुण होने व जनपद के नाशक कारणों के उपस्थित होने पर भी, दोष और दूष्य की अपेक्षा फरके औषध द्वारा चिकित्सा करने पर पुरुषों को रोग नहीं होते, वे पुरुष रोगों से बचे रहते हैं ॥ ११-१२ ॥

भवन्ति चात्र—वैगुण्यमुपपन्नानां देशकालानिलाम्भसाम् ।

गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्स्यंप्रब्रह्मयते ॥ १३ ॥

वाताज्जलं जलादेशं, देशात्कालं, स्वभावतः ।

विद्याद् दुष्परिहार्यत्वाद् गरीयस्तरमर्थवित् ॥ १४ ॥

वाय्वादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् ।

प्रतीकारस्य सौकर्ये विद्याललाघवलक्षणम् ॥ १५ ॥

विकृत हुए देश, काल, वायु, और जल इनमें कारण के विचार-अनुसार-  
किएका उल्कर्त्त है इसका वर्णन करते हैं । यथार्थ तत्त्व को जानने वाला वैद्य  
स्वभाव से वायु से लड़ को, जल से देश को, देश से काल को बढ़ कर उभगे ।  
क्योंकि इनका स्थान नहीं किया जा सकता । यदि वायु खराब हो तो बूसेरे  
स्थान पर सुगमता से जाया जा सकता है । जल तो जीवन के बिंबे सेवन  
करना आवश्यक है । यदि प्रदूष से जल को भी छोड़ दे, देश से बचना  
कठिन है । देश से भी यदि देशान्तर में जायें तो काल से बचना अवश्य है ।  
इष्ठिष्ठे सबसे अधिक प्रबल काल है । वायु, जल, देश और काल इन चारों  
के दोषों को दूर करने के उपाय जाने और दोषों के प्रतिकार के सुगम होने  
पर काल-वैद्य इनके लक्षण भी जाने ॥ १३-१५ ॥

अतुर्जपि तु दुष्टेषु काङ्क्षन्तेषु यदा नराः ।

भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ १६ ॥

बायु आदि इन चारों के विकृत होने पर भी जब पुरुष औषध सेवन करते हैं तब रोगी नहीं होते ॥ १६ ॥

येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणाम् ।

कर्म पञ्चविधं तेषां भेषजं परमुच्यते ॥ १७ ॥

रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते ।

शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः ॥ १८ ॥

जिन पुरुषों में मरण की समानता नहीं और न कर्मों की समानता है, उनके लिये तो बमन, विरेचन आदि पञ्च कर्म सबसे श्रेयस्कर उपाय हैं । इसके साथ में विधिपूर्वक रसायन ( वृष्य प्रयोगों ) का सेवन करना चाहिये । तथा व्यापत्ति से पूर्व एकत्र की हुई औषधियों ( अज आदि ) से शरीर का पालन करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥

सत्यं भूते दया दानं बलयो देवतार्चनम् ।

सद्वृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रश्नमो गुप्तिरात्मनः ॥ १९ ॥

हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम् ।

सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् ॥ २० ॥

संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनाम् ।

धार्मिकैः सात्त्विकैनित्यं सहाय्या वृद्धसंभर्तैः ॥ २१ ॥

इत्येतद्भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम् ।

येषामनियतो मृत्युस्तस्मिन् काले सुदारुणे ॥ २२ ॥

सत्य, प्राणियों में दया, दान, बलि, देवता की अर्चना, सद् वृत्त का पालन, इन्द्रियों को विषयों से रोकना, अपनी रक्षा, अविकृत ( अच्छे, जहाँ बीमारी न हो ) जनपदों ( देशों ) का सेवन करना, ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारियों का सेवन करना, उनके पास रहना, धर्मशास्त्रों की कथा तथा जितात्मा महर्षियों से बात-चीत करना, धार्मिक सद्ग्रहकृति के वृद्धों के पास उठना-बैठना, ( तथा देव-व्यपाभय कर्म का सेवन ), आयु की रक्षा के लिये औषध है । जिन लोगों की मृत्यु इस दारण काल में निश्चित ( अवश्यमावी ) नहीं है, उन के लिये उपरोक्त कर्म औषध हैं ॥ १९-२२ ॥

इति श्रुत्वा जनपदोद्भवं सने कारणान्यात्रेयस्य भगवतः पुनरपि अगवन्तमात्रेयमनिवेश उवाच—अथ खलु भगवन् ! कुतो मूढमेषां बाध्वादीनां वैगुण्यमुत्पद्यते, येनोपपत्ना जनपदमुद्भवं सयन्तीति ॥ २३ ॥

जनपद-नाश के इन कारणों को सुन कर भी अग्निवेश ने भगवान् आत्रेय से पूछा—हे भगवन् ! बायु आदि में किस कारण से विगुणता उत्पन्न होती है, जिस से विकृत होकर ये जनपदों को नाश करते हैं ॥२३॥

**तमुवाच भगवानात्रेयः—**सर्वेषामप्यग्निवेश ! बायबादीना यद्वैशु-  
प्यमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूलं बाऽसत्कर्म पूर्वकृतम् । तयोर्योनिः  
प्रशापराध एव । तद्यथा—यदा देश-नगर-निगम-जनपद-प्रधाना धर्म-  
मत्क्रम्याधर्मेण प्रजा वर्तयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिताः पौरजनपदा व्यवहा-  
रोपजीविनश्च तमधर्ममभिवर्धयन्ति, ततः सोऽधर्मः प्रसरं धर्ममन्त-  
र्धत्ते, ततस्तेऽन्तर्हितधर्माणो देवनाभिरपि त्यज्यन्ते, तेषां तथाऽन्तर्हित-  
धर्माणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृतवां व्यापद्यन्ते, तेन नापो  
यथाकालं देवो वर्षति, न वा वर्षति, विकृता वा वर्षति, वाता न  
सम्यग्भिवान्ति, क्षितिव्यापद्यते, सलिलान्युपशुष्यन्ति, ओषधयः  
स्वभावं परिहायाऽप्यद्यन्ते विकृतिम्, तत उद्धवं सन्ते जनपदाः स्पर्शाङ्क्य-  
व्याहायदोषात् ॥ २४ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा । इन बायु आदि सब में जो विगु-  
णता उत्पन्न होती है, उसका मूल कारण अधर्म है । इस अधर्म का मूल कारण  
पूर्व किये और असत् कर्म ( अहित कर्म ) हैं । इन दोनों अधर्म और असत्  
कर्मों की उत्पत्ति का कारण प्रशापराध अर्थात् तुष्टि का लोप है । जिस समय  
देश, नगर, प्रान्त और जनपद के अध्यक्ष ( प्रधान शासक जन ) धर्मका अति-  
क्रमण करके अधर्म से प्रजाजनों के साथ व्यवहार करने लगते हैं, तब इन  
प्रधान जनों के आश्रित एवं पीछे चलने वाले नगर और जनपद वासी लोग तथा  
बाणिज्य व्यवहार वा अदालत द्वारा जीविका प्राप्त करने वाले भनुष्य इस अधर्म  
को और भी बढ़ाते हैं । इस प्रकार से बढ़ा हुआ अधर्म वलात् धर्म का लोप  
कर देता है । इस धर्म के लंप हो जाने से देवता लोग नागरिकों के लोगों का  
साथ छोड़ देते हैं, इस प्रकार से अधर्म की प्रधानता होने और देवता आदि  
का सहयोग छूट जाने पर श्रुतुर्दं ( शीत, उष्ण आर वर्षा ) विकृत हो जाती  
है । इस से देव ( मेष ) ठीक समय पर वर्षा नहीं करता, सर्वथा नहीं करता  
अथवा विकृत रूप में जल बरसता है, बायुर्दं भी भली प्रकार नहीं चढ़ती,  
भूमि विगड़ जाती है, पानी दख जाते हैं । आंषधियां अपनी प्रकृति को  
छोड़ कर विकृति को प्राप्त हो जाती हैं । तब सर्व और आहार के दोष से  
जनपद नष्ट होने लगते हैं ॥ २४ ॥

तथा शब्दप्रभवस्त्वापि जनपदोद्यम्बंसत्यावर्म एव हेतुर्भवति । तेऽतिप्रवृद्ध-लोभ-रोष-भोह-मानास्ते दुर्बलानवमत्याऽत्मस्वजनपदोपधाताय शब्देण परस्परमभिक्रामन्ति, परान्वाऽतिक्रामन्ति, परेवाऽभिक्राम्यन्ते ॥ २५ ॥

रक्षोगणादिभिर्वा विविधैर्भूतसङ्घैस्तपश्चर्ममन्यद्वाऽप्यपचारान्तर-मुण्डध्याभिहन्यन्ते ॥ २६ ॥

शब्द से होने वाले युद्ध आदि में भी जो जनपद का नाश होता है उस का भी कारण अर्थम् हो दे । जिन पुरुषों में लोभ, क्रोध, मान बहुत बढ़ा होता है, वे दुर्बल पुरुषों का तिरस्कार करके अपने और दूसरों के नाश के लिये परस्पर शब्दों से आक्रमण करते हैं । इस अवस्था में राक्षस आदि नाना प्रकार के भूत (प्राणि) समूह इस अर्थम् या इसी प्रकार के अन्य अपचारों से इन पर आघात करते हैं ॥ २५-२६ ॥

तथाऽभिशापप्रभवस्याप्यर्थम् एव हेतुर्भवति । ये लुप्तधर्माणो धर्मा-दपेतास्ते गुरुवृद्ध-सिद्धर्थिं-पूज्यानवमत्याहितान्याचरन्ति, ततस्ताः प्रजा गुर्वादिभिरभिशता भस्त्रतामुपयान्ति प्रागेवनेकपुरुषकुलविनाशाय नियतप्रत्ययोपलभाज्ञियता अनियतप्रत्ययोपलभादनियताश्चापरो ॥ २७ ॥

इसी प्रकार अभिशाप से देश के नाश होने का भी मुख्य कारण अर्थम् ही है । जिन देशों में धर्म लुप्त हो जाता है और जो धर्म से च्युत हो जाते हैं; वे गुरु, वृद्ध, सिद्ध, श्रूपि, पूज्य पुरुषों का तिरस्कार करके अहित कार्यों का सेवन करते लगते हैं । तब वे प्रजाएं गुरुजनों से शत होकर शीघ्र ही भस्म हो जाती हैं । अनेक पुरुषों के कुल विनाश के लिए जहाँ विशेष पुरुषों के अपराध होते हैं वहाँ वे ही नष्ट होते हैं और जहाँ निष्क्रिय कारण नहीं होता वहाँ अनियमित रूप से अनेक अन्य भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २७ ॥

प्रागपि चार्धर्माद्वृते नाशभोत्पत्तिरन्यतोऽभूत्, आदिकाले ह्यविति-सुतसम्यजसोऽतिवलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्ष-देवर्षि-धर्म-यज्ञ-विधि-विधानाः शैछेन्द्र-सार-संहत-स्थिर-शरीराः प्रसन्नवणनिद्र्याः पवन-समन्वल-जव-पराक्रमाश्राकर्स्कचोऽभिरूपप्रमाणाकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्यार्जवानृज्ञस्य-दान-दम-नियम-तपउपवास-ब्रह्मोचर्य-ब्रतपरा व्यपगत-भय-राग-द्रेष-भोह-लोभ-क्रोध-शोक-भान्न-रोग-मिद्रा-तन्द्रा-अम-क्लमा-क्लद्य-परिग्रहात्म्य पुक्षा बभूत्यरितायुषः । तेषामुदारस्वगुणकर्मणाम-चिन्त्य-रस-वीर्य-विपाक-प्रभाव-गुण-समुदितानि प्रादुर्भूतुः सस्थानि सर्वगुणसमुदितत्वात्पृथिव्यादीनो कृतयुक्तस्याऽदौ ।

रोग आदि की उत्पत्ति का मूल कारण—पहले भी अष्टम के विना किसी अन्य कारण से रोग आदि अशुभों की उत्पत्ति नहीं हुई। कृतयुग में देवों के समान तेज-पराक्रम वाले, अति बड़वान्, विशाल प्रभाव वाले, देव, देवर्षि, वर्म, यज्ञ विधि आदि सत्कर्मों को प्रत्यक्ष देखने वाले, पर्वत के समान हृद, संगठित, स्थिर शरीर वाले, निर्मल वर्ण ( कान्ति ), और इन्द्रियों से युक्त, वायु के समान बल, वेग और पराक्रमवाले, सुन्दर निवर्मवाले, वायु के अनुकूल अवश्यव परिमाण, आकृति और प्रसादवाले और गुणों और पुष्टि से युक्त, सत्य, आर्जव ( श्रुतुता, नम्रता ), अनुशंसता ( दया ), दम, दान, नियम, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य और व्रतों में तत्पर, भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, मान, रोग, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, क्लम, आलस्य, परिग्रह इन से रहित और अभित ( युगों के अनुसार दीर्घ ) आयु वाले पुरुष थे। सत्त्व युग के प्रारम्भ में इन पुरुषों के उदारविच्च और गुणों, धार्मिक कर्मों के अचिन्त्य प्रभाव से पृथिवी आदि महाभूतों के सर्वगुणसम्पन्न होने से शस्य ( धान्य ) भी रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव और गुणों वाले उत्पन्न होते थे।

अश्यति तु कृतयुगे केषाचिदत्यादानात्सापन्निकानां शरीरगौरव-मासीत् । शरीरगौरवात् श्रमः श्रमादालस्यं, आलस्यात् संचयः, संचयात् परिग्रहः, परिग्रहालोभः प्रादुर्भूतः कृते ॥२८॥

कृतयुग के उत्तरते हुए अन्तिम भाग से कुछ सम्पन्न धनों लांगों के अतिभोजन से शरीर में भारीपन आ गया। शरीर में भारीपन आने से श्रम, श्रम से आलस्य, आलस्य से संचय ( इकट्ठा करने की बुद्धि ), संचय से परिग्रह ( ममता ) और परिग्रह से लोम उत्पन्न हुआ ॥२८॥

तत्स्तेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोदादनृतवचनं, अनृतवचनात्काम-क्रोध-मान-द्वेष-पादस्थाभिघात-भय-दाप-शोक-चित्तोद्गेगादयः प्रवृत्ताः । तत्स्तेतायां धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत्, तस्यान्तर्धानात् ( युगवर्षप्रभाणस्य पादद्वासः ) पृथिव्यादानां गुणपादप्रणाशोऽभूत्, तप्रणाशकृतश्च स्त्रानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादैश्वाऽहरविहाररर्यथापूर्वमुपष्ट-इयमानान्यभिमारुपरीवानि प्राव्याधिभिज्वरादिभिराक्रान्वानि, अतः प्राणिनां द्वासमवापुरायुषः क्रमशः इति ॥ २९ ॥

किर ब्रेता में लोम से अभिद्रोह, अभिद्रोह से अस्त्र भाषण, अस्त्र भाषण क्राम, क्रोध, मान, द्वेष, कठोर वचन, अभिज्ञात ( परस्पर हिंडा ), भय,

दाप, शोक, चिन्ता, उद्वेग आदि उत्पन्न हुए। इन के पीछे ब्रेता में धर्म का एक चरण लोप हो गया। इस धर्म के एक पांच के लोप होने से आहार-विहार के गुणों का भी एक चतुर्थांश नष्ट हो गया। साथ में पृथिवी आदि के गुणों में भी एक चौथाई कमी आ गई। इस कमी के कारण धान्यों के स्नेह, निर्मलता, रस, लीर्य, विषाक, प्रभाव में भी चतुर्थांश घटती हो गई। इस से पुष्टों के शरीर के गुणों में चतुर्थांश की कमी होने से, आहार विहार के गुणों में भी घटती होने से, पूर्व युग के समान वे अग्नि, वायु वाले नहीं रहे। अग्नि, वायु के गुणों में भी कमी आ गई। इसलिये छवर आदि रोगों से प्रथम प्रथम आकान्त हुए। अतः कृतयुग से प्राणियों की आयु में एक एक चतुर्थांश की कमी हुई ॥ २६ ॥

भवतश्चात्र—युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते ।

गुणापादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ ३० ॥

संवत्सरश्चते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयम् ।

देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥ ३१ ॥

इति विकाराणां प्राणुत्पत्तिहेतुरुक्तो भवति ।

इस क्रम से प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद ( चतुर्थांश ) छोड़ होता जाता है। इसी क्रम से पृथिवी आदि भूतों के गुणों में भी एक एक पाद की कमी होती जाती है। अर्थात् सब्युग में चार पाद, ब्रेता में तीन पाद, द्वायापर में दो और कलियुग में एक पाद शेष रह जाता है। इस प्रकार से लोक प्रलय को प्राप्त होते हैं। जिस युग में मनुष्यों की आयु और युग का जो जो परिमाण है, उस युगमान के सौ वर्ष पूर्ण होने पर आयु का एक एक वर्ष कम हो जाता है। जैसे कलियुग में सौ वर्ष की आयु है। युगमान १०० वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष कम होकर निष्यानवे ( ६६ ) वर्ष परमायु होती है। यह रोगों के प्रथम उत्पत्ति का कारण कह दिया ॥ ३१ ॥

एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमन्निवेश उवाच—किं तु स्तु भगवन् ।  
नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं न वेति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार कहते हुए भगवन् आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा—भगवन् । क्या आयु का समय और परिमाण दब निश्चित है वा अनिश्चित ॥ ३२ ॥

भगवानुवाच—इहाग्निवेश ! भूतानामायुर्युक्तिमपेष्ठते ॥ ३३ ॥

दैवे पुरुषकारे च स्थितं द्वास्य बलाष्ठम् ।

भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! प्राणियों की आयु, देव और पुरुषकार इन दोनों का योग चाहती है । इसलिये आयु का बल और अबल देव और पुरुषार्थ पर स्थित है ॥ ३३ ॥

दैवमात्मकृतं विद्यात्कर्म यत्पौर्वद्विद्विकम् ॥ ३४ ॥

स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिद्विपरम् ।

बलाबलविशेषोऽस्त तयोरपि च कर्मणोः ॥ ३५ ॥

अपने शरीर से जा कर्म पूर्व जन्म में किये हों उन को 'दैव' जाने । और हस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसे पुरुषकार कहा है । इन दोनों प्रकार के कर्मों का विशेष बल और अबल होता है ॥ ३४-३५ ॥

दृष्टं हि त्रिविधं कर्म हीनं मध्यममुच्चमम् ।

यह कर्म भी तीन प्रकार का है । हीन, मध्यम और उच्चम ।

तयोरुद्धारयोर्युक्तिर्द्विधिस्य च सुखस्य च ॥ ३६ ॥

नियतस्याऽस्युषो हेतुविपरीतस्य चेतरा ।

तीन प्रकार की आयु—दैव और पुरुषकार दोनों प्रकार के कर्म उच्चम होने से आयु का परिमाण अथोत् नियत काल दीर्घ होता है । सुखकारक एवं हितकारक आयु मिलती है और यदि इन दोनों प्रकार के कर्मों में विपरीत युक्ति हो तो आयु अनियत, छोटी, दुःखी एवं अहितकारक रहती है ॥ ३६ ॥

मध्यमा मध्यमस्येष्टा, कारणं शृणु चापरम् ॥ ३७ ॥

दैवं पुरुषकारेण दुष्कैलं ह्यपहन्यते ।

दैवेन चेतरत्कर्म विशिष्टेनोपहन्यते ॥ ३८ ॥

इन कर्मों में मध्यम बल हो तो आयु भी मध्यम प्रकार की रहती है । और भी कारण सुनो । जहाँ पर एक कर्म बलवान् हो, दूसरा निर्वल हो, वहाँ पर बलवान् दुर्बल दारण को दबा लेता है । इसलिये यदि पुरुषकार-कर्म बलवान् होगा तो निर्वल दैव को दबा देगा और यदि दैव बलवान् होगा तो वह दूसरे कर्म (पुरुषकार) को नष्ट कर देगा । निर्वल को बलवान् दबा लेता है ॥ ३८ ॥

दृष्ट्वा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुषः ।

कर्म किञ्चित् क्वचिचित्काले विपाके नियतं महत् ।

किञ्चित्क्वचित्कालनियतं प्रत्ययैः प्रतिक्षोध्यते ॥ ३९ ॥

इस बात को देख कर कुछ विद्वान् आयु का परिमाण निश्चित मानते हैं । किसी बलवान् कर्म का तो किसी विशेष निश्चित समय में ही परिपाक होता है और किसी का विपाक काल अनिश्चित है, कभी भी उसका पाक हो सकता है ।

कौन कर्म कब पकेगा इव बात का निर्णय कारणों से किया जाता है। कभी सहकारी अन्य कारण को पाकर कर्म का पाक होता है। किया कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार कर्म के परिपाक काल के नियम और अनियत होने से आयु भी नियत तथा अनियत है ॥ ३६ ॥

तस्मादुभयहृष्टत्वादेकान्तप्राहणमसायुः । निर्दर्शनमपि चात्रोदाहरि-  
ज्यामः । यदि हि नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं स्यात्, तदायुष्कामानी न  
मन्त्रौषधि-मणि-मङ्गल-बल्युपहार-होम-नियम-प्रायश्चित्तोपवास-स्वस्त्य-  
यन-प्रणिपात-गमनाद्याः किया इष्टयश्च प्रयुज्येन, नोदूभान्त-चण्ड-चपल-  
गोभाजोष्टू-खर-नुरग-महिषादयः पवनादयश्च दुष्टाः परिहार्याः स्युर्न प्रपात-  
गिरि-विषम-दुर्गाम्बुदेवगास्तथा न प्रमत्तोन्मत्तोद्भान्त-चण्ड-चपल-मोह-  
लोभाकुलमतयो नारयो न प्रवृद्धोऽप्तिनं च विविधविषाश्रयाः सरीसूपोर-  
गादयः, न साहसं नादेशकालचयां, न नरेन्द्रप्रकोप इत्येवमादयो हि  
भावा नाभावकराः स्युः, आयुषः सर्वस्य नियतकालप्रमाणत्वात् ॥४०॥

इसलिये नियत और अनियत दोनों प्रकार की आयु के दीखने से कोई एक पक्ष अथोत् आयु का नियत वा अनियत काल मानना यह ठीक नहीं है। इस के लिये उदाहरण भा देते हैं—यदि आयु का परिमाण नियत मान लिया जाय तो दायांयु चाहने वाले मनुष्य आयु को बढ़ाने वाले मंत्र, ओषधि, क्रिया, इष्टि, याग, मणि, मंगल, बलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमनादि किया ओं को न किया करें। इसी प्रकार इधर उधर दोनों हुए भयानक, चपल, गां, हाथी, ऊंट, गधे, घोड़े, भैंसे आदि तथा दुष्ट वायु आंद से कोई भी अपन का न बचावें, न कोई उन को दूर करने का यत्त करें। प्रपात ( जल-प्रपात ), पश्चात्, कठिन दुर्ग, पाना के बेग से कोई अपने का न बचावें। मस्त, उन्मत्त, भ्रान्ति, चण्ड, चपल, मोह, लोम से व्यास बुद्धि वालों से अपने का न बचावें, शत्रु को भी निवारण न करें। तेजु जलती अग्नि से कोई न ढरे। विविध प्रकार के विपैले पदार्थों और सर्प आदि जन्तुओं से कोई भय न मानें। अनुचित बल के आरम्भ से न बचें। देश काल के विपरीत आचरण से अपने को न बचावें। राजा का प्रकोप भी मृत्यु का कारण न बन सकें। इन समस्त कारणों से भी आयु का नाश न हो। क्योंकि उब को आयु का काल और परिमाण नियत है। आयु के नियत काल होने से यह कारण भी मारक नहीं बनने चाहिये। मृत्यु के भय से ही कोग इस कालों बचते हैं ॥ ४० ॥

न चानभ्यस्ताकाळमरण-भय-निवारकाणामकाळमरणभयमागच्छे-  
त्राणिना॒ऽव्यर्थाश्च। ४५ इत्यमकथप्रयोगबुद्धयः स्युर्महर्षीणां रसायनाधिकारे,  
नापीन्द्रो नियतायुषं शत्रुं वज्रेणाभिहन्यात्, नादिवनावारं भेषजेनोप-  
पादयेतां, न महर्षयो यथेष्टुमायुस्तपसा प्राप्नुयुः, न च विदिववेदितव्या  
महर्षयः ससुरेशा रसायनादीनि सम्यक् पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वा ।

अकाल मरण के भय का निवारण करने वाले अनभ्यसी प्राणियों को  
अकाल मृत्यु के कारणों से भय भी न हो । महर्षियों के रसायनाधिकार में कहे  
हुए उपदेश, प्रयोग और ज्ञान ये सब व्यर्थ हो जायें । नियत आयुशाले शत्रु  
को इन्द्र भी बज्र से नहीं मार सके । अदिविनीकुमार भी रांगी पुष्पक की औष-  
वियों से चिकित्सा न कर सके । और महर्षिगण तप द्वारा वांछित वर्षों तक की  
आयु भी ग्रास न कर सके । सर्वज्ञ महर्षिगण इन्द्र के साथ आयुवर्धक रसाय-  
नादि को न देखें, न उपदेश करें और न स्वयं व्यवहार करें । क्योंकि आपु  
का काळ और परिमाण तो निश्चित है ।

अपि च सर्वचक्षुषामेतत्परं यदैन्द्रं चक्षुः, इदं चास्माकं प्रत्यक्षं,  
यथा पुरुषसहस्राणामुत्थायोत्थायाऽद्वचं कुर्वतामकुर्वतां चातुल्यायुष्टं,  
तथा जातमात्राणामप्रतीकारात् प्रतीकाराच्च। विषविषप्राशिनां चाप्य-  
तुल्यायुष्टं, न च तुल्यो योगः क्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सी-  
दत्तां, वस्माद्वितोपचारमूर्तं जीवितमतो विषयं यान्मृत्युः ।

सब आंखों से श्रेष्ठ प्रमाण यह इन्द्र ( आत्मा ) की आंख है—इम प्रत्यक्ष  
देखते हैं कि इजारो मनुष्य प्रतिदिन उठ उठ कर शब्दों से लड़ाई करते हैं,  
नहीं भी करते हैं, उन सब की आयु तुल्य नहीं होती अर्थात् लड़ने वाले मरते  
और न लड़ने वाले नहीं मरते हैं । इसी प्रकार उपचर हुए संन्यास शोहिणी  
आदि दोगों की जो तत्काल चिकित्सा कर लेते हैं वे बच जाते हैं और जां  
विक्षित नहीं करते वे मरते हैं । इसी प्रकार विव खाने वाले मरते हैं और विष  
नहीं खाने वाले नहीं मरते । पानी रखने या लाने के लिये जो पक्के घड़े बनाये  
जाते हैं उन का तथा चित्र घटों ( कचे घड़ों ) का योग-क्षेम समान नहीं हो  
सकता । वे समान काल तक स्थिर नहीं रह सकते । किन्तु रक्षण करने से कचे  
घड़े भी देर तक रह सकते हैं और न पालने से पक्के घड़े भी शीब्र टूट जाते  
हैं । इसलिये हितकारी बस्तुओं वा कार्यों का सेवन करना ही जीवन का निमित्त  
है । इस के विपरीत अद्विताचरण करना मृत्यु का कारण है ।

अपि च देशकालात्मगुणविषप्रीतानां कर्मणामाहारविहाराणां च

क्रियोपयोगं सम्यक् सर्वातियोगसंधारणमसंधारणमुदीर्णना च गति-  
मर्ता साहसर्ना च वर्जनमारोग्यानुवृत्तौ हेतुमुपलभामहे उपदिशामः  
सम्यक् पश्यामश्चेति ॥ ४१ ॥

और भी, देश, काल, आत्मा इन के गुणों के साम्य, कर्म तथा आदर  
द्रव्यों को विविष्टरूपक उपयोग करना, काल, कर्म और इन्द्रियाथों के आयोग,  
मिथ्यायोग और अतियोग का स्थाग, अनुपस्थित वेगों को रोकना ( बलात्कार से  
बाहर न करना ) और उपस्थित वेगों को न रोकना और सब प्रकार के साहित्यिक  
कर्मों ( अनुचित बल के कार्यों ) का स्थाग, ये सब बातें आयोग्य के संरक्षण में  
कारण होती हैं। इस स्वस्थवृत्त का हम भली प्रकार उपदेश करते हैं और इसे  
अच्छी प्रकार देखते भी हैं ॥ ४१ ॥

अतः परमनिवेश उवाच—एवं सत्यनियतकालप्रमाणायुषां भग-  
वन् ! कथं कालमृत्युरकालमृत्युर्वा भवतीति ॥ ४२ ॥

इस के अनन्तर अग्निवेश बोले ! इस प्रकार से यदि आयु का समय  
अनिवित है, तब कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस प्रकार होती है ? ॥ ४२ ॥

तमुवाच भगवानान्नेयः—श्रूयतामग्निवेश ! यथा यानसमायुक्तोऽक्षः  
प्रकृत्यैवाक्षगुणैरूपेतः ( स्यात्, सैच ) सर्वगुणोपपन्नो वाहमानो यथा-  
कालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्, तथाऽऽयुः शरीरोपगतं बल-  
वत्प्रकृत्या यथावदुपचर्यमाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छति, स  
मृत्युः काले ।

भगवान् आज्ञेय ने कहा—हे अग्निवेश मुनो ! जिस प्रकार गाढ़ी में लगा  
धब्ब ( धुरा ), धुरे के समस्त गुणों से युक्त होने पर भी अधिक भार आदि के  
न पड़ने से, ठोक समय में अपने परिमाण के क्षय होने पर विषता २ टूट जाता  
है, उसो प्रकार शरीर से सम्बद्ध आयु भी बलवान् प्रकृति, युक्ति तथा स्वस्थवृत्त-  
विषि से पाली हुई, अपने समय में ही क्षय को प्राप्त होती है, इस मृत्यु को  
'कालमृत्यु' कहते हैं ।

यथा च स एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठिवत्वाद्विषमपथादपथादक्षचक्र-  
भङ्गाद्वाहावाहकदोषादृणिमोक्षात् पर्यसनादनुपाङ्गाक्षान्तरा व्यसनम-  
श्चते, तथाऽऽयुरस्त्ययथाबलमारम्भादयथाग्न्यम्भवहरणाद्विषमाद्यवहर-  
णाद्विषमशरीरन्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयादुदीर्णवेगविनिप्रदाद्विघार्य-  
वेगाविघारणाद् भूतविषवाय्वग्न्युपतागादभिघारादाहारप्रतीका-  
र्जनाक्ष यावदन्तरा व्यसनमापद्यते । तथा नियतायुष अन्तरा

राष्ट्राभिरुद्यन्ते । स मृत्युरकाले । तथा ज्वरादीनप्यातङ्कान्मिथ्योपच-  
रितानकालमृत्यून् पश्याम इति ॥४३॥

और यदि इसी अश्व पर बहुत अधिक भार रखा जाय, अथवा विषम  
मार्ग से, कुमार्ग से, धुरे या पहिये के दूटने से, बैल या बाहक ( सारणि ) के  
दोष से, अणि, धुरी में लगी कील के निकल जाने से, स्नेह न पड़ने से, गिरने  
से नियत समय से पूर्व ही दूट जाता है उसी प्रकार आयु भी साहस्रिक कार्यों  
से, अग्नि के अनुसार भोजन न करने या विषम भोजन करने से, अतिमेशुन  
से, उपस्थित वेगों को रोकने से, रोकने योग्य ( काम कोथादि ) वेगों को न  
रोकने से, शरीर को विषम स्थिति में रखने से ( उत्कट आसन बैठने से ),  
दुर्जनों का संसर्ग करने से, भूत, विष, वायु, अग्नि, ताप, चोट आदि से,  
आहार विधि के छोड़ने से, धीच में ही आयु समाप्त हो जाती है, इस का नाम  
'अकाल-मृत्यु' है । इसी प्रकार ज्वर आदि रोगों की ठीक प्रकार से चिकित्सा न  
होने से इन से भी अकाल मृत्युएं होती देखते हैं ॥४३॥

अथाग्निवेशः पप्रच्छ—किं तु खलु भगवन् ! ज्वरितेभ्यः पानी-  
यमुष्णं भूयिष्ठं प्रयच्छन्ति भिषजां न तथा शीतम् । अस्ति च शीत-  
साध्यो धातुर्ज्वरकर इति ॥ ४४ ॥

इस के अनन्तर अग्निवेश ने पूछा—हे भगवन् ! वैष्ण लोग ज्वर के रोगी  
को गरम पानी अधिकतः किस लिये देते हैं ? शीतल पानी उतना नहीं देते ।  
शीत उपचार से भी ज्वरकारक धातु पित्त शान्त होता है ॥४४॥

तमुच्च भगवानाऽत्रेयः—ज्वरितस्य कायसमुत्थानदेशकाला-  
नमिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वरो  
ह्यामाशयसमुत्थः प्रायो भेषजानि चाऽमाशयसमुत्थानां विकाराणां  
पाचनबमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयमुष्णं,  
तस्मादेवज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम् । तच्चैवां पीतं  
बातमनुलोमयति, अग्निमुदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं जरा गच्छति, श्लेषामां  
च परिशोषयति, स्वल्पमपि पीतं तृष्णाप्रशमनायोपपद्यते, तथायुक्त-  
मपि चैतन्नात्यर्थेत्सन्पित्रो ज्वरे सदाहभ्रमप्रलापातिसारे वा प्रदेयम्,  
उष्णोन हि दाहभ्रमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवर्धन्ते, शीतेनोपशाम्य-  
न्वीति ॥ ४५ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—ज्वर-रोगी के शरीर, निदान  
( आमाशय से उत्पन्न विकारों में ) देख, काल को देखकर पाचन के लिये

वैद्य लोग गरम पानी देते हैं। ज्वर की उत्पत्ति आमाशय से होती है। आमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिये पाचन, बमन, अपतर्पण संशयमन आदि उपचार प्रायः होते हैं। इसलिये ज्वर के रोगी को पाचन कराने के लिये वैद्य लोग गरम पानी अधिकतर देते हैं। यह पीया हुआ गरम पानी बायु का अनुलोमन करता है, जाठरामि को बढ़ाता है, शूष्र पच जाता है, जीर्ण हो जाता है, कफ को सुखाता है और थोड़ा भी पिया हुआ गरम पानी प्यास को शान्त करने के लिये पथ्यास होता है। यह गरम पानी इतना लाभप्रद होने पर भी जिस ज्वर में पित्त बहुत बढ़ा हो उस में और दाह, भ्रम, प्रलाप अथवा अतिरार की अवस्था में भी नहीं देना चाहिये। गरमी से दाह, भ्रम, प्रलाप और अतिरार और अधिक बढ़ते हैं। ये रोग शीत उपचार से शान्त होते हैं ॥ ४५ ॥

**भवति चात्र—शीतेनोष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषजिवदः ।**

**ये तु शीतकृता रांगास्तंषां चोष्णं भिषरिजतम् ॥ ४६ ॥**

चिकित्सक आनी लोग गरमी ( उष्णता ) से उत्पन्न हुए रोगों को शीत चिकित्सा से शमन करते हैं और शोत कारण से उत्पन्न रोगों को उष्ण चिकित्सा से शान्त करते हैं अर्थात् निदान से विषरीत चिकित्सा करते हैं ॥ ४६ ॥

**एषमितरेषामपि व्याधीनां निदानविपरीतमौषधं भवति कार्यम् ।**  
यथा—अपतर्पणनिमित्तानामपि व्याधीनां नान्तरेण पूरणमस्ति शान्तिस्तथा पूरणनिमित्तानां नान्तरेणापतर्पणमिति ॥ ४७ ॥

इस प्रकार से अन्य रोगों में भी कारण के विपरीत चिकित्सा करनी होती है। जिस प्रकार कि अपतर्पण किया से उत्पन्न रोगों की शान्ति संतर्पण किया के बिना नहीं होती, उसी प्रकार संतर्पणजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण किया के बिना नहीं होती ॥ ४७ ॥

**अपतर्पणमपि च त्रिविधं लङ्घनं, लङ्घनपाचनं, दोषावसेचनं चेति ॥ ४८ ॥**

अपतर्पण भी तीन प्रकार का है। ( १ ) लंघन, ( २ ) लंघन-पाचन और ( ३ ) दोषावसेचन ( दोषों का बाहर निकालना ) ॥ ४८ ॥

**तत्र लङ्घनमल्पबलदोषाणां, लङ्घनेन ह्यग्रिमारुतवृद्धया चात्र तपपरीतमिवाल्पमुदकमल्पदोषः प्रशोषमापयते ॥ ४९ ॥**

इन में जब दोषों का बल अल्प हो, तब लंघन करना चाहिये। लंघन

अग्नि और वायु की वृद्धि होती है। जिस प्रकार योगा पानी वायु और धूप के बढ़ने से शुष्क हो जाता है। उसी प्रकार इन की वृद्धि से अल्पबलवाला दोष शुष्क हो जाता है ॥ ४६ ॥

**ठङ्गनपाचनाभ्यां हि मध्यबलो दोषः सूर्यसन्तापमारुताभ्यां पशुभस्मावकिरणैरिव चान्तिबृद्धकं प्रशाष्मापद्यते ॥ ५० ॥**

दोषों का मध्यम बल होने पर लंघन और पाचन कर्म करना चाहिये जिस प्रकार सूर्य के संताप एवं वायु द्वारा धू॒ और भस्म के फेंकने से साधा-रण मात्रा का पानी (बहुत अधिक राशि नहीं) सूख जाता है, उसी प्रकार लंघन और पाचन से मध्यम बलवाले दोष शान्त हो जाते हैं। (धू॒ और भस्म का फेंकना, पाचन किया का उपलक्ष्य है और सूर्य का संताप और वायु लंघन किया का । ) ॥ ५० ॥

**बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यं, न हमिन्ने केदारसेतौ पल्वलप्रसेकोऽस्ति, तद्वदोषावसेचनम् ॥ ५१ ॥**

दोषों के प्रबल होने पर इन का अवमेनन (निष्कासन) ही करना चाहिये। जैसे खेत को मेढ़ की तोड़ बिना खेत के पानी को मुखा देना असम्भव है। मेढ़ की तोड़कर पानी निष्काल देने से खेत शीघ्र सूख जाता है। इसी प्रकार वमन, विरेचन आदि से अधिक बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर कर देने पर दोषों की शान्ति होती है ॥ ५१ ॥

**दोषावसेचनं तु खल्वन्यद्वा भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नैर्विध्य-स्य कुर्यात्, तद्यथा—अनपवादप्रतीकारस्यापरिचारकस्य वैद्यमानिनश्च-ण्डस्यासूयकस्य तीव्रधर्मारुचेरतिक्षीण-बल-मांस-शोणितस्यासाध्यरोगो-पहतस्य मुमूर्धुलिङ्गान्विस्य चेति । एवंविधं ह्यातुरमुपचरन् भिषक् पापी-यसाऽयशासा योगमृच्छतीति ॥ ५२ ॥**

चिकित्सा में त्याज्य रोगी वा निम्न प्रकार के रोगी की दोषावसेचन (संशोधन रूप) अथवा संशमनरूप चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यथा जिससे अपवाद का प्रतिकार न हो सके, जो रोगी उपकरणों का संग्रह नहीं कर सके, ऐसे निर्घन की, जिस के पास परिचारक न हो, अपने को वैद्य मानने वाले, शोषी, निन्दा करने वाले, जिस का बल, मांस रक्त, बहुत क्षीण हो गया हो, असाध्य रोग से आक्रान्त, जिस में मरणोन्मुख दक्षण स्पष्ट हो, इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यदि इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा करता है तो पापमूलक-अपकीर्ति को प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥

मवन्ति चात्र—अल्पोदकद्रुमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः ।  
 ज्ञेयः स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च ॥ ५३ ॥  
 प्रचुरोदकबृशो यो निवातो दुर्लभातपः ।  
 अनूपो बहुदोषश्च. समः साधारणो मतः ॥ ५४ ॥

जिस देश में पानी और वृक्ष कम हों, वायु और धूप बहुत प्रचण्ड हो वह जांगल देश जानना चाहिये । उसमें बहुत कम रोग होते हैं । जिस देश में जल और वृक्ष बहुत हों, वायु न चले और धूप भी न हो, वह अनूप देश कहाता है जिसमें वात और धूप दोनों समान हों वह देश समदेश कहाता है ॥ ५३-५४ ॥

तदात्वे चानुबन्धे चा यस्य स्यादशूभं फलम् ।

कर्मणस्तन्न कर्त्तव्यमेतद् बुद्धिमतो मतम् ॥ ५५ ॥

तत्काल में अथवा उत्तर काल में जित कर्म का कठ अशुभ हो, वह कर्म नहीं करना चाहिये, यह बुद्धिमानों का मत है ॥ ५५ ॥

तत्र स्लोकः—

पूर्वरूपाणि सामान्या हेतवः स्वस्वलक्षणाः ।  
 देशोदृच्छंसस्य भेषज्यं हेतुनां मूलमेव च ॥ ५६ ॥

प्राग्विकारसमुत्पत्तिरायुषश्च क्षयक्रमः ।

मरणं प्रतिभूतानां कालाकाळविनिश्चयः ॥ ५७ ॥

यथा चाकालमरणं यथा युक्तं च भेषजम् ।

सिद्धिं यात्यौषधं येषां न कुर्यादेन हेतुना ॥ ५८ ॥

तदात्रेयोऽग्निवेशाय निखिलं सर्वमुक्तवान् ।

देशोदृच्छंसनिमित्तिये विमाने मुनिसत्तमः ॥ ५९ ॥

जनपदोदृच्छंस के पूर्वरूप, सामान्य कारण, प्रत्येक के अपने अपने लक्षण, चिकित्सा (पंच कर्म), कारणों का मूल कारण अवर्म, रोगों की प्रारम्भिक उत्पत्ति, आयु और धर्म के हात का क्रम, कालमृत्यु और अकालमृत्यु, निदान और दोष, बलपेक्षित औषध, जिनकी चिकित्सा नहीं करनी, ये सब बातें इस अध्याय में मुनिश्रेष्ठ भगवान् आत्रेय ने गिर्य अग्निवेश के लिये सम्पूर्ण रूप से कह दीं ॥ ५६-५९ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिरुद्धरते तृतीये विमानस्थाने जनपदोदृच्छंसनीय-  
 विमानं नाम तृतीयोऽप्यायः ॥ ३ ॥

१. ये दो स्लोक भी कहीं २ देखने में आते हैं ।

### चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातविविधरोगविशेषविज्ञानीयं विमानं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माऽऽद्भुतवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'विविधरोग-विशेष-विज्ञानीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा भगवान् आत्रेय ने कहा था ॥ २ ॥

विविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—आपोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं चेति ॥ ३ ॥

रोगविशेषविज्ञान तीन प्रकार का है । जैसे—( १ ) आस-उपदेश, ( २ ) प्रत्यक्ष और ( ३ ) अनुमान ॥ ३ ॥

तत्राऽपोपदेशो नाम—आपवचनम् । आत्मा द्विविरक्त-स्मृति-विभागविदो निष्प्रत्युभवापरदर्शिनश्च । तेषामेवंगुणयोगाद्यदूचने तत्प्रमाणं, अप्रमाणं पुनर्मत्तान्मत्तमूर्ख-वर्कु-द्वाषट्कृत्वचनमेति ॥ ४ ॥

( १ ) आसोपदेश—आसजनां न वचनों का नाम आप-उपदेश है । आस ही विरक्त से भिन्न अथात् सन्देह से रहित और स्मृति ज्ञान से युक्त साक्षात् अनुभव और विमाग अर्थात् एह देश से भिन्न सम्पूर्ण तत्त्व के जानने वाले । शास्त्र ज्ञान में संशय रहित एवं प्राणियों में प्रीति (राग) उपताप (द्वेष) के भावों से शून्य, रागद्वेषरहित होते हैं । इस पक्षार के गुण होने से इन आप पुरुषों का वचन प्रमाण हो सकता है । मत्त, उन्मत्त ( पागल ), मूर्ख आदि पुरुषों के दृष्टे ( ऐहिक ) और अष्ट ( आमुषिक ) दानों तरह के वचन अप्रमाण होते हैं ॥४॥

प्रत्यक्षं तु खलु तत्—प्रत्यक्षयमिन्द्रियैर्मनसा चोपलङ्घते ॥ ५ ॥

प्रत्यक्ष—जो अपनी इन्द्रियों और मन से ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है ॥५॥

अनुमानं खलु—तर्को युक्त्यपेक्षः ॥ ६ ॥

अनुमान—अनुमान तर्क है जो युक्ति की अपेक्षा करता है । ( कार्य कारण सम्बन्ध या अव्यभिचरित व्याप्ति का नाम युक्ति है ) ॥६॥

विविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुद्येन पूर्वं परीक्ष्य रोगं सर्वथा सर्व-मयोक्तरकालमध्यवसानमदोषं भवति । नहि ज्ञानावयवेन कृतस्ते ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते ॥ ७ ॥

१. 'मूर्खरक्तदुष्टादुष्टवचनं' इति वा पाठः । मूर्ख पुरुष के दोषयुक्त और निर्दोष वचन भी प्रमाण नहीं, अपवा मूर्ख, और ( रक ) देष्युक्त, ।

तीन प्रकार के ज्ञान-समुदाय से प्रथम रोग की परीक्षा करके सब प्रकार से और सारा देखकर पीछे से पूर्ण निश्चय करके चिकित्सा करना निर्दोष होता है। ज्ञान के एक अवयव को ज्ञान लेने से शेय अर्थात् ज्ञानने योग्य वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये वैद्य को चाहिये कि तीनों प्रमाणों से रोग का एक अंश में ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण रूप में जाने ॥७॥

त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदाये पूर्वमासोपदेशाज्ञानम् । ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपवद्यते । किं हनुपदिष्टे पूर्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षमाणो विद्यात् ? तस्मात् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं चेति, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥८॥

इस तीन प्रकार के ज्ञान समुदाय में सब से प्रथम 'आसोपदेश' से ज्ञान होता है। इसके पीछे प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा होती है। यदि पूर्व आसोपदेश न हो तो परीक्षा करता हुआ वैद्य प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या जानेगा ? कुछ भी नहीं। इसलिये आसोपदेश से प्राप्त ज्ञान वालों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है प्रत्यक्ष और अनुमान। अथवा आसोपदेश को मिला कर तीन प्रकार की है—प्रत्यक्ष, अनुमान और आसोपदेश ॥८॥

तत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः—रोगमेकैकमेव प्रकोपणमेवंयोनिमेव-  
मात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेदनमेवंसंस्थानमेवंबुद्धिस्थानक्षयसमन्वितमे-  
वमुदर्कमेवंनामानमेवंयोग विद्यात् । तस्मिन्त्रियं प्रतीकारार्थां प्रवृत्तिरथवा  
निवृत्तिरित्युपदेशाज्ञायते ॥ ९ ॥

आसोपदेश से एक रोग में ऐसे प्रकोप, ऐसी योनि ( प्रकृति वातादि की विषमता ), ऐसी उत्पत्ति, ऐसा स्वरूप, ऐसा अधिष्ठान ( मन और शरीर ), ऐसी देवना ( पीड़ा ), ऐसा संस्थान ( लक्षण ), ऐसे २ शब्द, स्वर्ण, रूप, रुद, गन्ध, ऐसा उपद्रव ( रोग के पीछे दूसरा होने वाला रोग ), ऐसी दोषों की बुद्धि, स्थान और क्षय, उदर्क ( उत्तर फल-साध्य-असाध्य ), इस प्रकार का नाम, ऐसा योग ये सब बातें बुद्धिमान् लोग उपदेश करते हैं, उनके उपदेश से जानना चाहिये। इस प्रकार की व्याख्या में इस प्रकार का प्रतिकार वा निकित्सा है, अथवा इस रोग में असाध्य होने से निवृत्ति ( चिकित्सा न करना ), ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति भी उपदेश से ही जानी जाती हैं ॥९॥

प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्त्वं बुभुत्सुः सर्वैरिन्द्रियैः सर्वानिन्द्रियार्थां-  
नासुर-शरीर-गतान्परीक्षेतान्यत्र रसज्ञानात् ; तद्यथा,—अन्त्रकूजनं संधि-  
स्फोटनमकुलीपर्वणां च स्वरविशेषा ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगताः

शब्दः स्युस्तान् श्रोत्रेण परीक्षेत् । वर्ण-संस्थान-प्रमाण-चक्रायाः शरीरप्रकृतिविकारौ चक्रवैषयिकाणि यानि चान्यानि तानि चक्रुषा परीक्षेत् ।

प्रत्यक्ष द्वारा रोग जानने की इच्छा से वैद्य रोगी मनुष्य की इन्द्रियों के द्वारा जानने वोण सब बातों की वह अपनी इन्द्रियों से परीक्षा करे केवल रस ज्ञान को छोड़कर । जैसे—आंतों के शब्द, अंगुली के पवर्णों की सन्धियों का चटकन, रोगी शरीर के भिन्न भिन्न स्वरों को, इनके अतिरिक्त रोगी के जन्य जो ( हिचकी, इवास आदि ) शब्द हों, उनकी श्रोत्र द्वारा परीक्षा करे । वर्ण, अंगों को बनावट, शरीर और अवयवों का माप ( छोटाई, बड़ाई, स्थूलता, कृशता ), छाया ( कान्ति ), शरीर के प्राकृतिक एवं वैकृतिक भावों ( परिवर्तनों ) को एवं चक्रु इन्द्रिय के ग्राह्य और जो यहाँ पर न कही बातें हो ( मळ, मूत्र आदि ), उनकी भी आंख से परीक्षा करनी चाहिये ।

रसं तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमव्यनुमानादवगच्छेत्, न हस्य प्रत्यक्षेण प्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रेत्तेनैवाऽतुरमुखरसं विष्णात्, युक्तपर्याप्तेन त्वस्य शरीरवैरम्यं, मञ्जिष्ठोपसर्पणेन शरीर-माधुर्यं, लोहितपित्तसर्पदेहे तु किं धारिलोहितं लोहितपित्तं वेति इवकाक-भक्षणाद्वारिलोहितमभक्षणाल्लोहितपित्तमित्यनुमातन्यं, एवमन्यात्प्यात् तुरशरीरगतान् रसाननुभिमीत । गन्धार्घत खलु मर्दशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैकारिकान् ग्राणेन परीक्षेत् । रसं च पाणिना प्रकृतिविकृति-युक्तम्—इति प्रत्यक्षतोऽनुमानेनकदेशतश्च परीक्षणमुक्तम् ॥१०॥

रोगी के शरीर के रस को, इन्द्रिय का विषय होने पर भी, अनुमान द्वारा ही जानना चाहिये । क्योंकि रोगी के शरीर के रस का प्रत्यक्ष द्वारा प्रहण नहीं हो सकता । बीमारी में मुख का स्वाद बदल जाता है, इसलिये रोगी से पूछकर ही उसके मुख का रस जानना चाहिये । यथा—शरीर पर जूँ आदि के चलने से शरीर में विरसता, शरीर पर मक्खी आदि के पास भिनकने से शरीर में मधुरता समझनी चाहिये । रक्तपित्त के सन्देह में यह रक्त शुद्ध ( शरीर को धारण करने वाला ) है या रक्तपित्त ( पित्त से दूषित रक्त ) का है तो यदि इस रक्त को कुचे, कौवे खा लें तो शुद्ध रक्त समझना चाहिये और यदि न खायें तो रक्तपित्त रोग से दूषित रक्त समझना चाहिये । इस प्रकार से रोगी के शरीर के अन्य रसों को भी अनुमान से जानना चाहिये । रोगी के सम्पूर्ण शरीर की प्राकृतिक एवं वैकृतिक गन्धों की परीक्षा ग्राणेन्द्रिय ( नासिका ) द्वारा करनी चाहिये । स्वर्ण, शीत, उष्ण, खर, चिकने आदि प्राकृतिक एवं वैकृतिक स्पर्शों

को हाथ के स्पर्श से जानना चाहिये । यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अनुमान से एक भाग से परीक्षा कह दी ॥१०॥

इमे तु खलबन्येऽप्येवमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भवन्ति भावाः ।  
तद्यथा, अग्निं जरणशक्त्या परीक्षेत, बलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीन् शब्दादिग्रहणेन, मनोऽर्थात्यभिचरणेन, विज्ञानं व्यवसायेन, रजः मङ्गेन, मोहमविज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहणे, शोकं दैन्येन, हर्षमामोदेन,  
प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, धैर्यमविषादेन, वीर्यमुत्थानेन, अवस्थान-मविभ्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेघां प्रटणेन, संज्ञां नानग्रहणेन, स्मृतिं स्मरणेन, हियमपत्रपणेन, शीलमनुशीलनेन, द्वेषं प्रतिषेदेन, उपधिमनु-बन्धेन, धृतिमलौभ्येन, वश्यतां विवेयतया, वयो-भक्ति-सात्म्य-व्याधि-स-मुत्थानाने काल-देशापश्य-वेदना-विशेषेण, गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानु-पश्यात्यया, दोषप्रमाणविशेषमपचारविशेषेण, आयुषः क्षयमरिष्टैः, उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्याणाभिनिवेशेन, अमलं सद्त्वमविकारेणेति । ग्रह-प्यास्तु मृदुदारुणत्वं स्वप्रदर्शनमभिप्रायं द्विष्टेष्टसुखदुःखानि चाऽनुभुरप-रिप्रभै नैव विद्याद्—इति ॥ ११ ॥

इसके अतिरिक्त ये निम्नलिखित बातें भी अनुमान द्वारा ही जानी जाती हैं ।  
जैसे—रोगी की परिपाक शक्ति को देखकर अग्नि ( जाठराग्नि ) को जाने ।  
व्यायाम शक्ति से रोगी का बल, शब्द आदि विषयों के ग्रहण से कान आदि  
इन्द्रियों को, मन को अवधारण शक्ति से, विज्ञान को उच्चोग से, संग  
( आसक्ति ) से रज को, अशान से मोह को, हिंसा प्रदृचि से क्रोध को,  
रोदन आदि से शोक को, गोत, वादित्र आदि से आनन्दको मुख की  
प्रस्त्रज्ञता आदि लक्षणों से मन की प्रीति को, मुख की मठिनता आदि से  
भय को, अविशाद से धैर्य ( विषयि में भी मन की स्थिरता ) को, उत्साह से  
वीर्य ( कार्य करने की शक्ति ) को, अप्राप्ति से स्थिरता को, अभिप्राय  
( प्रार्थना ) से अद्वा को, श्लोक आदि को कण्ठ करने से मेघा को, नाम लेकर  
चेतना को, स्मरण शक्ति से स्मृति को, लज्जा दिलाकर लज्जा को, निरन्तर शीळन  
से स्वभाव को, वस्तु के प्रतिषेद से उस वस्तु में द्वेष को, आगे के परिणाम से  
छह व्यवहार को, मन की अचपलता से संतोष को, वद्य को आङा मानने  
से रोगी की वश्यता को, काढ विशेष से आयु, देश से भक्ति  
( इच्छा ) को, ( जैसे—यह पंजाब का रहने वाला है इसकिये इसे गेहूँ में इच्छा  
रोगी, यह बंगाल का है इसकी चावड़ों में रसि होगी इत्यादि ), उपशय अर्थात्

अनुकूलता से सात्य को, वेदना-विशेष से व्याधि के समुत्थान को, उपशय ( शान्ति ) और अनुपशय ( निदान ) द्वारा गूदलिंग वाले रोग को, जिस रोगके लक्षण छिपे हों ( जैसे विद्रविधि और गुह्यम के मेद ), उपचार विशेष ( प्रकोपनके न्यूनाधिक होने से ) दोषों के प्रमाण विशेष ( न्यूनाधिक ) को अरिष्ट लक्षणोंसे, आयु के ब्यय को हितोपदेश से, निकटवर्ती आरोग्यता के लक्षणों को अविकार ( काम, क्रोधादि से रहित मानसिक विकारों ) से निर्भल चित्त को जाने ।

ग्रहणी ( अग्नि का स्थान, जठर ) के मृदु दाढ़ण मेद को रोगी के हित-अद्वित स्वप्न दर्शन से, भोजनादि में अधिप्राय ( इच्छा ) को, द्विष्ट, अग्रिय और इष्ट, प्रिय इनमें सुख और दुःख को रोगी के प्रश्नों से ही जान ले ॥ ११ ॥

**भवन्ति धात्र—आस्त्रोपदेशन प्रत्यक्षकरणेन च ।**

अनुमानेन च व्याधीन् सम्यग्विद्याद्विचक्षणः ॥ १२ ॥

सर्वथा सर्वमालोच्य यथा संभवमर्थविन् ।

अथाध्यवस्थेत्तत्वे च कार्ये च तदनन्तरम् ॥ १३ ॥

कार्यतत्त्वविशेषज्ञः प्रतिपत्तो न मुद्दति ।

अगृढः फलमाप्नोति यदमोहनिभित्तजम् ॥ १४ ॥

ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाऽऽविशति तत्त्वविन् ।

आतुरस्यान्तरात्मानं न स रांगाध्विकित्सति ॥ १५ ॥

चतुर व्यक्ति आसोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा रोगों की परीक्षा करे । अर्थवित् यथासम्भव सब रोगों की सब प्रकार से ( तीनों प्रकार से ) परीक्षा करके निष्पत्य करे, इसके पीछे चिकित्सा कार्य करे । कार्यतत्त्व को जाननेवाला भिषक् रोग के चिकित्सा-कार्य में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता । प्रमादरहित होकर ही मोह रहित होकर किये अनुष्ठान से उत्पन्न फल को मास करता है । जो योगवित् ( प्रयोगों को जानने वाला ) भिषक् ( वैद्य ) ज्ञान, बुद्धि रूपी प्रदीप की सहायता से रोगी के अन्दर तक नहीं पहुंचता ( रोगी की सम्पूर्ण बातों को नहीं जानता ), वह रोगोंकी चिकित्सा नहीं कर सकता ॥ १२-१५ ॥

**तत्र श्लोकौ—सर्वरोगविशेषाणां त्रिविर्ध ज्ञानसंग्रहम् ।**

यथा चोपदिशन्त्याप्ताः प्रत्यक्षं गृह्णते यथा ॥ १६ ॥

ये यथा चानुमानेन ज्ञेयास्ताश्राप्युदारधीः ।

भावाखिरोगविज्ञाने विमानं मुनिहक्कवान् ॥ १७ ॥

**उपसंहार—**सब रोगों का तीन प्रमाणों में संक्षेप, आसोपदेश द्वारा जो जो बातें जानी जाती हैं, प्रत्यक्ष द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और जो बातें अनु-

मान द्वारा जानी जाती हैं इन सब बातों का उदार बुद्धि भगवान् आत्रेय ने इस 'त्रिरोग विज्ञानीय' अध्याय में व्याख्यान कर दिया ॥ १६-१७ ॥

इत्यपिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने त्रिविषयो-  
विशेषविज्ञानीयविमानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातः स्रोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

जीवन के आधारभूत प्राणवद आदि स्रोतों के ज्ञान के लिये 'स्रोतोविमान' नाम अध्याय की व्याख्या करते हैं । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ १-२ ॥

यावन्तः पुरुषे मूर्तिभन्तो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसा प्रकारविशेषाः, सर्वभावा हि पुरुषे नान्तरेण स्रोतास्यभिनिर्वर्तम्भे क्षयं वाऽप्यभिगच्छन्ति । स्रोतासि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनाम-भिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन ॥ ३ ॥

इस पुरुष के शरीर में जितने प्रकार के मूर्तिरूप ( स्थूल ) भाव विशेष ( पदार्थ विशेष ) हैं, उतने ही इस शरीर में स्रोतों के प्रकार ( विशेष भेद ) हैं । पुरुष में सब भाव स्रोतों के बिना नहीं बढ़ते और न स्रोतों के बिना क्षय को प्राप्त होते हैं । ये स्रोत परिपाक हुए धातुओं को ( मल और प्रसाद रूप में ) ले जाने के लिये होते हैं ॥ ३ ॥

अपि चैके स्रोतसामेव समुदर्यं पुरुषभिगच्छन्ति, सर्वगतत्वात्सर्व-सरत्वाच दोषप्रकोपणप्रशमनानाम्, न त्वेतदेवम् । यस्य च हि स्रोतासि यज्ञ वहन्ति यज्ञावहन्ति यत्र चावस्थितानि, सर्वं तदन्यत्तेभ्यः ॥ ४ ॥

कुछ आचार्य स्रोतों के समुदाय को ही 'पुरुष' नाम देते हैं । क्योंकि स्रोत समूर्ण शरीर में व्याप्त हैं । दोषों के जो प्रकोपक ( अपद्य ) हैं और जो शमन ( पद्य ) हैं, वे सब स्रोतों द्वारा ही समूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं । परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है । क्योंकि जिसके स्रोत जिस वस्तु का वहन करते हैं, जिस प्रकार से अवहन करते हैं, शरीर के जिस प्रदेश में ये स्रोत स्थित हैं, यह सब इन स्रोतों से पृथक् हैं, वे स्रोत नहीं हैं । इस लिये पुरुष स्रोतों का समुदाय रूप नहीं है ॥ ४ ॥

अतिबहुत्वात् खलु केचिदपरिसंख्येयान्याचक्षते स्नोतांसि, परि-  
संख्येयानि पुनरन्ये ॥ ५ ॥

स्नोतों के बहुत अधिक होने से कुछ आचार्य इन स्नोतों को अर्धस्थ मानते हैं । दूसरे आचार्य इन को गणना के योग्य मानते हैं ॥ ५ ॥

तेषां तु खलु स्नोतसा यथास्थूलं कतिचित्प्रकारान्मूलतश्च प्रकोप-  
विज्ञानतश्चानुव्याख्यास्यामः, भविष्यन्त्यलमनुकार्यज्ञानाय ज्ञानवतां  
विज्ञानाय चाहानवताम् । तद्यथा- प्राणादकान्न-रस-खधिर-मौस-मेदास्थि-  
मज्ज-शुक्र-मूत्र-पुरीष-स्वेदवहानि, वातपित्तश्लेषणां पुनः सर्वशरारचरणां  
सर्वस्नातास्थयनभूतानि, तद्वदर्तान्द्रियाणां पुनः भृत्वादीनां केवलं चेत-  
नावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च । तदंतस्त्रातसां प्रकृतिभूतत्वान्न  
विकारैरूपसृज्यते शरारम् ॥ ६ ॥

इन स्नोतों में जो स्थूल ( गणना के योग्य ) हैं, उन के कुछ भेदों का मूल से, प्रकोप-विज्ञान ( और उपशमन ) से भी व्याख्या करेंगे स्नोतों की इतनी व्याख्या बुद्धिमान् शानवान् वैद्यो के लिये अनुक, सूक्ष्म स्नोतों का शान कराने और अशानी, अनुपात और युक्ति से हीन पुरुषों के लिये सामान्य रूप में स्नोतों का शान कराने के लिये पर्याप्त होती ।

यथा—प्राणवह, जलवह, अज्जवह, रसवह, दधिरवह, मांसवह, मेदवह,  
अस्थिवह, मज्जवह, शुक्रवह, मूत्रवह, पूरीषवह और स्वेदवह ये तेह ग्रन्थ के स्रोत हैं । वात, पित्त, कफ ये सम्पूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, इस लिये इन को ले जानेवाले सब स्रोत हैं । इक्षी ग्रन्थ के अन्तिमित्र ( इन्द्रियों से अशाल्य ) सत्त्व आदि ( मन आदि ) पदार्थों का चेतना युक्त यह सम्पूर्ण शरीर मार्गं तथा आध्र्य है । स्राव शरीर के धातुओं को ले जानेवाले हैं, इसलिये स्नोतों के प्रकृति में स्थित रहने से यह शरीर विकारो अर्थात् रोगों से आक्रान्त नहीं होता खातों के विकृत होने पर शरीर भी रोगों हो जाता है ॥ ६ ॥

तत्र प्राणवहानां स्नोतसा हृदयं मूलं महास्रातश्च, प्रदुष्टानां खल्वे-  
पायिदं विशेषविज्ञानं भवति, अतिसृष्टमतिथद्वं कुपितमल्पाल्पमभी-  
क्षणं वा सशब्दशूलमुच्छवसन्तं दप्त्रा प्राणवहान्यस्य स्नातांसि प्रदुष्टा-  
नीति विद्यात् ॥ ७ ॥

इन से प्राणवह स्नोतों का मूल ( प्रभाव स्थान ) हृदय और महा स्रात ( कोष्ठ भी ) है । इन प्राणवह स्नोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । जैसे—प्राण का अतिरिक्त ( प्रश्वास का दीर्घ होना ), अतिवद ( रुक रुक कर श्वास का

चलना), प्रकृपित (बहुत तेजी से चलना), थोड़ा योड़ा चलना, अभीक्षण (बार-बार एक बक कर आना), शब्दशूल अर्थात् वेदनायुक्त शब्द के साथ, इवास लेते हुए रोगी को देखकर प्राणवह-स्रोत हुए हैं यह समझना चाहिये ॥७॥

उदकवहाना स्रोतसां तालुमूर्लं क्लोम च । प्रदुष्टानां खल्वेषामिदं  
विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—जिह्वा-ताल्बोष्ट-कण्ठ-क्लोम-शोर्पं पिपासा  
चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वा भिषगुदकवहान्यस्य स्रोतसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥८॥

उदकवह स्रोतों का मूल तालु और क्लोम ( पित्ताशय ) है । इन उदक-  
वह स्रोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । यथा—जिह्वा, तालु, ओष्ट, कण्ठ  
क्लोम का सख्त जाना, प्यास का बहुत अधिक लगना ये लक्षण देखकर उदक-  
वह-स्रोत विकृत हुए हैं यह समझना चाहिये ॥८॥

अन्नवहाना स्रोतसामामाशयो मूलं वासं च पार्श्वम् । प्रदुष्टानां तु  
खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अनन्ताभिलिषणमरोचका-  
विपाकौ छार्दि च दृष्ट्वाऽन्नवहानि स्रोतसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ९ ॥

अन्नवह स्रोतों का मूल आमाशय और वाम पार्श्व है । इन के दुष्ट होने पर  
ये लक्षण होते हैं । यथा—अन्न की रचि का न होना, अरचि, अशिपाक, वमन ।  
इन लक्षणों को देखकर अन्नवह स्रोत विकृत हुए यह समझना चाहिये ॥ ९ ॥

रसवहाना स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः । शोणितवहानां  
स्रोतसां यकृन्मूलं सीहा च । मांसवहानां च स्रोतसां स्नायु मूलं त्वक्च  
मेदोवहानां स्रोतसा वृक्षो मूलं वपावहनं च । अस्थिवहानां स्रोतसां  
मेदो मूलं जघनं च । मज्जावहानां स्रोतसामस्थीनि मूलं संधयश्च ।  
शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणो मूलं शेफश्च । प्रदुष्टानां तु खल्वेषां रसा-  
दिस्रोतसां विज्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीतीयेऽध्याये । यान्येव हि  
धातूना प्रदोषविज्ञानानां तान्येव यथास्वं धातुस्रोतसाम् ॥ १० ॥

रसवह स्रोतों का मूल हृदय और हृदय से सम्बद्ध दस धमनियां  
हैं । शोणित ( रक्त ) वह स्रोतों का मूल यकृत् और सीहा है ।  
मांसवह स्रोतों का मूल स्नायु और त्वचा है । मेदोवह स्रोतों का मूल दो  
वृक्ष ( दो मांसपिण्ड एक दक्षिण पार्श्व में स्थित और दूसरा वाम पार्श्व में

१. क्लोम की सुश्रुत में ‘पिपासा-स्थान’ माना है । क्लोम का स्थान गले में  
जरा नीचे की ओर दक्षिण पार्श्व में माना है । जिसको आज कल ‘तिलक’ या  
( कण्ठकूप ) कहते हैं । वैद्य श्री हरिप्रपन ने ‘क्लोम याथातस्यम्’ नाम एक  
पुस्तक लिखी है उस में पित्ताशय को यह नाम दिया है ।

वृक ) और घपावह है । अस्थिवह स्रोतों का मूल मेद और जघन है । मजावह स्रोतों का मूल अस्थियाँ और सन्धियाँ हैं । शुक्रवह स्रोतों का मूल दोनों अण्डकोश और लिङ्ग-इन्द्रिय हैं । विविधाग्नितपीतीय अस्थाय में रसादि घातुओं के दुष्ट होने से उत्पन्न होने वाले रोगों को कह दिया है । ये ही इन रसवद के दुष्ट होने के लक्षण हैं । जो दूषित दुष्ट घातुओं के लक्षण हैं वे ही दुष्ट दुष्ट घातुवह स्रोतों के भी लक्षण होते हैं ॥१०॥

मूत्रवहाना स्रोतसा बस्तिमूलं वड्डमणो च । खल्वेषामिदं विशेष-  
विज्ञानं भवति । तद्यथा अतिसृष्टमतिवदं कृपितमल्पाल्पमभीक्षणं वा  
बहुलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा । मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुषानीति  
विद्यात् ॥ ११ ॥

मूत्रवह स्रोतों का मूल बस्ति ( मत्राशय ) और वंकण ( वृक ) हैं । इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं । जैसे—मूत्र का आंधक आना, एक २ कर आना, बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना, मात्रा में अधिक ( गाढ़ा ), दर्द आना, देल करके बाहर आना, योद्धा योद्धा आना, मात्रा में अधिक ( गाढ़ा ), दर्द आना, देल करके बाहर आना, ये लक्षण देखकर मूत्रवह स्रोत दुष्ट दुष्ट समझने चाहिये ॥११॥

पुरीषवहानां स्रोतसा पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदश्च । प्रदुषाना-  
खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—कृच्छ्रूणाल्पाल्पं सशूलं-  
मतिद्रवं कृपितमतिग्रथितमतिवद्यु लोपवशन्तं दृष्ट्वा पुरीषवहाण्यस्य  
स्रोतांसि प्रदुषानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

पुरीषवह स्रोतों का मूल पक्वाशय, स्थूलांत्र और गुदा है । इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं । तथा—कठिनाई से थोड़ा थोड़ा, शब्द और वेदना के साथ, बहुत पतला ( पानी जैसा ), बहुत कठिन, मात्रा में मल का बहुत अधिक आना, इन लक्षणों को देखकर पुरीषवह-स्रोत दुष्ट होते हैं वह समझना चाहिये ॥ १२ ॥

स्वेदवहानां स्रोतसा मेदो मूलं रोमकूपाश्च । प्रदुषाना खल्वेषा-  
मिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुण्यमति-  
श्लक्षणतामङ्गस्य परिहाहं लोमदर्ढं च दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि  
प्रदुषानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

स्वेदवह स्रोतों का मूल मेद और लोमकूप हैं । इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं । जैसे—परीने का न आना या बहुत आना, त्वचा में कठोरता या बहुत चिकात, अङ्गों में दाह और शरीर में रोमांच होना । इन लक्षणों को देखकर स्वेदवह-स्रोत दुष्ट होते हैं यह समझना चाहिये ॥ १३ ॥

स्रोतासि सिरा धमन्धो रसायन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्थानो  
मार्गः शरीरच्छद्राणि संयुतासंयुतानि स्थानान्याशयाः क्षया निकेता-  
श्रेति शरारधात्ववकाशानां लह्यालह्यागां नामानि भवन्ति ॥ १४ ॥

स्रोतों के पर्याय—स्रात, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड्य, पन्था  
मार्ग, शरीरच्छद्र, संयुत-असंयुत, स्थान, आशय, क्षय और निकेत ये शरीर के  
धातुओं को ले जाने के लिये जा आख से दीखने या न दीखने योग्य लेद हैं  
उन स्रोतों के नाम हैं । १४ ॥

तेषां प्रकोपात्स्थानस्थाश्रैव मार्गाश्रैव शरीरधात्रः प्रकोपमाप-  
द्यन्ते । इतरेषां च प्रकोपादितराणि । स्रोतासि स्रोतास्येव धोतवश्च  
धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः; तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेषमाणो दूषयि-  
तारो भवन्ति, दोषस्त्वभावादिति ॥ १५ ॥

इन स्रोतों ( छिद्रों ) के प्रकुपित होने से आशय में हित, मार्ग में स्रोतों  
से जाने वाले शरीर के धातु भी प्रकुपित हो जाते हैं । दूसरों के प्रकोप से और भ  
( स्रोतस्, वातादि दोष ) कुपित होकर दुष्ट दुष्ट स्रोत अन्य स्रोतों को दूषित  
कर देते हैं । दुष्ट दुष्ट धातु सब धातुओं को दूषित कर देते हैं । सब स्रोतों तथा  
धातुओं को दूषित करने वाले वात, पित्त, कफ ही होते हैं । क्योंकि दोष स्वभाव  
होने से अर्थात् दूषित करना हा इनका स्वभाव है ॥ १५ ॥

**भवन्ति चात्र—क्षयात्संघारणाद्रौक्याद् व्यायामात्कुधितस्य च ।**

प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतास्यन्यैश्च दारुणः ॥ १६ ॥

ओष्ययादमाद्यात्पानानादतिशुक्कान्तसेवनात् ।

अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति वृष्णायाश्वातिपीडनात् ॥ १७ ॥

अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् ।

अन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात्पावकस्य च ॥ १८ ॥

गुरुशीतमर्तिस्नग्धमरिमात्रं समश्नताम् ।

रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात् ॥ १९ ॥

विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्यानि द्रवाणि च ।

रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजता चाऽस्तपानलौ ॥ २० ॥

अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च ।

मासवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपत्ता दिवा ॥ २१ ॥

अव्यायामादिवास्वप्नान्मेष्यानां चातिभक्षणात् ।

मेदोवाहीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्वातिसेवनात् ॥ २२ ॥

व्यायामादतिसंक्षेपादरथनामतिविघट्नात् ।  
 अस्थिवाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् ॥ २३ ॥  
 उत्पेषादत्यभिधन्दादभिधातप्रपीडनात् ।  
 मज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् ॥ २४ ॥  
 अकालयोनिगमनान्निप्रहादतिमधुनात् ।  
 शक्वाहीनि दुष्यन्ति शक्वशाराग्निभिस्तथा ॥ २५ ॥  
 मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्थाभिक्षतत्य च ॥ २६ ॥  
 निधारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तथा ।  
 वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च ॥ २७ ॥  
 व्यायामादतिसंवापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् ।  
 स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा ॥ २८ ॥

प्रकृपित होने के कारण—आतु-खय से, उपस्थित वेगों को रोकने से, रुक्ता से, भूख लगो होने पर व्यायाम करने से और अन्य कठिन कार्यों से प्राणवाही स्रोत कुपित होते हैं ।

गरमी से, आम-दोष से, भय से, बहुत पानी पीने से, शुष्क अल (चने आदि) के अधिक सेवन से और व्याप को ज़बर्दस्ती रोकने से उदकवाही स्रोत कुपित होते हैं ।

मात्रा का अतिकमण करके भोजन करने से, अप्राप्त या अतीत काल में भोजन करने से, अवश्य भोजन के सेवन से और जाठराग्नि के मन्द होने से अचबह स्रोत कुपित होते हैं ।

गुरु, शीत, अतिस्तिंश्च पदार्थों के बहुत अकिञ्च सेवन करने से, चिन्ता करने योग्य वस्तुओं को बहुत अधिक चिन्ता करने से रसशाही स्रोत दूषित होते हैं ।

जलन पैदा करने वाले, टिनग्ध, गरम और तरल खान-पान के सेवन और धूप और वायु का सेवन करनेवाले पुरुषों के रक्तवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

दोष, धातु, मल और स्रोतों में कफ बढ़ाने वाले, स्थूल और गुरु (मारी) पदार्थ खाकर दिन में सोनेवालों के मांसवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

व्यायाम के न करने से, दिन में सोने से, चर्बी वाले पशुओं के मांस (मुअर का मांस) के अधिन सेवन से, मद्य के अधिक पीने से मेदोवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

अधिक व्यायाम से, अति संक्षेप से, चोट आदि से, अस्थियों के अधिक

स्त्राने ( मोडने माडने से ) से, वायु वर्धक स्त्रान-पान के सेवन से अदिष्टवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

उत्पेषण ( पीषने ) से, अमिष्यन्दी पदार्थों के अतिसेवन से, चोट से, दण्डे की चोट से तथा विरोधी अन्न-पान के सेवन से मज्जावाही स्रोत दूषित होते हैं ।

अकाल ( निषिद्ध तिथियों में श्रूतुमती आदि से ) सम्मोग करने से, अयोनि ( निषिद्ध योनि ) में सम्मोग करने से, उपस्थित शुक्र के वेग को रोकने से, अतिमैयुन से, शृङ्ख, शार और अग्नि से शुक्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं ।

उपस्थित मूत्र-वेग के समय यानी, भोजन या रूपी का सेवन करने से, क्षीण और अतिकृश व्यक्ति के मूत्रवेग को रोकने से मूत्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं ।

मठ के उपस्थित वेग को रोकने से, मन्दाग्नि और निर्बल पुरुष के अतिभोजन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, अध्यशन से भलवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

ब्यायाम से, अति संक्षोभ से, शीत और उष्ण को विना क्रम के सेवन करने से, कोघ, शोफ एवं भय से स्वेदवाही स्रोत दूषित होते हैं ॥ १६-२८ ॥

आहारश्च विहारश्च यः स्याद्दोषगुणैः समः ।

धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूशकः ॥ २९ ॥

जो आहार विहार और कर्म वातादि दोषों के पृथक् अथवा समष्टि रूप में गुणों के समान होता है, वह समान गुण के कारण इन को बढ़ाता है और जो धातुओं से विपरीत गुणवाला हो वह आहार-विहार स्रोतों को दूषित करता है ॥ २६ ॥

अतिग्रवृत्तिः सङ्घो वा सिराणां ग्रन्थयोऽपि वा ।

विमार्गगमनं वापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ॥ ३० ॥

स्रोतों के दूषित होने के सामान्य लक्षण—स्रोतों से रस आदि की अधिक प्रवृत्ति अर्थात् अधिक निकलना अथवा एकदम से रुक्ष जाना, सिराओं में गांठ पड़ जाना, विमार्ग अर्थात् विपरीत, उल्टे भाग से जाने लगना, ये सब स्रोतों के दूषित होने के सामान्य लक्षण हैं ॥ ३० ॥

स्वधातसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च ।

स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च ॥ ३१ ॥

स्रोतों के प्रकृतिसिद्ध रूप—अपने धातु के समान रंग वाले ( रक्तवाही स्रोत रस के समान और मांसवाही स्रोत मांस के समान ), वृद्ध ( गोड़ ),

स्थूल और अणु ( सूक्ष्म ), दीर्घ और लंता के समान फैले ( कोई गोल, कोई छड़े, कोई स्थूल और कोई सूक्ष्म ) होते हैं ॥ ३१ ॥

प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी किया ।

कार्या तृष्णोपशमनी तथैवाऽमप्रदोषिकी ॥ ३२ ॥

विविधाशितपीतीये रसादीनां यदीषधम् ।

रसादिस्तोतसां कुर्यात्तद्यथास्वगुपकमम् ॥ ३३ ॥

मूत्रं विट्स्वेद-वाहानां चिकित्सा भौत्रङ्गच्छकी ।

तथाऽतिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी ॥ ३४ ॥ इति ।

प्राण, उदक और अन्नवाही स्रोतों के दुष्ट होने पर कम से श्वासिकी ( अर्थात् टिका कास रोग में ही ), श्वास का सुधारने वाली, तृष्णा-रोग नाशक और आम-दोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । प्राणवाही स्रोतों में श्वासिकी उदकवाही में तृष्णाशमन और अन्नवाही में आम-प्रदोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । ‘विविधाशितपीतीय’ अध्याय में रस से लेकर जुक तक दूषित धातुओं की जो चिकित्सा कही है, वही रसवह आदि दुष्ट स्रोतों की भी समझनी चाहिये । उनकी उसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये । मूत्रवाही, मलवाही और स्वेदवाही स्रोतों के दूषित होने पर कमशः मूत्रकुच्छ रोग की, अतिशार रोग की तथा ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३२-३४ ॥

तत्र स्रोताः—त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ।

सामान्यं नाम पर्यायाः कोपनानि परस्परम् ॥ ३५ ॥

दोषहेतुः पृथक्त्वेन भेषजोदेश दव च ।

स्रोतोविमाने निर्दिष्टस्तथा चाऽदौ विनिश्चयः ॥ ३६ ॥

केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः ।

शारीराः सर्वरोगाश्च स कर्मसु न मुहूर्ति ॥ ३७ ॥

तेरह प्रकार के स्रोतों के मूल, प्रत्येक के दूषित लक्षण, सब स्रोतों के सामान्य दूषित लक्षण, नाम, पर्याय, परस्पर कोपन, दोष का कारण, पृथक् २ औषध और उपक्रम ये सब बातें इस स्रोतोविमान अध्याय में भगवान् आत्रेय ने कह दी हैं । जो भिषक् सम्पूर्ण शरीर के स्रोतों आदि को भली प्रकार जानता है और जिस को शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के रोग जात हैं, वह चिकित्सा में कभी मोह की प्राप्त नहीं होता ॥ ३५-३७ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते त्रुतीये विमानस्थाने

स्रोतोविमानं नाम पञ्चमोऽर्थायाः ॥ ५ ॥

### षष्ठोऽध्यायः ।

अथातो रोगानीकं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह सप्तश्च भगवानात्रेनायः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'रोगानीक' नामक विमान का व्याख्यान करेंगे । जैसा भगवान् श्वाचेव ने कहा था ॥२॥

द्वे रोगानीके भवतः प्रभावभेदेन साध्यं चासाध्यं च, द्वे रोगानीके बलभेदेन मृदु च दारुणं च, द्वे रोगानीकेऽधिष्ठानभेदेन—मनोऽधिष्ठानं शरीराधिष्ठानं च, द्वे रोगानी के निमित्तभेदेन स्वधातुवेष्यनिमित्तं चाऽऽग्नन्तुनिमित्तं च, द्वे रोगानीके आशयभेदेन—आमाशयसमुत्थं च पकाशयसमुत्थं च । एवमेतत्प्रभाव-बलाधिष्ठान-निमित्ताशय-भेदाद् द्वैधं सद्ग्रेदप्रकृत्यन्तरेण भिद्यमानमथवा संधीयमानं स्यादेकत्वं वा बहुत्वं वा । एकत्वं तावदेकमेव रोगानीकं दुःखसामान्यात्, बहुत्वं तु दश रोगानीकानि प्रभावभेदादिना भवन्ति । बहुत्वमपि संख्येयं स्यादसंख्येयं वा स्यात् । तत्र संख्येयं तावद्यथोक्तमष्टोदरीये । अपरिसंख्येयं पुनर्यथा महारोगाध्याये, द्वर्वर्णसमुस्थानादीनामसंख्येयत्वात् ॥ २ ॥

प्रभाव के मेद से रोगों के समूह दो प्रकार के हैं, ( १ ) साध्य और ( २ ) असाध्य । बल के मेद से रोग समूह दो प्रकार के हैं ( १ ) मृदु ( अल्पबल ) और ( २ ) दारुण ( महाबल ) । अधिष्ठान अर्थात् आश्रय के मेद से रोग दो प्रकार के हैं ( १ ) मानस, मन जिनका अधिष्ठान है और शारीरिक जिनका शरोर अधिष्ठान है । कारण के मेद से रोग दो प्रकार के हैं, ( १ ) धातुओं ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता से होने वाले और ( २ ) आगन्तुक कारण से होने वाले । आमाशय के मेद से रोग दो प्रकार के हैं । ( १ ) आमाशय से उत्पन्न होने वाले और ( २ ) पकाशय से उत्पन्न होने वाले । ( आमाशय रित्त और कफ का स्थान है और पकाशय वायु का स्थान है । ) इस प्रकार प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और आशय के मेद से रोग दो प्रकार के होने पर भी प्रकृति आदि मेदों के कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं । रोग का रूप एक प्रकार का ही है । रुजा, दुःख, पीड़ा यह सब प्रकार के रोगों में सामान्य धर्म है । रोग बहुत है, क्योंकि प्रभाव, बल आदि के मेद से रोग बहुत प्रकार के हो जाते हैं । यह बहुत होता भी हो प्रकार का है । संख्येय अर्थात् गिनने के योग्य एवं असंख्येय अर्थात् गणना के अयोग्य । गिनने के योग्य जैसे अष्टोदरीय रोगाध्याय में

रोगों की गणना की है। असंख्य जैसे महारोगाध्याय में इक्, वर्ण समुत्थान आदि के कारण असंख्य हो जाते हैं ॥३॥

नच संख्येयामेषु भेदप्रकृत्यन्तरीयेषु विगीतिरित्यतो दोषवती स्यादत्र काचित्प्रतिज्ञा, न चाविगीतिरित्यतः स्याददोषवती । भेत्ता हि भेद्यमन्यथा भिन्नति, अन्यथा पुरुषस्तावद्विन्नं भेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नन् भेदसंख्याविशेषमापादयत्यनेकधा, नच पूर्वं भेदाप्रमुपहन्ति । समानायामपि खलु भेदप्रकृतौ प्रकृतानुप्रयोगान्तरमपेक्ष्यम् । सन्ति इर्थान्तराणि समानशब्दाभिहितानि । सन्ति चानर्थान्तराणि पर्यायशब्दाभिहितानि । समानो हि रोगशब्दो दोषेषु च व्याधिषु च, दोषा ह्यपि रोगशब्दमातक्षुशब्दं यक्षमशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते । व्याधयश्च रोगशब्दमातक्षुशब्दं यक्षमशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते । तत्र दोषेषु चैव व्याधिषु च रोगशब्दः समानः, शेषेषु तु विशेषवान् ॥४॥

तत्र व्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्ति, अतिव्युत्त्वात् । दोषास्तु खलु परिसंख्येयाः, अनतिव्युत्त्वात् । तस्माद्यथाचित्रं विकारा उदाहरणार्थं मनवशेषेण च दोषा व्याख्यास्यन्ते ।

एक ही रोग में संख्येयत्व और असंख्येयत्व ये दोनों विश्व बातें किस प्रकार हो सकती हैं ? प्रकृति भेद के कारण ( ज्वर, अतिसार आदि भेद से ) गिने जाने योग्य रोगों में एक और अनेक भेद का कथन परस्पर विश्व दोषयुक्त नहीं है । यदि ऐसा विपरीत भाव न हो तो इतने से कोई कथन दोषरहित भी नहीं होता ।

भेद दशने वाला पुरुष भेद्य रोग के अन्य रूप से भेद करता है । पहिले अन्य प्रकार ( एक दूसरे ही रूप से ) से भेद किये होते हैं । पहिले एक ही भेद-प्रकृति से एक रूप से विपक्ष किये हुए रोग को पीछे प्रकृतिभेद से विभाग करके अनेक ( असंख्य ) भेद कर लेता है । इस प्रकार असंख्य भेद करने पर भी वह प्रथम किये हुए मेरी का लोप नहीं करता, वह तो बने ही रहते हैं ।

भेद-प्रकृति में समान होने पर भी प्रकृत अर्थात् समान शब्द से कहने के बाद अन्य रूप से वर्णन करना भी अपेक्षित है । इयोंकि समान शब्द से कहने के जाने वाले भी अनेक पदार्थ हैं और नाना पर्याय शब्दों से कहे जाने वाले एक एक पदार्थ भी अनेक हैं । अर्थात् एक शब्द अनेकार्थाचक है, और भिन्न भिन्न शब्द एक ही अर्थ को कहते हैं । जैसे—रोग शब्द व्याधि और दोष के किये प्रयुक्त होता है । दोषों को रोग, आतंक, यक्ष, दोष, प्रकृति, विकार आदि

शब्दों से कहा जाता है। व्याधियां भी रोग, आतंक, यक्षम, दोष-प्रकृति और विकार शब्दों से कही जाती हैं। इस प्रकार से दोषों और व्याधियों में रोग-शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। शेष ज्वरादि में विशेष अर्थ को कहता है। इनमें व्याधियां अतंत्य हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक हैं। दोष परिचलनेय (गणना के योग्य परिमित) हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक नहीं हैं। इसलिये रोग के असंख्य होने से, उदाहरण के लिये कुछ योड़े से विकारों को सम्पूर्ण रूप में और गिनने के योग्य होने से दोषों को सम्पूर्ण रूप से कहेंगे ॥ ४ ॥

रजस्तमश्च मानसो दोषोः । तथोविकाराः काम-क्रोध-लोभ-मोहर्घ्या-  
मान-मद्-शोक-चिन्ताद्वे-ग-भय-हर्षादयः । वातपित्तश्चेष्माणस्तु खलशारी-  
रा दोषाः, तेषामपि च विकारा ज्वरातीसार-शोथ-श्वास-मेह-कुष्ठा-  
दय इति । दोषाश्च केवला व्याख्याताः, विकारैकदेशश्च ॥ ५ ॥

रज और तम ये दो मानस दोष हैं। इन रज और तम के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्घ्या, मान, मद, शोक, चिन्ता, उद्वेग, भय हर्ष अतिसार शोथ, शोष, मेह, कुष्ठ आदि हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण रूप में और विकार एकांश में कह दिये हैं ॥ ५ ॥

तत्र तु खलवेषां द्युयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणम्; तद्यथा—  
असाम्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रशापराधः, परिणामश्चेति । प्रकुपितास्तु खलु  
प्रकोपणविशेषाद् हृश्यविशेषाच्च विकारविशेषानभिनिर्वर्तयन्त्यपरिसंख्ये-  
यान् । ते विकाराः परस्परमनुवर्तमानाः कदाचिदनुबन्धनन्ति कामादयो  
ज्वरादयश्च । नियतस्वनुवन्धो रजस्तमसोः परस्परम् । न द्वारजस्कं  
तमः प्रवर्तते ॥ ६ ॥

इन दोनों प्रकार के (मानसिक और शारीरिक) दोषों के कुपित होने के कारण तीन प्रकार के हैं। (१) असाम्येन्द्रियार्थ-संयोग (२) प्रशापराध और (३) परिणाम। ये कुपित हुए दोष प्रकोपन मेद से, और दूष्य (शरीर के धातुओं) के मेद से असंख्य रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये उत्पन्न होकर कभी परस्पर एक दूसरे विकारों से मिल जाते हैं (शारीरिक रोग मानसिक रोगों से और मानसिक विकार शारीरिक विकारों से)। जैसे काम आदि मानसिक विकार, ज्वर आदि शारीरिक विकारों से मिल जाते हैं।

रज और तम का परस्पर सम्बन्ध नियत (सदा स्थिर) बना रहता है। क्योंकि तम रज के बिना नहीं रह सकता, किन्तु सदा रज के साथ मिला रहता है ॥ ६ ॥

प्रायः शारीरदोषाणामेकाविष्टानीयानां संनिपातः संसर्गो वा  
समानगुणत्वात् । दोषा हि दूषणैः समानाः ॥ ७ ॥

ग्रावः वात आदि शारीरिक दोषों के एक स्थान में रहने से परस्पर मेल हो जाता है। तीनों दोषों के मिलने से सन्निपात और दो दोषों के मिलने से संसर्ग होता है। कारण की भिन्नता होने पर भी इन में जो परस्पर संसर्ग होता है वह इसलिये होता है कि दोष दूषित करने वाले कारणों के समान गुण वाले हैं। अर्थात् दोषों में दूषित करने वाले कारणों के समान गुण हैं ॥ ७ ॥

तत्रानुबन्ध्यानुबन्धविशेषः—स्वतन्त्रो न्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमुत्थान-प्रशमो भवत्यनुबन्धः, तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः । १ अनुबन्ध्य- ( अनुबन्ध ) लक्षणसमन्वितासतत्र यदि दोषा भवन्ति तत् त्रिकं संनिपातमाचक्षते, द्वयं वा संसर्गम् । अनुबन्ध-२ विशेषकृतस्तु वहुविधो दोषभेदः । एवमेष संज्ञाप्रकृतो विषजां दोषेषु चैव व्याधिषु च नाना-प्रकृतिविशेषव्यूहः ॥ ८ ॥

अधिष्ठान ( आश्रय ) और निशान की समानता होने पर भी अनुबन्ध और अनुबन्ध के कारण इन में भेद होता है।

अनुबन्ध का लक्षण—जो स्वतन्त्र ( स्वतः प्रशान ), स्वष्ट लक्षणोचाला, अपने ही कारण से उत्पन्न होने वाला तथा अग्रनी हो विकितिता से शान्त होने वाला हो, उसको अनुबन्ध कहते हैं। इस के विपरीत लक्षणोचाला ( परतंत्र, अस्थ विह, पृथक् निदान एवं विकितिता वाला ) अनुबन्ध होता है। यदि अनुबन्ध के रूप से तीनों दोष मिले हों तो इसे सन्निपात और दो दोष मिले हों तो इस को 'संसर्ग' कहते हैं। अनुबन्ध के रूप में मिले हुए दोषों के बहुत भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से दोषों में ( अनुबन्ध और अनुबन्ध के भेद से ) और रोगों से ( प्रकोपन आदि के भेद से ) वैद्योने ( सन्निपात, संसर्गादि से ज्वर अतिवार आदि ) नाना प्रकार की संज्ञाएं की हैं ॥ ८ ॥

अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो बलभेदेन भवति । तद्यथा—तीक्ष्णो मन्दः समा विषम इति । तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसहः तद्विपरीतलक्षणो मन्दः । समस्तु खब्बपचारतो विक्रितिमापयतेऽनपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषमः । इत्येते चतुर्विधा भवन्त्यमयश्चतुर्विधानामेव पुरुषाणाम् ॥ ९ ॥

बल के भेद के कारण शारीरस्थ अग्नि चार प्रकार का है। जैसे—तीक्ष्ण मन्द, सम और विषम। इन में तीक्ष्ण अग्नि सब प्रकार के अरचारों को सहन करता है। वह विषम आहार को भी शोष जोर्ण कर देता है। तीक्ष्ण अग्नि से विपरीत लक्षणों वाले अग्नि को मन्द-अग्नि कहते हैं। सम अग्नि यथासमय

१ 'अनुबन्ध लक्षण सम'०, २. 'अनुबन्ध्यानुबन्धविशेष०' इति च पाठ मेदौ ।

मुक्त अन्न को भूमि प्रकार पचाता है। यह अग्नि अपचार से विकृति को प्राप्त होता है। अनपचार से प्रकृति में ही रहता है। सम अग्नि के विपरीत उष्णों वाले अग्नि को 'विषम' अग्नि कहते हैं ॥ ६ ॥

तत्र समवातपित्तश्लेष्माणं प्रकृतिश्थानीं समा भवन्त्यग्नयः, वातलानीं तु वाताभिभूतेऽन्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः, पित्तलानीं तु पित्ताभिभूतेऽन्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यग्नयः, श्लेष्मलानीं तु श्लेष्मा-भिभूते ह्यान्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नयः ॥ १० ॥

ये चार प्रकार के अग्नि चार प्रकार के पुरुषों में होते हैं। जैसे—सम-वात पित्त-कफ-प्रकृति-वाले पुरुषों में दोषों के समानावस्था में स्थित होने से अग्नि भी सम रहता है। वातप्रकृति वाले पुरुषों में अग्नि के आश्रय स्थान ( ग्रहणी ) के वायु से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी विषम रहता है। पित्तप्रकृति के पुरुषों में अग्नि के अधिष्ठान ( ग्रहणी ) के पित्त से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी तीक्ष्ण रहता है। कफप्रकृति के पुरुषों में अग्नि के आश्रय स्थान ( ग्रहणी ) के कफ से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी मनद रहता है ॥ १० ॥

तत्र केचिदाहुः—न समवातपित्तश्लेष्माणो जन्तवः सन्ति, विप-माहारोपयोगित्वान्मनुष्याणाम्। तस्माच्च वातप्रकृतयः केचित् केचित्पि-त्तप्रकृतयः, केचिःपुनः श्लेष्मप्रकृतयो भवन्तीति ।

इस पर कुछ आचारों का कथन है कि समवात-पित्त-कफ प्रकृति वाले पुरुष नहीं होते। क्योंकि मनुष्यों का आहार विषम होता है। गर्भ में ही प्रकृति बनती है। इसलिये ( माता के आहार की विषमता से भी ) कोई वात-प्रकृति, कोई पित्तप्रकृति और कोई कफप्रकृति होते हैं ।

तत्त्वानुपपत्रम्। कर्स्मात्कारणात् ? समवातपित्तश्लेष्माणं ह्यरोगमि-च्छन्ति भिषजः । यतः प्रकृतिश्वाऽरोग्यं, आरोग्यार्थी च भेषजप्रवृत्तिः, सा चेष्टरूपा, तस्मात्सन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः । न तु खलु सन्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः श्लेष्मप्रकृतयो वा । तस्य तस्य किञ्च दोष-स्य ह्यादिकभावात्सा सा दोषप्रकृतिरूच्यते मनुष्याणाम् । न च विकृते षु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वमुपपद्यते । तस्मान्तेः प्रकृतयः सन्ति । सन्ति तु खलु वातलाः पित्तलाः श्लेष्मलाश्च । अप्रकृतिस्थास्तु ते ज्ञेयाः ॥ ११ ॥

उनका ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वैद्य लोग वात, पित्त, कफ इन तीनों की समान अवस्था वाले को ही नीरोग ( रोग-रहित ) कहते हैं और उसी को प्रकृति मानते हैं। रोगों से रहित रहने के लिये ही औषध की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति है और यह सब को हृष्ट है। यह अभिवाच्चित अर्थ ही प्रवृत्ति में

हेतु है। इसलिये समान-वात-पित्त-कफ प्रकृति के भी मनुष्य होते हैं। परन्तु वातप्रकृति, पित्तप्रकृति, और कफप्रकृति के मनुष्य नहीं होते हैं। उल उस दोष की अधिकता से मनुष्यों की २-वह दोष-प्रकृति कही जाती है। विकृत (विषम) हुए दोषों को 'प्रकृति' नहीं कहा जा सकता, (क्योंकि दोषों की समान अवस्था का नाम 'प्रकृति' है)। इसलिये वातप्रकृति आदि प्रकृतियां नहीं हैं। हाँ, वातल, पित्तल, और श्लेष्मल (वात-बहुल, पित्त-बहुल, श्लेष्म-बहुल) मनुष्य हैं। इन को 'अप्रकृतिस्थ' (प्रकृति में न रहने वाले) समझना चाहिये, ये 'विकृतिस्थ' हैं ॥ ११ ॥

तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां च वार्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि । तत्र समसर्वधातूनां सर्वाकारसमयं अधिकदोषाणां तु ग्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यमभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगीनि व्रीण्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावदग्रेः समीभावान्, समेतु सममेव कार्यम्, एवं चेष्टा भेषजप्रयोगाश्चापरे, तान् विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥ १२ ॥

इन चार प्रकार के (सम प्रकृति, वात, पित्त, कफ एवं तीक्ष्ण, मन्द, विषम और समानिन) प्रकृति वाले पुरुषों को आगे कहे जाने वाले चार प्रकार के अन्नपान का सेवन करना हितकारी होता है। इन में सम सर्वधातु (दोषों) वाले पुरुषों को सब प्रकार का सेवन समान रूप में करना श्रेयस्कर है। शेष अधिक दोषों वाले वातल, पित्तल, श्लेष्मल तीनों को उन २ के दोषों की अधिकता को देखकर दोष के प्रतिकूल वस्तुओं का तब तक सेवन करना चाहिये जब तक अग्नि समान अवस्था में न आये। समान अवस्था में आगे पर बन्द कर सब का समान रूप में सेवन करना चाहिये। इसी प्रकार धातुओं को समान करनेवालेअन्यान्य भेषज प्रयोग भी अभीष्ट हैं। उन का विस्तार से वर्णन करेंगे ॥

प्रयस्तु पुरुषा भवन्त्यातुराः, ते त्वनातुरास्तत्रान्तरीयाणां भिपजाम् । तद्यथा—वातलः पित्तलः श्लेष्मलश्वेति । तेषां विशेषविज्ञानं—वात-लस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः, श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ता व्याघ्रयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति ॥ १३ ॥

वातल, पित्तल और श्लेष्मल ये तीन प्रकार के रोगी होते हैं। अन्य तन्त्र-कर्त्ताओं के मत से ये रोगी नहीं हैं। यथा—वातल, पित्तल और श्लेष्मल। इन के मत में ये भी प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से सात प्रकृतियां हैं। इन में यह वात विशेषकर जानने योग्य है कि वातप्रकृति को बायुजन्य, पित्तल को पित्त-जन्य और श्लेष्मल को कफजन्य रोग प्रायः और बलवान् रूप में होते हैं ॥ १३ ॥

तत्र वातलस्य वातप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं वातः प्रकोप-  
मापद्यते, न तथेतरौ दोषौ । स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैर्विकारैः  
शरीरमुपतपति बउवर्णसुखायुषामुपधाताय । तस्यावजयन्न-स्नेहस्वेदो  
विशिष्युक्तौ, मृदूनि च संशाधनानि स्नेहोष्ण-मधुराम्ल-लवण-युक्तानि,  
तद्वदभ्यवहार्याण्युपनाहनपोवेष्टनोन्मर्दन-परिषेकावगाहन-संबाहनावपो-  
डन-वित्रासन-विस्मापन-विस्मारणानि, सुरासवविधानं, स्नेहाश्रानेकयो-  
नयो दीपनीय-पाचनीय-वातहस्त-विरेचनीयोपहिताः तथा शतपाका:  
सदस्त्राकाः सर्वशङ्ख प्रयोगार्थी वस्त्रयः, वस्त्रिनियमः, सुखशीलता  
चेति ॥ १४ ॥

इन में वातप्रकृति का मनुष्य जब वायु को प्रकुपित करने वाले कारणों  
का सेवन करता है तब वायु शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, शेष दोनों दोष पिण्ठ  
और कफ इतना शीघ्र कुपित नहीं होते । वायु प्रकुपित होकर पूर्वोक्त अस्ती  
प्रकार के वात रोगों ( विकारों ) में बल, वर्ण, सुख और आयुष्य को नष्ट  
करने के लिये शरीर को पीड़ित करता है । इस वायु को शान्त करने के लिये  
स्नेहविधि और स्वेद-विधि हैं । एवं मृदु ( तीक्ष्ण नहीं ) स्नेह, उष्ण, मधुर,  
अम्ल, लवण युक्त संशोधन, मृदु, स्नेहन, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण से युक्त  
शोधन द्रव्य और आहार-द्रव्य, उपनाह ( वातहर द्रव्यों का बन्धन ), उद्देष्टन  
( वेष्टन लपेटन ), उन्मर्दन ( हाथों से मालिश ), परिषेक ( वातहर क्षाथों से  
परिसेचन ), अवगाहन ( वात हर क्षाथों में डुबकी ), संबाहन ( कोमलता से  
हाथ फेरना ), अचपीडन ( ताडन ), वित्रासन ( डगाना ), विस्मापन ( विस्मय  
उत्पन्न करना ), विस्मारण ( भुडाना ), सुरा और आसव ( वार्षणी यंत्र से  
तैयार किया पदार्थ सुरा, न तैयार किया हुआ आसव ) का देना, स्थावर और  
जंगम योनि के स्नेहों को दीपनीय, पाचनीय और विरेचनीय औवधियों से  
मिलाकर सौ बार या हजार बार ( अर्थात् बार-बार ) पकाये हुए स्नेह, सब  
प्रकार की बहित विधि, ( बहुन बार पकाये तैलों का बहित भी उपयुक्त है ), और  
निरन्तर सुखी जीवन व्यतीत करना उत्तम है ॥ १४ ॥

पित्तालस्यापि विन्दप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं पित्तं प्रको-  
पमापद्यते, तथा नेतरौ दोषौ । तदस्य प्रकोपमापन्नं यथोक्तैर्विकारैः  
शरीरमुपतपति बउवर्ण-सुखायुषामुपधाताय । तस्यावजयन्न-सर्पि-  
ष्पानं, सर्पिषा च स्नेहनमध्यश्च दाषहरण, मधुर-तिर्क्त-कषाय-शीताना-  
चौषधाम्लयवहार्याण्युपयोगो मृदु-मधुर-सुरभि-सोत-हृद्याना गन्धाना-  
चौपसेवा, मुक्तामणिहारावलीना च परम-शिशिर-बारिं-संस्थिताना बार-

गमुरसा क्षणे क्षणे चाप्रथ-चन्दन-प्रियकु-कालीय-मृणाल-शीतलात-बारि-  
भिरत्यल-कुमुद-कोकनद-सोगन्धिक-पद्मानुगतैश्च वारिभिरभिप्रोक्षणं,  
श्रुति-सुख-मृदुमधुर-मनोनुगानां च गीतवा दिवाणां श्रवणं, श्रवणं चाष्ट्यु-  
दयानां, सुहृद्विश्व संयोगः, संयोगश्चेष्टभिः श्वीभिः शीतोपहिताशुक-  
सगदामहारधारिणीभिनिशा हरांगु-शीतल-प्रवात-हम्यवामः, श्रेष्ठान्वर-  
पुलिन-शिशिरसदन-वसन-वज्र-पवतानां नेवा, रम्याणां चोपवनानां  
सेवा, सुख-शिशिर-सुरभि-मान्तोष्ट्रामानानुरक्षयन्तं, सेवनं च नलि-  
नोत्पल-पद्म-कुमुद-सोगन्धिक-पुण्डरीक-शतपत्र-मतारां सोम्यानां च  
सर्वभावानाभिति॥ १८ ॥

पित्त-प्रकृति का मनुष्य जब पित्त-प्रश्चेष्टक वर्षाओं का सेवन करता है उस  
ममय पित्त शीघ्र कुपित हो जाता है, जो प्र अन्य दो भाग इतनी जरदी कुपित  
नहीं होते। तब इस पुरुष के पृष्ठों क चालीप यित्त-उन्हें रोगों से शरीर आकान्त  
हो जाता है, जिससे उसके वड, वर्ष, नुख और आयु का नाश होता है।  
इस पित्त को शान्त करने के लिये घंड का सेवन करना श्रेष्ठकर है। घंडन के  
लिये घी से स्नेहन ( तेलादि से नहीं ), अबोद्धग्नरण अपांत् रिसेचन का देना,  
मधुर, तिक, कशाय, और शीत औषधियों से युक्त खान-एन का उपयोग, मृदु-  
मधुर, सुगन्धित, शीतल और हृदय को प्रिय लगने वाले गन्धों ( सुगन्धों )  
का सेवन, अति ठण्डे पानी में रखने मोती, मर्णियों की मालाओं को छातों पर  
धारण करना, योहा देर में इवेत चन्दन, पिंडगु, काशोथक, ( चन्दन का भेद )  
मृणाल, शीतल वायु, शीतल पानी, उत्तरल, कुमुद, कोकनद, सोगन्धिक और  
पद्म ( ये सब कमल के भेद हैं ) इनसे हाथ-पांव धोना या छोटे डालना, कान  
के लिये प्रिय, मृदु, मधुर एवं मन के अनुकूल गाना-बजाना सुनना, उत्तरव  
( नाच-रंग ) आदि देवनाना, मिठां से मिलना शीतल द्रव्यों से लित वस्त्र,  
माला, और हारों का धारण को हुई अभिलिपित क्रियों से मिलना-जुलना,  
चन्द्रमा की शीतल किरणों से शीतल खुला वायु में, महल का छतों पर ठंडे,  
पहाड़ों के बीच में, नदियों के तटों पर, ठंडे घरों ( धारायहाँ ) में, ठण्डे  
पेंखों की शीतल वायु का सेवन, सुखस्वर्य, शिशिर, सुगन्धित वायु से युक्त  
रम्य उपवनों का सेवन करना, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सोगन्धिक, पुण्ड-  
रीक, शतपत्र इन नाना प्रकार के कमलों से भरे तालाबों का सेवन और अन्य  
सब सौम्य शीतल घस्तुओं का सेवन करना पित्त को शान्त करता है॥ १९ ॥

श्लेष्मलस्थापि श्लेष्मप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं श्लेष्मा  
प्रकोपमापद्यते, न वथेतरी दोषोऽसि । स तस्य प्रकोपमापनां यथोक्ते-

विकारैः शरीरमुपतपति बलवर्णसुखायुषमुपधावाय । तस्यावजयनं—विधियुक्तानि तीक्ष्णोद्धानानि संशोधनानि, रूक्षप्रायाणि चाइयवहार्याणि कटु-तिक्त-कणायोपहितानि, तथैव धावन-लंघन-सवन-परिसरण-जागरणानि युद्ध-न्यवाय-व्यायामोन्मर्दन-स्नानोत्सादनानि, विशेषत-स्त्रीक्षणानां दीर्घकालस्थितानां मद्यानामुपयोगः, सधूमपानः सर्वशशो-पवासः, तथोषणवासः सुखप्रतिषेधश्च सुखार्थमेवेति ॥ १६ ॥

कफप्रकृति के मनुष्य का कफ प्रकोपक वस्तुओं को सेवन करने से शीघ्र प्रकृति हो जाता है, शेष अन्य दोनों धातु इतनी जलदी कुपित नहीं होते । कुपित कफ पूर्वोक्त वीस प्रकार के कफ-रोगों से शरीर को पीड़ित करता है, जिससे उसके बल, वर्ण सुख और आयु का हाल होता है । इस कफ को शमन करने के लिये शाखोक विधि से तीक्ष्ण-उष्ण संशोधन और संशमन, रूक्ष गुण-वाले कटु, तिक्त, कणाय रस युक्त आहार-न्यवाय प्रयोग करने चाहिये । इसी प्रकार भागना, उपवास ( लंघन ), झूबन ( कूदना या पानी में तैरना ), परिसरण ( परिक्षण, चारों ओर धूमना ), यत्रि में जागना युद्ध व्यायाम ( शरीर को परिक्रम देने वाला कर्म, कुश्ती आदि ), उन्मर्दन ( रूक्ष मालिष्ठ ), स्नान, उत्सादन ( दृष्टन लगाना ), खासकर तीक्ष्ण और पुराने मद का उपयोग, और धूमपान करना, सब प्रकार से उपवास, गरम वस्त्रों का उपयोग, और सुख ( आराम ) का परिस्थाग, दुख सहना, सुख प्राप्ति के लिये सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥

**भवति चात्र—सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वकार्यविशेषवित् ।**

सर्वभेषजतत्त्वज्ञो राज्ञः प्राणपतिर्भवेत् ॥ १७ ॥

सब रोगों में ( दाष, आयि, वात आदि को ) जानने वाला, सब कार्यों के अनुष्ठान को भली प्रकार जानने वाला, सब औषधियों के तत्त्व ( सार ) का समझने वाला वैद्य राजा का प्राणपति ( प्राणों का पालक ) होगा ॥ १७ ॥

तत्र श्लोकाः—प्रकृत्यन्तरभेदेन रोगानीकविकल्पनम् ।

परस्पराविरोधश्च सामान्यं रोगदोषयोः ॥ १८ ॥

दोषसंख्याविकाराणामेकदोषप्रकोपणम् ।

जरणं प्रतिचिन्ता च कायाम्रेधुक्षणानि च ॥ १९ ॥

नराणा वातलादीनां प्रकृतिस्थापनानि च ।

रोगानीके विमानेऽस्मिन् व्याहृतानि महर्षिणा ॥ २० ॥

प्रकृति ( प्रमाव आदि ) भेद से, रोगों के भेद, नानाविव संख्या होने पर भी परस्पर अविरोध, रोग और दोष में समानता, दोषों की संख्या, रोगों का

एक देश, दोषों के प्रकार का कारण, अग्नि का विद्युत कथन, शरीरस्य अग्नि के चार रूप, बातल आदि सान दुर्घटों को प्रकृति में लाने वाली भेषज, ये सब चाँते इस 'रोगानीक' अध्याय में महर्षि आचेय ने कह दी हैं ॥ १६-२० ॥

इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने रोगानीकं विमानं  
नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽध्यायः

अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्मास्तःह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'व्याधितरूपीय' विमान का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् आचेय ने कहा था ॥ १-२ ॥

इह खलु द्वौ पुरुषो व्याधितरूपो भवतः । तदथा—गुरुव्याधिरुपः सत्त्वबलशर्त्तरसंपदुपेतव्याल्पं धुव्याधिरुपं इव दृश्यते, लघुव्याधिरुपः सत्त्वादीनामधमत्वाद् गुरुव्याधिरुपं इव दृश्यते, तयोरुकुशलाः केवलं चक्षुपेत रूपं दृश्वाऽध्यवस्थन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रतिपद्धन्ते ॥ ३ ॥

दो प्रकार के पुरुष रोगी की माँति दीखते हैं ( १ ) गुरु व्याधि से पीड़ित एक मनुष्य और सत्त्व, बल, और शरीर इनके उत्कर्ष से गुरु व्याधि वाला होने पर भी लघुव्याधि से पीड़ित सा दिलाई देता है । दूसरा सत्त्व, बल, शरीर इनके न्यून होने से लघु व्याधि होने पर भी गुरु व्याधि से पीड़ित दिलाई देता है । इनमें अकुशल वैद्य केवल आंख से ही देखकर गुरु व्याधि और लघु व्याधि के ज्ञान में मोह या धोखे में पड़ जाते हैं । वे गुरु व्याधि को लघु-व्याधि और लघु-व्याधि को गुरु-व्याधि समझ लेते हैं ॥ ३ ॥

न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुपपद्यते; विप्रतिपन्नास्तु खलु रोगज्ञाने, उपक्रमयुक्तिज्ञाने चापि विप्रतिपद्धन्ते । ते यदा गुरुव्याधिरुपं लघुव्याधिरुपमासादयन्ति, तदा तमलपदोषं मत्वा संशोधनकालेऽस्मै मृदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानुदीरयन्ति । यदा तु लघु-व्याधिरुपं गुरुव्याधिरुपमासादयन्ति, तं महादोषं मत्वा संशोधनकालेऽस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषानिर्हृत्यव शारारमस्य क्षिण्वन्ति; एवमवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमिति मन्यमानाः

परिस्खलन्ति, विदितवेदितिव्यास्तु मिषजः सर्वं सर्वथा वयासंभवं परीक्षयं परीक्ष्याध्यवस्थन्तो न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, यथेष्टुमर्थमधि- निर्वर्तयन्ति चेति ॥ ४ ॥

योकि ज्ञान के एक देश ( भाग ) से सम्पूर्ण ज्ञेयवस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । इस प्रकार से रोग-ज्ञान में धोखा खाने पर चिकित्सा-युक्ति ज्ञान में भी धोखा खाजाते हैं । जिस समय ये अकुशल वैद्य गुरु-व्याधि से पीड़ित मनुष्य को लघु-व्याधि से पीड़ित अर्थात् अल्प-दोषयुक्त समझ कर इस रोगी को संशोधन के लिये भूटु संशोधन देते हैं, उस समय इसके दोषों को बे और भी अधिक बढ़ा देते हैं और जब लघु-व्याधि से पीड़ित व्यक्ति को महादोषयुक्त, गुरु-व्याधि वाला समझकर संशोधन के लिये तीक्ष्ण संशोधन देते हैं, तब दोषों को बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाल कर इस रोगी के शरीर को निर्बल करते हैं । इस प्रकार से ज्ञान के एक ही भाग से सम्पूर्ण ज्ञेय वस्तु का ज्ञान करके काम करने पर ये सब स्थानों पर धोखा खाते हैं । इसके विपरीत तीनों प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने वाले, सर्व प्रमाण-कुशल वैद्य सत्त्व आदि सब बातों की परीक्षा करके कार्य करते हैं, इसलिये चिकित्सा कार्य में बे कहीं भी धोखा नहीं खाते । इससे इनको मनोवाचित प्रयोजन (आरोग्य) मिल जाता है । ४। भवन्ति चात्र—सत्त्वादीनां चिकित्सेन व्याघ्रीनां रूपमातुरे ।

द्विषु विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधिवलावले ॥ ५ ॥

ते भेषजमयोगेन कुर्वन्त्यज्ञानमोहिताः ।

व्याधितानां चिनाशाय क्लेशाय महोऽपि वा ॥ ६ ॥

प्राङ्मास्तु सर्वमाङ्गाय परीक्ष्यमिह सर्वथा ।

न स्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन ॥ ७ ॥

मूर्खै वैद्य गुरु-व्याधित पुरुष में सत्त्व आदि के उत्कर्ष और अपकर्षको न समझ कर रोग के बल और अबल ( गुरु-लाधव ज्ञान ) में धोखा खा जाते हैं । इस प्रकार अज्ञान के कारण रोग-ज्ञान में धोखा खाये हुए रोगियों के नाश या बड़े भारी कष्ट के लिये, अयुक्ति से ( दोष-दूष की अपेक्षा न करके ) चिकित्सा कर्म करते हैं । बुद्धिमान् वैद्य सब ( सत्त्व आदि ) की परीक्षा तीनों प्रमाणों द्वारा करके औषध का प्रयोग करते हैं, इसलिये बे चिकित्सा कर्म में कभी भूल नहीं करते ॥ ५-७ ॥

इति व्याधितरुपाधिकारे श्रुत्वा व्याधितरुपसंख्याप्रसंभवं व्याधितरुपद्येतुं विप्रतिपद्यते च कारणं सापवादं संप्रतिपत्तिकारणं चान-पवादं, भगवन्तमात्रेयमग्निवेशोऽतः परं सर्वकुमीरां पुरुषसंश्रयाणां

समुत्थान-स्थान-संस्थान-बर्ण-नाम-प्रभाव-चिकित्सित-विशेषान् प्रभच्छो-  
पसंगृह्य पादौ ॥ ८ ॥

इस प्रकार से इस व्याधित रूपाधिकार में रोगी के रूप, संस्था, परिमाण, गुरु व्याधित, लघु व्याधित, संख्या गुरु-व्याधित और लघु-व्याधित में कारण ( सत्त्वादि का उत्कर्ष और अपकर्ष ), रोग के बलावल ज्ञान में प्रमाद ( मोह ), इस प्रमाद के कारण ( एक प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान करना ), सापवाद ( दोष सहित, ) सम्प्रतिपत्ति ( सम्भूत ज्ञान तीनों प्रमाणों से परीक्षा करने का ज्ञान ), और अनपवाद ( निर्दोष ), इनको समूर्ण रूप में सुनकर अग्निवेश ने भगवान् आत्रेय के चरणों में नमस्कार कर, उस प्रकार के कूमियों के समु-तथान ( निदान ), स्थान संस्थान ( अक्षण ), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा को पूछा ॥ ८ ॥

अथास्मै श्रोवाच भगवानात्रेयः—इह स्वल्पग्निवेश ! विशतिविधाः  
कृमयः पूर्वमुद्दिष्टा नानाविधेन प्रविभागेनान्यत्र सहजेऽथः, ते पुनः  
प्रकृतिभिर्भिद्यमानाश्वतुविधा भवन्ति । तद्यथा—पुरीषजाः श्लेष्मजाः  
शोणितजाः मलजाश्वेति ॥ ९ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश ! पंछे अष्टोदरीय अध्याय में सहज ( सहजन्य ) कूमियों को छोड़ कर नाना प्रकार के विभाग से बीस प्रकार के ( मलजन्य दो प्रकार के, रक्तजन्य छः प्रकार के, कफजन्य सात प्रकार के और पुरीषजन्य पांच प्रकार के ) कूमि कहे हैं । ये बीस प्रकार के कूमि प्रकृति की भिजता के कारण चार प्रकार के हैं । यथा—पुरीषजन्य, श्लेष्मजन्य, रक्तजन्य और मलजन्य ॥ ९ ॥

तत्र मलो बाह्यशास्त्रयन्तरश्च । तत्र बाह्ये मले जातान्मलजानसं-  
चक्षमहे । तेषां समुत्थानं—मृजावर्जनम् । स्थान—केश-स्मशु-लोम-  
पक्षम-वासासि । संस्थानं—अणवस्तिलाकृतयो बहुपादाः । वर्णः कृष्णः  
शुक्लश्च । नामानि-नूकाः पिपीलिकाश्च । प्रभावः कण्ठजननं कोठपिंड-  
काभिनिर्वर्तनं च । चिकित्सितं त्वेषामपर्कर्षणं मलोपधातो मलकरणां  
च भावानामनुपसेवनमिति ॥ १० ॥

इनमें मल दो प्रकार का है—( १ ) बाह्य और ( २ ) आम्यन्तर । इनमें शरीर के बाह्यमल ( पसीना आदि से ) दत्तन होने वाले कूमियों को मलजन्य कूमि कहते हैं । इनकी उत्पत्ति का कारण शरीर शुद्धि का न करना है । इनका स्थान केश ( घिर के बाल ), दाढ़ी मूँछ, शरीर के लोभ, आंखों की पकड़ों के बाल और वज्र हैं ।

इनका संस्थान अर्थात् ( रूप या आकृति ) वे अणु ( सूक्ष्म ), तिळ के समान आकृति और बहुत पाँव वाले होते हैं । इनका वर्ण ( रंग ) काढ़ा और श्वेत है । इनके नाम यूक ( जूँ ) और पिपीलिका ( लिङ्गा ), लोल है ।

इनका प्रभाव—खाज उत्तरज्ञ करना और कोठ, पिंडका आदि फुनियों को शरीर पर उत्पन्न करना है ।

इनकी चिकित्सा—इनको चिमटी से पकड़ कर खींचना, मल का नाश करना और मछोत्पादक वस्तुओं का परिस्थान करना है ॥१०॥

शोणितजाना तु खलु कुष्ठः समानं समुत्थानम्, स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः । संस्थानं अणबो वृत्ताश्चापादाश्च सूक्ष्मस्तवाच्चेभे भवन्त्यदृश्याः । वर्णस्तात्रः । नामानि केशादा लोमादा लोमद्रीपाः सौरसा औदुम्बरा जनुमात्रश्चेति । प्रभावः केश-इमश्रु-नख-लोम-पद्मापञ्चवंसो ब्रणातार्ना च हर्ष-कण्ठ-तोद-संसर्पणान्यतिवृद्धानां च त्वक्-शिरा-स्नायु-मास-त्तरु-णास्थि-भक्षणमिति, चिकित्सतमप्येषां कुष्ठः समानं तदुत्तरकालमुपदेश्यामः ॥ ११ ॥

रक्तजन्य कूमियों का निदान कुष्ठ गोग के निदान के समान ही है । कूमियों का स्थान—रक्तवाहिनी धमनियां ( दिरायें भी ) हैं । इनका रूप सूक्ष्म होने से कुछ कूमि अदृश्य होते हैं । वे आंख से नहीं देखे जाते, इनका रंग ताप्त वर्ण है; इनके नाम केशाद ( केशों को खाने वाला ), लोमाद, लोमद्रीप, सौरस, औदुम्बर और जनुमाता हैं । इनका प्रभाव केश इमश्रु, लोम और धलक के बालों को नाश करना है, ब्रण में प्रवेश करके ये हर्ष च, खाज, तोद ( चुनचुना ) और संसर्पण की सी प्रतीति करते हैं । बहुत बढ़के ये त्वचा सिरा, स्नायु, मांस और तस्ण अस्थि को भी खाने छगते हैं । इनकी चिकित्सा भी कुष्ठ-रोग के समान है, इसका वर्णन आगे कुष्ठचिकित्सा में करेंगे ॥ १२ ॥

स्लेष्मजाः क्षीर-गुड-तिळ-मत्स्यानूपमास-पिण्डान्न-परमान्न-कुसुम-स्नेहाजीर्ण-पूति-क्षिण्ड-संकोणं-विरुद्धासालय-भोजनसमुत्थानाः । तेषामामाशयः स्थानं । ते प्रवर्धमानास्तूर्ध्वमधो वा विसर्पन्त्युभयतो वा । संस्थानवर्णं-विशेषास्त इवेताः पृथुत्रैनसंस्थानाः केचित्, केचिदृवृत्तपरिणाहा गण्डपदाकृतयश्च इवेतास्तात्रावभासाः, क्षेत्रचदणबो दीर्घास्तस्थव-कृतयः इवेताः । तेषां त्रिविधानां इलेषमनिमित्तानां कृमीणां नामानि—

\* हर्ष—जिस प्रकार दाद में खुजाने से आनन्द, हर्ष वा रोमाश्च होता है । इस को भी कूमि उत्पन्न करते हैं ।

अन्त्रादाः, उदरादाः, हृदयचराः, चुरबः, दर्भपुष्पाः, सौगन्धिकाः, महागुदाश्चेति । प्रभावो हृज्ञासास्यसंस्वरणमरोचकाविपाकी ष्वरो मूर्च्छा जम्भा क्षवथुरानाहोऽङ्गमर्दश्चर्दिः काश्यं पारुष्यमिति ॥ १२ ॥

कफजन्य कूमि—खीर-भोजन, गुड, तिळ मछली, जलचर प्राणियों के मांस पिण्डाल और परमान्न ( खीर आदि ) का भोजन, कुम्भ का तेल, अर्जीर्ण में भोजन, पूति ( संड ), कङ्ग ( क्षेत्रकारक द्रव्यों के ) संकोर्ण ( हित और अहित देमेल मिले भोजन ) और विशद एवं असाल्य भोजनों से उत्तर दोते हैं । इनका स्थान आमाशय है । ये आमाशय स बढ़ कर यही से ही ऊपर या नीचे अथवा दोनों तरफ़ फैल जाते हैं । इनका रूप और वर्ण इवेत तथा कुछ वडी मासपेशी के से, बद के आकार के, कुछ गोल आकार वाले, ( वेष्टन ) वाले, गिंडोये की आकृति के, इवेत और लाल रंग की आमा वाले होते हैं । कुछ अणु ( पतले ), लम्बे और सूत के समान आकृति वाले, इवेत होते हैं । इन तीनों प्रकार के कफजन्य कूमियों के नाम ये हैं । जैसे—अन्त्राद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्भपुष्प, सौगन्धिक और महागुद । इन का प्रभाव—हृज्ञास वमनकी रुचि हाना, मुख से लार का बहना, अस्थि, अविपाक, चर, मूर्ढा, जम्भाई का आना, छींके आना, अस्त्रा, शरीर के अंगों का दूटना, वमन, कृशता और शरीर में रुक्षता वा कठोरता होना है ॥ १२ ॥

पुरीषजास्तुल्यसमुत्थानाः श्लेष्मजैस्तेवा स्थानं पकाशयः । प्रवर्धमानस्त्वधो विसर्पन्ति, यस्य पुनरामाशयाभिमुखाः स्युर्यैन्तरम्; तदन्तरं तस्योदूगारनिध्यासाः पुरीषगन्धिनः स्युः; संस्थानवर्णविशेषास्तु सूक्ष्मवृत्तपरीणाहाः श्वेता दीर्घी ऊर्जांशुकर्क्षंकाशाः केचित्, केचित्पुनः स्थूलवृत्तपरीणाहाः श्यावनीलहरितपीताः । तेवा नामानि ककेहका मंकेहका लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति । प्रभावः पुरीषभेदः काश्यं पारुष्यं लोभधृषीभिन्वर्तनं च, त एवास्य गुदमुखं परितुदन्तः कण्ठूं चोपजनयन्तो गुदमुखं पर्यासते, त एव जातहर्षी गुदनिष्कमण-मतिवेलं कुर्वन्ति—इत्येष श्लेष्मजानां पुरीषजानां च कुमीणां समुत्थानादिविशेषः ॥ १३ ॥

पुरीषजन्य ( मळ से उत्पन्न ) कूमियों का निदान कफजन्य कूमियों के समान है । इन कूमियों का स्थान पकाशय है । ये कूमि बढ़कर नीचे को और फैलते हैं । जिस पुरुष में ये कूमि आमाशय की ओर जाने लगते हैं, उस पुरुष के उद्गार ( डकार ) और इवास में मळ की गन्ध आती है । इनका रूप वर्ण—मूस्म, गोल बेहन वाले तथा इवेत और भेद के लम्बे बालों के समान

होते हैं । कुछ स्थूल, गोळ बेष्टन वाले, चाले, नीले, हरे या पीले रंग के होते हैं । इन के नाम—कफेहक, मकेहक, लेलिह, सशूलक, सौमुराह हैं । इनका प्रभाव—मळ का पतला आना, शरीर में कृष्णता, पश्चिमता और रोमाच होना है । ये कृमि रोगी की गुदा के मुख पर रहते हैं । ये इर्ष उत्सव होने पर बार बार गुदा से बाहर ( मळ के साथ ) निकलते हैं । यह कफजन्य और पुरीष-जन्य कृमियों में उत्तमता आदि का मेद है ॥ १३ ॥

चिकित्सितं तु खल्वेषां समासेनोपदिश्य पश्चाद्विस्तरेणोपदेश्यामः ।  
तत्र सर्वकृमीणामपकर्षणमेवाऽऽदितः कार्यः ततः प्रकृतिविधातोऽनन्तरं  
निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति ॥ १४ ॥

कफ और मळ से उत्सव कृमियों की चिकित्सा संक्षेप में कहकर फिर पीछे से विस्तार से कहेंगे । इन कृमियों का प्रथम अपकर्षण ( खींचना शोधन ) करना चाहिये, फिर प्रकृति-विधात ( उपशम ) और पीछे से निदान-रूप पदार्थों का अनुपसेवन अर्थात् त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥

तत्रापकर्षणं हस्तेनाभिगृह्य विमृश्योपकरणवताऽपनयनमनुपक-  
रणेन वा, स्थानगतानां तु कृमीणां भेषजेनापकर्षणं; न्यायतस्तु तत्त्व-  
विधम् । तद्यथा—शिरोविरेचनं वमनं विरेचनमास्थापनमित्यपक-  
र्षणविधिः ॥ १५ ॥

अपकर्षण विधि—उपकरण ( संदश, चिमटी आदि ) से अथवा बिना उपकरण के हाथ से पकड़ कर बाहर निकालने का नाम ‘अपकर्षण’ है । यह कार्य बाह्य मलजन्य ( पुरीषजन्य ) और स्लेष्मजन्य कृमियों के स्थान से निकले होने पर ही हो सकता है और जो कृमि अपने स्थान में स्थित हो, उनको औषध द्वारा निकालना उचित है और यह औषध चार प्रकार का है । यथा—शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन । यह अपकर्षण-विधि है ॥ १५ ॥

प्रकृतिविधातस्त्वेषां—कटु-तिक्त-कषाय-झारोणानां द्रव्याणामुपयोगो  
यज्ञान्यदपि किंचिच्छ्लेष्मपुरीषप्रत्यनीकभूतं तत्त्यादिति प्रकृति-  
विधातः ॥ १६ ॥

प्रकृति-विधात—प्रकृति ( कफ और पुरीष ) का उपधात अर्थात् नाश वा शमन करना । इस के लिये कटु, तिक्त, कषाय, झार और उष्ण पदार्थों का उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ श्लेष्मा और मळ के विरुद्ध आहारन्विहार हो उसका सेवन करना चाहिये । यह प्रकृति-विधात-विधि है ॥ १६ ॥

अनन्तरं निदानोक्ताना भावानाभनुपसेवनमिति यदुक्तं लिङ्ग-  
नविद्धौ तस्य विसर्जनं तथाप्रायाणां चापरेषां द्रव्याणामिति लक्षणतद्विधि-  
किंत्सुतमनुव्याख्यातमेतदेव पुनर्विस्तरेणोपदेश्यते ॥ १७ ॥

इसके आगे निदान में कहे पदार्थों का सेवन का त्यागना आवश्यक है। ऐसा निदान विधि में जिन जिन द्रव्यों को निदान रूप से कहा है, उनका परित्याग करना चाहिये। इसी प्रकार न कहे हुए निदान के अनुरूप द्रव्यों का भी परित्याग करना चाहिये। इस प्रकार संक्षेप से चिकित्साक्रम कह दिया है, अब इसी को विस्तार से कहते हैं ॥ १७ ॥

अथैनं कृमिकोष्ठमातुरमये घट्टात्रं सप्तरात्रं वा नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्य  
च्छोभूते एनं संशोधनं पाययितास्मीति क्षीर-दधि-गुड-तिळ-मत्स्यानु-  
पमांस-पिण्डाज्ञ-परमान्न-कुसुमभस्नेह-संयुक्तेर्भोजयैः सायं प्रातश्चोपपादये-  
स्तस्मुदीरणार्थं चैव कूमीणां कोष्ठाभिसरणार्थं च भिषक् । अयं व्युष्टायां  
रात्रौ सुखोधितं सुप्रजीर्णयुक्तं च विज्ञायाऽस्थापन-वमन-विरेचनैस्त्वद्वा-  
रेवोपपादयेदुपपादनीयश्चेत्सर्वान् परीक्ष्यविशेषान् परीक्ष्य सम्यक् ।

इस कृमि-कोष्ठ वाले रोगी को संशोधन देने से पूर्व छः या सात रात तक स्नेहन और स्वेदन देना चाहिये। फिर सातवें वा आठवें दिन ( अगले दिन ) इस को संशोधन दूंगा ऐसा निष्ठ्य करके सार्व-प्रातः दोनों समय छीर ( दूध ), गुड, दही, तिळ, मछली, जलचर प्राणियों का मांस, पिण्डान्न, कुमुडम तैल से बने भोजन लिलावे। इस प्रकार के भोजनों से कोष्ठ के क्रिमि भली प्रकार से उत्क्षेपित हो जाते हैं ( निकल आते हैं ) और अन्यत्र गये हुए कृमि भी कोष्ठ की ओर आने लगते हैं। इस के अनन्तर शत्रि के बीतने पर ( प्रातः काल होने पर ) भली प्रकार नींद आई तथा खाया हुआ भोजन भली प्रकार जीर्ण हो गया यह देखकर उस दिन ( नवम दिन ) आस्थापन, वमन, विरेचन ( इन में से काँई एक क्रिया ) देना चाहिये। क्रिया करने से पूर्व रोगी को सब प्रकार से ( प्रकृति-साम्य, सत्त्व आदि से ) परीक्षा कर लेनी चाहिये।

अथाऽहरेति ब्रूयात् मूलक-सर्षप-न्तशुन-करस्त-शिग्रु-मधुशिग्रकमठ -  
स्वरपुण्डा-भूस्तुण-सुमुख-सुरस-कुठेरक-गण्डीर-कालमालक-पर्णीस-क्षवक-  
फणिज्जकानि सर्वाण्यथवा चथालाभं, तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य स्त्रण्ड-  
शश्छेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितार्या स्थाल्या समावाप्य  
गोमूत्रेणार्थोदकेनाम्यासिक्ष्य साधयेत् सततमवधृयन् ददर्व्या । तस्मिन्  
ज्ञीतीभूते तृप्युक्तमूयिष्ठेऽभसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालीमवतार्य, सुप-  
रिपूतं क्षायं सुखोर्णं मदनपिष्ठलीफलं विड्ज्ञकलकर्तौलोपहितं, सज्जि-

काल्पणितमस्यासिच्य वस्तौ विधिवदास्थापयेदेन, तथाऽर्कांडक्कुट-  
जाढकी-कुष्ठ-कैद्य-कषायेण वा, तथा शिग्र-पीलु-कुस्तुम्बुद्ध-कुटकासर्षप-  
कषायेण, तथाऽमलक-शृङ्खवेर-दारहरिद्रा-पिचुमर्द-कषायेण भद्रनफल-  
संयोगसंयोजितेन त्रिरात्रं सप्तरात्रं वाऽस्थापयत् ॥ १८ ॥

आस्थापन आदि किया करने की विधि—अनन्तर कहे कि निम्न सब  
वस्तुओं को अथवा इन में से जितनी प्राप्त हो सकें उन वस्तुओं को लावे—  
मूलक ( मूली ), सरसो, लहुन, नाटा करज्ज, शिग्र ( शोभांजन ), मधुशिग्र  
( मीठा सहजन ), कमठ ( काँई लाल फूल का कचनार मानते हैं ), खर-  
पुष्पा ( अजवायन ), भूरूण, सुमुख, सुरस, कुठेरक, गण्डेर, कालमाल,  
पर्जास, खवक और फणिजक ( ये सब तुलसी के भेद हैं ) इन सब को अथवा  
इन में से जा मिलें उनको लाकर, दुकडे दुकडे करके, पानी से भली प्रकार  
बोकर, अच्छी प्रकार धुली हाँडी में रखकर, आये, पानी मिले गोमूथ में मिलो  
कर ( डालकर ) निरन्तर कढ़ो ( खींचे ) से चलाते हुए अग्रि पर पकाना  
चाहिये । जब आ॒षवियों का सधूर्ण रस जल में आ जाय तब हाँडी को उतार  
कर बछ में से भली प्रकार छान ले । इस कुछ गरम क्षाय में मैनफल, पिप्ली,  
धायविंडग इन का कल्क और तैल मिश्रित सर्जक्षार ( सज्जी खार ) एवं नमक  
मिलाकर विधिर्वक्त इस रोगी को आस्थापन बस्ति देनी चाहिये । इसी  
प्रकार आक, अलर्क ( मदार ), कुटज, आढ़की, ( अरहर ), कुष्ठ ( कृठ )  
और कैटर्य ( पर्वतनिम्ब ) कषाय से बस्ति देनी चाहिये, ( तैल मिश्रित नमक  
एवं मैनफल आदि पूर्व को भाँति ढाले ) । इसी प्रकार शिग्र, पीलु,  
कुलुम्बु, कुटकी और सरसो के कषाय से, इसी प्रकार आंवला, अदरख  
( सोठ ), दारहलदी, पिचुमर्द ( नीम ) के कषाय से, मैनफल आदि डालकर  
लवण युक्त तैल मिलाकर तीन बार अथवा सात बार आस्थापन-कर्म करना  
चाहिये ॥ १९ ॥

प्रत्यागते च पञ्चिमे वस्तौ प्रत्याश्वस्तं तद्दरेवोभयतोभागहरणं  
संशोधनं पाययेत्युक्त्या । तस्य विधिरुपदेश्यते । भद्रनफलपिपलीकषा-  
यस्यार्षोखलिमात्रेण त्रिवृत्करकाक्षमात्रमालोङ्घ्य पातुमस्मै प्रयच्छेत्,  
तदस्य दोषमुभयतो निर्हरति साधु, एवमेव कल्पोक्तानि वमनविरे-  
चनानि संसूज्य पाययेदेन बुद्धया सर्वंविशेषानवेक्षमाणो भिषक् ॥१९॥

शेष बस्ति के गुदा द्वारा बाहर निकल आने पर योगी को आश्वासन  
देकर उसी दिन ( जिव दिन बस्ति दी है ) दोनों ऊर्ध्व एवं अचोमाणों से

दोष निकालने के लिये बमन, विरेचन रूपी संशोधन, देश, काळ, मात्रादि की अपेक्षा से देना चाहिये ।

विधि—मदनकल, पिप्पली कषाय की आधी अंजलि, को त्रिहृत् (निशोय) के कल्प की एक अद्य मात्रा में मिलाकर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये । इस प्रकार से रोगी के दोष दोनों मार्गों से भली प्रकार निकलते हैं । इस प्रकार से कल्प-स्थान में कहे जाने वाले बमन, विरेचन योगों को परस्पर मिला कर रोगी की सब बातों को देख कर बुद्धि से भली प्रकार विचार कर रोगी को पीने के लिये देवे ॥ १६ ॥

अथैनं सम्यग्विरिक्तं विज्ञायापराहे शंखरिककपायेण सुखोष्णेन परिषेचयेत्, तेनैव च कपायेण बाह्याभ्यन्तरान् सर्वादकार्थान् कार्येच्छत् । तदभावे वा कटुतिरककपायाणामीषयानां कार्यैर्मृत्रक्षारैर्वा परिषेचयेत् । परिधिक्तं चेनं निर्वातमागारमनुप्रवेश्य पिप्पली-पिप्पली-मूल-चब्य-चित्रक-शृङ्गवेर-सिद्धेन यवाग्वादिना क्रमणोपक्रमयेत् । विलेप्याः क्रमागतं चैनमसुवासयेद्विद्वज्जतैनैकान्तरं द्विख्यर्ता ॥ २० ॥

इसके पश्चात् (दोनों भागों से संशोधन होने पर) भली प्रशार संशोधन हुआ जान कर शैखरिक कषाय (अपामार्ग के योंडे गरम कषाय) से परिषेचन करे । इसी कषाय को पानी के स्थान पर पीने के लिये और बाह्य (स्नान आदि में) निरन्तर बरतना चाहिये । इस अपामार्ग के कषाय के अभाव में कटु, तिक्क, कषाय रसवाली औषधियों के कार्यों से, मूत्रमिश्रित यवसार (जवालार) आदि से परिषेचन करना चाहिये । परिधिक इस गोगो को घायु-रहित घर में प्रविष्ट करके पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक और सोट इस पंचकोल द्वारा सिद्ध यवागू को उपकृत्यानीय अध्याय में कहे येयादि क्रम से देना चाहिये । विलेपी तक पहुंच जाने पर रोगी को विडंग-तैल द्वारा एक दिन के अन्तर से दो बार तीन बार अनुवासन देना चाहिये । (अनुवासन में पेया का निषेध है, क्योंकि पेया अभियन्दी है) ॥ २० ॥

यदि पुनरस्यातिप्रवृद्धाव्शीर्षादान्कृमीन्मन्येत शिरस्येवाभिसर्पतः कौञ्चित्, ततः स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरेचयेदपामार्गरण्डु-लादिना शिरोविरेचनेन ॥ २१ ॥

शिरो-विरेचन—इस रोगी के शिर को खाने वाले कुमियों को बहुत बढ़ा दुखा जाने और देखे कि कुमि शिर में फिरते हो, पेशा वैद्य को अनुमत हो तो रोगी के शिर को स्नेहन और स्वेदन देकर अपामार्ग के तण्डुलों (चाबलों) आदि शिरो-विरेचन योग्य द्रव्यों से शिरोविरेचन देवे ॥ २१ ॥

यस्तदन्यवाहार्यविधिः प्रकृतिविधातायोक्तः कुमोणी, सोऽनुब्या-  
स्यास्यते—मूषिकपर्णी समूलाप्रतानामाहृत्य लण्डशङ्केदयित्वा,  
उल्लङ्घे क्षोदयित्वा पाणिभ्या पीडयित्वा रसं गृहीयात्, तेन रसेन  
ओदितशालितण्डुपिष्टं समाठोड्य पूपलिकाः कृत्वा विधूमेष्वज्ञारेषु  
विपाच्य विडङ्गतैलव्योपहिताः कमिकोष्टाय मक्षयितुं प्रयच्छेत्;  
अनन्तरं चाम्लकाञ्जिकमुद्दिश्वद्वा पिप्पल्यादिपञ्चवर्गरससृष्टं सलवण-  
मनुपाययेत् ॥ २२ ॥

अनेन कल्पेन मार्कंवार्क-सहचर-नीप-निर्गुण्डी-सुमुख-सुरस-कुठेरक-  
गण्डीर-कालमालकन्यास-क्षवक-फणिज्जक-बकुल-कुटज-सुवर्णक्षिरी-  
स्वरसा नामन्यतमस्मिन्कारयेत्पूपलिकाः, तथा किणिही-किरात-तिक्तक-  
सुवहामलक-हरीतकी-विभीतक-स्वरसेषु कारयेत्पूपलिकाः । स्वरसांश्च-  
तेषामेकेकशो द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधुविलुलितान् प्रातरनन्नाय पातुं  
प्रयच्छेत् ॥ २३ ॥

कृमियों के प्रकृति-विधात के लिये जो आहार-विधि कही है, उस को  
व्याख्या करते हैं । जल और कोमळ पत्तों के साथ मूषापर्णी को लाकर इसको  
दुकड़े २ करके, ऊंचल में कूटकर, हाथों से दबाकर रस निकाल ले । इस रस  
में लाल धानों के चावलों की छिठो को मिलाकर इससे पूरी ( पूप ) बनावे ।  
इन पूरियों को धूम रहित अंगारों पर पड़ावे । फिर विडङ्ग तैल और छबण के  
साथ मिलाकर कृमि कोष्टवाढे रोगी को खाने के लिये दे । पूरी खाने के  
पीछे खट्टी कांजी ( धान्य-काञ्जिक ) में या उदिक्षित ( आधे विलोये भठे, या  
चाढ़ ) में पिप्पली आदि पंचकोल को छबण के साथ मिला कर पीने के लिये  
दे । इसी विधि से मार्कव ( भृंगराज ), अर्क ( आंक ), सहचर ( क्षणिट ),  
नीप ( कदम्ब ), निर्गुण्डी ( तिन्धुबार सम्भालु ), सुमुख, सुरस, कुठेरक,  
गण्डीर, ( सेहुण्ड ), कालमाल ( कुठेरक के भेद ), पण्ठास, क्षवक, फणिज्जक  
( तुलसी के भेद ), बकुल ( मौलसरी ) कुटज, स्वर्णक्षिरी ( सत्यानाशी ) इन  
में से किसी एक के रस के साथ पूरी तैयार करनी चाहिये । इसी प्रकार किणिही  
( अगमार्ग ), किणतिक ( चिरायता ), आम की, हरक, विभीतक ( वरेहा ),  
सुवहा ( शेफालिका ) इनके रसों में पूरिया बनानी चाहिये । इन ( मण्डूक-  
पर्णी आदि ) में से एक एक को या दो दो को अथवा सब को मिलाकर स्वरल  
निकाल कर इस स्वरस में मधु मिला कर प्रातःकाल खाली पेट पीने के  
लिये दे ॥ २२-२३ ॥

अथात्वराकृद्याहृत्य महाति किञ्जिके प्रसीदीर्योऽतपे शोषयित्वोद्धार्ते

क्षोदयित्वा दृष्टि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा विडङ्गकथायेण  
त्रिफलाकथायेण बाऽष्टुक्त्वो दशकृत्वो बाऽऽतपे सुपरिभावितानि  
मादयित्वा दृष्टि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समा-  
वायानुग्रहं निवापयेत् । तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलं चर्णं यावद्वा  
साधु मन्येत्, तत् क्षीद्रेण संसूज्य कृमिकोष्ठाय लेनुं यच्छ्रेत् ॥ २४ ॥

इसके पीछे घोड़े की शक्ति ( लीद ) को लाकर बड़ी चटाई पर फैलाकर  
धूप में सुखा ले । फिर ऊखल में कूटकर शिला पर पीसकर बारीक बनाले  
इस चूर्ण को विडंग के कथाय से या त्रिफला-कथाय से आठ बार अथवा दृष्टि  
बार धूप में भावना देकर शुष्क कर ले । फिर इसको पत्थर पर पीसकर नये  
घड़े में रखकर, वायु आदि न जा सके इस प्रकार से मुख को ढांप कर गुप्त  
स्थान पर रख दे । इसमें से कई परिमाण ( चार मासा ) अथवा रोग के  
अनुसार जितनी मात्रा उचित समझे उतनी मात्रा को शहद में मिलाकर कृमि  
रोगी को खाने के लिये दे ॥ २४ ॥

तथा भल्लातकास्थीन्याहृस्य कलशप्रमाणेन संपोद्ध्य स्नेहभाविते  
दृढे कलशे सूक्ष्मानेकं छिठ्ठद्रव्यं शरीरमुपनेष्टश्य मृदावलिसे समावाप्यो-  
लपेन पिघाय भूमावाकण्ठं निखावस्य स्नेहभावितस्यैवान्यस्य हृष्टस्य  
कुम्भस्योपरि समारोप्य समन्वाद् गोमयैरुपचित्य दाहयेत्; स यदा  
जानीयात् साधु दधानि गोमयानि गछितस्नेहानि भर्त्तातकास्थीनीति,  
ततस्तं कुम्भमुद्धारयेत् । अथ तस्माद् द्वितीयात्कुम्भात् स्नेहमादाय  
विडङ्गतण्डुलचूर्णः स्नेहार्घमात्रैः प्रतिसंसज्ज्याऽतपे सर्वमहः स्थाप-  
यित्वा ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत्पानाथ, तेन साधु विरिक्षयते, विरिक्षस्य  
चाऽऽनुपूर्वीं यथोक्ता ॥ २५ ॥

दूसरा प्रयोग—घड़े में जितने भिलावे के फल आ सकें, उतने फलों को  
कूट कर तैलादि स्नेह से चिकने, मजबूत एक घड़े में भरे । इस घड़े के  
निवाले भाग में अनेक सूक्ष्म छिद्र बना दे तथा घड़े पर मिट्टी का लेप कर  
दे । इस घड़े में भिलावे भर कर ढक्कन से मुंह ढांप दे । फिर स्नेह से मावित  
एक दूसरे घड़े को ले कर जमीन में गले तक गाह दे । इस गड़े हुए घड़े के  
ऊपर भिलावे बाला घड़ा रख कर जारों और उपरे रख कर जावे । जब  
उपरे भिलावे बाला घड़ा रख कर जारों और उपरे रख कर जावे । जब इस  
दूसरे घड़े में से तेल ( स्नेह ) ले कर स्नेह से आधी मात्रा में विडंग-तण्डुक  
चूर्ण को स्नेह में मिला कर धूप में चार प्राहर तक रखे । पीछे इस स्नेह को

कृमि-कोष्ठ रोगी को पीने के लिये है। इससे भली प्रकार विरेचन होता है। विरेचन के पीछे पूर्व की भाँति पेया आदि देने का क्रम है ॥२५॥

एवमेव भद्रदारु-सरलकाष्ठस्नेहानुपकल्प्य पातुं प्रयच्छेत् । अनुवासयेवैनमनुवासनकाले ॥ २६ ॥

इसी भल्लात के स्नेह-विधि से देवदार, सरल ( राल-सर्ज ), वृक्षों से स्नेह बना कर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये और अनुवासन के योग्य समय में कहे हुए स्नेहों से अनुवासन देना चाहिये ॥ २६ ॥

अथ 'आहार' इति ब्रूयात् शारदान्नवास्तिलान्संपदुपेतान् । तानाहृत्य सुनिष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषाये सुखोण्णे निर्वापयेदाक्षेप-गमनात्, गतदोषानभिसमीक्ष्य सुप्रलूनान्प्रलुच्य पुनरेव सुनिष्पूतान् सुनिष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषायेण त्रिःसप्तकृत्वः सुपरिभा-वितान्भावयित्वाऽऽतपे शोषयित्वोदूखले संक्षेप्य दृष्टिं पुनः शृण्णपिष्टा-न्कारयित्वा द्रोण्यामध्यवधाय विडङ्गकषायेण सुहृसुहुरवसिञ्चन् पाणि-मर्दमेव मर्दयेत् । तरिमन्खलु प्रयोड्यमाने यत्तौलमुदियाच्चत्पाणिधयों पर्यादाय शुचौ हृदे कलशे समासिच्यानुगुंपं निधापयेत् ।

अन्योग—वैद्य रोगी से कहे कि 'आगे कहे पदार्थ लाओ'। अच्छी प्रकार पके, रस-वीर्य युक्त, धारद अद्वृत में होने वाले नये तिलों को ला कर, भली प्रकार मट्ठी आदि से साफ़ करके सुखा ले। फिर सुखोण्ण, कुछ गरम बिंदंग-कषाय में भिंगो दे, जब तक कि छिलके में लगा मैल दूर न हो जाय तब तक भिंगो कर रखे। दोष निकलने पर इन तिलों को तुष रहित करके, सुखा लेवे। फिर छाज से साफ़ करके धोले। फिर सूखने पर बिंदंग कषाय में इक्कीस बार भावना दे कर धूप में सुखा लेवे। इन तिलों को ऊखल में कूट कर परथर की शिला पर रख वारीक पीस लेवे। अब इनको द्रोणी ( थाली, कड़ाही ) में रखकर बिंदंग कषाय को योड़ा योड़ा ढालते हुए हाथों से खूब मले, इस प्रकार हाथों से मलने पर जो तैल निकलता है, हाथ पर लगे हुए तास तैल को ले कर पवित्र, १८ घड़े में रखकर गुस्स स्थान में सुरक्षित रख देवे। इस को खाने के लिये कहे।

अथ 'आहार' इति ब्रूयात्-तिल्वकोहालकयोद्वौं विल्वमात्रौ पिण्डौ शृण्णपिष्टौ विडङ्गकषायेण, ततोऽर्धमात्रौ इयामात्रिवृद्धयोरतोऽर्धमात्रौ दन्तीद्रवन्त्योरतोऽर्धमात्रौ चत्वयचित्रकयोरित्येतं सम्भारं विडङ्गकषा-यस्याऽऽद्वकमात्रेण प्रतिसंसृज्य ततस्तैलप्रस्थमावाप्य सर्वमालोद्य महति पर्योगे समासिच्यान्नावधिश्रित्य महत्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः स्नेह-

मबलोकयन्नजर्ण भृद्गिनिना साधयेहव्यो सततमधधद्यन् । स यदा जानीयाद्विरमति शब्दः, प्रशास्यति च फेनः, प्रसादमापद्यते स्नेहो यथास्वं गन्धवर्णरसोत्पत्तिः, संवर्तते च भेषजमंगुलिभ्यां मृद्यमानमति-मृद्गनतिदारुणमनुगुलिप्राहि चेति, स कालमत्स्यावतारणाय । ततस्तम-वतीर्णशीतीभूतमहतेन वाससा परिपूर्य शूचौ हृदे कलशे समासिच्य पिघानेन पिधाय शूक्लेन बद्धपटेनावच्छाद्य सूत्रेण सुवद्धं सुनिगुमं निधापयेत् । ततोऽस्मै मात्रा प्रयच्छेत्पानाय, तेन साधु विरिच्यते, सम्यगपहृतदोषस्य चास्याऽनुपूर्वी यथोक्ता । ततश्चैनमनुवासयेदनु-वासनकाले ।

फिर वैद्य आगे कहे पदार्थ लाने को कहे—तिल्व और उद्दालक ये दो विल्व भर (पल भर, ४ तोला) लेकर विडंग कपाय क साथ खूब बारीक पीस ले । इनसे आधी मात्रा (२ तोला) श्यामा (काली निशोथ) और त्रिवृत् (सफेद निशोथ), इन से आधी (१ तोला) दन्ती और द्रवन्ती, इनसे आधे (२ तोला) चब्य और चित्रक इन सबको अर्धाटक (दो प्रस्थ) विडंग कपाय, में तथा एक प्रस्थ पूर्वोक्त तिलों से तैयार किये तैल के साथ मिलाकर एक बड़े कड़ाइ में रख कर आग पर रख कर आराम से बैठ कर, चारों ओर स्नेह को देखते हुए कि गिरे नहीं, निरन्तर मृदु अग्नि से पकाये । और पकाते समय कढ़छी द्वारा बराबर दिलाता रहे । जिस समय शब्द होना बन्द हो जाय, श्याम उठना भी रुक जाय, तथा स्नेह (तैल) भी स्वच्छ हो जावे, एवं तैल में उचित गन्ध, वर्ण और रस की उत्पत्ति हो जाय तब समझे कि तैल बन गया । औषध (कल्क) अंगुली से मलने पर न तो बहुत कोमल और न बहुत कठोर हो तथा अंगुली पर चिपटे नहीं, (कल्क की बत्ती बन जावे) । तब समझ ले कि तैल सिद्ध हो गया यह समय है, तैल उतारने का; अब इसको उतार कर ठण्डा होने पर बड़े भारी बछ से छान कर एक शुद्ध, मजबूत पात्र में डाल कर, ढक्कन से ढांप कर, सफेद बछ से बोंध कर तारे से कस कर, गुस (सुरक्षित) स्थान पर रख देवे । इस तैल की मात्रा को रोग के अनुसार दीने के लिये (कृमि-रोगी को) देवे । इससे मली प्रकार विरेचन होता है । दोषों के भली प्रकार निकल जाने पर पहिले कही विधि करनी चाहिये । अनुवासन योग्य समय में उस तैल से अनुवासन देना चाहिये ।

एतेनैव च पाकविधिना सर्षपातसी-करञ्ज-कोषावकी-स्नेहानुपकल्प्य पाययेत्सर्वविशेषानवेक्ष्यमाणः । तेनागदो भवतीति ॥ २७ ॥

इसी पूर्वोक्त विधि से सरली, अलसी, कठुआ, कोषातकी ( तुरई ) का तैल बना कर सब परीक्षणीय वस्तुओं को देख कर कृमिन्-रोगी को तैल पिलावे । इस से रोगी नीरोग हो जाता है ॥ २७ ॥

इत्येतत् द्रव्यानां श्लेष्मपुरीषसंभवानां कृमीणां समुत्थान-संस्थान-स्थान-वर्ण-नाम-प्रभाव-चिकित्सित-विशेषा व्याख्याताः सामान्यतः ॥ २८ ॥

इस प्रकार से कफजन्य और पुरीषजन्य कृमियों के निदान, संस्थान, स्थान, वर्ण, प्रभाव और चिकित्सा सामान्य रूप में कह दी है ॥ २८ ॥

विशेषतस्त्वलप्यमात्रमास्थापनानुवासनानुलोभमहरणभूयिष्ठं तेष्वौषधे-घेषु पुरीषजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति । मात्राधिकं पुनः शिरोविरेचन-वमनोपशमन-भूयिष्ठं तेष्वौषधे-घेषु श्लेष्मजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति । एष कृमिद्वयो भेषजविधिरनुव्याख्यातां भवति ॥ २९ ॥

विशेष रूप से पुरीषजन्य कृमियों के लिये कही हुई वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, औषधियों में अल्पमात्रा में आस्थापन, अनुवासन और अनुलोभम-हरण, विरेचन बरतना चाहिये । मठजन्य कृमियों में बस्ति, विरेचन अधिक बरतना चाहिये । कफजन्य कृमियों में शिरोविरेचन, वमन और शमन अधिक देना चाहिये ॥ २९ ॥

तमनुतिष्ठता यथास्वद्देतुवर्जने प्रथतितव्यम् ॥ ३० ॥

यथोदैशमेवमिदं कृमिकोष्ठचिकित्सितं यथावदनुव्याख्यातं भवतीति ॥ ३१ ॥

इस विधि को बरतते हुए वैद्य को चाहिये कि रोगी को कृमि निदान से भी बचाये । इस प्रकार से पूर्व कथितानुसार कृमि-कोष्ठ चिकित्सा ( शोधन-शमन रूप ) को यथावत् पूर्ण रूप से कह दिया है ॥ ३०-३१ ॥

भवन्ति चात्र—अपकर्षणमेवाऽद्वयोः कृमीणां भेषजं स्मृतम् ।

ततो विधातः प्रकृतेनिदानस्य च वर्जनम् ॥ ३२ ॥

अयमेव विकाराणां सर्वेषामपि निप्रहे ।

विधिर्दृष्टिक्षिधा योऽयं कृमीनुहित्य कीर्तिरः ॥ ३३ ॥

संशोधनं संशमनं निदानस्य च वर्जनम् ।

यतावद्विषजा कार्यं रोगे रोगे यथाविधि ॥ ३४ ॥

कृमियों को प्रथम छींच कर निकालना हो औषध है । फिर प्रहति का नाथ, निदान का छोड़ना है यह विधि सब प्रकार के कृमियों के लिये है । इतना ही नहीं, अपितु सब रोगों के लिये है । इसलिये वैद्य को चाहिये कि

प्रत्येक रोग में सब विकारों में संशोधन, राशमन और निदान का स्थाग यह तीन प्रकार की चिकित्सा करे ॥ ३२-३४ ॥

तत्र स्लोको—व्याधितौ पुरुषौ ज्ञाह्नौ भिषजौ सप्रयोजनौ ।

विश्विः कूमयस्तेपा हेत्वादिः सप्तको गणः ॥ ३५ ॥

उक्तो व्याधितरूपीये विमानं परमपिण्डा ।

शिष्यसंबोधनार्थं च व्याधिप्रशमनाय च ॥ ३६ ॥

व्याधि से पीड़ित दो प्रकार के पुरुष विज्ञ (जानने वाले) और अश (मूढ़), इनका प्रयोजन (जानने वाले से सिद्धि और मूढ़ से रोगवृद्धि या मृत्यु), बीस प्रकार के कृमि, इन के हेतु, संस्थान वर्ण, प्रभाव, नाम और चिकित्सा ये सात वार्ते, भगवान् आचेय ने शिष्य को समझाने के लिये तथा रोग की शान्ति के लिये इस विमान स्थान में कह दी है ॥ ३५-३६ ॥

इत्यग्निवेशकृते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने

व्याधितरूपीयविमानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः।

अथातो रोगभिषगिज्जीव्यं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'रोगभिषगिज्जीव्य' नामक अध्याय को व्याख्यान करेंगे। जैसा कि भगवान् आचेय ने कहा था ॥ २ ॥

बुद्धिमानात्मनः कार्यगुरुलाघवे कर्मफलमनुबन्धं देशकाली च विदित्वा युक्तिदर्शनाद् भिषग्बुमूषुः शास्त्रमेवाऽदितः परोक्षेत । विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके । तत्र यन्मन्येत सुमहद्यश-स्विधीरपुरुषासेवितमर्थबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविधशिष्यबुद्धितमप-गतपुनरुक्तदोषमाप्तं सुप्रणीतसूत्रभाष्यसंमदक्रमं स्वाधारमनवपतित-शब्दमकष्टशब्दं पुष्टकलाभिधानं क्रमागतार्थमर्थतत्त्वविनिश्चयप्रधानं संगतार्थमसंकुलप्रकरणमाशुप्रबोधकं लक्षणवच्चोदाहरणवच्च, तदभिप्रप-द्येत शास्त्रम् । शास्त्रं ह्येवं विधममल इवाऽदित्यस्तमो विध्य प्रकाशयति सर्वम् ॥ ३ ॥

शास्त्र-परीक्षा—बुद्धिमान् पुरुष अपने कार्य के गौरव (बहुत प्रशास से साध्य) एवं छापत (अत्यं प्रशास से साध्य), कर्मों के फल, अनुबन्ध

( कर्मजन्य शुभ-अशुभ फल ), देश एवं काल को जान कर तथा युक्ति को देख कर यदि वैद्य बनने की इच्छा करे तो सब से प्रथम शास्त्र की ही परीक्षा करे, क्योंकि वैद्यों के नाना प्रकार के शास्त्र लोक में प्रचलित हैं । इन में से जो शास्त्र निम्नलिखित गुणों वाला हो, उसे पढ़ने के लिये स्वीकार करे ।

शास्त्र के गुण—शास्त्र सूख बड़ा, असंक्षिप्त, यशस्वी, धीर पुरुषों से उप-सेवित, माननीय, योड़े से शब्दों में बहुत अर्थ को बताने वाला, आस जनों से अनुमत ( निर्दोष ), उत्तम, मध्यम और अधिम इन तीन प्रकार के शिष्यों की तीनों प्रकार की बुद्धि के लिये योग्य, सब जिस को समझ सकें, पुनरुक्ति दोष से रहित, शृणियों से बनाया, सुप्रणीत ( अच्छी प्रकार ग्रथित किया हो ), जिस में सत्र ( संक्षेप में अर्थों का ग्रहण ) भाष्य ( विस्तार से वर्णन ), और प्रतिपाद्य विषयों को क्रम से कहा हो, सुन्दर अधिकारणों वाली, ग्राम्य शब्दों से रहित, कठिन दुर्बोध या बोलने में कठिन शब्दों से रहित, भली प्रकार से बहुत तत्त्व बताने वाला, ( क्रम से उद्देश्य क्रम से अर्थों को बताने वाला ), वस्तुतत्त्व को सन्देह से रहित, निश्चित तत्त्व को बताने वाला, संगतियुक्त अर्थों को बताने वाला, अव्यवस्थित, बेमेल मिले हुए प्रकरणों से रहित; सुनते ही स्पष्ट अर्थज्ञान कराने वाला, लक्षण और उदाहरण वाला हो, ऐसा शास्त्र अध्ययन के लिये चुनना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार बादल आदि से रहित, निर्मल सूर्य अन्धकार को दूर करके सब पदार्थों को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार शास्त्र अज्ञान को दूर करके सब अर्थ-तत्त्व को प्रकाशित कर देता है ॥ ३ ॥

ततोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत । तदथा—पर्यवदातश्रुतं परिदृष्टक-  
र्माणं दक्षं दक्षिणं शुचिं जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्नं प्रकृ-  
तिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञमनुप्रस्तुतविद्यमनहङ्कृतमनसूयकमकोपनं झेशशमं  
शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति । एवंगुणो शाचार्यः सुक्षेत्रमा-  
र्त्त्वो मेघ दृष्ट सस्यगुणोः सुशिष्यमाशु वैद्यगुणोः संपादयति ॥ ४ ॥

आचार्य का लक्षण-शास्त्र की परीक्षा करने के अनन्तर आचार्य की परीक्षा करे । यथा—वह निर्मल शास्त्रज्ञान से समझ हो, जिसने कर्म को उचित शीति से देखा हो, केवल शास्त्र ही न पढ़ा हो, प्रत्युत वह कर्म में क्रुशल, शुचि ( पवित्र ), शास्त्र आदि क्रिया में बशी, तिद्वाहस्त, नाना उपयोगी उपकरणों वाला, सब इन्द्रियों से युक्त, रोगी की प्रकृति को पहचानने वाला, उत्तम सूत वाला, रोगों की चिकित्सा को समझने वाला, अन्य शास्त्रों के ज्ञान से प्रकट स्वरूप विद्या वाला, अभिमान से रहित, गुणों में दोष न देखने वाला, क्रोध-

रहित क्लेश सहन करने वाला, शिष्य से प्रेम-भाव रखने वाला, शास्त्र के तत्त्व को बतलाने में समर्थ आचार्य होना चाहिये । जिस प्रकार ठीक श्रूतु अनुसार वरणा हुआ मेघ दत्तम क्षेत्र को धान्यों से सम्पन्न कर देता है उसी प्रकार उक्त गुणों वाला आचार्य शिष्य को निर्मल ज्ञान आदि दैवत के गुणों से शीघ्र सम्पन्न कर देता है ॥ ४ ॥

तमुपसृत्यारिराधयिपुरुपचरंदग्निवच्च दंशवच्च राजवच्च पितृवच्च  
भर्तृवच्चवाप्रमत्तः । ततस्तत्प्रनादात्कृत्स्नं शास्त्रमधिगम्य, शास्त्रस्य दृढ-  
तायामभिधानसौष्ठुदेऽर्थस्य विज्ञाने वचनशक्तो च भूयो भूयः प्रयतेत  
सम्यक् ॥ ५ ॥

उपरोक्त गुणों वाले आचार्य के पात्र जाप सेवा करने की इच्छा से शिष्य अग्नि, देव, राजा, माता, पिता और स्वामी के समान प्रभादरहित होकर उस की सेवा करे । तब उस की प्रशंसना ने सभौर्ण शास्त्र को जान कर शास्त्र का दृढ़ करने में, शास्त्र को उत्तम रौप्ति से प्रबन्धन करने में, शास्त्र के अर्थ जानने में और वाक्-चातुर्वद ( बोलने का पहुँचा प्राप्त करने ) में लगातार भली प्रकार से प्रयत्न करे ॥ ५ ॥

तत्रोपाया व्याख्यास्यन्ते—अध्ययनमध्यापनं तद्विद्यसंभाषा  
चेत्युपायाः ॥ ६ ॥

शास्त्र को दृढ़ करने आदि के उपायों का वर्णन करते हैं । वे उपाय ये हैं—( १ ) अध्ययन ( पढ़ना ), ( २ ) अध्यापन ( पढ़ाना ) और ( ३ ) उस विद्या के विद्वानों से वाचालाप करना ॥ ६ ॥

**तत्रायमध्ययनविधिः—कल्पः** कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्यूषं वा कृत्वा  
अवश्यकमुपसृश्योदकं देवगो-ब्राह्मण-गुरु-दृढ़-सिद्धाचायभ्यो नम-  
स्कृत्य समे श्रुत्वा देशे सुखोपविष्टो मनःपुरःसरीभिर्वाग्मिः सूत्रमनुपरि-  
क्रामनुपुनःपुनरावत्येद् बुद्ध्या सम्यग्नुप्रविश्यार्थतत्त्वं स्वदाषपरिहार-  
परदोषप्रमाणार्थम् । एवं सम्यग्निदेऽपराह्ने रात्रो च शश्वदपरिहापयन्न-  
ध्ययनमङ्ग्यस्येदित्यध्ययनविधिः ॥ ७ ॥

इस शास्त्र की अध्ययन विधि यह है—नोरोग, समय में, नियमन्तर्वक प्रातःकाल उपःकाल में उठ कर शौचादि आवश्यक कर्मों को करके, पानी का आचमन स्नान आदि जलकार्य करे, पीछे देव, परमेश्वर ऋषि, गाँ, ब्राह्मण, गुरु, दृढ़, सिद्ध एवं आचार्य इनको नमस्कार करके समान ( न ऊचे और न नीचे ) एवं पवित्र स्थान पर सुखपूर्वक बैठकर मनोयोग पूर्वक बाणी से बार-बार सूत्रों का उच्चारण करता हुआ खूब समझ कर, अर्थ-तत्त्व में झुक्कि द्वारा

प्रवेश करके, ( भली प्रकार समझ कर ) अपने अध्ययन के दोष को ल्यागने और दूसरे के अध्ययन के दोषों के शान लिये एकान्त में बैठ कर अध्ययन करे । इस प्रकार से मध्याह्न और राति में निरन्तर अध्ययन ( किसी दिन को भी विना स्थाग किये, ) प्रतिषिद्ध दिनों को छोड़कर, अन्याय करे ॥ ७ ॥

**अथाध्यापनविधिः—**अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमादितः परीक्षेत् । तद्यथा—प्रशान्तमार्यप्रकृतिमङ्गद्रकमर्णमृजुचक्षुमुख्लनासावंशं तनुरक्तविशदजिह्मविकृतदन्तौष्ठमभिषिमणं धृतिमन्तमनहृकृति मेधाविनं वित्कस्मृतिसंपन्नमुदारसत्त्वं रद्विद्यकुलजमथवा तद्विद्ययुक्तं तत्त्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापनेन्द्रियं निभृतमनुद्धतवेशमन्यस्तनिनं शील-शौचाचारानुराग-दाक्षय-प्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाममर्थविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमलुव्यमनलसं सर्वं भूतहितेषिणमाचार्यं सर्वानुशिष्टप्रतिकरमनुरक्तमेवंगुणसुदितमध्याप्यमेवमाहुः ।

अब अध्यापन-विधि कहते हैं—पढ़ाने की इच्छा करने वाले आचार्य को सबसे प्रथम शिष्य की परीक्षा करनी चाहिये । यथा—शिष्य सौभ्य आकृति, शान्त, नीच स्वभाव से रहित, कमीने स्वभाव का न हो, नीच कर्म न करने वाला, सरल मुख, आँख और नासिका वाला, पतली ढाढ़ वर्ण, स्पष्ट जिहा वाला, दांत और झोड़ों के विकार से रहित, नाक से अनुनासिक न बोलने वाला, संतोषी या वैर्यवान्, अहंकार रहित, भेषावी, वितर्क ( ऊहायोह ) स्मृति ( याददास्त ) से युक्त, उदारचित्त वाला, वैश्यकूल में या वैद्य वृत्ति करने वाले माता पिता से उत्पन्न, वैद्य के समान आचार वाला, तत्त्व के ग्रहण में दक्षिचित्त, अविकल अंगों वाला, सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त, निमृत ( विनीत ), अनुदृत, अर्थ-तत्त्व को विचारने वाला, अकेषी, व्यसनरहित, शील ( उच्चरित्रता ) शौच ( शूद्धि ) आचार, अनुराग ( पढ़ने से स्नेह ) रखने वाला, दक्षता, प्रादक्षिण्य सर्वत्र अनुकूलता इन गुणों से युक्त, कर्म दर्शन और क्षर्य के जानने में अन्य कर्म रहित, दक्षिचित्त लोभरहित, अप्रमादी, सब प्राणियों में मंगल कामना करने वाला, आचार्य के सब उपदेशों को यथावत् करने वाला और भक्तिमान् हो; इन गुणों से युक्त शिष्य को पढ़ाना चाहिये । ( इन गुणों से रहित शिष्य को पढ़ाने में आचार्य को भी यह नहीं मिलता । )

**एवं विधमध्ययनार्थं युपस्थितमारिराधयिषुमाचार्यश्चानुभावेत्—**अथोदगच्छने शुब्लपक्षे प्रशरते इनि विष्य-हस्त-श्रवणाश्चयुजामन्यवस्थेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि कल्याणे; कल्याणे च करणे मैत्रै मुहूर्चे मुण्डः स्नातः कृतोपबासः कथायवस्थसंबीतः समिघोऽग्निमास्य-

मुपलेपनमुद्कुम्भाश्चगन्धहस्तो माल्य-दाम-प्रदीप-हिरण्य-हेम-रजत-मणि-  
मुक्ता-विद्वम-क्षौम-परिधि-कुश-लाज-सर्पपाक्षतांश्च शुक्राश्च सुमनसोप्रथि-  
ताप्रथितांश्च मेघ्याश्च भक्षयान् गन्धाश्च घृष्णानादायोपतिष्ठस्वेति । अथ  
सोऽपि तथा कुर्यात् ॥ ८ ॥

इन उपरोक्त गुणों से युक्त अध्ययनार्थ शिष्य के सेवा में उपस्थित होने पर  
आचार्य उसे कहे—कि “तू उत्तरायण ( माघ आदिके शुक्र पक्ष में, प्रशत्स्त दिव्य  
उत्तम तिथि, बार से युक्त दिन में, तिथ्य, हस्त, श्रवण, अविनी इनमें से किसी  
एक नक्षत्र के साथ कल्याणकारी करण और सुन्दरप्रद मुहूर्च के अनुकूल होने  
पर, मुण्डन करा, उपवास और स्नान करके, कलाय बस्त धारण करके, हाथों में  
सुगन्ध ( घूर्ष ), समिधा, अग्नि, धी, उपलेपन ( चन्दन आदि ), जल के घड़े,  
माढ़ा, हार, स्वर्ण, रजत, मोती, प्रवाल ( मूँगा ), खोन ( रेशम ), द्वनकुण्ड  
के चारों पाश्वों में रखने योग्य हस्तप्रमाण के पदाशादि समिधा, कुशा, लाजा,  
सरसों, अष्टत, श्वेत, गुर्धे और ग्रन्थन रहित ( हुटे, अनविष्ट ) पुष्प-माला,  
पवित्र खाद्य पदार्थ ( तिळ से बने लड्हू आदि ), जिसे हुई चन्दन, आदि  
सुगन्धों को लेकर उपस्थित हो ॥”

वह शिष्य उसी प्रकार से करे ॥ ८ ॥

तमपस्थितमाज्ञाय शुभे शुद्धो देशे प्राक्प्रवणे उदकप्रवणे वा चतु-  
ष्किङ्कुमात्रं चतुरस्त्र स्थणिङ्गल गांमयादेकनोपलिम् कुशास्तोणि सुपरिहितं  
परिधिभिश्चतुर्दिर्शयथोक्त-चन्दनोदक-कुम्भ-क्षौम-हेम-हिरण्य-रजत-मणि-  
मुक्ता-विद्वमालङ्कुतं मेघ्य-भक्ष्य-गन्ध-शुक्र-पुष्प-लाज-सर्पपाक्षतोपशो-  
भितं कृत्वा, तत्र पालाशामिरेहुदीभिर्मायुकीभिर्वा समिद्विरग्निसुपसमा-  
धाय प्राङ्गुखः शुचिरध्ययनांवाधमनुविधाय मधुसर्पिभ्यर्या त्रिक्षिर्जुहु-  
यादग्रिमाशीःसंप्रयुक्तैर्मन्त्रैर्व्वाणमग्निं धन्वन्तरिं पजापतिमश्विनवावि-  
न्द्रमृषीश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूर्वं स्वाहेति ॥ ९ ॥

दीक्षा-जिस समय अध्ययनार्थी शिष्य समिधा आदि वस्तुओं को लेकर  
आचार्य के पास उपस्थित हो उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में  
पूर्व या उत्तर दिशा में चार हाथ प्रमाण चौकोर जगह को गोबर और पानी  
से लेप कर इस पर कुशा बिछा दे । इसके चारों ओर से भली प्रकार बेष्टि  
कर दे । इसके चारों ओर चन्दन, पानी के घड़े, रेशम, स्वर्ण, चांदी, मणि,  
मुक्ता, मूँगा आदि पवित्र भक्ष्य, गन्ध, श्वेतपुष्प, लाजा, सरसों, अष्टत आदि  
वस्तुएं सजा देवे । इसमें पलाय ( ढाक ), इंगुट ( हिंगोट ), गूलर,

मदुर आदि किसी एक वृक्ष की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित करके पवित्र एवं पूर्वमुख बैठ कर अथ्यन विधि ( वेदारम्भ विधि ) के अनुकूल आशीर्वाद में प्रयुक्त मन्त्रों द्वारा ब्राह्मण, अग्नि, धन्वन्तरि, प्रजापति, दो अश्वी, इन्द्र, और सूत्रकार शूष्मियों ( भरद्वाज आदि ) को पहिले मन्त्रों से आह्वान करके स्वाहा शब्द के साथ मधु ( शहद ) और वी प्रत्येक से तीन तीन बार आहुति दे ॥ ६ ॥

शिष्यश्चैनमन्वालभेत्, हुत्वा च प्रदक्षिणमप्निमनुपरिकामेत् ।  
ततोऽनुपरिकम्य ब्राह्मणान् स्वरित वाचयेत्, भिषजश्चाभिपूजयेत् ॥ १०॥

आचार्य के होम कर चुकने पर पीछे शिष्य भी होम करे । इनकरके अग्नि की तीन परिकमा करे । पीछे ब्राह्मणों की परिकमा करके स्वस्तिवाचन करे और वेदों की पूजा करे ॥ १० ॥

अथैनमप्निसकाशे ब्राह्मणसकाशे भिषक्सकाशे चानुशिष्यात्—  
ब्रह्मचारिणा इमश्रुधारिणा सत्यवादिनाऽमांसादेन भेद्यसेविना निर्म-  
त्सरेणाशब्दधारिणा च भवितव्यं, न च ते मद्वचनास्तिकचिदकायं  
स्यादन्यत्र राजद्विष्टात्प्राणहराद्विपुलादधर्म्यादनर्थसंप्रयुक्ताद्वाऽप्यर्थात्  
मदर्पणेन भत्प्रधानेन मदधीनेन भत्प्रियहितानुवर्तिना च शश्वद्  
भवितव्यं, पुत्रवहासवद्यिव्योपचरताऽनुवस्तव्योऽहमनुत्सुकेनावहिते-  
नानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्यकारिणाऽनसूयकेन, न चानभ्यनुज्ञातेन  
प्रविचरितव्यं, अनुज्ञातेन प्रविचरता पूर्वं गुर्वर्थोपान्वाहरणे यथा-  
शक्ति प्रयतितव्यं, कर्मसिद्धिमर्थसिद्धि यशोलाभं प्रेत्य च स्वर्गमि-  
च्छुरा त्वया गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभूतां शर्माऽशासितव्यम-  
द्वरहरच्चिष्ठता चोपविशता च, सर्वात्मना चाऽतुराणामारोपयं प्रयति-  
तव्यं, जीवितहेतोरपि चाऽतुरेभ्यो नाभिद्रोगवन्यं, मनसाऽपि च पर-  
ख्यो नाभिगमनीयास्तथा सर्वमेव परस्वं, निभृतवेशपरिच्छुदेन  
भवितव्यमशौङ्घेनापापेनापापसहायेन च श्लक्षण-शुक्ळ-धर्म्य-धन्य-सत्य-  
शर्म्य-हित-मित-वचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानात्थानोपक-  
रणसंपत्सु नित्यं यत्नवता, नच कदाचिद्वाजद्विष्टानां राजद्वेषिणां वा  
महाजनद्विष्टानां महाजनद्वेषिणां वाऽप्यौषधमनुविधातव्यं तथा सर्वे-  
षामत्यर्थ-विकृत-दुष्ट-दुःख-शीलाचारोपचाराणामनपवादप्रतीकाराणां  
मुमूष्णां च तथैवासंत्रिहितेश्वराणां खीणामनध्यक्षाणां वा, नच कदा-  
चित्खीदत्तमाभिषमादातव्यमनुज्ञातं भर्त्राऽथवाऽध्यक्षेण, आतुर-  
कुलं चानुप्रविशता त्वया विदितेनानुमतप्रवेशिना सार्वे पुरुषेण

सुसंबीरेनावाकशरसा स्मृतिमता स्तिमितेनावेश्यावेश्य मनसा सर्व-  
माचरता बुद्ध्या सम्यग्नुप्रवेष्टव्यं, अनुप्रविश्य च वाह्मनोबुद्धान्द्रि-  
याणि न कचित्प्रणिधातव्यान्यन्यत्राऽतुरोपकारार्थाद्वाऽतुरगतेऽन्व-  
न्येषु वा भावेषु, न चाऽतुरकुलप्रवृत्तयो वहिनिश्चारयितव्याः, ह्वसितं  
चाऽऽयुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयितव्यं जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमा-  
नमातुरस्यान्यस्य वाऽप्युपचानाय संपदते, विज्ञानवताऽपि च नात्यर्थ-  
मात्मानो ज्ञाने विकल्पितव्यं, आप्नादपि हि विकल्पमानादृत्यर्थमुद्ग्रि-  
जन्त्यनेके ॥ ११ ॥

आचार्य का शिष्य को उपदेश—इसके अनन्तर आचार्य उस शिष्य को  
अग्रि, आज्ञण और वैद्यो के समझ ( इन ही सांख्यिक रूप में ) निम्न उपदेश देवे ।  
तुश्चो व्रह्माचारी, इमश्वाचारी, सत्यवादी, पवित्रमोऽन्नी, मात्स्तर्यरहित, निरामिष-  
भांजी, निःशङ्ख होकर रहना चाहिये । तुश्चको नंदी आज्ञा से हाँ सब कुछ करना  
चाहिये, परन्तु राजविषद्ध, प्राणनाशक, बहुत बड़ा अवर्म या अनर्थ का काम  
हो तो वह काम मेरी आज्ञा से भी नहीं करना चाहिये । तुश्चको मुक्त्वा अपंग  
करके, मेरी प्रधानता से, मेरे अधीन रह कर, मेरे पित्र और मेरे हितकारी रह  
कर सदा वरतना चाहिये । पुत्र पिता की, भूत्य स्त्रामी की, अर्थी धनी की  
जिस प्रकार से सेवा करते हैं, वैसे तुश्चे मेरी सेवा करनी चाहिये । उल्मुकता-  
रहित, दत्तचित्त, सावधान, एकाग्र मन से, नग्न होकर, चार २ देल कर कार्य  
करना चाहिये । तुश्चे निन्दा से रहित और मेरी आज्ञा से विचरना-वूमना  
चाहिये । मेरी आज्ञा से या विना मेरी आज्ञा के घूमने पर भी तुश्चे प्रथम मुक्त  
गुरु के लिये अर्थ ( धन ) लाने का प्रयत्न करना चाहिये । चिकित्सा कर्म में  
उफलता, धनप्राप्ति, यश-लाभ और परलोक में स्वर्ग की कामना से तुश्चे गा-  
ब्राक्षण का प्रथम संस्कार कर अन्य सब प्राणियों की मंगल कामना करना  
चाहिये । प्रति दिन उठते-बैठते, जागते सब अवस्थाओं में, सब समय में,  
सम्पूर्णरूप से राणियों के कल्प्याण के लिये यज्ञवान् रहना चाहिये ( रोगी का  
दुःखित करके जाविका नहीं कमानी चाहिये ) । मन से भा पर खो की चाह न  
करनी चाहिये । इसी प्रकार दूसरे के धन को मन से भी नहीं चाहना चाहिये ।  
विनीत ( नग्न वेश ) वज्रो वाला होना चाहिये ( उदत वेश नहीं पहिनना  
चाहिये ) । प्रमाद रहित, स्वयं पापरहित, तथा पापकर्म में साथी  
नहीं हाना चाहिये । कोमल, निर्देश, धर्मानुकूल, मुखकारक, सत्य, हितकारी,  
परिमित वाणी बोलने वाला तथा, देशकाल को विचार कर काम करने वाल्य,

स्मृतिमान् होना चाहिये । ज्ञान और अन्युदय के उपकारणों को प्राप्त करने में सदा यत्कावान् रहना चाहिये । राजा जिनसे द्वेष करता है, अथवा जो राजा से द्वेष करते हैं, महाजन ( चडे आदमी ), जिनसे द्वेष करते हैं, अथवा जो महाजनों से द्वेष करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिनके शील ( स्वभाव ) और आचार अत्यन्त निकृष्ट और दुष्ट हो, अल्पवाद, प्रतिकार, धनरहित ( जनपदोद्धरण में कहे हुए ) लोगों की तथा मरणोन्मुख रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिन स्त्रियों का पति अथवा संरक्षक पाप में न हो, उन की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । स्त्रियों से दिये धन को पति या संरक्षक के पूछे बिना कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिये, ( उनकी आशा से ही ग्रहण करना चाहिये ) । रोगी के घर जाते समय चेतावनी देकर, आशा मिलने पर दूसरे पुष्ट के साथ उत्तम विनम्र वेश को पहिने हुए शिर को नीचे किये जाना चाहिये । जाते समय स्मृतिमान्, स्थिर मन से भली प्रकार स्त्रीच विचार कर जो कुछ करना हो, भली प्रकार से घर में पहुंच कर करना चाहिये । घर में जा कर रोगी के उपकार के सिवाय रोगी से सम्बन्धित अथवा चिकित्सा से अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाणी, मन, बुद्धि और इन्द्रियों को नहीं लगाना चाहिये । रोगी के घर के रहस्यों को बाहर नहीं करना चाहिये । जहाँ पर कहने से किसी अन्य प्राणी के मरने की सम्भावना हो, वहाँ पर मरणोन्मुख लक्षणों से रोगी की आयु का क्षय जानने पर भी नहीं कहना चाहिये । ज्ञानवान् होने पर भी अर्थने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सत्यमात्री, आस, विद्वान् होकर भी अपने मूल से अपनी प्रशंसा करने वाले से अनेक लोग बहुत उद्दिः हो जाते हैं ॥ ११ ॥

न चैव ज्ञाति सुतरभायुर्वेदस्य पारं, तस्मादप्रमत्तः शश्वदभियो-  
गमस्मिन् गच्छेत् । एतच्च कार्यं, एवं भूयश्च वृत्तासौष्ठवमननुसूयता-  
परेभ्योऽप्यागमयितव्यं, कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतगामाचार्यः । शत्रुशा-  
बुद्धिमताम्, अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमताऽमित्रस्यापि धन्यं यशस्यम-  
युष्यं पौष्टिकं लोकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यं चेति ॥१२॥

आयुर्वेद ज्ञान की कहीं पर समाप्ति नहीं है । इसलिये इस आयुर्वेद के ज्ञान उपकार करने में सदा प्रगादरहित होकर निरन्तर मनोयोग देवे । यहाँ कहे हुए कार्य संगपूर्ण रूप से करने चाहिये । इस प्रकार करते हुए निन्दारहित होकर दूसरे लोगों से भी ( शास्त्र के सिवाय ) अन्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि बुद्धिमानों का संगपूर्ण संकाव आचार्यवत् है और मूर्खों का वह शत्रु है । अतः

ठीक २ जान कर बुद्धिमान् मनुष्य को हत्रु के भी धन्य, यथकारी, आयुष्य, पौष्टि और लौकिक वचन को सुनना चाहिये और तदनुसार करना चाहिये॥१२॥

अतः परमिदं ब्रूयात्—देवताग्निं-द्विजातिं-गुरुं-वृद्धं-सिद्धाचार्येषु ते नित्यं सम्यग्वर्तितव्यम् । तेषु ते सम्यग्वर्तमानस्यायमग्निः सर्वगन्धरस-रब्रवीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः । अतोऽन्यथा वर्तमानस्या-शिवायेति ।

इसके आगे निम्न प्रकार से उपर्युक्त देवे—‘देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्य इनकी प्रतिदिन भली प्रकार से सेवा करनी चाहिये । इन देवताओं की भली प्रकार से सेवा करने पर गह तेरे सामने उपस्थित अग्नि सब प्रकार के गन्ध, रस, रत्न, बोज और पूर्वोक्त देवता आदि सब तेरे ठिये मंगलकारी होंगे ।’

एवं ब्रह्मति च॥४५चार्येण शिष्यस्तथेति ब्रूयात् । तद्यथोपदेशं च कुर्वन्न-ध्याप्ये इत्येः, अतोऽन्यथा त्वनध्याप्यः । अध्याप्यमध्यापयन् ह्याचार्यो यथोक्तेश्चाध्यापनफलैर्योगमाप्नोत्यन्यैश्चातुक्तेः श्रेवम्करंगुणेः शिष्यमा-त्मानं च युतक्ति । इत्युक्तावध्ययनाध्यापनविद्वी यथावत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार से आचार्य के कहने पर शिष्य भी ‘तथास्तु’ कह कर स्वीकार करे । आचार्य उपदेशानुसार करने वाले शिष्य को पढ़ावे और न करने वाले को नहीं पढ़ावे । पढ़ाने के योग्य शिष्य को पढ़ाने से ही आचार्य को अध्या-पन-कार्य का योग्य फल उचित लाभ मिलता है और यहाँ न कहे हुए दूसरे, अनेक श्रेष्ठस्त्रर गुणों से शिष्य को और अपने को भी युक्त करता है । इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन विधि कह दी ॥ १३ ॥

अध्ययनाध्यापनविधिवत्संभाषाविधिमत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः—  
भिषक् भिषज । सह संभाषेत, तद्विद्यसंभाषा हि ज्ञानाभियोगसंदर्शकरी भवति, वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्तयति, चचनशक्तिमपि च॥४६धत्ते, यशश्चा-भिदीपर्यति, पूर्वश्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् संशयमपर्कर्पति, श्रते चासंदेहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिर्वर्तयति, अश्रुतमपि च कंचिदैर्घ्यं श्रोत्रविषयमापादयति, यद्वाचाऽर्थः शिष्याय शुश्रूषै ग्रसन्नः क्लेणो-पदिशति गुह्याभिमतमर्थजातं तत्परस्परेण सह जल्पन् विण्डेन विजि-गीषुराह संहर्षात्, तस्मात्तद्विद्यसंभाषामभिप्रशंसन्ति कुशलाः ॥ १४ ॥

संभाषणविधि—अध्ययन-अध्यापन विधि के समान ही अब संभाषणविधि का वर्णन करते हैं । वैद्य वैद्य के साथ संभाषण करे । इयोंकि उसी विद्या को

जानने वाले के साथ संभाषण करने से ज्ञान और हर्य को प्राप्त करता है, ज्ञान की चतुरता उत्पन्न करता है, बोलने की शक्ति पैदा करता है, यथा को बढ़ाता है, अध्ययन काल में पहिले सुने शब्द या अर्थ में ज़रा संदेह होता है, उसको मिटाता है। और संदेह रहित बस्तु में और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लेता है अध्ययन काल में गुरुमुख से न सुना हुआ भी कुछ विषय यहाँ पर सुनने में आता है और आचार्य की सेवा करने वाले शिष्य के लिये जो गोपनीय बस्तु ( अर्थ ) प्रसन्न होकर गुरु बताता है, उस गोपनीय बात को यह दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हुए अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये, जीतने की इच्छा से सार रूप में प्रसन्नतापूर्वक प्रकट कर देता है। इसलिये दुदिमान् लोग ~उस विद्या में निपुण विद्वान् से संभाषण करने की प्रशंसा करते हैं ॥ १४ ॥

द्विविधा तु खलु तद्विद्यासंभाषा भवति—संघाय संभाषा, विगृह्ण संभाषा चेति ॥ १५ ॥

‘तद्विद्या- संभाषण’ अर्थात् उस विद्या के बेत्ता पुष्प से भाषण दो प्रकार का है । ( १ ) संघाय संभाषा—संघि अर्थात् परस्पर मेल करके प्रेमपूर्वक संभाषण करता, अनुलोम संभाषण है । ( २ ) विगृह्ण संभाषा—विग्रह करके, दूसरे को पराजित करने के अभिप्राय से संभाषण करता प्रतिलोम-संभाषण है ॥ १५ ॥

तत्र ज्ञान-विज्ञान-वचन-प्रतिवचन-शक्ति-संपन्नेनाकोपनेनोपस्कृतविश्वेनानसुयकेनानुयेनानुनयकोचिदेन फ्लैशक्षमेन प्रियसंभाषणेन च सह संघाय संभाषा विधायते । तथाविधेन सह कथयन्विश्वव्यधः कथयेत्, पृच्छेदपि च विस्त्रयः, पृच्छते चास्ये विस्त्रब्धाय विशदमर्थ ब्रूयात्, न च निग्रहभयादुद्वजेत, निगृह्ण चेनं न हृष्येन्न च परेषु विकर्थेत, न च मोहादेकान्तप्राही स्यात्, न चाविदिवमर्थं तमनुवर्णयेत्; सम्यक् चानुनयेनानुनयेच, अनुनये तत्र चावहितः स्यादित्यनुलोमसंभाषा-विधिः ॥ १६ ॥

अनुलोम संभाषण की विधि—ज्ञान ( शास्त्रज्ञान ), विज्ञान, वचन ( पूर्व-पक्ष ), प्रतिवचन ( उत्तरपक्ष ) कहने में समर्थ, कोध से रहित, अविहृत विद्या वाले, अनिन्दक, अनुनय के योग्य, अनुनय को जानने वाले, फ्लैशसंहिष्णु, प्रिय बोडने वाले पुष्प के साथ संविष्ट करके संभाषण करते हुए विश्वासपूर्वक ( विना संकोच या भय के ) बातचीत करे और जो कुछ पूछना हो वह विश्वा-सपूर्वक पूछे । इस प्रकार के पुष्प के आगे पराजय के भय से न बचपाए और

स्वयं भी प्रतिवादी का पराजय करके प्रसन्न न हो। दूसरे के आगे अपनी ढींग न करे, अपनी प्रशंसा न दीं करे। मोहवश केवल लेने वाला ही न बने। न जाने हुए विषय का वर्णन नहीं करे। प्रतिवादी से किये अनुनय के सामने विनीत होवे। दूसरे के अनुनय में सारधान रहे। यह 'अनुचेत-संभाषण विधि' है ॥ १६ ॥

अत ऊर्ध्वमितरेण सह दिगृष्टं संभाषायां जलपेत् श्रेयसा योगमात्मनः पश्यन्; प्रागेव च जलगज्जलवान्तरं परावरान्तरं परिष्ठ्रिष्ठेयांश्च सम्यकपरीक्षेत् । सम्यक् वर्गीज्ञाहि तुद्विमानां कार्यं रवृत्तिनिरवृत्तिकालौ अंसति, तस्मात्परीक्षामभिप्रश्नानन्ति कुग्राङ् । परीक्षुवाणम्तु खलु परावरान्तरमिमाञ्जलकगुणान् श्रेयस्करान् दोषवतश्च परोक्षेत् सम्यक् । तथाथा—श्रुतं विज्ञानं धारणं प्रतिभानं वचनशक्तिरिष्येतान् गुणान् श्रेयस्करानाहुः । इमान्पुनर्दोषवतः, तथाधा—कोमनस्तमवैशारदां भीरुत्वमधारणत्वमनवहितत्वमिति । एहान्द्रूयानपि गुणान् गुरुस्ताववतः परस्य चैवाऽस्तमनश्च तोलयेत् ॥ १७ ॥

**विश्वास-संभाषा**—इसके अनन्तर 'विश्वास संभाषा' का वर्णन करने हैं। पुरुष अपना श्रेय ( विद्योक्तरं आदि ) योग देखता हुआ प्रतिवादी के साथ 'विश्वास संभाषण' करे। इनमें जल ( वाद-विवाद ) से पूर्ण ही जल्प के लक्षण, जल्प के गुण दोष, प्रतिवादी और अपने गुण दोष, और परिषद् के गुण दोषों को भली प्रकार से देख लेवे। क्योंकि भली प्रकार का हुई पराक्षा तुद्विमानों को कार्य में प्रवृत्त होने और निवृत्त होने का काल बता देती है। इसलिये कुशल लोग परीक्षा की प्रशंसा करते हैं।

अपने और प्रतिवादी के गुण-दोषों की परीक्षा करने में, इन श्रेयस्कर और अश्रेयस्कर जलगुणों की परीक्षा करनी चाहिये। जैसे—गुड्मुख से शाक्क का श्वरण, विज्ञान, ( अवशेष ), धारण ( मन से धारण करना ), प्रतिभान ( प्रतिभा, प्रत्युत्पन्नमति ) और बोलने की धक्कि का होना—इन गुणों को श्रेयस्कर कहते हैं और इन निम्नलिखित गुणों को अश्रेयस्कर अर्थात् दोषयुक्त कहते हैं। जैसे—क्रोध करना, अगणित्य, भासृता, अनभ्याप दत्तचित्ता न होना, ये दोष हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों को अपने में तथा प्रतिवादी में तुलना करके न्यून-अधिक रूप से देखना चाहिये ॥ १७ ॥

**तत्र त्रिविधः परः संपद्यते,-प्रवरः प्रत्यवरः समो वा गुणविनिष्ठे-पतः, नत्वेव कात्स्य्येन ॥ १८ ॥**

इनमें प्रतिवादी तीन प्रकार का होता है—( १ ) प्रवर ( उच्चम ), ( २ ) प्रत्यवर ( हीन ) और ( ३ ) सम ( समान ) । ये मेद शुत, विज्ञान आदि गुणों के परिमाण से होते हैं, कुल, शील आदि मेद से नहीं ॥ १८ ॥

परिषत्तु खलु द्विविधा,-ज्ञानवती, मूढपरिषद्; सैव द्विविधा सती त्रिविधा पुनरनेन कारपविभागेन-सुहृत्परिषद्, उदासीनपरिषत्, प्रति-निविष्टपरिषद्वचेति ॥ १९ ॥

परिषद् अर्थात् सभा दो प्रकार की होती है, ज्ञानवती और मूढ़ । यही दो प्रकार की परिषद् शब्द, मित्र और उदासीन कारण से तीन प्रकार की हो जाती है । ( १ ) सुहृत्परिषद्, ( २ ) उदासीनपरिषद्, ( ३ ) प्रतिकूलनिविष्टपरिषद् ( विरोधियों की परिषद् ) ॥ २० ॥

तत्र प्रतिनिविष्टायां परिषदि ज्ञान-विज्ञान-वचन-प्रतिवचन शक्तिसंप-  
न्नायामपि मूढायां वा न कथंचित्केनचित्सह जल्पो विधीयते, मूढायां तु  
सुहृत्परिषदि उदासीनायां वा ज्ञान-विज्ञान-वचन-प्रतिवचन-शक्तिसंप-  
न्नरेणाप्यदीप्यशसा महाजनद्विष्टेन सह जल्पो विधीयते, तद्विषेन च सह  
कथयता आविद्धूर्धसूत्रसंकुर्लेवर्क्यदण्डकः कथयितव्यं, अतिहृष्टं सुहृ-  
मुहृष्टपृष्ठसतापरं, निरूपयता च परिषदमाकारैः, ब्रुवता चास्य वाक्यावका-  
फ्सो न देयः । कष्टशब्दं च ब्रवता वक्तव्यो 'नोच्यते' इति, अथवा पुनः 'हीना  
ते प्रतिज्ञा' इति, पुनश्चाऽऽहृष्टमानः प्रतिवक्तव्यः—'परिसंवत्सरो भव, शिक्ष-  
स्व तावत्, पर्याप्तमेतावत्', सकदपि हि परिक्षेपिकं निहतं निहतमाहु-  
रिति नास्य योगः कर्तव्यः कथंचित्; अप्येवं श्रेयसा सह विगृह्य वक्तव्य-  
मित्याहुरेके; न त्वेवं ज्यायसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति कुशङ्काः ॥ २० ॥

इनमें से शब्द-परिषद् अथवा मूढ़-परिषद् में ज्ञान-विज्ञान, वचन-प्रतिवचन की शक्ति होने पर भी किसी उच्चम, हीन वा समान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से जल्प ( विवाद ) नहीं करना चाहिये । मूढपरिषद् में, वा मित्रपरि-  
षद् में, या उदासीनपरिषद् में ज्ञान-विज्ञान और वचन-प्रतिवचन शक्ति के विना भी, प्रज्वलित कीर्ति से रहित और अनेक जनों के देवयात्र ( जिसका पक्ष कोई नहीं करे ) ऐसे पुरुष के साथ जल्प किया जा सकता है । इस प्रकार के पुरुष के साथ संभाषण करते हुए, टेहेमेहे लम्बे सूत्रों से युक्त लम्बे २ वाक्यों से भाषण करना चाहिये । सूत्र प्रसन्न होते हुए, प्रतिवादी की बार-बार हँसी करते हुए, आकार-चेष्टा आदि से परिषद् का ध्यान खींचते हुए और बोलनेको उत्थत हुए प्रतिवादी को थोड़ने का अवसर नहीं देना चाहिये । दुर्बोध अर्थ या

बास्य को कहते हुए उसके बोलने के लिये कहना चाहिये कि 'नहीं कहते अथवा तेरी प्रतिज्ञा होन है।' और यदि वह फिर वाद-विवाद के लिये बुलावे तो उसको कहना चाहिये कि—“एक साल और अधिक गुप्त के पास पहुँच, तेरे लिये इतना ही पर्याप्त है।” एक बार पराजित हुए प्रतिज्ञादों को पराजित ही कहते हैं। अतः किर इसके पश्च का प्रश्न नहीं करना चाहिये। एक बार प्रतिपक्षों को पराजित करके पुनः उसे अवधार नहीं देगा चाहिये। कुछ आनायों का मत है कि इस प्रकार अग्रने से श्रेष्ठ से भी प्रतिज्ञाम जवाब कर लेना चाहिये परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य अग्रने से श्रेष्ठ के साथ प्रतिज्ञाम (विगृह) संभाषण की इच्छा नहीं करते ॥ २० ॥

प्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतेन वा विगृह्य जलसत्। सुदृश्वरिवदि कथयितव्यं, अथवाऽप्युदासीतपर्पदे अवधान-अवण ज्ञान-विज्ञानापवा-रण-चवन-शक्ति-संपन्नायां कथयता चार्वाहितेन परस्य सादगुण्यदोषवलम्-वेक्षितव्यं; समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रेष्ठं मन्येत्, नास्य तत्र जल्पं योजयेद्वान्-विष्कृतमयोर्गं कुर्वन्; यत्र त्वेनमवर्तं मन्येत् तत्रवेनमाशु निगृहीयात्।

अपने से हीन या अपने समान प्रतिवादी के साथ सुदृश्वरिवदि, उदासीन परिषद् या सूढ़ परिषद् में विगृह्य संभाषण करना चाहिये। अपने उदासीन परिषद् में अवधान, अवण, ज्ञान, उत्तरारण, वर्तन, प्रतिवर्तन शक्ति, आदि गुणों तथा क्रोध आदि दारी को अपने में और दूनरे में तुलना करके सावधानी से संभाषण करना चाहिये और पराक्षमा करके जिष वात में प्रतिज्ञादा को अपने से भेष्ट समझें, उस विषय में अपनी अशोक्तता को प्रकट न करते हुए जल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिये और जिस विषय में प्रतिज्ञादी को अपने से हीन उमड़े, उसमें इस हो शीत्रता से पकड़ लेना चाहिये।

तत्र खल्विसे प्रत्यवराणामाशु निप्रदे भवन्त्युसायाः; तथया—श्रुत-हीनं महत्वा सूत्राठेनाभिभवेत्, विज्ञानहीनं पुनः कष्टशब्देन वाक्येन, वाक्यधारणाहीनमाविद्वदीर्यसूत्रसंकुलैर्वाक्यदण्डकः, प्रतिभादीनं पुन-र्वचनेनैकविधेनानेकार्थवाचिना, वचनशक्तिहीनमवोक्तस्य वाक्यस्याऽऽ-क्षेपण, अविज्ञारदमप्लेपणेन, कोपनमायासनेन, भीरुं वित्रासनेन, अन-वहितं नियमनेन। इत्येवमेतत्रुपायैः परमवरमभिभवेत् ॥ २१ ॥

प्रतिवादी को शीत्र निप्रद करने के लिये निम्न उपाय हैं। जैसे—जिसने शास्त्र न पढ़ा हो उसको बड़े लम्बे २ सूत्र सुना कर पराजित करे। विशेष शान से हीन अतिदुर्बोध अर्थ वाले, किंड शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग करे।

अनम्यस्त शब्द वाले या अल्पबुद्धि के लिये बफ, लग्बे २ सूत्रों से बने बाक्षय का प्रयोग करे। प्रतिभा से हीन के लिये अनेकार्थवाची, अनेक प्रकार के वचनों का प्रयोग करे। वचन-व्यक्ति से हीन को आधे ही बाक्षय पर टोक दे। अपणिंदित या अचतुरु को ( जिसने कभी पहिले सभा नहीं देखी हो ) लज्जाजनक बाक्षयों से पराजित करना चाहिये, क्रोधी व्यक्ति को तंग करके, डरपोक को भय दिखला कर, जो सावधान न हो उसको मन के नियमन करने वाले वचनों से पराजित करे। इन नाना रूपायों द्वारा प्रतिवादी का शीघ्र पराजय करे ॥२१॥

तत्र श्लोक—विगृहा कथयेत्युक्त्या युक्तं च न निबारयेत् ।

विगृहाभाषा तीक्रं हि केषाचिद्द्रोहमावहेत् ॥ २२ ॥

नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते ।

कुशला नाभिनन्दनित कलहं सहिताः सताए ॥ २३ ॥

एवं प्रदृते वादे कुर्यात् ॥ २४ ॥

प्रतिलोम संभाषण करने का प्रकार—दूसरे के साथ दिग्गज-संभाषण करते हुए सुकिर्पूर्वक भाषण करे। युक्ति प्रमाणनुकूल दूसरे के वचन का नियेष नहीं करे। जल्प कई पुरुषों में तीव्र क्रोध उत्पन्न कर देता है। कुद्ध व्यक्ति के लिये कुछ भी अकार्य नहीं होता, वह कुछ भी कर सकता है। उसके लिये कुछ भी अवाच्य नहीं, वह सब कुछ दुराभ्ला भी कह सकता है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुष पञ्चनों की सभा में कलह को अच्छा नहीं समझते। बाद चलने पर इस प्रकार करे ॥ २२-२४ ॥

प्रागेव तावदिदं कर्तुं यतेत—संघाय परिषदाऽयनभूतमात्मनः प्रक-  
रणमादेशयितव्यं यद्वा परस्य भृशदुर्गं स्थात्, पक्षमयवा परस्य भृशं  
विमुखमानयेत् परिषदि, परिषदि चोपसंहितायामशक्यमस्माभिर्वक्तुम्,  
एवेव ते परिषद्यथेष्टुं यथायोगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्यादां च स्थाप-  
यिष्यतीत्युक्त्वा तृष्णीमासीत् ॥ २५ ॥

बाद प्रारम्भ होने से पूर्व निम्न बातें करने का यत्न करे। यथा—परिषद् ( सभ्यो ) से मिलकर अपने अभ्यास किये हुए प्रकरण वा विषय का निर्देश करे। अथवा जो प्रकरण वा विषय दूसरे को बहुत दुर्बोध हो उसे कहे अथवा दूसरे का पक्ष जो बहुत अधिक ज्ञानदा उत्पन्न करने वाला हो, वहां पर सभ्यों के बीच कहे। यदि परिषद् अपने विरोध में जान पड़े तो कहे कि—‘इस परि-  
षद् को तो हुमने पहिले ही मिलकर अपने पक्ष में कर दिया है, इसलिये हमारा बोलना असम्भव है। यह तो दुष्प्रारी घर की ही सभा है। जैसा चाहोगे, जैसा

बने, जैसा अभिप्राय हो, वह वैसा बाद, और वैसी बाद-मर्यादा को स्थापित करेगी,—ऐसा कह कर चुप हो जाये ॥ २५ ॥

तत्रेदं बादमर्यादालक्षणं भवति—इदं भवति वाक्यमिदमवाच्य-  
मेवं सति पराजितो भवत्वाति ॥ २६ ॥

बाद की मर्यादा—यह कहना, यह नहीं कहना, इस प्रकार से पराजय होता है. यह तीन बाद-मर्यादा के लक्षण कहाते हैं ॥ २६ ॥

इमानि तु खलु पदानि बादमार्गज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति ।  
तथाथा—बादः, द्रव्यः, गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः, प्रतिज्ञा,  
स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतुः, दृष्टान्तः, उगमनं, उत्तरं, सिद्धान्तः,  
उपनयः, शब्दः, प्रत्यक्षं, अनुमातमेतिद्युर्मापनयं, संशयः, प्रयोजनं,  
सत्यभिचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, अर्थप्राप्तिः, संभवः, अनुयोजयं,  
अननुयोजयं, अनुयोगः, प्रत्यनुयोगः, बाक्यदोषः, वाक्यप्रशंसा,  
छलमहेतुरतीतकालमुपालभः, परिहारः, प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञा,  
हेत्वन्तरमर्थान्तरं, निग्रहस्थानमिति ॥ २७ ॥

बाद के मार्ग को समझने के लिये वेदों को निम्न चक्राल्स वाते समझ लेनी चाहिये । यथा—बाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धान्त, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, आपय, संशय, प्रयोजन, सत्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थप्राप्ति, संभव, अनुयोजय, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, बाक्यदोष, बाक्यप्रशंसा, छल, हेतु, अतीतकाल, उपालभ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, अर्थान्तर और निग्रहस्थान ॥ २७ ॥

तत्र बादो नाम—यत परः परेण सह शास्त्रपूर्वकं विग्रहा कथयति ।  
स बादो द्विविधः संप्रहेण—जल्पो वितण्डा च । तत्र पक्षाश्रितयोर्वचनं  
जल्पः, विपर्ययो वितण्डा । यथा—एकस्य पक्षः—पुनर्भवोऽस्तीति,  
नास्तीत्यपरस्य । तौ च हेतुभिः स्वस्वपक्षं स्थापयतः, परपक्षसुद्वावयतः,  
एष जल्पः । जल्पविपर्ययो वितण्डा, वितण्डा नाम—परपक्षे दोप-  
वचनमात्रमेव ॥ २८ ॥

बाद का लक्षण—शास्त्र के अनुसार जो परस्पर विग्रहा भाषण है वह बादका कहाता है । यह संक्षेप से दो प्रकार का है । जल्प और वितण्डा । इनमें

बाद का लक्षण—‘प्रमाणतर्कसाधनोपालभः सिद्धान्ताविशदः पञ्चा-  
षयोपपत्तिः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो बादः । न्यायदर्शन १ । २ । ४२ ।

पक्ष और प्रतिपक्ष का आश्रय करके जा वाद किया जाता है, उसका नाम ‘जल्प’ है। इससे विपरीत ‘वितण्डा’ है। जैसे एक व्यक्ति का पक्ष है कि पुनर्जन्म होता है, और दूसरे का पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। ये दोनों नाना हेतुओं से अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं और प्रतिवाधक प्रमाणों से दूसरे के पक्ष का निराकरण करते हैं। इसका नाम ‘जल्प’ है। जल्प से विपरीत वितण्डा है, परपक्ष में केवल दोष दिखाना ‘वितण्डा’ होता है ॥२८॥

**द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः स्वलक्षणैः श्लोकस्थाने पूर्वमुच्चाः ॥ २९ ॥**

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इनमें से प्रत्येक का लक्षण स्वत्स्थान में कह आये हैं ॥ २९ ॥

अथ प्रतिज्ञा । प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम् । यथा नित्यः पुरुष इति ॥ ३० ॥

प्रतिज्ञा—साध्य वचन का नाम ‘प्रतिज्ञा’ होते हैं। जैसे पुरुष नित्य है ॥३०॥

अथ स्थापना । स्थापना नाम तस्य एव प्रतिज्ञाया हेतुहष्टान्तो-पन्थनिगमन्तः स्थापना । पूर्व हि प्रतिज्ञा पश्चात्स्थापना, किं ह्यप्रतिज्ञातं स्थापयिष्यति । यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा । हेतुः—अकृतकत्वादिति । हष्टान्तः—अकृतकमाकाशं तच्च नित्यम् । उपनयो यथा—चाकृत-कमाकाशं तथा पुरुषः । निगमनं—तस्मान्नित्य इति ॥ ३१ ॥

स्थापना—इसी प्रतिज्ञा के हेतु, दृष्टान्त, उपनय, और निगमन द्वारा सिद्ध करने का नाम ‘स्थापना’ है। प्रथम प्रतिज्ञा होती है, फिर उसकी स्थापना की जाती है। बिना प्रतिज्ञा के किस वस्तु की स्थापना करेगा। जैसे पुरुष नित्य है यह प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु—उत्तरित न होने से। दृष्टान्त-आकाश, जिसे किसीने उत्पन्न नहीं किया और वह नित्य है। उपनय—जिठ प्रकार अनुत्पन्न आकाश है इसी प्रकार पुरुष है। निगमन—इसलिये पुरुष भी नित्य है ॥३१॥

अथ प्रतिष्ठापना—प्रतिष्ठापना नाम या परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थ-स्थापना, यथा—अनित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा । हेतुः—ऐन्द्रियकत्वात्, हष्टान्तः—घट ऐन्द्रियकः, स चानित्यः, उपनयो—यथा घटस्तथा पुरुषः । निगमनं—तस्मादनित्य इति ॥ ३२ ॥

+ ‘योक्तोपच्छिद्धजातिनग्रहस्थानसाधनोपाळमो जह्यः । स प्रतिपक्ष-स्थापनाहीनो वितण्डा । न्याय द० १ । २ । ४३ । ४४ ।

क साध्यस्य वचनं प्रतिज्ञा । न्याय द० १ । १ । ३२ ।

प्रतिष्ठापना—दूसरे बादी से प्रतिशा के विपरीत अर्थ की स्थापना करना प्रतिष्ठापना कहलाता है। पुरुष अनित्य है, यह विपरीतार्थ प्रतिशा है। इसमें हेतु—इन्द्रियग्राह्य होने से। दृष्टान्त—घड़ा इन्द्रियग्राह्य है, वह अनित्य है। उपनय-जिस प्रकार घड़ा है उसी प्रकार पुरुष भी अनित्य है। निगमन—इसे लिये पुरुष अनित्य है ॥ ३२ ॥

अथ हेतुः—हेतुर्नामोपलब्धिकारणं, तत्प्रत्यक्षमनुमानमैति॒ज्ञामौपम्य-  
मिति । एभिर्हेतुभिर्यदुपलभ्यते, तत्त्वम् ॥ ३२ ॥

हेतु-साध्य के उपलब्धि अर्थात् ज्ञान का कारण हेतु है ४४। प्रत्यक्ष, अनु-  
मान, ऐतिहासिक और उपमान ये भी उपलब्धि (ज्ञान) के साधन हैं। इन हेतुओं (प्रमाणों) से जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह तत्त्व अर्थात् ज्ञान है ॥ ३३ ॥

उपनयो निगमनं चोक्तं स्थापनाप्रतिष्ठापनाव्याख्याम् ॥ ३४ ॥

उपनय और निगमन को स्थापना और प्रतिष्ठापना की व्याख्या में कह दिया है ॥ ३४ ॥

अथोत्तरं—उत्तरंनाम साधम्योपदिष्टे वा हेतो वैधर्म्यवचनं, वैधम्यो-  
पदिष्टेवा साधर्म्यवचनं। यथा—हेतुसधर्माणो विज्ञाराः, शीतकस्य हि व्याधे-  
हेतुसाधर्म्यवचनं—हिमशिशिरवात्संसरशो इति ब्रुवतः परो ब्रूयात्—हेतु-  
विधर्माणो विकाराः, यथा शरीरावयवानां दाहोष्यकोथप्रपचने हेतु-  
वैधर्म्यं हिमशिशिरवात्संसरशो इति; एतत्सविर्वयमुत्तरम् ॥ ३५ ॥

उत्तर—हेतु में साधर्म्य दिखाने पर वैधर्म्य दिखाना अथवा हेतु में  
वैधर्म्य दिखाने पर साधर्म्य दिखाना ‘उत्तर’ है। कोई कहे—विकार (रोग)  
हेतु (कारण) के समान धर्म (तुल्य धर्म) वाले होते हैं। यथा शीतजन्य  
रोगों में कारण के तुल्य धर्म हेमन्त शिदिर की बायु का शीत संस्पर्श हो इस  
पर प्रतिपक्षी कहे कि रोग हेतु के विशदधर्म (अतुल्य धर्म) वाले होते हैं।  
जैसे—शरीरावयवों के जलने में, गरम होने में, सहने में, पकने में हेतु (कारण)  
से असमान धर्म वाले हेमन्त, शिदिर को बायु का सर्वांगी है। यह विपरीत  
उत्तर है ॥ ३५ ॥

अथ दृष्टान्तः—दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यं, यो वर्ण्य-

४४ ‘उदाहरणसाधम्यात् साध्यसाधनं हेतुः। तथा वैधम्योत्। न्याय०  
११। १। ३५-३५।

वर्णयति, यथा—अग्निरुद्धो द्रवसुदकं स्थिरा पृथिवी आदित्यः प्रकाशक इति, यथा चाऽऽदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यवचनं प्रकाशकमिति ॥३६॥

इष्टान्त—जिसमें विद्वान् अविद्वान् दोनों की बुद्धि समान है, उसका नाम इष्टान्त है । जिस वस्तु का वर्णन करना होता है, उसका उसी प्रकार की वस्तु से वर्णन करते हैं । यथा—अग्नि उष्ण है, जल द्रव है, पृथिवी स्थिर है, सूर्य प्रकाशक है, इन बातों को मूर्ख भी उसी प्रकार समझता है, जिस प्रकार एक विद्वान् समझता है । जिस प्रकार सूर्य प्रकाशक है, उसी प्रकार सांख्य ज्ञान भी प्रकाशक है । यहां पर सांख्य ज्ञान साध्य 'वर्णय' है । इसको आदित्य के इष्टान्त से सिद्ध करते हैं ॥३६॥

अथ सिद्धान्तः—सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकैर्वहुविधं परीक्ष्य हे-  
तुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स सिद्धान्तः, स चोकश्चतुर्विधः,—  
सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतिवन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तोऽप्युपगम-  
सिद्धान्त इति ।

सिद्धान्त—जिस को परीक्षको ने बहुत प्रकार से परीक्षा कर हेतुओं द्वारा सिद्ध कर निर्णय रूप से स्थापित कर दिया है वह निर्णय 'सिद्धान्त' है । यह सिद्धान्त चार प्रकार का है । (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, (२) प्रतिवन्त्र सिद्धान्त, (३) अधिकरण सिद्धान्त और (४) अभ्युपगम सिद्धान्त ।

तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम—सर्वतन्त्रेषु यत्प्रसिद्धम् । सन्ति व्याधयः सन्ति सिद्धयुपायाः साध्यानामिति ।

(१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त—सब तंत्रों ( शास्त्रों ) में ( उस सम्बन्ध के ) जो सिद्धान्त प्रसिद्ध हो, उनका नाम सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । यथा—निदान हैं, साध्य रोग हैं, रोगों का दूर करने के भी उपाय हैं, ये बातें सब तंत्रों में प्रसिद्ध हैं ।

प्रतिवन्त्रसिद्धान्तो नाम तरिमिस्तस्मिस्तन्त्रे तत्त्वप्रसिद्धं, यथा—अन्यत्राण्ठौ रसाः पठत्र, पञ्चेन्द्रियाणि यथाऽन्यत्रान्यत्र षड्हेन्द्रियाणि । बातादिकृताः सर्वविकारा यथाऽन्यत्र बातादिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धाः ।

(२) प्रतिवन्त्र सिद्धान्त—उसी विशेष तंत्र में जो तत्त्व प्रसिद्ध हों और तंत्रों में अप्रसिद्ध हो, उसका नाम प्रतिवन्त्र सिद्धान्त है । यथा—एक तंत्र में रस आठ प्रकार के हैं, और इस तंत्र में रस छः प्रकार के हैं । एक तंत्र में पांच इन्द्रियाँ हैं, अन्य तंत्र में छः इन्द्रियाँ मानी हैं ( मन को भी इन्द्रिय गिनते हैं ) अन्य तंत्रों में सब रोग बात आदि दोषजन्य ही माने गये हैं । एक तंत्र में रोगी

क्षे कौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं सदृष्टान्तः ॥ न्याय० १। १। २५॥

का कारण वात आदि दोष तथा पंच महाभूत वा सूक्ष्म कीट-प्राणियों को भी माना है।

अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिन् यस्मन्नधिकरणे संस्तूयमाने सिद्धान्यन्यधिकरणानि भवन्ति, यथा—न मुक्तः कर्मनुवन्धिकं कुरुते; निस्पृहत्वादिति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफलमाभ्युपुष्टप्रेत्यभावा भवन्ति।

(३) अधिकरण सिद्धान्त—जिस जिस अधिकरण के उपस्थित करने पर अन्य न कहे हुए अधिकरण भी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उसका नाम अधिकरण सिद्धान्त है। यथा—मुक्त पुरुष निःस्पृह होने से फलजनक कर्म नहीं कर सकता। इस अवस्था में कर्मफल, मोक्ष, पुरुष और प्रेत्यभाव से प्रकरण भी स्वयं सिद्ध होते हैं। क्योंकि यदि कर्मफल न हो तो मुक्तु भी कर्म करें। कर्मफल से उद्दिग्द होकर ही वे कर्म नहीं करते। यदि मोक्ष हो तो मुक्त ऐसा नाम हो। यदि पुरुष न हो तो बन्ध और सोऽप्त किए।

अम्युपगमसिद्धान्तो नाम—यमर्थमनिद्वपरीक्षिनभनुपदिष्टमहे-  
तुकं वा वादकालेऽम्युपगच्छन्ति भिषजः। तथथा—द्रव्यं न प्रधानमिति  
कृत्वा वक्ष्यामः, गुणः प्रधाना इति कृत्वा वक्ष्यामः, इत्येवमादिश्च-  
तुर्विधः सिद्धान्तः ॥ ३७ ॥

(४) अम्युपगम विद्यधान्त—जिसको विना सिद्ध किये, विना परीक्षा किये और विना हेतु आदि बतलाये ही विद्यादकाल में वय लोग स्वाक्षर कर ले रहे हैं, वह अम्युपगम सिद्धान्त है। यथा—द्रव्य का प्रधान न मानकर सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके आगे विवाद करें। इसी प्रकार गुण को प्रधान मान कर, कर्म का प्रधान मानकर वाद आरम्भ करें। ये चारों प्रकार के सिद्धान्त कह दिये हैं। ३७।

अथ शब्दः—शब्दो नाम वर्णसमानायः, स चतुर्विधः—दृष्टार्थश्चा-  
दृष्टार्थश्च सत्यश्चानुतश्चेति ।

शब्द—वर्णों के समानाय (उपूढ़) का नाम शब्द है। यह चार प्रकार का है। यथा (१) दृष्टार्थ, (२) अदृष्टार्थ (३) सत्य और (४) अनृत ।

तत्र दृष्टार्थः—त्रिभिर्हेतुभिर्दोषाः प्रकृत्यन्ति षडभिरुपकमैश्च प्रशा-  
म्यन्ति, श्रोत्रादिसदूभावे शब्दादिप्रहणमिति ।

(१) दृष्टार्थ—तीन कारणों (असामयेन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराख और परि-  
ज्ञाम ) से वात आदि दोष कुपित होते हैं। वे छोड़करों ( वृंदण, लंघन, स्लैहन, रूक्षण, स्वेदन और स्तम्भन ) से शान्त होते हैं। भोत्र आदि इन्द्रियों

के होने पर शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है। इन वाक्यों का अर्थ यहां प्रत्यक्ष होता है, देखा जाता है।

**स दृष्टार्थः पुनः—अस्ति प्रेत्यभावोऽस्ति मोक्ष इति ।**

( २ ) अदृष्टार्थ—जैसे प्रेत्यभाव अर्थात् ( पुनर्जन्म ) है और मोक्ष है, यह अदृष्ट अर्थ है।

**सत्यो नाम यथार्थभूतः—सन्त्यायुर्वेदोपदेशाः, सन्त्युपायाः साध्यानां, सन्त्यारम्भफलानीतिः, सत्यविपर्ययाचानृतः ॥ ३८ ॥**

सत्य—यथार्थ जैसा हो वैषा कहना सत्य है। यथा आयुर्वेद का उपदेश है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय हैं। आरम्भ फल अर्थात् कर्मों के फल होते हैं। सत्य से विपरीत अनृत ( मिथ्या ) है ॥ ३८ ॥

**अथ प्रत्यक्षं—प्रत्यक्षं नाम तथादात्मना पञ्चेन्द्रियैश्च स्वयमुपलभ्यते । तत्राऽत्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेषादयः, शब्दादयस्त्वन्द्रियप्रत्यक्षाः ॥ ३९ ॥**

प्रत्यक्ष—आत्मा और इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान स्वर्णं प्राप्त किया जाता है, उसका नाम प्रत्यक्ष<sup>१</sup> है, इनसे सुख, दुःख, हङ्घा, द्वेष आदि आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, शब्द आदि विषय श्रोत्र आदि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ॥ ३९ ॥

**अथानुमानं—अनुमानं नाम तर्को युक्त्यपेक्षः । यथोक्त्तम्—अग्निं जरणशक्त्या, बलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिग्रहणेन्तेवमादि ॥ ४० ॥**

अनुमान—युक्ति की अपेक्षा करने वाला तर्क अनुमान है। कार्यकारण भाव के ज्ञान से अविज्ञात अर्थ को जानना तर्क है। यथा—जीर्ण करने की शक्ति से अग्नि का, व्यायाम शक्ति से बल का, शब्दादि के ग्रहण करने से श्रोत्रादि इन्द्रियों का अनुमान किया जाता है ॥ ४० ॥

**अथैतिहां—ऐतिहां नामाऽप्तोपदेशो वेदादिः ॥ ४१ ॥**

ऐतिहां—ऐसा इदं पुरुषों ने कहा था यह ‘ऐतिहां’ है। आस-वचन का नाम ऐतिहां है। यथा आस-वचन वेद आदि ॥ ४१ ॥

**अथौपम्यं—ओपम्यं नाम यदन्येनान्यस्य सादृश्यमधिकृत्य प्रकाशनं, यथा—दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुष्टम्भस्य, इष्वासिना आरोग्यदस्येति ॥ ४२ ॥**

१ इन्द्रियार्थसंज्ञिकर्वोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । न्याय० १ । १४ ।

**औपम्य** ( उपमा )—साहश्य को देखकर एक प्रिंड बस्तु का प्रकाशन करना 'उपमा' है । जैसे दण्डे से दण्डक नाम ( वातव्याधि ) रोग बतलाया है । धनुष द्वारा धनुस्तम्भ ( जिसमें धनुष के समान शरीर मुड़ जाता है, ऐसा धनुर्वात रोग बतलाया है ) और धानुष्क ( तीर चलाने वाले ) का उदाहरण देकर आरोग्यता देने वाले वैद्य का प्रयोजन बतलाया है ( खुट्टाक चतुष्पाद अध्याय ६० में ) ॥ ४२ ॥

**अथ संशयः**—संशयो नाम संदेहलक्षणानुसंदिग्धेष्वर्थेष्वनिश्चयः । यथा—दृष्टा ह्यायुष्यलक्षणोपेताश्चासुपेताश्च तथा मक्रियाश्चक्रियाश्च पुरुषाः शीघ्रभङ्गाश्चरजीविनश्च, पतुभयद्वित्वात्मंशयः—किञ्चु स्वल्प-काञ्छमृत्युरस्त्युत नास्तीति ॥ ४३ ॥

**संशय**—संदिग्ध अर्थों में निश्चय का न होना संशय है । जैसे क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं है ! आयुष्मान पुरुषों के लक्षणों से युक्त एवं इन लक्षणों से रहित किंवा चिकित्सा क्रिया के बिना और चिकित्सा करने पर भी शीघ्र मरने वाले तथा देर तक जीने वाले दोनों प्रकार के पुरुष देखे जाते हैं । दोनों प्रकार की अवस्थाओं के देखने से संशय होता है कि क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहो है ॥ ४३ ॥

**अथ प्रयोजनं**—प्रयोजनं नाम यदृथमारभ्यन्त आरम्भाः । यथा—यद्यकालमृत्युरस्त ततोऽहमात्मानमायुष्येरुपचरिष्याम्यनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, कथं मामकालमृत्युः प्रसहेतेति ॥ ४४ ॥

**प्रयोजन**—जिसके लिये कर्मों का आरम्भ किया जाता है वह 'प्रयोजन' है । जैसे यदि अकाल मृत्यु है, तो मैं आयु के लिये हितकारी पथों द्वारा अपने शरीर की रक्षा करूँगा । आयु का नाश करने वाली अपथ वस्तु का परित्याग करूँगा । फिर किस प्रकार से मुक्षप अकाल मृत्यु आक्रमण कर सकती है ? ॥ ४४ ॥

**अथ सन्यभिचारं**—सन्यभिचारं नाम यदून्यभिचरणः; यथा—भवेद्विष्मौषधं तस्मिन् व्याधौ योगिकमथवा नेति ॥ ४५ ॥

**सन्यभिचार**—व्यभिचार एकत्र अव्यवस्था, अनिश्चितता, अनेकों में प्रवृत्त होना ही सन्यभिचार है । यथा—इस रोग में इस औषध का योगिक

१ समानानेकघर्मोपचरोः विप्रतिपचेरुपदब्यनुपलब्धव्यवस्थातद्वच विशेषा-पैष्ठो विमर्शः संशयः ॥ न्याय ० १ । १ । ४१ ॥

अर्थात् योग के अनुकूल होना। वा विपरीत भी होना सम्भव है, इव प्रकार एकान्त निश्चय न होना 'स्वयमिचार' कृ है ॥ ४५ ॥

अथ जिज्ञासा—जिज्ञासा नाम परीक्षा; यथा भेषजपरीक्षोऽसार-कालमुपदेश्यते ॥ ४६ ॥

जिज्ञासा—प्रमाणो द्वारा अर्थ की परीक्षा करना 'जिज्ञासा' है। यथा भेषज परीक्षा जो आगे कहेंगे ॥ ४६ ॥

अथ व्यवसायः—व्यवसायो नाम निश्चयः, यथा वातिक एवायं व्याधिः, इदभेवास्य भेषजमिति ॥ ४७ ॥

व्यवसाय—निश्चय का नाम 'व्यवसाय' है। यथा—यह रोग वार्तजन्य ही है, और इस रोग की यही आधिक है ॥ ४७ ॥

अर्थार्थप्राप्तिः—अर्थप्राप्तिर्नाम यत्रेकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुकरण सिद्धिः; यथा—नायं संतर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः—अप-तर्पणसाध्योऽयमिति, नानेन दिवा भोक्तव्यमित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः—निश्च भोक्तव्यमिति ॥ ४८ ॥

अर्थप्राप्तिः—एक कहे हुए अर्थ से दूसरे न कहे हुए अर्थ का जिससे ज्ञान हाजाय उसका नाम अर्थप्राप्ति है। यथा यह रोग से तर्पणसाध्य नहीं है, यह कहने पर पता लग जाता है कि यह रोग अतर्पण साध्य है। इसको दिन में भोजन नहीं देना चाहिये, ऐसा कहने पर शात ही जाता है कि रात्रि में भोजन देना चाहिये ॥ ४८ ॥

अथ संभवः—संभवो नाम यो यतः संभवति स तस्य संभवः; यथा—षद् धात्रो गर्भस्य, व्याघेरहितं हितमाराग्यस्येति ॥ ४९ ॥

संभव—जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका संभव अर्थात् कारण है। जैसे छः धातु (पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश और चेतना) गर्भ का उत्पन्न में कारण हैं। इसी प्रकार अहित-सेवन रोगी की उत्पन्न में, हित-सेवन आरोग्यता की उत्पत्ति में कारण हैं ॥ ४९ ॥

अथानुयोज्य—अनुयोज्य नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तदनुयो-ज्यमुच्यते, सामान्योदाहृतेष्वर्थेषु वा विशेषप्रहणार्थं यद्वाक्यं तदनुयोज्यं;

३५ न्यायदर्थन में सब्धमिचार को हेत्वाभास माना है। यह हेतु नहीं, परन्तु हेतु के समान दीखता है। यथा—'सःयमिचार-विषद्-प्रकरणसम-साध्यस-मादीतकाला हेत्वाभासः'। न्याय० १ । २ । ४५ ॥

यथा—संशोधनसाध्याऽयं व्याविरित्युक्ते किं वमनसाध्यः किं वा विरेचनसाध्यः ? इत्यनुयुज्यते ॥ ५० ॥

अनुशोध—जो वाक् वाक्य के न्यून आंदे दोतो से युक् होगा है, उसका नाम अनुयोध है। क्षीरि इस प्रकार का दायुक वाक्य प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अथवा सामान्य रूप में कहे हुए वाक्यार्थ में विशेष प्रदृश के लिये जो वाक्य कहा जाता है, वह भा अनुयोध होता है। यथा—यह रोग संशोधन से साध है, ऐता कहने पर वमनसाध्य है या विरेचनसाध्य है। यह और भी वक्तव्य शेष रह जाने से 'अनुयोध' है ॥ ५० ॥

अथाननुयोज्य—अननुयोज्य नामातो विपर्ययेग; यथा—अयम्-साध्यः ॥ ५१ ॥

अननुयोध—अनुयोध के विपरीत—रास्ते दोप से रहित वचन को 'अननुयोज्य' कहते हैं। यथा—यह रोग असाध्य है ॥ ५१ ॥

अथाननुयोगः—अनुयोगा नाम यत्तद्रियानां नद्रियोरेव सार्थं तन्त्रे तन्त्रैकदेशं वा प्रश्नः प्रश्नंकदेशा वा ज्ञान विज्ञान-वचन-प्रतिवचन-परीक्षार्थमादिश्यते । यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञाते, यत्वरः को हेतुरित्याह सोऽनुयोगः ॥ ५२ ॥

अनुयोग—विशेष विद्या बाले पुरुष का उसी (एह समान) विद्या बाले पुरुष के साथ ज्ञान, विज्ञान, प्रतिवचन शक्ति की परीक्षा के लिये समूर्ण उसी शास्त्र में अथवा उत्तर शास्त्र के किसी एक भाग में प्रश्न करना 'अनुयोग' कहता है। जैसे—एक ने प्रतिज्ञा को—पुरुष नित्य है। दूसरे ने पूछा—इसमें हेतु क्या है ? यह कहना अनुयोग है ॥ ५२ ॥

अथ प्रत्यनुयोगः—प्रत्यनुयोगो नामानुयोगस्यानुयोगः; यथा—अस्यानुयोगस्य पुनः का हेतुरिति ॥ ५३ ॥

प्रत्यनुयोग—अनुयोग का अनुयोग करना प्रत्यनुयोग है। जैसे—एक ने प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य है, दूसरे ने प्रश्न किया इसमें क्या हेतु है ? इस हेतु में क्या हेतु है ? ऐसा प्रश्न पर प्रश्न पूछना 'प्रत्यनुयोग है ॥ ५३ ॥

अथ वाक्यदोषः—वाक्यदोषो नाम यथा—खल्वस्मिन्नर्थे न्यूनमधिकमनर्थकमपार्थकं विरुद्धं चेति । तत्र प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं भवतानि, वह्निदिष्टहेतुमेकेन साध्यते हेतुना तच्च न्यूनम्, एतानि द्वान्तरेण प्रकृतोऽप्यथः प्रयश्येत् ।

वाक्यदोष—वाक्य में विशेष को दृष्टि से निम्न दोष होते हैं जैसे—न्यून, अविक्ष, अनर्थक, अर्थार्थक और विशदार्थ ।

न्यून—प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनमें से किसी एक से मी न्यून हो तो वह न्यून दोष गिना जाता है। अथवा जो वस्तु बहुत से हेतु देकर सिद्ध करनी चाहिये, उस वस्तु को केवल एक ही हेतु से सिद्ध किया जाये तो वह भी 'न्यून' दोष समझना चाहिये।

अथाधिकं—अधिकं नाम यदायुवेदे भाष्यमाणे बार्द्धस्पत्यमौशन्-समन्यद्वा यत्किञ्चिदप्रतिसंबद्धार्थमुच्यते। यद्वा पुनः प्रतिसंबद्धार्थम् । द्विरभिधीयते तत्पुनरुक्तव्यादधिकम् । तत्पुनरुक्तं द्विविधम् । अर्थ-पुनरुक्तं शब्दपुनरुक्तं च । तत्रार्थपुनरुक्तं नाम यथा—भेषजमौषधं साधनमिति, शब्दपुनरुक्तं नाम पुनः भेषजं भेषजमिति ।

अधिक-न्यून से विपरीत हेतु आदि उदाहरण अधिक हीं उसको अधिक कहते हैं। अथवा आयुवेद के विषय में बाहर्स्त्य, औशनस आदि अन्य अप्रासंगिक बातों का कहना, अथवा प्राकृत ( सम्बन्धित ) वस्तु को दो बार कहना यह भी पुनरुक्त होने से 'अधिक' ही होता है। यह पुनरुक्त दो प्रकार का है। जैसे—अर्थपुनरुक्त और शब्दपुनरुक्त । इनमें 'अर्थपुनरुक्त' दो प्रकार का है। जैसे—भेषज, औषध और साधन। 'शब्दपुनरुक्त' जैसे 'भेषज मेषज' है।

अनर्थकं नाम यदूचनमक्षरग्राममात्रमेव स्यात्पञ्चवर्गवश चार्थतो गृह्णते ।

अनर्थक—जिनका कहना पंचवर्ग ( छ ज ण न म ) के समान केवल अच्छर समूह ( वर्णमाला ) के रूप में होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसका नाम 'अनर्थक' है।

अथापार्थकं—अपार्थकं नाम यदर्थवच परस्परेण चायुज्यमानार्थकम् । यथा—चक्रनक्षवंशवज्ञनिशाकरा इति ।

अपार्थक—जब बहुतोंमें से प्रत्येक क्षब्द अर्थ बाला होकर भी वे सब परस्पर मिलकर किसी भी अर्थ को न बता सकें तब 'अपार्थक' दोष होता है। जैसे—चक्र, नक्ष, वंश, वज्ञ, निशाकर आदि। इनमें से प्रत्येक का पृथक् २ अर्थ है, परन्तु मिलने पर कोई संगत अर्थ नहीं निकलता ।

विरुद्धं नाम यदूष्टप्रान्तसिद्धान्तसमयैर्विरुद्धं, तत्र दृष्टान्तसिद्धान्तानुकूलसमयः पुनर्खिदा भवति, यथा—आयुवेदिकसमयो याङ्गिकसमयो मोक्षशाखिकसमय इति । तत्रायुवेदिकसमयश्चतुष्पादं भेषजमिति, याङ्गिकसमयः, आलभ्याः पश्च इति, सर्वभूतेष्वहिसेति मोक्षशाखिकसमयः । तत्र स्वसमयविपरीतमुच्यमानं विरुद्धं भवतीति वाक्यदोषः ॥ ५४ ॥

**विशद—**जो वाक्य दृष्टान्त, सिद्धान्त और समय के विपरीत हो। यह विशद तीन प्रकार का है, दृष्टान्त-विशद, सिद्धान्त-विशद और समय-विशद। इनमें दृष्टान्त और सिद्धान्त दोनों को पीछे कह चुके हैं।

**समयविशद्ध—**समय तीन प्रकार का है। यथा—(१) याजिक समय, (२) आयुर्वेदिक समय और (३) मोक्षशास्त्रिक समय। इनमें आयुर्वेदिक-समय जैसे—पेषन चतुष्पाद (भिषक्, द्रवद, उपस्थाता और रोगी) है। याजिक-समय जैसे—यजमान को चाहिये कि पशुओं का आलंभन कर। मोक्षशास्त्रिक समय जैसे—सब प्राणियों के प्रति अद्विष्ट वृत्ति रखें। इनमें अपने २ समय अर्थात् सिद्धान्त के विपरीत कहना 'विशद्ध' है। ये वाक्यदोष हैं ॥ ५४ ॥

**अथ वाक्यप्रशंसा नाम यथा; खल्वस्त्वन्नर्थं त्वन्यूनमनधिकम् र्थवदनपार्थकमविशद्मधिगतपदार्थं चेति यत्तद्राक्षमननुयोज्यमिति प्रशस्यते ॥ ५५ ॥**

**वाक्य प्रशंसा—**जिस वाक्य में न्यून और अधिक दोष न हों, जो अर्थवान् होकर भी अर्थात् और विशद्ध न हों और वदार्थ को कहने वाला तथा दूसरे से अनुयोज्य न हो ऐसा वाक्य प्रशंसायोग्य होता है, हसे वाक्यप्रशंसा कहते हैं।

**अथ छलं—**छलं नाम परिशठमर्थाभासमर्थकं वारप्रस्तुमात्रमेव तदृष्टिविधं वाक्छलं, सामान्यच्छलं च ।

**छल—**शट के प्रति बढ़ना के लिये अर्थ की भाँति दीखने वाले अनर्थक, वाणी मात्र को (दूसरे के बचन को नष्ट करने के लिये) प्रयुक्त करना 'छल' है। यह छल दो प्रकार का है ४ (१) वाक्छल और (२) सामान्य छल।

**तत्र वाक्छलं नाम यथा-कश्चिद् ब्रूयान्नवतन्त्रोऽयंभिपगिति । भिषग् ब्रूयाद्-नाहं नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति । परो ब्रूयात्—नाहं ब्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति, अपितु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्ब्रूयात्—न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रमनेकधाऽभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्राक्षछलम् ।**

**इनमें वाक्छल—**जैसे कोई कहे कि यह बैद्य तो नवतन्त्रों वाला है। बैद्य कहे कि मैं नव (नी) तंत्रों वाला नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं यह नहीं कहता कि तुम नी तंत्रों वाले हो, अपितु दुमने तंत्रों का नया ही अस्यास किया है। बैद्य कहे कि मैंने तंत्रों का नया उपचार नहीं किया अपितु अनेक बार किया है; यह वाक्छल है।

#### ४४ न्यायदर्शन में

'तत् विविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं च ।' न्याय० १ । २ । ५२ ।

'धर्मविकल्पनिदेशोऽर्थसदभावप्रतिवेध उपचारच्छलम् ॥' न्याय० १ । २ । ५५ ।

**सामान्यच्छलं** नामं यथा-व्याधिप्रशमनायौषधमित्युके परो ब्रूयात्-सत् सत्प्रशमनायेति । ( किनु ) भवानाह, सन् हि रोगः, सदौ-षधं, यदि च सत् सत्प्रशमनाय भवति, तत्र सन् हि कासः, सत् क्षयः, सत्प्रशमनायात्कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यतीति । एतत्सामान्य-च्छलम् ॥ ५६ ॥

**सामान्यच्छल-**जैसे—व्याधि को शान्त करने के लिये आ॒षध है, ऐसा कहने पर दूसरा कहे कि सत् वस्तु से सत् का प्रशमन होता है । यह आप कहते हैं । रोग भी सत् है । और आ॒षध भी सत् है । यदि सत् वस्तु से सत् वस्तु का प्रशमन होता तो तेरे मत में सत् कास से सत् क्षय का नाश होना चाहिये, क्योंकि सत् घर्म दोनों में समान है । कास भी सत् है क्षय भी सत् है । यह सामान्य छल है ॥ ५६ ॥

**अथाहेतुः-अहेतुर्नाम** प्रकरणसमः संशयसमो वर्ण्यसम इति ।

**अहेतु**—वास्तव में जो हेतु न हो । यह तीन प्रकार का है । जैसे—( १ ) प्रकरणसम, ( २ ) संशयसम और ( ३ ) वर्ण्यसम ।

तत्र प्रकरणसमो नामाहेतुर्था—अन्यः शरीरादात्मा नित्य इति पक्षे ब्रूयात्-यस्मादन्यः शरीरादात्मा तस्मान्नित्यः, शरोर्दृशनित्यमतो विधिमिणा चाऽऽत्मना भवितव्यमित्येष चाहेतुः, न हि य एव पक्षः स एव हेतुः ।

**प्रकरणसम अहेतु—**जैसे कोई कहे कि आत्मा शरीर से भिज है । इस पर दूरुरा कहे कि आत्मा शरीर से अहग है, इसकिये नित्य है; शरीर अनित्य है । इसकिये आत्मा को विधर्मी होना ही चाहिये, यह अहेतु है । क्योंकि जो पक्ष ( प्रातेशा वा साथ्य ) है वही हेतु नहीं हो सकता ।

**संशयसमो नामाहेतुर्य** एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः । यथा-अथयागुर्वेदकदेशमाह, किन्वचं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये परो ब्रूयात्-यस्मादयमायुर्वेदकदेशमाह तस्मान्निकित्सकोऽयमिति, न च संशयहेतुं विशेषयत्येष चाहेतुः, न हि य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुर्भवति ।

**संशयसम अहेतु—**जो हेतु संशय का कारण हो, वही हेतु संशय के नाश का भी कारण हो जाय । जैसे—किसीने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा, इसमें संशय हुआ कि यह चिकित्सक है या नहीं । इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि—चूंकि इसने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा है, इसकिये वह चिकित्सक है ।

संशय के नाश करने वाले हेतु का स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिये यह अहेतु है। क्योंकि जो हेतु स्वयं संशय का कारण है, वही संशय के नाश का कारण नहीं हो सकता।

वर्णसमो नामाहेतुर्यो वर्णाविशिष्टः। यथा परो ब्रूयात्-अस्पर्शत्वाद् बुद्धिरनित्या शब्दवदिति, अत्र वर्णः शब्दो बुद्धिरपि वर्णा, तदुभय-वर्णाविशिष्टत्वाद्वर्णसमोऽप्यहेतुः ॥ ५७ ॥

वर्णसम अहेतु—जो हेतु साध्य के समान असिद्ध होने से साध्य की मांति साधने योग्य होता है। जैसे किसी ने कहा कि बुद्धि अनित्य है, स्पर्श, न होने के कारण, शब्द की भाँति। इनमें बुद्धि साध्य है, शब्द भी साध्य है। इसलिये दोनों के असिद्ध होने से यह वर्णसम अहेतु है ॥ ५७ ॥

अथातीतकालं—अतीतकालं नाम यत्पूर्वं वाच्यं तत्पञ्चादुच्यते, तत्कालातीतत्वादप्राह्यं भवनीति । पूर्वं वा निग्रहप्राप्तमनिगृह्य पक्षान्तरं रितं पश्चात्निगृहीते तत्स्यातीतकालत्वान्निग्रहवचनमसमर्थं भवतीति ॥ ५८ ॥

अतीतकाल—जो यात पहिले कहनी चाहिये, उसको पीछे कहना ‘अतीतकाल’ है। समय के व्यतीत होने के कारण वह बात अप्रदणीय हो जाती है। अथवा दूसरे प्रतिवादी के निग्रह स्थान में आने पर उस समय उसको न पकड़ कर दूसरे पक्ष में पूँचने पर पीछे से निग्रह करना, यह भी अतीत काल होने से निग्रह में अवमर्थ होता है ॥ ५८ ॥

अथोपालम्भः—उपालम्भो नाम हेतोर्देवचरनं; यथापूर्वमहेतवो हेत्वाभासा व्याख्याताः ॥ ५९ ॥

उपालम्भ—हेतु में प्रकरणसम आदि दोष दिखाना ‘उपालम्भ’ है। जैसे पहिले कहे अहेतु जो कि हेतु न होने पर भी हेतु की मांति दी जाते हैं ॥ ५९ ॥

अथ परिहारः—परिहारो नाम तस्येव दापवचनस्य परिहरणम् । यथा-नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिङ्गान्युपलभ्यन्ते, तस्य चापगमा-ओपलभ्यन्ते, तस्मादन्यः शरीरादात्मा नित्यश्वेति ॥ ६० ॥

परिहार—हेतु में कहे दोष का दूर करना ‘परिहार’ है। जैसे-शरीरस्य आत्मा में प्राण अग्न आदि जीव के लक्षण नित्य उपलब्ध होते हैं और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर ये लक्षण उपलब्ध नहीं होते, इस लिये आत्मा शरीर से भिन्न दूसरी बस्तु है और वह नित्य है ॥ ६० ॥

अथ प्रतिज्ञाहानिः—प्रतिज्ञाहानिर्नाम सा पूर्वप्रतिगृहीता पर्यनुयुक्तः परित्यजति । यथा-प्राक् प्रतिज्ञा कृत्वा ‘नित्यः पुरुष’ इति । पर्यनुयुक्त-स्वाह—अनित्य इति ॥ ६१ ॥

प्रतिज्ञाहानि—पहले की 'हुई प्रतिज्ञा को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा को स्वीकार करना 'प्रतिज्ञाहानि' है । जैसे—प्रथम प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य है, अकृतक होने से, आकाशवत् । दूसरे प्रतिपक्षी ने कहा—पुरुष अनित्य है, इन्द्रिय-ग्रास होने से, घड़े के तुल्य । इसमें अपनी प्रतिज्ञा ( नित्य पुरुष ) को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा ( अनित्य पुरुष है ) को स्वीकार करना प्रतिज्ञाहानि है ॥ ६१ ॥

अथाभ्यनुज्ञा—अभ्यनुज्ञा नाम य इष्टानिष्टाभ्युपगमः ॥ ६२ ॥

अभ्यनुज्ञा—इष्ट (परपक्ष में दोष) और अनिष्ट (स्वपक्ष में दोष) दोनों को स्वीकार करना 'अभ्यनुज्ञा' है । दूसरे से कहे हुए दोष को अरने पक्ष में मैत्र लेना और दूसरे के पक्ष में दोष दिलाना 'अभ्यनुज्ञा' वा 'मतानुज्ञा' है ॥ ६२ ॥

अथ हेत्वन्तरं—हेत्वन्तरं नाम प्रकृतिहेत्वो वाच्ये यद्विद्विहेतु-माह ॥ ६३ ॥

हेत्वन्तर—प्रासांगिक हेतु के स्थान पर विकृत हेतु अर्थात् अप्रसांगिक हेतु कहना 'हेत्वन्तर' है ॥ ६३ ॥

अथार्थान्तरं—अर्थान्तरं नाम एकस्मिन् वक्तव्ये परं यदाह; यथा—ज्वरलक्षणे वाक्ये प्रमेहलक्षणमाह ॥ ६४ ॥

अर्थान्तर—एक वस्तु के प्रथंग में दूसरी वस्तु का कहना 'अर्थान्तर' है । यथा—ज्वर के लक्षणों में प्रमेह के लक्षण कहने लगता ॥ ६४ ॥

अथ निग्रहस्थानं—निग्रहस्थानं नाम पराजयप्राप्तिः, तच्च त्रिरभिहितस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिपदि विज्ञानवत्याः; यद्वा अननुयोज्यस्यानुयोगोऽनुयोज्यस्य चाननुयोगः । प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञाकालातीतवचनमहेतुबो न्यूनमतिरिक्तं व्यर्थमपार्थकं पुनरुक्तं विरुद्धं हेत्वन्तरमर्थान्तरं निग्रहस्थानम् ॥ ६५ ॥

निग्रहस्थान का दूसरा नाम पराजय-प्राप्ति है । यह विज्ञानवती परिषद् में तीन बार कहे हुए वाक्य को न जानना, या अननुयोज्य का अनुयोग, अथवा अनुयोज्य का अननुयोग है अर्थात् जहाँ प्रश्न न करना चाहिये वहाँ प्रश्न करना और जहाँ करना चाहिये वहाँ न पूछना भी निग्रहस्थान ही है । इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, अतीतकालवचन, अहेतु, न्यून, अतिरिक्त, व्यर्थ, अनर्थक, पुनरुक्त, विरुद्ध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, ये सब बातें पराजय का बाण होती हैं ॥ ६५ ॥

इति वादमार्गपदानि यथोदेशमभिनिर्दिष्टानि भवन्ति ॥ ६६ ॥

इस प्रकार से वाद के मार्गों को पूर्व कथनानुवार कह दिया है ॥ ६६ ॥

बादस्तु खलु भिषजा॒ वर्तमानो॑ वर्तेता॒ युर्वद॑ एव. नान्यत्र ॥ ६७ ॥

बैशजनो॑ के बाद का विषय केवल आयुर्वेद ही है, अन्यत्र नहीं ॥ ६७ ॥

अत्र हि वाक्यप्रतिबाक्यविस्तराः केवलाश्चोपपत्तयश्च सर्वाधिकरणेषु । ताः सर्वाः सम्यगदेक्ष्यावेद्य सर्वं वाक्यं ब्रूयात्, नाप्रकृतकम्-शास्त्रमपरीक्षितमसाधकमाकुलमव्याप्तं वा, सर्वं च हेतुमद् ब्रूयात्, हेतुमन्नो द्वाक्लुषाः सर्वं एव वादविग्रहाः चिकित्सिते कारणभूताः; प्रशस्तद्विवर्धकत्वात्, सर्वारम्भसिद्धिं ज्ञावद्यनुपह्रता द्विद्धिः ॥ ६८ ॥

इस आयुर्वेद में वाक्य, प्रतिबाक्य, इटका विस्तार, समूर्ण उपर्यात्यां वे सब बातें प्रकरणों में हैं । उन सबका भर्ता प्रकार देखकर सम्पूर्ण वाक्य कहना चाहिये । अप्रकृतक (अप्रभद्र), शास्त्राद्वित, अपराजित, साधकरहित, विना जाने कुछ नहीं कहना चाहिये : जो कुछ कहना हो वह सब कारण वा हेतु, युक्तिपूर्वक कहना चाहिये, क्योंकि हेतुर्वेद करे हुए सम्पूर्णवाद-विग्रह तब्छ होते हैं, तथा चिकित्सा में ज्ञारणभूत है, क्योंकि वे निर्मलबुद्धि सब प्रकार की सफलता को उत्पन्न करती है ॥ ६८ ॥

इमानि खलु तावदिद् कानिचित्प्रकरणानि त्रृमो भिषजां ज्ञानार्थम् ।  
ज्ञानपूर्वकं कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥ ६९ ॥

ज्ञात्वा हि कारण-करण-कार्येयानि-कार्य-कार्यकलातुवन्य-देश-कालप्रवृत्त्युपायान्सम्यगभिनिर्वत्तमानः कार्यभिनिर्वृत्ताविष्टकलातुवन्यं कार्य-मभिनिर्वत्तयत्यन्तिमहता प्रयत्नेन कर्ता ॥ ७० ॥

निम्न कुछ प्रकरणों को बैद्यों के ज्ञन के लिये कहते हैं क्योंकि विद्वान् लोग ज्ञानपूर्वक कर्मों का अभ्यर्थ करने को प्रशंसा करते हैं । कारण, करण, कार्येयनि, कार्य, कार्यकल, अनुवन्य, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय, इनको भली प्रकार जान कर ही कर्म करता हुआ कर्ता स्वल्प प्रयत्न से ही कार्यसमाप्ति पर फल देने वाले कार्य का सम्मान करता है ॥ ७० ॥

तत्र कारणं नाम तत्, यत्करोति, स एव हेतुः, स कर्ता ॥ ७१ ॥

कारण—जो करता है वही 'कारण' है, इसी को हेतु या 'कर्ता' कहते हैं ॥ ७१ ॥

करणं पुनस्तद्, यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्यभिनिर्वृत्तौ प्रयत्नमानस्य ॥ ७२ ॥

करण—प्रयत्न करने वाले कर्ता के कार्य को पूर्ण करने के लिये जिस साधन की अपेक्षा होती है, उस साधन को 'करण' कहते हैं ॥ ७२ ॥

कार्ययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा कार्यत्वमेवाऽप्यथते ॥ ७३ ॥

कार्ययोनि—जो विकृत होकर कार्य रूप से प्रकट होती है ॥ ७३ ॥  
 कार्यं तु तद्, यस्याभिनिवृत्तिमभिसंधाय प्रवर्तते कर्ता ॥ ७४ ॥  
 कार्य—जिसकी सफलता को सामने रखकर कर्ता प्रवृत्त होता है ॥ ७४ ॥  
 कार्यफलं पुनस्तद्, यत्प्रयोजना कार्याभिनिवृत्तिरिष्यते ॥ ७५ ॥  
 कार्यफल—जिस मतहृ से कार्य किया जाता है ॥ ७५ ॥  
 अनुबन्धस्तु खलु स यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति कार्यादुच्चरकालं  
 कार्यनिमित्तः शुभो वाऽप्यशुभो वा भावः ॥ ७६ ॥

अनुबन्ध—कार्य करने के पीछे जो शुभ या अशुभ ( कार्यजन्य ) कर्म के कारण कर्ता को कर्म से बांधता है, उसका नाम 'अनुबन्ध' है ॥ ७६ ॥

देशस्त्वधिष्ठानम् ॥ ७७ ॥

देश—अधिष्ठान, आश्रयस्थान है ॥ ७७ ॥

कालः पुनः परिणामः ॥ ७८ ॥

काल का अर्थ परिणाम है ॥ ७८ ॥

प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, सेव क्रिया कर्म यत्नः कार्य-  
 समारम्भश्च ॥ ७९ ॥

प्रवृत्ति—प्रवृत्ति का अर्थ कार्य के लिये चेष्टा, इसीका नाम क्रिया, कर्म,  
 यत्न और कार्य-समारम्भ ( प्रारम्भ ) है ॥ ७९ ॥

उपायः पुनस्याणां कारणादीनां सौष्ठवमभिविधानं च सम्यक्  
 कार्यकार्यफलानुबन्धोपायवज्यानां कार्याणामभिनिवर्तक इत्यतस्तूपायः,  
 कृते नोपयार्थोऽस्ति, न च विद्यते तदात्वे, कृताद्वोच्चरकालं फलं फला-  
 चानुबन्ध इति ॥ ८० ॥

उपाय—कार्य, कार्यफल और अनुबन्ध को छोड़कर कारण, करण, कार्य-  
 योनि इन तीन का उत्तम होना, भली प्रकार करना, यह 'उपाय' है। कार्यों  
 को पूर्ण करने वाला 'उपाय' कहाता है। कार्य हो चुकने पर उपाय का छोड़  
 प्रयोजन नहीं है। कार्य के समय भी उपाय नहीं रहता। उपाय करने के पीछे  
 फल, और फल से अनुबन्ध ( शुभ, अशुभ ) होता है ॥ ८० ॥

एतद्विधमग्रे परीक्ष्य, ततोऽनन्तरं कार्यार्थं प्रवृत्तिरिष्टा; तस्मा-  
 द्विष्टक् कार्यं चिकीर्षः प्राकार्यसमारम्भात्परीक्ष्या केवलं परीक्ष्यं परी-  
 क्ष्याथ कर्म समारभेत कर्तुम् ॥ ८१ ॥

परीक्षा—इन दस प्रकार से प्रथम परीक्षा कर देनी चाहिये। इसके पीछे  
 कार्य के लिये प्रवृत्ति या चेष्टा करनी चाहिये। इसलिये कार्य करने की इच्छा

बाले वैद्य को चाहिये कि कार्य करने से पूर्ण समूर्ण परीक्षा से परीक्षणीय बस्तु की परीक्षा करके काम करना आरम्भ करे ॥८१॥

तत्र चेद्विष्टग् अभिषग्वा भिषजं कश्चिदेवं पुच्छेत्—वमन-विरेचना-स्थापनानुवासन-शिरोविरेचनानि प्रयोक्तुकामेन भिषजा कतिविधया परीक्षया कतिविधमेव परीक्षयं, कश्चात्र परीक्षयविशेषः, कर्थं च परी-क्षितव्यः, किंप्रयोजना च परीक्षा, क च वमनादीनां प्रवृत्तिः, क च निवृत्तिः, प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे च किं नैष्ठिकं, कानि च वमना-दीनां भेषजद्रव्याण्युपयोगं गच्छन्तीति ॥ ८२ ॥

यदि कभी मिश्र-अथवा साधारण मनुष्य, जो बैल नहीं, वैद्य से पूछे कि वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन देने की इच्छा वाले वैद्य की कितनी प्रकार की परीक्षायें, कितने प्रकार का परीक्ष्य और परीक्षा में विशेषता नया है, उसकी कित प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये, परीक्षा का क्या प्रयोजन है ? वमन आदि का कहाँ प्रयोग करना और कहाँ नहीं करना चाहिये ! प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के लक्षण मिलें तो क्या करना ? वमन आदि कार्योंमें कौन से औषध द्रव्य काम में आते हैं, इत्यादि प्रश्न करे तब निम्न प्रकार से उत्तर देना चाहिये ॥ ८२ ॥

स एवं पृष्ठो यदि मोहयितुमिच्छेत्, ब्रूयादेन—बहुविधा हि परी-क्षा तथा परीक्षयविधिभेदः, कतमेन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्षयस्य भिन्नस्य भेदाग्रं भवानपुच्छत्याख्यायमानं, नेदानीं भवतोऽन्येन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षाऽन्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्षयस्य भिन्नस्य भिलवितमर्थं श्रोतुमहमन्येन परीक्षाविधिभेदप्रकृत्यन्तरेणान्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्षयं भिन्नाऽन्यथाऽस्त्रक्षणं इच्छां प्रपूर-येयमिति ॥ ८३ ॥

यदि वैद्य पूछने वाले को परेशान करना चाहे तो—परीक्षा और परीक्षा-विधि इनके अनेक मेद होते हैं । आप कौन सी विधि-मेद-प्रकृति से भिन्न परीक्षा से अथवा कौन से विधि-मेद-प्रकृति से भिन्न परीक्ष्य के मेद को पूछना चाहते हैं । वही कहा जाय ! आप से बिना यह जाने कि आप कौन से विधि-मेद-प्रकृति से भिन्न परीक्षा वा कौन से विधि-मेद-प्रकृति से भिन्न परीक्ष्य को जानना चाहते हैं, मैं और मेदों को कहकर आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता ॥८३॥

स यदुत्तरं ब्रूयात्तपरोद्धोत्तरं वाक्यं स्याद्यथोलं प्रतिवचनविधि-  
मवेक्ष्य; सम्यग्यदि तु ब्रूयात्, न चैनं मोहयितुमिच्छेद्, प्राप्तं तु वच-  
नकालं भन्येत काममस्मै ब्रूयादाप्तमेव निखिलेन ॥ ८४ ॥

इस पर जो उत्तर वह दे, उसकी परीक्षा करके, प्रतिवचन विधि के अनु-  
सार उचित उत्तर दे। यदि वह मली प्रकार से कहे और इसको चक्कर में  
डाढ़कर चाहे तो इसके लिये सब कुछ विश्वस्त रूप से कह दे ॥ ८५ ॥

द्विविधा खलु परीक्षा ज्ञानवर्ती प्रत्यक्षमनुमानं च, एतद्वि द्रव्य-  
मुपदेशश्च परीक्षा स्यात्। एवमेषा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा वा  
सहोपदेशेन ॥ ८५ ॥

बुद्धिमानों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है। प्रत्यक्ष और अनुमान (ये  
दोनों पहले कहे गये हैं) और तीसरी उपदेश भी परीक्षा है, इस प्रकार से यह  
दो प्रकार की परीक्षा उपदेश (आसोपदेश) के साथ तीन प्रकार की हो  
जाती है ॥ ८५ ॥

दशविधं तु परीक्ष्यं कारणानि यदुक्तमप्ते। तदिह भिषगादिषु  
संसार्य संदर्शयिष्यामः—इह कार्यप्राप्तेः कारणं भिषक्, करणं पुनर्भै-  
षजम्, कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं, कार्यं धातुसाम्यं, कार्यफलं सुखवासिः;  
अनुबन्धस्तु खल्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च । कालः पुनः संवत्सरश्चाऽनु-  
रावस्था च । प्रवृत्तिः प्रतिक्रमसमारम्भः । उपायस्तु भिषगादीनां सौष्ठ-  
वमभिविधानं च सम्यक् । इहाप्यस्योपायस्य विषयः पूर्वोणवोपायविशेष-  
णेण व्याख्यात इति कारणादीनि दश दशसु भिषगादिषु संसार्य संद-  
शितानि, तथैवाऽनुपूर्व्या एतदशविधं परीक्ष्यमुक्तम् ॥ ८६ ॥

पहिले यह कहा है कि परीक्ष्य (कारण आदि) वस्तु दस प्रकार  
की हैं। इसी को भिषग् आदि में घटाकर दिखाते हैं यहाँ कार्यप्राप्ति में कारण  
भिषक् है, और उस करण है। धातुओं की विषमता कार्ययोनि है। धातुओं को  
समान करना कार्य है। सुख का भिलना कार्यफल है। आयु अनुबन्ध है।  
भूमि और रोगी देश हैं। संवत्सर और रोगी की अवस्था काल है। प्रत्येक कर्म  
का आरम्भ करना प्रवृत्ति है। भिषग् और उपाय, परिचारक और रोगी इनका भली  
प्रकार से मेल उपाय है। यहाँ पर मी इस उपाय के सम्बन्ध में सब बातें  
पूर्वोक्त उपायविशेष के साथ कह दी हैं। धातुसाम्य व्यापी कार्य के करने पर  
आरोग्यता निश्चित है। इस प्रकार से कारण आदि दसों को भिषग् आदि में  
घटाकर दिखा दिया है, इसी प्रकार क्रम से यह दश प्रकार का 'परीक्ष्य' कह  
दिया है ॥ ८६ ॥

तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितव्यः स तथा तथा न्याख्यास्यते ॥ ८३ ॥

इस दश प्रकार की परीक्षा में जो जो विशेषता है और जिस जिस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये उसकी उल्ली २ प्रकार से न्याख्या करते हैं ॥ ८३ ॥

कारणं भिषगित्युक्तमप्ते, तस्य परीक्षा—भिषष्ट् नाम स यो भेषति, यः सूक्ष्मार्थप्रयोगकुशलः, यस्य चायुः सर्वथा विदितम् यथाव-त्सर्वधातुसाम्यं चिकिर्षात्मानमेताऽस्तिदितः परीक्षेत गुणिषु गुणतः कार्याभिनिर्वृत्तिं पश्यन्—किञ्चिद्दहस्य कार्यस्याभिनिर्धर्तने समर्थो न वेति । तत्रेमे भिषगगुणा येनपक्षां भिषग्यानाम्याभिनिर्वृत्तने समर्थो भवति । तद्यथा—प्रयत्न दात्रूतता रस्त्रियकर्त्ता दाक्षय शौचं जितहस्तता उपकरणवत्ता सबेन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपत्तिज्ञता चेति ॥ ८४ ॥

पहिले कहा है कि भिषक् का रारण है । इस भिषक् की परीक्षा यह है । जो शोषा ( रोग ) को दूर करता, शमन करता है, वह भिषक् है । जो आयुर्वेदीय सूक्ष्मायों में, प्रयोग में और कर्म में कृशल है, जिसे रोगी को आयु द्वित-अहित, मुख-अमुख, प्रमाण-अप्रमाण और स्वरूप से भली प्रकार विदित है, शाखर, कर्म को जानने वाला वैद्य सब धातुओं की समानता करने की इच्छा से सबसे प्रथम अपनी परीक्षा करे । जैसे गुण के बोग से कार्य में मुक्तज्वा को देखता हुआ वैद्य गुणिणों अर्थात् भिषग्-द्रव्य, रोगी और परिचारकों में अपनी परीक्षा करे, क्या मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूँ वा नहीं । भिषक् के निम्नलिखित गुण हैं जिन गुणों से युक्त होने पर वैद्य धातुसाम्य रूपी कार्य करने में समर्थ होता है । यथा—विमल शाख-ज्ञान, सब प्रकार के कर्म का साक्षात् अनुभव, दक्षता, शब्दोपचार आदि में हस्तलाघव, उपकरणों का होना, सब इन्द्रियों से युक्त होना, रोगी की प्रकृति का ज्ञान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकित्सा करनी चाहिये उसका ज्ञान ॥ ८५ ॥

करणं पुनर्भेषजं; भेषजं नाम तद्युपकरणायोपकल्पते भिषजो धा-  
तुसाम्याभिनिर्वृत्तौ प्रयत्नमानस्य विशेषतशोपायान्तरेभ्यः । तद्द्विविधं  
व्यपाश्रयभेदात्;—देवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं चेति । तत्र दैवव्यपाश्रयं  
मन्त्रौषधिमणि-मङ्गलबलयुपहार-होम-नियम-प्रायश्चित्तोपवास-स्वस्त्ययन-  
प्रणिपात-गमनादि, युक्तिव्यपाश्रयं-संशोधनोपशमने चेष्टाश्च दृष्टफलाः ।  
एतचैव भेषजमङ्गलेदादपि द्विविधं द्रव्यभूतमद्रव्यभूर्तं च । तत्र यद्  
द्रव्यभूर्तं तदुपायाभिष्ठुतम् । उपायो नाम भयदर्शनविस्मापन-विस्मारण-  
क्षोभण-हृषण-भर्तसंनवध - बन्ध-स्वप्न - संबाहनादिरमूर्ते भावविशेषो

यथोक्तः सिद्धथपाथाश्वेपायाभिष्ठता इति । यत् द्रव्यभूर्त तद्वमनादिषु योगमुपैति; तस्यापीयं परीक्षा, -इदमेवं प्रश्नत्या एवं गुणमेवं प्रभावमस्मिन्नदेशे जातमस्मिन्नतावेवं गृहीतमेवं निहितमेवमुपस्कृतमनया मात्रया युक्तमस्मिन् रोगे च विधस्य पुरुषस्यैतावन्तं दोषमपकर्षयत्युपशमयति वा यदन्यदपि चैवंविधं भेषजं भवेत्तज्जानेन विशेषेण युक्तमिति ॥ ८६ ॥

भेषज ( औषध ) करण है । धातुसाम्यरूप कार्य के करने में प्रयत्न करते हुए वैद्य को जो वस्तु साधन होती हैं उसका नाम 'भेषज' है । यह भेषज ( औषध ) आश्रय भेद से दो प्रकार की है । ( १ ) दैव-व्यपाभय और ( २ ) युक्ति-व्यपाभय । इनमें दैवव्यपाभय मंत्र, औषधि, मणि, मंगड़, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, दान, स्वस्त्ययन, प्रणिपात ( विनय ), गमन आदि कार्य दैव का आश्रय करके धातुओं को समान करते हैं । युक्ति-व्यपाभय—संशोधन, उपशमन और दृष्टफल वाली चेष्टाएं ( धावन, स्वप्न, जागरण आदि ) । यही भेषज लंग भेद से दो प्रकार का है । ( १ ) अद्रव्य और ( २ ) द्रव्य । इनमें जो अद्रव्य औषध है वह उपाय से व्याप्त है । यथ दिखाना, विस्मय उत्पन्न करना, क्षिङ्कना, बांधना, नीट लाना, अंगमर्दन आदि ( दौड़ना, तैरना आदि ) अमूर्च पदार्थों और चिकित्सा में सफलता देने वाले भिषण आदि गुणों का होना ये उपाय हैं और जो औषध द्रव्य रूप हैं वह वमन आदि शोधन-शमन कार्यों में काम आते हैं । द्रव्य रूप ( मूर्त ) औषधि की ऐसी परीक्षा करनी उचित है कि इस औषधि की यह प्रकृति है, यह गुण है, ऐसा प्रभाव है, इस देश में उत्पन्न हुई है, इस शूतु में लंगह की गई है, इस प्रकार से रक्तवी गई है, इस प्रकार के पुरुष को देने से इतने दोष को बाहर करती है अथवा शमन करती है । अन्य भी जो औषध इन या अन्य गुणों से युक्त थी, उठने भी दोषों का निष्कासन अथवा शमन किया था, इस लिये यह भी करेगी, इस प्रकार अन्यत्र प्रत्यक्ष करके यदां पर अनुमान से निष्पय करना चाहिये ॥ ८७ ॥

कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं, सस्य लक्षणं विकारागमः, परीक्षा त्वस्य विकारप्रकृतेश्चौनातिरिक्तलिङ्गविशेषावैषम्यं विकारस्य च साध्यासाध्य-मृदु-दारुण-लिङ्ग विशेषावैषम्यमिति ॥ ८८ ॥

कार्ययोनि—धातुओं की विषमता 'कार्ययोनि' है । विकार का होना यह उसका लक्षण है । इस विकार की प्रकृति के बातादि दोषों के कम अधिक, विशेष लक्षणों को देखना । इसी प्रकार से विकार का साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण आदि विशेष लक्षणों से परीक्षा करनी चाहिये ॥ ८९ ॥

कार्यं धातुसाम्यं, तस्य लक्षणं विकारोपशमः, परोक्षा त्वस्य रुग्प-  
शमनं स्वरवर्णयोगः शरीरोपचयः बलवृद्धिरक्षयवहार्याभिलाषः रुचिरां-  
हारकालेऽरुद्धयवहनस्य चाऽहारस्य काले सम्यग्जरणं निद्रालामो यथा-  
कालं वैकारिकाणां च स्वत्नानामदशं नं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्र  
पुरीषरेतसा मुक्तिश्च सर्वाकारमनोवुद्धीन्द्रियाणां चाव्यापत्तिरिति ॥६१॥

कार्य—धातुओं का समान करना कार्य है। विकार का शान्त होना यह  
इसका लक्षण है। इसकी परीक्षा दर्द का शान्त होना है। स्वर और वर्ण का  
प्राकृत रूप में आजाना। शरीर की वृद्धि, बलवृद्धि, भोजन में इच्छा, आहार  
के समय इच्छा होना, खाये हुए भोजन का आहारकाल में भली प्रकार जीर्ण  
होना, टीक समय पर नीद आना, विकार (रोग) जन्य स्वप्नों का न दीक्षना,  
सुखपूर्वक जागना, प्रातः उठना, बायु, मूत्र, मन और शुक्र का टीक समय  
पर त्याग होना, सब प्रकार से मन, बुद्धि और इन्द्रियों में सुख होना ॥ ६१ ॥

कार्यफलं सुखावाप्तिः। तस्य लक्षणं मनोवुद्धीन्द्रियशारारतुष्टिः ॥६२॥

कार्यफल—सुख का प्राप्त होता। इसका लक्षण—मन, बुद्धि, इन्द्रिय और  
शरीर का प्रधन होना है ॥ ६२ ॥

अनुवन्धस्तु खल्वायुः, तस्य लक्षणं प्राणैः सहः संयोगः ॥ ६३ ॥

अनुवन्ध—आयु है, इसका लक्षण—प्राणों के साथ शरीर का सम्बन्ध बना  
रहना है ॥ ६३ ॥

देशस्तु भूमिपरीक्षा—आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा  
स्यादौपधपरिज्ञानहेतार्वा । तत्र तात्त्वाद्यमातुरपरिज्ञानहेतोः । तदथा  
कस्मिन्नयं भूमिदेशो जातः संवृद्धो व्याधितो वेति । तस्मिन्नयं भूमिदेशो  
मनुष्याणामिदमाहार नात्मिदं विहारजातमेतद्वलमेवं विधं सत्त्वमेवं-  
विधं सात्म्यमेवं विधा दाषो भक्तिरियमिमे व्याधया हितामदमहि-  
तमिदमित ( प्रायोभद्रणे ) । ओपधपरिज्ञानहेतास्तु कल्पेषु भूमि-  
परीक्षा वक्ष्यते ॥ ६४ ॥

देश—देश भूमि और रोगी हैं। इनमें भूमि-परीक्षा के ज्ञान का प्रयोजन  
रोगी के देश के कारण सात्म्य को समझने के लिये और औषधि के ज्ञान के  
लिये है। इनमें रोगी का समझने के लिये—जैसे—किंव भूमि-खण्ड पर यह रोगी  
उत्पन्न हुआ है । वहाँ है । रोगी हुआ है । उस भूमि पर मनुष्यों का इस  
प्रकार का अहार है, इस प्रकार का विहार है, इस प्रकार का आचार है, इस  
प्रकार का वड़, इस प्रकार का सत्त्व, इस प्रकार का सात्म्य, इस प्रकार के दोष,  
इस प्रकार की रुचि, इस प्रकार के रोग, यह हितकर, यह अहितकर है, यह

भूमि परीक्षा कह दी । औषधि परिज्ञान के लिये भूमिपरीक्षा कल्पस्थान ( मदन-फल-कल्प ) में कहेंगे ॥१४॥

आतुरस्तु खलु कार्यदेशः, तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोर्वा  
स्याद्वलदोषप्रमाणज्ञानहेतोर्वा; तत्र तावदियं बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोः—  
दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्पो बलप्रमाणविशेषापेत्तो  
भवति । सहसा हृतिबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबलमातुरमभिधात-  
येत्, न हृतिबलान्याग्नेय-सौम्य-वायवीयान्यौषधान्यग्निज्ञारशस्त्रकर्मणि  
वा शक्यन्तेऽल्पवलैः सोहुम् । अविषहारातिरीक्षणवेगत्वाद्विस्त्रियः प्राण-  
हराणि स्युः । एतद्वै वारणमपेक्षमाणा हीनबलमातुरमविषाक्तरे-  
मृदुसुकुमारप्रायैरुत्तरोत्तरगुरुभिरविभ्रमैरनात्ययिकैश्चोपचरन्त्यौषधैः,  
विशेषतश्च नारीः । ता हृनवस्थितमृदुविवृत्तविकलबहृदयाः प्रायः  
सुकुमार्योऽबलाः परसंस्तुत्याश्च । तथा बलवति बलवद्व्याधिपरिगते  
स्वल्पबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकं भवति ॥ १५ ॥

कार्यदेश—धातुसाध्य कार्य का देश अर्थात् आधार रोगी है । इस नीं  
परीक्षा आयु के प्रमाण ज्ञान के लिये है । अथवा रोगी के बल और दोष को  
जानने के लिये रोगी रूपी देश की परीक्षा होती है ।

रोगी की बल-प्रमाण और दोष-प्रमाण की परीक्षा का प्रयोजन—औषधि  
का प्रमाण दोष और बल रोग और रोगी दोनों को देख कर निश्चित किया  
जाता है । क्योंकि यदि बहुत बलवानी औषध योड़े बल बाले रोगी को विना  
परीक्षा किये दे दी जाय तो यह औषध रोगी को मार देगी । क्योंकि अल्प बल  
बाले व्यक्ति, अति बल वाली, आग्नेय, वायवीय गुण से युक्त औषधियों को और  
अग्नि, श्वार और शस्त्र के कर्मों को सहन नहीं कर सकते । इनका वेग अस्थू  
और अतिरीक्षण होने से ये बस्तुएं शीघ्र प्राणनाशक हो जाती हैं । इन कारणों  
को देख कर ही हीनबल बाले रोगी की, खात कर छी की चिकित्सा शरीर और  
मन में ग्लानि उत्पन्न न करने वाली, मृदु-कोमल औषधियों से तथा धीरे धीरे,  
उत्तरोत्तर वीर्य और परिमाण में गुरु दोते हुए भी व्यापत्ति ( विकार ) न करने  
वाली, सम्यक् प्रकार से दी हुई औषधियों से करते हैं । ये नियां अहिंसर, छोटे  
दिल की तथा भीर हृदय वाली, प्रायः सुकुमार, अबला होती हैं और योहो सी  
भी बेदना को सहन नहीं कर सकतीं और स्वयं अपने को कष में नहीं संभाल  
सकतीं, उनको दूसरे ही को संभालना पड़ता है ।

+ देखिये सुभ्रत, सूत्रस्थान में श्वार और अग्निकर्म ।

इसी प्रकार बलवान् रोगों में अथवा बलवान् रोग से आकान्त होने पर स्वल्प बल वाली औषधि विना परीक्षा के दी हुई, रोग को शमन करने में समर्थ नहीं होती ॥६५॥

तस्मादातुरं परीक्षेत्-प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्त्वतश्च ॐहारशक्तितश्च व्यायामशक्तितश्च वयस्तश्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहणहेतोः ॥ ६६ ॥

इसलिये रोगी की परीक्षा ( निम्न साधनों से ) करनी चाहिये । यथा—

प्रकृति से, विकृति से, सार से, संहनन अर्थात् शरीर की बनावट से, प्रमाण से, सात्म्य से, सत्त्व से, आहार वक्ति से, व्यायाम-शक्ति से, और वय से रोगी के बल, प्रमाण विशेष को जानने के लिये इन गुणों से परीक्षा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥

तत्रामी प्रकृत्यादयो भावाः । तद्यथा—शुक्र-शोणित-प्रकृतिं काल-ग-भार्मशय-प्रकृतिमातुराहारविहार-प्रकृतिं महाभूतविकारप्रकृतिं च गर्भश-गीरमपेक्षते । एता हि येन येन दोषेणाधिकतमेनैकेनानेकेन वा समनु-वस्थन्ते तेन तेन दोषेण गर्भांडनुवध्यते । ततः सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ता । तस्माद्वातलाः प्रकृत्या केचित्, पित्तलाः केचित्, श्लेष्मलाः केचित्, संसृष्टाः केचित्, समधारवः प्रकृत्या केचिद्ग्रन्थन्ति ॥ ६७ ॥

इनमें प्रथम प्रकृति आदि का वर्णन करते हैं । गर्भ का शरीर जैसे शुक्रएवं शोणित की प्रकृति की, काल ( समय ) की, गर्भाशय की प्रकृति की, माता के आहार-विहार की, शुक्र, शोणित में मिले पंच महाभूत, शरीरात्मक भूतों की अपेक्षा करता है । ये शुक्र शोणित आदि प्रकृतियां जिस जिस वातादि दोष से एक अथवा एक से अधिक दो या तीन से सम्बन्ध होती हैं, उसी एक या अधिक दोष से गर्भ भी सम्बन्धित हो जाता है । इससे मनुष्यों की गर्भ में बनी प्रकृति को उसी दोष की प्रकृति कहते हैं । उस उस दोष के बलवान् होने से वह प्रकृति होजाती है । इसलिये कई श्लेष्मप्रकृति, कई पित्तप्रकृति और कई वात-प्रकृति और कई मिश्रित-प्रकृति, कई समधातु-प्रकृति के होते हैं । इनके लक्षण कहते हैं ।

तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः—श्लेष्मा हि स्तिर्घ-श्लक्षण-मूदु-मधुर-सार-सान्द्र-मन्द-स्तिरित-गुरु-शीत-पिच्छिठाच्छ्ळः, तस्य स्नेहात् श्लेष्मलाः स्तिरिताङ्गाः, श्लेषणत्वाच्छ्ळक्षणाङ्गाः, मूदुत्वाद् दृष्टिसुख-मुकुमा-रावदातगाङ्गाः, माधुर्याद्यभूतशुक्रव्यवायापत्याः, सारत्वात् सारसंहर-

स्थिरशरीराः सान्द्रत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वगात्राः मन्दत्वान्मन्द-  
चेष्टाहारविहाराः, स्तैमित्यादशीघ्रारम्भाल्पक्षोभविकाराः, गुहत्वा-  
त्साराधिप्रितावस्थितगतयः, शैत्यादलरक्षुत्तृष्णासंतापस्वेददोषाः, पिच्छि-  
लत्वात् सुश्लिष्टसारसन्धिबन्धनाः, तथाऽङ्गत्वात्प्रसन्नदर्शनाननाः  
प्रसन्नवर्णस्वराश्च । त एवंगुणयोगाच्छ्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो वि-  
श्यावन्त ओजस्त्विनः शान्ता आयुधान्तश्च भवन्ति ॥ ६८ ॥

क्षेम्या—कफ स्तिर्य, इलाश्च, मृदु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द, स्तिरित  
( घट ), गुरु, शीत, पिच्छिल और निर्मल होता है । कफ के स्नेह गुण के  
कारण क्षेम्यप्रकृति के मनुष्य दिनश्व अंगों वाले इलाश्च होने से चिकने  
अंग वाले, कोमल होने से आंखों को आननददायक, सुकुमार, गौरवर्ण  
होते हैं । मधुरता होने से अधिक शुक्र, मैथुनशक्ति और संतान वाले  
होते हैं । सार के कारण इनका शरीर संहत, दृढ़, स्थिर होता है ।  
सान्द्रता के कारण से पुष्ट, समर्पूर्ण अंगों वाले; मन्द होने से चेष्टा, आहार  
और विहार में धीमें; स्तैमित्य ( धाक्ष्य ) होने से देर में बाणी, मन शरीर  
के कार्य करने वाले एवं शोभ तथा मानस विकार वाले, गुरु होने  
के कारण हाथी के समान मन्द-मस्त चाल वाले, शीतता के कारण योड़ी,  
भूख, प्यास, संताप तथा पसीने के दोष वाले; पिच्छिल होने से इनके मांसादि  
तथा सन्खिबन्धन अच्छी प्रकार से संयुक्त होते हैं । निर्मल होने से प्रसन्नमुख,  
प्रसन्न और स्तिर्य वर्ण तथा स्वर वाले होते हैं । इन गुणों के कारण कफप्रकृति  
के मनुष्य बलवान्, धनवान्, विद्यावान्, ओजस्वी, शान्त और दीर्घायु  
होते हैं ॥ ६९ ॥

पित्तमुष्ठं तीक्ष्णं द्रवं विस्तमस्तं कटुकं च रस्यौष्ण्यात्पित्तला  
भवन्ति उण्णासहाः, उण्णमुखाः, सुकुमारावशातगात्राः, प्रभूत-  
पिष्ठुन्यङ्गतिलकपिडकाः, जुन्मिपासावन्तः, शिप्रबलीपलितखालि-  
त्यदोषाः, प्रायो मृद्वल्पकपिलश्मश्रुतोमकेशाः, तैक्ष्ण्यातीक्षणपरा-  
क्रमाः, तीक्ष्णाग्रयः, प्रभूताशनपानाः, क्लेशासहिष्णवो, दन्दशुकाः;  
द्रवत्वाच्छिथिलमृदुसन्धिबन्धनसाः, प्रभूतसृष्टस्वेदमूत्रपुरीषाश्च;

विस्त्वत्वात्प्रभूतपूत्रिकक्षास्यशिरःशरीरगन्धाः, कट्वम्लत्वादल्पशुक-  
व्यवायापत्याः; त एवंगुणयोगात्पित्तला मध्यवदा मध्यायुषो मध्यज्ञान-  
विज्ञानविचोपकरणवन्तश्च भवन्ति ॥ ६९ ॥

पित्त—उण्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विल ( सड़ी गन्ध वाला ), अम्ल-कटु रु

झेलिये सुभूत शारीरस्थान ४० अध्याय में इनके लक्षण

होता है। पित के उण्ह होने से रित-प्रकृति के मनुष्य उणिमा को न सहने वाले, शुष्क, कठोर, पीले शरीर वाले, बहुत पिङ्ग (फुनियो), व्यंग (मुख व्यंग) और तिळपिकिका वाले, अधिक भूख और प्यास वाले होते हैं, इनके बाल शीघ्र ही पक जाते, गिर जाते हैं, तथा मुंह पर झुर्खियां आजाती हैं। ये प्रायः कोमल, योद्धी एवं धूसर वर्ण दाढ़ी-मूँछ वाले, अल्प लोम तथा अल्पकेश वाले होते हैं। तोक्षण गुण के कारण-तीक्ष्ण पराक्रम वाले, तीक्ष्ण अग्नि वाले, बहुत खाने पीने वाले, झौंड को न सहन करने वाले, दन्दशूरु अर्थात् बार-बार खाने वाले होते हैं। द्रव होने से—शिथिल एवं मृदु सन्धिवन्ध तथा मौस वाले होते हैं। इनको स्वेद-मूत्र और मल बहुत अधिक मात्रा में आता है। पित के अति दुर्गन्धयुक्त होने से इनके बाल, मुख, शिर और शरीर से बहुत दुर्गन्ध आती है। कटु अल्प होने से थोड़े शुक्र, मैथुन और न्यून संतान वाले होते हैं। इन गुणों के कारण पित प्रकृति का मनुष्य मध्यम वल, मध्यम आयु, मध्यम ज्ञान विज्ञान, मध्यम विद्या और मध्यम उपकरणों वाले होते हैं ॥६६॥

वातस्तु रूक्ष-लघु-चल-बहुशीघ-शीत-प्रकृत-विशादः । तस्य रौद्रश्याद्रावतला  
रूक्षापचिताल्पशरीराः, प्रतत-रूक्ष-क्षाम-भिन्न-मन्द-सक्त-जर्जर-स्वराः,  
जागरूकाश्च भवन्ति । लघुत्वाच लघु-चपल-नाति-चेष्टाहार-न्यवहाराः  
चलत्वादनवस्थित-सन्धयस्थित-भ्रै-हन्वोष्ठ-जिह्वा-शिरः-स्कन्ध-पाणि-पादाः  
बहुत्वादृ बहुप्रलाप-कण्डरा-सिरा-विवानाः । शीघ्रत्वाच्छोघ्रसमारम्भ-  
क्षोभविकाराः, शीघ्रोऽत्रासरागविरागाः, श्रुतप्राहिणोऽल्पस्मृतयश्च ।  
शैत्याच्छीतासहिष्णवः, प्रतसशीतिकोद्घेपकस्तम्भाः । पारुष्यात्प्रदृष्ट-केश-  
इमश्र-रोमन्त्व-दशन-बदन-पाणि-पादाङ्गाः । वैश्यात्स्फुटिताङ्गावयवाः,  
सततसंविशब्दगमिनश्च भवन्ति । त एवंगुणयोगाद्रावतलाः प्रायेणाल्प-  
बलाद्याल्पायुषश्चाल्पापत्याश्चाल्पसाधनाश्चाधन्याश्च भवन्ति ॥ १०० ॥

वायु—रूक्ष, लघु, चल, प्रमाणादि मेद से अनेक प्रकार की, शीघ्रजारी, शीत, प्रकृत, विशद (अपन्त्रित) होती है। वायु के रूक्ष होने से वात प्रकृति के मनुष्य भी रूक्ष, कृष, एवं छोटे शरीर वाले, निरन्तर रूक्ष, क्षीण, फटे बांध के समान जर्जर, असंहत स्वर वाले, जागरणशीक (थोकी नोद वाले) होते हैं। लघु होने से—शीघ्रकारी, अस्थिर गति, चेष्टा, आहार, व्यवहार वाले होते हैं। वात के चल होने से उनके भी सन्धि झाँख, भौं, हनु, जबाड़, ओढ़, जीम, कंधा, हाथ-पौँव अस्थिर होते हैं। बहुत प्रकार का होने से, बहुत बोडने वाले, बहुत सिराओं के जाल वाले; शीघ्रगामा होने से उब कामों में ज़हरी करने वाले,

कोम और मन के विकार वाले, जल्दी ही डरने वाले, स्नेह और द्रेष करने वाले, सुनते ही ग्रहण करने वाले, परन्तु स्मृति ( याददास्त ) के कष्टे होते हैं । शीतल होने से शीत को न सहन करने वाले, निरन्तर शीत, कम्प और उद्गेग तथा स्तम्भवृत्ति ( जड़ ) बने रहते हैं । कठोरता से—कठिन केश, इम्बु, लोम, नल, दाँत, मुख, हाथ, पांव वाले होते हैं । बायु के विशद होने से उनके हाथ-पाँव फटते हैं, सन्धि बन्धनों में से निरन्तर शब्द निकला करता है, सन्धियों चलती रहती हैं, चैन से नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं । इन गुणों के कारण वात प्रकृति के मनुष्य प्रायः अल्प बल, अल्प आयु, अल्पसंतान, अल्प साधन और अल्प धन वाले होते हैं ॥ १०० ॥

संसर्गात्मस्तुष्टुलक्षणाः । सर्वगुणसमुद्वास्तु समधातवः । इत्येवं प्रकृतिः परीक्षेत ॥ १०१ ॥

दोषों के मिश्रित होने से लक्षण भी मिले जुले होते हैं । सब गुणों के मिलने से समधातुप्रवृत्ति के होते हैं । इस प्रकार प्रकृति से परीक्षा करनी चाहिये ॥ १०१ ॥

**विकृतिश्चेति—**विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकारं हेतुन्दोष-दूष्य-प्रकृति-देश-काल-बल-विशेषैलिङ्गतश्च परीक्षेत, न हन्तरेण हेत्वा-दीनां बलविशेषं व्याधिबलविशेषोपलिंगिः । यस्य हि व्याघ्रेदोष-दूष्य-प्रकृति-देश-काल-बल-साध्यं भवति, महाच्च हेतुलिङ्गबलं स व्याधिर्बल-बान भवति । तत्रिपर्याच्चाल्पबलः, मध्यबलस्तु दोषादीनामन्यतम-सामान्यादेतुलिङ्गमध्यबलत्वाच्चोपलभ्यते ॥ १०२ ॥

विकृति से परीक्षा करनी चाहिये । विकृति का अर्थ विकार है । धातुओं की विषमता का नाम 'विकार' है । इससी हेतु, दूष्य, (रक्त आदि), दोष ( वात आदि ), प्रकृति ( वात-प्रकृति आदि ), देश, काल के बल तथा पूर्वरूप से परीक्षा करनी चाहिये । हेतु आदि के बल विशेष को जाने विना रोग के विशेष बल का ज्ञान नहीं होता । जिस रोग में दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, समान हो तथा हेतु और पूर्वरूप के लक्षण भी बलवान् हो, उस रोग को बलवान् समझना चाहिये । इस लिये यह असाध्य है । इनसे विपरीत हो तो निर्वल समझना चाहिये । जिस रोग में दोष-दूष्य आदि में से कोई एक असामान हो, तथा हेतु और पूर्वरूप के लक्षण भी मध्यम बल हो तो उस रोग को मध्यम बल समझना चाहिये ॥ १०२ ॥

**सारतश्चेति—**साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञानार्थमुप-दिश्यन्ते । तथाथा—त्वग्रक्त-मास-मेदोस्थि-मज्ज-शुक्र-सर्वानि ॥ १०३ ॥

सार द्वारा परीक्षा करनी चाहिये—बल परिमाण को विशेष रूप से जानने के लिये पुरुषों में आठ प्रकार के सारों का उपदेश किया है, जैसे—त्वग्, रक्त, मांस, मेद, अस्ति, मजा, शुक्र और सत्त्व ॥ १०३ ॥

तत्र रिनाध-भृक्षण-मृदु-प्रसन्न-सूक्ष्माल्प-गम्भीर-सुकुमार-लोमा सप्र-भेव च त्वक् त्वक्साराणाम् । सा सारता सुख-सौभाग्यैश्वर्योपभोग-बुद्धि-विद्यारोग्य-प्रदर्शणान्यायुश्चानित्वरमाचष्टे ॥ १०४ ॥

इनमें—त्वक् सार वाले पुरुष की त्वचा स्तिंघ, निकनी, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गम्भीर, कोमल लोमवाली और प्रभा ( कान्ति ) से युक्त होती है । इन प्रकार की सारता, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रदर्श और दीर्घ आयुष्य को बतलाती है ॥ १०४ ॥

कर्णाक्षिणी-मुख-जिह्वा-नासोप्त-पाणि-पादतल-नख-लङ्घाट-मेहनं द्विग्ध-रक्तं श्रीमत् भ्राजिष्ठं रक्तसाराणाम् । सा सारता सुखमुद्ग्रतांमेवा मनस्त्वं त्वं सौकुमार्यमनित्वलम्हेऽससहिष्णुत्वं मुख्यासहिष्णुत्वं चाऽऽचष्टे ॥ १०५ ॥

रक्तसार वाले पुरुषों के कान, आंख, सुख, जिह्वा, नाक, आपु, हाथ, पांव के तलुओं, नख, मस्तक, लिंग त्विंग और रक्त वर्ण के, शोभा आंवर दीति से युक्त होते हैं । इस प्रकार की रक्त-सारता, वयक्ति के सुख, विशुल बुद्धि, मनस्त्वता, सुकुमारता, मध्यम बल, झेंड न सहन करने का स्वभाव और गर्मी न सह सकने की प्रकृति को बतलाती है ॥ १०५ ॥

शङ्ख-लङ्घाट-कृकाटिकाक्षिण-गण्ड-हनु-प्रीवा-स्कन्धोदर-कक्ष-वक्ष-पाणि-पादसंधयः गुरुस्थिरमासोपचित्ता मांससाराणाम् । सा सारता क्षमांधृतिमलौल्यं वित्तं विद्या सुखमार्जवमारोग्यं बलमायुश्च दीर्घमाचष्टे ॥ १०६ ॥

मांस-सार वाले पुरुषों में शंड ( कनपटी ), मस्तक, कृकाटिका ( घाटा, गलघेटी ), आंख, गण्डस्थल, टोडी, प्रीवा, स्कन्ध, पेट, कांख, छाता, पांव, हाथ तथा सन्धियां-दियर, गुरु और मांस से भरी होती हैं । यह मांस-सारता खमा, धृति, निर्लोभता, वित्त, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल और दीर्घ-आयु को बतलाती है ॥ १०६ ॥

वर्ण-स्वरन्तेत्र-केश-लोम-नख-दन्तोप्त-मूत्र-पुरीपेषु विशेषतः स्नेहो मेदःसाराणाम् । सा सारता वित्तैश्वर्यसुखोपभोगप्रदानान्यार्जवं सुकुमारोपचारता चाऽऽचष्टे ॥ १०७ ॥

मेदःसार वाले पुरुषों में—वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दाँत, ओढ़, मूत्र, पुरीप और विशेष कर स्नेह ( चिकनाई ) होता है । यह सारता वित्त, ऐश्वर्य सुखकर उपभोग सरलता और सुकुमारता को बतलाती है ॥ १०७ ॥

पाञ्जि-गुलफः जान्वरलिं-जन्मु-चिकुक-शिरः-पर्व-स्थूलाः स्थूलास्थिन्ल-  
दन्ताश्चास्थिसाराः । ते महोत्साहाः क्रियावन्तः क्लेशसहाः सार-स्थिर-  
शरीरा भवन्त्याग्न्यमन्तश्च ॥ १६८ ॥

अस्थिसार वाले पुरुषों में एडी, टलना, घटना, क्लाई, हंसली, चिकुक  
( ठोड़ी ), शिर, पोर ( पर्व ) मोटे होते हैं; नल, दांत और अस्थियां मोटी  
होती हैं । अस्थिसार वाले मनुष्य वहे उत्साह वाले, क्रियावान्, क्लेश सहने  
वाले, सार के कारण स्थिर शरीर वाले और आयुष्मान् होते हैं ॥ १६८ ॥

तन्वङ्गा बलवन्तः स्तिरधबर्णस्वराः स्थूल-दीर्घ-वृत्त-संधयश्च मज्ज-  
साराः । ते दीर्घयुषो बलवन्तः श्रुत-विच्च-विज्ञानापत्य-संमान-भोजश्च  
भवन्ति ॥ १६९ ॥

मज्जासारवाले पुरुष छोटे या मृदु अंगवाले बड़वान्, स्तिरध वर्ण और स्वर  
वाले, स्थूल, लम्बी, गोल संनिवाले होते हैं । ये पुरुष दीर्घयु, बलवान्, भ्रुत-  
वान्, विज्ञानवान्, विच्चवान्, अपत्यवान् और संमानवान्, होते हैं ॥ १६९ ॥

सौम्याः सौम्यप्रेक्षिणश्च क्षीरपूर्णलोचना इव प्रदृष्टवहुलाः स्तिरध-  
वृत्त-सार-समसंहत-शिखरिन्दशनाः प्रसन्नस्तिरधबर्णस्वरा भ्राजिष्णवो  
महास्फुचश्च शुक्रसाराः । ते श्वीप्रियाः प्रियोपभोगा बलवन्तः सुखैश्वर्य-  
रोग्य-विच्च-संमानापत्य-भाजश्च भवन्ति ॥ १७० ॥

शुक्रसार वाले पुरुष सौम्यमूर्ति, सौम्य दृष्टि, देखने से ही दृष्ट करने वाले,  
दूध से पूर्ण आंख वाले, अत्यन्त कामोचेजना वाले, स्तिरध वृत्त वाले, सार-  
वान्, एक समान मिले अंगों और उच्चत दांतों वाले, प्रसन्नस्तिरध वर्ण स्वर  
वाले; दीर्घिमान्, वहे नितम् प्रदेश वाले होते हैं । ये पुरुष क्रियों के प्रिय,  
उपभोग को चाहने वाले, बलवान्, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्यता, धन और संतान  
वाले होते हैं ॥ १७० ॥

स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः ग्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा दक्षा  
धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तविषादाः स्ववस्थित-गतिगम्भीर-बुद्धि-  
वेष्टाः कल्याणभिनिवेशिनश्च सर्वसाराः । तेषां स्वलक्षणं रेव गुणा  
व्याख्याताः ॥ १७१ ॥

उत्त्व ( ओज ) सार वाले पुरुष—स्मृतिमान्, भक्तिमान्, कृतज्ञ, ग्राज्ञ,  
शुचिस्त्वभाव, महोत्साही, दक्ष, धीर, क्लाई में पराक्रम पूर्वक कहने वाले,  
शोकरहित, सुख्यवस्थित गति वाले, गम्भीर बुद्धि एवं वेषाधीष, शुम कार्यों में  
ज्ञान छगाने वाले होते हैं । इनके लक्षणों से ही इनके गुण कह दिये दू ॥ १७१ ॥

तत्र सर्वेः सारैरुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिष्ठाः परमगौरवयुक्ताले-  
शस्त्राः सर्वारम्भेष्वात्मनि जातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः स्थिर-  
समाहितशरीराः सुसमाहितगतयः सानुनादन्स्तिर्गद्य-गम्भीर-महास्वराः  
सुखैश्वर्यविचित्रोपभोगसंमानभाजो मन्दजरसो मन्दविकाराः प्रायस्तु-  
ल्प्यगुणविस्तीर्णापत्याश्रिरजीविनश्च भवन्ति ॥ ११२ ॥

[ इनमें सब सारों की विशेषता से बल प्रमाण तीन प्रकार का है ।  
यथा—उच्चम, मध्यम और अचम । ] इनमें जो पुरुष उपरोक्त आठों प्रकार के  
उच्चम सारों से युक्त होते हैं, वे अति बलवान्, अत्यन्त सुख से युक्त, क्लेय  
सहने वाले, सब कार्यों में समर्थ होने से प्रथत्वान्, शम कार्यों में मन लगाने  
वाले, स्थिर और संहृत शरीर वाले, सुधीर गतिवाले, प्रतिष्ठनि से युक्त स्तिर्गद्य,  
गम्भीर एव महान् स्वर वाले, सुख-ऐश्वर्य, विच, समान का भोग करने वाले,  
अत्यं जरा वाले, योद्धे रोग वाले, प्रायः अपने ही समान तुल्य गुण वाले, बहुत  
से चिरंजीवी पुढ़ोवाले होते हैं ॥ ११२ ॥

अतो विपरीतास्त्वसाराः ॥ ११३ ॥

इन उपरोक्त लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले पुरुष सारहीन होते हैं ॥ ११३ ॥  
मध्यानां मध्यैः सारविशेषैर्गुणविशेषा व्योल्याता भवन्ति इति  
साराण्यष्टी पुरुषाणां बलप्रमाणविशेषज्ञानार्थान्युपदिष्टानि भवन्ति ॥ ११४ ॥

प्रवर और अपवर के मध्यस्थ सार विशेषों से मध्यमसार के पुरुष होते हैं । इस मध्यम सार से ही इनके गुण समझ लेने चाहियें । इस प्रकार से बल-  
प्रमाण को विशेष रूप में जानने के लिये इन सारों की व्याख्या कर दी है ॥ ११४ ॥

कथं तु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषण् मुहोदयमुपचितत्वाद् बलवान्,  
अयमल्पबलः कृत्वात्, महाबलवान्यं महाशरीरत्वात्, अयमल्पशरीर-  
त्वादल्पबल इति । दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः कृशाश्चैके बलवन्तः, तत्र पिपी-  
लिकाभारदरणवत्सिद्धिः । अतश्च सारतः परीक्षेत्युक्तम् ॥ ११५ ॥

वैद्य के बल शरीरमात्र के दर्शन से धोखा भी खा जाता है, भरा पूरा  
शरीर होने से यह बलवान् है, यह मनुष्य कृश होने से अल्पबलवाला है,  
इसका शरीर बड़ा है, इससे यह मनुष्य बड़ा भारी बलवान् है । यह अल्प  
शरीर होने से अल्पबलवाला है इत्यादि । परन्तु देखा जाता है कि अल्प  
शरीर वाले और पतले दुबले व्यक्ति भी बलवान् होते हैं । जिस प्रकार चिंती  
अपने से तिगुने चौगुने बोक्ष को भी उठा लेती है, उसी प्रकार पतले व्यक्ति भी  
सार के कारण बलवान् होते हैं और वे अनेक कार्य कर लेते हैं । इस कारण  
सार से परीक्षा करनी चाहिये यह कहा है ॥ ११५ ॥

**संहननतश्चेति—**संहननं संघातः संयोजनमित्येकोऽर्थः । तत्र सम-  
सुविभक्तारिथ-सुबद्धसंधि-सुनिविष्ट-मांस-शोणितं सुसंहतं शरीरमित्युच्यते  
तत्र सुसंहतशरीराः पुष्पा बलवन्तो विपर्ययेणाल्पवलाः, प्रवरावर-  
मध्यत्वात्संहननस्य मध्यवला भवन्ति ॥ १६ ॥

संहनन अर्थात् शरीर की बनावट से भी परीक्षा करनी चाहिये । संहनन,  
संघात और संयोजन ये सब शब्द समानार्थक हैं । जिसकी अस्थियाँ सम-अनुपात  
में विभक्त हों, सनिधियाँ खूब बंधी, मांस और रक्त अच्छी प्रकार से शरीर में  
मरा हो, उसको भली प्रकार से संहत शरीरवाला कहते हैं । सुसंहत शरीर वाले  
पुष्प बलवान् होते हैं । इसके विपरीत शरीर वाले पुष्प अज्ज बल, मध्य शरीर  
वाले पुष्प मध्यम बल होते हैं ॥ १६ ॥

**प्रमाणतत्त्वेति—**शरीरप्रमाणं पुनर्यथास्वेनाङ्गुलिप्रमाणेनोपदेश्यते  
उत्सेधविस्तारायामैर्यथाक्रमम् । तत्र पादौ चत्वारि षट् चतुर्दश  
चाहुगुलानि, जंथे त्वष्टादशाङुले षोडशाङुलपरिक्षेपे, जानुनी चतुर-  
ङ्गुले षोडशाङुलपरिक्षेपे, त्रिशद्वांगुलपरिक्षेपे चाहुगुलावूह,  
चडंगुलदीर्घीं वृष्णावाणांगुलपरिणाहौ, शेषः पदंगुलदीर्घं पञ्चांगुल-  
परिणाहं, द्वादशांगुलपरिमितो भगः, षोडशांगुलविस्तारा कटी, दशांगुलं  
वस्तिशिरः, दशांगुलविस्तारं द्वादशांगुलमुदरं, दशांगुलविस्तीर्णं द्वादशां-  
गुलायामे पाश्वै, द्वादशांगुलविस्तारं स्तनान्तरं, द्रव्यंगुलं स्तनपर्यन्तं,  
चतुर्विंशत्यंगुलविशालं द्वादशांगुलोत्सेवमुरः, द्रव्यंगुलं हृदयं, अष्टांगुलो  
स्कन्धौ, पदंगुलावंसौ, षोडशांगुलौ प्रवाहू, पञ्चदशांगुलौ प्रपाणी,  
हस्तौ दशांगुलौ, कक्षावाणांगुलौ, त्रिकं द्वादशांगुलोत्सेवं, अष्टादशांगुलो-  
त्सेवं पृष्ठं, चतुरंगुलासेवा द्रव्यंगुलरिणादा शिरोधरा, द्वादशां-  
गुलोत्सेवं चतुर्विंशत्यंगुलपरिणाहमाननं, पञ्चांगुलप्राप्त्यं, चिकुकोप्त-  
कर्णाक्षिमध्यनासिकाल्लाटं चतुरुंगुलं, षोडशांगुलोत्सेवं द्वात्रिंशदंगुल-  
परिणाहं शिरः—इति पृथक्त्वेनाङ्गावयवानां मानमुक्तम् । केवलं पुनः  
शरीरमंगुलिपर्वाणि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं समुच्चयते । तत्राऽऽ-  
युबेलमोजःसुखमैश्वर्यं वित्तमिष्टाश्वापरे भावा भवन्त्यायताः प्रमाण-  
वति शरीरे, विपर्ययस्त्वतो हीनेऽधिके वा ॥ १७ ॥

प्रमाण द्वारा शरीर की परीक्षा करनी चाहिये । शरीर का प्रमाण प्रत्येक  
व्यक्ति को अपनी अंगुलियों से माप कर जानना चाहिये । उत्सेध ( ऊंचाई ),  
विस्तार ( व्यास, चौडाई ), आयाम लम्बाई ये क्रमानुसार कहेंगे । इनमें—पांच

की ऊंचाई ४, चौड़ाई ६ और लम्बाई चौदह अंगुल हो। टांगे ( बुटने से नीचे टखने तक का भाग ) लम्बाई में अढारह अंगुल, घेर में १६ अंगुल, बुटने लम्बाई में ४ अंगुल और घेर में १६ अंगुल, जाँबैं घेर में ३० अंगुल, लम्बाई में १८ अंगुल, वृत्त ६ अंगुल लम्बे और गोलाई में आठ अंगुल, शिश्न ( लिंग ) के अंगुल लम्बा और गोलाई में पांच अंगुल ( सुश्रुत में चार अंगुल ), भग ( खीणुशांग ) १२ अंगुल, कटा १६ अंगुल चौड़ा, वस्ति का घिर ( मेढ़ को जड़ से नाभि प्रदेश तक पैद ) १० अंगुल लम्बा, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे लम्बाई में पेट १२ अंगुल लम्बा और १० अंगुल चौड़ा, पार्श्व ( दानों पार्श्व ) १० अंगुल चौड़े और १२ अंगुल लम्बे, स्तनों के बीच का अन्तर १२ अंगुल चौड़ा, स्तनपान्त दो अंगुल छाती १२ अंगुल ऊंची, २४ अंगुल चौड़ा, ( सुश्रुत में १८ अंगुल चौड़ा छाती कहा है, यह खों की समझनी चाहिये ), हृदय दो अंगुल, हृद्यन्त द अंगुल, नुजासनि ( अंस ) ६ अंगुल, प्रवाहू ( कंधे से नीचे कोहनों तक का भाग ) १६ अंगुल, प्रसाणि ( कलाई से कोहनों तक का भाग, प्रक्षोष ) १५ अंगुल, हाथ १० अंगुल, ( उसमें भी मध्यम अंगुलि ५ अंगुल, प्रदेशिनों ओर अनामिका इति अंगुल, कनिष्ठा और अंगुष्ठ ३॥ अंगुल ), दानों कक्षा द अंगुल, त्रिक १२ अंगुल ऊंचा, पोठ १८ अंगुल ऊंचा, प्रावा ४ अंगुल ऊंचा और घेरा २४ अंगुल, मुख ( मस्तक से ठोड़ी तक ) १२ अंगुल और २४ अंगुल घेर वाला, खुड़ा भुज ५ अंगुल, चिकुक, ( दाढ़ा ) कान, आंष्ठ, धांतों के बीच का मध्य भाग, नामिका और लङ्घाट ये प्रत्येक चार अंगुल, घिर १६ अंगुल लम्बा, ऊंचा और ३२ अंगुल घेर वाला होता है। इस प्रकार से पृथक् पृथक् अंगों का मार कह दिया है। सम्पूर्ण शरीर पांच से आरम्भ करके घिर तक सारा द४ अंगुल होता है ( सुश्रुत में एक सौ बीक अंगुल लम्बाई कही है )। यह परिमाण पांच की अग्र-अस्थि से लेकर हाथों को ऊंचे उठाये हुए पुरुष का समस्ता चाहिये ।)

प्रमाण तीन प्रकार का है, सम, हीन और अधिक। इनमें जो शरीर लम्बाई और विस्तार में उपरोक्त कहे हुए प्रमाण के समान हो वह 'समप्रमाण' समझना चाहिये। इस प्रकार के समप्रमाण वाले शरीर में आयु, बड़, ओज, सुख, ऐश्वर्य, धन और अन्य शुभ भाव रहते हैं। इस समरिमाण से हीन वा अधिक में ये गुण ( आयु आदि ) नहीं रहते ॥ ११७ ॥

सात्यतश्चेति—सात्यं नाम तद्यत्सातत्येनोपयुज्यमानमुपरोते ।  
तत्र ये धृत-क्षीर-वैल-मास-रस-सात्यासर्व-रस-सात्याश्च, ते बलवन्तः

क्लेशसहाय्यरजीविनश्च मरन्ति । रुक्षसात्म्याः पुनरेकरससात्म्याश्च  
ये, ते प्रायेणाल्पबलाश्चाक्लेशसहा अल्पायुषोऽल्पसाधनाश्च । व्यामिश्रसा-  
त्म्यास्तु ये, ते मध्यबलाः सात्म्यनिमित्ततो मरन्ति ॥ ११८ ॥

सात्म्य से परीक्षा करनी चाहिये । जिसके निरन्तर अम्यात्र से सुख मिलता है, उसको 'सात्म्य' कहते हैं । इसमें जो पुरुष धी, तैल, दूध, मांस रस का सेवन निरन्तर करते हैं तथा जिनको सब सात्म्य है, वे बलबान् झ्लेश सहने वाले और दीर्घायु होते हैं । जिन पुरुषों की रुक्ष पदार्थ सात्म्य हैं और जो एक ही रुट का अम्यात्र करते हैं, वे पुरुष प्रायः करके अल्पबल, योद्धा कष्ट उठाने वाले, अल्पायु, अल्पकिया से गुजारा करने वाले होते हैं । प्रवर और अवर इस मिथित सात्म्य वाले पुरुष मध्य सात्म्य के कारण मध्यम बल होते हैं । इसलिये मध्य झ्लेश सहन करने वाले, मध्यमायु होते हैं ॥ ११९ ॥

सत्त्वतश्चेति-सत्त्वमुच्यते मनः, तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयो-  
गात् । तत् त्रिविधं बलभेदैन-प्रवरं मध्यमवरं चेति । अतश्च प्रवर-  
मध्यावरसत्त्वाश्च भवन्ति पुरुषाः । तत्र प्रवरसत्त्वाः स्वल्पाः, ते सारे-  
षुपदिष्टाः स्वल्पशरीरा द्वापि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडा-  
स्वल्पमादृश्यन्ते, सत्त्वगुणवैशेष्यात् । मध्यसत्त्वास्त्वपरानामन्युपनि-  
धाय संस्तम्भयन्त्यात्मनाऽस्त्वानं पर्वाइपि संस्तम्भ्यन्ते; हीनसत्त्वास्तु  
नाऽस्त्वाना, न च परः सत्त्वबलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयितुं, महाशरीरा  
द्वापि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते, संनिहित-भय-शोक-लोभ-  
मोह-माना रोड़-मैरव-द्विष्ट-बीमत्स-विकृत-संकथास्वपि च पशुपुरुषमा-  
सशोणितानि चावेष्य विषाद-वैकर्ण्य-मूर्छांन्माद-भ्रम-प्रपतनानामन्यत-  
ममाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति ॥ १२० ॥

सत्त्व से परीक्षा करनी चाहिये । सत्त्व का अर्थ मन है । यह मन आत्मा के साथ मिलकर इस शरीर को ( इन्द्रियों को ) प्रेरित करता है । यह सत्त्व-संज्ञा वाला मन बल के भेद से प्रवर मध्य और अवर यह तीन प्रकार का है । इसलिये प्रवर सत्त्व ( शुद्ध ) मध्यम सत्त्व ( राजस ) और अवर सत्त्व ( तामस ) प्रकृति के मनुष्य होते हैं । इनमें प्रवर सत्त्वों का वर्णन 'सत्त्वसार' ओज के वर्णन में ( रमृतिमान् आदि से ) कह दिया है । ये प्रवर सत्त्व वाले व्यक्ति छोटे शरीर के होने पर भी शारीरिक एवं आगन्तुज, बड़े रोगों में भी (तीव्र दर्दों में भी ) अथारहित दीखते हैं, वहीं पीड़ा की भी कुछ नहीं मानते । इसका कारण सत्त्वगुण की अधिकता है । ये अपने आत्मा से ही अपने को सम्भाल

क्लेते हैं। मध्यम सत्त्व पुरुष तीव्र वेदना को असद्य देख कर वेदना में अपने को अपने आप रोकते हैं, अथवा दूसरे पुरुष इनको सम्मालते हैं। हीन सत्त्व वाले पुरुष स्वयं अपने को सम्माल नहीं सकते और नहीं दूसरे इनको सम्माल सकते हैं। ये हीनसत्त्व पुरुष बड़े शरीर वाले होकर भी योङ्गी सी पीड़ा को भी सहन नहीं कर सकते। ये पुरुष भय, शोक, लोभ, मोह, आमान, रौद्र, भैरव, द्विष्ट, वीभूत और विकृत कथाओं में, और पशु-मनुष्य के मांस-रक्त आदि को देख कर विशाद, विवर्ण, मूर्छा, उन्माद, भ्रम, पतन इनमें से किसी एक के बश हो जाते हैं, अथवा मर जाते हैं ॥११६॥

**आहारशक्तिश्चेति—आहारशक्तिरध्यवहृणशक्त्या जरणशक्त्या च परीक्ष्या, बलायुषी द्वाहारायते ॥ १२० ॥**

आहार शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने और उसको पचा लेने की शक्ति से करनी चाहिये। व्योक्ति बल और आयु आहर के ही अधीन हैं ॥१२०॥

**व्यायामशक्तिश्चेति—व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्ष्या कर्मशक्त्या हानुमीयते बलवैविध्यम् ॥ १२१ ॥**

व्यायाम शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—व्यायाम शक्ति की परीक्षा शरीर में परिभ्रम उत्पन्न करने वाले कर्म से करनी चाहिये। कर्म शक्ति से तीनों प्रकार का प्रबर, मध्यम और अवर बल जाना जाता है ॥१२१॥

**वयस्तश्चेति, काढप्रमाणविशेषापेक्षिष्ठी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते । तद्यो यथाग्युलभेदेन त्रिविधं—बालं मध्यं जीर्णमिति । तत्र बालमपरिपक्वधातुमजातव्यञ्जनं सुकुमारमक्लेशसहमसंपूर्णबलं श्लेष्मधातुप्रायमाषोडशवर्षं, विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवरिथितसत्त्वमात्रिशद्रूषमुपदिष्टं, मध्यं पुनः समत्वागत-बल-जीर्ण-पौरुष-पराक्रम-प्रहृण-धारण-स्मरण-वचन-विज्ञान-सर्वधातु-गुणं बल-स्थितमवस्थितसत्त्वम-विशीर्णमाण-धातु-गुणं पित्त-धातु-प्रायमाषष्टिवर्षमुपदिष्टं अतः परं परिहीयमानधात्विन्द्रिय-बल-जीर्ण-पौरुष-पराक्रम-प्रहृण-धारणस्मरण-वचन-विज्ञानं भ्रश्यमानधातुगुणं वातधातुप्रायं क्रमेण जीर्णमुक्तयते आवर्षज्ञतं, वर्षज्ञतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्काले । सन्ति पुनरधिको-नवर्षज्ञतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकृतिवर्जः प्रकृत्यादिबलविशेष-रायुषो लक्षणतश्च प्रमाणमुपलङ्घ्य वयस्तित्वं विभजेत् ॥ १२२ ॥**

आयु से परीक्षा करनी चाहिये—विशेष काङ्क्षपरिमाण की अपेक्षा से शरीर

की अवश्या का नाम 'वय' कहा जाता है। यह वय अवश्या भेद से तोन प्रकार का है। ( १ ) बाल, ( २ ) मध्य और ( ३ ) जीर्ण, इनमें बाल वय तोल वर्ष तक है। इसमें भी १६ वर्ष तक रुप, रक आदि धातु अग्रिपक रहते हैं, दाढ़ी-मूँछ आदि लक्षण स्थान नहीं होते, शरीर सुकुमार, क्लेश न सहने वाला, असम्पूर्ण बल वाला होता है। इस अवश्या में कफ धातु अधिक होता है। प्रायः करके मन अस्थिर, धातु लगातार बढ़ रहे होते हैं। मध्यम वय—तीव्र से ऊर और ६० से नीचे तक की आयु है। बल, वीर्य, विक्रम, पौष्टि, पराक्रम, अर्थ का ग्रहण, शब्द आदि का धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान, तथा तर धातुओं के गुण, समान अवश्या में पहुंचे होते हैं। इस समय बल स्थिर रहता है मन निश्चल हो जाता है, धातुओं के गुण नष्ट नहीं होते, पित्त प्रवान रहता है। जीर्ण वय—६० वर्ष से ऊर आर १०० वर्ष के बीच के समय को जीर्ण वय कहते हैं। इस समय में धातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य, पौष्टि, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान एवं धातुओं के गुण क्रमशः क्षीण होरहे होते हैं। शरीर में वायु की प्रधानता रहती है। इसलिये इस अवश्या को जीर्ण-अवश्या कहते हैं।

इस काल में सौ वर्ष से अधिक या कम जोने वाले पुरुष भी हैं। इन पुरुषों में विकृति को छोड़ कर अन्य प्रकृति आदि बल विशेष से तथा इन्द्रिय स्थान में और शरीर स्थान में कहे हुए लक्षणों से आयु का प्रमाण जान कर आयु के तीन विभाग करने चाहिये ॥१२२॥

एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्ड्यानां भावानां प्रवरमध्यावरविभागेन बलविशेषं विभजेत् । विकृतिवलत्रेविधेन तु दोषबलं विविदमनु-मीयते । ततो भवत्यस्य तीक्ष्णसृदुमध्यविभागेन त्रित्वं विभज्य यथा-दोषं भेषज्यमत्रचारयेदिति ॥ १२३ ॥

इस प्रकार से विकृति को छोड़ कर प्रकृति से आरम्भ करके वय के अन्त तक कहे हुए गुणों से प्रवर, अवर और मध्य विभाग करके इसके अनुसार रोग के बल का प्रवर, अवर और मध्य विभाग करना चाहिये। विकृति बल के भी तीन विभाग करके उनसे दोषों के तीन प्रकार के बलों का अनुमान किया

क्षे चुश्रुत ने आयु का विभाग दोषों के संचय काल की दृष्टि से किया है। चरक में धातुओं की वृद्धि, साम्य और व्यय की दृष्टि से किया है, यह स्थान रखना चाहिये ।

जाता है। इसके अनन्तर औषध का भी तोड़ग, मृदु और मध्य रूप से विभाग करके दोष एवं बल के औषध का प्रबर, मध्य और अचर रूप से प्रयोग करे ॥ १२३ ॥

**आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसूत्रीये च लक्षणान्यु-  
पदेश्यन्ते ॥ १२४ ॥**

आयु के प्रमाण को जानने के लिये लक्षण इन्द्रियस्थान में तथा शारीर स्थान के जातिसूत्रीय अध्याय में बहेंगे ॥ १२४ ॥

**कालः पुनः संवन्सरश्चाऽनुरावस्था च । नन्त्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा  
षोढा द्वादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्त्वार्थमभिसमीक्ष्य । तं  
तु ख्वलु तावत्षोढा प्रविभज्य कार्यमुपदेश्यते—हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाश्चेति  
शीतोष्णवर्षलक्षणाख्यय शृग्नदो भवन्ति । तेषामन्तरेण्ट्वन्तरे साधारण-  
लक्षणाख्यय श्रुतवः प्रावृद्धशरद्दसन्ता इति । प्रावृद्धिति प्रथनः प्रवृष्टेः  
कालः, तस्यानुबन्धो हि वर्षाः । एवमेते संशोधननिधिकृत्य पद्म विभ-  
ज्यन्ते श्रुतवः ॥ १२५ ॥**

काल—संवत्सर और रोगी की अवस्था का नाम ‘काल’ है। इनमें संवत्सर अयन मेद से दो प्रकार का; शीत, उष्ण, वर्षा मेद से तीन प्रकार हा, शृतु विभाग से छः प्रकार का, मास मेद से बाहर प्रकार का, पक्ष मेद से चौबीस प्रकार का, और दिन, प्रहरादि के मेद से अनेक प्रकार का है। कार्य की दृष्टि से इसका विभाग किया जाता है। यहां पर वर्ण को शृतु विभाग से छः प्रकार का विभाग करके इसके कार्य को कहेंगे। हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा रूप से शीत, उष्ण और वरसात के लक्षणों वाली मुख्यतः तीन शृतुओं के बीच में भी दूसरी साधारण लक्षणों वाली तीन शृतुएँ होती हैं। यथा—प्रावृद्ध, शरद और वरन्त अर्थात् प्रवृष्टि इसका प्रथम प्रारम्भ काल होना ‘प्रावृद्ध’ है। इसका पिछला भाग वर्षा-शृतु। इस प्रकार से संशोधननिधिकार में हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृद्ध वर्षा और शरद ये शृतुएँ कह दी हैं ॥ १२५ ॥

तत्र साधारणलक्षणेष्वतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिविधीयते, निवृत्ति-  
रितरेषु । साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात् सुखतमाश्च भव-  
न्त्यविकल्पकाश्च शरीरोषधानां, इतरे पुनरत्यर्थशीतोष्णवर्षत्वाद्  
दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पकाश्च शरीरोषधानाम् ॥ १२६ ॥

इनमें साधारण लक्षणों धाले समय में जब न बढ़त शीत और न बहुत गरमी हो, जैसे प्रावृद्ध, शरद और वरन्त शृतु में वमन आदि कार्यों के करने

का विचान है। अन्य तीन, अधिक शीत, अधिक उष्ण, अधिक शूष्टि, हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा इन शृङ्खलों में बमनादि कार्य नहीं किये जाते। क्योंकि शाशा-रण छब्बियों वाली शृङ्खले मन्द शीत, मन्द उष्ण और मन्द वर्षा वाली होने से शरीर के लिये अति सुखकारक एवं औषधियों का नाश न करने वाली होती है। इसलिये उनमें बमन आदि कार्य किये जाते हैं। अन्य तीन ( हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा ) शृङ्खले अति शीत, अति गरमी और अति वर्षा वाली होने से शरीर के लिये दुःखदायक और औषधियों का नाश करने वाली होती हैं। इसलिये इन शृङ्खलों में बमन आदि उपाय नहीं किये जाते ॥१२६॥

तत्र हेमन्ते ह्यतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्वति-  
शीतवातात्मातमतिदारुणीभूतमावद्वदोषं च, भेषजं पुनः संशोधनार्थं-  
मुष्णस्वभावं शीतोपहतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः संयोगे  
संशोधनमयोगायोपपद्यते, शरीरमपि च वातोपद्रवाय ।

इनमें से हेमन्त शृङ्खले में अधिक शीत होने के कारण शरीर को सुख नहीं मिलता। अति शीत और अति वायु से शरीर विकृत्व, अति कठोर और बहुत भारी दोष युक्त एवं अतिस्तन्त्र दोष वाला हो जाता है। उष्ण स्वभाव वाली संशोधनकारी औषध भी शीत के अधिक होने से हीनवीर्य रहती है। इसलिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग अयोग अर्थात् अनुचित रहता है। शरीर में भी प्रायः वायु के उपद्रव होने लगते हैं।

ग्रीष्मे पुनर्भृशोष्योपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्युष्णवातातपा-  
भ्मातमतिशिथिलमत्यन्तप्रविलोनदोषं, भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्व-  
भावमुष्णानुगमनात्तीक्ष्णतरत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः संयोगे संशोधन-  
मतियोगायोपपद्यते, शरीरमपि पिपासोपद्रवाय ।

ग्रीष्म शृङ्खले में गरमी के अधिक होने से शरीर को सुख नहीं मिलता। इसलिये उष्ण वायु और उष्ण धूप से शरीर फूँड जाता अति शिथिल तथा गरमी के कारण दोष बहुत अधिक छिपे ( ढुले ) रहते हैं। संशोधन के लिये जो औषध ही जाती है, उसका स्वभाव उष्ण होता है। यह उष्ण स्वभाव की औषध सूर्य की किरणों के योग से अति उष्ण होकर अति तीव्र हो जाती है। इसलिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग 'अतियोग' हो जाती है। शरीर में भी प्यास के उपद्रव होने लगते हैं।

वर्षासु तु मेघजालावतते गूढार्कचन्द्रवारे धाराकुले वियति भूमौ  
पङ्क-जङ्ग-पटल-संवृत्तायामत्यर्थोपकिळजशरीरेषु भूरेषु विहतस्वभावेषु च

केवलेष्वौषधप्रामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसंसर्गाद् गुहप्रवृत्तीनि वम-  
नादीनि भवन्ति, गुरुसमुत्थानानि च शरीराणि । तस्माद्भ्रनादीनां  
निवृत्तिविधीयते वर्षभागान्तेष्वृत्यु न चेदात्ययिकं कर्म, आत्ययिके  
पुनः कर्मणि कायस्तुं विकल्प्य कृत्रिमगुणोपचानेन यथर्तुंगुणविपरीतेन  
भेषज्यं संयोग-संस्कार-प्रमाण-विकल्पेनोपरायां प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा  
ततः प्रयोजयेदुत्तमेन यत्नेनावहितः ॥ १२७ ॥

वर्ष श्रृङ्ग में आकाश बादलों से भरा रहता है, सूर्य, चन्द्र मा और तारे  
छिपे रहते हैं। इस समय आकाश से पानी बरसता है, भूमि की चड़िसे भरी होती  
है। प्राणियों का शरीर अत्यन्त छिन्न (आर्द्ध) होता है। इसलिये स्वामाविक  
गुण घट जाता है। सम्पूर्ण औषधियों में जल, बादल और इनसे मिली वायु  
का संसर्ग होने से रस, वीर्य आदि का नाश हो जाता है। इसलिये वमन आदि  
गुरु कार्यों को ये औषधियों नहीं कर सकती। इस श्रृङ्ग में जो रोग शरीर में  
होते हैं, उनका निदान महान् होता है। इसलिये हेमन्त, ग्रीष्म और वर्ष में  
वमन आदि कार्यों का निषेध किया जाता है।

यदि वमन आदि कार्य करना आवश्यक (अनिवार्य) हो हो तो हेमन्त  
आदि श्रृङ्गओं में भी श्रृङ्ग के विपरीत कृत्रिम श्रृङ्ग (हेमन्त में गर्मशृङ्ग आदि,  
ग्रीष्म में धाराशृङ्ग आदि) बनाकर, भेषज को संयोग संस्कार के अनुसार तीक्ष्ण  
या मृदु वीर्य करके पूर्ण सावधाना के साथ प्रयोग करे जिससे हेमन्त में अयोग  
और ग्रीष्म में अतियोग न हो ॥-१२७ ॥

आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा । तद्यथा-  
अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकाळः कालः पुनरन्वस्येति पृतदपि हि  
भवत्यवस्थाविशेषण, तस्मादातुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंज्ञा । तस्य  
परीक्षा सुहुर्सुहुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेषावेक्षणं यथावद्भेषजप्रयोगार्थं,  
नद्यातिर्पार्वितकालभ्रासकालं वा भेषजसुप्रयुज्यमानं यौगिकं भवति ।  
कालो हि भेषज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिर्वर्त्यते ॥ १२८ ॥

रोगी की अवस्था में भी कार्य एवं अकार्य को देखकर काल और अकाल  
कहा जाता है। जैसे—इस अवस्था में इस औषध का काल नहीं है और इस  
अन्य औषध का समय है। (यथा—इवर के छः दिन बीतने पर औषध देनी  
चाहिये यह औषध का काल है)। यह औषध देने का समय नहीं है (जैसे  
नव उत्तर में कषाय का देना अकाल है)। यह भी अवस्था भेद से ऐसा होता  
है। इसलिये रोगी की अवस्था में भी ‘काल-अकाल’ होता है। इसकी परीक्षा

रोगी की सब अवस्थाओं को बार-बार देखकर उचित रीति से औषध देने के लिये करनी चाहिये । क्योंकि समय के बीतने पर अथवा समय से पूर्व दो हुई औषध फलदायक नहीं होती । उचित काल ही औषध प्रयोग को सफल करता है ॥ १२८ ॥

प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्मसमारम्भः । तस्य लक्षणं-भिषगातुरीषधपरिचारकाणां क्रियासमायोगः ॥ १२९ ॥

प्रवृत्ति—चिकित्सा कर्म का प्रारम्भ 'प्रवृत्ति' है । भिषग्, औषध रोगी और परिचारक इन चारों का मिलकर क्रिया आरम्भ करना इसका लक्षण है ॥ १२९ ॥

उपायः पुनर्भिषगादीनां सौष्ठुद्वभिविधानं च सम्यक् । तस्य लक्षणं—भिषगादीनां यथोक्तगुण-संपदेश-काल-प्रमाण-सात्म्य-क्रियादि-भिक्ष सिद्धिकारणैः सम्यगुपपादितस्यौषधस्यावचारणमिति ॥ १३० ॥

एवमेते दश परीक्ष्यविशेषाः पुथकृथक् परीक्षितव्या भवन्ति ॥

उपाय—भिषग्, औषध, रोगी और परिचारक इन चारों का यथोक्त उत्तम गुण वाला होना एवं देश काल की अपेक्षा से इनका एकत्र होना है । खुड़ाक-चतुषाद अध्याप में कहे अपने-अपने गुणों से युक्त होकर, देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और क्रिया आदि सफलता देने वाले कारणों से विचार कर भली प्रकार दो हुई औषध का प्रयोग ही उपाय का लक्षण है ।

इस विविध से कारण आदि दस परीक्ष्य विषयों की पृथक् पृथक् परीक्षा करनी चाहिये ॥ १३० ॥

परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं । प्रतिपत्तिर्नाम—यो विकारो यथा प्रतिपत्तिव्यस्तस्य तथाऽनुष्टानज्ञानम् ॥ १३१ ॥

परीक्षा का प्रयोजन—परीक्षा का प्रयोजन 'प्रतिपत्ति' है अर्थात् जो विकार जिस प्रकार से जानना चाहिये और जिस उपाय से चिकित्सा करना चाहिये, उस रोग की वैसी चिकित्सा का ज्ञान करना 'प्रतिपत्ति' है ॥ १३१ ॥

यत्र तु खलु वमनादीनां प्रवृत्तिर्यत्र च निवृत्तिस्तद् व्यासतः सिद्धिपूत्तरकालमुपदेश्यते सर्वम् । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे तु खलु गुरु-ठाघवं संप्रधार्य सम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्टायाम् । सन्ति हि व्याघयः शाक्षेत्सर्गापवादैरुपकर्म प्रति निर्दिष्टाः । तस्माद् गुरुठाघवं संप्रधार्य सम्यगध्यवस्येदित्युक्तम् ॥ १३२ ॥

जिन रोगियों को वमन देना चाहिये और जिनको वमन आदि नहीं देना चाहिये, इन सबको पृथक् पृथक् आगे चिदिश्यान में होंगे ।

यदि एक ही पुरुष में वमन आदि कार्यों की प्रवृत्ति ( देने ) और निवृत्ति ( न देने ) दोनों कार्यों के लक्षण हों तब रोगों में गुरुता और लघुता भली प्रकार देख कर एक कार्य का निश्चय करना चाहिये, प्रवृत्ति और निवृत्ति के लक्षणों में से जिसके लक्षण गुरु हों वह कार्य वरना चाहिये। दूसरे लघु-लक्षणों वाले कार्य को छोड़ देना चाहिये। क्योंकि शाकों में ऐसे भी रोग हैं, जिनकी चिकित्सा विधि और निषेध रूप से कटी है। शाक में उचकम की पवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कही है। इनमें से एक कार्य का निश्चय गुरु, लघु देखकर करना चाहिये ॥१३२॥

यानि तु खलु वमनादिपु भेपज-द्रव्याण्युपयोगं गच्छन्ति तान्यनु-  
व्याख्यास्यन्ते । तदथा-फल-जीमूतकेश्वाङ्-धार्मार्गव-कुटज-कृतवेषन-  
फलानि, फल-जीमूतकेश्वाङ्-कुर्यान्वन्व-पत्र-पुश्पाणि, आरम्भवृक्षक-  
मदन-स्वादु-कण्टकपाठा-पाटल-शाङ्खामूदो-सप्तपर्ण-नक्त-माल-पचु-  
मर्द-पटोल-सुषवा- गुद्धचाँचित्रक-सोमवलक द्रौपि-शिशू-मूल-कषायेश्व-  
मधुक-मधुकन्कोविदार-कर्वुदार-नीप-नितुल-विश्वा-शणपुडी-सदापुष्पी-  
प्रस्यकपुष्पी-कषायेश्व, एला-हरेण-प्रियंगु-पृथ्वीका-कुरु-गुरु तगर-नलद-  
हीवेर-तालीश-गोपी-कषायेश्व, इक्षुकाण्डिविक्षुवालिका-दभ-पोट-गलक-  
लंकृत-कषायेश्व, सुमना-सौमनस्यायनी-द्विद्रा-दारहरिद्रा-वृश्वा-पुनर्नवा-  
महासहा-क्षुद्रसहा-कषायेश्व, शालमलि-शालमलिक-भट्टण्यलापण्युपोदि-  
कोहालक-धन्वन्तर-राजादनोपचित्रा-गोपी-शूद्रा-टिका-कपायेश्व, पिप्पली-  
पिप्पलीमूल-चत्य-चित्रक-शृङ्खवेर-सर्षप-फाणित-क्षीर-क्षार-लवणोदकैश्च  
यथालाभं यथेष्टं वाऽप्युपसंकृत्य वर्तिकियाचूर्णवलेह-स्नेह कषाय-मांस-  
रस-यवागू-यूष-काम्बलिक-क्षीरोपघेयान्मोदकानन्याश्च योगान् विवि-  
धाननुविधाय यथाह॑ वमनार्हाय दद्याद्विधिवद्वमनमिति कल्पसंग्रहो  
वमनद्रव्याणाम् । कल्परत्वेषां विस्तरेणोत्तरकालमुपदेश्यते ॥ १३३ ॥

वमनोपयोगी द्रव्यः—वमन आदि कार्यों में जो धौपघ द्रव्य काम में आते हैं उनका वर्णन करते हैं। जैसे—वमन द्रव्य फल (मदन फल) जीमूत (तुरई) ईक्षवाकु ( कहवी तुरई ), धार्मार्गव ( कोशातकी ), कुटज ( कुड़ा ), कृतवेषन ( तुरई ) इनके फल लेने चाहिये । फल, जीमूत, ईक्षवाकु, धार्मार्गव इनके पत्ते और फूल । अमलतात, कुड़ा मैनफल, विकडुत, पाठा, पाटला, गुड़ा, मूँझ, सतवन, नाटाकरञ्ज, नीम, परवल, करेला, गिलोय, चीता, खेर, शतावरी, कंटेरी ( छोटी ), शोभाजन इनकी जड़ों का कषाय बना कर देवे । महुबा,

मुक्खठी, सफेद कचनार, लाल कचनार नीम, अम्लबेतस, कनूरी, छन्नानिया, लाल आक, अपामार्ग इनका कषाय प्रयोग करना चाहिये । वही इलायची, रेणुका (भेदी के बीज), फूल प्रियंगू, छोटी इलायची, घनिया, तगर, जटामासी, रस, तालीशपत्र, उचीर, नेत्रबाला इनके कषाय का प्रयोग करना चाहिये । गला, काष्ठेजु, कुद्ध, होगल, कसोदी, तगर इनके कषाय को देवे । चमेली, चमेली की कली, इल्दी, दाष्ठलदी, इवेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, माषपर्णी, मूँगपर्णी इनका कषाय देवे । सिंबल, रोहेका, भादालो, रास्ना, कलमबी, बहुवार, धामन, शीरणी बृक्ष, पृश्नपर्णी, सारिवा, सिंधादा इनका कषाय देवे । पिप्पड़ो, पिप्पलीपूल, चविका, चीता, सोठ, सरसों, फागित (राव), दूध, खार और नमक इनका कषाय देना चाहिये । अथवा इच्छा के अनुसार, दोष दूष्य की अपेक्षा से प्रयोगनानुसार वर्चि, चूर्ण, अबलेह, धी, तैल आदि, कषाय, मांस रस, यवागू (लसी), यूष, काम्बलिक, दूव, इनको मिळाकर बनाये लड्डू तथा अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करके वमन के योग्य व्यक्ति को वमनविधि से खाने के लिये देना चाहिये । यह वमन द्रव्यों का कल्प संक्षेप में कह दिया है । वमन द्रव्यों के कल्प को पोछे कल्पस्थान में विस्तार से कहेंगे ॥ १३३ ॥

विरेचनद्रव्याणि तु श्यामा-त्रिवृष्टिरुंगुल-तिल्वक-महावृक्ष-सप्तला-शङ्खनी-दन्ती-द्रवन्तीनां क्षीर-मळ-त्वकपत्र-पुष्प-फलानि यथायोगं तैस्तैः क्षीर-मूल-त्वकपत्र-फलैर्विक्लिप्साविक्लिप्सैरजगन्धाइवगन्धाजशृङ्खी-क्षीरिणी-नीलिनी-क्लीतक-कषायैश्च, प्रकीर्णोदकीर्णा-मसूर-विदला-करिप्लक-विहंग-गवाक्षी-कषायैश्च, पीलु-प्रियाल-मृद्दीका-काइमर्य-परुषक-बदर-दाढिमामलक-हरोतकी-विभीतक-बृशीर-पुनर्नवा-विदारिगन्धादि-कषा-यैश्च, शीघ्रु-सुरा-सौवीरक-उत्पोदक-मैरेय-मेदक-मदिरा-मधु-मधुलक-धा-न्यामल-कुवल-बदर - खर्जूर-कर्कन्धुभिश्च दधि-दधिमण्डोदशिवद्विश्च, गोमहिष्यजावीना च क्षीर-मूत्रैर्थालाभं यथेष्टं वाऽप्युपसंस्कृत्य वर्ति-क्षिय ।-नूर्णासव-च्छेह-स्नेह-कषाय-मासरस- यूषकाम्बलिक-यवागू-क्षीरोप-वेदान्मोदकानन्याश्च भक्ष्यप्रकारान् विविधाश्च योगाननुविधाय यथाहै विरेचनाहाय दृश्याद्विरेचनमिति कल्पसंप्रहो विरेचनद्रव्याणाम् । कल्प-स्त्वेषां विस्तरेण यथावदुत्तरकालमुपदेश्यते ॥ १३४ ॥

४४ काम्बलिक यूष का लक्षण—  
‘विशितेन रसस्तत्र यूषो धान्यैः खडः फलैः ।  
मूलैश्च तिळकल्का-मळप्रायः काम्बलिकः स्मृतः ॥ अष्टांगसंग्रह - सूत्रस्थान ॥

**विरेचन द्रव्य**—काली निशोध, सफेद निशोध, अमलतारु, लोध, सुही, शिकाकाई, शंखपुष्णी, दन्ती, द्रवन्ती ( मोगलई एरण्ड ) इनके दूध, मूल, त्वचा, पते, पुष्प और फूल ये छः विरेचनाश्रय द्रव्यों को मिला कर अथवा पुथक् पृथक् रूप से प्रयोग करना चाहिये । अज्जवायन, अवगन्ध, मेहाश्वङ्ग, दूर्या, नीलनी, मुलहठी, इन के कथाय कर देवे । प्रकोर्व और उदकोर्य ( दो प्रकार का करंज ), इयामलता, कमीला, बायविडंग, इंद्रायण इनके कथाय का उपयोग करे । पीलु, पियाल, मुनक्का, गम्भारी, फालसा, बेर, अनारदाना, आंवडा, हरड, बडेका, इवेत और लाल पुरन्नना, विदारीगन्धा, शालपर्णी, पुभिपर्णी, वृहती और छोटी कट्टेरी ( हस्तपंचमूल ) इनके कथाय का प्रयोग करना चाहिये । सीधु, मुरा, काप्जो, तुमोदक ( वान्याढ ), मैरेय ( मुरा और आसून को मिलाकर तैयार की मुरा ), मेदक, मदिरा, मधु ( दाक्षान्मुरा ), मधूलिङ्गा, धान्याम्ल, कुवल, वरर और कर्कन्तु ( बेरों के मेद हैं ) और खजूर, दही, दही का मण्ड मस्तु, उदविश्वत् ( दही में आदा पानी मिलाकर तैयार की छाँछ ), गाय, मैंस, वकरी और मेड इनमें से जितका मूत्र या दूध मिले उनसे वर्ति, चूर्ण, अवलेह, स्नेह, कवाय, गांस रस, यूग, काग़ज़लिक, पशागू, शीर तथा लड्डू और अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करके विरेचन के योग्य व्यक्ति को विरेचन विधि से खाने के लिये देना चाहिये । यह विरेचन द्रव्यों का संग्रह संक्षेप में कह दिया है । विस्तार से कलरस्थान में कहेंगे ॥ १३४ ॥

आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योगमुपयानित तेषु तेष्ववस्थान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि नापतो विस्तरेणोपदिश्यमानान्यपरिसंख्येयानि स्युरतिपदुत्वात्, इष्टश्वानतिसंक्षेरविस्तरोपदेशस्तन्त्रे, इष्टं च केवलं ज्ञानं, तस्माद्वस्त एव तान्यनुड्याख्यास्यन्ते ॥ १३५ ॥

आस्थापन द्रव्यों में जो द्रव्य प्रायः रोगियों की अवस्था मेद से अनेक प्रकार से प्रयोग में आते हैं, वे औषध द्रव्य अधिक होने से एक एक का नाम कहने पर असंख्य हो जाते हैं । शास्त्र में न तो अधिक संक्षेप और न अधिक विस्तार होना चाहिये । इसलिये शास्त्र में समूर्ण, सब बातों का ज्ञान ही अपेक्षित होता है । इसलिये आस्थापन द्रव्यों को यहाँ पर रस के द्वारा ( छः प्रकार से ) कहेंगे ॥ १३५ ॥

रस-संसर्ग-विकल्प-विस्तरो हेषामपरिसङ्ग-येयः, समवेतानां रसानामंशाशब्दविकल्पातिवृत्वात् । तस्माद् द्रव्याणां चैकदेशमुदाहरणार्थं रसेष्वनुविभज्य रसेकैकश्येन रसकैवल्येन च नामलक्षणार्थं षडास्थाप-नस्कन्धाः समूहरसतोऽनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते । यत्त षड्विधमास्था-

यनमेकरसमित्याचक्षते भिषजस्तद् दुर्लभतम्, संसृष्टरसमूयिष्टत्वाद् द्रव्याणाम् । तस्मान्मधुराणि च मधुरप्रायाणि च मधुरविपाकानि च मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदेश्यन्ते तथेतराणि द्रव्याण्यपि । तथाथा—जीवकर्षभकौ जीवनन्ती-बीरातामलकी-काकोली-क्षीरकाकोली-भीरु-मुद्रगपर्णी-माषपर्णी-शालपर्णी-पृश्चिपण्यसनपर्णी-मेदा-महामेदा-दारु-कर्कट-शृङ्गी-शृङ्गाटिका-छिन्नरहा-च्छत्रातिच्छत्रा-श्रावणी-महाश्रावणयल्मुखा-सहदेवा-विश्वदेवा-शुक्राक्षीर-शुक्रावलातिवला-विदारी-क्षीर-विदारी-क्षद्रसह-महासहार्यगन्धाश्वगन्ध-पयस्या-वृक्षीर-पुनर्नवा-वृहती-कण्टकैरण्ड-मोरट-इवदंप्ता-संहर्षी-शतावरी-शतपुष्पा-मधुकपुष्पी-यष्टिमधु-मधुलिका-मृद्वीका-खजूर-पस्तुकात्मगुप्ता-पुष्करवीज-कशेहका-राजादन-कतक-काइमर्य-शीतपाक्योदन-पाकीताल-खर्जूर-मस्त केद्विवलुवालिका-दर्भ-कुश-कास-शाळि-गुन्द्रेत्कटक-शरमूल-राजक्षवक-र्घ्यप्रोक्ता-द्वारदान-भारद्वाजी-ननत्रपुष्प-भीरुपत्री-हंसपादी-काकनासा-कुलिङ्गा-क्षीरवल्ली-कपोतवल्ली-गोपवल्ली-मधुवल्लयः सोमवल्ली चेति ।

छः रस होने पर भी इनके परस्पर मिलने से बहुत विद्वार हो जाता है, जिससे कि ये असंख्य बन जाते हैं । एक दूसरे में भिले रसों के अंशोंश बल की विकल्पना से असंख्य मेद हो जाते हैं । इसलिये आस्थापन द्रव्यों के उदाहरण मात्र के लिये मधुर आदि छः प्रकार के रसों में एक एक का विमाग करके नाम मात्र से कहेंगे । दुदिमान् मनुष्य न कहे हुए द्रव्यों को भी समझ सकेंगे । अतः रस के अनुसार छः प्रकार विमाग करके नाम और लक्षण दर्शाने के लिये छः आस्थापन स्फन्धों को समूह रसों के अनुसार विमाग करके कहेंगे ।

वैद्य लोग छः प्रकार के आस्थापन स्फन्ध को शुद्ध एक रस वाला कहते हैं । यह बात अतिरुल्मी है । क्योंकि द्रव्यों में एक अनेक रसों का परस्पर संसर्ग रहता है । इसलिये जो द्रव्य मधुर रस ( प्रायः करके ) बहुल मधुर विपाक और मधुर प्रभाव वाले ( अचिन्त्य शक्ति वाले ) हैं, उनके रसान्तर होने पर भी मधुर रस की प्रधानता होने से मधुर समझकर इस मधुर स्फन्ध में ही उपदेश करेंगे । इसी प्रकार अङ्ग आदि द्रव्यों की भी व्याख्या करेंगे ।

यथा—जीवक, क्षम्बक, जीवन्ती, बीरा ( शतावरी ), तामलकी ( भूत्या-मलकी ), काकोली, क्षीरकाकोली, भीरु ( सहस्रीरा, शतावरी का मेद ), मूर्णपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, पृश्चिपण्यी, शणपर्णी मेदा, देवदार, काकड़ाशृङ्गी, उंधाडा, छिन्नरहा, ( गिलोय ) छत्रा, तालमखाना, अहिञ्चक्षा

( सौंफ का भेद ), लाल कोकिलाश, आबाणी ( रक्षमुण्डेरी ), महाआबणी ( इवेतमुण्डेरी ), अलंगुशा, सहदेवी, पीतपुष्पा ( बला ), विश्वदेवा लालफूल-वाली, दण्डोत्पला, शुक्रा, निशोय, बला, अतिबला, विदारी, खीरविदारी, छुदसहा ( ऐन्द्री ), लालकुरवक, इवेत कुरवक, भरासहा, कुजकतरणी, इवेत कुरवक, श्रुधगन्धा, असगन्ध, संहस्रां ( जन्तुकारी ), गोखरू, बन्दाक, शतावरी, सौंफ, महुए का भेद, मुलहठी, मधूलिका, किसमिस, खजूर, फालसा, कौच, कमल के बीज, कसेरू, राजकसेरू, पियाल, कतक, गम्भारी, शीतला, नील क्षिण्टी, ताल और खजूर, मुस्तका, गच्छा, ईनुवालिका, दर्भ, कुश, काश, लाल चावल, गुन्दा ( शरमेद ), इत्कट, शरमूल, राज सरसों ( पीढ़ी सरसों ) श्रुधप्रोक्ता वा शतावरी भेद कपिकचू ( कौचू ), द्वारदा, ( साल ) भारद्वाजी ( जंगली कपास ), जंगली खीरा, शतावरी भेद, ( हंसपादिका ) हंस के पांव के समान आकार की लता, काकनासा, पेटिका, खीरलता, छोटी इलायची, अनन्त मूल, यष्टिमधु का भेद कपोतवज्ञी ( वाहांी भेद ) और सोमलता, गोपवज्ञी और मधुवज्ञी ।

एषामेवं विधानामन्येषां च मधुरवर्ग-परिसंख्यातानामौषधध्रव्याणां लेश्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा यश्वाल्य पानी येन सुप्रक्षालितायां स्थालयां समावात्य पयसाऽर्थादेकेनाभ्यासिच्य साधयेहर्न्या सततमुपघट्यन्, तदुपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौपै वेषु पयसि चानुपद्वग्ने स्थालीमपहृत्य सुपरिपूतं पयः सुखोलां घृततैल-वसा-मज्ज-लवण-फागितोपहितं वस्ति वानविकारिणे विधिज्ञो विधि-वद्यात्, शीतं तु मधुसर्पिङ्गर्यामुपसंसूज्य पित्तविकारिणे विधिवद् चादिति मधुरस्कन्धः ॥ १३६ ॥

इन अथवा अन्य इस प्रकार के मधुवर्ग में पठित औपव द्रव्यों में जो द्रव्य लेदन के योग्य हों, उनके दुकड़े २ करके और जो फोड़ने के योग्य हों, उनको फोड़कर छोटे २ दुकड़े बनाकर पानी से भली प्रकार धोकर थाली में रखना चाहिये । डेग ताम्बा, लोहा या भिट्ठी को लेनी नाहिये । डेग को नीचे से लेप देना चाहिये । इस डेग में दूध में आधा पानी मिलाकर ढाल देना चाहिये । इस डेग को अग्नि पर रख कर कोमल आंच से धीरे धीरे पकाना चाहिये । पकाते समय कड़छी से निरन्तर चलाते जाना चाहिये । जिस समय पानी लगभग सुख जाये, छोशियों में से रस निकल जाये, दूध का जलना आरम्भ न हो, तब डेग को उतार कर बन्न से छान लेना चाहिये । फिर इस दूध को कुछ गरम रखकर थी, नेतृ आदि नर्बा, मज्जा का गेल जादि मिला-कर

वातरोगी को विषिपूर्वक आस्थापन नामक वस्ति दे । दूध के ठण्डा होने पर या मधु मिला कर पित्त विकार के रोगी को विषिपूर्वक वस्ति दे । यह मधु-स्कन्ध हुआ ॥ १३६ ॥

आश्रामातक-लकुच - करमद्वृक्षाम्लाम्लवेतस-कुबल बदर-दाढ़िम-मातुलुङ्ग-गण्डीरामलक - नन्दीतक-शीतक-तिन्तिडीक - दन्तशठैरावतक-कोषाम्र-धन्वनानां फलानि, पत्राणि चाप्रातकाइमन्तक-चाङ्गेरीणां चतु-विधानां चापिलकानां द्रुयोः कोलयोश्चाम-शुष्कयोद्रुयोश्चैव शुष्कपिलक-योर्गाम्यारण्ययोः, वासव-द्रव्याणि च सुरा-सौवीर-तुषोदक-मैरेय-मेदक-मदिरा-मधु-सीधु-शुक्त-दधि-दधिमण्डोदिश्वद्वान्याम्लादीनि च ।

अम्लद्रव्यस्कन्ध—आम, आमदा, बड़हल ( ढहु ), करौदा, इमली, आल वेतस, कुबल और बदर ( वेर के मेद ), अनार, बिजौर, गण्डीर ( समष्टिल, काकाम ) आंवला नन्दीतक ( तून ), जल्लोटक ( कालमेघ ), निम्बु, ऐरावतक ( नारंगी ), तिन्तिडीक ( अमली ), कच्चा आम और धन्वन ( धामन ), दन्तशठ ( कैथ ) के फल, आम्रातक, अशमन्तक ( कचनार का मेद ) और चांगेरी ( शाक ) इनके पत्ते, चारों प्रकार का इमली, शुष्क आम, दोनों प्रकार के वेर, चार प्रकार की इमली, ( पाम्प और जंगली शुष्क और आईं मेद से नार प्रकार की ) इनके पत्ते, आसव द्रव्य, सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मेदक, मदिरा, मधु, सीधु, शुक्त, दही, मस्तु, उदविक्त, धान्याम्ल आदि ।

एषामेवंविधानां चान्येषां चाम्ल-वर्ग-परिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां  
छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चानुशो भेदयित्वा द्रवैः स्थिराण्य-  
वसित्य साध्यित्वोपसंस्कृत्य यथावत्तेल-वसा-मधु-मज्ज-लवण-फाणि-  
तोपहितं सुखोषणं वस्ति वात-विकारिणे विधिङ्गो विधिवद्यादित्य-  
स्लस्कन्धः ॥ १३७ ॥

अम्लस्कन्ध में गिने इन और इन के समान अन्य औषध द्रव्यों के टुकड़े करके, छोटा छोटा चूर्ण बना कर सुरा-सौवीर आदि द्रवों से सिंचन करके डेंग में रख कर पूर्व की भाँति सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध होने पर इसमें तेल, वसा, मज्जा, नमक, राब मिकाकर योड़ी गरम अवस्था में वातरोगी को विषिपूर्वक आस्थापन वस्ति देनी चाहिये । यह अम्लस्कन्ध है ॥ १३७ ॥

सैन्धव-सौवर्च्छल-कालविज्ञ-पाक्यानुप-कूप्य-बालुकैल-भौंठक-सामुद्र-  
रोमकौद्भिद्वैषर-पाटेयक-पशुजानीत्येवंप्रकाराणि चान्यानि लवण-वर्ग-  
परिसंख्यातानि, एतान्यम्लोपहितान्युष्णोदकोपहितानि वा रनेहवन्ति  
सुखोषणं वस्ति वात-विकारिणे विधिङ्गो विधिवद्यादिति लवणस्कन्धः ॥

**लबणस्कन्ध**—सैवव, सौवर्चेड, कालविड, पार्व (पाक द्वारा तैयार किया)  
कूथ्य (कुणी के आकार में बना), बालुकैल (रेत में से बना), मौलक  
(मूलों से बना), सामुद्रिक, रोमक (साम्र प्रदेश में उत्पन्न नमक), औपर  
(ऊपर मूर्म में उत्पन्न), पांशुज (धूली से उत्पन्न) पाटेयक (लबण भेद)  
इस प्रकार के तथा अन्य लबण वर्ग में गिने हुए अम्लवर्ग से मिश्रित अथवा  
गरम पानी से मिश्रित नृत तेल आदि स्नेहों से बनी सुखोष्ण वस्ति को वात-  
रोगी के लिये विधिपूर्वक देना चाहिये । यह लबणस्कन्ध है ॥१३॥

पिष्ठली-पिष्ठलीमूल-हिस्तिपिष्ठली-चन्द्र-चित्रक-शृङ्गवेर-मरिचाज-  
मोदार्दिक-विडङ्ग-कुस्तुम्बुरु-पील-तेजोवस्त्ये आ-कुष-भज्ञानकास्थि-हिंगु-कि  
लिम-मूलक-संषेष-छलुन-करञ्ज-शिघ्रक-खरपुष्य-भूस्तुण-सुमुख-सुरस-कुठे  
रकार्जक-गण्डीर-कालमालक-पर्णास-क्षवक-फणिज्जक-क्षार-मूत्र-पित्ताना-  
मेवंविधानां चान्येषां कटुक-वर्ग-परिसंख्यातानामौषधद्रव्यसां लेद्यानि  
खण्डशश्छेद-यित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा गोमूत्रेण सह साधयि-  
त्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधु-तेल-लबणोपहितं सुखोष्णं चर्हित इलेष्मविका-  
रिणे विधिज्ञो विधिवद्यादिति कटुकस्कन्धः ॥ १३६ ॥

**कटुक स्कन्ध**—पिष्ठली, पिष्ठलीमूल, गजपिष्ठली, चविका, चीता,  
सोंठ, मरिच, अजवायन, आर्द्रक (अदरल), चायविडग, इरा धनिया, पील,  
तेजबडा, इलायची, कूठ, भिलावा, हींग, देवदारु, मूली, सरसो, लहसुन, करंज,  
शोभाजन, मीठा सहजन, खुरासानी, अजवायन, (खरपुष्या, बन तुलसी),  
कचूण, सुमुख, सुरस, अर्जक, गण्डीर, कालमालक, पर्णासि, क्षवक, फणिज्जक,  
(ये सब तुलसी के मेद हैं, ) श्वार, मूत्र और पित्त ।

ये तथा अन्य कटुवर्ग में गिने हुए द्रव्यों को कूट पाए कर गोमूत्र के साथ  
एका कर, मधु, तेल और लबण से मिश्रित करके सुखोष्ण वस्ति को लेघ्य  
रोगी के लिये विधिपूर्वक देना चाहिये । यह कटुकस्कन्ध है ।

चन्दन-नलद-कुतमाल-नक्तमाल-निष्ठ-नुम्बुरुं-कुटज्ज-हिरिद्रा-दारुह-  
रिद्रा-मुस्त-मूर्वाकिरात-तिच्कक-कटुरोहिणी-त्रायमाणा-कारवेज्जिका-करीर-  
करवीर-केबुक-कठिल्लक-घृष-मण्डूकपर्णी-कर्कोटक-ब्रावीकु-कर्कश-काक-  
गाची-काकोदुम्बरिका-सुषव्यतिविष-पटोल-कुलक-पाठा-गुद्धची वेत्राप्र-  
वेतस-विकक्षुत-बकुल-सोमवलक-सप्तपर्ण-सुमनार्कावलगुज-बचा-तगरागु-  
रु-वालकोशीराणामेवंविधानां चान्येषां तिच्कवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्र-  
व्याणां लेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणशो भेदयित्वा प्रक्षालय  
पानीयेनाम्यासिच्य साधयित्वोपसंधनं गथोषः मधुतेललबणोपहिनं

सुखोष्णं वर्तते स्तेष्मविकारिणे विधिवद्यात् । शीतं तु मधुसंपिण्ड्यासुपसं-  
स्कृत्य पित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्यादिति तिक्तस्कन्धः ॥१४०॥

तिक्तस्कन्ध—चन्दन, उशीर, कृतमाल, नाटा करञ्ज, निश्च, तुम्बर, कृडा,  
हल्दी, दाढ़हल्दी, मुस्ता, मूर्वा, चिरायता, कुटकी, त्रायमाणा, करीर, करबीर,  
पत्तूर, कर्कटक ( करेला ), वांसा, मण्डूकपर्णी, कांक्होडा, वैगन, परवल, काङ्क्षे  
दुम्बर, मकोय, करेला, सुषवी ( जंगली करेला ), अतीष, परवल, कुण्ठ ( पर-  
वल का मेद ), पाठा, गिलीय, बैत का अम्बभाग, अम्बवेतस, कुंच, मौलसरी,  
श्वेत खदिर, सप्तपर्ण, चमेली, आक, बाबची, त्रिफला, तगर, अगर, उशीर,  
इन द्रव्यों की वा तिक्त वर्ग में गिने हुए अन्य औषध द्रव्यों को कूट पीस कर  
यानी से घो कर पानी के साथ पूर्ववत् विधि से पाक करना चाहिये । तिद्व होने  
पर इसमें मधु, तेल और नमक मिलाकर हल्के गरमबस्ति को विधिपूर्वक स्तेष्म  
रोगी के लिये देना चाहिये । शीतल होने पर मधु और धी मिला कर पित्त  
रोगी को देनी चाहिये । यह तिक्तस्कन्ध है ॥ १४० ॥

प्रियं ग्वनन्ता प्रासृथ्यम्बष्टकी-कट्वङ्ग-लोध- भोचरस-समङ्गा-धातकी  
पुष्प-पद्म-पद्मकेशर-जम्बुव्रास्त्रवक्सश-बटक-पीतनोदुम्बराङ्गवत्थ-भज्ञात-  
काश्मन्तक-शिरीष-पुष्प-शिंशपा-सौमवल्क-तिन्दुक-पियाल-बद्र-खदिर-  
सप्तपर्ण-इवकर्ण-स्यन्दनार्जुनासनारि मेवैलवालुक-परिपेलव-कदम्ब-श-  
ल्लकी-जिङ्गिनी-काश-करेहक-नाजकरोहक-कट्कल-वंश-पद्मकाशोक-शाल-  
धव-सर्ज-भूर्ज-शण-खरपुष्पा-पुरशमी-माची-कवरक-तुङ्गा-जकरण-इवकर्ण-  
स्फुर्जूक-विभीतक-कुमभी-पुल्क-बीज-विस-सूणाल-ताल-खर्जूर-तरुणामे-  
वंविधाना चान्येषां कषायवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि  
खण्डश्शेष्यित्वा भेद्यानि चाणुशो भेद्यित्वा ग्रस्ताल्य पानीयेन सह  
साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्यमधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति स्तेष्म-  
विकारिणे विधिज्ञो विधिवद्यात् । शीतं तु मधुसंपिण्ड्यासुपसंस्कृत्य वित्त-  
विकारिणे विधिज्ञो विधिवद्यादिति कषायस्कन्धः १४१ ॥

कषाय स्कन्ध—फूल प्रियंगु, अनन्तमूल, आम की गुठली, पाठा, श्येनाक,  
लोध, भोचरस, मंजीठ, धाय के फूल, पद्म, कमल को केशर, जामुन, आम, पिल-  
खन, बड़, कपीतन, गूलर, यीपल, मिलावा, पापाणमेद, सिरस, शीशम, खैर,  
तिन्दुक, पियाल, बेर, खैर ( लाल ), सप्तपर्ण, अद्वकर्ण ( पलाश ), तिनिश,  
अर्जुन, असुन, विट, खदिर, तेजबल, छैवर्चमुस्ता, कदम्ब, शल्लकी, जिगाय,  
कास, कसेह, राजकसेह, कायफल, बांस, पद्माल, अशोक, साल, धव, सर्जवृक्ष,  
मांजवल्कल, वृक्ष, तुलसी, शमी, देवदारु, बोरोक, पुनाग, शाल मेद, बड़ा

शाल, तिनुक, बद्वा, कायफ़, कपल गट्टा, विस, मृगाल, ताढ़, खजूर, घीकार इन या कषाय वर्ग में गिने हुए अन्य द्रव्यों को कूट पीछ कर पानी से छो कर पानी के साथ पूर्ववत् पकाना चाहिये । सिद्ध होने पर मधु-तेल और लवण मिलाकर विषिपूर्वक इलेघा के रोगी को कबोला बस्ति देनी चाहिये । शीतल होने पर भी और शहद मिला कर पिच्चिकार के रोगी को देना चाहिये । यह कषाय श्वन्ध कह दिया ॥१४१॥

**तत्र श्लोकाः—षड्बर्गाः परिसंख्याता य एते रसभेदतः ।**

आस्थापनमभिप्रेत्य तान् विद्यास्तार्वयौगिकान् ॥ १४२ ॥

सर्वशो हि प्रणिहिताः सर्वरोगेतु जानता ।

सर्वान् रोगान्नियन्त्रिति गेष्ठ आस्थापनं हितम् ॥ १४३ ॥

येषां येषां प्रशान्त्यर्थं ये ये ते परिकीर्तिः ।

द्रव्यवर्गां विकाराणां तेषां ते परिकोपनाः ॥ १४४ ॥

इत्येते षड्बास्थापनश्वन्धा रसतोऽनुविभज्य व्याख्याताः ।

आस्थापन बस्ति के अभिप्राय से रसों के भेद से जो ये छः वर्ग कहे हैं, इन उः श्वन्धों को आस्थापन बस्ति से अच्छे होने वाले सब रोगों में लागू होने वाले समझने चाहिये । क्योंकि दोष, दूष, दैश, काल, मात्रा आदि की अपेक्षा करके आ॒षध-उपयोग को जानने वाले वैद्य द्वारा जिन रोगों के लिये आस्थापन विधि हितकारी है, उन रोगों में प्रयुक्त किये हुए यह छः वर्ग सब रोगों का शमन करते हैं । जिन जिन विकारों की शान्ति के लिये जो जो द्रव्यवर्ग नहीं कहे हैं, वे २ उन २ रोगों को कुपित करते हैं, शान्त नहीं करते । इस प्रकार से छः आस्थापन-श्वन्धों को रसों के अनुसार विभाग करके कह दिया ॥१४२-१४४॥

**तेष्यो भिषग्वुद्धिमान् परिसंख्यातमपि यद्यद् द्रव्यमयौगिकं मन्येत तत्तदपकर्पयेत्, यद्यच्चानुकमपि यौगिकं वा। मन्येत तत्तद् विद्ध्यात्। वर्गमपि वर्गेणोपसंसृजेत्कमेकेनानेकेन वा। युक्तिं प्रमाणीकृत्य। प्रच-रणमिव भिषुकस्य बीजमिव कर्षकस्य सूत्रं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पज्ञा-नायतनं भवति। तस्माद् बुद्धिमतामूहापोहविवरकाः। मन्दबुद्देस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः। यथोक्तं हि मार्गमनुगच्छन् भिषक् संसाध-यति वा कार्यमनतिभद्रत्वाद्। निपातवत्यनतिहस्वत्वादुदाहरण-स्येति ॥ १४५ ॥**

बुद्धिमान् वैद्य इन वर्गों में गिने हुए जिस द्रव्य को अ॒यौगिक समझे उसको निकाल देवे और न कहे हुए जिस द्रव्य को यौगिक समझे उसको इनमें मिला लेवे । युक्ति के अनुसार दोष-दूष की विवेचना करके एक वर्ग को एक, अथवा

अनेक वार्ग के साथ मिला कर प्रयोग करे । मिलुह के विचरने के समान और किसान के बीज की तरह यह अल्ल कथन भी बुद्धिमानों के लिये बड़ा ज्ञानप्रद है, क्योंकि बुद्धिमान् व्यक्ति ऊहापोह ( यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार के तर्क ) और वितर्क प्रमाण-युक्ति में कुण्ड छोते हैं । मन्द-बुद्धि वाले व्यक्ति को कथनातुसार ही कार्य करना श्रेयरुक्त है । क्योंकि इस प्रकार का मन्द बुद्धि वाला भिषक्, उपदेश के न बहुत संखित और न बहुत विस्तार होने से, विना ऊहापोह के भी यथोक्त मार्ग का अनुसरण करता हुआ कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है ॥१४५॥

अतः परमनुवासनद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यन्ते—अनुवासनं तु स्नेह एव । स्नेहस्तु द्विविधः—स्थावरो जङ्घमात्मकश्च । तत्र स्थावरात्मकः स्नेहस्तैलमतैलं च । तद् द्रव्यं तैलमेव कृत्वोपदिश्यते, सर्वतस्तैलपा-धान्यात् । जङ्घमात्मकस्तु—वसा, मज्जा, सर्पिंरिति ॥ १४६ ॥

तेषां तु तैल-चसा-मज्ज-सर्पिषां तु यथापूर्वं श्रेष्ठं वात-इलेष्म-विकारे-घनुवासनीयेषु, यथोत्तरं तु पित्तविकारेषु, सर्व एव वा सर्वविकारे-द्वयपि च योगमुपयान्ति संस्कारविशेषादिति ॥ १४७ ॥

इसके आगे अनुवासन द्रव्यों की व्याख्या करेंगे । अनुवासन का अर्थ स्नेह है । स्नेह दो प्रकार का है स्थावर और जंगम । इनमें स्थावर स्नेह दो प्रकार का है । जैसे—तैल ( तिळों से उत्पन्न हुआ ) और अतैल ( तिळों से न उत्पन्न हुआ ), इन दोनों को तैल शब्द से ही कह देते हैं, क्योंकि सब तैलों में तिल के तैल की ही प्रधान है । जंगम स्नेह वसा, मज्जा और सर्पि ( धी ) हैं । तैल, वसा, मज्जा और धी इन में पूर्व की वस्तु उत्तर वस्तु से भेष्ट है अर्थात् धी से मज्जा, मज्जा से वसा और वसा से तैल भेष्ट है । यह नियम वात और कफ के विकारों के लिये है । पित्तजन्य विकारों में उत्तरोत्तर वस्तु ( तैल से वसा; वसा से मज्जा और मज्जा से धी ) श्रेष्ठ है । अथवा सब ही स्नेह एव रोगों में विशेष संस्कार से ( उस उस दोषहर द्रव्य के सहयोग से ) उपयुक्त बन जाते हैं ॥ १४६-१४७ ॥

शिरोविरेचनद्रव्याणि पुनरपामार्ग-पिप्पली-मरिच-विडङ्ग-शिमुशि-रीष-कुस्तुभुरु-पिल्वजाज्यजप्रोद-वार्तीकी-पूर्ढीकैडा-हरेणुका-फलानि च । सुमुख-सुरस-कुठेरक-गण्डीरक-कालमालक-रण्णस-क्षवक-फणि-जक-हरिद्रा-शृङ्गवेर-मूलक-लशुन-तर्कारी-सर्वप-यत्राणि च, अक्कालकं-कुष्ठ-नागदन्ती-बचा-मार्गी-इचेता-ज्योतिष्मती-गवाक्षी-गण्डीर-पुष्टी-शृश्चिकाली-बयस्थातिविषा-मूलानि च, हरिद्रा-शृङ्गवेर-मूलक-लशुन-

कन्दाश्च, लोध्र-मदन-समर्पण-निर्मार्क-पुष्टराणि च, देवदार्वगुह-सरल-  
शङ्खकी जिह्निन्यसन-हिंगु-निर्यासाश्च, तेजोवती-बराह्मकुदी-शोभाज्ञन-  
बृहती कण्टकारिका-त्वचः ।

शिरोविरेचन द्रव्य—अपामार्ग, पिपली मरिच, वायविडंग, शोभाज्ञन, सिरस,  
दरा खनिया, वेलगिरी, अजबायन, काळा जीरा, वार्ताकी, बड़ी इलायची, छोटी  
इलायची, रेणुका इनके फल, सुमुख, सुरस, कुठेरक, गण्डीर, कालमालक,  
पर्णाई, क्षवक, फणिजक ( तुलसी के मेद ), हल्दी, सौंठ, मूली, लहसुन, जय-  
न्ती और सरसों इनके परे । आक, लाल फूल का आक, कूठ, नागबला, बच,  
अपामार्ग, मालकर्गनी, इन्द्रायण, रामठ, मधुमिका ( साँफ ), वृश्चाली, ब्राह्मी,  
और अतीस इनके मूल । हल्दी, आर्द्ध, मूली और लहसुन इनके कन्द । लोध,  
मैनफल, ससर्पण नीम और आक इनके फूल । देवदाढ़, अगर, शङ्खकी, सरल-  
बृश, जिगण, असन और हींग इनका गोद, तेजवल, दालचीनी, इंगुदी, शोभां-  
जन, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी इनकी छाल ।

इति शिरोविरेचनं सम्बिधं फल-पत्र-मूल-कन्द-पुष्ट-निर्यास-त्वगा-  
श्रयभेदात् । लवण-कटु-तिक्त-कषायाणि चेन्द्रियोपशयानि तथाऽपरा-  
प्यनुक्तान्यपि द्रव्याणि यथायोगविहिनानि शिरोविरेचनार्थं मुपदिश्य-  
न्त इति ॥ १४= ॥

शिरोविरेचन के सात प्रकार का है—फल, पत्र, मूल, कन्द, पुष्ट, निर्यास  
( गोद ) और त्वचा भेद से । लवण, कटु और तिक्त एवं, कपाय ये रस  
इन्द्रिय चक्षु आदि को शान्त करने वाले हैं; उपश्यातक नहीं है । इस प्रकार के  
अन्य यहां पर न गिने हुए, द्रव्यों का दोष-दूष की अपेक्षा से योग के लिये  
अनुकूल जानकर शिरोविरेचन कार्य में उपयोग कर लेना चाहिये ॥ १४॥

तत्र श्लोकः—लक्षणाचार्यशिष्याणां परीक्षाकारणं च यत् ।

अस्येयाभ्यापनविधिः संभाषाविधिरेत्र च ॥ १४६ ॥

षड्भिरूनानि पञ्चाश्नादमार्गपदानि च ।

पदानि दश चान्यानि कारणादीनि तस्त्रवतः ॥ १५० ॥

संप्रश्ननश्च परीक्षादेनेवको चमत्तादिषु !

भिषणितीये रोगाणां विमाने संप्रदर्शितः ॥ १५१ ॥

बहुविधमिदमुक्तमर्थजातं बहुविधवाक्यविचित्रमर्थकान्तम् ।

के सुश्रुत में आठ प्रकार के शिरोविरेचन द्रव्य माने हैं । इनमें आठवां  
'सार' गिना है ।

बहुविधशुभशब्दसंधियुक्तं बहुविधवादनिपूदनं परेषाम् ॥१५२॥  
 इमां मतिं बहुविधहेतुसंश्रया विज्ञिवान्परमतवादसूदनीम् ।  
 न सज्जते परवचनावमर्दनैश्च शक्यते परवचनैश्च मर्दितुम् ॥१५३॥  
 दोषादीनां तु भावानां सर्वेषामेव हेतुमत् ।  
 मानात्सम्यग्विमानानि निरुक्तानि विभागशः ॥ १५४ ॥

शास्त्र, आचार्य और शिष्य की परीक्षा, परीक्षा का कारण, अध्ययन और अध्यापन विधि, ( शिष्य-आचार्य विधि ), तदविद्य संभाषाविधि, चवालीम वाद मार्ग, कारण, करण आदि दस पद, बमन आदि परीक्षायें, परीक्षा के प्रकार, तथा नीं प्रश्न इस रोग-भिषण-जितीय अध्याय में भगवान् आश्रेय ने पूर्णरूप से कह दिये हैं ।

बहुत प्रकार के वाक्यों से विचित्र, अर्थ में सुन्दर, बहुत प्रकार के शुभ शब्दों की संधि योजना से बनाये, दूसरों के बहुत प्रकार के वाद को इटाने वाले नाना तत्त्व यहां पर भगवान् आश्रेय ने कहे हैं ।

नाना प्रकार की युक्ति से युक्त, दूसरों के मत को निराकरण करने वाली, यहां पर कही इस त्रुटि को जान कर देय, दूसरों के वचनों का विमर्दन करने में समर्थ होता है । दूसरों के वचनों से पराजित नहीं हो सकता है । इनके ज्ञान से वैद्य सभा में वाक्चातुर्य से दूसरों को परास्त करता है, उनसे पराजित नहीं होता ।

विमान स्थान की निरुक्ति—

दोष आदि सब भावों के युक्तिपूर्वक समस्त मान, एक एक करके कह दिये हैं । दोष आदि का विशेष रूप से मान अर्थात् शान 'विमान' है । इस विमान का यहां पर उपदेश किया है, इसलिये इसको विमान-स्थान कहते हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषणजितीय-  
 विमानं नामाष्टमोडध्यायः ॥ ८ ॥

इति विमानस्थानं समाप्तम् ।





लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय  
*Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library*

मसूरी  
 MUSSOORIE

अकाउंट नं.  
 Acc. No... ....

कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनांक या उससे पहले वापस  
 कर दे।

Please return this book on or before the date last stamped  
 below.

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—



125794  
 LBSNAA

H

615.536

धरक  
खण्ड संक

- 1 T - 14071

गोन

CIES

त्रिव  
अग्निवेश  
Aut.

TDF  
Title धरक संदिता ।

14071

H

615.536

LIBRARY

धरक LAL BAHADUR SHASTRI

भाषा-1 National Academy of Administration

MUSSOORIE

Accession No 125794

- 1 Books are issued for 15 days only but may have to be received earlier if urgently required
- 2 An over due charge of 25 Paise per day per volume will be charged
- 3 Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian
- 4 Periodicals Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library
- 5 Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower

Help to keep this book fresh, clean & moving